

रंगनाथ रामायण

[राजा गोतबुद्ध-रचित मूल तेल्लुगु से अनूदित]

अनुवादक

श्री ए० सी० कामाक्षि राव

सम्पादक

श्रीअवधनन्दन

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

पटना

प्रकाशक
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद
पटना



सर्वस्वत्वाधिकार प्रकाशकाधीन
१८८२ शकाब्द ; २०१७ विक्रमाब्द ; १९६१ ख्रिष्टाब्द
सजिल्द मूल्य ६. ५०

मुद्रक
बेनी साधव प्रेस
राँची

वक्तव्य

प्रस्तुत ग्रंथ 'रंगनाथ रामायण' को पाठकों के सम्मुख उपस्थित करत हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। परिषद् का मूल उद्देश्य जहाँ अधिकारी विद्वानों द्वारा मौलिक ग्रंथों का प्रणयन कराकर प्रकाशित करना रहा है, वहाँ देश और विदेश की समृद्ध भाषाओं के उत्कृष्ट ग्रंथों का हिन्दी-अनुवाद कराकर उनके प्रकाशनो से हिन्दी-साहित्य की समृद्धि में योगदान भी रहा है। इस प्रकार, परिषद् से अबतक जर्मन भाषा से रिचर्ड पिशल-लिखित 'प्राकृत भाषाओं का व्याकरण' तथा फ्रच भाषा से मारिस मेटर-लिक-रचित नाटक 'नीलपछी' के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इन दोनों के अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य से 'काव्यमीमांसा' तथा 'कथासरित्सागर' (प्रथम खंड) के अनुवाद मूल संस्कृत के साथ भी परिषद्-द्वारा प्रकाशित हुए हैं। 'कथासरित्सागर' का दूसरा खण्ड इसी साल प्रकाशित होनेवाला है और उसके अन्तिम खण्ड का अनुवाद-कार्य सम्पन्न हो रहा है। पाश्चात्य भाषाओं के साहित्य के अलावा परिषद् ने संविधान द्वारा स्वीकृत चौदह भाषाओं और उनके साहित्य पर परिचयात्मक निबन्ध उन-उन भाषाओं के अधिकारी विद्वानों से लिखवाकर, उनके संग्रह के रूप में 'चतुर्दश भाषा-निबन्धावली' प्रकाशित की है। तदुपरान्त भारत की प्रमुख लोकभाषाओं में से पन्द्रह लोकभाषाओं और उनके साहित्य पर निबन्ध लिखवाकर 'पंचदश लोकभाषा-निबन्धावली' नाम का संग्रह प्रकाशित किया है। उपर्युक्त पुस्तकों का हिन्दी-संसार में अच्छा स्वागत हुआ—यह हमारे लिए श्रसन्नता की बात है।

किन्तु, भारतीय भाषाओं के साहित्य से अनुवाद द्वारा हिन्दी-भाण्डार को भरने की दिशा में परिषद् ने संकल्प किया था कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत की चार—तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम—भाषाओं के साहित्य से एक-एक ग्रंथ चुनकर अनुदित कराया जाय। तदनुसार ही तमिल और तेलुगु के एक-एक ग्रंथ और उसके अनुवादक का चुनाव किया गया और अनुवाद के काम सौंपे गये। इस योजना में हमें तेलुगु की 'रंगनाथ रामायण' के अनुवाद की पाण्डुलिपि सबसे पहले प्राप्त हुई और आज हम उसी रामायण को आपके सामने उपस्थित करने में समर्थ हो सके हैं। हमें श्रसन्नता है कि इसके बाद ही हम तमिल का 'कंब रामायण' का हिन्दी-अनुवाद भी यथार्थ, प्रकाशित कर हिन्दी-संसार के सामने रख सकेंगे।

मूल 'रंगनाथ रामायण' के सौष्ठव के सम्बन्ध में मास-विश्वविद्यालय के विद्वान् डीडर तथा तेलुगु-विभाग के अध्यक्ष श्रीनिडदवोलु वेंकट राव ने अपने परिचय में जो उद्गार प्रकट किये हैं, वे इसी ग्रंथ में अन्यत्र देखने को मिलेंगे। फिर, इस ग्रंथ के अनुवादक श्री ए० सी० कामाक्षि राव ने भी, अपनी भूमिका में, तेलुगु-साहित्य का विवेचन करते हुए इस ग्रंथ की महत्ता पर जो कुछ प्रकाश डाला है, वह अलम् है। उसके बाद इस

सम्बन्ध में और कुछ लिखना पिष्टपेषण ही होगा। हम तो कवल इतना ही कह्य कि दक्षिण भारत के प्राचीन एवं मूर्धन्य साहित्य की गरिमा एवं आभा से हिन्दी-साहित्य के भाण्डार के भरने की दिशा में हमारा यह विनम्र अनुष्ठान नगण्य न समझा जायगा।

इस अवसर पर हम सबसे पहले श्री म० सत्यनारायण को साधुवाद दिये बिना नहीं रह सकते कि उन्होंने परिषद् को इस दिशा में अपने विचार और सुझाव दकर अत्यधिक उत्साहित किया है। प्रारंभ में हमें उनका सहयोग न प्राप्त होता, तो शायद हम इस ग्रंथ को तना शीघ्र प्रकाश में न ला सकते। साथ ही हम दक्षिण भारत के गाँव-गाँव में हिन्दी की धूनी रमानेवाले श्रीअवधनन्दनजी के कृपापूर्ण सहयोग और साहाय्य को शब्दों में बाँधना नहीं चाहते। इसम रंचमात्र भी अत्युक्ति नहीं कि उनके प्रयत्न का ही यह परिणाम है कि हम इस अनुवाद को हिन्दी-जगत् के सामने ला सके हैं। उन्होंने अनुवादक से सारी पाण्डुलिपि प्राप्त कर पढ़ जाने की कृपा की, साथ ही सम्पादन भी यथासाध्य किया। निःसंकोच रूप से हम यह कह सकते हैं कि इस कार्य में साहित्य के प्रति उनका अदम्य उत्साह और परम पवित्र निष्ठा गौरव एवं ईर्ष्या की वस्तु है। हम श्रीनिडदवोलु वेंकट राव के प्रति अतिशय कृतज्ञ हैं कि उनका 'परिचय' हमें इस ग्रंथ के लिए उपलब्ध हो सका। अनुवादक और सम्पादक के साथ-साथ हम उनका भी आभार स्वीकार करते हैं, जिनका साहाय्य हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त हो सका है।

आशा है, सुधी पाठकों को रंगनाथ रामायण के अनुशीलन से प्रसन्नता होगी और वे देख सकेंगे कि वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास के रामचरितमानस से यह किन-किन बातों में एक और किन-किन बातों में भिन्न है, और यह अनुभव करेंगे कि भाषा और वेश-भूषा की भिन्नता होते हुए भी हमारे सम्पूर्ण देश की मूल संस्कृति किस प्रकार सर्वथा एक, अभिन्न ए अखण्ड है।

परिचय

तेलुगु-साहित्य में राम-कथा को अप्रस्थान प्राप्त हुआ है और आज तेलुगु में रामकथा से संबंधित रचनाओं की संख्या लगभग तीन-चार सौ तक है। पुराण, प्रबंध, द्विपद, शतक, वचन, यक्षगान, वंडक, पद, गीत एवं संकीर्तन—मत्तलब यह कि आज तेलुगु में महाकाव्य जैसे शास्त्रीय रूप से अपढ़ ग्रामीण जनता के द्वारा गाये जानेवाले लोकगीतों तक में रामकथा उपलब्ध है। साहित्य-रचना के रूप में रामकथा-साहित्य का प्रारंभ तेरहवीं सदी में हुआ और उस समय से उस साहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। इस साहित्य को प्रेरणा देनेवालों में भद्राचलम् में विराजमान श्रीरामचन्द्र के अनन्यभक्त रामदास तथा अमरगायक भक्त त्यागथ्या सर्वश्रेष्ठ हैं।

तेलुगु-साहित्य के सभी युगों में रामकथा विशेष आकर्षण की वस्तु रही है। आज भी जब तेलुगु-साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ जन्म ले चुकी हैं और जन्म ले रही हैं, तेलुगु-भाषा के कई प्रसिद्ध आधुनिक कवियों ने रामकथा को शास्त्रीय पद्धति पर लिखा है और आज भी कुछ कवि इस कथा को लिखने में लगे हैं। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि राम-भक्ति तेलुगु-जनता के हृदय को ही नहीं, बरिक्त उनकी प्रीतिभा पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। प्राच्य तथा प्रतीच्य विद्वान् रामरुण का अध्ययन आधुनिक ढंग से करने लगे हैं। अतएव आधुनिक विचार एवं सांस्कृतिक परिपाश्वर की दृष्टि से इस महाकाव्य की व्याख्या करना आवश्यक है। चूँकि दक्षिण की भाषाओं में भी संस्कृत-रामायण की कथा अनुवादों के रूप में अथवा मौलिक रचना के रूप में आ गई है, हमें विचार करना होगा कि आर्य एवं आर्येतर संस्कृतियों का समन्वय करने में रामायण का क्या स्थान है और रामायण भारत की सामासिक संस्कृति का प्रतीक कैसे बनी हुई है आदि।

‘रंगनाथ रामायण’ एक द्विपद-काव्य है, जो तेलुगु की रामकथा-संबंधी कृतियों में अत्यंत लोकप्रिय है। उसकी सरल, शुद्ध तथा प्रवाहमयी देशी शैली ने पंडित एवं पामर दोनों को समान रूप से आकृष्ट किया है। इस कथा के कुछ भाग ‘तोलुबोम्म लाटा’ (एक विशेष प्रकार की पुतलियों का नृत्य) जैसी लोक-कला के कार्य-क्रमों में भी गाये जाते हैं और यह इस बात को स्पष्ट करता है कि कवि राम की अमर-कथा को तेलुगु-हृदय तक पहुँचाने में किस प्रकार सफल हुए हैं।

चूँकि इस कृति का नाम ‘रंगनाथ रामायण’ है, सहज ही यह भ्रम हो जाता है कि इसका कवि ‘रंगनाथ’ नामक कोई व्यक्ति रहा होगा। किन्तु, इस विषय पर

जो शोध-कार्य हुआ है, उससे यह प्रमाणित हो गया है कि तेरहवीं सदी में बृहदुर (ऐतिहासिक बोथान नगर) के आसपास राज करनेवाले सूर्यवंशी राजा विट्ठलराजु के भावेशानुसार उनके पुत्र गोनबुद्ध राजा ने इसकी रचना की है। इसका उल्लेख कवि स्वयं काव्य के प्रारंभ में कर चुके हैं। प्रकाशित एवं अप्रकाशित शिलालेखों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि इस काव्य की रचना लगभग १३८० ई० में हुई थी।

‘रंगनाथ रामायण’ की विशेषता यह है कि उसकी रचना उस समय तक जनता में प्रचलित राम-कथा के आधार पर हुई है, जो संस्कृत-रामायण से कई स्थानों में भिन्न है। यद्यपि, रामायण आर्यावर्त्त या उत्तरापथ के राजा राम की कथा है, तथापि वह परंपरागत लोक-कथाओं के रूप में सारे दक्षिण में अति प्राचीन काल से व्याप्त थी।

अब यह निर्बिवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि दक्षिण की भाषाएँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम—जो संस्कृत भाषा-परिवार से सर्वथा भिन्न परिवार की हैं—अपनी प्रारंभिक अवस्था में संस्कृत से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती थीं। ऐसी दशा में यह आशा नहीं की जा सकती कि इन भाषाओं के बोलनेवाले वात्मीकि रामायण की मूलकथा का ज्ञान प्राप्त करे। उन्होंने स्थूल रूप में कथा को ग्रहण किया होगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न युगों में उस कथा का अपने ढंग से मोड़-तोड़कर प्रचार किया होगा। यह कोई आश्चर्य नहीं, यदि घर-घर में इस कथा का प्रचार हो गया हो और उत्पन्न बालक-बालिकाओं के मनोरंजन के लिए तथा उनमें राम तथा उनकी पत्नी सीता के आदर्श जीवन में प्रतिबिम्बित आर्य-धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से घर के बड़े-बूढ़े, रामायण के इतिवृत्त का छोटी-छोटी कहानियों के रूप में प्रसार किया हो। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा रही भी है। महाकवि कालिदास अपने मेघदूत में कहते हैं कि कौशांबी नगर में ग्रामबृद्ध अपने पोते-पोतियों को उदयन की कथाँ सनाते थे। स्वयं कालिदास-कृत रघुवंश में वर्णित राम-कथा कुछ स्थानों में मूलकथा से भिन्नता रखती है।

राम की कथा त्रेतायुग की होने के कारण उदयन की कथा से भी अधिक प्राचीन है और कदाचित् उसने द्राविड़ों के हृदय एवं प्रतिभा पर अमिट प्रभाव डाला होगा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि रामायण के दो प्रधान पात्रों में रावण दक्षिण का था। लंका का राज्य, राम के विजय प्राप्त करने के पश्चात् भी बना रहा और विभीषण उसका पालन करता रहा। आधुनिक युग की भाँति यदि राम भी लंका को जीतने के पश्चात् अपने किसी भाई को अपनी तरफ से लंका का राज्य चलाने के लिए नियुक्त करते, तो कदाचित् दक्षिणापथ का इतिहास कुछ बातों में भिन्न होता।

तेलुगु-भाषा तमिल के मुकाबले में प्राचीन न होने पर भी कुछ हद तक प्राचीन ही कही जा सकती है; उस भाषा के बोलनेवालों में बहुत समय तक वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा लोक-कथाओं के द्वारा प्रचलित राम-कथा का ही आदर होता रहा। क्रमशः तेलुगु-भाषाभाषी संस्कृत के प्रति आकृष्ट हुए और उस भाषा के प्रकांड पंडित बन गये। ‘रंगनाथ रामायण’ और ‘भास्कर रामायण’ के कवि संस्कृत के महान् पंडित थे और

उन्होंने अपनी कृतियों में स्पष्ट कहा भी है कि उनकी कृतियाँ वाल्मीकि रामायण की आधार मानकर चलती हैं। फिर भी, वे जनता के बीच प्रचलित रामकथा की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सके।

कहा जाता है कि सन् १३१० ई० में 'कवित्रय'^१ के प्रसिद्ध कवि एरंना ने मूल संस्कृत-रामायण का सही अनुवाद तेलुगु-पद्य में लिखा था। खेद है कि वह रचना आज हमें अप्राप्त है—केवल उसके कुछ एक पद्य तेलुगु के एक लक्षण-ग्रन्थ में हमें मिलते हैं। एरंना के पश्चात् सन् १८६० ई० तक किसी और कवि ने वाल्मीकि रामायण का सही-सही अनुवाद तेलुगु में प्रस्तुत नहीं किया। सन् १८६० ई० में गोपीनाथ वेंकट कवि ने संस्कृत-रामायण का सही अनुवाद तेलुगु-पद्य में प्रस्तुत किया। उसके पश्चात् कितने ही कवियों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार संस्कृत-रामायण का अनुवाद किया। कहने का तात्पर्य यह है कि १८६० ई० तक राम की कथा पर जो काव्य लिखे गये, उनपर लोक-कथाओं का ही अत्यधिक प्रभाव रहा।

आज के श्रुभ समय में, जबकि भारत की विभिन्न संस्कृतियों में आदान-प्रदान का कार्य प्रारंभ हो गया है, यह अत्यंत हर्ष की बात है कि दक्षिण के एक सुयोग्य तथा हिन्दी-तेलुगु-भाषाओं के निपुण विद्वान् श्री ए० सी० कामाक्षि राव ने, तेलुगु की अत्यंत लोकप्रिय द्विपद रामायण का अनुवाद राष्ट्रभाषा हिन्दी के गद्य में किया है, जिससे वह भारत के सभी साहित्यों तक पहुँच सके।

तेलुगु की 'रंगनाथ रामायण' अपने इतिवृत्त, भाव, कला एवं शैली के कारण तीन करोड़ तेलुगु-भाषाभाषियों के हृदय में राम-भक्ति को जागरित करने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। यदि उसका हिन्दी-अनुवाद आसेतुहिमाचल व्याप्त चालीस करोड़ भारतवासियों के हृदयों में राम-भक्ति जागरित करनेवाली प्रबल शक्ति का स्रोत बन सके, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जयहिन्द।^२

ता० ८, शाके १८८२
चैत्र, सोमवार
२८-३-६० ई०

विद्यारत्न निडदवोलु वेंकट राव, एम्० ए०
रीडर तथा तेलुगु-विभाग के अध्यक्ष
मद्रास-विश्वविद्यालय

१. 'आन्ध्र महाभारत' क तीन प्रसिद्ध कवि नन्नया, तिविकना और एरंना 'कवित्रय' के नाम से विख्यात हैं।

२. प्रस्तुत परिचय मूल अगरेजी लेख से अनूदित।

प्रस्तावना

[१]

तेलुगु-२७४७-विदेशीपंडितों के द्वारा 'इटालियन ऑफ दि ईस्ट' (Italian of the East) कही जानवाली तेलुगु-भाषा, द्राविड़-भाषा-परिवार की समृद्ध एवं साहित्य-संपन्न भाषा है। वैसे तो इसके तीन नाम हैं—तेलुगु, तेनुगु, आंध्रमु; किन्तु 'तेलुगु' शब्द का ही अधिकाधिक प्रयोग होता है। 'आंध्र' शब्द पहले जाति-परक था, किन्तु बाद को वह देश-परक हुआ और निदान आंध्र देश की भाषा 'आंध्रमु' कहलाई। तेलुगु अजंत भाषा है—प्रायः इसके सभी शब्द स्वरांत और विशेष रूप से उकारांत होते हैं। (उदा०-संतोषमु, साहसमु, नीनु, नेनु आदि)। अतः, यह भाषा अधिक संगीतमय होने की क्षमता रखती है। कदाचित् इसी कारण से विदेशी विद्वानों ने इसे 'पूर्व की इटालियन भाषा' कहा होगा।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी समय आंध्र-साम्राज्य उत्तर में पाटलिपुत्र से कावेरी नदी के दक्षिण तक फैला हुआ था। किन्तु, समय-समय पर इस साम्राज्य पर बहुत-से आक्रमण हुए और इसका बहुत-सा भाग दूसरों के अधीन हो गया। विजयनगर के प्रसिद्ध सम्राट् कृष्णदेवराय के समय में तेलुगु-प्रदेश उत्तर में कटक से प्रारंभ कर दक्षिण में मदुरै तक फैला हुआ था। आज भाषावार प्रान्तों के विभाजन के बाद तेलुगु-प्रदेश की सीमाएँ बहुत हद तक निश्चित-सी हो गई हैं। आज इसकी उत्तरी सीमा उत्तर-पूर्व में बरहमपुर से प्रारंभ कर उत्तर में गोदावरी नदी के किनारे होते हुए नंजामा-बाद के कुछ उत्तर तक चली गई है। इसकी दक्षिणी सीमा मद्रास के उत्तर में लगभग तीस मील से प्रारंभ कर कोलार तक है और पूर्व में समुद्र-तट तक यह प्रदेश फैला हुआ है। इन सीमाओं के भीतर-स्थित विशाल भू-भाग में तथा भारत के अन्यान्य प्रान्तों में बसे हुए तेलुगु-भाषाभाषियों की संख्या १६५१ ई० की जन-गणना के अनुसार तीन करोड़ तीस लाख है। भारत में हिन्दी-भाषाभाषियों के बाद तेलुगु-भाषाभाषियों की संख्या ही अधिक है।

तेलुगु-भाषा के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं—साहित्यिक भाषा का रूप और बोलचाल की भाषा का रूप। साहित्यिक भाषा का रूप प्रदेश-भर में एक ही है, किन्तु बोलचाल की भाषा के रूप में कहीं-कहीं थोड़ा-सा अन्तर दिखाई देता है। सन् १८७५ तक साहित्य-रचना के लिए केवल साहित्यिक भाषा का ही प्रयोग होता रहा, किन्तु उसके बाद बोलचाल की भाषा को भी साहित्य में स्थान देने के लिए आंदोलन

शुरू हुआ । यह आंदोलन आज तक चल रहा है । आज स्थिति ऐसी है कि तेलुगु के पचहत्तर फी सदी लेखक अपनी साहित्य-साधना बोलचाल की भाषा के माध्यम से करते हैं । साहित्यिक भाषा (प्राथमिक भाषा) और बोलचाल की भाषा (व्यावहारिक भाषा) में जो अन्तर है, वह विशेषतया क्रियाओं तथा कुछ शब्दों के रूपों तथा संधि के नियम-पालन के ऊपर निर्भर करता है । एक उदाहरण से यह अन्तर स्पष्ट करेगे ।

साहित्यिक-२७७१--श्री राम चरित्रमु परम पावन नैनदि । अंदुवलनने तेलुगुलो ननेकुलु रामायण-मुनिदिवरलो रचियिचिरि । इप्पटिकिनि रचिचुचु तम जन्ममुनु चरितार्थमु गाविंचु कोनु चुन्नाह ।

व्यावहारिक भाषा—

श्रीराम चरित्र परम पावन नैदि । अंदुवलनने तेलुगुलो अनेकुलु रामायणासि यिदि बरलो त्रासाह । इप्पटिकी त्रास्तू तम जन्मासि चरितार्थमु च्सेसुकुंदुन्नाह ।

(श्रीराम की कहानी परम पावन है । इसलिए, कई लोगों ने अबतक रामायण की रचना की । आज भी कुछ लोग इसकी रचना करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं ।)

जैसा हम पहले निवेदन कर चुके हैं, तेलुगु द्राविड़-भाषा-परिवार की एक मुख्य भाषा है । किसी समय तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम मूल द्राविड़-भाषा की बोलियाँ मात्र थीं । किन्तु, बाद को भिन्न-भिन्न वातावरण में पनपने के कारण आज ये एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हैं । तेलुगु-प्रदेश पर कई राजवंशों ने राज्य किया । सातवीं शताब्दी तक सातवाहन, इक्ष्वाकु, बृहत्फलायन, शालंकादन, परलव, विष्णुकुंडिन तथा पूर्व चालुक्य राजाओं ने तेलुगु-प्रदेश पर राज्य किया था । इन राजाओं की राज-भाषा या तो संस्कृत थी या प्राकृत । जो शिलालेख अबतक उपलब्ध हैं, उनमें बहुतों की भाषा प्राकृत है । इन राजाओं में कुछ तो वैदिक धर्मावलंबी थे और कुछ बौद्ध के अनुयायी थे । इस तरह तेलुगु-प्रदेश में राजभाषा तथा धर्म की भाषा की हैसियत से संस्कृत तथा प्राकृत का अत्यधिक प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में देशभाषा पर पड़ता रहा । परिणाम यह हुआ कि आज तेलुगु में पचहत्तर फी सदी शब्द संस्कृत या प्राकृत भाषाओं के तत्सम या तद्भव रूप हैं । तेलुगु-प्रदेश के पंडितों का संस्कृत के प्रति इतना अधिक आग्रह रहा कि तेलुगु का सब से प्रथम व्याकरण संस्कृत-भाषा में लिखा गया ।

तेलुगु की साहित्यिक भाषा के भी दो रूप मिलते हैं । एक रूप वह है, जो संस्कृत शब्दों तथा समस्त पदों से भरा हुआ होता है और दूसरा वह, जिसमें ठेठ तेलुगु शब्दों का ही बाहुल्य है । ठेठ तेलुगु को 'जानु तेनुगु' कहते हैं । इन दोनों रूपों में संस्कृत-बहुल भाषा का ही अधिक आदर होता रहा और धीरे-धीरे ठेठ तेलुगु के प्राचीन काव्यों के बहुत-से शब्दों का प्रचलन कम होता गया । इसलिए, ठेठ तेलुगु के प्राचीन काव्यों को समझना बहुत-से तेलुगु-भाषाभाषियों के लिए भी आज कठिन-सा हो गया है । ठेठ तेलुगु तथा संस्कृतबहुल तेलुगु के उदाहरणों को देखने से इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जायगा—

ठेठ तेलुगु—

चेपु लोनिरायि चेल्लोनि जोरीग,

कंटिलोनि नलुसु, कालिमुल्ल,

इंटिलोनि पोह इतित कादया ॥

(जूतों में पड़ा हुआ कंकड़, कान में पहुँचा हुआ कीड़ा, आँख की किरकिरी, पैरों में काँटा और घर में भगड़ा—इनकी पीड़ा असहनीय होती है।)

संस्कृतबहुल तेलुगु—

अधरमु गदली गदलक

मधुरमु ल्गु भाष लुडिगि

मौन व्रतुडी अधिकार रोग पूरित

बधिरांधक श्वमु जूड पापमु सुमती ॥

[अधरों को बिना हिलाने, मधुर भाषा से रहित हो, मौन व्रत धारण करनेवाला अधिकार-रोग से भरा व्यक्ति बहरे तथा अंधे श्व के बराबर है। उसे देखना भी पाप है। (रेखांकित शब्द संस्कृत के हैं।)]

इन दोनों शैलियों का सामंजस्य भाषा के जिस रूप में पाया जाय, जिसमें तेलुगु का मुहावरा भी और संस्कृत का मधुर एवं गंभीर शब्द-समूह भी हो, वही तेलुगु अधिक लोकप्रिय है और वही सुंदर समझी जाती है। रंगनाथ रामायण की भाषा में ऐसी ही सुंदरता पाई जाती है। इसकी चर्चा यथास्थान आगे की जायगी।

तेलुगु-साहित्य—महाकवि नग्नया का आंध्र-महाभारत तेलुगु-साहित्य के उपलब्ध काव्य-ग्रन्थों में सबसे प्राचीन है। इसकी रचना ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। इस काव्य की प्रौढ़ भाषा एवं उत्कृष्ट कला-कौशल को देखकर विद्वान् यह अनुमान करते हैं कि यही महाभारत तेलुगु-साहित्य का आदिकाव्य नहीं हो सकता। उनका विचार है कि किसी भी भाषा के प्रथम साहित्य का रूप इतना विकसित एवं प्रौढ़ नहीं हो सकता; शताब्दियों की साहित्य-साधना के परिणाम-स्वरूप ही ऐसी प्रौढ़ रचना का प्रगयन संभव है। यह विचार कल्पना-मात्र कहा नहीं जा सकता। सातवीं तथा आठवीं शताब्दी के जो शिलालेख एवं ताँबे के दानपत्र अबतक उपलब्ध हुए, उनमें उत्कृष्ट काव्य-स्वरूप के नमूने मिलते हैं। अतः, यह कहना सत्य से दूर नहीं होगा कि तेलुगु में साहित्य-रचना का प्रारंभ ईसा की सातवीं शताब्दी में ही हुआ होगा, किन्तु सातवीं से दसवीं शताब्दी तक का साहित्य हमें आज उपलब्ध नहीं हो सका।

सन् १०५० ई० से आजतक के तेलुगु-साहित्य के इतिहास को पाँच युगों में विभाजित किया जा सकता है—

१. पुराण-युग (१०५०—१३५० ई०)

२. श्रीनाथ-युग (१३५०—१५०० ई०)

३. प्रबंध-युग (१५००—१६०० ई०)

४. दक्षिणांध्र-युग (१६००—१८७५ ई०)

५. आधुनिक-युग (१८७५ ई० से)

प्रत्येक युग का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

पुराण-युग—वैदिक धर्म तथा उसके समर्थक पुराणों के प्रचारार्थ इस युग में साहित्य-साधना का प्रारंभ हुआ। महाकवि नन्नया ने 'महाभारत' की रचना प्रारंभ की और अरण्य-पर्व का अर्द्ध भाग लिख भी न पाये कि उनका स्वर्गवास हो गया। उसके दो सौ वर्ष के पश्चात् तिक्कना सोमयाजी ने विराट् पर्व से प्रारंभ कर शेष पंद्रह पर्वों की रचना की। उसके पश्चात् एरना प्रगडाने अरण्य-पर्व का अधूरा अंश पूरा किया। इस तरह महाभारत की रचना तीन कवियों के द्वारा लगभग तीन सौ वर्षों में पूरी हुई। इन तीन महाकवियों को 'कवित्रय' कहते हैं। आंध्र-महाभारत तेलुगु-भाषाभाषियों के लिए एक साथ, धर्मशास्त्र, नीति-ग्रन्थ, पुराण तथा महाकाव्य है। उसका प्रभाव तेलुगु-जन-जीवन पर अक्षुण्ण है।

इसी युग में रामायण की रचना भी हुई। गोनबुद्धराजु ने देशज छन्द 'द्विपदा' में रामायण की रचना की, जो साधारण जनता के बीच अत्यंत प्रिय हुई, जिसका हिन्दी-अनुवाद उपस्थित है। 'भास्कर रामायण' की रचना भी इसी युग में हुई, किन्तु वह केवल पंडितों के बीच समादृत हुई। महाभारत तथा रामायण के अलावा इस युग में शैव काव्यों की रचना अत्यधिक मात्रा में हुई। नन्नेचोड़ कवि कृत 'कुमारसम्भव', पालकुरिकि सोमनाथ-कृत 'बसवपुराणम्' तथा 'पंडिताराध्यचरित्र' इस युग की श्रेष्ठतम शैवभक्तिपरक रचनाएँ हैं, जो तेलुगु-साहित्य के उज्ज्वल आभूषणों की भाँति शोभायमान हैं। इस युग के एक और प्रतिष्ठित कवि नाचन सोम है, जिनका 'उत्तर-हरिवंश' एक बड़ी ही सुंदर कृति है।

श्रीनारायण-युग—इस युग के प्रसिद्ध कवियों में श्रीनाथ तथा पोतना अग्रगण्य हैं। श्रीनाथ राजदरबार के महाकवि तथा महापंडित थे। उन्होंने कविता-शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं—'काशीखंडम्', 'शृंगारनैषधम्' तथा 'पलनाटि चरित्रम्'। इनमें 'काशीखंडम्' और 'शृंगारनैषधम्' संस्कृत के काव्यों के अनुवाद हैं और 'पलनाटिचरित्रम्' ऐतिहासिक वीर-काव्य है। श्रीनाथ के अनुवाद की शैली भी निराली है। मूल ग्रन्थ को आधार मानते हुए, उसके समस्त काव्य-सौंदर्य को तेलुगु की मुहावरेदार भाषा में मूर्तिमान् करने की उनकी क्षमता अद्भुत है। उनके समकालीन कवि पोतना, तेलुगु-भाषाभाषियों के हृदय-पीठ पर सर्वदा विराजमान रहेंगे। उनकी उत्कृष्ट रचना 'आंध्र-महाभागवत' है, जिसका प्रचार गरीबों की भोपड़ी से अमीरों के महलों तक में है। पोतना राम के भक्त थे, किन्तु उन्होंने कृष्ण-प्रधान काव्य की रचना की। उनकी भक्ति विलक्षण थी। राम-कृष्ण, शिव-केशव में उन्होंने कोई भेद नहीं किया। उनकी भागवत के कुछ भाग, जैसे प्रह्लाद-चरित्र, गजेन्द्रमोक्ष तथा कृष्ण-लीलाएँ आदि तेलुगु-प्रदेश में इतने प्रसिद्ध हैं कि लोग उन्हें जबानी याद करके समय-समय पर भक्ति-भाव से गाते रहते हैं।

यक्षन्ध-युग—यह युग तेलुगु-साहित्य का स्वर्ण-युग माना जाता है। विजयनगर-साम्राज्य के विख्यात राजा श्रीकृष्णदेवराय का प्राश्रय पाकर तेलुगु-साहित्य ने अभूतपूर्व

उन्नति की। श्रीकृष्णदेवराय स्वयं भी कवि थे और उन्होंने 'आसुवतमालयदा' नामक एक प्रौढ काव्य की रचना की थी। उनके दरबार में आठ महाकवि थे, जो 'अष्टदिग्गज' के नाम से प्रख्यात थे। इस युग में कई प्रबंध-काव्यों की रचना हुई। तेलुगु में प्रबंध-काव्य की एक विलक्षण परिभाषा प्रचलित है। किसी पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक प्रेमाख्यान को आश्रित कर आवश्यकता तथा औचित्य की दृष्टि से उसे घटा-बढ़ाकर अपनी प्रतिभा एवं कला-कौशल के अनुसार तेलुगु की मुहावरेदार भाषा में, तेलुगु-जन-जीवन को प्रतिबिंबित करते हुए जिस कला-कृति का निर्माण कवि करता है, उसे प्रबंध-काव्य कहते हैं। ऐसे प्रबंध-काव्यों में अल्लसानि पेद्दना का 'मनुचरित्र', तिमपना का 'पारिजातापहरण' तथा रामराजभूषण का 'वसुचरित्र' अत्यंत प्रसिद्ध हैं। धूर्जटि कवि का 'कालहस्तीश्वरशतक' और तेनालि रामकृष्ण का 'पांडुरगमाहात्म्यम्' इस युग के भक्ति-परक महाकाव्य हैं। इस युग के उत्तरार्द्ध में पिगलि सूरना ने 'कलापूर्णोदयम्' नामक एक मौलिक प्रबंध-काव्य की रचना की, जो वस्तु, भाव एवं कला की दृष्टि से बेजोड़ है। उन्होंने 'राघवपांडवीयम्' नामक एक द्वयर्थी काव्य लिखा, जो अपने ढंग का प्रथम काव्य है। इसको अपना आदर्श मानकर आगे कई कवियों ने तीन-तीन, चार-चार अर्थवाले काव्यों की रचना की।

दक्षिणांध-युग—विजयनगर-साम्राज्य के पतन के पश्चात् आंध्र-साम्राज्य दक्षिण में तंजाऊर और मदुरै में प्रस्फुटित हुआ। वहाँ के प्रायः राजा स्वयं विद्वान् होते थे और विद्वानों तथा कवियों का बहुत आदर करते थे। उनका आश्रय प्राप्त करके कई तेलुगु-कवि तेलुगु-साहित्य-मंदिर को अपनी सरस कृतियों से सजाने लगे। इस युग की कविता भी प्रबंध-शैली को ही अपनाकर चली, किन्तु समय के साथ-साथ उसकी भाव-प्रवणता में शिथिलता आती गई। भाव-सौंदर्य की अपेक्षा पांडित्य-प्रदर्शन एवं आश्रयदाता की अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा को ही कवि अधिक महत्त्व देने लगे। फिर भी, इस युग में कई सुंदर काव्यों की रचना हुई, जिनमें कंकटि पापराजु-कृत 'उत्तर-रामायण', चेमकूरि वेंकट कवि-कृत 'विजयविलासम्', कवयित्री मोल्ला द्वारा विरचित 'रामायण' तथा कवयित्री मुद्दु पलनी कृत 'राधिका स्वांतनम्' आदि अत्यंत प्रसिद्ध हैं।

आधुनिक काल के साहित्य का परिचय देने के पहले तेलुगु-साहित्य की एक और प्रवृत्ति का उल्लेख कर देना आवश्यक है। तेलुगु की प्रबंध-काव्य-धारा के साथ ही मुक्तक-काव्य-धारा का भी विकास सभानांतर में होता रहा। मुक्तक-साहित्य के अंतर्गत शतक, गीत, संकीर्तन तथा यक्षगान आदि आते हैं। तेलुगु में लगभग एक हजार शतक हैं, जिनमें बहुत-से प्रकाशित हो चुके हैं। तेलुगु-साहित्य में इन शतकों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनमें बहुत-से शतक भक्तिपरक हैं, कुछ नीति-बोधक हैं और कुछ शृङ्गार-रस से भरे हैं। इनकी कविता उच्चकोटि की हैं। इसके अलावा समय-समय पर भक्तों के द्वारा रचे हुए पद तथा संकीर्तन साहित्य तथा संगीत की दृष्टि से अद्वितीय हैं। अन्नमय्या, त्यागय्या और क्षेत्रय्या, ये तेलुगु के तीन भक्त-कवि हैं, जिन्होंने भक्ति के उन्मेष में

कितने ही मधुर गीतों का गान किया है। त्यागथ्या (त्यागराज) तमिलनाडु के तिरुवाड़ी नामक स्थान में हुए थे। उनके कीर्त्तन सारे दक्षिण में गाये जाते हैं।

आधुनिक युग—आधुनिक युग में तेलुगु-गद्य की अच्छी उन्नति हुई। गद्य की विभिन्न प्रवृत्तियों को प्रारंभ करके गद्य का विकास करने का श्रेय स्व० श्रीवीरेशालिंगम् पंतुलु को है। उन्होंने स्वयं कितने ही निबंध, नाटक, प्रहसन तथा उपन्यास आदि लिखे और दूसरे लेखकों को लिखने की प्रेरणा दी। आधुनिक तेलुगु-साहित्य में उनका बही स्थान है, जो हिन्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का है। इस युग के प्रारंभ में कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई, जो गद्य-साहित्य के निर्माताओं को प्रोत्साहन देती थीं। चिलकमर्त्त लक्ष्मीनरसिंहम्, पानुगंति नरसिंहराव, गुरजाडु अप्पाराव उन प्रारंभिक लेखकों में से हैं, जिन्होंने गद्य-साहित्य के निर्माण में अथक परिश्रम किया था। इसी समय व्यावहारिक भाषा को साहित्य-रचना के लिए प्रयोग करने के प्रश्न पर जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। कई युवा-लेखकों तथा पत्र-पत्रिकाओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में गद्य-लेखक निकल आये, जो आजतक गद्य-साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं।

कविता के क्षेत्र में भी तेलुगु-साहित्य भारत की अन्यान्य भाषाओं की साहित्यिक प्रगति के साथ कदम-ब-कदम आगे बढ़ रहा है। अँगरेजी साहित्य का अध्ययन, स्वतंत्रता-आंदोलन, वर्त्तमान जीवन का संघर्ष और व्यक्ति-स्वातंत्र्यवाद ने इस युग के कवियों को एक नई दृष्टि प्रदान की तथा उसका प्रभाव उनकी कविताओं में लक्षित होने लगा। छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की जैसी कविताएँ हिन्दी-साहित्य में पाई जाती हैं, वैसी रचनाएँ तेलुगु में भी हैं। भेद इतना ही है कि तेलुगु में उनके नाम भिन्न-भिन्न हैं—जैसे भाव-कविता, अतिवास्तविक कविता, अभ्युदय-कविता आदि। वर्त्तमान समाज में पाई जानेवाली आर्थिक असमानता, संघर्षमय जीवन, प्राचीन रूढ़ियों तथा परंपराओं के प्रति विद्रोह तथा समस्त मानव-जाति के कल्याण का आग्रह आज की कविताओं में दिखाई पड़ते हैं।

[२]

रामायण, महाभारत एवं भागवतपुराण भारत की सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित रखनेवाले महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। वस्तुतः, आसेतुहिमाचल इन अलौकिक महापुरुषों की पूजा होती है और प्रत्येक भारतीय भाषा के कवि इनके जीवन-वृत्तों का गान करने में ही अपने कवि-कर्म की सफलता मानते आये हैं।

रामायण की कथा नित्य नवीन है। हम अपनी बाल्यावस्था से ही न जाने कितनी बार और कितने लोगों के द्वारा इस कथा को सुनते तथा स्वयं पढ़ते रहे हैं; फिर भी जब-जब इसे सुनने या पढ़ने का अवसर मिलता है, तब-तब हम में नवोत्साह जागरित हो उठता है। यही इस कथा की महत्ता है। वाल्मीकि-रामायण में चतुरानन के मुँह से निकले हुए निम्नलिखित शब्द अक्षरशः सत्य प्रमाणित होते हैं—

यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ।

तावत् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥

तेलुगु भाषा में रामकथा-संबंधी कितने ही काव्य हैं। ये काव्य प्रायः दो रूपों में मिलते हैं—प्रबंध-काव्य तथा मुक्तक-गीत। प्रबंध के रूप में प्राप्त होनेवाले काव्यों में अधिकतर काव्य वाल्मीकि-रामायण के सरस अनुवाद-मात्र हैं। 'रंगनाथ रामायण' तथा 'मोल्ल रामायण' ही दो ऐसे प्रबंध-काव्य हैं, जो स्वतंत्र रचना कहे जा सकते हैं इन दोनों की कथा यद्यपि प्रधानतया वाल्मीकि-रामायण को आधार मानकर चली है, तथापि काव्य-रचना के लक्ष्य में, कथा-वस्तु के विधान में वर्णनों में, तथा चरित्र-चित्रण में नवीनता है। इन दोनों में 'मोल्ल रामायण' आकार में छोटी है। 'रंगनाथ रामायण' ही आंध्र-देश में अधिक लोकप्रिय है। इसके रचना-काल तक जनता में प्रचलित रामकथा-संबंधी कई ऐसे प्रसंग इस रामायण में मिलते हैं, जो वाल्मीकि-रामायण में नहीं मिलते। अबतक रामकथा-संबंधी जितने प्रबंध-काव्य उपलब्ध हुए, उनमें यही सब से प्राचीन काव्य है।

'रंगनाथ रामायण' संबंधी चर्चा प्रारंभ करने के पहले हम एक विषय स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं। जिस प्रकार तुलसी-रामायण उत्तर-भारत के लोक-जीवन के पीर-पीर में व्याप्त होकर, उसके पारिवारिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित कर सकी, उसी प्रकार और उसी मात्रा में तेलुगु-भाषाभाषियों के जीवन को तेलुगु-रामायण प्रभावित नहीं कर सकी। आंध्र-जनता के बीच वह कार्य आंध्र-महाभारत तथा आंध्र-महाभागवत ने किया। इन दोनों ग्रंथों ने तेलुगु-प्रदेश में लोक-जीवन को प्रभावित ही नहीं, बल्कि अनुप्राणित भी किया है। तुलसी-रामायण हिन्दी-भाषाभाषियों के लिए एक साथ धर्म-ग्रन्थ, पुराण, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा लोक-जीवन का पथ-प्रदर्शक है। तेलुगु-प्रदेश में वह स्थान तेलुगु-रामायण को नहीं बल्कि तेलुगु-भागवत को प्राप्त है। तेलुगु-भाषाभाषियों के लिए 'आंध्र-महाभारत' एक साथ धर्मशास्त्र, वेदान्त-ग्रन्थ, नीति-ग्रन्थ, महाकाव्य और इतिहास है।

परन्तु, फिर भी राम की कथा, जो परंपरा से जनता के बीच लोक-कथाओं तथा लोक-गीतों के रूप में प्रचलित थी, अपना अक्षुण्ण प्रभाव लोगों के जीवन पर डालती रही। आंध्र-देश में समय-समय पर कई ऐसे भक्त हुए, जिन्होंने अपने भक्ति-रस पूर्ण गीतों एवं भजनों के द्वारा राम-भक्ति का ऐसा प्रचार लोगों में किया कि श्रीराम आंध्रों के इष्टदेव-से हो गये। आंध्र-प्रदेश में विरला ही ऐसा कोई गाँव होगा, जहाँ श्रीराम का मंदिर न मिलता हो। तेलुगु-भाषाभाषियों में रामध्या, रामज्ञा, रामराव, रामचन्द्र राव, सीतय्या, लक्ष्मणा आदि नामों की तो गिनती ही नहीं है।

किन्तु, प्रश्न यह है कि तुलसी-रामायण के समान सर्वव्यापक तथा प्रभावशाली राम-काव्य तेलुगु में क्यों नहीं लिखा जा सका? ऐसी बात नहीं कि तेलुगु-प्रदेश में इसके लिए आवश्यक प्रतिभा का अभाव था। यदि ऐसी बात होती, तो महाभारत एवं भागवत जैसे प्रौढ़ एवं सरस महाकाव्यों की रचना ही तेलुगु में नहीं होती। अतः इसका कारण जानने के लिए हमें इतिहास का आश्रय लेना पड़ेगा।

यह सर्वविदित है कि भगवान् बुद्ध की धार्मिक क्रान्ति से वैदिक धर्म को बड़ा भारी धक्का लगा। बौद्धधर्म कई शताब्दियों तक उत्तर-भारत के राजाओं के द्वारा

सनादृत रहा। उत्तर-भारत क कुछ राजाओं न जैनधर्म को भी अपनाया था। धीरे-धीरे इन दोनों धर्मों न अपनी विजय-यात्रा-सदूर दक्षिण तक बढ़ाई। दक्षिणापथ के कई राजाओं ने इस धर्म के आगे अपने घुटने टेक दिये। आंध्र-राजाओं में सबसे प्रथम शातवाहन थे, जिन्होंने वैदिक धर्म के अनुयायी होते हुए भी बौद्ध तथा जैन धर्मों का आदर किया। इन्हीं शातवाहनों के सामंत इक्ष्वाकु-वंश के राजा (ई० पू० २००) बौद्धधर्म के अनुयायी बने। इन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों को बहुत आदर दिया और वैदिक धर्म के प्रभाव को नष्ट करने का भी यथाशक्ति प्रयत्न किया। इस प्रकार, दक्षिण भारत में वैदिक, बौद्ध एवं जैन धर्मों के बीच कई शताब्दियों तक संघर्ष चलता रहा। बीच-बीच में ऐसे आंध्र-राजा भी हुए, जिन्होंने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और बौद्ध तथा जैन धर्मों को समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया।

सन् ८२५ ई० में शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। उन्होंने बौद्धधर्म के प्रचार को रोकने तथा वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने का जो प्रयत्न किया, उससे आंध्र-प्रदेश के वैदिक धर्मावलंबियों को आंध्र-देश से बौद्धधर्म को समूल उखाड़ फेंकने की प्रेरणा मिली। उन्होंने कई मोर्चों पर बौद्धधर्म का विरोध किया। बौद्धधर्मावलंबियों को तरह-तरह की यातनाएँ दी गईं और कई ऐसे ग्रन्थों के निर्माण का प्रयत्न हुआ, जिनके द्वारा वैदिक धर्म तथा उनके समर्थक पुराणों की प्रतिष्ठा बढ़ी। वातावरण भी इसके लिए अनुकूल था। उसी समय तमिल-देश में अनेक वैष्णव तथा शैव संतों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी सरस एवं सबल रचनाओं से बौद्ध तथा जैन धर्मों का विरोध आरंभ किया। उसी युग में आंध्र में राजराज नरेन्द्र नामक एक विख्यात राजा हुए जो वैदिक धर्म के अनन्य अनुयायी थे। इन महापुरुषों का प्रोत्साहन पाकर तेलुगु-साहित्य में पुराण-युग प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रधानतया पुराणों और इतिहासों का अनुवाद-कार्य हुआ। इन ग्रन्थों की रचना करने में कवियों का उद्देश्य यही था कि उनके द्वारा भगवान् के उस लोकरंजनकारी रूप की अभिव्यक्ति की जाय, जिसको आलंबन मानकर मानव-हृदय वैदिक धर्म के कल्याण-मार्ग की ओर अपने आप आकृष्ट हो सके। लगभग सन् १०२५ ई० में कवि नन्नया ने महाभारत का अनुवाद प्रारंभ किया, किन्तु वे महाभारत के केवल ढाई पर्व-मात्र की रचना कर पाये थे कि उनका स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात् तेलुगु-रामायण (रंगनाथ रामायण) की रचना हुई।

तेलुगु में रामायण की रचना को प्रेरणा देनेवाली परिस्थितियाँ तुलसी-रामायण की रचना के लिए प्रेरणा देनेवाली परिस्थितियों से भिन्न थीं। रंगनाथ रामायण का उद्देश्य वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाना तथा रामचन्द्र जैसे अलौकिक शक्तिशाली एवं सौंदर्य-संपन्न व्यक्ति तथा अवतार-पुरुष के भव्य चरित्र को प्रस्तुत करना था, जिसकी अनुभूति-मात्र से मानव-हृदय गद्गद हो उठे। या यों कह सकते हैं कि रंगनाथ रामायण उस व्यापक पृष्ठभूमि को तैयार करने में सफल हुई, जो पीछे चलकर राम के प्रति भक्ति-भावना को जन्म देने के लिए आवश्यक थी। भक्ति का प्रादुर्भाव अचानक नहीं होता। अनंत सौंदर्य, शक्ति और शील से संपन्न चरित्र के प्रत्यक्षीकरण से व्यक्ति का हृदय पहले

आश्चर्य से भर जाता है और धीरे-धीरे वह उस शक्ति-संपन्न व्यक्ति को महत्त्व की अनुभूति करने लगता है। उसके उपरांत उसकी प्रशंसा करने की इच्छा सहज ही उसके मन में जागरित होती है। महान् व्यक्ति की प्रशंसा करने की यह इच्छा ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। रंगनाथ रामायण के प्रतिभावान् रचयिता ने अपनी रचना के द्वारा यही कार्य संपन्न किया।

रंगनाथ रामायण वाल्मीकिरामायण का मात्र अनुवाद नहीं है। स्थूल रूप से वाल्मीकिरामायण की कथा इसमें आ तो गई है, किन्तु उसके कवि ने बीच-बीच में ऐसे प्रसंग भी जोड़े हैं, जो कदाचित् उस समय तक जनता के बीच लोक-कथाओं के रूप में प्रचलित हो चुके थे। हम नीचे ऐसे कुछ प्रसंगों का उल्लेख करेंगे, जो वाल्मीकि-रामायण में नहीं मिलते, यद्यपि उनमें से कुछ प्रसंग जैनग्रन्थों में मिलते हैं। कदाचित् कवि ने वहाँ से इन प्रसंगों को लेकर अपनी रामायण में सम्मिलित कर दिया हो :

१. जंबुमाली का वृत्तांत, २. रावण से तिरस्कृत हो विभीषण का अपनी माता के पास जाना, ३. कैंकेसी (रावण की माता) का रावण को हितोपदेश, ४. रावण का राम की धनुर्विद्या-कुशलता की प्रशंसा करना, ५. गिलहरी की भक्ति, ६. नागपाश में बद्ध होकर राम-लक्ष्मण के पास नारदजी का आना, ७. रावण के आगे मंदोदरी का राम की महिमा एवं शौर्य की प्रशंसा करना, ८. दूसरी बार संजीवनी लाते समय हनुमान् तथा माल्यवान् का युद्ध, ९. कालनेमि का वृत्तांत, १०. सुलोचना का वृत्तांत, ११. शुक्राचार्य के आगे रावण का बुखड़ा रोना, १२. रावण का पाताल-होम, १३. अंगद का रावण के समक्ष मंदोदरी को बुला लाना, १४. रावण की नाभि में स्थित अमृत-कलश को सोखने के निमित्त आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने की विभीषण की सलाह, १५. लक्ष्मण की हँसी।

उक्त प्रसंगों में जंबुमाली का वृत्तांत, कालनेमि का वृत्तांत, रावण के समक्ष अंगद का मंदोदरी को घसीटकर लाना, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने की विभीषण की सलाह आदि ऐसे हैं, जो मूलकथा की घटनाओं को अधिक तर्क-संगत सिद्ध करने के निमित्त जोड़े हुए प्रतीत होते हैं। रावण से तिरस्कृत होकर विभीषण का अपनी माता के पास जाना, कैंकेसी का हितोपदेश और सुलोचना का वृत्तांत आदि रावण के परिवारके लोगों के चरित्र पर प्रकाश डालने के साथ ही साथ इस ओर भी इंगित करते हैं कि रावण भूत-प्रेतों का वंशज एवं भूत-प्रेतों का राजा नहीं था, किन्तु एक विलक्षण परिवार में उत्पन्न हुआ विशिष्ट व्यक्ति था। रावण का, राम की धनुर्विद्या की कुशलता की प्रशंसा करना, मंदोदरी का रावण के समक्ष श्रीराम की महिमा एवं पराक्रम की प्रशंसा करना, गिलहरी का वृत्तांत आदि प्रसंग राम के उस लोकोत्तर व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, जो शत्रुओं की भी प्रशंसा प्राप्त करने की क्षमता रखता था। साथ ही साथ, वे रावण तथा मंदोदरी के चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। उक्त प्रसंगों के अलावा इस रामायण में यत्र-तत्र ऐसे वर्णन भी मिलते हैं, जो वाल्मीकिरामायण में नहीं मिलते, किन्तु जिन्हें कवि ने वैदिक धर्म में लोगों की निष्ठा बढ़ाने के निमित्त जोड़ा है।

पात्रों का चित्रण—पात्र-चित्रण की दृष्टि से रंगनाथ रामायण विशेष महत्त्व रखती है। जैसा हमने पहले ही निवेदन किया है, रंगनाथ रामायण में श्रीराम के महिमा-सम्बन्धित शक्ति, शील तथा सौंदर्य से परिपूर्ण चरित्र को प्रस्तुत करने का अधिक प्रयत्न हुआ है। इस रामायण के नायक राम जहाँ एक धीरोदात्त वीर तथा सर्वगुणसंपन्न व्यक्ति थे, वहाँ इस काव्य का खलनायक रावण भी उदार, वीर, साहसी, असमान पराक्रमी, राजनीतिकुशल, स्वाभिमानी एवं शिवजी का अनन्य भक्त भी था। किन्तु, उसके दोष भी उसके गुणोंसे कम नहीं थे। वह कामुक, अभिमानी तथा उद्धत था। इसलिए, इस रामायण के कवि ने रावण के चरित्र का चित्रण करने में अपनी अद्वितीय प्रतिभा एवं सहृदयता का परिचय दिया है। उन्होंने एक कलाकार तथा इतिहास-लेखक—इन दोनों के उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभाया है। जहाँ उन्होंने रावण के कृष्ण पक्ष की निंदा की है वहाँ उसके उज्ज्वल पक्ष को प्रकट करने की उदारता भी दिखाई है। उनकी दृष्टि में रावण एक विलक्षण वीर था, जिसमें जड़-चेतन तथा गुण-दोषों का अद्भुत सम्मिश्रण था। उसका पतन इसलिए हुआ था कि जड़ ने चैतन्य पर पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया था। कदाचित् यह रामायण के प्रति द्राविड़ दृष्टि का प्रमाण भी हो। द्राविड़ लोग रावण को उसी दृष्टि से नहीं देखते, जिस दृष्टि से आर्यों ने उसे देखा और राक्षस, निशाचर आदि नामों से संबोधित किया। द्राविड़ दृष्टि में रावण भी एक वीर, विद्वान्, पराक्रमी मनुष्य ही था, किन्तु उसके गुणों पर दुर्गुणों ने विजय प्राप्त कर ली थी और यही उसके सर्वनाश का कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, कला की दृष्टि से देखा जाय, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि रामचन्द्रजी का प्रतिद्वन्द्वी केवल एक लंपट तथा नीच व्यक्ति नहीं हो सकता था। रावण को अपने बल-पौरुष का जहाँ अभिमान है, वहाँ उसके हृदय में अपने शत्रु के गुणों के प्रति आदर भी है। वह राम के बल-विक्रम पर आश्चर्य ही प्रकट नहीं करता, बल्कि उनकी प्रशंसा भी करने लगता है। श्रीराम की धनुर्विद्या की निपुणता देखकर रावण कहता है—

नल्लवो रघुराम नयनाभिराम, विल्लविद्या गुरुव, वीरावतार ।

बापुरे, राम भूपाल, लोकमुल नीपाटि विल्लुकाडु नेर्चुने कलुग ?

(हे नीलमेघश्याम, नयनाभिराम, धनुर्विद्या-निपुण, वीरावतार, रघुराम, हे राजा राम, इस संसार में तुम्हारे समान धनुर्धर और कोई हो सकता है ?)

रावण की इस प्रशंसापूर्ण शब्दों को सुनकर रावण के मंत्री रावण से कहते हैं कि आपका इस प्रकार शत्रु की प्रशंसा करना आपको शोभा नहीं देता। तब रावण कहता है—

विल्लुविद्या पेंपुनु, विक्रम क्रममु, गलितनंबुनु, बाहुगर्व राजसमु,
लादियी गुणमुल नधिकुडैनिहि, कोदंडदीक्षा गुरुनितो राज
बहनितो, रामभूवरनितो नोरुलु पंकिचि चूड नेपट्टुन नैन,
साटिये इम्मूडु जगमुलयंडु ? मेटि शूरुल पेंपु पेच्चंग वलदे ?

(धनुर्विद्या-नैपुण्य, पराक्रम, शौर्य, बाहुबल आदि गुणों में श्रेष्ठ राजा राम की समता करनेवाला तीनों लोकों में कौन है? क्या महान् पराक्रमी व्यवितियों की महानता की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ?

रावण के इन शब्दों से कवि दो उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। रावण के ये वचन जहाँ एक ओर उसकी उदारता प्रकट करते हैं वहाँ वे शत्रु के द्वारा भी प्रशंसा प्राप्त करनेवाले श्रीराम के असाधारण एवं अलौकिक व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालते हैं।

यही नहीं, रावण अच्छी तरह जानता था कि श्रीराम विष्णु के अपररूप हैं और उनके हाथों मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए, वह सोचता है कि युद्ध के लिए ललकारनेवाले शत्रु के सामने घुटने टेककर मैं अपनी दीनता क्यों प्रकट करूँ और अपनी वीरता को क्यों कलंकित करूँ। जब मंदोदरी राम की महिमा का वर्णन करके रावण को युद्ध करने से रोकने का प्रयत्न करती है, तो रावण कहता है—

ये नेल्लभंगुल निक राघबुल बोनीक चंपुडु; भूमिज नीय
वारूठ बलुडनै, यटु गाक येनु श्रीरामु शरमुलचे जत्तुनेनि
नाकवासुलु मेच्च ना कोरुचुन्न वैकुंठ मंदुरागवच्चु निच्चट्टिकि
ललन नीवेट्टिकि ? लंक येमिट्टिकि ? दलकोन्नु मुक्ति सत्पथमु गैकोंडु।

(अब मैं किसी भी प्रकार राघवों का वध करूँगा ही; मैं सीता को नहीं दूँगा। यदि इसके विपरीत मैं श्रीराम के शरों से ही मारा जाऊँगा, तो मेरा चिर अभिलषित स्वर्ग मेरे पास स्वयं आ जायगा और स्वर्ग के निवासी मेरी प्रशंसा करेंगे। जब मैं मुक्तिपथ को प्राप्त करने जा रहा हूँ, तब हे सुन्दरी! मुझे न तुम्हारी आवश्यकता है न लंका की।)

वाल्मीकिरामायण में सुलोचना का वृत्तान्त नहीं मिलता है। तुलसी-रामायण की कुछ प्रतियों में इस कथा का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। किन्तु पंडितों का विचार है कि तुलसी-रामायण का यह अंश प्रक्षिप्त है। रंगनाथ रामायण में इस महान् साध्वी के चरित्र का अत्युत्तम चित्रण मिलता है। बंगला-कवि माइकेल मधुसूदन ने अपनी रचना 'मेघनाद-वध' में सुलोचना के चरित्र को विशेष प्रधानता दी है और उस वीर एवं सती-साध्वी स्त्री का एक भव्य चरित्र उपस्थित किया है। इन्द्रजीत की मृत्यु के उपरांत उसकी वीर पत्नी सुलोचना अपने पति के मृत शरीर के साथ सती होना चाहती है। अतः, वह अपने ससुर रावण से इन्द्रजीत के मृत शरीर को मँगा देने की प्रार्थना करती है। किन्तु, रावण अपनी असमर्थता प्रकट करता है; क्योंकि इन्द्रजीत का शव शत्रुओं के अधीन में था। तब सुलोचना अपने पति का मृत शरीर प्राप्त करने के हेतु स्वयं साहस के साथ शत्रु-शिविर में चली जाती है। वहाँ पहुँचकर वह पहले रामचन्द्रजी से पति-भिक्षा देने की प्रार्थना करती है। उसके साहस पति-भक्ति एवं निर्मल चरित्र से प्रभावित होकर रामचन्द्र उसकी प्रार्थना स्वीकार करने को प्रस्तुत-से होते दीखते हैं। तब हनुमान् उन्हें

समझाते हैं कि ब्रह्मा का लेख भूठा नहीं होने देना चाहिए। इस पर रामचन्द्र सुलोचना को आश्वासन देते हैं कि अगले जन्म में तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक सुखमय जीवन व्यतीत करने के उपरांत वैकुण्ठ-धाम प्राप्त करोगी। इसके पश्चात् सुलोचना राम से अपने पति का शरीर मांगती हैं। तब सुग्रीव उसे ताना देते हुए कहता है—'यदि तुम पतिव्रता हो, तो अपने मृत पति से वार्त्तालाप करो।' सुलोचना इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और युद्ध-भूमि में पड़े हुए अपने पति के शव के पास जाकर बड़े ओजपूर्ण शब्दों में कहती हैं—'यदि मैं मन, वचन, कर्म से अपने पति की सच्ची भक्ति करती हूँ, तो मेरे पति सजीव होकर मुझसे वार्त्तालाप करें।' तब मेघनाद का शव आँखें खोलकर कहता है—'हे प्रिये! मेरे पिता ने ही मुझे मारा है। नहीं तो और किसकी ऐसी शक्ति थी कि मुझे मार सके, काल की गति प्रबल है। इसलिए चिन्ता मत करो।' इतना कहकर इन्द्रजीत की आँखें सदा के लिए बंद हो जाती हैं। इसके पश्चात् सती सुलोचना अपने पति के शव को साथ लेकर जाती है और उसके साथ सती होकर देवलोक में पहुँच जाती हैं।

कला-पद्य—कला की दृष्टि से भी रंगनाथ रामायण उच्चकोटि का महाकाव्य है। कला के उत्कृष्ट चमत्कार इसके प्रत्येक पृष्ठ में दृष्टिगोचर होते हैं। कवि संस्कृत के काव्य-शास्त्र के निष्णात विद्वान् होने के कारण उक्ति-वैचित्र्य एवं अर्थगौरव, इन दोनों का उचित अनुपात बनाये रखने में सर्वथा सफल हुए हैं। उनकी कला-साधना में पग-पग पर उनका हाथ बँटानेवाले अनुप्रास एवं यमक अलंकारों की छटा कवि के अगाध पांडित्य एवं भाषा पर उनके विलक्षण अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत करती है। भावों की मार्मिक अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त अर्थालंकार इतने स्वाभाविक हैं कि हम कवि की औचित्य-प्रियता पर मुग्ध हो जाते हैं। रंगनाथ रामायण की भाषा विलक्षण माधुर्य एवं गंभीरता से परिपूर्ण है। तेलुगु की साहित्यिक भाषा के जिन दो रूपों की चर्चा पहले की गई है, उन दोनों रूपों का सुन्दर सम्मेलन इस काव्य में ही गया है। कवि का तेलुगु एवं संस्कृत दोनों भाषाओं पर पूरा-पूरा अधिकार था और दोनों भाषाओं के शब्द-भाँडार उनके आदेश का पालन के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते दिखाई देते हैं। कवि ने तेलुगु की सजीव एवं मधुर मुहावरेंदार भाषा के साथ संस्कृत-शब्दों का ऐसा सुन्दर मेल कराया है कि भाषा में मणि-कांचन-योग की-सी शोभा आ गई है। इसकी भाषा का एक नमूना नीचे दिया जाता है—

राज-तिलक चेतोविनिर्मलशिष्टु विशिष्ट, गौतम जाबालि कश्यप कण्व वामदेवाहुलौ
वरमुनीश्वरल सामादि बहुवेद चतुर बोधकुल भरतुडु रपिचि भय भुवतु लोप, परम सस्मद
वचोभंगलु, मेरय 'श्री रामुनकु पट्टाभिषेकंबु सेयुंडारुड निर्यतितो' ननि पलुक वाह पूनि
मंगल तूर्यमुलु मोयुचुंड, जानकी रामुल चडुरोप्य तेचिच रमणीयतरमैन रत्नपीठयुन, कोमरोप्य
निरवुर कूचुंड बनि चि मानित वेदोक्त मंत्र पूर्वकमुग अभिषेकंबु कर मथिच्येना रामुनौदल
ना पूर्णवारि धार डगगरुनप्युडु तग चूडनोप्ये गीर्वाणं मुख्युलु कीर्तनल सेय पार्वती सहितुडु
प्रणुतिपनोप्यु अंगजहृह मौलि नमल मै तोरुगु गंगा नदियु बोले कमनीय मगुचु ना तीर्थधरलु

अंग्रूल कोलिकि भूतलंबुन निडि पोलुपारे जूड हरिपाद मुन बुट्टि अथ्यादि गंग धरणि पै बरगुविधंबच्चु पडग बरिंकिप राम भूपालकुंडपुडु हरुडुविष्णुवु, दानयनु माड्किनुंडे ।

(भरत ने निर्मलचेता एवं सदाचार-संपन्न दसिष्ठ, गौतम, जाबालि, कश्यप, बृहस्प, वामदेव आदि मुनीश्वरों को तथा चतुर्वेद-पारंगत विबुधों को बुलाकर विनय एवं भक्ति के साथ उनसे कहा—‘आप कृपया विधिवत् श्रीराम का राजतिलक कीजिए।’ तब मंगल-वाद्यों की ध्वनि के साथ वे जानकी तथा राम को बुला लाये और रमणीय रत्नपीठ पर उन दोनों को आसीन कराया और वेदमंत्र-पूर्वक पुण्य सलिल से उनका अभिषेक किया। राम के मस्तक पर से गिरनेवाली वह पुण्य जलधारा देखने में बहुत ही रमणीय प्रतीत होती थी। देवताओं की स्तुतियों को प्राप्त करते हुए पार्वती के साथ विलसित होनेवाले परमशिव की जटा से झरनेवाली गंगा नदी की भाँति वह जलधारा अत्यंत कमनीय दीख रही थी। वह (जलधारा) क्रमशः उनके चरणों से होकर पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगी, मानों विष्णु के चरणों में जन्म लेकर पवित्र गंगा पृथ्वी पर उतर रही हो। इस प्रकार, उस समय रामचन्द्र स्वयं विष्णु तथा शिव की भाँति शोभायमान हुए।)

मुहावरों का सम्यक् प्रयोग, भावों के अनुकूल भाषा, स्वाभाविक अनुप्रासों की छटा, उक्ति-सौंदर्य तथा ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों से युक्त शैली, ये सभी कवि के विलक्षण पांडित्य तथा कवित्व-शक्ति का परिचय देते हैं।

वैसे तो अनुवाद का कार्य ही कुछ कठिन है; क्योंकि कितना भी प्रयत्न किया जाय, मूल की सुन्दरता अनुवाद में नहीं आ सकती। एक भाषा की श्रेष्ठ कलाकृति का दूसरी भाषा के गद्य में सरस अनुवाद प्रस्तुत करना स्वभावतः कठिन कार्य है। तेलुगु और हिन्दी दो भिन्न भाषा-परिवार की भाषाएँ हैं और उनके अपने-अपने मुहावरे हैं। मुहावरों का अनुवाद तो हो नहीं सकता। हाँ, यह प्रयत्न अवश्य हो सकता है कि तेलुगु मुहावरे का मिलता-जुलता हिन्दी-मुहावरा का उपयोग किया जाय। फिर भी, अनुवाद अनुवाद ही है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का सौंदर्य एवं उक्ति-वैचित्र्य आदि अनुवाद में लाना कठिन है। उदाहरण के लिए—

तोगलु वेदितुमु दुष्टारि सतुल, तोगलु जानकि इंक तोल गंग
तोगलार ! इकभीद तोग येद्वि दनुचु, तोगतेल्ल च्चिदिभि वंतु रु पेच्चु पेरिगि।

‘तोग’ के कई अर्थ हैं—दुःख, कष्ट, बरल। यहाँ कवि ने यमक अलंकार के द्वारा ‘तोग’ शब्द के प्रयोग से भिन्न-भिन्न अर्थों की अभिव्यंजना की है; किन्तु यह सुन्दरता अनुवाद में लाना असंभव है।

फिर भी, अनुवादक ने मूल के प्रति निष्ठा बरतते हुए यथःसंभव मूल रचना की सुंदरता को अनुवाद में लाने की भरपूर चेष्टा की है। उसे कर्हांतक सफलता मिली है, इसका मूल्यांकन करना सहृदय पाठकों का काम है।

मैं अंत में दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा के भूतपूर्व संयुक्त मंत्री परम आदरणीय पंडित अवधनंदनजी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जो इस ग्रन्थ के संपादन का कार्य बड़ी दक्षता के साथ संपन्न करते हुए लगातार मेरी सहायता करते रहे। मैं बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् का भी आभार मानता हूँ, जिसने मुझे इस कार्य के लिए योग्य समझकर मेरे द्वारा यह अनुवाद कराया। यदि यह ग्रन्थ हिन्दी-भाषा-भाषियों को तेलुगु की विपुल साहित्य-संपत्ति का किंचित् भी आभास करा सकेगा, तो मैं अपने परिश्रम को सफल मानूंगा।

श्रीरामनवमी

ता० १६, शके १८८२

५-४-१९६० ई०

}

ए० सी० कामाक्षि राव

वेद्यानुक्रमणी

परिचय

१-३

प्रस्तावना

५-१८

बालकांड

१-६९

१ देवस्तुति—३; २ ग्रन्थ-रचना का कारण—४; ३ कथा का प्रारंभ—६; ४ कुश-लव का रामायण-गान—९; ५ पुत्रकामेष्टियज्ञ करने के लिए दशरथ का मंत्रियों से परामर्श—९; ६ ऋष्यशृंग का वृत्तान्त—१०; ७ वेद्याओं के साथ ऋष्यशृंग का रोमपाद के घर आना—१२; ८ दशरथ का यज्ञदीक्षा लेना—१४; ९ रावण के अत्याचारों के बारे में ब्रह्मा से देवताओं की शिकायत—१४; १० देवताओं का विष्णु की स्तुति करना—१५; ११ दशरथ को यज्ञपुरुष का पायस देना—१६; १२ देवताओं को वानरों के रूप में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा की सलाह—१६; १३ श्रीराम आदि का जन्म—१७; १४ श्रीरामादि का वचन—१८; १५ विश्वामित्र का आगमन—१८; १६ यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम को भेजने के लिए राजा से विश्वामित्र की प्रार्थना—१९; १७ राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए वसिष्ठ की सम्मति—२०; १८ विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण को भोजना—२१; १९ अनंगाश्रम का वृत्तान्त—२१; २० विश्वामित्र का श्रीरामचन्द्र को ताड़का का वृत्तान्त सुनाना—२२; २१ ताड़का का वध—२३; २२ विश्वामित्र का श्रीराम को भृशाश्व-संतान-रूपी शस्त्र देना—२४; २३ कौशिक का श्रीराम को सिद्धाश्रम का वृत्तान्त सुनाना—२६; २४ विश्वामित्र का यज्ञ—२६; २५ कौशांबी का वृत्तान्त—२८; २६ गंगा नदी का वृत्तान्त—३३; २७ गंगावतरण की कथा—३५; २८ अमृत-मंथन की कथा—३६; २९ गौतम के आश्रम का वृत्तान्त—४२; ३० मिथिला में आगमन—४३; ३१ विश्वामित्र की शक्ति का परिचय—४४; ३२ शिव-धनुष का वृत्तान्त—५३; ३३ शिव-धनुर्भंग—५४; ३४ दशरथ का वंशक्रम—५८; ३५ राजा जनक की वंशावली—६०; ३६ सीता और राम का विवाह—६३; ३७ परशुराम का गर्व-भंग—६५; ३८ अयोध्या में प्रवेश—६८ ।

अयोध्याकांड

७९-१२२

१ रामराज्याभिषेक का संकल्प—७३; २ मंथरा की कुमंत्रणा—७६; ३ कैकेयी के महल में दशरथ का आगमन—७८; ४ दशरथ से कैकेयी का वर माँगना—८०;

५ कैकेयी के भवन में राम का दशरथ से भेंट करना—८२; ६ कौसल्या का दुःख—८४; ७ लक्ष्मण का क्रोध और राम का समझाना—८५; ८ राम का कौसल्या को धैर्य देना—८७; ९ राम का अभिषेक-भंग का वृत्तांत सीता को सुनाना—८८; १० राम का सीता तथा लक्ष्मण को भी साथ चलने की अनुमति देना—९०; ११ राम-लक्ष्मण का सम्पत्ति-दान—९१; १२ त्रिजटाख्य को राम का गायों का दान देना—९१; १३ सीता-लक्ष्मणसहित रामका दशरथ के दर्शनार्थ जाना—९२; १४ कैकेयी पर वसिष्ठ का क्रोध—९५; १५ राम का दशरथ को सांत्वना देना—९६; १६ सीता को सीख देना—९६; १७ राम का वन-गमन—९७; १८ गुह से राम की भेंट—१००; १९ राम का गंगा पार करके वन में प्रवेश करना—१०२; २० काकासुर-वृत्तांत—१०३; २१ सुमंत्र का अयोध्या पहुँचना—१०३; २२ दशरथ का कौसल्या को अपने शाप का वृत्तांत सुनाना—१०४; २३ दशरथ का स्वर्गवास—१०८; २४ भरत का अयोध्या में प्रवेश—११०; २५ भरत का कौसल्या के घर जाना—१११; २६ भरत का राम के पास जाना—११३; २७ भरत का भरद्वाज के आश्रम में पहुँचना—११४; २८ भरत की राम से भेंट—११६; २९ भरत का राम को दशरथ की मृत्यु का समाचार देना—११७; ३० श्रीराम को जाबालि का उपदेश—१२०; ३१ पादुका-दान—१२० ।

अरण्यकांड

१२३-१७०

१ चित्रकूट से प्रस्थान—१२५; २ राम का दण्डक वन की यात्रा करना—१२६; ३ विराध का वध—१२६; ४ श्रीराम का शरभंग के आश्रम में पहुँचना—१२७; ५ श्रीराम का सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुँचना—१२८; ६ मंदकर्णी का वृत्तांत—१३०; ७ अगस्त्य से भेंट—१३०; ८ जटायु से मित्रता—१३२; ९ हेमंत-वर्णन—१३२; १० जंबुमालि का वृत्तांत—१३३; ११ शूर्पणखा का वृत्तांत—१३६; १२ खर-दूषण का वध—१३६; १३ लंका में अकंपन तथा रावण का वार्त्तालाप—१४५; १४ शूर्पणखा का रावण से दीनालाप—१४६; १५ रावण का पुनः मारीच के पास जाना—१४७; १६ मारीच का पुनः उद्बोधन—१४८; १७ मारीच का माया-मृग के रूप में आना—१४९; १८ राम का माया-मृग का पीछा करना—१५१; १९ भिक्षुक के वेश में रावण का सीता के पास आना—१५३; २० जानकी का शोक—१५५; २१ जटायु और रावण का युद्ध—१५६; २२ जानकी को अशोकवन में रखना—१५६; २३ श्रीराम का दुःख—१५६; २४ लक्ष्मण का राम को सांत्वना देना—१६३; २५ जटायु का अग्नि-संस्कार करना—१६५; २६ कबंध का वध—१६६; २७ राम-लक्ष्मण की शबरी से भेंट—१६७; २८ श्रीराम का ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचना—१६८ ।

किष्किंधकांड

१७१-२२०

१ पंपासर-दर्शन—१७३; २ हनुमान की राम से भेंट—१७५; ३ हनुमान् का अपने जन्म का वृत्तांत सुनाना—१७६; ४ सुग्रीव का सीताके आभूषणों को देना—१७८;

५ बालि-सुग्रीव का द्वंद्व-युद्ध—१८३; ६ तारा का बालि को रोकना—१८५; ७ बालि का संहार—१८७; ८ तारा का शोक—१८९; ९ बालिका सुग्रीव को उपदेश देना—१९१; १० सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाना—१९२; ११ राम का माल्य-वंत पर पहुँचना—१९३; १२ लक्ष्मण का किष्किंधा में जाना—१९५; १३ सुग्रीव का माल्यवंत पर पहुँचना—१९७; १४ सीता के अन्वेषण के लिए सुग्रीव का वानरों को भेजना—१९८; १५ हनुमान् को मुद्रिका देना—१९९; १६ महर्षि कंडु के आश्रम में—२०१; १७ स्वयंप्रभा का सत्कार—२०२; १८ वानरों की व्याकुलता—२०३; १९ संपाति से भेंट—२०४; २० सीता का पता बताना—२०५; २१ वानरों का अपनी शक्ति का परिचय देना—२०६; २२ समुद्र लाँघने के लिए हनुमान् को प्रेरित करना—२०७; २३ समुद्र पार करना—मैनाक से भेंट—२०८ ।

सुन्दरकांड

२११-२४६

१ हनुमान् का लंका में प्रवेश—२१३; २ लंकिणी का हनुमान् को रोकना—२१४; ३ हनुमान् का लंका में सीता का अन्वेषण—२१५; ४ हनुमान् का रावण के अंतःपुर में प्रवेश करना—२१६; ५ हनुमान् का रावण के उद्यान में जाना—२१८; ६ हनुमान् की सीता से भेंट—२१९; ७ सीता से रावण का प्रलाप—२२०; ८ सीता का रावण की निन्दा करना—२२२; ९ मन्दोदरी का रावण को उपदेश—२२३; १० राक्षसियों का सीता को दुःख देना—२२४; ११ त्रिजटा का स्वप्न—२२४; १२ हनुमान् का सीता को राघवों का वृत्तांत सुनाना—२२५; १३ हनुमान् का सीता को राम की अँगूठी देना—२२६; १४ सीता का संदेह—२२९; १५ अशोकवन का ध्वंस—२३०; १६ हनुमान् का राक्षसों का वध करना—२३१; १७ अक्षयकुमार का हनुमान् पर आक्रमण करना—२३५; १८ इन्द्रजीत का हनुमान् को बन्दी बनाना—२३७; १९ हनुमान् का रावण को अपने आगमन का कारण बताना—२३८; २० लंका-दहन—२३९; २१ अंगद आदि वानरों से हनुमान् की भेंट—२४२; २२ वानरों का मधुवन में विचरण करना—२४३; २३ राम को स्मृता का कुशल-समाचार सुनाना—२४४ ।

युद्धकांड

२४७-४७७

१ श्रीराम का हनुमान् की प्रशंसा करना—२४९; २ लंका के वैभव का वर्णन—२५०; ३ कपि-सेनाओं की युद्ध-यात्रा—२५२; ४ महेंद्र पर्वत से राम का समुद्र को देखना—२५३; ५ संध्या-वर्णन—२५४; ६ मंत्रियों के साथ रावण की मंत्रणा—२५५; ७ दानव-वीरों के दर्पपूर्ण वचन—२५६; ८ राक्षस-वीरों को विभीषण का उपदेश—२५७; ९ रावण को विभीषण का हितोपदेश—२५८; १० कुंभकर्ण को सीता-पहरण का वृत्तांत सुनाना—२६०; ११ इन्द्रजीत का विभीषण को अपने पराक्रम का परिचय देना—२६२; १२ विभीषण द्वारा इन्द्रजीत के दंभ की निन्दा—२६२; १३ रावण का विभीषण को नगर से निर्वासित करना—२६३; १४ विभीषण का अपनी माता के भवन में जाना—२६५; १५ विभीषण की शरणागति—२६६; १६ हनुमान

का विभीषण की योग्यता राम को समझाना—२६७; १७ विभीषण की स्तुति—२६८; १८ त्रिकूट पर्वत की उत्पत्ति की कथा—२६९; १९ विभीषण का राम को रावण के वैभव का परिचय देना—२६९; २० राम का विभीषण को लंका का राजा बनाना—२७१; २१ शुक का संदेश—२७१; २२ राम का दर्भ-शयन—२७२; २३ राम का समुद्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना—२७३; २४ समुद्र का राम से प्रार्थना करना—२७५; २५ सेतु-बन्धन के लिए राम का सुग्रीव को आज्ञा देना—२७६; २६ सेतु-बन्धन—२७७; २७ चन्द्रोदय का वर्णन—२७७; २८ गिलहरी की भक्ति—२७९; २९ सेतु को देखकर राम का हर्षित होना—२८०; ३० राघवों का सुवेलाद्रि पर पहुँचना—२८१; ३१ कैकसी का हितोपदेश—२८२; ३२ शुक तथा सारण का राम की सैन्य-शक्ति का परिचय पाना—२८४; ३३ सारण का रावण को कपियों का परिचय देना—२८५; ३४ शुक का रावण को राम का पराक्रम सुनाना—२८७; ३५ राम के माया-धनुष तथा सिर दिखाकर सीता को भयभीत करना—२८८; ३६ माल्यवान् का हितोपदेश—२९०; ३७ सुवेलाद्रि पर से राम-लक्ष्मण का लंका को देखना—२९२; ३८ रावण तथा सुग्रीव का द्वंद्व-युद्ध—२९३; ३९ अंगद का दौत्य—२९५; ४० रावण का अपना वैभव प्रदर्शित करना—२९७; ४१ रामका रावणके छत्र-चामरों पर अस्त्र चलाना—२९८; ४२ रावण का राम की धनुर्विद्या का प्रशंसा करना—२९९; ४३ वानरोंका लंका ध्वंस करना—२९९; ४४ राक्षसों तथा वानरों का भीषण संग्राम—३००; ४५ युद्धभूमि का वर्णन—३०२; ४६ इन्द्रजीत का माया-युद्ध—३०४; ४७ नाग-पाशबद्ध दाशरथियों को देख सीता का दुःखी होना—३०६; ४८ लक्ष्मण के लिए राम का विलाप करना—३०८; ४९ विभीषण तथा अंगद का वानरों को धैर्य देना—३०९; ५० नारद का आगमन—३१०; ५१ राघवों का नाग-पाश से मुक्त होना—३१०; ५२ धूम्राक्ष का युद्ध—३१२; ५३ अकंपन का युद्ध—३१३; ५४ महाकाय का युद्ध—३१५; ५५ अंगद के द्वारा महाकाय का संहार—३१६; ५६ प्रहस्त का युद्ध—३२०; ५७ नील के द्वारा प्रहस्त का वध—३२२; ५८ मंदोदरी के हित-वचन—३२३; ५९ मंदोदरी की मंत्रणा की उपेक्षा करना—३२४; ६० रावण का प्रथम युद्ध—३२४; ६१ विभीषण का राम को राक्षस-वीरों का परिचय देना; ६२ हनुमान् का रावण से युद्ध करके मूर्च्छित होना—३२७; ६३ नील का रावण से युद्ध करना—३२८; ६४ रावण का ब्रह्मशक्ति से लक्ष्मण को गिराना—३२९; ६५ राम-रावण का प्रथम युद्ध—३३०; ६६ रावण का खिन्न होकर लंका लौट जाना—३३१; ६७ राक्षसों का कुंभकर्ण को जगाना—३३१; ६८ राघवों की युद्ध-यात्रा पर कुंभकर्ण का क्रुद्ध होना—३३३; ६९ कुंभकर्ण का शाप-वृत्तांत—३३५; ७० कुंभकर्ण का हितोपदेश—३३६; ७१ रावण का कुंभकर्ण के उपदेश का तिरस्कार करना—३३८; ७२ कुंभकर्ण की गर्वोक्तियाँ—३३९; ७३ कुंभकर्ण का युद्ध के लिए जाना—३४०; ७४ वानर-कुंभकर्ण का युद्ध—३४१; ७५ कुंभकर्ण और हनुमान् का युद्ध—३४४; ७६ सुग्रीव तथा कुंभकर्ण का युद्ध—३४५; ७७ कुंभकर्ण का मूर्च्छित सुग्रीव को लंका ले जाना—३४५; ७८ कुंभकर्ण का वानर-सेना को तहस-नहस करना—३४६; ७९ विभीषण कुंभकर्ण और का

वात्सलाप—३४८; ८० श्रीराम के द्वारा कुंभकर्ण का संहार—३५०; ८१ कुंभकर्ण की मृत्यु पर रावण का शोक—३५१; ८२ अतिकाय तथा महोदर आदि राक्षसों की युद्ध-यात्रा—३५२; ८३ अंगद तथा नरांतक का द्वंद्व-युद्ध—३५५; ८४ देवांतक तथा त्रिशिर का अंगद पर आक्रमण करना—३५६; ८५ हनुमान् आदि वीरों के द्वारा त्रिशिर आदि राक्षसों का वध—३५६; ८६ अतिकाय का युद्ध—३५७; ८७ लक्ष्मण तथा अतिकाय का द्वन्द्व-युद्ध—३६०; ८८ अतिकाय का वध—३६१; ८९ इंद्रजीत का द्वितीय युद्ध—३६२; ९० ब्रह्मास्त्र से इंद्रजीत का राम-लक्ष्मण आदि को मूर्च्छित करना—३६४; ९१ हनुमान् का ओषधी-शैल लाकर वानरों की मूर्च्छा दूर करना—३६६; ९२ वानरों का लंका जलाना—३६८; ९३ कुंभ-निकुंभ का युद्ध के लिए प्रस्थान—३६९; ९४ सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध—३७२; ९५ मकराक्ष का युद्ध—३७३; ९६ इंद्रजीत का तृतीय युद्ध—३७४; ९७ इंद्रजीत का होम करना तथा कृति नामक शक्ति प्राप्त करना—३७५; ९८ रामका आग्नेय अस्त्र से इंद्रजीत की मायाको दूर करना—३७६; ९९ इंद्रजीत का यज्ञ करके रथ प्राप्त करना—३७८; १०० इंद्रजीत का माया-सीता का सिर काटना—३८१; १०१ इंद्रजीत का निकुंभिल-यज्ञ करना—३८२; १०२ लक्ष्मण का शोक—३८३; १०३ इंद्रजीत की माया को विभीषण का राघवों को समझाना—३८४; १०४ लक्ष्मण का युद्ध के लिए प्रस्थान—३८५; १०५ निकुंभिल-होम में विघ्न—३८५; १०६ लक्ष्मण तथा इंद्रजीत का परस्पर तिरस्कार के वचन कहना—३८६; १०७ इंद्रजीत तथा लक्ष्मण का युद्ध—३८७; १०८ इंद्रजीत का वध—३९०; १०९ इंद्रजीत की मृत्यु पर रावण का शोक—३९३; ११० रावण का सीता का वध करने के लिए जाना—३९४; १११ इंद्रजीत की स्त्री सुलोचना का शोक—३९५; ११२ सुलोचना का राम की स्तुति करना—३९७; ११३ सुलोचना का सहगमन—३९९; ११४ रावण का अपनी प्रधान सेना को युद्ध के लिए भेजना—४००; ११५ वानर-सेना को हनुमान् आदि का प्रोत्साहन देना—४०२; ११६ राक्षस-स्त्रियों का रावण की निन्दा करना—४०३; ११७ रावण का द्वितीय युद्ध—४०५; ११८ सुग्रीव के द्वारा विरूपाक्ष आदि राक्षसों का वध—४०७; ११९ रावण का राघवों पर आक्रमण करना—४०९; १२० रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्च्छित होना—४११; १२१ रावण का चिंतित होना—४१२; १२२ लक्ष्मण की मूर्च्छा पर राम का शोक—४१४; १२३ संजीवनी लाने के लिए हनुमान् का द्रोणाद्रि को जाना—४१५; १२४ कालनेमि का वृत्तांत—४१६; १२५ मकरी का हनुमान् को निगल जाना—४१८; १२६ धान्यमालिनी का वृत्तांत—४१९; १२७ कालनेमि का वध—४२१; १२८ भरत का स्वप्न—४२२; १२९ हनुमान् का माल्यवान् से युद्ध करना—४२३; १३० लक्ष्मण के लिए राघव का शोक—४२४; १३१ हनुमान् का द्रोण-पर्वत ले आना—४२६; १३२ संजीवकरणी से लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर होना—४२७; १३३ रावण का शुक्राचार्य से परामर्श करना—४२९; १३४ पाताल-होम—४२९; १३५ अंगद का मंदोदरी को रावण के पास घसीटकर लाना—४३१; १३६ रावण को मन्दोदरी का राघव की

महिमा बताना—४३३; १३७ रावण का तृतीय यद्ध के लिए प्रस्थान—४३५; १३६
 वानरों के द्वारा खड्गरोम आदि राक्षसों का वध—४३७; १३६ इन्द्र का मातलि के
 द्वारा राम को रथ भेजना—४३८; १४० राम का रावण के बाणों का प्रतिबाण चलाना—
 ४४०; १४१ रावण का राम पर शूल चलाना—४४०; १४२ अगस्त्य के द्वारा
 राम को आदित्यहृदय का उपदेश—४४१; १४३ राम-रावण का परस्पर दोषारोपण—
 ४४२; १४४ रावण की मूर्च्छा—४४३; १४५ रामका रावण के कर चरणों को खंडित
 करना—४४५; १४६ आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से रामका रावण को शक्तिहीन कर
 देना—४४७; १४७ ब्रह्मास्त्र से रावण का वध—४४८; १४८ विभीषण का शोक—
 ४४९; १४९ मृत रावण के निकट मंदोदरी का आना—४४९; १५० मंदोदरी का
 विलाप—४५१; १५१ राम का विभीषण के द्वारा रावण की अंत्येष्टि कराना—४५३;
 १५२ विभीषण का राजतिलक—४५४; १५३ हनुमान् का सीता को राम की विजय
 का समाचार देना—४५४; १५४ राम के आदेश से विभीषण का सीता को लिवा
 लाना—४५५; १५६ सीता का अग्नि-प्रवेश—४५७; १५७ सीता-परिग्रहण — ४५८;
 १५८ दशरथ के दर्शन—४५९; १५९ देवताओं का अभिनन्दन—४६०; १६० पुष्पक-
 आरोहण—४६१; १६१ श्रीराम का सीता को विभिन्न दृश्यों को दिखाकर समझाना—
 ४६२; १६२ राम के द्वारा शिवलिंग का प्रतिष्ठापन—४६३; १६३ श्रीराम का
 सेतु की महिमा बताना—४६५; १६४ भरद्वाज मुनिका आतिथ्य—४६७; १६५ हनुमान्
 का भरत को राघवों का कुशल-समाचार सुनाना—४६९; १६६ भरत-मिलाप—४७१;
 १६७ अयोध्या में प्रवेश—४७३; १६८ राजतिलक—४७४; १६९ मित्रों को प्रीतिभोज
 देना—४७५ ।

रंगनाथ रामायण

श्रीरंगनाथ समायण

(बालकांड)

१. देव-स्तुति

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरं ।

एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् ॥

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे,

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥

श्रीलक्ष्मीनाथ, दैत्य-विजयी, लोक-रक्षक, नित्य, सदानंद, मोक्षदायक, कर्म-रहित, मृष्टि के स्वयंभूत आधार, हृदय-कमल में स्थित भक्ति-रूपी आनन्द को व्यक्त करने के साधन-क्रम में तत्पर भ्रमर-रूपी भगवान्, गजराज को मोक्ष प्रदान करनेवाले, अपने आश्रित-लोक के बंधु, संसार के बंधनों से मुक्ति देनेवाले, वलि को बाँधने का दृढ़ संकल्प करनेवाले, प्रणव-रूप, गोपिकाओं के हृदय में विहार करनेवाले, अबोध-गम्य आकारवाले, निराकार, योगियों के हृदय में ओंकार-रूप में वर्तमान, योगिसंदर्शित, मोक्ष-प्रचारक, श्रुतियों के शिरोमणि, विशुद्ध-चैतन्य स्वरूप, अतिलोकवासी, समस्त लोकों का आश्रय, ब्रह्माण्डरूपी मुक्ता का आयतन, नित्याधार, अखिल तत्त्वातीत, आदि-अंत-रहित, पवित्रात्मा, अविनाशी, वेद-रूपी कमल के लिए सूर्य, अक्षीण कल्याणों का आधार, निश्शंक मन से सद्भक्ति तथा सेवा करनेवाले भक्तों के लिए दया-सिंधु, करुणा-सिंधु, बोधक, बोध्य तथा बोध—इन तीनों में व्यक्त होनेवाले पूर्ण-रूप,

आदितत्व, 'तत्त्वमसि' आदि कथनानुसार भेदातीत, अभेद, प्रतापी परमेश्वर का (भक्ति-युक्त ध्यान करने के निमित्त) मैंने अत्यंत धैर्य के साथ नियमों का पालन किया; कर्म के बंधनों को ठुकराया, एकांत में रहते हुए इन्द्रिय-व्यापारों को भुला दिया; सुस्थिर होकर सुलभ-साध्य तथा परिचित आसन (सुखासन) पर उपविष्ट हुआ, मन को भक्ति-रस-परिपूर्ण बनाया; (शरीर के भीतर रहनेवाली) वहतर नाड़ियों का विचार करके उनका परिमार्जन किया, एकचित्त तथा निर्मल मन से नाड़ियों में अत्यंत सूक्ष्म रूप से व्याप्त पवन को रोका, मन को निश्चल बनाकर निरुद्ध प्राण-वायु को मूलाधार-चक्र में प्रविष्ट कराया और उसे क्रमशः छह कमलों को पार कराते हुए चंद्रमंडल में पहुँचाया। वहाँ योगीन्द्रो के हृदय का भेद परखने के लिए परम-व्योम के रूप में स्थित अनादि ब्रह्म-स्वरूपा, अत्यंत सूक्ष्म तथा निर्मल नाड़ी को यूप, अविचल मन को यज्ञ-पशु, निष्ठानुरक्ति को वेदी, समस्त इन्द्रियों को काष्ठ, ज्ञान को अखंड अग्नि तथा आनंद-योग को यज्ञ-फल के रूप में मानते हुए इच्छित-आनंद-प्राप्ति के हेतु, कर्म के द्वारा प्राप्त होनेवाले मोक्ष रूपी परमेश्वर, अगोचर, कर्म-रहित, हमारे देव, कमलनेत्रवाले, हमारे पालनहार, आदि नारायण तथा अखिल लोकाधीश की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना एवं वंदना की। अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के निमित्त हार, कर्पूर, नीहार, गोक्षीर तथा तारकों के सदृश उज्ज्वल शारदा देवी की उपासना की; चार रामायण-रूपी चंद्र के जन्म-स्थान के रूप में विलसित होनेवाले वाल्मीकि का स्मरण किया, भारत-रूपी मंजरी के पारिजात, तत्त्ववेत्ता पराशर-पुत्र का स्मरण किया और उनके पुत्र शुक्रदेव की बड़ी भक्ति से स्तुति करने के पश्चात् मैं अपने मन में एक ऐसे ग्रन्थ की रचना करने का विचार करने लगा, जिसकी कथा के कथन से सभी सज्जन मेरा कीर्ति-गान करेंगे, जिसकी कथा का वर्णन करने से मेरे इह-लोक और पर-लोक दोनों सफल होंगे और जिस कथा के कथन से ईप्सितार्थ सिद्ध होंगे और साथ-ही-साथ पुण्य की प्राप्ति होगी।

2. ग्रन्थ-रचना का कारण

सृष्टि के समस्त प्राणी, जिस पुण्यात्मा की प्रशंसा बड़े आदर से करते हैं; जो सदा-चार के पुण्य-फलस्वरूप सूर्य के समान उदित होकर कलिकाल का अंधकार दूर करते थे; जो श्रेष्ठ धर्म-पथ का महत्त्व जानते थे, जिनके पवित्र तेज के समान शत्रु-रूपी नक्षत्रों के प्रकाश मंद पड़ जाते थे; जिन्होंने अपने खड्ग की दीप्ति-रूपी गंगा-प्रवाह में अन्य राजाओं के ललाट में लंगे गर्व-पंक को धो दिया था; असमान बलशाली; सत्यनिष्ठ; शरणार्थी राजा-रूपी भूमरों के लिए (जिनका कर-कमल) आधार था; ऐसे कोनकाट भूपति के वंश की कीर्ति बढ़ाते हुए नय, विनय, दया के आगार महाराजा के पुत्र गोनरुद्र नरेन्द्र महान प्रतापी तथा पवित्रात्मा थे। उनके पौत्र बुद्ध भूपाल-अभंग, अप्रतिम विक्रमी, कुल-गोत्र के संबद्धक, देवेन्द्र के समान वैभवशाली, धीर और विख्यात थे। उनके पुत्र अक्षीण दाक्षिण्य-घनी (अर्थात् अक्षीण कृपावाले), धन-धान्य में कुबेर, मर्म में धर्मराज (युधिष्ठिर) के समान अति-पुण्य सौजन्य-शील, शत्रुओं के लिए अति शौर्यवान् वामदेव कार्तिकेय, शुभजन्मा, कामिनियों के लिए कामदेव, अखंड विक्रमी और रण-विशारद थे। वे चंदन, मंदार-चंद्रिका-हार, कदली, कुंद, इंद्रु सम उज्ज्वल कीर्तिमान्, गोनवंश-रूपी पारिजात के फल-स्वरूप

दीखनेवाले, गोनवंश-रूपी उदयाद्रि पर भानु-सम दीप्त होनेवाले, गोनवंश-रूपी क्षीरसागर के (उत्पन्न) चंद्र सम सुशोभित, अपनी कीर्ति को दिग्-दिगंतों में व्याप्त करनेवाले, अपने दान-धर्म के द्वारा सबकी प्रशंसा प्राप्त करनेवाले, अपने असमान पौरुष से बड़ी आसानी से शत्रुओं का नाश करनेवाले, महा बलशाली एवं प्रतापी राजाओं के लिए वज्रपाणि सम दीखनेवाले, (शत्रु) नृप-वन के लिए साक्षात् अग्निदेव, सत्यनिष्ठ, महाबलशाली शत्रु-सेनाओं को मथने में मंथर पर्वत की भाँति प्रचंड रूप धारण करनेवाले, अपने खड्ग-रूपी सूर्य-बिम्ब की प्रभा से प्रतापी राजा-रूपी अंधकार का नाश करके अमर-वधुओं के मुख-कमलों को वीर-भ्रमरों से अलंकृत करनेवाले, शत्रुओं के प्राण-रूपी अनिल का सेवन करनेवाले श्रेष्ठ भुज-भुजंगों (सर्प-रूपी भुजाओं) पर राज्य-भार वहन करनेवाले थे, वे कुरु, केरल, अवंती, कुतल, द्रविड़, मरु, मत्स्य, कुरुष, मगध, पुर्लिद, सरस, पाण्ड्य, कोसल और बर्बर की राज-सभाओं में प्रशंसा प्राप्त करनेवाले, साम-दाम-भेद आदि नीतियों में निपुण, प्राचीन राजाओं के समान समस्त वैभवों से युक्त तथा नय, विनय आदि उपायों से सुस्थिर विजय प्राप्त किये हुए, यशस्वी विट्टलनरेश, राजाओं में सर्वज्ञ, नरेशों से पूजित, सफल जगद्धित-चातुर्य-धुरी, एक दिन अपनी राज-सभा में बैठे हुए थे । उस समय पुराणवेत्ता, शास्त्रज्ञ, काव्य-नाटक-शिरोमणि, मित्र, मंत्री, पुरोहित, आश्रित, पुत्र, सामंत राजा और बहुश्रुत उनकी सेवा में उपस्थित थे । राजा भूलोक के देवेन्द्र के समान बड़े उत्साह से रसिकजनों द्वारा भारत, रामायण आदि का पाठ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ।

तत्पश्चात् वे रसिक-शेखर (राजा) राम-कथा-सुधा से अनुरक्त हो, सभा में यों बोले—
‘तेलुगु में रामायण को सुदर ढंग से कहने की कविता-शक्ति रखनेवाले कवि इस संसार में कौन हैं ?’ तब पंडितों ने उस उदात्त, यशस्वी विट्टलनरेश से कहा—

(महाराज) आपके सुपुत्र, निपुण, पापरहित, नीति-निष्ठ, सर्वज्ञ, अनघ, शिष्ट-संपन्न, सर्वपुराणवेत्ता, सुदर कलाओं के मर्मज्ञ, सज्जनों को आश्रय देने में ही सुख का अनुभव करनेवाले, कविसार्वभौम, कवि-कल्पतरु, कवि-कुल-भोज, कवीन्द्र, शत्रु-राजाओं के लिए वज्र-पाणि, शत्रु राजा-रूपी वन के लिए प्रचण्ड पावक के समान दीखनेवाले, जिनके भयंकर खड्ग में स्वर्गलोक तक प्रतिबिंबित है, त्रिलोक-दुर्दम, श्रेष्ठ-साधु-जन-रूपी कमलों के लिए सूर्य, पुरुषश्रेष्ठ, आपके परम भक्त, निखिल शब्द, अर्थ, गुण आदि के ज्ञाता, महापंडित, रामायण के मर्मज्ञ बुद्ध-नरेश (रामायण की कथा तेलुगु में कहने के) कविता-शक्ति रखते हैं । (काव्य रचने के लिए) आप उन्हें आदेश दें ।”

यह सुनकर उदात्त चरित्रवाले मेरे जनक ने मुझे बड़े स्नेह से वुलाकर यह आदेश दिया—‘रामायण की कथा पुराणों के ढंग पर तेलुगु भाषा में मेरे नाम पर लिखो कि संसार के कवि और पंडित उसकी प्रशंसा करें ।’ उनके मृदु वचनों से अत्यंत हर्षित होकर उनकी आज्ञा का पालन करने के हेतु शत्रुओं के लिए भयंकर मूर्ति, महान्, ललितसद्गुणालंकारवाले, निश्चल दयालु, धन्यात्मा तथा पुण्यात्मा मेरे पिता विट्टलनरेश के नाम पर श्रीरामचन्द्र का चरित्र, इस ढंग से लिखूंगा कि राजा, पंडित, रसिक, सुकवि श्रेष्ठ, गोष्ठियों में (उसे सुनकर) हर्षित होकर उसकी प्रशंसा करेंगे और जिसमें, शब्द, अर्थ, भाव,

गति, पद, शय्या, अर्थ-गौरव, यति, रस, कल्पना, प्रास, असमान रीतियाँ आदि होंगे और आदि कवि वाल्मीकि की कृपा से सभी सज्जन मेरी प्रशंसा करेंगे । कथा का प्रारंभ यों है—

३. कथा का प्रारंभ

एक दिन श्रेष्ठ तपस्वाध्याय-निरत, महान् शीलवान् मुनिश्रेष्ठ नारद से, अनघ, तपोनिधि वाल्मीकि ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया—“हे मुने, आप कृपया बतलाइए कि इस संसार में, श्रामान्, क्षमाशील, पुण्यात्मा, उन्नत, नीतिज्ञ, प्राज्ञ, दुर्दम, उत्तम, जितकाय, अजेय, ईर्ष्याहीन, संपन्न, सुव्रती, उदार और चरित्रवान् कौन है ? किसके क्रोध से इंद्रादि देवता डरते रहते हैं ? ऐसा व्यक्ति क्या, कभी हुआ है या आगे चलकर इस पृथ्वी पर जन्म लेनेवाला है ?”

यह सुनकर लोकज्ञाता नारद मुनि ने अपने मन में बहुत देर तक सोच-विचार कर कहा—“इस पृथ्वी पर श्रीविष्णु, महाराज दशरथ के यहाँ जन्मे हैं । वे नियतात्मा, अति-ज्ञौर्यनिधि, कृपानिधि, जयी और स्वजनों की रक्षा में विचक्षण हैं । वे कंबु-कंधर, सुदराकार, बिंबारुण ओष्ठ, पीन वक्ष, विशाल-नेत्र, विशाल अवतस और आजानुबाहु हैं । वे नियतात्मा, वेदवेदांग-कोविद, वेदविद्, विवेकभूषण, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान गंभीर, अमराद्रि के समान धीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं । उनकी मूर्ति (लोगों को) अपनी ओर आकृष्ट करती है । वे कौसल्या के आनंद-दाता, श्रीकर, दीप्तिमान्, त्रिलोक-पावन मूर्ति, राम के नाम से अवतरित हुए हैं ।

राजर्षि (विश्वामित्र) के (रामचंद्र को) माँगने तथा राजा के भेजने पर वे मुनि के साथ गये । (उन्होंने) यज्ञ की रक्षा की, दानवी का नाश किया, राक्षसों का संहार किया, शिला को स्त्री बनाया, शिव-धनुष को तोड़ा और सीताजी से विवाह करके बड़ी ख्याति पाई । सीताजी के साथ अयोध्या जाते समय बड़े क्रोध से विप्र (परशुराम) ने आकर उन्हें रोका, तो वे उनसे जूझ पड़े और उनका धनुष छीनकर उसे तोड़ डाला । उसके बाद सब लोगों के हृदयों को आनंद से भरते हुए वे अयोध्या पहुँचे ।

जब पिता ‘(राम को) युवराज बनाऊँगा’—ऐसा कहकर अयोध्या का राज देने को उद्यत हुए, तब ढीठ मंथरा ने कैकेयी के कान भरे । कैकेयी पहले ही युद्ध में दो वर प्राप्त कर चुकी थी । (राजा ने) राघव को कानन में भेज दिया । पिता के वचन से बँधकर, वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन में गये, जहाँ उन्होंने बड़े उत्साह से वनों में तपस्या करनेवाले संयमी मुनियों की रक्षा की, खर-दूषणादि राक्षसों के सर शरों से काट डाले, ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता की, एक ही बाण से वालि का संहार किया, (सीता को पुनः प्राप्त करने का) दृढ़ निश्चय करके सेतु को बाँधा तथा पापी दशकंठ के दसों सिर काट डाले ।

उसके पश्चात् आश्रितों के कल्पवृक्ष रामचंद्र, सीता के साथ, वनचर-समूह तथा इंद्रादि देवताओं द्वारा स्तुति किये जाते हुए और सेवा प्राप्त करते हुए, (अयोध्या) आये और अपनी पूज्य साम्राज्य-लक्ष्मी का पालन करते हुए तथा प्रजा को सुख पहुँचाते हुए कृत-कृत्य हुए हैं ।”

ईस प्रकार श्रीराम का चरित्र अथ से इति तक कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गये । मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि अत्यंत हर्ष से अपने शिष्य भरद्वाज के साथ सज्जनता की मूर्ति, अकलुष ज्ञान-गुण-तमसा नदी के तट पर गये और उस नदी के जल से अपने अनुष्ठान का पालन करते रहे । उस नदी के किनारे (पेड़ पर) कौच पक्षियों का एक जोड़ा बड़े प्रेम से मिलकर बैठा था । एक व्याध ने जब उनमें से एक को मार गिराया, तब कौची शोक से विलाप करने लगी । यह देखकर न्याय और धर्म का विचार करके मुनि उस व्याध पर क्रोध करते हुए बोले—“हे निषाद, हे पापी, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ? जब ये कौच बड़े प्रेम से मिले, तब तुमने इस प्रकार एक को क्यों मार गिराया ? इस पाप के कारण तुम बहुत दुःख प्राप्त करते हुए अनेक वर्षों तक भटकते रहोगे ।”

इस प्रकार व्याध को शाप देकर वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से छन्दोबद्ध शब्दों में कहा—“मेरे द्वारा कहे हुए वचनों पर बार-बार विचार करने पर मालूम होता है कि इन चार समवर्ण पंक्तियों में छन्दोबद्धता है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ये शाप के वाक्य अपने आप एक पद्य के रूप में प्रकट हुए हैं ।” तब भरद्वाज आदि शिष्य बड़ी भक्ति से उस पद्य को (दुहराने) पढ़ने लगे । अनघ वाल्मीकि अपने आश्रम को लौट आये ।

एक दिन ब्रह्मा उनके आश्रम में आये । वाल्मीकि ने उनकी अगवानी की, चरणों पर झुककर नमस्कार किया, कुशासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर अपने मुँह से निकले छन्दोबद्ध शाप-वचन उन्हें सुनाया । तब ब्रह्मा ने मुस्कराकर कहा—“हे अनघ, यह वाणी पद्य के रूप में आपके मुख से व्यक्त हुई है । नारद ने सारा राम-चरित मुझे संक्षेप में कह सुनाया है । आप उसको विस्तार के साथ सुनाइए । अपने आप वह चरित्र आपको सूझ जायेगा ।” यों कहकर ब्रह्मा चले गये ।

इस प्रकार बड़ी कृपापूर्वक कमलासन के वर देकर चले जाने के पश्चात् मुनि ने निर्मल मति से ध्यान लगाकर सोचा और रघुचरित, दशरथ की कथा, रघुराम का जन्म, राम का आचरण, ताड़का-वध, उद्दण्ड राक्षसों का गर्व-भंग, यज्ञ-रक्षा, गंगा का महत्त्व, गौतम की स्त्री का शाप-मोचन, धनुर्भंग, सीता-विवाह, अयोध्या जाते समय परशुराम का क्रोध, राम के युवराज्याभिषेक की तैयारी, दुष्ट स्त्री कैकेयी के कटुवचन, अभिषेक में विघ्न, राम-वन-गमन, राजा का शोक, दशरथ की मृत्यु, दाशरथि से गुह की भेंट, गंगा पार करना, तपोनिधि भरद्वाज से (राम की) भेंट, चित्रकूट पर्वत पर पहुँचना, भरत और राम की भेंट और उनका पादुका प्राप्त करके लौट जाना, दंडकवन-गमन, प्रचंड विराध का वध, पुण्यात्मा शरभंग के दर्शन, मुनियों को वचन देना, अगस्त्याश्रम में पहुँचना, दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति, मुनि के आदेशानुसार पर्ण-कुटी बनाकर निवास करना, (राम पर) मुग्ध होकर राक्षसी (शूर्पणखा) का आना, उसके साथ वार्त्तालाप, रामानुज के द्वारा उसका नाश, उधर रावण का बुद्धि-भ्रष्ट होना, कुटिल मारीच की मृत्यु, राक्षसराज (रावण) के द्वारा सीता-पहरण, राम का विलाप, जटायु की मृत्यु, कबंध से भेंट, पंपासरोवर को गमन, ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से भेंट, उससे मित्रता, बालि-सुग्रीव के वार का कारण जानना, श्रीराम का एक साथ

सातों ताड़ के पेड़ों को काट देना, बालि का वध, दारा का विलाप, रविपुत्र (अंगद) का राज्याभिषेक, माल्यवंत में उस पुरुषोत्तम का वर्षा-काल बिताना, काकुत्स्थ (राम) का कोप, कपियों का आना, अंगूठी देकर (उन्हें) भेजना, वानरो के द्वारा सीता का अथक अन्वेषण, बिल का दर्शन, महेन्द्रगिरि का आरोहण, संपाती से भेंट, समुद्र को लॉघते समय बीच में मैनाक के दर्शन, सिंहिका की वायुपुत्र से मुठभेड़ और उसकी मृत्यु, लंका राक्षसी को तंग करना, उस स्त्री से लंका का मार्ग जानकर लंका में प्रवेश करना, अंतःपुर में सीता की खोज, अशोकवन का अवलोकन, वहाँ सीताजी का सदर्शन, विश्वास दिलाने के लिए अंगूठी देकर उन्हें सान्त्वना देना, अशोकवन को उजाड़ना, उस समय हनुमान् का अक्षयकुमार को मार डालना, पवनसुत का बंधन में पड़ना, लंका नगर को जलाना, मानिनी सीता का चूड़ा-मणि देकर श्रीराम तथा हनुमान को उत्साहित करना, सूर्यकुलाधिप (श्रीराम) का लंका पर आक्रमण करना, समुद्र-तट पर पहुँचना, समुद्र का मार्ग देने से इनकार करना, श्रीराम का क्रोध, विभीषण का आगमन, विभीषण के दुःख से राम का दुःखी होना, सेतु-बंधन, जलधि को पार करना, सेना को (उचित स्थानों पर) नियुक्त करना, पराक्रम के साथ कुंभकर्ण आदि उग्र वीरों को मार डालना, रावण का वध करना, दया से विभीषण को लंकाधिपति बनाना, अनुपम शुद्धि (सीता का अग्नि-प्रवेश), ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रशंसित होते समय सीताजी की रामचंद्रजी से भेंट, पुष्पक विमान में बड़े कुतूहल के साथ समुद्र पार करना, सेतु पर श्रीकंठ को प्रतिष्ठित करना, अयोध्या को लौट आना, भरत-मिलन, अद्वितीय ढंग से रघुराम का सिंहासनारूढ़ होना, कपि सेनापति, सुग्रीव, विभीषण आदि को विपुल संपत्ति देकर विदा करना, बड़े प्रेम से सब प्रकार से प्रजा की रक्षा करते हुए उनका पालन करना, आदि सब बातें अच्छी तरह जानकर चौबीस हजार श्लोकों और पाँच सौ सर्गों में तथा छह कांडों में रामायण की रचना की ।

बाद की कथा उत्तर-काण्ड में लिखकर वाल्मीकि मुनि सोचने लगे कि कौन इस कथा का पाठ करने में समर्थ होंगे और पृथ्वी में यह कथा कैसे फैलेगी ? उसी समय, शुद्धात्मा, मनसिजाकारवाले, मज्जुभाषी, संगीत-साहित्य-वेत्ता, मुनिवेषधारी कुश और लव उनके पास आये और हाथ जोड़कर बोले—'हे अनघ, हम बड़े उत्साह से रामायण पढ़ने आये हैं, हमें पढ़ाइए ।' (यह सुनकर) हर्षित होकर मुनि ने सोचा, मेरा मनोरथ पूरा हो गया । उन्होंने राम का चरित्र, जो गेय, पठनीय तथा पुण्यदायक है, तंत्री-लयान्वित रीति से उन्हें पढ़ाया । उन्होंने भी श्रृंगारादि रस, वृत्ति-भेद, संधि, समास, शब्द और अर्थ जानते हुए उसका अध्ययन किया और स्थान-स्थान में, मुनि-समाजों में उसका गान करते हुए उनकी प्रशंसा पाते रहे । काकुत्स्थवल्लभ (राम) ने भी अपने भाइयों के साथ बड़े कुतूहल से उन्हें सभा में बुला भेजा । उनके रूप, उनकी स्थिरता, उनकी वाणी आदि (श्रीराम को) बहुत प्रिय लगे । श्रीराम कथा सुनने लगे । वह कथा इस प्रकार है—

४. कुशलव का रामायण-गान

कोसल-देश में सरयू नदी के किनारे, पृथ्वी के उरु-भाग के समान अयोध्या नगर सुशोभित था। वह बारह योजन लंबा, पाँच योजन चौड़ा था और शिल्प-निपुण मय द्वारा निर्मित था। वह शत्रु-राजाओं की आँवों में खटकनेवाला नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी था। वह रत्नमय गोपुर, मणिमय तोरण, मणिमय कुट्टिम (फर्श), गवाक्ष, क्रीडा-गृह, कृत्क शैल (बनावटी पर्वत), पटह-नाद (नगाडे की आवाज), विशालकाय हाथी, उत्तम घोड़े, नाना प्रकार के रथ-समूह, सेना, स्वच्छ सौध, बाजार, कमनीय उपवन, सरोवर, तालाब, बावड़ी ऊँच के खेत, धान के खेत, गहरी खाई तथा महलो से भरा हुआ संसार-भर में विख्यात था। उस नगर में दशरथ नामक राजा राज्य करते थे, जो धनुर्विद्या में निपुण, साम, दाम, भेद आदि चार उपायों के ज्ञाता, (भगवान् के ऐश्वर्य आदि) षड्गुणों के आगार, (इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया) शक्तित्रय-संधानकर्त्ता, धर्मनिरत, कृताध्वर (जिसने यज्ञ किया है), श्रीसंपन्न, धर्मशास्त्र, पुराणादि के ज्ञाता, अजनंदन, बाल्यावस्था से नियमानुकूल प्रजा का पालन करते रहनेवाले परमपवित्र व्यक्ति, इन्द्र के निमित्त शंबरासुर का गर्व भंग कर इंद्र से मंदार-पुष्पों को प्राप्त करनेवाले, इन्दुमती के पुत्र और सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा थे।

वे तेज, कांति, त्याग, चातुर्य, उदारता, साहस, आदि सद्गुणों के भांडार थे। वे उदित होते हुए सूर्य की भाँति अपने उग्र तेज से सप्त द्वापों को दीप्त करते हुए शासन करते थे। उस नरनाथ के तीन सौ पचास रानियाँ थी, जिनमें विशेष कर अचल शील-वाली कौसल्या, कुचकुंभ-निर्जित परिधानवाली कैकेयी, पुण्यशीला सुमित्रा त्रयी विद्याओं के समान थी। इस पृथ्वी पर उनके हितैषी पुरोहित वसिष्ठ आदि पुण्य संयमी थे। पुण्यात्मा धृष्टि, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, जयंत, नीतिवेत्ता अशोक, धीमान् मंत्री सुमंत्र आदि उनके आठ सचिव थे। सभी सचिव परस्पर मित्र और स्वामिकार्य में विचक्षण और चतुर थे। वे परम मर्मों के उद्घाटन में निपुण थे और विचार-पूर्वक प्रजा की रक्षा करते थे। समस्त कार्यों को सँभालनेवाले ऐसे आठ मंत्रियों से युक्त राजा दशरथ अष्टाक्षर और अष्ट-भुजाओं से समन्वित नारायण की तरह सुशोभित थे। उनके राज्य में निर्बल, चुगलखोर, रोगी, दरिद्र, व्यभिचारी, अनाचारी, पापी, क्रूर, नीच, जड़, मूर्ख, मंद, एक भी व्यक्ति नहीं था। सारी प्रजा मणि-कुंडल आदि से अलंकृत, धर्मपरायण, कुलाचार-निरत, सकलशास्त्र-पारंगत तथा विष्णु-भक्त थी। इस प्रकार बड़ी कुशलता से राज्य का पालन करते और राज्य-सुख भोगते हुए राजा दशरथ एक दिन अपने मन-ही-मन इस प्रकार सोचने लगे।

५. पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने के लिए दशरथ का मंत्रियों से परामर्श

राजा दशरथ अपनी निस्संतान अवस्था का तथा अपनी ढलती आयु का विचार करते हुए बहुत दुःखी हुए। उन्होंने अपने सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुला भेजा और उन्हें उचित आसन पर बैठने का आदेश देकर स्वयं भी आसन पर बैठ गये। और, उनसे इस प्रकार कहने लगे—“मैंने बहुत दान दिये, अनेक धर्म-कार्य किये, कई यज्ञ किये और बहुत

सालों से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । मैंने बड़ी कीर्ति पाई है । तुम्हारे जैसे स्नेही मंत्रियों के रहते हुए मुझे किसी बात का अभाव नहीं है । पुत्र-हीन होने का एकमात्र दुःख ही मुझे है । कुल का उद्धार करनेवाले पुत्रों के बिना कोई भी व्यक्ति पुण्य और स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं कर सकता । इसलिए मेरे भी पुत्र उत्पन्न होने चाहिए । समस्त संसार मेरी प्रशंसा करे, एतदर्थ मैं अश्वमेध यज्ञ करूँगा और उसके बाद पुत्र-कामेष्टि यज्ञ करूँगा । इन यज्ञों के कारण मेरा हित होगा और मैं जरूर पुत्र प्राप्त करूँगा । राजा के यों कहने पर वे सब बड़े सभ्रमचित्त होकर मन में हर्षित हुए । उन्हें प्रसन्न देखकर राजा मन में विचारकर बोले—

मैं अनुपम रीति से, बड़े विनय के साथ अश्वमेध यज्ञ करूँगा, जिसकी प्रशंसा देवता भी करेंगे और पुत्रों के लिए पुत्रकामेष्टि-यज्ञ नेत्र-पर्व रीति (दर्शकों की आँखों को तृप्ति देनेवाली रीति) से करूँगा । ऐसा कहकर उन्होंने आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए सब लोगों को भेजा । उसी समय अनघ वसिष्ठ आदि मुनि वहाँ आये । (राजा ने) दण्डवत की और बड़ी श्रद्धा से उन्हें लिवा लाये और उनसे बोले—हे महान् संयमी तथा पुण्यवान् वसिष्ठ ! यथाशीघ्र आप मुझसे श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ करवाइए, जिससे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो ।’ इस पर (मुनि बोले)—‘तुम्हारे द्वारा संपन्न होनेवाले अश्वमेध यज्ञ का निर्वाह हम करेंगे । उस श्रेष्ठ यज्ञ की महिमा का वर्णन करना क्या सहज है ? इसके अतिरिक्त पुत्र-कामेष्टि करने से तुम धन्यात्मा पुत्रों को प्राप्त करोगे ।’ यह सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने सबको विदा किया और रनवास में पहुँचकर सभी रानियों को यह शुभ संवाद सुनाया । तब से वे प्रसन्नचित्त रहने लगे । एक दिन अनघ सूत (सुमत्र) राजा के पास आकर एकान्त में यों कहने लगे—

६. ऋष्यशृंग का वृत्तान्त

सुमत्र ने कहा—‘हे महाराज, इसके पहले आपको संतान-प्राप्ति कैसे होगी, इस सम्बन्ध में मैंने एक कथा सुनी थी । आप उसे सुनें । अंगराज के पुत्र गुणवान् रोमपाद के राज्य में न जाने उनके किस अपराध से वर्षा नहीं हुई । अपने राज्य में कहीं भी वर्षा न होते देख राजा बहुत दुःखी हुए । उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों से वर्षा के निमित्त बहुत हवन करवाये; फिर भी वर्षा नहीं हुई । तब राजा को अत्यंत दुःख से पीड़ित देखकर मुनियों ने कहा—‘हे महीपाल ! हे राजचन्द्र ! इस पृथ्वी पर वर्षा होने के लिए हम शुक मन से आपको एक उपाय बतायेंगे । हे पर्वत के समान धीर ! परहितनिरत विभांडक के पुत्र पुण्यनिधि ऋष्यशृंग जन्म से नगर-ग्राम के सम्बन्ध में कोई ज्ञान न रखने के कारण स्त्रियों के नाम तक से अनभिज्ञ हैं । वे तपस्वी की वृत्ति में जंगलों में रहते हैं । हे वसुधेश ! उनके यहाँ आते ही अनावृष्टि-दोष तुरन्त दूर हो जायगा । इसपर राजा अपने मन में सोचने लगे कि उस मुनिश्रेष्ठ को नगर में कैसे ले आ सकूँगा । उन्होंने बुद्धिमान् मंत्रियों तथा मुनियों को बुलाकर बड़े प्रसन्न चित्त से पूछा । मुनियों तथा मंत्रियों ने भी बड़ी प्रसन्नता से उपाय बताये, तो राजा मन ही मन बहुत हर्षित हुए । मुनियों ने कहा—‘महाराज, अभी आप कई (प्रकार के) मिष्टान्न तथा सुन्दर वस्तुएँ देकर वेश्याओं को वन में भेजिए ।

वे प्रौढ कामिनियाँ सीधे वहाँ जाकर, अच्छी तरह उस मुनि के दर्शन करेंगी, उनकी महिमा देखेंगी, उन्हें मिष्टान्न देगी और बड़े प्रेम से उनके मन को विचलित करेंगी । वे कामिनियाँ अपनी विलास-चेष्टाओं से उनके मन को रसाद्रं बना देगी और अपने मोहक रूप की माया का प्रभाव डालकर यहाँ वापस आयेंगी । तब वे भी उनके पीछे-पीछे यहाँ आयेंगे ।

यों कहकर सभी मुनि चले गये । उस दिन रात्रि को राजा बहुत प्रसन्नचित्त रहे । सबेरे उठते ही राजा ने मुनियों का स्मरण करते हुए बड़ी अनुरक्ति के साथ अनुपम यौवन-रूप-संपन्न, कामदेव के मोहन मंत्र के सदृश सुन्दर तथा चतुर वेश्याओं को वन में भेजा । वे युवतियाँ उस मुनि के वन में गईं और उनके आश्रम के पास जा पहुँचीं । उन्होंने अपनी नाट्य-कला तथा संगीत-कला का परिचय मुनि को दिया । वे पुण्यनिधि यह न जान सके कि वे स्त्रियाँ हैं, और संगीत आदि का रसास्वादन न कर सकने के कारण सोचने लगे कि ये इस वन में रहनेवाली मंदगामिनी कोई अनोखी मृगी है । एक दिन वे रमणियाँ उनके पास पहुँच गईं । उन्होंने कामिनियों को अच्छी तरह देखा, उनके कुर्चों का नाम पूछा, कुर्चों पर डोलनेवाले हारों का उद्देश्य पूछा और कहने लगे—“मेरे सिर पर तो एक ही श्रृंग है, लेकिन आपके उर पर दो श्रृंग निकल आये हैं । आपके ये वल्कल वस्त्र बड़े ही कोमल हैं । ये अनुपम दलकल किस पेड़ से प्राप्त होते हैं ? आपके जटाजूट मेरी जटाओं के समान नहीं है, वे चमक रहे हैं । आपके शरीर पर मली हुई राख सुगंध दे रही है । आपके ये वेद-नाद श्रुतिमधुर है । मैंने इस वन में ऐसा दृश्य अबतक नहीं देखा है, न सुना है । कहीं मुनियों की भी ऐसी वेष-भूषा होती है ? आप कहाँ के मुनि हैं ?”

उस महान् व्यक्ति को अपने जाल में फँसते देख उन स्त्रियों ने हँसते हुए कहा—“हे मुनि, कर्ण-मधुर साम-गान करते हुए, उसके अनुसार शुद्ध रीति से पदन्यास करके दिखाना हम जानती हैं । इस पृथ्वी पर हमारा कौशल जानना आपके लिए कहाँ संभव है ?” इस तरह अपनी वचन-चातुरी से उस मुनिनाथ को भुलावा देकर उन सुंदरियों ने पूछा—“आप कौन हैं ? किनके पुत्र हैं ? क्यों इस वन में रहते हैं, बताइए ।” तब उन्होंने कहा—“मैं शुद्ध कीर्त्तिमान्, पुण्यात्मा विभांडक का पुत्र हूँ । मेरा नाम ऋष्यश्रृंग है । तप में महान् निष्ठा रखते हुए तपस्या करने के लिए ही मैं यहाँ रहता हूँ । मेरे पिताजी-भागीरथी में स्नान करने की इच्छा से योगिपुगवों के साथ गये हुए हैं । वे अन्य देशों में न जाकर बड़ी तपस्याएँ करने हुए अमल तथा भक्तियुक्त चित्त से यही मर रहते हैं । आप लोगों के यहाँ आने से मैं पापरहित हुआ, कृतार्थ हुआ । अपने पिताजी की कृपा से बहुत अधिक तपश्चर्या में लीन मैं भी यही रहता हूँ । इन वनों में आप जैसे नागर लोगों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ । क्या अब हम सब आश्रम में चलें ? ”

यों कहकर उन मुनियों को (उन वार-वनिताओं को) अपने आश्रम में ले जाकर ऋष्यश्रृंग ने उनका आदर-सत्कार किया । उन युवतियों ने प्रसन्नता से उन मुनि का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद कहा—“हे मुनिवर, यह लीजिए, हम अपने वन से श्रेष्ठ फल लाये हैं ।” यों कहकर उन्होंने स्वादिष्ट एवं मनोहर लड्डू, पूड़ी और तरह-तरह के स्वादिष्ट मिष्टान्न उन्हें दिये । मुनि उन्हें खाते जाते थे और बीच-बीच में उनके स्वाद की प्रशंसा

करते जाते थे । उन युवतियों की ओर देकर बार-बार मिठाई माँगते, परवश-से होकर हाथ फैलाते और कहते—‘हे मुनिवर, मैं ने अब तक ऐसे फल कहीं नहीं देखे । आपका ही तप श्रेष्ठ तप है ।’

यह सुनकर उन युवतियों ने मुस्कुराते हुए अपनी तनुलताओं को उनके शरीर से छुलाकर, अपने सौरभमय उच्छ्वासों से उनके धैर्य को डिगाते हुए हौले-हौले अपने मुख-कमलों को उनके मुख से सटाया और मीठे वचन, हाव भाव, मधुर संगीत तथा मादक दृष्टियों से उन्हें मोहित कर उनके हृदय को रसाद्रं करते हुए, अपने कुचों से कसकर आलिंगन पाश में उन्हें परवश बनाया और फिर कहने लगी—‘हे अनघ, अब हमें आज्ञा दें कि अपने आश्रम को वापस जायें ।’ यों कहते हुए विभांडक के आगमन के भय से पीड़ित वे वहाँ से रवाना हो गईं और उस वन के निकट ही रहने लगीं । उन कमल-लोचन रमणियों के जाने के पश्चात्, ऋष्यशृंग ने यह मोचते हुए कि न जाने वे फिर कब लौट आयेंगी, सारी रात जागकर ही व्यतीत कर दी और दूसरे दिन वे उस जगह पर जा पहुँचे, जहाँ पहले दिन उन्होंने उन रमणियों को देखा था ।

७. वेश्याओं के साथ ऋष्यशृंग का रोमपाद के घर आना

पायलों का झंकार करती हुई, राजहंसों की गति से वे युवतियाँ मुनि के पास आईं और प्रफुल्ल वदन हो चारों ओर से उन्हें घेरकर कहने लगी—‘हे मुनिवर, आप हमारे वन में पधारें ।’ जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, तब वे उस श्रेष्ठ मुनि के चित्त को द्रवित करनेवाली बातें करते हुए, अपने उपायों तथा हाव-भावों से उनको मोह-मुग्ध कर लिया और उन्हें अंग-देश में इस प्रकार ले आईं, जैसे शिकारी पक्षी किसी नये शिकार को पकड़कर ले जाते समय विस्तृत पथ के भय से उसे बचाने के लिए अपने हस्तपल्लव-रूपी पालकी में (चंगुल में) ले जाता है । उस ऋष्यशृंग के आते ही अंग-राज्य में घोर वर्षा होने लगी और शस्य बढ़ने लगे । राजा सकल सौभाग्य से युक्त हो संतुष्ट हुए । उन्होंने बड़ी भक्ति से उस मुनि की पूजा की और अपनी पुत्री शान्ता का विवाह उनके साथ कर दिया । वे मुनि उसी राजा के यहाँ रहते हैं । यदि दशरथ उस मुनि को अपने यहाँ ले आकर उनसे पुत्र-कामेष्टि यज्ञ करायें, तो वे (दशरथ) चार बहुश्रुत तथा महान् पुत्र तथा समृद्धि प्राप्त करेंगे । इस प्रकार मुझसे पहले सनत्कुमार ने कहा था । इसलिए आप उस ऋष्यशृंग से भक्तियुक्त प्रार्थना कर उन्हें यहाँ ले आयें ।”

इस प्रकार कहकर सूत चले गये । उनके जाने के बाद मन में हर्ष तथा भक्ति का अनुभव करते हुए चतुर दशरथ उस राजा रोमपाद के यहाँ गये और मुनिश्रेष्ठ ऋष्यशृंग को प्रणाम करके कहा—‘हे पवित्र आत्मा मुनिराज, आप मेरी विनती सुनें । मैं अपने मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर आपके यहाँ आया हूँ । आप मुझे अपनाइए ।’ राजा ने उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार उनकी स्तुति की और उनसे यज्ञ का ऋत्विक् बनने की प्रार्थना की । फिर अनुपम पालकी में उन्हें बिठाकर अयोध्या के लिए रवाना हुए । उन्होंने दूतों के द्वारा अपने नगरनिवासियों को यह आदेश भेज दिया कि नगर इन्द्रपुरी के समान सुन्दर सजाकर रखा जाय । दूतों ने नगरनिवासियों को यह आदेश

सुनाया । उन्होंने नाना प्रकार से नगर को सजाया और जहाँ-तहाँ दुद्रुभि, शख, आदि का तुमुल नाद करने लगे । उसी समय राजा ने भी नगर में प्रवेश किया और मंगलवाधों के बजते हुए, विघ्ननाशक (ऋष्यशृंग) को शाता देवी के साथ, बड़ी चतुरता से अयोध्या में लाये ।

राजा ने ऋष्यशृंग को लाकर अन्तःपुर में ठहराया । अर्घ्य-पादादि देकर विधिवत् उनकी पूजा की और अपने को कृतार्थ मानकर प्रसन्न हुए । उसी समय कौसल्या आदि रानियों ने राजा की आज्ञा लेकर बड़े हर्ष से शान्ता देवी को श्रेष्ठ भूषण, वस्त्र, माला आदि देकर बहुविधि से उनका सत्कार किया ।

कुछ दिन के पश्चात् ससार के प्राणियों को आनन्दित करने हुए वसन्त ऋतु आई । तब राजा बड़े उत्साह से ऋष्यशृंग के पास गये और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके विनय किया—‘हे संयमीप्रवर ! आप मुझसे यज्ञ कराके मेरा उद्धार कीजिए ।’ तब उन्होंने—‘ऐसा ही हो,’ कहकर रविकुलोत्तम राजा दशरथ से आगे कहा—‘हे राजन्, यज्ञ के लिए विधिवत् आवश्यक सामग्री शीघ्र मँगवाइए ।’ तब राजा ने योग्य व्यक्तियों को उन सब वस्तुओं का संचय करने के लिए भेजा और सब सामग्री मँगवाई । (उन्होंने) सुमंत्र को भेजकर कीर्तिमान् केकयराज, अप्रतिहत नेजस्वी काशिराज, जनक महाराज, अंगराज आदि पुण्यचरित्र नरेशों को यज्ञ देखने के लिए सविनय आमंत्रित किया । (इसके पश्चात्) उन्होंने सुमंत्र से कहा—‘तुम शीघ्र जाकर पुण्यवान् वेदवेदांग-पारंगत, गृहस्थ, निपुण एवं महिमा-समन्वित ब्राह्मणों को तथा सुयज्ञ, जाबालि, कश्यप, महात्मा वसिष्ठ तथा वामदेव आदि (पुरोहितों) को लिवा लाओ ।’

सुमंत्र बड़ी प्रसन्नता से गया और बड़ी श्रद्धा से उन सबको लिवा लाया । (राजा ने) उन्हें अर्घ्य, पाद्य आदि देकर (उनका स्वागत-सत्कार किया) । वे अपने निर्मल व्रत की निष्ठा के अनुकूल धर्मसम्मत तथा उचित वचन यों बोले—‘हे मुनिश्रेष्ठ, पुत्रहीन होने से अत्यन्त दुःखी हूँ, पुत्र-प्राप्ति की इच्छा बलवती होने के कारण मित्रों के परामर्श से अश्वमेध यज्ञ, तथा पुत्र-प्राप्ति के लिए पुत्र-कामेष्टि यज्ञ करने के लिए इन ऋष्यशृंगजी को आमंत्रित किया है । (अब) आपके अनुग्रह का प्रार्थी हूँ ।’

राजा की बातों से प्रसन्न होकर वसिष्ठ आदि तपोधन मुनियों ने कहा—‘हे रविकुलोत्तम, लोकहितार्थ पुत्रों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा सर्वथा संगत है । अब अश्व को छोड़िए । इस अश्वमेध से आपके विश्वरक्षक एव उज्ज्वल पराक्रमी चार पुत्र होंगे ।’

इससे बहुत सतुष्ट होकर राजा ने यज्ञ के लिए योग्य जवनाश्व (तेज जानेवाला घोड़ा) को चुनकर, भुवनपावन मूर्ति की पूजा करके, उस घोड़े के ललाट पर अपना नामांकित एक पट्ट बँधकर, एक साल तक उसे अपनी इच्छा से घूमने के लिए छोड़ दिया । उस अश्व की रक्षा के लिए पराक्रमी सेना तथा सामत नरेश भी भेजे । उसके वाद वसिष्ठ आदि मुनियों की अनुमति से अनुपम शिल्पकारों को बुलाकर सरयू नदी की उत्तर दिशा में वेद-विधि के अनुसार एक यज्ञ-शाला का निर्माण करने के लिए भेजा और सभी देश के राजाओं तथा उन देशों में निवास करनेवाले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को भी आमंत्रित किया ।

इतने में एक वर्ष पूरा हुआ और मधुमास आया । तब राजा ने चिर तपोनिधि ऋष्यशृंग की अनुमति तथा गुरु की आज्ञा लेकर एक अच्छे मुहूर्त में बड़े उत्साह से शान्ता तथा ऋष्यशृंग के साथ, यज्ञोपकरणों तथा हवन-कुंड से युक्त, इक्कीस सुन्दर यूपों से शोभायमान, श्रौतधर्म-क्रियाचार-विहित, मायाप्रवीण, राक्षमों से रहित तथा समस्त पाप-रहित यज्ञ-शाला में प्रवेश किया ।

८. दशरथ का यज्ञ-दीक्षा लेना

यज्ञाश्व के आते ही, यज्ञ-दीक्षा ग्रहण कर, यतिशुद्धि प्राप्त करके, वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनिजनों को ऋत्विकों के रूप में वरण कर, अपनी इच्छा से सवनत्रय को पूरा करके, विमल यूपकाष्ठों से बँधे हुए जलचर, वनचर, विहग, उरग आदि तीन सौ पशुओं तथा प्रख्यात यज्ञाश्व का वध करके श्रुतियों में जिन-जिन मंत्रों के साथ, जिन-जिन आहुतियों को देने की विधि बताई गई है, उन मंत्रों के साथ ऋत्विकों ने उन आहुतियों का हवन किया । अग्निदेव सप्त-जिह्वाओं से प्रज्वलित हुए । देवता उन आहुतियों से तृप्त हुए । उस यज्ञ के दिनों में न कोई भूखा रहा, न कोई संतप्त रह गया । सभी मिष्टान्न, वस्त्र-स्वर्ण, मणिभूषण आदि से सतृप्त किये गये ।

जब किसी भी विघ्न के बिना यज्ञ समाप्त हुआ, तब ज्योतिष्ठोम, विश्वजित् आदि महान् यज्ञ-क्रियाओं को सांग रूप से पूरा किया और यज्ञ-दक्षिणा के रूप में अध्वर्यु (यज्ञ-करानेवाले चार ऋत्विकों में से एक) को (अपने राज्य का) दक्षिण का भाग, होता को पश्चिम का भाग तथा उद्गाता को उत्तर का भाग दिया । अयोध्या को छोड़ बाकी सभी देशों को (दान में) दे दिया, जिससे ऋत्विक् प्रसन्न होकर कहने लगे—“कब हम आपके दिये हुए राज्य का शासन करें और कब अपने अनुष्ठान का पालन करें । हम कहाँ और देश का शासन कहाँ ? हे राजन्, आप हमें इस राज्य का मूल्य दे दे ।” तब राजा ने दस करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ, सोने की चौगुनी चाँदी और एक लाख गायें उन्हें दी । ऋष्यशृंग आदि ऋत्विक् उस धन को आपस में बाँटकर संतुष्ट हुए । उस विमल यज्ञ-कर्म में प्रवृत्त परिचारकों को राजा ने एक कशेड़ स्वर्ण-मुद्राएँ दीं । माँगनेवालों को श्रेष्ठ आभूषण दिये । जिसने जो कुछ माँगा, राजा ने प्रेम से उसे वह दे दिया । उन्होंने सभी ब्रह्मणों को भक्ति से प्रणाम किया और ऋषयः उनके आशीर्वाद पाते हुए उन्हें दिव्य वस्त्राभरण देकर अकलंक चित्त से यज्ञात स्नान किया । (उधर) ऋष्यशृंग के द्वारा कराये गये पुत्र-कामिष्टि यज्ञ में आकर ऋषयः अपने-अपने यज्ञ-भाग प्राप्त करनेवाले देवता रावण के सम्बन्ध में अपने मन में विचार करने लगे ।

९. रावण के अत्याचारों के बारे में ब्रह्मा से देवताओं की शिकायत

ब्रह्मा के पास पहुँचकर (देवताओं ने) उनको प्रणाम किया और यों विनती की—
“हे प्रभो ! आपके वर की शक्ति से दशकंधर, पुण्यात्मा आचार्यों ब्रह्मर्षियों, देवताओं तथा मुनियों को दुःख दे रहा है । हे कमलासन ! हमारा खयाल है कि आपके वर की प्रचण्ड शक्ति के कारण ही हम उसको जीत नहीं सकते । वह देवताओं के साथ इन्द्र को भी पकड़कर उनका अपमान करता है और उन्हें दुःख देता रहता है । (अपने) भुजबल के दर्प से

वह गंधर्व, यक्ष आदि देवगणों, मुनियों तथा साधुओं को पकड़कर कष्ट दे रहा है। सभी कुल-पर्वत उसके नाम से डरते हैं। सूर्य भी ताप फैलाने से डरता है। वह जिस नगर में रहता है, वहाँ पवन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ चलने से डरता है। उसके अतिशय प्रताप से डरकर समुद्र अच्छी तरह गर्जन नहीं कर पाता है। दीख पड़ने पर हमें भी दुःख देता है। ऐसे पापी दशकंधर का अन्त करने का उपाय आपको सोचना चाहिए।”

तब ब्रह्मा ने उन सारी बातों को हृदयगम करके देवताओं में कहा—“(रावण) अमरों के हाथ नहीं मरेगा, राक्षसों से नष्ट नहीं होगा, गंधर्वों से मितेगा नहीं, रजनीचरों से समाप्त नहीं होगा, भुजंगों से मारा नहीं जायगा, यक्षों से हत नहीं होगा, पक्षिसमूह से पराजित नहीं होगा। मेरे वर देते समय उसने नरों का नाम नहीं लिया था, इसलिए वह नरो से ही मरेगा। स्पष्ट गुणों, हिरण्यकशिपु जब सारे संसार को दुख देना था, तब नारायण ने स्वयं नरसिंह का रूप धारण कर उसे चीर डाला था। उसी ने अब विश्रवसु के यहाँ जन्म लिया है। इसलिए नारायण ही अब इसका नाश करेंगे। अब हमें उस विष्णु से अभयदान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।”

ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर सभी लोग तुरन्त क्षीर समुद्र के निकट गये और अच्युत को देखकर पवित्र हृदय से उनकी स्तुति की। हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से प्रणाम किया और विष्णु से इस प्रकार विनती की।

१०. देवताओं का विष्णु की स्तुति करना

हे त्रिलोकीनाथ, कमलालय-वक्ष, वसुमतिरक्षक, वनजाक्ष, आपके अतिरिक्त हमारा कोई (सहायक) नहीं, यह सत्य है। हे गोविन्द, परिपूर्णगुण चिदानन्द, हे देव, जगन्मय, देवाधिदेव, देवों के रक्षक, दिव्यावतार, अमृतसागर में पहले आपकी शरण में आये हुए हमें (आपने) अपना अभयदान दिया था। हे दानवदलन, आपके भुजबल-विक्रम से ही समस्त लोकों की रक्षा होती है। हे भक्तवत्सल, भक्तियोग को छोड़ अन्य उपायों से आपको पहचानना असंभव है। हे मधुसूदन, मन में आपका ध्यान करनेवालों को क्या कभी कोई विपदा सता सकती है? जगत् की सृष्टि, स्थिति, लय आदि आपकी लीलामात्र है। समस्त लोक आपकी माया का आधार लेकर ही आपका महनीय तनु धारण करते हैं। हे शेषशायी, आपका वैभव तथा आपकी महिमा अवाङ्मानसगोचर है। हे शरणागत रक्षक, हे लोकेश, हम आपकी शरण में आये हैं। हम शरणार्थियों की रक्षा आपको करनी ही चाहिए। आप त्रिलोक-कंटक रावण का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। हे लोकैक-स्तुत्य, विना विलंब हमारा कार्य संपन्न कीजिए और यश पाइए। निर्मलचित्त, निश्चलव्रती, धर्मात्मा, उत्तमगुण-समन्वित, राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ पूरा करके पवित्र मन से युक्त हुए हैं। उस काकुत्स्थ-वंशी (राजा दशरथ) की स्त्रियों का विचार करे, तो कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। हे कमलगर्भ, आप अपने चारों अंशों के साथ नर के रूप में जन्म लीजिए। वर के प्रताप से जो देवताओं के लिए अवध्य है, जो लोकत्रासक है, जिस पापी ने गंधर्व एवं किन्नरों का वध किया है, हे पुण्डरीक, ऐसे दशकंधर का वध करके यज्ञ-संपादन कराइए और संयम-धनी पुरुषों की तथा संसार की रक्षा कीजिए।”

इस प्रकार विनती करनेवाले देवताओं को देखकर वनजाक्ष (विष्णु) ने घन-गर्जन के समान गभीर ध्वनि में कहा—“हे देवताओ, तुम लोग सुखी होओ। मैं मत्स्यलोक में अवतार लूँगा और उसके पश्चात् दशकधर का बंधु, मित्र, अमात्य, पौत्र तथा बंधुओं के साथ नाश करके, ग्यारह हजार वर्ष तक नियमानुकूल इस पृथ्वी का पालन करूँगा। ब्रह्मा के वर से ही राक्षसेन्द्र इस अवनीतल पर जीवित है।” यों कहते हुए असुरारि (विष्णु) ब्रह्मा तथा देवताओ को विदा करके चले गये।

११. दशरथ को यज्ञ-पुरुष का पायस देना

उधर विमल हवनाग्नि से नीले अंगवाले, अरुणांबरधारी, सूर्य के समान तेजस्वी, महान् विक्रमी तथा पुण्यात्मा एक दिव्य मूर्ति अपने हाथ में पायस (खीर) से भरे एक स्वर्ण-पात्र को लिये बाहर आये। उन्हें देख राजा अद्भुत आश्चर्य में पड़ गये और विनय के साथ उठकर खड़े हो गये। राजा को देखकर (यज्ञ-पुरुष ने) कहा—“राजन् मैं यज्ञ-पुरुष हूँ। तुम्हें पुत्र-दान देने की इच्छा से आया हूँ। इस पायस को ग्रहण कर भक्ति के साथ अपनी रानियों को दो।” इसपर राजा ने बड़ी भक्ति के साथ उनकी पूजा की और पायस यों ग्रहण किया; जैसे शचीपति ने सुधा-कलश ग्रहण किया था। अग्निदेव के अन्तर्धान होने के बाद राजा अन्तःपुर में गये, तो रानियों ने बड़े आनन्द से उनका स्वागत किया। (राजा ने) देवताओ से बनाये गये उस पायस का आधा भाग कौसल्या को दिया, शेष आधे का आधा सुमित्रा को दिया, बचे हुए भाग का आधा कैकेयी को और शेष पुनः प्रसन्नता से सुमित्रा को दिया।

उस पायस को भक्ति से ग्रहण करने के बाद रानियाँ गर्भवती हुईं। उन्हें देखकर राजा आनन्द-मग्न दिखाई देने लगे। निदान, राजा ने ऋष्यशृंग आदि मुनियों तथा अन्य राजाओं को बड़े आदर-सत्कार के साथ विदा किया और रानियों के साथ परम अनुरागयुक्त हो नगर में लौट आये।

१२. देवताओं को वानरों के रूप में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा की सलाह

अपना-अपना यज्ञ-भाग लेकर जब देवता अपने लोक को जाने लगे, तब ब्रह्मा ने इन्द्रादि देवताओं को देखकर कहा—“लोकरक्षणार्थ विष्णु इस पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं। इसलिए तुम्हें भी उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए तुम लोग लोकहितार्थी, शक्तिमान्, पराक्रमी, बल तथा पराक्रम में अपने समान शक्तिमान् कई वानरों को, किन्नर, गंधर्व, खेचर, यक्ष, पन्नग, अमर, तथा सिद्ध स्त्रियों (के गर्भ) से उत्पन्न करो। मैं अत्यन्त बलनिधि जाम्बवान् को पहले ही जन्म दे चुका हूँ। मेरे जँभाई लेते समय उसने जन्म लिया है। वह चिरंजीवी है।”

इस तरह ब्रह्मा का आदेश पाकर देवता लोग प्रसन्न हुए। इन्द्र ने वालि को, अग्नि ने नील को, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तारु को, वरुण ने सुषेण को, कुबेर ने गंधमादन को, विश्वकर्मा ने नल को, अश्विनीकुमारों ने द्विविद-मैद को, पर्जन्य ने शरभ को और वायुदेव ने हनुमान् को इस पृथ्वी पर जन्म दिया। अन्य देवताओं ने भी अपने-अपने तेज से अभित पराक्रमी तथा श्रेष्ठ वानरों को जन्म दिया। वे (सभी) वानर जगत् के

आप्त बंधु, दावाग्नि-तुल्य विक्रमी, आकार तथा शक्ति में पर्वत की समानता करनेवाले, बड़े साहसी, कामरूपी, समुद्रों को भी पार करनेवाले, पहाड़ों को भी उखाड़ फेंकनेवाले, नख और दाँतों में अमित शक्ति रखनेवाले, अलौकिक शक्तिवाली तथा पृथ्वी को भी चीर डालनेवाली क्षमता रखनेवाले थे । ऐसे होने पर भी, आश्चर्य ! उनमें कुछ लोग सुग्रीव की, कुछ हनुमान् की, कुछ नील की, और कुछ मैदकुमुद की सेवा करते थे । वे सर्वत्र सिद्ध होते हुए अपना शौर्य प्रकट करते हुए, मलय, दक्षूर, गंधमादन, तथा विंध्य पर्वत एवं काननों और बहुत-से जल-नद-नदी प्रान्तों में बड़े आनन्द के साथ विचरण करते थे ।

उस महिमायुक्त पायस के प्रभाव से राजा की कुलवधुओं ने गर्भ धारण किया । गर्भधारण के समय से (उनकी) क्षीण कटियाँ पुष्ट होने लगी । अमृतमय भोजन की रुचि लगातार कम होने लगी । सुन्दर देह की कान्ति पांडु रंग धारण करने लगी, मानों ये सभी रावण की साम्राज्य-लक्ष्मी की नाक में कालिख लगानेवाले चिह्न हों । उनके कुचाग्र (इस प्रकार) काले होने लगे, मानों अनपत्यता-दोष (शरीर से) बाहर निकल रहा हो । कपोल पतले हो गये । दोहद (मचली आदि) दीखने लगे । नाभियाँ उभरने लगी, त्रिवलियों की रेखाएँ मिट गई और (अनेक प्रकार की चीजों को पाने की) इच्छाएँ उत्पन्न होने लगीं । धीरे-धीरे नौ महीने पूरे हुए ।

१३. श्रीराम आदि का जन्म

प्रशंसनीय मधुमास के श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष में, पूर्ण नवमी तिथि, बुधवार, पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न के समय ग्रह-पंचकों के उच्च स्थिति में रहते समय, गुरु और चन्द्र का योग रहते हुए, ललित कर्क लग्न में, सर्वलोकाधार, जगदेकवीर, इंद्रादि देवताओं से स्तुत्य, दिव्य लक्षणों से देदीप्यमान, अव्यय, असमान, आर्त्त-त्राण-परायण, भव्य, चिदानन्द, परम कल्याण-मूर्ति, देवताओं के रक्षक, दीनार्त्तहरण, गुणों से अलङ्कृत, महान् कीर्तिवान्, शेषशायी, श्रीपति, हृषीकेश, उस कमल-गर्भ (विष्णु) के अर्द्धांश के रूप में, काकुत्स्थवंशी श्रीराम कौसल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए । जिस प्रकार अदिति ने इन्द्र को और प्राच्य-सती ने चन्द्र को जन्म दिया था, वैसे ही पुण्य-नक्षत्र युक्त मीन लग्न में कैकेयी ने भरत को जन्म दिया । स्तुत्य आश्लेषा नक्षत्र-युक्त कर्क लग्न में कमलदललोचनी सुमित्रा ने समान-चरित्रवाले लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया । देव-दुंदुभियों से सारा आकाश गूँजने लगा, देवस्त्रियाँ नृत्य करने लगीं, पुष्पों की अत्यधिक वृष्टि होने लगी, ब्रह्मादि देवता परितुष्ट हुए; अयोध्या में छोटे-बड़े सभी निवासी उत्सव मनाने लगे ।

तब दशरथ ने पुण्यात्मा वसिष्ठ को बुलाकर (बालकों का) जातकर्म आदि करवाया । फिर, पुत्र-जन्मोत्सव ऐसा मनाया कि देवताओं तथा पुरजनों का नेत्रोत्सव हो गया । जात-शौच समाप्त होने के पश्चात् एक पुण्य दिन को राजा ने उन वंशोद्धारक पुत्रों का नाम-करण-संस्कार करने की प्रार्थना वसिष्ठ से की । उन्होंने अपने मन में विचार करके कहा कि 'रम्', अर्थात् 'क्रीडा' नामक धातु से 'रमयति' अर्थ देनेवाला 'राम' नाम से कौसल्या-सुत अभिहित होगा । कैकेयी का पुत्र महान् बलशाली, सुकुमार शरीरवाला तथा सुकीर्ति-वान् है, इसलिए वह भरत के नाम से विख्यात होगा । विचार करके देखने से सुमित्रा के

पुत्र सुन्दर तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, इसलिए उनके लिए लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम उचित होंगे। (राजा ने) उन लक्ष्मी-समन्वित (राजकुमारों को) राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न जैसे सुन्दर नाम देकर नामकरण-संस्कार सम्पन्न किया और अपरिमित धन दान में दिया।

१४. श्रीरामादि का बचपन

वे (बालक) माताओ तथा धाड़ियों के स्नेह तथा ममता-युक्त पालन-पोषण में (फलस्वरूप) बढ़ने लगे। (वे) भोली-भाली हँसी के साथ आँखें खोलने लगे। धीरे-धीरे अटपटाकर चलते हुए अपनी तोतली बोली से सबको आनन्द पहुँचाने लगे। उनकी लटो में (पिरोई गई) मोती तथा मणियों की लड़ियाँ कपोलों तक फैली थी। उनके भाल (रूपी) इन्दु पर अशोक के पत्ते के समान एक मँगटीका डोल रहा था। मणिखचित बहुत सुन्दर बघनखा की श्रेष्ठ कान्ति उनके हृदय पर विराज रही थी। शरीर पर जहाँ-तहाँ मरकत मणियों के आभरण शोभा दे रहे थे, कटि को करधनी सं धूँधरू के शब्द ही रहे थे तथा धूँधरूदार नूपुर पैरों में ध्वनि कर रहे थे। वे राजा के सामने हँसते हुए अपनी बालक्रीड़ाएँ करते और उन्हें अपनी मोहनाकृति से मुग्ध कर देते थे। वे चारों (कुमार) धीरे-धीरे बढ़ने लगे और समान रूप से उनका मानसिक विकास होने लगा।

वे दशरथात्मज आपस में जोड़ियाँ बना लेंते। रमणाय आकृतिवाले राम और लक्ष्मण की एक जोड़ी बनती और भरत-शत्रुघ्न की दूसरी जोड़ी बनती। उनके चूड़ाकरण तथा यज्ञोपवीत-संस्कार कराये गये और वे सुन्दर (राजकुमार) तरह-तरह के खलों में मग्न रहने लगे।

एक बार रघुराम अपने मित्रों के साथ बड़े प्रेम से (अपने-अपने) गुड़ियाँ चुनकर, गेंद तथा डंडा लिये फुर्ती से खेल रहे थे। उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा वेग से वहाँ आई और कौतुक से गेंद को रोक लिया। इस पर राम ने बड़े क्रोध से डंडे से उसपर प्रहार किया, जिससे तुरन्त उसकी टाँग टूट गई। (इसके पश्चात् भी) श्रीराम को अधिक उत्साह से खेलते हुए देखकर उनपर क्रुद्ध हो, लँगड़ी टाँग से वह कैकेयी को महल में गई और सारा वृत्तान्त कह सुनाया। कैकेयी ने तुरन्त यह समाचार दशरथ को सुनाया। सारी बातें जानकर राजा ने वसिष्ठजी को अयोध्या में बुलवाकर उन्हें भक्ति से प्रणाम किया और कहा—‘हे श्रेष्ठ मुनिचन्द्र, आप इन बालकों को वेदादि समस्त विद्याएँ सिखायें।’ यह कहकर राजा ने बालकों को वसिष्ठ को सौंप दिया। उस मुनीश्वर ने भी वैसा ही किया। राजकुमारों ने उस संयमी मुनि की कृपा से हाथी-घोड़े की सवारी, रथ-संचालन आदि की क्रियाएँ सीख ली। समस्त वेदों, शास्त्रों और शस्त्रास्त्रों के प्रयोग भी सीख लिये। उनमें श्रीराम तो विष्णुदेव ही थे। इसलिए अपार शौर्य, विवेक तथा सद्-गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे।

१५. विश्वामित्र का आगमन

(राजा) अपने पुत्रों के विवाह की बात सोच रहे थे कि (एक दिन) विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे। द्वारपाल ने आकर महाराज दशरथ से निवेदन किया—‘देव, दिश्वामित्र

मुनि द्वार पर आये हैं ।’ तब दशरथ अपने बंधु-वर्ग तथा वसिष्ठ मुनि के साथ बड़ी प्रसन्नता से, परमेष्ठी की अगवानी के लिए जानेवाले इन्द्र की तरह, उनका स्वागत करने गये । उनकी अमित शक्ति को जानते हुए उनको लिवा लाये और अर्घ्य, पाद्यादि देकर उनकी उचित रीति से पूजा की । तब मुनि ने पूछा—‘(हे राजन्) तुम्हारी प्रजा कुशल से तो है, हे पूजनीय व्रती वसिष्ठ, आप कुशल से हैं न ? हे मुनियो, आप कुशल से हैं ?’ (तब राजा ने कहा)—“हमें किसी बात का अभाव नहीं है । हम धन्य हैं । हे परम मुनीन्द्र, आप हमारा गृह पवित्र करने की इच्छा से यहाँ पधारे । इस कृपा से मैं समस्त लोकों में प्रख्यात हुआ और सभी राजाओं में आदरणीय हुआ । आप अपने आगमन का कारण कहें । आपका जो भी कार्य होगा, मैं उसे सम्पन्न करूँगा ।

१६. यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम को भेजने के लिए राजा से विश्वामित्र की प्रार्थना

तब विश्वामित्र ने राजा को देखकर कहा—‘हे राजन्, दसरात्रि-पर्यंत यज्ञ करने की इच्छा से मैं (यज्ञ) करने लगा, तो भयंकर आकारवाले राक्षस हमारी यज्ञशाला में लगातार रक्त-मांस की वर्षा करते हुए प्रबल विघ्न डालने लगे । यज्ञ करते समय हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पुत्र महाबली श्रीराम को यज्ञ-रक्षणार्थ ले जाने के लिए आया हूँ । वे क्रूर राक्षस उनके सिवा अन्य किसी से नहीं मारे जायेंगे । उनकी (राम की) महत्ता मैं जानता हूँ, (और) ब्रह्मा के पुत्र ये वसिष्ठ भी जानते हैं । हे अनघ ! ‘राम बालक है’ ऐसा विचार मत करो । ‘वे मेरे पुत्र हैं’, ऐसा लोभ छोड़ दो । वे स्वयं यज्ञ-कर्त्ता, यज्ञ-मूर्त्ति तथा यज्ञ-भोक्ता हैं । उन्हें लोकाराध्य मानकर भेजो । मैं उन्हें अतुल्य शस्त्रास्त्र दूँगा । उनसे ही हमारे यज्ञ की रक्षा होगी ।’

मुनि के ऐसा कहते ही राजा मूच्छित हो गये । बड़ी देर के बाद उनकी मूर्च्छा दूर हुई । वे फीके पड़ गये और दीन तथा दुःखी होकर गद्गद-कंठ से विश्वामित्र की विनती करते हुए बोले—‘राम अभी बालक है, वह बच्चा है । वह युद्ध-कला नहीं जानता । वह पन्द्रह साल का ही है । हिलती हुई शिखावाला है (अभी उसमें दृढ़ता नहीं आई है) । अपने तथा शत्रुओं के बल का विचार करने की क्षमता उसमें नहीं है । हाय ! आप दया-मय होते हुए ऐसे बच्चे को क्यों माँगते हैं ? राक्षस तो कई दिव्य शस्त्रास्त्र रखनेवाले हैं । वे युद्ध-कला में निपुण होते हैं । वे विपुल बाहुबलवाले हैं । उनके साथ लड़ने की योग्यता राम में कहाँ है ? कहाँ वे और कहाँ यह ? हे श्रेष्ठ मुनीश्वर, स्रष्टा हजार साल तक पृथ्वी का शासन करने पश्चात् असमय वृद्धावस्था में मैंने इसे प्राप्त किया है । मैं इसे भेज नहीं सकता । यज्ञ रक्षा की चिन्ता आपको क्यों है ? आप जाइए, मैं आज ही सेना के साथ आपके पीछे-पीछे चला आऊँगा । हे मृनिनाथ, आपके यज्ञ में बाधा डालनेवाले राक्षसों की शक्ति कितनी है ? वे कौन हैं ? उनके नाम क्या हैं ? यह राघव उन्हें कैसे जीत सकेगा ?’

तब विश्वामित्र ने राजा से कहा—‘पुलस्त्य ब्रह्मा का पोता, विश्रवसु का पुत्र, अखिल लोक का कंटक, पापी रावण के आदेश से बल प्राप्त करके घमण्ड से भरे मारीच तथा सुबाहु नामक (राक्षस) उग्र रूप धारण कर यज्ञ में विघ्न डालते हैं । राम के सिवा अन्य कोई भी रणभूमि में उनका सामना नहीं कर सकेगा ।’

ऐसा मुनि के कहने पर, उन बातों पर विश्वास न करके राजा ने मुनिनाथ से विना संकोच कहा—“वह (रावण) चौथा ब्रह्मा है, महान् साहसी है और ब्रह्मा से वर प्राप्त किये हुए है। ऐसे रावण के भेजे हुए वीरों को जीतने में यह (राम) कैसे समर्थ होगा ? उन (राक्षसों) की शक्ति जाने विना मैं आने की बात कही थी। अब आप लौट जाइए।”

यों राजा के कहते ही विश्वामित्र (क्रोध से) जलते हुए, रोष-रक्त नेत्रों से देखने लगे। उनके गडस्थल अत्यधिक वेग से हिलने लगे, सारा शरीर कांपने लगा। वे राजा को देखकर बोले—“काकुत्स्थ-वंशजों की रीति पर विचार किये विना ही ऐसे कुवचन क्यों कह रहे हो ? (तुमने) मेरे आगमन का कारण बताने के लिए कहा। यह कहा कि मैं आपका कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। अब तुम मुकर रहे हो। यज्ञ-रक्षा के लिए मैंने राम को भेजने की प्रार्थना की। पर तुम हिम्मत हारकर कहते हो ‘नहीं भेजूँगा।’ हे असत्य-भाषी, तुम्हारा तो मुँह देखना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूँ।”

मुनि के इस प्रकार कहने ही समुद्र सूख गये, पृथ्वी धँस गई, समस्त लोक व्याकुल हो उठे। दिग्गजों ने घुटने टेक दिये, देवता सहम गये, दिशाएँ सिमट गईं। सभी भूत अवश हो गये। मुनि के क्रोधावेश की कल्पना करके वसिष्ठ ने दशरथ को देखकर यों कहा—

१७. राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए वसिष्ठ की सम्मति

(वसिष्ठ ने कहा)—“हे राजन्, सूर्यवंशी इस संसार में कभी असत्य भाषण नहीं करते। यदि तुम असत्य कहोगे, तो तुम्हारी श्रेष्ठ कीर्ति और तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति नष्ट हो जायगी। देने का वचन कहकर नहीं दोगे, तो शुद्ध (मन से) किये हुए सभी धर्म नष्ट हो जायेंगे। ‘दशरथ महाराज बड़े धर्मात्मा हैं’—ऐसे तुम इस पृथ्वी में विख्यात हो। लोकरक्षा के सिवा राजाओं का धर्म और क्या है ? इसलिए, हे राजन्, राम को माननीय गाधि-पुत्र के साथ जाने दो। ऐसी शंका क्यों करते हो कि मेरा पुत्र बालक है, वह युद्ध में महाबली राक्षसों की बराबरी नहीं कर सकेगा। कौशिक के रहते किस बात का भय है ? राजन्, विश्वामित्र का उग्र तप और उनकी शक्ति विचित्र है। ये पुण्यात्मा देव, दानव, गंधर्व तथा दैत्यों से भी अधिक दिव्यास्त्रों के प्रयोगों को जानते हैं। कोई भी ऐसा विषय कहीं भी नहीं है, जिसे ये नहीं जानते हों। हे जननायक, दक्ष (प्रजापति) के जया तथा सुप्रभा नामक दो पुत्रियाँ थी। उन जया और सुप्रभा के द्वारा भृशाश्व ने राक्षस-वध के लिए अस्त्र के रूप में पचास पुत्र प्राप्त किये। वे सब (पुत्र) कामरूपी हैं। हे राजन्, उस भृशाश्व ने (उन सभी अस्त्रास्त्रों को) इन्हें दे दिया। इसलिए ये मुनि सभी शस्त्रास्त्रों के ज्ञाता हैं। तुम डरो मत। इन मुनि की शक्ति तुम नहीं जानते। इनको वचन देकर क्यों टाल रहे हो ? इनके साथ जाने से राम का हित ही होगा, उनकी जय अवश्य होगी। क्या ये (स्वयं) राक्षसों को जीत नहीं सकते थे ? राजन् (तुम्हारे) हित-चिन्तक के रूप में, तुम्हारे पुत्र उज्ज्वल चरित्रवान् (राम) को शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण सिद्ध करने के उद्देश्य से ही ये यहाँ पधारें हैं। अतः यज्ञ की रक्षा के लिए राम को भेजो। इन्हें (राम को) देने में ही (तुम्हारा) कल्याण होगा।

१८. विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण को भेजना

इस प्रकार वसिष्ठ के कहने पर, उनकी बातों पर विश्वास करके राजा ने रामचन्द्र को बुला भेजा । उनका बालकपन देखकर राजा की आँखों में आँसू भर आये । उन्होंने उन्हें गले से लगाया, प्रेम से आशीर्वाद दिये, उनके केशों पर हाथ फेरा, कपोलों को प्यार से छुआ, थोड़ी देर सोचते रहे, फिर पुण्याह वाचन, पुण्यव्रत, पुण्य हवन और ग्रहों की पूजा करके सुन्दर वस्त्र तथा भूषण प्रेम से दिये । फिर स्वयं, कौसल्या तथा वसिष्ठ ने (उन्हें) उचित आशीर्वाद देकर, पुण्य मुहूर्त्त में अपने पुत्र-रत्न को पुण्यात्मा गाधिपुत्र को सौपा । प्रेम और त्याग, इन दोनों का संघर्ष (मन में) चलते रहने पर भी (राजा ने) उस मुनि का सत्कार करके उन्हें विदा किया । तब लक्ष्मण भी उस राम से प्रार्थना करके उनके साथ गये । (उस समय) वृष्टि हुई, अनुकूल पवन चलने लगा, श्रेष्ठ मंगल बज उठे । आकाश से देवता बड़े प्रेम से धनुष, उत्तम शस्त्र, महान तूणीर, खड्ग आदि सहज रीति से धारण किये हुए, बड़े उत्साह से जानेवाले राघव को देखने लगे । अक्षय तूणीर, पहुँचा तथा अंगुली-दाग पहने कटि से लटकनेवाले कृपाण के साथ दिव्य शर तथा चाप लिये हुए राघव उस मुनि के पीछे बड़े उत्साह से इस प्रकार जा रहे थे, जैसे अश्विनि-देवता भक्ति से ब्रह्मा की सेवा करते हुए जा रहे हों । वे पुण्य-चरित आधा योजन चलकर सरयू नदी के तट पर (पहुँचते-पहुँचते) थक गये । तब कौशिक ने राम-लक्ष्मण को बुलाकर उन्हें बल, अतिबल, नामक महामंत्रों का उपदेश दिया, जिन्हें उन्होंने घोर तपस्या के उपरान्त प्राप्त किया था और जो ब्रह्मा की पुत्रियाँ थी और सभी मंत्रों की मूलाधार थी तथा सदा सुन्नप्रदायिनी थी । राम-लक्ष्मण ने उस मंत्र-शक्ति के प्रताप से सूर्य का-सा तेज प्राप्त कर लिया । थकावट, भूख और प्यास आदि संकट से वे मुक्त हो शक्ति से शोभायमान हो गये । उस रात्रि को दाशरथि सरयू नदी के किनारे, तरुण कोमल कुश-शय्या पर, कौशिक से पुण्य-कथाएँ सुनते हुए बड़े आनन्द से सो गये ।

गाधिपुत्र-प्रभात के समय शीघ्र ही उठे और वहाँ तृण-शय्या पर आँखें बन्द किये हुए राघवों को देखकर बड़े कौतूहल से कहने लगे—‘हे अनघ, अरुणोदय हो चला । प्रातः काल के नित्य कर्मों का पालन होना चाहिए । इसलिए तुम्हें अब जागना चाहिए ।’ यह सुनते ही (वे उठे और) संध्यावन्दन से निवृत्त होकर प्रफुल्लित से कौशिक को प्रणाम किया । (उसके पश्चात्) नदी-धारा के किनारे-किनारे चलकर वे सरयू तथा गंगा के संगम के पास पहुँचे और वहाँ कई सहस्र वर्षों से नियमबद्ध हो तपस्या करनेवाले परम संयमी मुनियों को देखकर, बहुत ही हर्षित होकर दशरथात्मज ने गाधिपुत्र से यों कहा—

१९. अनंगाश्रम का वृत्तान्त

‘हे संयमीन्द्र, यह किसका आश्रम है ? इस तपोभूमि में कौन रहते हैं ?’ तब मुनि ने कहा—‘यह अनंगाश्रम के नाम से लोक में विख्यात है । इस आश्रम में बड़े धैर्य के साथ तप में लीन शिव को देखकर कंदर्प ने बड़े दर्प के साथ चन्द्रशेखर पर (पुष्प) बाण चलाया था और उस देव के भाल-नेत्र की अग्नि से भस्म होकर अनंग नाम पाया था ।

(उसके) अंगों से संबंधित यह आश्रम-भूमि तब से अंगदेश कहलाने लगी। इस आश्रम भूमि में कठिन तपस्या करनेवाले पुण्यात्मा कृतार्थ हो जाते हैं।”

इस तरह विश्वामित्र ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। रघुवीर तथा मुनि वहाँ ठहरकर स्नानादि अनुष्ठान पूरा करके संतुष्ट हुए। उस स्थान के आश्रमवासी मुनीश्वरो ने दिव्य दृष्टि से यह बात जान ली। वे रमणीय रूपवाले राम-लक्ष्मण तथा अभित तपोधनी कौशिक को अपने आश्रम में लिवा ले गये और अत्यन्त उत्साह से अर्घ्य, पाद्यादि देकर उनका सत्कार किया। पुण्य-कथाओं के कथन से वह रात्रि पुण्यरात्रि हो गई। दूसरे दिन जब वे पुण्य संयमी उस नदी में नित्य कर्मों से निवृत्त हो चुके, तब विश्वामित्र ने कहा—“हमें इस नदी का पार उतारने के लिए यह नाविक समर्थ है। यह नाव सूर्य-वंशजों के लिए लायक है।” यह सुनकर राम-लक्ष्मण ने उन मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने उनको विदा किया। तब वे विश्वामित्र के साथ नाव पर चढ़कर सरयू नदी पार करने लगे। जब नाव बीच धार में पहुँची, तब (रामने) आश्चर्य के साथ हाथ जोड़कर पूछा—“यह कैसी ध्वनि आकाश तक गूँज रही है। कृपा करके बताइए।”

मुनि ने कहा—“कैलास पर्वत के मानसरोवर में जन्म लेकर, समृद्ध साकेतनगरी को चारों ओर से घेरने के बाद गंगा नदी में मिलनेवाली सरयू नदी की लहरों का यह घोष है। इस पर (राम-लक्ष्मण) ने बड़ी श्रद्धा से उसे प्रणाम किया। उन पुण्यात्माओं ने नदी को पार किया और हाथी, सुअर, भैंसा, हिरण, शरभ, अजगर, बाघ, रीछ, सिंह से भरे हुए जंगल में प्रवेश किया। तब राघव ने कहा—“हे मुनीश्वर, खदिर (कत्था), तिन्दुक, पूग, खजूर, निम्ब, बदरी, वट, अशोक, पाटलि आदि तहओं तथा बहुकंटक एवं लता-परिवेष्टित वृक्षों से युक्त, यह निर्जन वन किसका आश्रम है? कृपया बताइए।” तब विश्वामित्र श्रीराम से सारा वृत्तान्त यों कहने लगे—“प्राचीन काल में इन्द्र वृत्रासुर का वध करने से मल-कलुष-प्राप्त तथा मलिनांग हुआ। तब देवता तथा मुनि इन्द्र को पाप-मुक्त करने के लिए यहाँ ले आये और पुण्यसलिल तथा पवित्र मंत्रों से पुण्याभिसेचन किया। इससे उसके शरीर पर लगे मल-कलुष दोनों यहाँ के प्रदेशों में भर गये और इन्द्र शुद्ध हो गया। इसलिए इन्द्र ने इन प्रदेशों को, मल युक्त होने से ‘मलद’ तथा क्लेश-कलित होने से ‘करुष’ तथा ‘पापघ्न’ नाम दिये। वृत्रासुर के वध से लगे हुए पाप की मुक्ति इस प्रदेश में होने से इन्द्र ने इन नगरों को धन-धान्य-वैभव से समृद्ध रहने का वर दिया। हे रघुनाम, एक बात और सुनो।

२०. विश्वामित्र का श्रीरामचन्द्र को ताड़का का वृत्तान्त सुनाना

“इस पृथ्वी पर ताड़का नाम की एक राक्षसी, एक हजार हाथियों का बल रखती हुई, बड़े साहस के साथ, इन दोनों प्रदेशों में प्रवेश कर स्वेच्छा से लोगों को तंग करती है।” इसपर राघव ने पूछा—“इस स्त्री को किसने इतनी शक्ति दी? यह दुष्टबुद्धि किसकी लड़की है? यह पापिन क्यों इन दो प्रदेशों को पीड़ा पहुँचा रही है? कृपया बताइए।”

१. वाल्मीकि और कालिदास ने भी अनंगाश्रम का वर्णन किया है, पर वह अंग-देश में नहीं था। वह तो सरयू नदी के किनारे था। अंग-देश तो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले माने गये हैं, जिसमें सरयू नदी नहीं है।—सम्पादक

इस पृथ्वी पर सुकेत नामक एक यक्ष ने पूर्व में ब्रह्मा की तपस्या की थी और अत्यधिक भक्ति से उनको तृप्त किया और उनमें एक पुत्र माँगा । (तब ब्रह्मा ने कहा) 'मैं तुम्हें पुत्र नहीं दूँगा । एक हजार हाथियों का बल रखनेवाली एक पुत्री दूँगा ।' उस वर से उसे एक लड़की प्राप्त हुई । उसने विचार करके अपनी उस लड़की का विवाह सुद (नामक व्यक्ति) से कर दिया । उसने (सुद ने) उस स्त्री से 'मारीच' तथा 'भुबाहु' नामक दो भयंकर शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न किये । इसके पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । वह स्त्री अपने पुत्रों के साथ बड़े गर्व से अगस्त्य के आश्रम में जाकर बार-बार उनको तंग करने लगी । अगस्त्य ने इन पापियों को देखकर क्रोध से उन्हें राक्षस वन जाने का शाप दिया । उस दिन से राक्षस-रूप धारण कर निर्दयी हो वह मनुष्यों का आहार करती हुई यही रहती है और पृथ्वी को दुःख देती है । तुम्हारे अतिरिक्त कोई इसे मार नहीं सकता । सिवा तुम्हारे हाथ के किसी से यह नहीं मरेगी । यह मत कहो कि यह स्त्री है, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए । यदि गो-ब्राह्मणों का हित हो, तो यही कारण स्त्रियों को मारने के लिए राजाओं को पर्याप्त है । प्राचीन काल में सारे संसार का नाश करने के लिए उद्यत, मतिमान् विरोचन की दुष्टा पुत्री को क्या इन्द्र ने क्रोध से नहीं मारा था ? क्या वह कार्य (संसार में) स्तुत्य नहीं हुआ है ? पहले दृढ़ व्रतवाली भृगु-पत्नी के संसार में अशान्ति फैलाने का उपक्रम करने पर क्या विष्णु ने (स्वयं) उस स्त्री का वध नहीं किया था ? इसलिए हे पुण्य-चरित्र, लोकहित के लिए स्त्रियों का वध करना भी पुण्य ही है ।"

२१. ताड़का का वध

विश्वामित्र के ऐसे अनुपम वाक्यों तथा अपने पिता के आदेश का विचार करके राघव ने, उस ब्रह्मर्षि के वचन की अवहेलना नहीं करते हुए कहा कि मैं ताड़का को दण्ड दूँगा । उन्होंने (अपने) धनुष की टंकार से सारे आकाश को गुँजा दिया । (उसे सुनकर) ताड़का क्रोध से उबल उठी । कर्ण-कठोर धनुष की टंकार सुनकर उसका चंचल लाल नेत्रों वाला मुख विकृत हो उठा । वह अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाये हुए इस प्रकार आने लगी, जैसे पंखोंवाला पहाड़ बड़े वेग से आ रहा हो । प्रकट अट्टहास से उसके बड़े-बड़े दंष्ट्रों की कांति चारों ओर बिखर रही थी । (चलते समय) वह अपने पदाघात से अपनी अमित शक्ति का परिचय पृथ्वी को दे रही थी । सारा आकाश एकदम हिल-सा गया । इस प्रकार आनेवाली ताड़का को देखकर दाशरथि राम ने संभ्रम-चित्त से अपने भाई से कहा—'देखा तुमने इसका ढंग, इसका रूप और इसकी भयंकर दृष्टि । इसको देखने पर किससे भय नहीं होगा ? मैं अवश्य इसका वध करूँगा ।"

इस प्रकार (श्रीराम) कह ही रहे थे कि (अपने) गर्जन से समस्त आकाश को काँपाती हुई, अपनी पद-धूलि से समस्त (संसार) को ढकती हुई वह भयंकर राक्षसी बड़ी-बड़ी शिलाओं की वर्षा करने लगी । इससे क्रुद्ध हो राघव ने अपने अनुपम अस्त्रों से उन शिलाओं को काट डाला और उस (राक्षसी) के दोनों हाथ भी काट डाले । तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान इस प्रकार काट डाले, मानों वे यह बतलाना चाहते हों कि आगे मैं उस असुर-राज की बहन की भी यही दशा कर दूँगा ।

बड़े आश्चर्य की बात है कि तब वह कामरूपिणी, माया का रूप धारण करके, कई अस्त्रों की वर्षा करने लगी। तब विश्वामित्र ने कहा—‘हे अनघ, संध्या हो रही है और संध्या के समय राक्षसों को जीतना कठिन है। अब तुम उसपर दया करना छोड़ दो और लोक-हितार्थ इसे तुरंत मार डालो।’

तब गाधेय का आदेश मानकर (राघव ने) शब्द-बेधी बाणों से उस मायाविनी की मायाओं को दूरकर, भयंकर गर्जन करती हुई बिजली के समान आनेवाली राक्षसी को (उन्होंने) देखा। तब उन्होंने एक महान् अस्त्र उसके कुचाग्र पर ऐसा चलाया कि रक्त की कई धाराएँ बह निकलीं, मानों रामचंद्र असुरों को दण्ड देने का उपक्रम करते समय शरों को (रक्त का) उपहार दे रहे हों।

तब वह (राक्षसी) पृथ्वी पर इस तरह गिरी, मानों प्रलय-मास्त से संध्या का आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर गया हो। समस्त प्राणी आनंदित हुए। देवता तथा मुनि हर्षित हुए। कौशिक ने राम को गले से लगाकर आशीर्वाद दिये।

तब देवता तथा गंधर्वों के साथ देवेन्द्र वहाँ आया और श्रीराम के दर्शन करके, उनकी पूजा तथा प्रार्थना की। फिर देव-भक्त गाधेय को देखकर इन्द्र ने कहा—“हमारी रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिये हुए इस महापुरुष को आप भृशास्व की संतान-रूपी सभी अस्त्र-शस्त्र प्रदान करें।” इस प्रकार कहकर इन्द्र देव-लोक को लौट गये। इतने में सूर्यास्त हो गया। वे लोग वही ठहर गये।

२२. विश्वामित्र का श्रीराम को भृशास्व-संतान-रूपी शस्त्र देना

दूसरे दिन विश्वामित्र ने राम को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाकर कहा—‘हे राम! तुम्हारा रण-कौशल देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब हम तुम्हें ऐसे शस्त्रास्त्र देंगे, जो अमर, उरग, असुर तथा यक्षों के साथ युद्धों में श्रेष्ठ सिद्ध होंगे।’

यों कहकर तन और मन से शुद्ध हो, मुनीश्वर ने राम को पूर्वाभिमुख बिठाया, ध्यान किया और क्रमशः दंड-चक्र, धर्म-चक्र, काल-चक्र, विष्णु-चक्र, इन्द्र का वज्र और खड्ग, वरुण-पाश, धर्म-पाश, काल-पाश, परमशिव का भयंकर शूल, शक्तियुग्म (विष्णु-शक्ति तथा रुद्र-शक्ति), भयंकर उष्ण तथा अनुष्ण अशनियाँ (शुक्लाशनि तथा आर्द्राशनि), कंकाल (जिन्हें राक्षस धारण करते हैं), भयंकर करवाल, मूसल, कंकण और कौचबाण आदि शस्त्र (श्रीराम को) दिये। इसके पश्चात् (उन्होंने) बड़ी प्रसन्नता तथा प्रेम से आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तेजःप्रभास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, ब्रह्मशिर, प्रस्थापन, नारायण, पैनाक, शिशिर, दारुण, शौर्य तथा सुदामन्, प्रशमन, विलापन, विशद प्रभात्राला विद्याधर, वायव्य, सौम्य, संवर्त्त आदि नामक अस्त्र तथा मायाधर, मानव, मदन, सौमन, रुद्र, संतापन, मौसल, दर्पण, ह्यशिर आदि अस्त्र, मायाओं का प्रयोग कर विजय दिलानेवाले गांधर्व तथा सम्मोहनास्त्र, अत्यंत निष्ठा-समन्वित तथा शोणितारव्य अद्वितीय आग्नेयास्त्र, गरुडास्त्र, कौबेरास्त्र, नरसिंहास्त्र, नागास्त्र, अवार्य वैष्णवास्त्र, सतत स्तुत्य वैद्याधरास्त्र, रौद्रास्त्र, राक्षसास्त्र, कल्याण-प्रद पाशुपतास्त्र, कर्त्तरीचक्र, मेघास्त्र जैसे अगणित अस्त्रसमूह; अखिल दारुण मोदकी, शिखरी नामक गदाएँ, वामन, पैशाच तथा वायव्य शस्त्र; सोम, सौम्य, संवर्द्धन, साम, मदन,

संतापन, तामस, जैसे दारुण अस्त्र; कंकोल, करवाल, मूसल आदि धारण-योग्य अस्त्र राम को दिये । उन्हें लेते हुए राम ने उस महात्मा को देखकर कहा “हे मुनिनाथ, आपकी कृपा से अभी अस्त्र प्राप्त करके मैं कृतार्थ हुआ । अब आप मुझे उपसंहार के अस्त्र प्रदान कीजिए ।”

इस पर प्रसन्न हो उस मुनि ने उन्हें सत्यवंत, रभस, परामुख, सत्य-कीर्ति, दशाक्ष, अवाङ्मुख, प्रतिहारतर, मारण, शुचि, शतवक्त्र, दैत्य, घृष्ट, लक्ष्य, कृशान, करवीरक, दश-शीर्ष, शतोदर, ज्यौतिष, विमल, मकर, विश्वि, निष्कुलि, प्रमथन, सुनाम, सर्वनाम, दुदुनाभ, पद्मनाभ, तृणनाभ, नैराश्य, का रूप, योगंधर, सैमन, निद्रा, संधान, मोहन, विषमाक्ष, महानाभ, बाहुविभूति, जृम्भक, धन, धान्य, वृत्तवंत, रुचिर, सार्विर्माली, धृतिमाली नामक कामरूपवाले महान् अस्त्रों का उपदेश राजकुमार को दिया । इनके अतिरिक्त भी (मुनि ने) उस रघु-वंश प्रभु को अनेक शस्त्रास्त्र-समूह दिये, उनकी शक्ति बताई, उनसे संबंध रखनेवाले मंत्र बताये, उनके प्रयोग की तथा उपसंहार की विधि बताई । शस्त्रास्त्र-संबंधी सभी मर्म बताये ।

तब राम के आगे वे सभी (शस्त्रास्त्र) तरह-तरह के रूप धारण करके प्रकट हुए । उनमें कुछ अग्नि-सदृश थे, कुछ भयकर थे, कुछ धूमिल कांति के थे, कुछ अनुपम दीप्तिमान् थे, कुछ दिव्य शरीरवाले थे, कुछ चंद्र-प्रभा-विलसित थे, कुछ भानु-दीप्ति-विलसित थे, कुछ अंधकार-विलसित थे, कुछ भयंकर अट्टहास कर रहे थे और कुछ पवित्र रूप धारण किये हुए थे । उन सब ने मुकुलित करों से (राम के आगे) खड़े होकर कहा—‘हे राजन्, हम कौन-सा कार्य करें, हमें क्या आदेश देते हैं ? हमें कहाँ भेजेंगे ?’ तब राम ने कहा—‘मेरे स्मरण करने पर तुम चले आना, अभी तुम जा सकते हो ।’ यह सुनकर सभी शस्त्रों ने उस वसुवेश की प्रदक्षिणा की और नमस्कार करके चले गये ।

तब राघव ने मुनिनाथ के सामने हाथ जोड़कर विनय, भक्ति तथा विश्वास प्रकट करते हुए कहा—‘हे अनघ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हुआ ।’

उसके पश्चात् वे विश्वामित्र के पीछे-पीछे चलने लगे । चलते-चलते उन्हें वामनाश्रम का सुंदर प्रदेश दिखाई पड़ा । उसे देखकर काकुत्स्थवंशी राम ने कहा—“हे संयमींद्र, इस पर्वत के निकट, नाना मृगों की ध्वनियों, सुंदरपक्षियों तथा मृगों से भरा यह दर्शनीय तथा सुंदर वन किसका आश्रम है ? यहाँ सब मृग बड़े सुख से रह रहे हैं । हे सर्वज्ञ, आपकी यज्ञ-भूमि यहाँ से कितनी दूर है ? चंचल तथा उद्धत राक्षस आपके यज्ञ को अपवित्र करने के लिए कहाँ से आते हैं ? मैं अपने तेज बाणों से उन समस्त राक्षसों को मार डालूँगा और यज्ञ की रक्षा करूँगा ।”

तब कौशिक ने जगदभिराम राम के कपोल स्नेह से छूकर बड़े प्रेम से कहा—‘हे अनघ, क्या कोई ऐसा विषय है, जिसे तुम नहीं जानते ? यदि मुझसे ही सुनने की इच्छा है, तो सुनो ।’

२३. कौशिक का श्रीराम को सिद्धाश्रम का वृत्तांत सुनाना ।

“प्राचीन काल में विष्णुदेव बड़े आनंद से तपस्या करने के लिए यहाँ अनेक युगों तक रहे । इसलिए हे अनघ, इसे वामनाश्रम कहते हैं । उसके पहले यह सिद्धाश्रम नाम से विख्यात था । हे जननाथ, विरोचन का पुत्र बलि अपने विशाल राज्य-वैभव के कारण घमंड से प्रबल होकर देव तथा सुरों को यातनाएँ देने लगा । तब मुनि तथा देवता इस आश्रम में आये और कमलनाभ को प्रणाम करके कहा—‘हे शरणागत-प्रिय, हे लोकेश, हे कमलगर्भ, हमारी रक्षा कीजिए । हमें शरण दीजिए । हमें त्रास देनेवाला बलि यज्ञ कर रहा है । उस राक्षस-यज्ञ-भूमि में जो कोई भी जो कुछ माँगता है, वह दे रहा है । उस यज्ञ की समाप्ति के पहले ही आप हमारा हित सिद्ध कीजिए ।’

“उसी समय उज्ज्वल व्रत-निष्ठ कश्यप ने अदिति के साथ एक सहस्र वर्ष का तप पूरा किया । उसके उपरांत संतुष्ट हो विष्णु ने उन्हें दर्शन दिये । तब (उस दंपति ने) प्रार्थना की—‘हे रवि-शशि-लोचन, आप अपने शरीर में हमें समस्त लोकों के दर्शन कराइए । हे आद्यन्त-रहित और वेद-वेद्य, हम आपकी शरण में आये हैं ।’

“विष्णु ने कृपा-दृष्टि से कश्यप को देखकर कहा—‘आप अपने इच्छानुसार कोई वर माँग लीजिए, मैं दे दूँगा ।’ कश्यप ने बड़ी प्रसन्नता तथा भक्ति से हाथ जोड़कर कहा—‘हे भगवन्, आप अत्यंत तेज-समन्वित होकर मेरे तथा अदिति के पुत्र होकर जन्म लीजिए तथा सुरों की रक्षा कीजिए । यही मेरी तथा देवताओं की इच्छा है । हम सब को इच्छा आप पूर्ण कीजिए ।’

“कश्यप के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने अपने अनुपम तेज से युक्त हो अदिति के गर्भ में जन्म लिया । उन्होंने वामन का रूप धारण कर उस दानव (बलि) से तीन पग धरती माँगी । फिर, दो पगों से पृथ्वी तथा आकाश को नाप लिया और उस धन्यात्मा (बलि) को बाँधकर इन्द्र को तीनों लोक देते हुए कहा—‘तुम इन पर शासन करो ।’ इसीलिए यह स्थान वामनाश्रम कहलाता है । यही हमारा आश्रम है । इस पुण्यभूमि के निवासी तपोसिद्ध हैं; अतः यह सिद्धाश्रम भी कहलाता है । तुम्हीं वामन होकर त्रिविक्रम का अवतार लेनेवाले विष्णु हो । उन दिनों में भी यह तुम्हारा ही वन था । हे राम, आज भी उसी रीति से यह तुम्हारा ही वन है ।” इस प्रकार, कहते हुए कौशिक अपने आश्रम में गये और (वहाँ जाकर) राम-लक्ष्मण का सत्कार किया ।

२४. विश्वामित्र का यज्ञ

वहाँ के मुनियों ने बड़े प्रेम के साथ राम की पूजा की । तब राघव ने विश्वामित्र के देखकर बड़े हर्ष से कहा—‘हे मुनीश्वर, आप निश्चिंत होकर आज ही यज्ञ-दीक्षा ले लीजिए । यज्ञ के शत्रुओं का संहार मैं अवश्य करूँगा ।’

तब विश्वामित्र अत्यंत हर्षित हुए और मुनियों को बुलाकर स्वयं यज्ञ-दीक्षा ली । मुनियों ने यज्ञ की वेदियाँ तैयार कर दीं और यज्ञ के आवश्यक अंगों से यज्ञ-वेदी संपन्न हो गई । धी की आहुतियाँ पड़ने लगी और अग्नि की ज्वालाएँ आकाश तक फैलने लगी । हवन की अग्नि के प्रज्वलित होने के साथ-ही-साथ साम आदि वेदों के आनन्द-घोष, निरंतर

(सुनाई पड़नेवाली) देवताओं का आह्वान करनेवाली ध्वनियाँ तथा होताओं के पुण्य-मंत्रों के शब्दों से दिशाएँ अत्यधिक गूँजने लगी। एक ओर बड़े आश्चर्य के साथ यज्ञ के कार्य हो रहे थे, दूसरी ओर रामचंद्र धनुष धारण कर, भाई सौमित्र के साथ, बड़ी सतर्कता से, राक्षसों के आने का मार्ग पहले ही जानकर उस मुनि विश्वामित्र की रक्षा इस प्रकार करने लगे, जैसे समस्त विश्व को अंधकार से आवृत होने से बचाने के लिए चंद्र और सूर्य अपनी शाश्वत प्रभा फैलाते हैं। बड़ी भक्ति के साथ पाँच दिनों तक वे (उस यज्ञ की) रक्षा इस प्रकार करते रहे, जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं। छठे दिन मारीच तथा सुबाहु अपना समस्त बल इकट्ठा करके, उद्धत गति से आकाश में ऐसे व्याप्त हो गये, मानों (उन सबके शरीर) काले मेंघों की राशि हों और उनके श्रेष्ठ खड्गों की कांति बिजली हो। वहाँ खड़े होकर वे गर्जन करते हुए घमंड से फूलकर यज्ञ-भूमि में लगातार रक्त-मांस की वर्षा करने लगे। तब होताओं में कोलाहल होने लगा। उपस्थित सदस्यों में कल-कल ध्वनि प्रारंभ हो गई। परिचारकों के दीन वार्त्तालाप सुनाई पड़ने लगे।

यह सुनकर रामचंद्र ने क्रोध के आवेश में लक्ष्मण से कहा—“हे लक्ष्मण, अब तुम मेरी शक्ति देखो। उनके धनुष की टंकार विजय-लक्ष्मी के धनुष की टंकार के समान थी। उन्होंने खड़े होकर अपनी दृष्टि आकाश पर केंद्रित की और अत्यंत वेग के साथ वायव्य बाण चलाया। वह बाण मारीच को द्रुतगति से शत योजन तक उठा ले गया और उस क्रूर राक्षस को समुद्र में फेंक दिया। वज्र के प्रहार से समुद्र में गिरे हुए मैनाक की तरह वह असुर समुद्र में गिरा; फिर किसी तरह तट तक पहुँचा। उसने उस सूर्यवंशी (राम) के उज्ज्वल पराक्रम की प्रशंसा जहाँ-तहाँ की; (अपने) राक्षस-दल को छोड़ दिया, अपना शौर्य त्याग दिया, आसुरी वृत्ति को दबा दिया और आसुचंद्राश्रम-भूमि में सतत तपस्या में लीन रहने लगा।

उसके पश्चात् रघुराम ने सुबाहु के हृदय पर अग्नि-बाण चलाकर उसका संहार कर डाला। एक मानव-शर से अन्य राक्षस-सेना का वध कर दिया। (यह देखकर) देवता बड़े हर्ष से पुष्प-वृष्टि करने लगे। मुनियों ने (राम की) स्तुति की। जिस प्रकार वृत्रासुर का वध करने पर देवता लोग इन्द्र की प्रशंसा करने के हेतु उनके चारों ओर एकत्र हुए थे, वैसे ही (आज) राम अपने भुज-बल के प्रताप से यज्ञ के शत्रुओं को दंड देने के कारण (मुनिजनों के बीच) शोभायमान हो रहे थे।

विश्वामित्र बड़ी निष्ठा के साथ यज्ञ की सभी क्रियाओं को समाप्त करके आये और राम को बड़े हर्ष से गले लगाकर उनकी प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर बोले—‘रघुराम, तुम्हारी कृपा से मैं बिना किसी कठिनाई के यज्ञ संपूर्ण करके कृतार्थ हुआ।’

इस प्रकार, उस पुण्यात्मा विश्वामित्र मुनि का अनुराग प्राप्त करके राम ने वहीं रात्रि बिताई और बड़े सबेरे, प्रातःकाल की सभी विधियों से निवृत्त होकर, सब मुनियों को प्रणाम करके, गांधि-पुत्र से कहा—‘हे तपोनिष्ठ, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम आपके दास हैं और आपकी कृपा के पात्र हैं।’

तब वहाँ के सभी मुनि गाधि-पुत्र को आगे करके इस प्रकार कहने लगे—“हे रवि-कुल श्रेष्ठ, महाराज जनक बड़े सुंदर ढंग से यज्ञ कर रहे हैं। हम वहाँ चलें। उनके पास परमशिव का दिव्य धनुष है। गंधर्व तथा राक्षस आदि कई वीर उसे उठाने में असमर्थ हो चुके हैं। ऐसे धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानेवाले श्रेष्ठ वीर के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करने की प्रतिज्ञा राजा जनक कर चुके हैं। इसलिए उस श्रेष्ठ धनुष को तथा जनक के यज्ञ को देखने आपको अवश्य जाना चाहिए।”

इस प्रकार विश्वामित्र तथा अन्य मुनियों ने उन वीर, पुण्यात्मा, दाशरथियों को मिथिलापुरी चलने की प्रेरणा दी। सब लोग बड़े हर्ष से प्रस्थानकर गंगा के उत्तर तट पर पहुँचे^१ और हिमाचल तथा सिद्धाश्रम को दक्षिण में छोड़कर^२ उत्तर की ओर बढ़े। उस मार्ग से यात्रा करते हुए वे उस दिन तीसरे पहर तक तीन योजन चले। वहाँ शोण नदी के किनारे वे ठहरे और वहाँ के पुण्य तीर्थ में स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हुए (उसके पश्चात्) उस रम्य स्थल में मुनियों के साथ बड़े आनंद से रहते हुए राम ने कौशिक से यों कहा—

२५. कौशांबी का वृत्तान्त

(श्रीराम ने कहा)—“हे मुनिनाथ, अत्यधिक प्रजा-समृद्ध यह देश किसका है? कृपया बतलाइए।” तब विश्वामित्र ने कहा—“हे राजन्, सुनो, ब्रह्मा के मानस-पुत्र कुश नामक एक यशस्वी मुनि पूर्व काल में रहते थे। उन्होंने वैदर्भी नामक स्त्री से रूपवान् तथा शांत प्रकृतिवाले अधूर्तरज, वसु, कुशांब और कुशनाभ नामक चार पुत्र प्राप्त किये। चारों पुत्र अत्यंत साहस तथा शूरता के साथ अपने क्षत्रिय-धर्म का पालन करने लगे। अपने पुत्रों के चरित्र तथा सद्गुण देखकर कुश ने बड़े हर्ष से कहा—‘इस पृथ्वी पर तुम लोगों को प्रजा का पालन करना चाहिए। इससे तुम्हारी कीर्ति व्याप्त होगी।’

“तब कुशल कुशांब ने बहुत प्रसन्न होकर कौशांबी नाम से एक नगर का निर्माण किया। हे दशरथात्मज, कुशनाभ ने महोदय नामक नगर बसाया। शूर अधूर्तरज ने धर्मि-रण्य नामक सुंदर नगर का निर्माण किया और वसु ने गिरिवज्र नामक एक अत्यंत दर्शनीय नगर बसाया। यह प्रदेश, जहाँ हम हैं, महाराज वसु के राज्य में है; इस प्रदेश के चारों दिशाओं में पाँच पर्वत हैं। उन पर्वतों के मध्य मागधी नामक एक नदी बहती है। इस सारे मगध देश पर वसु महाराज अत्यंत धर्म की रीति से प्रजा का पालन करते हैं।

“कुशनाभ ने घृताची नामक एक अप्सरा से प्रेम करके (विवाह किया)। मन्मथ-शर जैसे नेत्रवाली सौ रूपवती पुत्रियों को प्राप्त किया। एक दिन कमनीय कांति-युक्त तथा मनोहर यौवन-संपन्न वे युवतियाँ उद्यान में गईं।

१. गंगा के दक्षिण तट से चले; क्योंकि उत्तर तट पर पहुँचकर चलने से शोण नदी नहीं मिलगी। —सम्पादक

२. हिमाचल तो ‘जनकपु’ से भी उत्तर है, उसे दक्षिण में छोड़कर ‘सिद्धाश्रम’ से चलना असंगत है। वाल्मीकिरामायण में लिखा है कि सिद्धाश्रम हिमालय की ओर उत्तर दिशा में चलने के उद्देश्य से वे चले। —सम्पादक

“वहाँ अपने मंजीर, मेखला तथा कंकणों को मधुर-मधुर मुखरित करती हुई ताल-गति के साथ लास्य करने लगी। कुछ युवतियाँ मृदु-मधुर रीति से मृदंग आदि वाद्यों को बजाने लगी; कुछ अपने कर-पल्लवों से वीणाओं को ववणित करने लगीं; कुछ अन्य युवतियाँ आम्र-मंजरी के मधु-पान से मस्त कोकिल-कंठ से गान करने लगी। इस प्रकार वे सभी कन्याएँ उस उद्यान में क्रीड़ाओं में मग्न हो गईं।

उन सुंदरियों को देखकर काम-पीड़ा से व्याकुल होकर पवनदेव ने उन मानिनियों से कहा—‘हे मानिनियो, आप किञ्चित् मेरी बात पर ध्यान दें। हे पद्माक्षियो, आप मुझे (अपना पति) वरण करें और अमरत्व को प्राप्त करें। इस तरह आप अजर-अमर होकर सतत यौवनावस्था में रहती हुई उन्नत कीर्ति प्राप्त करेंगी।’

“तब उन कन्याओं ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—‘हे अनिल, आप सब के हृदयों में संचार करनेवाले है। आप हमें जानते हैं। हाय ! आप अपनी महत्ता का भी विचार किये बिना क्या कह रहे हैं ? हम उस कुशनाभ की पुत्रियाँ हैं, जो अत्यन्त शक्तिशाली तथा धर्मानुरक्त हैं। हमारे पिता के रहते हुए हम अपने-आप किसी का वरण कर लें, तो इससे हमारे कुल को कलंक लगेगा। हमारे पिता हमें (विवाह में) जिन्हें देगे, वे ही हमारे पति होंगे।’

“यह सुनकर पवन अपने क्रोध को सँभाल नहीं सका। उसने उनके अंगों में प्रवेश करके उन्हें कुब्जाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। खिन्न होकर वे सभी (कन्याएँ) अपने पिता के सामने गईं और सिर झुकाये आँखों में आँसू भरे खड़ी रही। कुशनाभ अपनी पुत्रियों की दशा देखकर सहम गये और पूछने लगे—‘हे पुत्रियो, तुम्हें ऐसा रूप कैसे प्राप्त हुआ ? किसने ऐसा किया ? तुम बोलती क्यों नहीं हो ? इसका क्या कारण है ?’

“तब उन धवलाक्षियो ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा—‘पिताजी, हमें देखकर पवन ने निर्लज्जता से कहा कि हे सुंदरियो, तुम लोग मुझे बरो। हमने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करके कहा कि आप यह बात हमारे पिता से जाकर कहिए। इसपर उस क्रूर ने कामांध होकर हमें कुब्जा बना दिया।’

“यह सुनकर उन्होंने उन कमलाक्षियों से कहा—‘हे कन्याओ ! औचित्य और धर्म का विचार करके (कुल की मर्यादा का उल्लंघन करना) अनुचित समझते हुए तुम लोगों ने उस मर्यादा का पालन किया। तुम्हारे इस गौरवपूर्ण कार्य से मेरे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। देवताओं के संबंध में क्रोध करने का साहस तुमने नहीं किया। इस प्रकार तुम्हारा सहन कर जाना ही उत्तम है। क्षमा (सहनशीलता) ही सत्य है, शील है, तप है, धर्म है और कीर्ति है। वही समस्त लोकों की रक्षा करनेवाली है।’

“इस प्रकार (सांतवना देकर) राजाने अपनी कन्याओं को विदा किया। (उसके पश्चात्) उन्होंने अपने मंत्रियों से परामर्श करके पुण्यात्मा चूली नामक मुनिवर के पुत्र सद्गुण-संपन्न ब्रह्मदत्त को बुलावा भेजा और निर्मल मति से उस महात्मा की धर्मपत्नियों के रूप में अपनी कन्याओं को दे दिया। चूली-पुत्र के उन्हें स्वीकार करते ही उन कन्याओं की विकृति दूर हो गई।”

“हे अवनीश, उस दिन से वह उत्तम नगर ‘कन्याकुब्ज’ के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात हुआ। तब कुशनाभ अपनी पुत्रियों के कमनीय रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पुत्रियों तथा जामाता को विदा किया। तब कुश ने अपने पुत्र कुशनाभ को संबोधित करके कहा—‘तुम पुत्रकामेष्टि-यज्ञ करो’ तो तुम्हें अमित कीर्त्तिमान् तथा पुण्यात्मा गाधि नामक पुत्र होगा। यों कहकर वे ब्रह्मलोक सिधारे।”

“कुश के पौत्र रूप में गाधि ने जन्म लिया। हे दशरथात्मज, मैं उसी गाधि का पुत्र हूँ। कुश का वंशज होने के कारण मुझे कौशिक भी कहते हैं। गुणवती तथा धर्म-निःगता मेरी बड़ी बहन सत्यवती, अपने प्राणेश्वर ऋचिक के साथ सशरीर इन्द्रलोक में गई और इस लोक का कल्याण करने के लिए प्रालेय-पर्वत में स्वयं कौशिकी नाम से नदी के रूप में बह रही है। सिद्धाश्रम में प्रवेश में करने के कारण सच ही मैं तपःसिद्ध हुआ। प्राचीन काल से मैं अपना नाम तथा इस देश के निर्माण के संबंध में यह वृत्तांत सुनता आ रहा हूँ। अब हे राजन्, अर्द्ध-रात्रि हो गई। तुम बहुत थके हुए हो, अतः विश्राम करो।”

“सभी वृक्ष स्थिर हो गये हैं; इस वन-प्रान्त में मृग-समूह का संचार अब नहीं रहा; विहंग अपने घोंसले में पहुँचकर अपनी मीठी बोलियों को भूले हुए पड़े हैं; अब निशाचर, यक्ष तथा राक्षस अपने इच्छानुसार इस पृथ्वी पर संचरण करेंगे; समस्त दिशाएँ तथा आकाश कालिख पोते हुए-से अंधकारमय दीख रहे हैं, ब्रह्माण्ड-रूपी गृह के लिए नीलांबर में लगाये हुए मोतियों से युक्त तंबू के समान यह आकाश नक्षत्रों से युक्त होकर शोभा दे रहा है तथा जन-जन को आनंदित करते हुए नक्षत्र-पति अभी-अभी उदित हो रहा है।”

उन वचनों से प्रसन्न होकर संयमी मुनियों ने विश्वामित्र से कहा—‘हे अनघ, आपका वंश अमल है। आपके वंशज अतुलनीय माहात्म्यवाले हैं। आप ब्रह्मा के समान हैं। आपका ब्रह्म-तेज स्तुत्य है।’ तब विश्वामित्र ने उन मुनीश्वरों को धन्यवाद दिये। फिर राजकुमार तथा मुनिजनों ने उस रात्रि को वहीं शयन किया।

“प्रातःकाल होने पर ऋषियों तथा विश्वामित्र ने (राजकुमारों से) कहा—‘हे राज-कुमारो, अब तुम निद्रा तजो।’ वे जग पड़े और प्रातःकाल की क्रियाओं से निवृत्त होकर कौशिक से कहा—‘यह शोण नदी-रत्न कितना अगाध और सुंदर है? मछलियों से परिपूर्ण, अत्यंत रमणीय सैकत स्थल, मधुर जल तथा परिचित हंस आदि खग-कुल से शोभायमान, मंद-मंद पवन (के कारण) तरल तरंगों से युक्त यह नदी बड़ी ही रमणीय है। हे अनघ, हम कहाँ और किस प्रकार इस नदी को पार करेंगे?’

तब विश्वामित्र ने कहा—‘मुनिलोग प्रायः जिस स्थान से होकर इसे पार करते हैं, उसे जानकर हम भी वही से इसे पार करेंगे।’

इस प्रकार कहते हुए वे सब लोग कुछ दूर आगे चले। (वे ऐसी जगह पहुँचे), जहाँ कुल हंस, सारस, कारंडव आदि जल-पक्षियों का कलनाद ऐसा मीठा सुनाई पड़ रहा था, मानों वे लोगों का स्वागत कर रहे हों। राम ने उस ध्वनि को सुनकर, मध्याह्न के समय सिद्ध मुनिपुंगवों से सुसेवित, शुद्ध तथा पुण्य जल से पूर्ण, पृथ्वी में श्रेष्ठ नदी के नाम से विख्यात जाह्नवी को देखा और उसको प्रणाम करके कहा—‘हे गाधेय, वह जो

अंगाग्रं श्रेष्ठं नदी दिखाई पड़ रही है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे ?' तब मुनि बोले— 'हे नरनाथ, शोण नदी को पार करके तीन योजन आगे जाने पर हम उस महानदी के पास पहुँच सकते हैं । तब तक हमें मार्ग में जल और फल आदि बहुत मिल जायेंगे ।'

यों कहकर वे (शोण) नदी पार करके चलने लगे । (निदान) वे उस गंगा नदी के तट पर पहुँचे, जो पुण्य-सलिल, विकसित-कमल, फेन तथा सुंदर मछलियों से युक्त हो नित्य गंभीर गति से बहती थी । वे वहाँ घन-लता-कुंजों से युक्त एक समतल स्थान पर ठहर गये । वहाँ राजकुमार मध्याह्न की (संध्या आदि) पूजाओं से निवृत्त हुए, बड़े आनन्द से उचित आहार ग्रहण किया और मुनियों की संगति में बैठकर वार्त्तालाप करने लगे ।

(उस समय) राजहंसों द्वारा (कमल-पुष्पो को) हिलाये जाने से गिरे हुए कमल-रज से पूर्ण तथा राजीव-राजित तरंगों से युक्त गंगा नदी को देखकर क्षत्रिय-तिलक रामचंद्र ने कौशिक से पूछा—'हे महात्मा, गंगा नदी इस पृथ्वी पर कैसे आई, यहाँ से वह स्वर्ग-लोक में कैसे पहुँची ? पाताल को वह कैसे प्राप्त हुई ? कैसे वह समुद्र में जा मिली ? उस महानदी का जन्म कैसे हुआ ? कृपया बताइए ।'

तब उस पुण्यधनी विश्वामित्र ने राम से कहा—'हिमवान् (हिमालय) के कमनीय दीप्तिवाली दो पुत्रियाँ हैं । देवता लोग हिमालय से प्रार्थना करके उन दोनों में से बड़ी पुत्री पुण्यशीला गंगा को यज्ञ के लिये स्वर्गलोक में ले गये । दूसरी कन्या परम सुंदरी पार्वती को भाल-लोचन (शिव) की घोर तपोनिष्ठा से संतुष्ट हो, उन्हें पत्नी के रूप में दिया । गंगा सुष्ठुर गति से स्वर्ग में गई और वहाँ सुरनदी के नाम से विख्यात हुई ।'

इतना कहने के बाद मुनिवर ने राजकुमार को देखकर कहा—'और एक वृत्तांत है, सुनो । पार्वती से विवाह करने के पश्चात् चंद्र-शेखर (शिव) बड़ी अनुरक्ति के साथ एक सौ दिव्य वर्षों तक रत्ति-क्रीड़ा में निमग्न रहे । तब ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता अपने-आप सोचने लगे कि इन दोनों (शिव-पार्वती) का विषम तेज कौन धारण कर सकेगा ? इनके द्वारा उत्पन्न पुत्र की विषम शक्ति के सामने कौन टिक सकेगा ? इसलिए वे सब महादेव के पास जाकर बड़ी भक्ति से विनम्र हो कहने लगे—'हे देवाधिदेव, हे महेश, हे सर्वेश, आपकी महिमा सभी देवता जानते हैं । हे सर्वज्ञ, आप हम पर प्रसन्न होइए । आपके महान् तेज को धारण करने की क्षमता किस में है ? इसलिए आप यह क्रीड़ा छोड़ दें । आप कृपा करके तपोवृत्ति ग्रहण कर ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए ।' इस पर गौरीश ने उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा—'(किन्तु) अब तो तेज अपने स्थान (रतःस्थान) से विचलित हो चुका है । अब आपमें से कौन इस तेज को धारण करेगा ?' तब उनकी बात मानकर हर ने अपने (तेज का) विमोचन धरती पर कर दिया । तब देवताओं ने अग्निदेव को देखकर कहा—'हे पावक, तुम पवन के साथ, धरती पर पड़े हुए तेज में प्रवेश करो ।' अग्नि तथा वायु उस तेज को धारण करने में असमर्थ रहे । तब गंगा नदी ने उस तेज को बड़ी श्रद्धा के साथ धारण किया । लेकिन अपने प्रभु का तेज धारण किये रहना उसके लिए भी असंभव हो गया । वह भय से काँप उठी और उसकी लहरें

भय प्रकट करते हुए उत्तुंग बन गईं। तब उसने क्षुभित चित्त से उस तेज को अपने तट पर उगनेवाले सरकंडो के वन में प्रतिष्ठित कर दिया। शिव का तेज उस सरकंडे के वन में प्रतिष्ठित हुआ।

‘एक दिन ऋषि-पत्नियाँ अपने नित्य कृत्यों से निवृत्त होने वहाँ आ पहुँची। उन्होंने स्नान करते समय आपस में विचार किया कि हम ठंड से ठिठुर रही हैं, इसलिए सरकंडों की उस झाड़ी में त्रेताग्नियों के समान प्रज्वलित होनेवाली उन अग्नियों की हम शरण लेंगी (उसके पास जाकर अपनी ठंड दूर करेंगी)। इस प्रकार सोचकर वे ऋषि-पत्नियाँ उन अग्नियों के पास जा पहुँची।

“जो स्त्रियाँ उन अग्नियों के पास गईं और जिन्होंने बड़े उत्साह से उन्हें देखा, वे सब गर्भवती हो गईं। (इससे) वे अत्यंत भीत हो उठी और पश्चात्ताप करती हुई घर पहुँची। शांतचित्त मुनियों ने अपनी योग-दृष्टि से उस सारे वृत्तान्त को जान लिया और उन स्त्रियों से कहा—‘यह सब तुम्हारे गर्व तथा सुख की इच्छा का फल है।’ (इसके पश्चात्) वे स्त्रियों पर क्रोधोन्मत्त हो, सारी पृथ्वी को कँपाते हुए-से बोले—‘तुम सब बुद्धिहीन हो, तुम्हें क्षमा नहीं करनी चाहिए। तुम अपने पतियों से पृथक् हो जाओ।’ इस पर वे फिर गंगा नदी के पास गईं और कहने लगी—‘हे माता क्या, यही तुम्हें करना चाहिए? क्या (हमारी ऐसी दशा कर देना) तुम्हें शोभा देता है?’

“इस प्रकार कहती हुई वे स्त्रियाँ अपने गर्भ पर अपने हाथों से ताड़न करने लगीं। कर-ताड़न के फल-स्वरूप उनके गर्भ विच्छिन्न हो छह खंडों में पृथ्वी पर गिर गये। वे (स्त्रियाँ) गिरे हुए उन खंडों को चुनकर उन्हें सरकंडे के वन में रखकर तप करने चली गईं।

“वह उग्र तेज वहाँ एक जगह एकत्र होकर बढ़ने लगा और वही इस पृथ्वी पर श्वेताद्रि के नाम से विख्यात हुआ। उस पर्वत पर परम शिव के तेज से कुमार का जन्म अद्भुत रीति से हुआ। जन्म-स्थान सरकंडों से भरा प्रदेश था, इसलिए वे शरजन्मा (शरवणभव) कहलाये। इस पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात् कृत्तिकाओं ने उन्हें स्तन्य-पान कराकर पाला-पोसा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। वे माताएँ (कृत्तिकाएँ) छह थीं। अतएव उन्हें संतुष्ट करने के लिए कुमार ने छह मुँह धारण करके स्तन-पान किया, इसलिए वे षण्मुख (और षण्मातुर) कहलाये। चन्द्रमौलि के वीर्य-स्कंदन (पतन) से उनका जन्म हुआ, इसलिए वे स्कंद कहलाये।

“(फिर) यहाँ देवता शिव-पार्वती की स्तुति करने लगे। (पुत्रोत्पत्ति में बाधा डालने के कारण देवताओं पर) क्रुद्ध होकर लाल-लाल नेत्रों से उन्हें देखती हुई पार्वती ने कहा—‘हे देवताओ, तुम और यह वसुधरा संतानहीन हो जाओ। आगे से इस पृथ्वी को बहु-पतित्व प्राप्त होगा।’ (यह सुनकर) देवता व्याकुल हुए। उसके पश्चात् शिवजी पार्वती के साथ तपस्या करने हिमाचल पर चले गये।

“इन्द्र के साथ सभी देवता ब्रह्मा के पास गये और उनसे विनती की—‘हे जलज-संभव, हमें अत्यंत भुजबली एक सेनापति प्रदान कीजिए।’ तब उन्होंने देवताओं को देख-

देखकर कहा—‘गौरीश के पुत्र कार्तिकेय तुम्हारी सेना का नायकत्व ग्रहण करेंगे।’ देवता बहुत प्रसन्न हुए और कार्तिकेय उनके सेनाधिपति हुए। इससे इन्द्र को उन्नति तथा सुख प्राप्त हुए।”

इस प्रकार मुनि के कहने पर रघुराम अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्हें देखकर कहा—‘हे मंथमीश्रेष्ठ, इस महानदी (गंगा) के त्रिपथगा होने का क्या कारण है?’

२६. गंगा नदी का वृत्तान्त

तब कौशिक श्रीराम से उसकी कथा यों कहने लगे—“पुण्यवान् सगर अयोध्या के विख्यात सम्राट् थे। पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने (एक बार) हिमाचल में भृगु की तपस्या की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भृगु ने उन्हें देखकर कहा—‘हे राजन्, तुम्हारे बहुत-से कीर्तिवान् पुत्र होंगे। तुम्हारी एक स्त्री एक वंशोद्धारक पुत्र का जन्म देगी और दूसरी स्त्री साठ हजार अतिबलशाली पुत्र उत्पन्न करेगी।’ यह वरदान प्राप्त करके रानियों ने हाथ जोड़कर बड़े विनय से मुनि को प्रणाम किया और पूछा—‘हे मुनीश्वर, हम (दोनों) में से किसके एक पुत्र होगा और किसके साठ हजार पुत्र उत्पन्न होंगे?’ तब मुनि बोले—‘तुम्हारी इच्छा जैसी हो, वैसे ही पुत्रों का जन्म होगा।’ इससे प्रसन्न होकर बड़ी रानी ने राजा से (अपने) नाम को सार्थक करनेवाले एक ही पुत्र पाने की इच्छा प्रकट की। दूसरी रानी ने साठ हजार पुत्रों को प्राप्त करना चाहा। फिर उन्होंने बड़े हर्ष से उस मुनिश्रेष्ठ की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और नगर को लौट आये।

“कुछ दिनों के पश्चात् बड़ी रानी केशिनी ने असमंजस (अश्वमंज) नामक एक पुत्र को जन्म दिया। (दूसरी रानी) सुकृति ने लौकी के आकार का एक गर्भ-पिंड उत्पन्न किया, जिसमें से बड़े आश्चर्य से साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। तब धाइयों ने उन शिशुओं को घी के पात्रों में रखकर कुछ दिनों तक उनका पालन-पोषण किया। वे क्रमशः रूप तथा यौवन प्राप्त करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र बड़े दर्प के साथ अपने छोटे भाइयों को बलात् पकड़-पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था और (उन्हें डूबते देख) बहुत हर्षित होता था। ऐसे दुष्ट असमंजस के अंशुमान् नामक एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस को अति-दुष्ट जानकर राजा ने उसे निर्वासित कर दिया और शाश्वत-धर्म-निष्ठा में तत्पर ही अश्व-मेध-यज्ञ करने का यत्न करने लगे।”

मुनि के यों कहने पर श्रीराम ने कौशिक से कहा—‘हे मुनिनाथ, मुझे अपने पूर्वजों के चरित सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। कृपया विस्तार से कहें।’

तब विश्वामित्र कहने लगे—“हिमाचल और विंध्याचल के मध्य की भूमि में सगर ने अपना अश्वमेध-यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञाश्व की रक्षा करने के लिए अंशुमान् नियुक्त किया गया। उस समय इन्द्र राक्षस का वेश धरकर अश्व को चुरा ले गया और पाताल-लोक में प्रवेश करके वहाँ तपस्या में लीन कपिल मुनि के निकट यज्ञाश्व को बाँधकर स्वयं स्वर्गलोक को लौट आया। अश्व का पता न लगने से क्रुद्ध होकर राजा (सगर) ने अपने पुत्रों को संबोधित करके कहा—“अश्व का कहीं पता नहीं है। कोई कुटिलात्मा उसे चुरा ले गया है। अतः तुम लोग तुरंत जाओ और जिस किसी के पास वह अश्व हो, उसका

वध करके अश्व को शीघ्र ले आओ ।' साठ हजार सगर-पुत्र अपने भुज-बल का प्रदर्शन करते हुए, निकल पड़े । उन्होंने पहले स्वर्ग, फिर भूलोक में अच्छी तरह उस अश्व को ढूँढा । जब कहीं भी उसका पता न चला तब वे पृथ्वी को टुकड़े-टुकड़े करने लगे । 'हमसे प्रत्येक एक योजन पृथ्वी को खोद डालेंगे'—ऐसा निश्चय करके वे प्राच्य दिशा से प्रारंभ करके, बड़ी-बड़ी कुदालों और शूलों से पृथ्वी को रसातल तक खोदने लगे । इस प्रक्रिया में सामने आनेवाले पातालवासी तथा अन्य प्राणियों के समूहों का संहार भी वे करते जाते थे ।

“इस प्रकार उन अतुल बलशाली राजकुमारों ने साठ हजार योजन भूमि सहज ही खोद डाली । इस प्रकार असंख्य प्राणियों से युक्त जंबूद्वीप को सतत खोदते हुए, उपद्रव करनेवाले सगर-पुत्रों को देखकर अमर, गंधर्व तथा सिद्ध चबरा उठे और ब्रह्मा के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करके बोले—‘हे जलजसंभव, वन, पर्वत तथा द्वीपों से युक्त इस पृथ्वी को सगर-पुत्र खोद रहे हैं । जो कोई भी उनकी दृष्टि में पड़ जाता है, उसे ‘इसीने यज्ञ में बाधा डाली है, यही अश्वहर है,’ ऐसा कहते हुए व्यर्थ ही उसका वध कर डालते हैं । इस प्रकार उन्होंने कितने ही शक्ति-संपन्न जलचरों का संहार कर डाला । आप कृपया इसके निवारण का कोई उपाय कीजिए ।

“तब ब्रह्मा ने उनसे कहा—‘अव्यय दामोदर (विष्णु) कपिल मुनि के रूप में तप कर रहे हैं । उस मुनि की क्रोधाग्नि में वे सब भस्म हो जायेंगे ।’

“सगर-पुत्रों ने वज्र के समान भयंकर गर्जन करते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला, किन्तु उन्हें कहीं भी घोड़े का पता न चला । तब वे अपने पिता के पास लौट आये और बोले—‘हे देव, हमने समस्त पृथ्वी छान डाली, किन्तु कहीं भी हमें अश्व के चोर का पता नहीं चला । अब जैसी आपकी आज्ञा हो ।’

“तब राजा ने अत्यन्त क्रोध से अपने पुत्रों से कहा—‘तुम लोग समस्त विश्व में व्याप्त होकर घोड़े की खोज करो । विना अश्व के तुम लोग यहाँ मत आना ।’

“सगर-पुत्रों ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके बड़ी भयंकर गति से रसातल में प्रवेश किया । वहाँ वे पूर्व से लेकर दक्षिण की तरफ खोदने लगे । पूर्व दिशा-भर में खोजने पर उन्हें कहीं भी घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा । उन्होंने वहाँ पर एक श्रेष्ठ गजेन्द्र को देखा, जो चारों ओर से पृथ्वी-तल को इस प्रकार सँभाले हुए था, जैसे विष्णु ने अपनी सुन्दर भुजाओं से पृथ्वी को ऊपर उठाया था । सगर के पुत्रों ने उस गजराज को देखकर उसकी पूजा की और विना विलंब किये आग्नेय दिशा में चल पड़े । वहाँ खोजने पर भी उन्हें उस अश्व का पता नहीं लगा । वहाँ निरंतर बहनेवाले मदजल की सुगंधि से आकृष्ट, भ्रमरों से युक्त ‘पुण्डरीक’ नामक गज को देखकर उसकी पूजा तथा स्तुति की और दक्षिण दिशा में चल पड़े । वहाँ भी उन्हें अश्व का कोई समाचार नहीं मिला । किन्तु वहाँ उन्होंने ‘वामन’ नामक श्रेष्ठ गज को देखकर उसकी अर्चना की और नैऋती दिशा में खोज करने लगे । वहाँ भी अश्व का पता नहीं लगा । वहाँ उन्होंने कुमुद-समान कोमल तथा कुमुद-पुष्प के वर्णवाले ‘कुमुद’ नामक कुंजर को देखा । उन्होंने उसको प्रणाम करके पश्चिम

की ओर प्रस्थान किया । वहाँ खोजने पर भी अश्व नहीं मिला । पर वहाँ उन्होंने अंजन-पर्वत के समान, मदजल से युक्त 'अंजन' नामक हाथी को देखकर उसकी वंदना की । वे वहाँ से वायव्य दिशा में निकल पड़े; पर बहुत समय तक खोजने पर भी अश्व का पता नहीं लगा सके । वहाँ 'नमुचि' नामक राक्षस का संहार करनेवाले हाथी के समान दाँत रखते हुए भी 'पुष्पदन्त' नाम से अभिहित गज को देखकर बड़ी भक्ति से उसको प्रणाम किया और वहाँ से कुबेर की दिशा (उत्तर) में खोजने निकले । वहाँ भी उन्हें अश्व नहीं दीख पड़ा । वहाँ उन्होंने समस्त गज-लोक के चक्रवर्त्ती के समान विराजमान 'सर्वभौम' नामक गजेन्द्र को देखा और बड़ी भक्ति से उसको प्रणाम किया । वहाँ से ऐशानी दिशा में चले । उस समय उन्होंने निकट ही नेत्र बंद किये हुए एकांत तपोनिष्ठा में लीन हवनाग्नि के समान (पवित्र) अनघात्मा महामुनि कपिल को और उनके पास ही अश्व को (बँधा हुआ) देखा । सगर-पुत्र उन्हें कष्ट देने लगे । जब मुनि ने क्रोध में आकर उनकी ओर दृष्टि डाली, तब वे साठ हजार सगर-पुत्र वहीं भस्मीभूत हो गये ।

“अश्व के लाने में विलंब होते देखकर 'सगर' बहुत दुःखी हुए और उन्होंने अपने पोते अंशुमान् को भेजा । अंशुमान् भी उसी मार्ग से गया और पूर्व दिशा में रहनेवाले 'विरूपाक्ष' नामक हाथी को देखकर उसकी परिक्रमा की और उससे विनयपूर्वक पूछा— 'हे गजराज, क्या आप बता करते हैं कि मेरे चाचा किस दिशा में गये हैं, कहाँ हैं और अश्व का चोर कहाँ छिपा है ?'

तब उस गजराज ने अंशुमान् को बड़े स्नेह के साथ देखते हुए कहा— 'हे राजकुमार, तुम किसी स्थान में अवश्य अश्व को देख सकोगे ।' वहाँ से चलकर प्रत्येक दिग्गज से इसी प्रकार प्रश्न करते हुए और इसी प्रकार का उत्तर प्राप्त करते हुए अंत में उसने कपिल मुनि के निकट यज्ञाश्व को देखा । वहाँ सगर-पुत्रों के शरीरों की भस्म-राशियों को देखकर वह शोक-संतप्त हो गया । उसने अपने पितरों की तिलोदक-क्रिया करने के विचार से जल की खोज की, पर वहाँ जल कहीं भी नहीं मिला ।

२७. गंगावतरण की कथा

“उस राजकुमार पर दया करके उस समय वहाँ गरुड़ आये और राजकुमार से कहने लगे— 'हे पुत्र, कपिल को क्रोधित करके उनकी क्रोधाग्नि से सभी सगर-पुत्र भस्म हो गये हैं । इस तरह शोक-संतप्त क्यों होते हो ? यह शोक करने का समय नहीं है । एक बात सुनो । सरसिजासन (ब्रह्मा) के लिए वंश, अरविद-चरणवाले, अरविददल-नेत्रवाले, आदि-पुरुष (विष्णु) ने दानव-राजा बलि को बाँधते समय, त्रिविक्रम का रूप धारण करके, अपनी अगणित शक्ति से दो पादों में ही समस्त पृथ्वी को समेट लिया था और जलजात, जलचर, तथा शंख-चक्र के लिए परिचित तीसरा चरण ब्रह्मलोक तक फैलाया था । तब ब्रह्मा शीघ्र वहाँ आये और बड़ी भक्ति के साथ अपने कमंडल के जल से उनके चरण-कमल शोये । वह जल स्वर्गलोक में मंदाकिनी के नाम से बह रहा है । तुम बड़ी भक्ति के साथ ब्रह्मा की कृपा पाने के लिए तपस्या करो और स्वर्गलोक की उस गंगा को इस

पृथ्वी पर ले आओ। उस पवित्र जल से इन भस्म-राशियों को सींचने से ही सगर-पुत्रों को स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होगा। इसलिए तुम पहले इस अश्व को लेकर जाओ।'

“अंशुमान् अश्व को अपने साथ लेकर गया और अपने दादा को सारी कथा कह सुनाई। सगर अत्यंत दुःखी हुए। उन्होंने पुण्य-यज्ञ समाप्त किया और उसके पश्चात् मंदाकिनी को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तीस हजार वर्ष तक सतत तप करते रहे और (विना सिद्धि प्राप्त किये ही) स्वर्ग सिधारे। उस राजा का पोता अंशुमान् भी मंदाकिनी को पृथ्वी पर लाने का दृढ़ संकल्प करके लगातार तीस हजार वर्ष तक तपस्या करने के बाद स्वर्ग-लोक को प्राप्त हुआ। उसका पुत्र राजा दिलीप भी मंदाकिनी को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तीस हजार साल तक तपस्या करता रहा और अंत में वह भी रोग-पीड़ित होकर दिवंगत हुआ। उसके पुत्र पुण्यवान् भगीरथ ने अपना राज्य अपने मंत्रियों के हाथों में सौंपकर, धर्मात्मा तथा सद्गुण-संपन्न पुत्रों की प्राप्ति तथा पृथ्वी के समस्त पापों को दूर करने की इच्छा से आकाश-गंगा को पृथ्वी पर ले आने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ गोकर्णाश्रम में दस हजार वर्ष तक अनुपम रीति से तपस्या की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि तुम कोई वर माँगो।

“तब भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा—‘हे भारती-दल्लभ, हे लोक-स्रष्टा, हे सूर्यलोक-रक्षक, हे सत्यसंपन्न, हे विधाता. हमारे पूर्वज अपनी उद्वृण्डता के कारण कपिल की क्रोधाग्नि में भस्मीभूत होकर सौ सहस्र वर्षों से परलोक-गति में वंचित हो भस्म के रूप में पड़े हुए हैं। उस भस्म को मंदाकिनी के पवित्र जल से सींचे विना उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती।’

“इस पर ब्रह्मा ने कहा—‘परमशिव के अतिरिक्त अन्य कोई उस गंगा को धारण नहीं कर सकेंगे। इसलिए, तुम निष्ठा के साथ शिव की तपस्या करो कि वे गंगा को धारण करें।’ इतना कहकर ब्रह्मा ने भगीरथ को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र-प्राप्ति का वर दिया और ब्रह्मलोक को चले गये।

“उसके पश्चात् भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर शिवजी के प्रति घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर कहा—‘तुम गंगा को ले जाओ, मैं उसे अपने सिर पर धारण करूँगा।’ तब भगीरथ ने गंगा की प्रार्थना की। गंगा गगन-मंडल तथा नक्षत्र-मंडल को भेदकर समस्त लोकों को अपने गुरु गर्जन से गुंजाती हुई, सारे जगत् को भयभीत करती हुई, यों प्रवाहित होने लगी, मानों वह कुल-पर्वतों से युक्त पृथ्वी के साथ महादेव को भी पाताल तक बहा ले जाना चाहती हो। शिवजी ने उसका गर्व-भंग करने के लिए अपने जटा-जूट को ऐसा बढाया कि गंगा उसमें उलझकर बाहर निकलने में असमर्थ हो गई।

“तब भगीरथ आश्चर्य करने लगे, उतनी विशाल जल-धारा कहाँ छिप गई होगी! उन्हें भय होने लगा। इसलिए, वे फिर शिवजी के प्रति उग्र तपस्या करने लगे। भगीरथ के तप से संतुष्ट होकर (शिव ने) अपने जटा-जूट में बँधी हुई गंगा से कहा—‘अब तुम भूलोक में चली जाओ।’

“तब गंगा उनके जटा-जूट के दक्षिण भाग से बाहर निकली । उस मंदाकिनी की धारा में मुकुलित कमल ऐसी शोभा दे रहे थे, मानों वह (मंदाकिनी) पाताल की ओर देखकर अपनी दिव्य-दृष्टि से वहाँ के कपिल मुनि को पहचानकर, उनकी महिमा पर आश्चर्य करती हुई हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना करती हो कि (हे मुनि) आपको जिन भयंकर व्यक्तियों ने दुःख दिया था, उन्हें सुगति प्रदान करने के लिए मैं आ रही हूँ, आप क्रोध न करें । उस धारा में भँवर ऐसे पड़ रहे थे, मानों उस मुनि के क्रोध की कल्पना करके मंदाकिनी भय से व्याकुल हो रही हो । धारा के बीच कमल-पुष्पों के भीग जाने से उनमें बैठे न रह सकने के कारण भ्रमर आकाश में व्याप्त हो, इस प्रकार गुजार कर रहे थे, मानों सगर-पुत्रों के पाप, वेग से आनेवाली मंदाकिनी की धारा को देखकर इधर-उधर भागते हुए शिवजी से विनती कर रहे हों कि (हे शिवजी) गंगा हम पर आक्रमण करने के लिए आ रही है, हम अब भागकर कहाँ जायें ? हत आकाश-पथ में ऐसे मँडरा रहे थे, मानों शिव के जटा-जूट से पृथ्वी पर उतरनेवाली गंगा को धूप से बचाना चाहते हों । उस नदी की सुंदर तथा उत्तुंग लहरें ऐसी शोभा दे रही थी, मानों वे सगर-पुत्रों के पाप-समूह को मिटानेवाले उस (नदी के) हाथ हों । धारा इतने अधिक फेन से व्याप्त थी, मानो भगीरथ की अनुपम कीर्ति समस्त ससार में व्याप्त होने के लिए एकत्र हो रही हो । उस नदी का अतुल घोष क्रमशः बढ़ता हुआ सारे ब्रह्माण्ड तथा आकाश में व्याप्त हो गया । इस प्रकार वह शिव के जटा-जूट से बिंदु-सरोवर में यह कहती हुई उतरी कि मैं इस संसार के पापियों को पुण्य प्रदान करने के लिए आ रही हूँ । ब्रह्मा आदि देवता उसकी स्तुति करने लगे । सुर तथा खेचर बड़े उत्साह से यह दृश्य देखने लगे । गरुड़ तथा गंधर्व उसकी प्रशंसा करने लगे ।

“मंदाकिनी की धारा की सात शाखाएँ हुई । पावनी, ह्लादिनी, और नलिनी नामक तीन शाखाएँ पूरब की ओर गई । सीता, सुचक्षु तथा सिंधु नामक तीन शाखाएँ पश्चिम की ओर गई । एक शाखा राजा भगीरथ के पीछे भूलोक की ओर चली । वह श्रेष्ठ तथा विशाल जल-धारा आकाश-मार्ग में शरत्काल के बादल के समान शोभित हो रही थी । वह जल-धारा, पृथ्वी की तरफ इस प्रकार उतर रही थी, मानों स्वर्गाकांक्षी भूलोक-निवासियों के लिए सीढ़ी लगी हो । उसकी तरंगों की ध्वनि पृथ्वी तथा आकाश को गुंजा देती थी । उस धारा में ऐसे भँवर पड़ रहे थे, मानों वह यह बताना चाहती हो कि मैं (पृथ्वी) के समस्त पापों को उसी तरह नचा दूँगी (ध्वंस कर दूँगी) ।

“पृथ्वी पर उसके उतरते समय जल की बूँदें आकाश की तरफ ऐसे उछल रही थीं, मानों वे नक्षत्रों से मित्रता करना चाहती हो । उसका स्वच्छ फेन-समूह ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानों वह नदी (बड़े हर्ष से) हँसती हुई यह कह रही हो कि मैं धर्मत्माओं की पवित्र कीर्तियों के लिए योग्य स्थान हूँ । उस धारा में क्रीड़ा करनेवाली मछलियाँ ऐसी दीख रही थीं, मानों नदी कह रही हो कि मैं अपने असंख्य नेत्रों से पृथ्वी की श्रेष्ठता देखूँगी । इस प्रकार भिन्न-भिन्न जलचरों से युक्त हो, वह नदी पृथ्वी पर उतर आई ।

“तब सौ-सौ सूर्यों की कान्ति के समान प्रकाशित होनेवाले, बहु-रत्न-खचित आभूषणों की कान्ति से सारे आकाश को दीप्तिमान् करने हुए, गज तथा विमानों में आरूढ़ होकर अमर, गंधर्व तथा सिद्ध बड़े कौतुक से इस दृश्य को देखने आये । उस प्रवाह की चंचल गति को देखकर महानागों ने भी उसके सामने घुटने टेके । देवताओं ने जप आदि करके उस नदी में स्नान किया और बहुत ही प्रसन्न हुए । अप्सराओं ने नृत्य किया, देवों तथा मुनियों ने बड़े हर्ष से उस नदी की पूजा पुष्पों से की । उस पुण्य-नदी की धारा में अमित पापी तथा शाप-पीड़ित जन स्नान करके स्वर्ग जाने लगे । देवता, अप्सराएँ, गंधर्व, दनुज, पन्नग, यक्ष, किन्नर आदि बड़े उत्साह से भगीरथ के रथ के पीछे-पीछे चले ।

“तब वह गंगा बड़े-बड़े पर्वतों को भेदती हुई भगीरथ के पीछे-पीछे जाने लगी । उसी मार्ग में जह्नु नामक ऋषि की यज्ञ-भूमि थी । गंगा ने अपने अतुल प्रवाह से उस आश्रम-भूमि को घेर लिया । यज्ञोपकरण सभी गंगा के प्रवाह में बह गये । यज्ञ में विघ्न पड़ा हुआ देख, जह्नु क्रुद्ध हुए और उद्धत गति से आनेवाली उस गंगा का सारा जल पी गये । तब देवता तथा मुनियों ने भगीरथ से कहा—‘हे राजन्, यह मुनि क्रोध में आकर गंगा को पी गये हैं । आप उनसे अपना क्रोध त्यागने तथा गंगा को मुक्त करने की प्रार्थना कीजिए । मुनि प्रसन्न होकर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे ।’ तब भगीरथ बड़ी भक्ति तथा विनय के साथ हाथ जोड़कर उस मुनि से प्रार्थना करने लगे ।

“हे मुनिचन्द्र, हे विमलात्मा, मैं इस श्रेष्ठ गंगा को घोर तपस्या के उपरान्त पृथ्वी पर ला सका हूँ । किंतु, यहाँ आने के बाद मैं उसे खो बैठा । हे धन्यचरित, हे संयमीन्द्र, आप कृपाकर उसे मुक्त कर दें ।’ (राजा की बात सुनकर मुनिवर के मन में दया उत्पन्न हुई) वे बोले—‘हे भगीरथ, गंगानदी को इस प्रकार पृथ्वी पर ले आने में आपकी तपस्या, आपके महत्त्व तथा आपकी कीर्ति का वर्णन मैं कैसे कहूँ ? अब मैं गंगा को मुक्त कर दूँगा । इस संसार में आपके यश की व्याप्ति होगी ।’

“इस प्रकार कहकर, गंगा को मूँह से छोड़कर उसे जूटान करने की इच्छा से उन्होंने अपने कान के मार्ग से उसे बाहर छोड़ दिया । पूर्व की तरह गंगा प्रवाहित होने लगी । तभी उसका नाम जाह्नवी पड़ गया ।

“जिस प्रकार पूर्वकृत पुण्य जीवन के विघ्नों को दूर करता हुआ आता है, उसी प्रकार जाह्नवी राजा के पीछे चली और समुद्र में प्रवेश करके रसातल में पहुँच गई । वहाँ सगर-पुत्रों की भस्म-राशियों को अपने पुण्य-सलिल से सींचा । तब कमलासन (ब्रह्मा) ने बड़े हर्ष से भगीरथ से कहा—‘हे राजन्, जबतक समुद्र में जल रहेगा तबतक ये सगर-पुत्र दिव्य चंदन, वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो स्वर्ग-लोक में दिव्य भोगों का अनुभव करेंगे । हे अनघ, आज से यह नदी भगीरथी, त्रिपथगा तथा जाह्नवी के नामों से समस्त लोकों में विख्यात होगी । तुम्हारे पूर्वज सगर, अंशुमान् तथा दिलीप ने जो संकल्प किया था, वे उसे सिद्ध नहीं कर सके । तुम बड़े प्रयत्न के उपरान्त गंगा को इस पृथ्वी पर ले आये हो, (अतएव) तुम गंगाजल के निर्मल तथा क्रमन्वीय पद को प्राप्त करके चिर क्लीं-वान् होकर निवास करो । काकुत्स्थ-वंश की प्रतिष्ठा तथा गौरव के आधार-स्वरूप पुत्रों

को प्राप्त करो। तुम सुंदर धर्मों के आधार हो गये। अब तुम इस पुण्य-सलिल में विधिवत् पुण्य-स्नान करके उसका फल प्राप्त करो।' यों कहकर कमलराभव (ब्रह्मा) अपने लोक को चले गये।

“उसके पश्चात् भगीरथ ने गंगा में स्नान करके बड़ी निष्ठा के साथ साठ हजार सगर-पुत्रों की तिलोदक-क्रिया की। उस पुण्य-क्रिया के फलस्वरूप सगर-पुत्रों ने अमरत्व प्राप्त किया और भगीरथ को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक सिधारे। पुण्यवान् भगीरथ अयोध्या लौटकर सुख से राज्य करने लगे।

“पापों का नाश करनेवाला यह उपाख्यान जो कोई भक्ति से पढ़ेगा या सुनेगा, वह अनंत पुण्य प्राप्त करता हुआ धन-धान्य तथा यश से समृद्ध हो चिरजीवी होगा। उसपर सभी देवता प्रसन्न होंगे; उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे; उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरों को सद्गति मिलेगी।”

इस प्रकार राघव ने गंगावतरण की कथा कौशिक से सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा—‘हे मुनिन्द्र, मैं आपसे पृथ्वी पर गंगावतरण की कथा बड़े आश्चर्य के साथ सुन प्रसन्न हुआ।’

(उन्होंने) वह रात्रि वहीं बिताई और प्रातःकाल ही उस प्रसिद्ध नदी में स्नान करके संध्या आदि कार्यों से निवृत्त होकर जाह्नवी नदी को पार किया। नदी के उत्तर तट पर निवास करनेवाले मुनियों की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की और उस स्थान को छोड़कर आगे चले।

थोड़ी दूर जाने पर उन्हें ‘विशाला’ नामक सुंदर नगर दिखाई पड़ा। तब राम ने गाधेय को संबोधित करके पूछा—‘हे मुनि, इस नगर का नाम क्या है? किस वंश का राजा यहाँ राज्य करता है? आप कृपाकर बतलाइए।’

२८. अमृत-मंथन की कथा

तब कौशिक ने राघव से कहा—‘मैंने बहुत पहले यह कथा इन्द्र से सुनी थी। प्राचीन काल में दिति के अत्यन्त बलवान् तथा पराक्रमी पुत्र तथा अदिति के बड़े धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने सोचा कि क्षीरसागर को पहले रस तथा औषधियों से भरकर उसका मंथन करें और उस जलराशि से उत्पन्न होनेवाली श्रेष्ठ तथा कान्तियुक्त वस्तुओं को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करें। (इस प्रकार सोचकर) वे मंदर-पर्वत को मथनी और वासुकी को रस्सी बनाकर मंथन करने लगे। उस समय समुद्र में से समस्त लोकों को, मन्मथ-समुद्र में डुबोने की क्षमता रखनेवाला सौंदर्य, क्वणित होनेवाली करघनी से युक्त गुरु नितम्ब, क्षीण कटि, सुन्दर कुच, कोमल भ्रू-लता-रूपी कोदण्डवाले कामदेव के बाणों के समान (तीक्ष्ण) कटाक्ष, भ्रम्य भुज-लता-विक्षेप, अमर नव-यौवन तथा कमनीयता से सुशोभित साठ हजार अप्सराएँ तथा उन सुन्दरियों के योग्य हाव-भावों से युक्त परिचारिकाएँ उत्पन्न हुईं। उन अप्सरा-युवतियों को देवता तथा दैत्यो ने क्रमशः ले लिया। उसके पश्चात् भी समुद्र-मंथन चलता रहा। तब वरुण की पुत्री वारुणी का जन्म हुआ। दिति के पुत्रों ने उसका वरण करना स्वीकार नहीं किया। इसलिए वे असुर कहलाये। अदिति

के पुत्रों ने उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए, वे सुर के नाम से विख्यात हुए। उसके पश्चात् उच्चैश्रवा नामक अश्व, श्वेत गज (ऐरावत) तथा कौस्तुभ-मणि का जन्म हुआ। कौस्तुभ-मणि के बाद अमृत उत्पन्न हुआ। अमृत के बाद सुधा-कमण्डल को लिये धन्वन्तरि का जन्म हुआ। फिर विष उत्पन्न हुआ। जब वह (विष) अत्यन्त भयकर अग्नि के समान व्याप्त होने लगा, तब शिव ने उसका पान किया। इसके उपरान्त अमृत के लिए सुर और असुर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय उन सुरासुरों को देखकर सुरों पर क्रुपा करने हुए, विष्णु एक सुन्दरी का रूप धारण कर आये और अमृत का वितरण करने लगे। उस समय राहु तथा केतु नामक राक्षस (विष्णु के मन की बात जानकर) सुरों की पक्ति में आकर बैठ गये और अमृत के लिए हाथ फैलाया। उनके शरीर की कान्ति देखे बिना ही उस सुन्दरी ने अमृत दे दिया। रवि तथा शशि ने बड़ी घबराहट के साथ इसे देखा और सुन्दरी को आँख के संकेत से यह बताया। तब विष्णु ने क्रुद्ध होकर अपना चक्र उन (राक्षसों) पर चलाकर उनके सिर काट डाले। उन्होंने उन राक्षसों के शिरो को ग्रहों के रूप में आकाश में प्रतिष्ठित किया। अमृत-पान करने से वे मृत्यु को प्राप्त हुए बिना रहने लगे। उसी दिन से वे (राक्षस) पुण्य के दिनों में सूर्य और चन्द्र को पीड़ा पहुँचाते आ रहे हैं।

“सुन्दरी ने असुरों की आँख बचाकर सुरों को ही अमृत दिया और युद्ध में उनको विजय भी प्रदान की। इन्द्र ने सभी दैत्यों का नाश किया और तीनों लोकों का अधिपति बनकर राज्य करने लगा।

“अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से दुःखी होकर दिति ने बड़ी दीनता में अपने पति कश्यप से कहा—‘हे महात्मा, आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए, जो इन्द्र को भी मारने की शक्ति तथा पराक्रम रखता हो।’ उसकी प्रार्थना स्वीकार करके कश्यप ने कहा—‘हे भद्रे, यदि तुम एक हजार साल तक शुद्धात्मा तथा पवित्र रह सकोगी, तो तुम्हें तीनों लोकों को जीतनेवाला तथा इन्द्र का अन्त करनेवाला पुत्र मुझमें प्राप्त होगा।’ यों कहकर उन्होंने अपने कर-कमल से दिति के शरीर का मृदु गति से परिमार्जन कर दिया। उसके पश्चात् वे तप करने चले गये।

“उनके चले जाने के बाद दिति ‘कुशप्लव’ (नामक स्थान में) उग्र तपस्या करने चली गई। यह वृत्तान्त जानकर इन्द्र माता दिति के पास शिष्य के रूप में पहुँच गया और बड़ी भक्ति के साथ उनकी पूजा-अर्चना करने के लिए आवश्यक कुश, समिधा, फल, कद-मूल, जल आदि वस्तुएँ जुटाते हुए सतत उनकी सेवा-परिचर्या करता रहा। दिति जब जो वस्तु चाहती, वह उसके संकेत-मात्र से ही वह वस्तु वहाँ प्रस्तुत कर देता था। इस प्रकार नौ सौ निन्द्यानवें वर्ष बीत गये।

“एक दिन दिति अपने मन की बात छिपा नहीं सकी। उन्होंने इन्द्र से कहा—‘हे इन्द्र, मैंने तुम्हारे पिता से एक पुत्र की प्रार्थना की थी। एक हजार वर्ष के उपरान्त मुझे एक पुत्र होगा, ऐसा वर उन्होंने मुझे प्रदान किया है। आज से दस वर्ष के पश्चात् तुम्हारे भाई का जन्म होगा। तुम और वह दोनों तीनों लोकों का राज्य करोगे और यशस्वी बनोगे।’

उस दिन मध्याह्न के समझ दिति थकावट के कारण अपने केश बिखेरकर (खाट पर) पायताने की तरफ सिर रखकर सो गई । उन्हें इस प्रकार देखकर इन्द्र बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा कि यही मेरे लिए अच्छा अक्सर है । उसने अपनी योग-शक्ति से दिति के गर्भ में प्रवेश किया और अपने वज्रायुध से अपने शत्रु-शिशु के खण्ड-खण्ड करने लगा । शिशु का रुदन सुनकर दिति जाग पड़ी । तब इन्द्र धीरे-धीरे कहने लगा—‘मा रुदः मा रुदः (मत रोओ, मत रोओ) । दिति चिल्लाने लगी—‘शिशु का वध मत करो ।’ दिति का क्रंदन सुनकर इन्द्र गर्भ से बाहर आ गया और हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ दिति से कहा—‘माता, आप मुक्तकेशी होकर पायताने की ओर सिर किये सो रही थीं । इससे आपकी पवित्रता में भंग पड़ गया । इसलिए मैंने अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपके गर्भ में प्रवेश करने का साहस किया और मेरा नाश करने के लिए उत्पन्न होने-वाले गर्भस्थ शिशु के सात खण्ड कर दिये । नन्हा शिशु मेरा शत्रु था, इसलिए मैंने उसका वध किया । हे माता, धर्म का विचार करके आप (मुझे) क्षमा कीजिए ।’ इस प्रकार इन्द्र दुःख प्रकट करने लगा ।

“इन्द्र को दुःखी देखकर दिति ने कहा—‘हे स्वर्ग के स्वामी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है । सारा दोष मेरा ही है । ये सातों खण्ड मरुत नाम से तेजस्वी बनकर उत्पन्न होंगे । तुम उन्हें इच्छानुसार सारे संसार में विचरण करने देना । तुम मेरे इन सातों पुत्रों को सप्त मास्तों के गण-नायक बनाना । यही तुमसे मेरी विनती है ।’

“इन्द्र उनकी प्रार्थना स्वीकार करके इन्द्रलोक को चला गया । वे सातों शिशु क्रमशः इन्द्र की मित्रता प्राप्त करके मरुद्गण तथा देवता बन गये । इसी पुण्य-प्रदेश में देवेन्द्र ने दिति की परिचर्या की थी । वही पर इक्ष्वाकु नामक राजा ने अपनी रानी अलंबुषा से ‘विशाल’ नामक पुत्र उत्पन्न किया था । उस विशाल ने यहाँ ‘विशाला’ नामक नगर का निर्माण किया । उस विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ । उसने सुचन्द्र को, सुचन्द्र ने धूम्राश्व को, धूम्राश्व ने सृंजय को, सृंजय ने कुशाश्व को, उसने सोमदत्त को, सोमदत्त ने ककुत्स्थ को और ककुत्स्थ ने सुमति को जन्म दिया । वह सुमति अभी इस नगर में रहते हुए अत्यन्त धर्म-बुद्ध होकर राज्य कर रहा है । हे अनघ, धर्म तथा वैभवसंपन्न ये राजा संसार में ‘वैशालिक’ के नाम से विख्यात है । हम यहाँ आज की रात्रि बितायें और प्रातःकाल होते ही राजा को देखने चलेंगे ।”

वहाँ का राजा सुमति विश्वामित्र के आगमन का समाचार जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह अपने पुरोहित तथा बंधु-जनों के साथ नगर के बाहर आया और विधिवत् संयमीन्द्र विश्वामित्र की पूजा करके उनसे हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से कहा—‘हे मुनीन्द्र, मैं आज इस पृथ्वी पर धन्य हुआ । मेरा जन्म सार्थक हुआ ।’

परस्पर कुशल-प्रश्नों के पश्चात् सुमति ने विश्वामित्र को संबोधित करके कहा—‘हे मुनिनाथ, आपके साथ रहनेवाले असमान रूपवान्, विशालबाहु, दिव्य-पराक्रमी, गज की गतिवाले, सिंह-सम शक्तिशाली, ललित तथा प्रफुल्ल अरविद-सम नेत्रवाले, धनुष तथा करवाल-धारी, आकाश जैसे रवि-शशि के संचार से अलंकृत होता है, वैसे ही आपके पदन्यास को

अलंकृत करनेवाले, दर्शकों को दोनों ही सब प्रकार से समान दीखनेवाले ये कुमार कौन हैं ? किसके पुत्र हैं ? कृपया बताइए ।

तब विश्वामित्र ने उसे देखकर कहा—“हे राजकुल-चन्द्र, हे सद्गुण-सागर, मैं इनका वृत्तान्त तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनो । सरयू नदी के किनारे कोशल-देश में अयोध्या नामक नगर है । उस नगर में अत्यन्त प्रीति से प्रजा का पालन करनेवाले राजा दशरथ राज्य करते हैं । यह उनका श्रेष्ठ पुत्र राम है । यह उसका अनुज लक्ष्मण है । मेरी प्रार्थना पर राजा ने यज्ञ-रक्षणार्थ इन दोनों को मेरे साथ भेजा है । मेरे साथ आकर (इन दोनों ने) मेरे यज्ञ की रक्षा की; युद्ध में बड़े पराक्रम के साथ सुबाहु का वध किया और मारीच को परास्त किया । उसके पश्चात् मिथिला जाने के उद्देश्य से गंगा पार करके यहाँ आये हैं । ये राजचन्द्र सूर्य-वंश-तिलक हैं । उनके सामर्थ्य की कथा आश्चर्य में डालनेवाली है ।”

विश्वामित्र के वचन सुनकर राजा सुमति आश्चर्य-चकित हुआ । उसने उन राज-कुमारों का आदर-सत्कार किया । उन्होंने प्रेम से राजा का आतिथ्य ग्रहण किया । सबने रात्रि वहीं बिताई और प्रभात होने पर राजा ने उनको वहाँ से विदा किया ।

२९. गौतम के आश्रम का वृत्तान्त

(वहाँ से चलकर) मार्ग में चलते-चलते राघव ने गौतम के आश्रम को देखकर गाधि-पुत्र को संबोधित करके कहा—“हे मुनीश्वर, ललित पल्लवों से युक्त, आम्र, कटहल, नारंगी, जंबीर, नारिकेल, देवदारु, बिजौरी, नीबू, बेल, सुपारी, केला, अशोक, लाख, दाड़िम, तेंदू, सेमल, चंदन, कर्पूर, मीठे आम, भिलावाँ, गुग्गुलु, आदि पेड़ों से सुशोभित, सिंधुवार, पुन्नाग, मौलसिरी, चमेली, कुंद, कर्पूर आदि पुष्पों की सुगंधि से परिपूर्ण, सर्वत्र व्याप्त लौंग तथा एला की लताओं से युक्त, सरोवरों से सुशोभित, रम्य पक्षियों के कल-कूजन से मुखरित यह आश्रम-भूमि आज निर्जन क्यों है ? इसके पहले कौन मुनि यहाँ तपस्या करते थे ? कृपया बतलाइए ।”

तब मुनि ने कहा—“किसी समय गौतम मुनि अहल्या के साथ इस आश्रम में अत्यन्त निष्ठा से धोर तपस्या करते थे । यह देख इन्द्र ने उनकी तपस्या में बाधा डालनी चाही । एक दिन उसने मुर्गे के रूप में पर्णशाला के पास पहुँचकर बाँग दी । मुनि (प्रातः-काल हो गया समझकर) अनुष्ठान करने के लिए (नदी-तट पर) चले गये । तब इन्द्र गौतम का रूप धारण करके आया और अहल्या को देखकर कहा—‘अभी रात्रि बहुत बाकी है । हे सुन्दरी, यह तुम्हारा ऋतु-काल है । इस समय रति-क्रीड़ा करने की इच्छा से ही मैं आया हूँ ।’ इस पर (सारी बातें जानकर) अहल्या ने कहा—‘मैं जानती हूँ कि तुम इन्द्र हो; अंदर चले आओ ।’ यों कहती हुई वह इन्द्र को पर्णशाला में ले गई और उसके साथ रति-क्रीड़ा की । जब इन्द्र भिन्नक तथा भय से वहाँ से जाने लगा, तभी गौतम मुनि वहाँ पहुँच गये । (इन्द्र को देख) उन्होंने शाप दिया—‘रे पापी, क्या यह तुम्हारे लिए उचित है कि तुम मेरा रूप धारण कर मेरी पत्नी से मिलो । इस पाप-कर्म के लिए तुम अंडकोश-रहित हो जाओ ।’ गौतम का शाप अप्रतिहत होकर उसे लगा और तुरंत उसके अण्डकोश भूमि पर गिर गये ।

भरे पूर्ण कुंभों, समिधाओं से भरे सुंदर स्थलों, पक्तियों में सजे हुए दर्भासिनो, उचित आसनों पर विराजमान तपोनिधि मुनियों, अत्यन्त रमणीय रत्न-पल्लव तोरणों, सामादि वेदों के घोषों, सतत यज्ञ के दर्शनार्थ आनेवाले तपस्वियों, आकाश तक व्याप्त होनेवाला हवन का धुआँ, देवताओं का आह्वान करनेवाली ध्वनियों, पूजाओं को ग्रहण करनेवाले पुण्य संयमी (मुनियों) तथा पूजाओं को प्राप्त करने में न थकनेवाले ब्राह्मणों से परिपूर्ण था ।

(गाधि-पुत्र को आया जानकर) जनक महाराज बड़े उत्साह से उनके सम्मुख गये, मुनिनाथ को दंडवत्-प्रणाम किया और उन्हें ले जाकर उनकी उचित पूजा की और कुशल-प्रश्न पूछे । उसके पश्चात् वे उस मुनीन्द्र की प्रशंसा करते हुए कहने लगे—आपके आगमन से मैं परम पवित्र हुआ । मेरा यज्ञ समृद्ध हुआ ।’ इस प्रकार कहने के उपरान्त उस मुनीन्द्र के पीछे सुशोभित विशाल वक्षवाले, काकपक्षधारी, महाधनुर्धर, कोमल शरीरवाले, सुभग, यशस्वी, भूमि पर अवतार लिये हुए देवताओं के समान दीखनेवाले दयालु, सतत प्रसन्नवदनवाले, भुवन-पावन चरित्रवाले, सूर्य तथा चन्द्र की-सी कान्ति से विलसित, आजानु-बाहु, अश्विनीकुमारों के समान दीखनेवाले, अतुल पराक्रमी और कमल-लोचनवाले, राम तथा लक्ष्मण को देखकर जनक ने विश्वामित्र से पूछा—‘हे महात्मा, ये, धनुर्बाणधारी तथा चतुर बालक किनके पुत्र हैं ? ये नव-पल्लव के सदृश अरुण तथा कोमल चरण-कमल यहाँ तक कैसे पैदल आये ?’

तब विश्वामित्र ने कहा—‘हे राजन्, ये अनघ महाराज दशरथ के पुत्र हैं । इन्होंने अपनी अमित शक्ति से मेरे यज्ञ की रक्षा की । कृपा करके अहल्या का उद्धार किया और आपके घर में रखे हुए शिव-धनु को देखने यहाँ आये हैं ।’ मुनीश्वर की इन बातों से प्रसन्न होकर जनक ने उन (राजकुमारों) का स्वागत-सत्कार किया ।

फिर गौतम मुनि के शिष्य शतानन्द ने कौशिक को संबोधित करके कहा—‘हे महात्मा, राघव को अपने साथ ले आकर आपने हम पर बड़ी कृपा की है । इस विश्वप्रभु को यहाँ तक ले आने का कार्य किसके लिए संभव था ? राघव के चरण-रज ने मेरी माता अहल्या के पापों का शमन कर दिया । गौतम मुनि के शाप से मुक्ति प्राप्त कर मेरी माता फिर मुनि से मिल गई है । रामचंद्र के चरण की महिमा का वर्णन मैं किन शब्दों में करूँ ?’

३१. विश्वामित्र की शक्ति का परिचय

इसके पश्चात् शतानन्द ने राम की ओर देख कर कहा—‘हे रामचंद्र, सुनते हैं कि यह पुण्यात्मा कौशिक, इस पृथ्वी पर, आपके अभिभावक हैं । अब आपको किस बात की कमी है ? विश्वामित्र की असमान क्षमता का वर्णन करना कठिन है । फिर भी आप सुनें । हे दशरथात्मज, कुश नामक मुनि ब्रह्मा के पुत्र थे, कुश ने कुशनाभ को जन्म दिया । गाधि उस कुशनाभ के पुत्र थे । ऐसे पवित्र गाधि के ये (विश्वामित्र) पुत्र हैं । ये धर्म-निरत होकर, अमित पराक्रम के साथ पृथ्वी का शासन करते थे । एक दिन विनोदार्थ मृगया खेलने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ निकले । बहुत समय तक वन में मृगया खेलने के पश्चात् बहुत ही थके-माँड़े होकर वे वसिष्ठ के आश्रम में पहुँचे । वसिष्ठ का

आश्रम नाना प्रकार की सुगंधित पुष्प-मंजरियों से तथा विविध प्रकार के फलों से लदे वृक्षों से भरा था । पक्षियों का कलरव तथा वेद-घोषों से सारा आश्रम गूँज रहा था । उसमें कई सरोवर तथा यज्ञ की वेदियाँ थी । भिन्न-भिन्न जाति के मृग अपने स्वभाव-सुलभ वृक्षों को भूलकर वहाँ विचरण कर रहे थे । उनका आश्रम वायु, जल तथा (वृक्षों से गिरे) पांडु-पत्रों पर जीवन व्यतीत करते हुए तप करनेवाले मुनियों, योगियों, पुंगवों, पन्नगों, खेचरों, सिद्धों, सुपर्वों तथा किन्नरों से युक्त होकर ब्रह्मलोक के समान सुशोभित था । विश्वामित्र ने बड़ी प्रसन्नता तथा भक्ति से वसिष्ठ को प्रणाम किया । उन्होंने आशीर्वाद दिये और उचित आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और सुस्वादु फल, मूल आदि प्रस्तुत किये ।

“विश्वामित्र ने उन सबको ग्रहण करते हुए हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ पूछा—‘हे अनघात्मा ! लोकहितार्थ चलनेवाले आपके तप तथा हवन आदि अच्छी तरह हो रहे हैं न ? आप, आपके शिष्य और आश्रम के सभी व्यक्ति प्रसन्न तो हैं ?’

“तब वसिष्ठ ने कहा—‘हम सब प्रसन्न हैं । आप नीति-युक्त हो राज्य कर रहे हैं न ? स्नेह के साथ अपने भूत्यों का पालन करते हैं न ? राज्य के सभी अंगों का (उचित रीति से) पर्यवेक्षण कर रहे हैं न ? आक्रमण करनेवाले शत्रुओं को आप पराजित कर तो रहे हैं न ? आप स्वयं सकुशल तो हैं ? आपके पुत्र और पत्नियाँ कुशल से हैं न ?’

“तब कौशिक ने वसिष्ठ से कहा—‘महात्मा, आपकी कृपा से हम सब कुशल-मंगल से हैं ।’ तब वसिष्ठ ने कहा—‘राजन् मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन करके यहाँ से जायँ ।’

“कौशिक ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया । वसिष्ठ ने विश्वामित्र तथा उनकी सेना को भोजन देने के उद्देश्य से अपनी काम-धेनु का स्मरण करके उससे प्रार्थना की कि राजा तथा उनकी सेना को विविध मिष्टान्न तथा भोजन से तृप्त करना है । इसके लिए आवश्यक वस्तुओं का तुम प्रबंध करो ।

“तब कामधेनु विभिन्न प्रकार के भात, शाक, मिष्टान्न, अँचार, विविध फल, खीर, मक्खन, चीनी, ताजा घी, कई प्रकार के मद्य और मांस आदि से युक्त बढ़िया भोजन का प्रबंध किया । जिसकी जो इच्छा होती, वह उसे बिना माँगे ही मिल जाता था । गाधेय तथा उनके सैनिक भर-पेट भोजन करके संतुष्ट हुए ।

“इसके पश्चात् गाधि-पुत्र ने मन में सोचा कि इस कामधेनु को किसी भी तरह मुनि से ले लेना चाहिए । वे मुनि के पास जाकर बोले—‘हे मुनिवर, मैं आपको एक लाख अश्व, एक लाख हाथी, एक लाख गायें और कई हजार मणियाँ दूँगा । आप यह गाय मुझे दे दें ।’ इस पर मुनि अत्यन्त दुःखी होकर बोले—‘हे राजन्, यह गाय मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, मेरी तपस्या का साधन है । हव्य-कव्य तथा अतिथि-सत्कार इसी गाय के कारण बिना विघ्न के संपन्न होते हैं । अतः इस पुण्य-धेनु को मैं तुम्हें दे नहीं सकता ।’

“तब महाबली विश्वामित्र क्रोध में आकर बोले—‘मैं आपसे यह गाय देने की प्रार्थना क्यों करूँ ?’ यह कहकर उन्होंने अपने हज़ारों सेवकों की सहायता से बलात् उस गाय को पकड़कर ले जाने का प्रयत्न किया । तब उस गाय ने उनके पीछे न जाकर मुनिपुंगव को देखकर कहा—‘हे अनघ, वसिष्ठ, हे संयमीन्द्र ! कौशिक (अपने बल के) मद में मुझे बलात् ले जाने का यत्न कर रहा है । हाय ! आप दुर्वार होते हुए भी उसे रोकते क्यों नहीं ? निर्विरोध मुझे उसके हाथों में सौंपना, क्या आपको उचित जँचता है ? हे अनघात्मा ! मैंने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है; फिर भी मेरी उपेक्षा करना क्या आपके लिए उचित है ?’

“धेनु की बातें सुनकर वसिष्ठ दयार्द्रचित्त होकर कहने लगे—‘मैं तुम्हें क्यों छोड़ने लगा ? राजा अपने भुज-बल से बलात् तुम्हें ले जा रहे हैं । यदि क्षत्रिय उदण्ड हो जायँ, तो ब्राह्मण उनका निवारण किस प्रकार कर सकते हैं ? यह गाधि-पुत्र इस पृथ्वी के अधीश्वर हैं । इनके पास अक्षौहिणी सेना है । मैं इन्हें कैसे जीत सकूँगा ?’

“तब धेनु ने मुनि से कहा—‘हे मुनिनाथ ! संसार में ब्राह्मण-तेज, क्षत्रिय के तेज से अधिक बलवान् होता है; इसलिए मैं यह बात जानती हूँ कि कौशिक किसी भी दशा में आपसे अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकता । आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसकी सारी सेना को एक ओर से नष्ट कर दूँगी ।’ तब वसिष्ठ ने गाय से कहा—‘अच्छा, तो तुम सेना उत्पन्न करके (राजा की सेना का) नाश करो ।’

“वसिष्ठ की आज्ञा मिलते ही धेनु ने हुंकार भरी । उसके हुंकार भरते ही उसके कान, पूँछ, दाँत, रोम, खुर, जाँघ, आँख, घुटने, श्वास, गलकंबल, और रोम-कूपों से भयंकर आकारवाले असंख्य किरात, पल्लव, काम्भोज तथा यवन वीर उत्पन्न हुए । वे प्रचण्ड विक्रमी, अद्भुत आकार तथा विचित्र आयुध धारण किये हुए थे । उनके नेत्र और हुंकार अनोखे ढंग के थे । योद्धाओं का वह समूह हाथी तथा अश्वों पर (आरूढ़ होकर) विश्वामित्र की सेना का संहार करने लगा यह देखकर विश्वामित्र के पुत्र विविध आयुधों से सुसज्जित होकर वसिष्ठ का वध करने आये । किन्तु धेनु के हुंकार-मात्र से भस्म हो गये ।

“अतुल पराक्रमी वीरों से पूर्ण अपनी सेना को मृत्यु का ग्रास बनते देखकर तथा अपने सौ वीर पुत्रों की मृत्यु का विचार करके विश्वामित्र दुःख तथा शोक से संतप्त हो उठे । वे अपने एक पुत्र को अपना राज्य सौंपकर तप करने के लिए हिमालय में चले गये । वहाँ उन्होंने जल में खड़े रहकर त्रिपुरांतक (शिव) के प्रति घोर तपस्या की । शिवजी प्रत्यक्ष हुए और विश्वामित्र ने उनसे विविध दिव्यास्त्र प्राप्त किये ।

“इसके पश्चात् विश्वामित्र बड़ी शीघ्रता से वसिष्ठाश्रम के पास आये और (उस आश्रम पर) आग्नेय बाण चलाने लगे । उनके बाणों के तेज से वसिष्ठ के आश्रम में अग्नि की ज्वालाएँ फैल गई । यह देखकर वसिष्ठ, काल-दंड लिये हुए यमराज के समान क्रोधोन्मत्त हो अपने हाथ में अघारी लिये हुए बाहर आये और बोले—‘हे पापी, हे विश्वामित्र, क्या इस प्रकार कहीं पुण्य-भूमि तपोवन को जलाया जाता है ? तुम्हारी शक्ति कितनी है, और मेरी शक्ति कितनी ? (क्या इसका भी तुम्हें ज्ञान है ?)’

“तब अत्यधिक क्रोध से उन्मत्त होकर कौशिक ने उनपर, रौद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, शक्ति-मान्, वज्र, ब्रह्मपाश, पैशाचास्त्र, काल-पाश, विष्णु-चक्र, कालचक्र, वारुणास्त्र, गंधर्वास्त्र, वायव्यास्त्र आदि कई शक्तिशाली अस्त्रों को चलाया । किन्तु वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड की सहायता से उन सबको व्यर्थ कर दिया । इन शस्त्रों से केवल अग्नि-कण बिखर जाते थे । इससे और भी क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसे वसिष्ठ पर चलाया । (यह देखकर) सब देवता, संयमी, गंधर्व, पन्नग, भूत, दिक्पाल, सभी नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चन्द्र और समस्त लोक क्षुब्ध हो उठे । सभी दिशाएँ प्रज्वलित होने लगी । सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर प्रचण्ड वेग से ब्रह्म-दण्डकी शक्ति का अतिक्रमण करके उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्वार उस अस्त्र को वसिष्ठ ने सहज ही पकड़कर निगल लिया । वसिष्ठ की मूर्ति प्रभापुज ब्रह्म-तेज से दीप्त हो उठी । उनके रोम-रोम से अनेक बाण, ज्वाला उगलते हुए, निकले और विश्वामित्र को जलाने लगे । यह देखकर कौशिक अधीर हो उठे; उनकी सारी शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई । वे सोचने लगे कि इस एक ब्रह्मदण्ड के कारण मरे सभी श्रेष्ठ अस्त्र-समूह व्यर्थ हो गये । इनका (वसिष्ठ का) ब्रह्म-तेज अत्रस्त तथा अचल है । क्षत्रिय-तज (इसके आगे) किस काम का ?

“इस प्रकार परास्त होने के पश्चात् विश्वामित्र अपनी धर्मपत्नी के साथ (दक्षिण की ओर जाकर) घोर तप करने लगे । इसी समय उन्होंने दुष्यंद, मधुष्यंद, दृढनेत्र तथा महारथ नामक चार शक्तिशाली पुत्र प्राप्त किये । अविचल निष्ठा के साथ कई वर्षों तक तपस्या करने के उपरान्त ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और बोले—‘हे अनघ, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हुआ । जाओ, मैं तुम्हें राजर्षि का पद देता हूँ ।’

“गाधेय अत्यन्त विनम्र होकर बोले—‘इतने दिनों तक घोर तपस्या करने के बाद भी मैं ब्रह्मर्षि नहीं बन सका । मेरा उग्र तप विफल हो गया है । मैं राजर्षि का पद नहीं चाहता ।’ यह कहकर वे पुनः घोर तपस्या में निरत हो गये ।

“इसी समय इक्ष्वाकु-वंश के त्रिशंकु नामक यशस्वी राजा ने सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करना चाहा । उसने बड़ी भक्ति से वसिष्ठ को बुलावा भेजा और अत्यन्त विनय से उनसे कहा—‘हे अनघ, सशरीर स्वर्ग में जाने के निमित्त आप मुझसे एक यज्ञ कराने की कृपा कीजिए । आप (इसके लिए) मुनियों को यहाँ बुला भेजिए ।’ सब वसिष्ठ ने कहा—‘हे राजन्, पृथ्वी के निवासियों का सशरीर स्वर्ग में जाना असंभव है ।’

“इसके पश्चात् राजा दक्षिण दिशा में घोर निष्ठा से तपश्चर्या में लीन वसिष्ठ के पुत्र के पास गया और प्रणाम करके कहा—‘महात्मा, सशरीर स्वर्ग में पहुँचने के निमित्त आप मुझसे एक यज्ञ कराइए ।’ तब उन्होंने कहा—‘अगर वसिष्ठजी इस प्रकार का यज्ञ कराने का आदेश दें, तो मैं अवश्य ऐसा यज्ञ कराऊँगा ।’ तब राजा ने कहा—‘हे मुनि, वसिष्ठ मुनि ने तो कहा है कि ऐसा यज्ञ कोई राजा कर ही नहीं सकता । इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ । आप मुझपर कृपा करके मुझसे ऐसा यज्ञ कराइए । पुरोहित ही तो राजाओं के लिए धर्म-साधक होते हैं ।’

“इसपर वसिष्ठ के पुत्र ने कहा—‘राजन्, तुम्हारे-जैसे दुर्मतियों के अतिरिक्त दूसरा कोई निर्मल चित्तवाला व्यक्ति ऐसे यज्ञ की बात सोच भी सकता है ?’ मुनि-पुत्र के यह कहने पर राजा ने उपेक्षा से कहा—‘आपके पिता ने यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है, और आप भी अस्वीकार करते हैं। मेरे हित की चिंता न करनेवालों से अब मेरा क्या संबन्ध ? मैं किसी और से यह यज्ञ कराऊँगा।’

“तब रूष्ट होकर उस पुण्यात्मा ने कहा—‘तुम चांडाल हो जाओ।’ तुरंत राजा का रूप ऐसा विकृत हो गया, मानों उसका दीप्तिमान् तेज वासिष्ठ की क्रोधाग्नि से भस्म हो गया हो। उसका शरीर काला हो गया। उसके शरीर पर के वस्त्र काले हो गये। उसके केश बिखर गये। उसका रूप इतना मलिन हो गया, मानों उसके स्पर्श-मात्र से दूसरा भी मलिन हो जायगा। उसके शरीर पर रहनेवाले कान्तिमान् मणिमय स्वर्णाभरण लोहवत् हो गये। उसके रूप, रंग, वाणी आदि चांडाल-जाति के अनुरूप हो गये।

“इस प्रकार राजा को भयंकर चांडाल-रूप धारण किये हुए देखकर नागरिक, सेवक, अमात्य तथा बंधु-वर्ग ने उसे त्याग दिया। तब राजा अत्यन्त भयभीत होकर लोगों (के मार्ग) से बचता हुआ अपने-आपको छिपाता हुआ धीरे-धीरे महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि के पास जा पहुँचा। उसे देखकर गाधि-पुत्र का हृदय दया से उमड़ आया। वे बोले—‘अयोध्या का शासन करनेवाले, तुम्हें यह चाण्डालत्व कैसे प्राप्त हुआ?’

“तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा—‘हे महात्मा, मैंने वसिष्ठ से सशरीर स्वर्ग-गमन का यज्ञ कराने की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनके पुत्र ने कहा कि जब वसिष्ठ की ऐसी सम्मति है, तब यज्ञ हो नहीं सकता। इसपर मैंने दूसरों से यज्ञ संपन्न करवा लेने का विचार प्रकट किया, तो अत्यन्त क्रुद्ध होकर उन्होंने मुझे चाण्डाल बन जाने का शाप दिया। इसी कारण मुझे यह रूप मिला है। मैंने जो यज्ञ करने का संकल्प किया है, उसे अवश्य पूरा करूँगा। विपत्ति में भी मैं असत्य नहीं बोलता। भविष्य में भी किसी भी प्रकार से मैं सत्य का पालन करूँगा। मैंने अबतक कितने ही यज्ञ किये, कितने ही धर्म-संबंधी कार्य किये और सुख-समृद्धि प्राप्त की। मैंने गुरुओं से प्रार्थना की, परन्तु उनकी कृपा न रहने से यह धर्म-कार्य पूर्ण नहीं हो सका। दैव-बल के अभाव में पुरुषार्थ में भी दोष आ जाता है। हे अनघ, आप मेरे लिए ईश्वर-तुल्य हैं। किसी भी प्रकार आप मेरी रक्षा कीजिए।’

“तब विश्वामित्र ने उसे देखकर कहा—‘हे राजन्, अब तुम दुःख मत करो। तुम्हें दीन जानकर मैं त्रिकरण शुद्धि (पवित्र मन, वचन एवं शरीर) से तुम्हें शरण दे रहा हूँ। मैं मुनियों को बुलाकर तुमसे यज्ञ कराऊँगा और तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूँगा, जिससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भूठी न हो। मैं तुम्हें पवित्र बनाऊँगा।’ इस प्रकार कहकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा—‘तुम लोग तुरंत जाओ और त्रिशंकु के यज्ञ के लिए ऋत्विजों तथा मुनियों को लेकर शीघ्र आओ।’

सभी शिष्य तुरंत गये और श्रेष्ठ मुनियों को साथ लिये हुए विश्वामित्र के पास आकर बोले—‘हे अनघात्मा, हम सभी मुनियों को बड़ी प्रसन्नता से ले आये हैं। वसिष्ठ के

आश्रम के मुनियों के अतिरिक्त शेष सभी मुनि आ गये है । वसिष्ठ के पुत्रों ने जो जो अपशब्द कहे, उन्हें सुन लीजिए । उन्होंने कहा—‘यह कितने आश्चर्य की बात है कि यज्ञ करानेवाला एक राजा है और यज्ञकर्त्ता एक चांडाल ! भला चांडाल के यज्ञ में भाग लेने-वाले मुनि किस प्रकार वहाँ भोजन करेंगे ? देवता अपने हविर्भाग लेने किस मुँह से आयेंगे ? विश्वामित्र की शरण प्राप्त करने-मात्र से कहीं नर स्वर्ग-लोक प्राप्त कर सकेगा ?’

“इन बातों को सुनकर विश्वामित्र क्रोध से जल उठे । बोले—‘अत्यंत निष्ठा के साथ तपस्या करनेवाले मुझे, अपशब्द कहनेवाले सभी पापी संसार में सात सौ वर्ष तक राक्षस-भाव धारण किये हुए, मानव तथा कुत्तों का मांस खाते हुए, नीच होकर रहेंगे । दर्प से मेरी निंदा करनेवाला वह महात्मा पृथ्वी पर निषाद होकर जन्म लेगा ।’ इस प्रकार, शाप देकर संयमी मुनियों को देखकर उन्होंने कहा—‘हे मुनियो, ये राजा त्रिशंकु उच्चकुलीन, कीर्त्तिमान्, धर्मज्ञ तथा सत्यनिष्ठ हैं । इसलिए इनसे आप यज्ञ कराइए, जिससे ये शरीर के साथ इंद्रपुरी को जा सकें ।’

“ऋषि के वचन सुनकर वे सभी मुनि परस्पर यों विचार करने लगे—‘यदि हम गांधि-पुत्र के वचनों को टाल दें, तो वे क्रोध में आकर हमें घोर शाप देंगे । अतः उनके कहे अनुसार हम राजा से यज्ञ करायेंगे ।’ यों सोचकर सभी मुनि यज्ञ-कर्म में लग गये । विश्वामित्र ऋत्विक् बने और मंत्रों के उच्चारण के साथ उन्होंने यज्ञ-भाग लेने के लिए देवताओं का आह्वान किया । देवताओं ने उच्च स्वर में कहा कि हम नहीं आयेंगे ।

“तब क्रोधाग्नि से भभकते हुए, कुश की पवित्री हाथ में लिये हुए, सुवा उठाकर कौशिक ने कहा—‘हे त्रिशंकु यदि मैंने बाल्यावस्था से नियमों का पालन करते हुए तप किया हो, तो तुम सशरीर स्वर्गलोक में पहुँच जाओगे । अब तुम जाओ ।’

“इसपर त्रिशंकु स्वर्ग में पहुँच गया । किन्तु (वहाँ जाने पर) इन्द्र ने कहा—‘तुम चाण्डाल हो, हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे ।’ और उसने त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया ।

“त्रिशंकु सिर के बल नीचे की ओर गिरते हुए चिल्लाने लगा—‘हे विश्वामित्र, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए ।’ तब विश्वामित्र का हृदय दया से भर गया । उन्होंने कहा—‘हे राजन्, तुम आकाश में ही ठहर जाओ ।’ यों कहकर उन्होंने त्रिशंकु को आकाश में ही ठहरा दिया और बड़े क्रोध में आकर इन्द्र से प्रतिरोध लाने के उद्देश्य से उन्होंने दक्षिण दिशा में अपर स्वर्ग का निर्माण किया । उसमें उन्होंने (नये) सप्त ऋषियों तथा नक्षत्रों का सर्जन किया । इतना ही नहीं, वे उस स्वर्ग में दूसरे देवताओं तथा अपर इंद्र को भी उत्पन्न करने का संकल्प मन-ही-मन करने लगे ।

“यह समाचार मिलते ही सभी मुनि तथा देवता विश्वामित्र के पास आकर बोले—‘हे मुनिनाथ, यह त्रिशंकु गुरु के शाप से पीड़ित है । यह स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है ।’ इस पर विश्वामित्र ने कहा—‘हे देवताओ मैंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का वचन दिया है । मेरा वचन व्यर्थ नहीं होना चाहिए । इसलिए इस राजा को इसी स्वर्ग में रहने दो । जबतक यह संसार रहेगा, ये नक्षत्र, देवलोक से भी ऊपर आसमान में तेज से प्रकाश-

मान रहेंगे। उन नक्षत्रों के बीच त्रिशंकु को इसी दशा में (सिर नीचा किये) देवताओं के समान रहने दो और पुण्यात्मा तथा यशस्वी बनने दो।' इस व्यवस्था को स्वीकार कर मुनि तथा देवता विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए अपने-अपने स्थान को लौट गये।

“तब विश्वामित्र ने (अपने आश्रम के) मुनियों को देखकर कहा—‘यह स्थान अब तपस्या के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ अब लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी है। अतः हम यहाँ से किमी दूसरे स्थान में चले जायेंगे।’ यों कहकर वे उस स्थान को छोड़कर (पश्चिम दिशा में) विशाला के निकट पुष्कर-तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ केवल जल और फल का ही आहार करते हुए बहुत वर्ष तक वे तपस्या करते रहे।

“उस समय अयोध्या के राजा, मन्मथ के समान रूपवान् अंबरीष ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उस यज्ञाश्व को इन्द्र ने चुरा लिया। राजा ने यज्ञाश्व को कई स्थानों में ढूँढा, किन्तु अश्व के न मिलने से उसके प्रायश्चित्त-स्वरूप विधि पूरी करने के निमित्त नर-पशु की माँग करते हुए वह कई आश्रमों में गया। निदान भृगुतुंग में अत्यंत तपोनिष्ठा में संलग्न रुचि नामक मुनि के पास पहुँचकर राजा ने मुनि को प्रणाम करके कहा—‘हे करुणानिधि, मैंने यज्ञ करने का यत्न किया था, किन्तु यज्ञाश्व कहीं खो गया है। आप कृपया अपने एक पुत्र को यज्ञ-पशु के रूप में मुझे दें। उसके बदले में एक लाख गायें मैं आपको दूँगा।’ तब मुनि ने कहा—‘मैं अपने जेष्ठ पुत्र से अत्यधिक स्नेह रखता हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं दे सकता।’ तब मुनिपत्नी ने कहा—‘मैं कनिष्ठ को बहुत चाहती हूँ। मैं उसे दे नहीं सकती।’ उन दोनों की बातें सुनकर शुनःशेप ने राजा से कहा—‘जेष्ठ पुत्र को मेरे पिता चाहते हैं और कनिष्ठ पुत्र को मेरी माता चाहती हैं। अतः उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं आप के साथ चलूँगा। इसके लिए आप मेरे माता-पिता को सहस्र गायें दीजिए।’ राजा ने वैसा ही किया और शुनःशेप को रथ पर बिठाकर शीघ्र वहाँ से चल दिया।

“इस प्रकार राजा शुनःशेप को साथ लेकर पुष्कर-प्रदेश में स्थित आश्रम में पहुँचा। वहाँ अमित तपोनिष्ठा में लीन, अथर्व रीति से तपस्या करनेवाले अपने मामा विश्वामित्र को देखकर शुनःशेप ने उनको प्रणाम किया और कहा—‘हे अनघ, मेरे माता-पिता ने मुझे इस राजा को यज्ञ-पशु के रूप में बेच दिया है। आप कृपया इस राजा के यज्ञ को सफल बनाकर मेरे प्रार्थनों की रक्षा कीजिए। आज आप ही मेरे माता, पिता, गुरु और बंधु हैं।’

“इस प्रकार अत्यंत दीन होकर जब शुनःशेप ने कहा, तब विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को संबोधित करके कहा—‘पुण्यात्मा लोग परलोक में सुगति प्राप्त करने के लिए ही पुत्र उत्पन्न करते हैं। इस बालक ने मेरी शरण ली है, इसलिए इसकी प्राण-रक्षा करना ही अब मेरे लिए स्वर्ग है। यह मेरा भानजा है। तुम लोग इसकी रक्षा करो और तुममें से कोई सके लिए अपने प्राण दो।’

“मुनि-पुत्रों में से कोई भी उनका आदेश पालन करने के लिए सन्नद्ध नहीं हुआ, तब अत्यंत क्रुद्ध होकर मुनि ने उन्हें शाप दिया—‘तुम एक हजार वर्ष तक कुत्ते का मांस खाते हुए दुःख भोगो।’

“इसके पश्चात् विश्वामित्र ने उस शुनःशेप को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाकर कहा—‘मैं तुम्हें दो मंत्र देता हूँ । तुम सतत उनका जप करते रहो । वे (मंत्र) तुम्हारी रक्षा करेंगे और अंबरीष का यज्ञ भी सफल हो जायगा ।’ यों कहते हुए उन्होंने उसे दो मंत्रों का उपदेश किया ।

“दूसरे दिन राजा अपनी यज्ञ-भूमि में पहुँच गया । उसने उस निर्मल आत्मा (शुनः-शेप) की पूजा आदि करके उसे यूपकाष्ठ से बाँध दिया । तब वह मुनि-पुत्र अत्यंत शांत तथा निश्चल चित्त से उन मंत्रों का जप करने लगा । तब देवेन्द्र ने वहाँ आकर अंबरीष का यज्ञ सफल बनाया तथा रुचि मुनि के पुत्र को चिरंजीवी बनाकर देवताओं के साथ (अपने लोक में) चला गया ।

“एक हजार वर्ष तक घोर तप करने के उपरान्त ब्रह्मा ने विश्वामित्र को दर्शन दिये, और बोले—‘तुम्हारी तपस्या सफल हुई । तुम्हें ऋषित्व प्राप्त हो गया ।’

“उनके चले जाने के पश्चात् भी विश्वामित्र अत्यंत निष्ठा के साथ तपस्या करने में ही संलग्न रहे । तब कामरूप धारण करने में चतुर, कामदेव का कमनीय बाण ही अप्सरा के रूप में प्रकट हुआ हो, ऐसा दिखाई देनेवाला ललित यौवन-कला-विलास से युक्त मेनका (अप्सरा) जलक्रीड़ा करके वहाँ आई । उसका जूड़ा शिथिल हो रहा था । मनोहर नेत्र, स्निग्ध कपोल, मंत्रमुग्ध करनेवाला मुख, माणिक्य के-से ओंठ, मधुर-मंद मुस्कान, स्वर्ण कलश के समान कुच, सोलहों कलाओं से परिपूर्ण कांति, स्वर्ण-चूर्ण भरनेवाले बाहुमूल, ललित रोमराजि, सिंह की-सी कटि, पुष्पाग के पुष्प के सदृश नाभि, गुह्र नितंब, तथा काम-विकारों को उद्दीपन करनेवाले उरुभाग से युक्त वह सुदरी विश्वामित्र के सामने उपस्थित हुई । अपने शरीर की कांति को विकीर्ण करनेवाली उस अप्सरा को देखकर विश्वामित्र में काम-वासना प्रबल हो उठी । उन्होंने अपने ध्यान, मौन-व्रत तथा तपस्या को तिलांजलि देते हुए कहा—‘हे सुंदरी, तुम मेरे साथ रतिक्रीड़ा में अनुरक्त हो जाओ ।’ उनका आदेश स्वीकार करके मेनका ने दस वर्ष तक उस मुनि को रति-क्रीड़ा से परितृप्त किया । तब विश्वामित्र ने मन-ही-मन विचार करके जान लिया कि मेरे तप में विघ्न डालने के लिए ही देवताओं ने इस सुंदर रमणी को भेजा है । इसलिए उन्होंने उस कामिनी को देवलोक में भेज दिया और कामदेव को जीतने का विचार करके आप उत्तर पर्वत में कौशिकी नदी के तट पर निवास करते हुए एक सहस्र वर्ष तक बड़ी निष्ठा से घोर तपस्या करते रहे । उनके कठोर तप से देवता भीत होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे और बोले—‘हे कमलासन, विश्वामित्र अब आपसे महर्षि मान लिये जाने की अर्हता (योग्यता) रखते हैं । ब्रह्मा भी विश्वामित्र के तप से संतुष्ट हुए और कौशिक के पास जाकर बोले—‘हे मुनि आज से तुम संसार में महर्षि के रूप में विख्यात होगे ।’ तब मुनिनाथ कौशिक ने कहा—‘हे कमलासन, जबतक आप संतुष्ट होकर मुझे ब्रह्मर्षि घोषित नहीं करेंगे, तबतक मैं तपस्या करता ही रहूँगा ।’ ब्रह्मा ने कहा कि ‘ऐसा ही करो’ और वे अपने लोक को चले गये । विश्वामित्र ने संकल्प कर लिया कि मैं ब्रह्मा को संतुष्ट करके ब्रह्मर्षि का पद अवश्य प्राप्त करूँगा । इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके वे अन्न-जल त्यागकर ऊर्ध्वबाहू हो,

वायु-भक्षण करते हुए ग्रीष्म ऋतु में, आश्रम के बाहर, तथा जाड़े में जल-कुंडों में खड़े रहकर अत्यंत उग्र तप करने लगे ।

“इस प्रकार एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिन इन्द्र ने रंभा को देखकर कहा—‘हे सुंदरी, मैं तुमसे एक ऐसा कार्य कर्हूंगा, जिसमें देवताओं का हित निहित है । किसी तरह तुम कौशिक को काम-पीड़ित करके उनके तप में विघ्न डालो ।’ तब रंभा ने कहा—‘हे देव, कौशिक क्रोध में मुझे शाप दे देगे । इसीका मुझे भय होता है । ऐसे उग्र तप में लीन उस मुनि के पास पहुँचना क्या मेरे लिए संभव है ? हे शचीनाथ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ । मैं ऐसे महामूर्ख की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकती; आपके चरणों का सौगंध खाकर कहती हूँ । ऐसा मूर्ख कौन होगा, जो जान-बूझकर आग में कूद पड़े ?’

यह सुनकर इन्द्र ने कहा—‘यदि तुम्हें इतना भय है, तो मन्मथ और वसंत भी तुम्हारे साथ जायेंगे, तुम जाओ ।’ इन्द्र की इच्छा की अवहेलना न कर सकने के कारण वह सुंदरी, मन्मथ तथा वसंत की सहायता से कीर, कोकिल से युक्त हो, मयूर तथा सारिकाओं को साथ लेकर अपनी सखियों के साथ उस तपोवन में गई, जहाँ गाधि-पुत्र तप कर रहे थे । वहाँ पहुँचकर रंभा मनोहर गति से लास्य करने लगी । कौशिक क्रुद्ध होकर बोले—‘हे पद्ममुखी, तुम दस हजार वर्ष तक पाषाण बनकर पड़ी रहो । उसके बाद एक श्रेष्ठ तपोनिधि ब्राह्मण के द्वारा तुम्हारा शाप-मोचन होगा ।’

“मुनि के शाप देते ही रंभा पाषाण बन गई । मन्मथ भीत होकर वहाँसे भाग गया । शाप देने के कारण गाधि-पुत्र ने देखा कि उनके तप का एक भाग नष्ट हो गया है । उन्होंने सोचा पहले काम-वासना के कारण मेरा तप नष्ट हो गया था और अब क्रोध से मैंने अपनी तपस्या खो दी । इस प्रकार चिंतित होकर उन्होंने काम तथा क्रोध दोनों का त्यागकर निराहार तथा जितेन्द्रिय हो एक हजार वर्ष तक तप किया । ब्रह्मा उनपर बहुत प्रसन्न हुए । (तब विश्वामित्र ने) ब्रह्मर्षि कहलाने की अदम्य इच्छा लिये उत्तर दिशा को छोड़कर पूर्व दिशा की ओर प्रस्कान किया और वहाँ इन्द्र के असंख्य विघ्नों से विचलित न होते हुए अटल भाव से तप किया । उसके पश्चात् सिद्धाश्रम में पहुँचकर वहीं घोर तप करते हुए रहने लगे ।

“इस प्रकार श्रेष्ठ तपोनिष्ठा में एक सहस्र वर्ष बीत गये । विश्वामित्र तपस्या की पूर्ति के पश्चात् पारण करने के लिए नीवार-धान्य एकत्र करके ले आये, उसे पकाया और देवताओं को अर्पण करने के उपरांत भोजन करने ही वाले थे कि इन्द्र एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ आया और भोजन माँगा । विश्वामित्र ने सारा भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया । इन्द्र ने विना एक दाना छोड़े सब खा लिया । इस पर विश्वामित्र फिर एक हजार साल तक अविचल निष्ठा से तपस्या करते रहे ।

“इस घोर तपस्या के फलस्वरूप उनके सिर से ध्रुवाँ निकलकर सारे लोक में फैल गया । सभी समुद्र क्षुब्ध हो गये । पृथ्वी काँपने लगी । कुलपर्वत थर्रा उठे । दिशाएँ उलझ गईं । अमर, गंधर्व तथा सभी मुनि ब्रह्मा के पास जाकर बोले—‘हे कमलगर्भ,

कौशिक बड़े उत्साह से उग्र तप कर रहे हैं। उनका मनोरथ पूर्ण करके यदि उनकी तपस्या को बंद नहीं करायेंगे, तो उस पुण्यात्मा विश्वामित्र के तप से उत्पन्न अग्नि से सभी लोक भस्म हो जायेंगे।'

“उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा उनको साथ लिये हुए विश्वामित्र के पास आये और बोले—‘हे कौशिक सुनो। अब इस उग्र तप की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम ब्रह्मर्षि हो गये।’

“तब कौशिक ने ब्रह्मा आदि देवताओं को देखकर बड़ी भक्ति तथा आश्चर्य के साथ कहा—‘यदि मैंने सच ही ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया है, तो ब्रह्मा के पुत्र, चिर-पुण्यात्मा, लोक-पावन वसिष्ठ आकर मुझे ब्रह्मर्षि कहें। तभी मैं विश्वास करूँगा।’

“तब ब्रह्मा तथा देवताओं की प्रार्थना पर वसिष्ठ वहाँ आये और बोले—‘अपने उग्र तप से तुम ब्रह्मर्षि हो गये, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम प्रसन्न होकर जा सकते हो।’ तब विश्वामित्र ने बड़ी भक्ति से वसिष्ठ की पूजा की। सभी देवता विश्वामित्र को आशीर्वाद देकर देवलोक को चले गये।

“विश्वामित्र की महिमा इन अद्भुत कार्यों से आपको विदित होगी।”

शतानंद के इस प्रकार कहने पर राम, लक्ष्मण, जनक तथा उनके सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए (इतने में) सूर्यास्त हुआ, मानो सूर्य रसातल में यह समाचार देने जा रहा हो कि कल राधव जनक के निवास में रखे हुए शिव-धनुष को तोड़कर सीता का पाणि-ग्रहण करेंगे।

जनक को विदा करके गाधि-पुत्र ने राम तथा लक्ष्मण के साथ अपने निवास में बड़े आनंद से रात बिताई। सूर्योदय होते ही स्नान, पूजा आदि से निवृत्त होकर विश्वामित्र राम के साथ जनक के यहाँ गये और बोले—‘हे जनक, कोटिसूर्य-प्रभा-समन्वित, पुण्य-चरित, अनन्य-गोचर तथा विश्वमूर्ति आपके यहाँ स्थित शिव-धनुष के दर्शनार्थ आये हैं। आप कृपया उस धनुष को मँगावें।’

३२. शिव-धनुष का वृत्तान्त

तब जनक बड़े आश्चर्य-चकित होकर बोले—‘हे नियतात्मा, शिवजी ने अंधकासुर, भस्मासुर आदि राक्षसों को इसी धनुष से मारा था। पूर्व काल में उसी धनुष से उन्होंने भयंकर राक्षसों का संहार किया था। शंकर ने अत्यन्त क्रोध करके इसी धनुष से त्रिपुर-दुर्गों को जीता था, इसी धनुष से उन्होंने देवेन्द्र आदि देवताओं को भगाकर दक्ष के यज्ञ का ध्वंस किया था। शिवजी ने हमारे पितामह नीति-संपन्न निमि चक्रवर्ती से छह पीढ़ी पूर्व के हमारे पूर्वज देवरात को यह धनुष सौंपा। तब से यह अतुल शक्ति-संपन्न धनुष हमारे घर में है। मैंने यज्ञ करने का संकल्प करके, भूमि को शुद्ध करने के लिए जब उसमें हल चलाया, तो मुझे हल की फाल-रेखा में एक मंजूषा (पिटारी) मिली। हर्ष-पुलकित हो जब मैंने उसे खोला, तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। उसमें एक अत्यंत प्रभा-समन्वित कन्या निकली। मैंने उसका नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री मानकर बड़े प्रेम से उसका लालन-पालन करने लगा। वसंत ऋतु में बढ़नेवाली लता के समान तथा दिन-प्रति-दिन वृद्धि-पानेवाली चंद्रकला के सदृश वह कन्या बढ़ने लगी। क्रमशः यौवनावस्था को प्राप्त

हो गई। यह देखकर इस पृथ्वी के कई नरेशों ने उस कन्या के साथ विवाह करने की प्रार्थना की। तब मैंने उन से कहा—‘इस चन्द्रमुखी को प्राप्त करने के लिए एक कन्या-शुल्क नियत है। (वह शुल्क) यह शिव-धनुष है। जो नरेश इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने भुज-बल का परिचय देगा, उसी को मैं अपनी पुत्री बड़े हर्ष से दूँगा।’ बहुत-से राजा आये, किन्तु कितने ही राजा उस धनुष को उठाने में भी असमर्थ होने के कारण लज्जा से अपना सिर भी न उठा सके। इसलिए उन राजाओं ने सीचा—‘पुत्री को देने का वचन देकर, कोदण्ड का दुस्साध्य प्रतिबंध लगाकर जनक ने हमें अच्छी तरह भ्रम में डाल दिया है। हम उन्हें युद्ध में परास्त करके उनसे प्रतिशोध लेंगे।’ इस प्रकार सोचकर वे अपनी विशाल सेना के साथ एक वर्ष तक हमारे किले पर घेरा डाले रहे। जो अन्न तथा खाद्य-सामग्री हमने पूर्व से किले में संचित करके रखी थी, सब समाप्त हो गई। अतः मैंने मन में विचार करके देवताओं की प्रार्थना की। उनकी कृपा से प्राप्त चतुरंगिनी सेना के साथ मैंने शत्रु-सेना पर आक्रमण किया। इस सेना का सामना न कर सकने के कारण कुछ लोग भीत होकर भाग खड़े हुए तथा कुछ मेरे साथ घोर युद्ध करके हार गये और तितर-बितर हो गये। यदि राम अपनी आश्चर्यजनक शक्ति से उस शिव-धनुष का संधान कर सकें, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दूँगा।”

३३. शिव-धनुर्भंग

इसके पश्चात् जनक ने धनुष की पेंटी ले आने के लिए दस हजार बलिष्ठ सेवकों को भेजा। वह लोहे की पेंटी बहुत ही विशाल तथा आठ पहियों से युक्त थी। वे सभी बलवान् उस पेंटी को अपना सारा बल लगाकर इस प्रकार खींचकर लाने लगे, मानों मेरे पर्वत को ही लिये आ रहे हों। यह देखकर जनक के अन्तःपुर के परिचारक तथा परिचारिकाएँ, जानकी, उर्मिला तथा जनक की पत्नी के निकट जाकर बोलीं—“देवियो, हमारा एक निवेदन सुनें। हमारी राज-सभा में गांधि-पुत्र कौशिक के साथ दो आजानुबाहु, देवों तथा गंधर्वों से भी अधिक तेजस्वी, दो उत्तम नर-रत्नों को आया हुआ देखकर महाराज जनक ने मुनि से प्रश्न किया कि ये कौन ह ? तब कौशिक ने अत्यन्त हर्ष से कहा—‘हे राजन्, ये दशरथ के पुत्र हैं। शिव-धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए यहाँ आये हैं। इसलिए आप योग्य व्यक्तियों को भेजकर धनुष को मँगवाइए।’ तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर धनुष को लाने के लिए भेजा है। हम वह दृश्य गवाक्ष से देख सकती हैं। आप भी शीघ्र चलकर देखिए।”

परिचारिकाएँ जब राम के कुल, रूप, शौर्य तथा गुणों का वर्णन कर रही थीं, तब सीता को ऐसा भान हो रहा था, मानों उनके कानों में सुधा की वर्षा हो रही हो। उन्हें रोमांच हो आया। उन्हें प्रीति तथा भय का अनुभव होने लगा। वे सिर झुकाये खड़ी रहीं। लज्जा से अभिभूत उस सुन्दरी को चुपचाप खड़ी देखकर सखियाँ उनकी परिचर्या करने लगीं। गुलाब-जल में कुंकुम घोलकर एक ने उनके कपोलों पर सुन्दर ढंग से ‘मकरिका-पत्र’ की रचना की (चित्र बनाये)। दूसरी ने जवादियुक्त चंदन का लेप किया। एक दूसरी परिचारिका ने माथे पर कस्तूरी का तिलक लगाया और एक उनके सामने

दर्पण लिये खड़ी रही । एक युवती ने उनके केशों को कंधा करके उनका जूड़ा बाँध दिया, तो अन्य एक ने उसे निराले ढंग से पुष्पों से अलंकृत कर दिया । एक रमणी ने उन्हें सुगंधित बीड़ा दिया । किसी ने उनकी कटि-तट पर किकिणियुक्त करधनी बाँधी, तो किसी सुन्दरी ने उनके कुचों पर डोलनेवाले मोतियों के हार पहनाये । एक सखी ने चंद्र-कांति-सम धवल वस्त्र उन्हें उत्तम ढंग से पहनाये । इस प्रकार सभी सखियाँ सीता को एक स्वर्ण-पीठ पर बिठाकर उनका अलंकरण कर रही थी । अलंकरण समाप्त होते ही जनक की पत्नी उस कल्याणी राजकुमारी को साथ लेकर कनक-सौध के गवाक्ष के निकट आई । उन सब रमणियों के मन में 'सूर्यवंश में उत्पन्न राघव को कब देखेंगे' ऐसा कुतूहल भरा था । उन्होंने गवाक्ष से लोकाभिराम दिव्य धाम, अत्यंत रूपवान्, विष्णु के समान तेजस्वी, धनुर्धर, प्रत्यंचा के चिह्न से अंकित कर-कमलवाले राम को देखा । उनको देखकर सखियाँ मन-ही-मन सोचने लगी, रूप और रंग में ये अद्वितीय है । ये विष्णु के अंशज है और राजपुत्रों के रूप में जन्मे है । जानकी रामचन्द्र के लिए योग्य है और उर्मिला सौमित्र के लिए । इस प्रकार सोचती हुई वे अत्यन्त आसक्ति के साथ सभा की ओर देखती रहीं ।

इन्द्र-सभा के समान सुशोभित उस राज-सभा में धनुष की पेट्टी लाई गई । तब महाराज जनक ने शुभमूर्ति गाधि-पुत्र को देखकर कहा—'हे मुनि, किन्नर, यक्ष, गधर्व, देवता, पन्नग, तथा राक्षस आदियों में से कोई इस धनुष की डोरी को न चढ़ा सका । फिर नरों की कौन कहे ? यह धनुष आप राम-लक्ष्मण को दिखाइए ।' तब मुनि ने रामचंद्र की ओर देखकर कहा—'हे रघुवंश के वीर, इस महान् धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो । आदिवराह का अवतार लेकर समस्त भूतल को सहज ही उठाकर अपनी शक्ति का परिचय देनेवाले तुम्हारे लिए यह धनुष क्या वस्तु है ?'

इस प्रकार मुनि का आदेश प्राप्त करके राम, लक्ष्मण के साथ उठे । उनके मन में प्रेम तथा उमंग का संवर्ष हो रहा था । उन्होंने अपना दुकूल उतार दिया और कमरबंद कसकर बाँधा । उस समय उनके मोहक रूप की कांति सभी दिशाओं में बिखर रही थी । उस कमल-लोचन तथा अद्वितीय साहसी की करधनी की छोटी-छोटी घंटिकाओं का सौंदर्य अद्भुत था । उनकी नव-रत्नमालिका बाहुओं तक डोल रही थी । उनके कंकण और अँगूठियों की कांति चारों ओर छिटक रही थी । कर्णाभूषणों की कांति स्निग्ध कपोलों पर प्रकाशित हो रही थी । उनके केश पीठ पर नृत्य कर रहे थे और कनक वर्णवाला उनका शरीर चारों ओर अपनी आभा विकीर्ण कर रहा था । करोड़ों मन्मथों का-सा सौंदर्य लिये हुए वे मनुवंश-तिलक गंभीर गति से जनक की सभा में सब के सम्मुख आये और धनुष की पेट्टी खोली । समस्त धरा को अपने ऊपर धारणकर चिरनिद्रा में सुख से सोने-वाले शेषनाग के समान, काले बादलों के मध्य अपनी पूरी कांति को समेटकर अचल भाव से रहनेवाले त्रिद्युत्-दंड के समान अनुपम सौंदर्य से समन्वित धनुष को राम ने पेट्टी में से उठाया ।

वह अनुपम धनुष अरुण रत्न-प्रभा की-सी दीप्ति बिखेरनेवाली अग्नि-ज्वाला के समान ऐसा खड़ा था, मानों वह उसे उठाने के लिए बड़े गर्व के साथ प्रयत्न करनेवाले राजकुमारों के

बल को आहुति के रूप में निगलने के लिए उद्यत हो । राम जब उस धनुष की डोरी चढ़ाने का उपक्रम करने लगे, तब विश्वामित्र बोले—‘राम अपनी समस्त शक्ति से संपन्न होकर शिवजी के धनुष की प्रत्यचा चढ़ा रहे हैं । हे धरती, तुम दोलायमान मत होओ । हे शेषनाग, तुम विचलित मत होओ । हे दिग्गजो, तुम सावधान रहो ।’

इसी समय राघव ने धनुष की डोरी चढ़ाई और अपने भुज-बल का परिचय दिया । वे जनक से बोले—‘हे भूपाल, यह धनुष बहुत ही पुराना, कमजोर, और घटिया है । यदि बाण का संधान किया जाय, तो यह टिक नहीं सकेगा । इसी धनुष की आपने इतनी प्रशंसा की थी ?’

इस प्रकार कहते हुए (राम ने) सुर, खेचर, भूसुर, किन्नर, नर तथा नृपतियों के समक्ष धनुष की ऐसी टकार की, मानों वह सब दिशाओं में उनकी विजय की घोषणा कर रही हो । इसके पश्चात् उन्होंने चाप के गुण को (धनुष की प्रत्यंचा को) आकर्णात् इस प्रकार खींचा, मानों सीता के गुण उनके कानों तक पहुँच गये हों । (फिर) उन्होंने अपनी मुट्टी की पकड़ इस तरह ढीली कर दी, जैसे राक्षसों की पकड़ (शक्ति) ढीली पड़ गई हो । तुरंत वह धनुष अरराकर टूट गया । दिशाएँ उस ध्वनि से गूँज उठीं । धनुष के टूटते ही सभी राजाओं का अभिमान भी चूर-चूर हो गया; सारी पृथ्वी में दरारें पड़ गईं; दिग्गज कुचल गये; शेषनाग घँस गया; समस्त भूत भीत हो गये और सभी लोक थर्रा उठे । उस कठोर ध्वनि को सुनते ही जनक, राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र को छोड़कर शेष सभी लोग मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । जनक महाराज हर्ष तथा विस्मय के साथ कौशिक को देखकर बोले—‘मैं अपने वचन के अनुसार विना विलंब के ही अपनी पुत्री का विवाह इस महान् व्यक्ति से कर दूँगा । महाराज दशरथ को विवाह के लिए सादर निमंत्रण भेजूँगा ।’

इस प्रकार कहने के पश्चात् उन्होंने तुरंत अपने प्रिय मंत्रियों को बुलाकर दशरथ को सारा समाचार सुनाकर उन्हें शीघ्र लिवा लाने के लिए भेजा । वे भी जवनाश्वों (तेज घोड़ों) पर खाना हुए और तीन दिन की यात्रा के उपरान्त साकेत (अयोध्या) पहुँच गये । वहाँ अपने पुत्रों की कुशल की चिंता में निमग्न राजा (दशरथ) को देखकर जनक के मंत्री बोले—‘हे राजश्रेष्ठ, आपके पुत्र शौर्यनिधि रामचन्द्र ने कौशिक मुनि के यज्ञ की रक्षा कीं और जनक महाराज का यज्ञ देखने (मिथिला) आये । वहाँ मुनि तथा अन्य राजाओं के समक्ष उन्होंने उस शिव-धनुष का संधान करके उसे सहज ही तोड़ डाला, जिसे उठाना सुरों तथा असुरों के लिए भी असंभव है । इसपर महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ करने का निश्चय किया है । उस विवाह में आपको सादर आमंत्रित करने के लिए हमें भेजा है । इसलिए आप शीघ्र पधारें ।’

यह समाचार सुनकर राजा आनन्द-सागर में डूब गये । उन्होंने नगर-भर में विवाह की सूचना देने के लिए दूत भेजे और महाराज जनक के मंत्रियों को श्रेष्ठ रत्न, आभूषण कमकांबर (सोने की पोशाक) आदि बड़ी प्रसन्नता से भेंट किये । उन्होंने तुरंत अपने कुल-गुरु वसिष्ठ, धीरात्मा वामदेव, जांबालि, कश्यप, मार्कण्डेय, महिमावान् कात्यायन (आदि मुनियों)

तथा अपने अमात्यों को बड़े आदर के साथ बुला भेजा और अत्यन्त नम्रता से बोले—“राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ विदेह के घर में हैं। राम ने राजाओं की प्रशंसा प्राप्त करते हुए इन्दु-शेखर (शिव) का कठोर धनुष तोड़ा है। अतः महाराज जनक ने सीता का विवाह राम के साथ करने का निश्चय करके, विवाह के लिए हमें आमंत्रित करने के लिए इन्हें (मंत्रियों को) भेजा है। क्या जनक के साथ (हमारा) संबंध प्रजा को स्वीकृत होगा ?” तब सबने उस संबंध की प्रशंसा की।

दूसरे दिन वसिष्ठ आदि मुनियों, बंधु-मित्र तथा अन्य राजाओं के साथ राजश्रेष्ठ दशरथ ने रथ में बैठकर बड़े आनन्द से मिथिला के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ रमणीय दिव्यांबर, कमनीय रत्न-समूह, हाथी, रथ, तुरग तथा पदचर सेना, परम आप्त मंत्री तथा पवित्र स्त्रियों के समूह थे। राजा के पार्श्व में उनके पुत्र भरत तथा शत्रुघ्न हाथियों पर, मोतियों के छत्र की छाया में चल रहे थे। मंगल-वाद्यों के घन-नाद से सभी दिशाएँ मुखरित हो रही थी। इस प्रकार, जहाँ-तहाँ ठहरते हुए, चार दिन की यात्रा के पश्चात्, दशरथ (अपने परिवार के साथ) मिथिला पहुँच गये।

तब महाराज जनक सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा (दशरथ) की अगवानी करने आये और बड़े उत्साह एवं आदर के साथ उन्हें ले जाकर उनका उचित रीति से आदर-सत्कार किया। उसके बाद सभी मुनियों को प्रसन्न करते हुए वे बड़े हर्ष से बोले—“महाराज, अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करने का निश्चय करके मैंने आपको निमंत्रित किया है। आपके आगमन से मैं कृतार्थ हुआ। इन वसिष्ठ, वामदेव आदि मुनियों के आगमन से मेरी इच्छाएँ पूर्ण हो गई। मेरा जन्म सफल हुआ। मेरा वंश पवित्र हुआ। रविकुल के उत्तम नरेश के साथ संबंध करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कल ही विवाह का शुभ मुहूर्त है। आप अपने इष्ट-मित्रों को बुलाकर उचित तथा आवश्यक कार्य संपन्न कीजिए।”

उनके वचन सुनकर दशरथ ने बड़े प्रेम से कहा—‘ऐसा ही हो’ और जनक के द्वारा संपन्न कराये गये जनवासे में प्रसन्न-चित्त से ठहरे। तब विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण के साथ वहाँ आ पहुँचे। दशरथ ने उस मुनि को प्रणाम करके बड़े विनय से कहा—“हे अनघात्मा, आपकी कृपा से मैं धन्य हुआ।” तब कौशिक बोले—“हे राजन्, तुम अकलंक-चरित्र हो। अपने पुण्य-कार्य से तुम पवित्र हो गये हो। रविकुलोत्तम राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करके तुम विशेष रूप से पवित्र हुए हो। उस दिन तुमने यज्ञ की रक्षा करने के लिए सद्बुद्धि से अपने पुत्र राम-लक्ष्मण को मुझे दिया था। यह लो, तुम्हारे पुत्र कुशल-मंगल से हैं। उन्हें स्वीकार करो।” इतने में दोनों (राम-लक्ष्मण) ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें आशीर्वाद देकर बड़े स्नेह से गले लगा लिया।

दशरथ उस दिन अपने नित्य-नैमित्तिक वैदिक कर्मों से निवृत्त हुए। दूसरे दिन जनक अपने मंत्रियों के साथ विवाह-मंडप में आ विराजे। अपने पुरोहित शतानन्द को देखकर कहा—‘हे अनघात्मा, मेरे भाई कुशध्वज को भी इस विवाह में अवश्य आना चाहिए। वह इक्षुमती के किनारे सांकाश्यपुरी में रहता है।’ यों कहकर उन्होंने (अपने भाई को) बुला भेजा।

बड़े कौतूहल के साथ कुशध्वज वहाँ आया और शतानन्द तथा महाराज जनक को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और महाराज की आज्ञा पाकर उचित आसन पर बैठा। तब जनक ने सुदामन नामक अपने मंत्री से कहा—‘तुम शीघ्र जाकर महाराज दशरथ को उनके सचिव, पुत्र, वसिष्ठ आदि मुनियों के साथ सादर लिवा लाओ।’ उसने दशरथ के सम्मुख पहुँचकर निवेदन किया—‘महाराज, राजा जनक ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। आप कृपाकर अपने पुरोहित, पुत्र तथा अमात्यों के साथ विवाह-मंडप में पधारें।’ राजा दशरथ सपरिवार वहाँ पहुँचे और (उचित आसन पर) आसीन होने के पश्चात् जनक से बोले—‘महाराज, हम इक्ष्वाकुओं के लिए मुनि वसिष्ठ गुरु तथा देवता हैं। वे सर्वज्ञ तथा जितेन्द्रिय हैं। वे ही हमारे पुरोहित रहकर संस्कार करायेंगे।’

३४. दशरथ का वंश-क्रम

तब मुनि वसिष्ठ दशरथ के वंश का वर्णन करते हुए कहने लगे—‘हे राजन्, निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण करके, अपनी लीला प्रसारित करने के निमित्त, अपने नाभि-कमल में ब्रह्मा को उत्पन्न किया। इस प्रकार हरि के पुत्र ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और उनसे सूर्य उत्पन्न हुआ। सूर्य का पुत्र था वैवस्वत मनु। उसका पुत्र इक्ष्वाकु नामक राजा बहुत विख्यात हुआ। इक्ष्वाकु का पुत्र कुक्षि हुआ, और कुक्षि का पुत्र विकुक्षि उत्पन्न हुआ। विकुक्षि के पुत्र बाण के संतरण्य नामक पुत्र हुआ। उसके पृथु नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र त्रिशंकु हुआ, जो बड़ा ही चतुर राजा था। उसके पुत्र हरिश्चन्द्र के रोहिताश्व नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र दुंदुमार हुआ। दुंदुमार का पुत्र युवनाश्व था, उसकी दो रूपवती रानियाँ थीं। किन्तु उसके संतान नहीं थी। इसलिए राजा ने संतान की प्राप्ति की इच्छा से बहुत-से श्रेष्ठ मुनियों को बुला भेजा और उन महान् आत्माओं की अर्घ्य-पाद्य आदि से पूजा की और उनसे निवेदन किया—‘हे महात्माओं, आप कृपा करके मुझे संतान-प्राप्ति का वर दीजिए।’ तब बड़ी प्रसन्नता से मुनि बोले—‘हे राजन्, तुम भक्ति-युक्त हो ऐन्द्र-यज्ञ करो, तो तुम्हें संतान-प्राप्ति होगी।’

“राजा ने यज्ञ के लिए आवश्यक उपकरणों को तुरन्त एकत्र कराया। संयमी मुनियों ने बड़े हर्ष के साथ राजा के संतान-प्राप्ति हेतु ऐन्द्र नामक यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ पूरा हुआ और मुनियों ने अभिमंत्रित जल से पूर्ण कुंभों को यज्ञ-शाला में एक ओर रखा। उसी दिन रात्रि के समय राजा ने प्यास से पीड़ित होकर, भूल से यज्ञ-शाला में रखे हुए कलशों में से लेकर अभिमंत्रित जल पी लिया।

“(दूसरे दिन) जल-रहित कलशों को देखकर मुनि कहने लगे—‘कलशों का जल किसने पी लिया? जल कहाँ गया?’ जब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा ने ही जल पीया है। इस विचित्र दैव-माया को देखकर सभी मुनि आश्चर्य-चकित हो गये। राजा ने गर्भ धारण किया और एक बालक को जन्म देकर मर गया। ऋषि अत्यन्त दुःखी हुए और मंत्र-शक्ति के प्रभाव से युवनाश्व को फिर सजीव बनाया। युवनाश्व जीवित हो उठा।

“चक्रवर्ती के शुभ लक्षणों से युक्त उस बालक को देखकर ऋषियों ने विचार किया कि वह सप्तद्वीपों पर राज्य करेगा। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। युवनाश्व ने बड़े प्रेम से

उन ऋषियों को अतुल धन देकर उनका सम्मान किया और वे विदा हुए। मातृहीन वह शिशु भूख से व्याकुल होकर जब रोने लगा, तब इन्द्र वहाँ आया और उसकी भूख मिटाने के लिए अपना अगूठा उस शिशु के मुँह में दे दिया। शिशु उससे अमृत-पान करने लगा। सुधा-पान करने के कारण इन्द्र ने बुधजनों के द्वारा उस शुभलक्षण का नाम मान्धाता रखवाया और इन्द्र-लोक को लौट गया।

“मान्धाता पूर्ण-चन्द्रप्रभा-सम दीप्तिमान् होकर बढ़ने लगा। यौवन के आने ही वह अत्यन्त शौर्य-संपन्न हुआ और रावण आदि (बलशाली) राजाओं को कई युद्धों में परास्त कर समस्त भूमंडल का शासक बन बैठा। विष्णु की भक्ति करते हुए इन्द्र का बल प्राप्त करके उसने बहुत-से यज्ञ किये। उस राजा के विमलांगी नामक स्त्री से अत्यन्त तेजस्वी मुचुकुन्द और सुसंधि नामक दो पुत्र और पचास पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। कन्याओं के युवावस्था को प्राप्त होते ही राजा ने उनका विवाह सौभरि नामक मुनि के साथ कर दिया। उन कन्याओं का अग्रज हरि-भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए स्वर्ग सिधारा। उसके भाई सुसंधि ने पुण्य-कार्य करते हुए (चिर काल तक) राज्य का पालन किया। उस सुसंधि के ध्रुवसंधि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र प्रसेनजित् के भरत नामक पुत्र हुआ और भरत के असित नामक पुत्र हुआ।

“असित के राज्य-काल में अत्यंत पराक्रमी हैहय-वंश में भयंकर आकारवाला ताल-जंघ नामक वीर उत्पन्न हुआ। उसने असित के साथ घोर युद्ध किया और युद्ध में पराजित करके उसका वध कर डाला। राजा की दोनों रानियों ने अत्यन्त दुःखी होकर राज-काज का सारा भार मंत्रियों को सौंप दिया और शान्ति से जीवन बिताने लगी। उन दोनों रानियों में कालिदी नामक रानी गर्भवती थी। सौतिया डाह के कारण दूसरी रानी से यह सहा नहीं गया और उसने उस गर्भ को हृदि पहुँचाने के उद्देश्य से विष का प्रयोग किया। विष-प्रयोग से गर्भ-पात तो नहीं हुआ, किन्तु उसके प्रभाव से वह कड़ी वेदना का अनुभव करने लगी। तब कालिदी हिमालय में च्यवन ऋषि के यहाँ गई और बड़ी भक्ति से उन्हें प्रणाम करके अपना सारा वृत्तांत कह सुनाना। मुनि ने उसके दुःख की कथा सुनकर कहा—‘बेटी, तुम मेरी पुत्री के समान हो; डरने की कोई बात नहीं है।’ उन्होंने उसे स्नेह से उठाया और अपनी दिव्य-दृष्टि से सारी स्थिति को समझकर कहा—‘हे कालिदी, तुम्हारे अत्यंत धार्मिक, अतुल तेजस्वी, महान् चेतन, कीर्तिवान्, वंशोद्धारक, रूपवान् तथा शत्रुदमन पुत्र उत्पन्न होगा।’ इस प्रकार मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात् वह रमणी मुनि को प्रणाम करके अपने घर लौटकर प्रसन्न-चित्त रहने लगी।

“निदान शुभ मूर्त्त में उस शुभांगी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कालिदी अत्यन्त हर्षित हुईं। वह अपने शत्रुओं का दमन करके बड़े आनन्द से राज करने लगा। उसका नाम सगर था। उसका पुत्र असमंजस था। असमंजस का पुत्र अंशुमान था, जिसका पुत्र राजा दिलीप था। दिलीप के पुत्र पुण्यात्मा भगीरथ थे, जिन्हें ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र रघु महाराज के पुरुषादक नामक पुत्र हुआ। उसके उज्ज्वल कीर्तिमान् नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र शंखण था, जिसके पुत्र सुदर्शन के अग्निवर्ण नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण का पुत्र मरु था और उसका पुत्र शीघ्रग था। शीघ्रग के

पुत्र मनु के अंबरीष नामक पुत्र हुआ। अंबरीष का पुत्र जनवदित नहुष था, जिसका पुत्र ययाति नामक वीर था। ययाति के पुत्र नाभाग था और उसका पुत्र अज था। अज के पुत्र ही ये दशरथ हैं, जो पुण्यात्मा तथा सफल मनोरथ है। इन्हीं दशरथ के पुत्र राम हैं। इनके विषय में अधिक क्या कहें? इनके पुत्र को ही तुमने अपनी पुत्री देने का निश्चय किया है। तुम कृतकृत्य हो। तुम्हारा वंश (इससे) मंगलमय हुआ।

इस प्रकार बसिष्ठ को रघुवंश की प्रशंसा करते हुए सुनकर पवित्रात्मा शतानन्द जनक की अनुमति लेकर बड़े हर्ष से सभी सभासदों के सुनते हुए यों कहने लगे—‘हे मुनीन्द्र, हमने बड़े हर्ष से अनघात्मा दशरथ के वंश-क्रम का वर्णन आपसे सुना। मैं अब आपको प्रशंसनीय जनक की वंशावली सुनाऊँगा।’

३५. राजा जनक की वंशावली

“द्विजों तथा परमहंसों के जन्मदाता अद्वितीय ब्रह्म अच्युत के नाभि-कमल में ब्रह्मा का जन्म हुआ और उनका पुत्र हुआ मरीचि। मरीचि का पुत्र कश्यप था। कश्यप के सूर्य उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र था मतिमान्, जिसके मनु नामक पुत्र हुआ। मनु ने ध्यान-मग्न अवस्था में कभी छींका, तो (उस छीक से) वैवस्वत का जन्म हुआ। उस वैवस्वत का पुत्र निमि था, जो निर्मल आचारवान्, नीतिकोविद, धर्मनिरत, विमल मूर्तिमान् तथा यशस्वी था। उसका पुत्र मिथि था, जिसके जनक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जनक के उदावसु नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र नन्दिवर्द्धन था। नन्दिवर्द्धन का पुत्र सुकेतु था, जिसका पुत्र देवरात था। देवरात के बृहद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके महाविभु नामक पुत्र था। महाविभु का पुत्र सुधृति था, सुधृति का पुत्र धृष्टकेतु और उसका पुत्र हर्यश्व था। हर्यश्व के मरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके प्रतीधक नामक पुत्र हुआ। प्रतीधक का पुत्र कीर्तिरथ था, जिसके देवमीढ नामक पुत्र हुआ। देवमीढ का पुत्र विबुध और विबुध का पुत्र महाध्रक था। महाध्रक के कीर्तिरात नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र महारोम था। महारोम के स्वर्णरोम नामक पुत्र हुआ, जिसके ह्रस्वरोम नामक गुणवान् पुत्र हुआ। ह्रस्वरोम के दो पुत्र हुए—महाराज जनक और कुशध्वज। ये दोनों सौजन्य की मूर्ति हैं। जब जनक महाराज राज्य करते थे, तब सांकाश्य का पराक्रमी राजा सुधन्वा अपनी सेना के साथ आया और मिथिला तथा सीता-समेत, शिव का धनुष माँगते हुए एक दूत भेजा। जब उसकी माँग की उपेक्षा कर दी गई, तब उसने शिव-धनुष तथा सीता को प्राप्त करने के लिए घोर युद्ध किया। जनक ने युद्ध-भूमि में उसका संहार किया और अपने अनुज को उस राज्य का राजा बनाया। जनक से लेकर उस वंश में उत्पन्न सभी राजाओं के नाम जनक के कारण प्रशस्त हो गये हैं। निमि-वंश में जन्म लेनेवाले सभी नरेश योग-ज्ञान-सम्पन्न तथा चिरजीवी होते हैं।”

इस प्रकार, जनक के वंश के सदाचरण तथा सीता के सद्गुणों की प्रशंसा करने के पश्चात्, अत्यंत प्रतापी तथा विमल-भाषी दशरथ को संबोधित करके (शतानन्द ने) कहा—‘हे महाराज आप अपने नित्य अभिराम पुत्र राम का विवाह सीता के साथ संपन्न करके चिर-कीर्ति प्राप्त कीजिए।’

दशरथ ने इन बातों को सुनकर बड़े उत्साह से वसिष्ठ तथा गाधि-पुत्र को देखकर कहा—‘आप जनक महाराज से कहिए कि वे उर्मिला का विवाह सौमित्र से तथा राजा कुशध्वज की कन्याओं का विवाह उत्तम गुण-संपन्न भरत तथा शत्रुघ्न के साथ कर दें ।’ तब उन्होंने राजा जनक को सारी बातें कह सुनाई और उनकी सम्मति प्राप्त करके बड़े हर्ष से राजा दशरथ को जनक की स्वीकृति कह सुनाई ।

दूसरे दिन विवाह के लिए अनुकूल शुभ लग्न था । अतः जनक ने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का शुभ-मुहूर्त ठहराया और नगर तथा अंतःपुर को सजाने के लिए परिचारकों को भेजा । उन्होंने चंदन-कस्तूरी-मिश्रित जल से (नगर के) मार्गों पर छिड़काव करके उन्हें सुगंधमय बनाया । चीनांशुकों (रेशमी वस्त्र) के वितान सजाये, मणि-तोरण-ध्वजाओं से सारा नगर अलंकृत किया, फलों के भार से अवनत कदली के पेड़ों तथा सुपारी के पत्तों से प्रत्येक घर तथा कक्षों के द्वारों को सजाया और विशाल चबूतरों को जवादि से लीपकर उनपर चौक पूरे । मणिकंचन-कलशों से युक्त सौधों के गोपुरों का समूह अगणित सूर्यों का भ्रम उत्पन्न कर रहा था । सारा नगर मणि-दीपों, वारंभी (धूप) के धुएँ तथा पुष्प-कलापों का भार वहन कर रहा था । इस प्रकार नगर को अलंकृत करने के पश्चात् उन्होंने अंतःपुर को बड़ी निपुणता से सजाया । फिर उन्होंने शिल्पकारों द्वारा विवाह-वेदी का निर्माण कराने का आदेश दिया । शिल्पकारों ने मरकत की भूमि पर सोने के स्तंभ स्थापित किये, उनपर नालमणि के कार्निंस लगाये और उनपर माणिक्य की धरन (शहवीर) बैठाई । सुंदर ढंग से नक्काशी करके बनाये गोमेदक के छप्पे बनाये और ऊपर वज्र (हीरे) का गारा किया । (उस मंडप के) चार विशाल किवाड़ बनाये गये, जो मणि तथा स्वर्ण के बने थे । (मण्डप में) सोने के सुन्दर चित्र बनाये गये । नीलमणि के हाथी तथा स्फटिक के सिंहों से सुसज्जित सोपान रचे गये । उशीर (खस) का विशाल शामियाना बनाया गया, जिसके मध्य में फूलों की लड़ियाँ लटकाई गईं । विवाह के लिए मरकत की वेदी बनाई गई । उसे कस्तूरी से लीपकर उसपर मोतियों के चौक पूरे गये । इस प्रकार सुसज्जित वह विवाह-मण्डप दर्शकों को नेत्रोत्सव प्रदान कर रहा था ।

तब वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा अन्य पुण्यात्माओं को देखकर जनक ने कहा—‘आप लोग ही मिथिला तथा अयोध्या के कर्त्ता (विधाता) हैं । अब आगे जो कार्य करना उचित हो, उन्हें कराइए ।’

निरंतर बजनेवाले मंगल-वाद्यों के कलनाद तथा सुमंगली स्त्रियों के मधुर गीतों के बीच महाराजा दशरथ तथा उनके चारों पुत्र मणिपीठों पर बैठे । उन्हें तैल तथा उबटन लगाकर उनका मंगल-स्नान कराया गया । उसके उपरांत माथे पर तिलक देकर उन्हें चीनांशुक (रेशमी वस्त्र) तथा आभूषणों से अलंकृत किया गया । (उन्हें देखकर) दशरथ तथा उनकी पत्नियाँ आनन्द से फूली नहीं समाती थी । इसके पश्चात् उन्होंने पवित्र मन से अपने पुत्रों के शुभ अभ्युदय के निमित्त गो-दान देने का निश्चय किया । प्रत्येक पुत्र के हितार्थ उन्होंने वेद-विधि के अनुसार सोलह हजार गायें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दी । वे गायें धौत-खुर, कनक-शृंग, ताम्र-पुच्छ से अलंकृत थीं और सुन्दर दीखती थीं । उनके साथ

उनके बछड़े भी थे । ये गायें श्रेष्ठ वस्त्रों से सज्जित थी । गायों के साथ उनको दूहने के लिए काँसे की दोहनी भी राजा ने दान में दी । इनके अतिरिक्त राजा ने स्वर्ण, भूमि तथा रत्नादि दक्षिणा के साथ अलग-अलग (पुत्रों के हितार्थ अलग-अलग ब्राह्मणों को) दिये ।

इसी समय भरत का मामा युधाजित् वहाँ आ पहुँचा । वह अपने पिता कैकय-नरेश की आज्ञा से भरत को ले जाने के लिए अयोध्या आया था । किन्तु पुत्रों के विवाहार्थ दशरथ को मिथिला गये हुए जानकर वह सीधे मिथिला आ गया । दशरथ ने बड़े प्रेम से उसका आदर-सत्कार किया और कुशल-समाचार पूछे ।

दूसरे दिन स्नातक आदि विधियों को पूर्ण करने के पश्चात् (राम) अपने भाइयों के साथ दशरथ के सम्मुख उपस्थित हुए । दशरथ ने उनका अलंकार करने का आदेश दिया । (परिचारक राम का अलंकार करने लगे) उनके सिर पर मुकुट, उदयाद्रि के शृंग के समान शोभा दे रहा था । उन्होंने हाथों में कंकण धारण किये, मानों वे भक्तों की रक्षा के लिए बद्ध-कंकण (कृत-सकल्प) हो रहे हों ।

उनके वक्ष पर हार ऐसे शोभ रहे थे, मानों उनके वक्षःस्थल से उत्पन्न चन्द्रकिरणों चारों ओर छिटक रही हों । कटि-प्रदेश में कनक-वस्त्र ऐसे शोभित हो रहे थे, मानों पृथ्वी ने उनके कनकांबरत्व को धारण कर लिया हो । उनके कानों में कुंडल ऐसे शोभ रहे थे, मानों रावण के अत्याचार से पीड़ित अष्ट-दिक्पालों का यश दोनों ओर मोतियों के बहाने अपनी विनती (श्रीराम को) सुना रहे हों । ऐसे सौंदर्य से संपन्न उनके मुख की कान्ति को बढ़ाते हुए कस्तूरी-तिलक शोभित हो रहा था । उदित होनेवाले भानु के तेज के समान विलसित, एवं कुंडल, केयूर, मुकुट तथा हारों से मंडित लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के बीच राम ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानों दिक्पालकों के मध्य इन्द्र विराज रहा हो ।

वहाँ (जनक के अंतःपुर में) जनक ने (अपनी) चारों कन्याओं को सुसज्जित करने के लिए दासियों को आदेश दिया । उन्होंने उन कन्याओं को दीप्तिमान् मणिपीठ पर बिठाया, सुमंगलियों के मंगल-गीतों और शारिका तथा कीरों के कलरव के बीच प्रत्येक को कुंकुम, कस्तूरी, गोरौचन तथा जीवादि की सुगंधि से सुवासित उबटन लगाया । कंकणों की मृदु ध्वनियों से मुखरित कर-पल्लवों से उनके केशों में चंपा का तेल लगाया, हरिचंदन का लेप किया और घनसार की सुगंधि से युक्त कुनकुने जल से उन कन्याओं का स्नान कराया, महीन कपड़ों से (उनके शरीरको) पोंछा और गुलाबी रंग के लहंगों पर सुनहली जरीदार अंचलवाले वस्त्र पहनाये । (उसके बाद) उन्होंने उनके जूड़े ऐसे सुंदर ढंग से बाँधे मानों समस्त शृंगारों की राशि एकत्र कर दी हो । उन जूड़ों में जूही की कलियाँ सजाई । कर्पूर तथा गुलाब-जल में कस्तूरी घोलकर (सारे शरीर पर) लेप किया, सुनहली जरीदार कंचुकी पहनाई तथा उनके वक्ष पर मरकत-मोतियों के हार पहनाये । फिर उनके (कन्याओं) के कमनीय मुखों के सौंदर्य की वृद्धि करते हुए तिलक लगाये, कपोलों पर मकरिका-पत्रों को रचा, नाक में बेसर पहनाये, रत्नों के कर्णफूल, मोतियों की बालियाँ और माणिक्य के कुण्डल सजाये । सके पश्चात् (उनके पैरों में) मरकत के कड़े; पद्म-राग जड़े नूपुर तथा गोमेदक-जड़े पाजेब पहनाये ।

इस प्रकार, हारों तथा आभूषणों से अलंकृत होने पर उन्हें देख सब स्त्रियाँ आश्चर्य करने लगी कि ये दुलहिनें गन्-पूर्णिमा के चन्द्र हैं, वसंत-काल की पुष्प-लताएँ हैं या खराद पर चढ़े हुए श्रेष्ठ रत्न हैं, श्री-समन्वित कुंदन की शलाकाएँ हैं, धौत मुक्ताएँ हैं, अथवा सुगंध से परिपूर्ण चंदन की प्रतिमाएँ हैं। उनमें सीता तो स्वयं लावण्य की मूर्ति, श्रेष्ठ गुणवती, जगन्माता, आदिलक्ष्मी का अवतार थी; उस देवी के सौंदर्य का वर्णन करना किसके लिए संभव है? वे भूषणों के लिए आभूषण थीं, भूदेवी के समान थी, रत्नाकर की मेखला थी; गंधवती (पृथ्वी) थी और वसुमती थी।

शुभ मुहूर्त निकट आते देखकर वसिष्ठ जनक से परामर्श करके आये और दशरथ को इसकी सूचना दी। तब महाराज दशरथ कौशिक, वसिष्ठ आदि गुरुओं को साथ लेकर अमरेंद्र के वैभव से युक्त हो, उचित वाहनों पर सवार होकर जनक के अंतःपुर की ओर चले। उनके पीछे-पीछे उनके पुत्र तथा सुसज्जित हो रमणियाँ चलने लगीं। उनके पीछे राजा के सामन्त, मंगलप्रद द्रव्यों को लिये हुई पुण्यवती स्त्रियाँ, याचक, अलंकृत अश्व तथा गज, मंत्री, वेद-पाठ करते हुए विप्र तथा प्रसन्न-चित्त मुनिगण चलने लगे।

३६. सीता और राम का विवाह

बरात को आते देख जनक ने अत्यन्त उत्साह से उनकी अगवानी की थी। कमल-लोचनी सुहागिनों ने उनकी आरती उतारी। जनक ने उन्हें विवाह-मंडप में नवरत्न-खचित पीठों पर आसीन कराया। उसके पश्चात् उन्होंने अखिल अपने पुरोहित के द्वारा स्वर्ण-वेदी में अग्नि की प्रतिष्ठा कराई और वेदोक्त विधि से हवन-कार्य संपन्न किया। उसके उपरान्त उन्होंने देव-कन्याओं की-सी दीखनेवाली, लावण्यवती अपनी कन्याओं को बड़े स्नेह से बुलवाया। उन्होंने मधुपर्क की विधि पूरी की और अपनी प्रिय पुत्री विद्युत् अंगवाली, स्त्री-रत्न, कमललोचनी सीता को परदे के पीछे खड़ा किया। फिर उन्होंने वाञ्छित फल की सिद्धि के हेतु संकल्प-पूर्वक राम से कहा—'हे राम, मेरी पुत्री, सद्धर्मचारिणी सीता को अग्नि के समक्ष ग्रहण करो।' इस प्रकार कहते हुए उन्होंने (राम के हाथों में) सीता को सौंपा। (उस समय) अजस्र पुष्प-वृष्टि हुई तथा देव-दुदुभियाँ बजने लगीं। सुंदर रमणियाँ दीपों की थालियाँ लिये खड़ी थीं; स्वर्ण के थालों में मंगलाक्षत लिये सुमंगलालियाँ पांश्व-भाग में खड़ी थीं। गुड़ तथा जीरा मिलाकर वधु-वरो के सिर पर रखा गया।^१

तब सुमुहूर्त जानकर (मुनि ने) परदा हटाया। सीता का भव्य मुख सामने देखकर राम की आँखें पूर्णिमा के चन्द्र के प्रकाश में विकसित कुमुद-पुष्प के समान प्रफुल्लित हो गईं। सीता की दृष्टि पति के चरण-कमलों पर इस प्रकार स्थित हुई, जैसे पद्म पर भ्रमर बैठे हों।

रामचन्द्र की दृष्टि इस प्रकार दीखने लगी, मानों वह उस परम सुन्दरी के लावण्य-रूपी सागर में तैर रही हो। वधू की दृष्टि वर के शरीर के कान्ति-रूपी प्रवाह के मध्य विकसित पद्म (कमलों) के सदृश शोभायमान हो रही थी। पत्नी तथा पति की आँखें थोड़ी

१. आंग्र-वेश में विवाह के समय शुभ मुहूर्त में वर-कन्या के सिरों पर गुड़ तथा जीरा मिलाकर रखने की प्रथा है। यह शुभ माना जाता है।

देर के लिए आपस में इस प्रकार मिली, जैसे रति तथा मन्मथ के सुन्दर रूप बड़ी शोभा-युक्त गति से परस्पर मिले हों। उसके पश्चात् रघुवीर ने सीता के लाल कमल के समान कर को अपने हाथ में लिया और पुलकित गात्रों से दोनों एक ही पीठ पर आसीन होकर बड़ी प्रीति से हवन का कार्य संपन्न करने लगे। जनक ने बड़ी प्रीति से श्रेष्ठ युवती उर्मिला का हाथ लक्ष्मण के हाथ में दिया, कुशध्वज की पुत्रियों में से कमल के-से विशाल नेत्रोंवाली मांडवी का कर भरत के हाथ में सौपा और चन्द्रमुखी श्रुतकीर्ति का हाथ शत्रुघ्न को दिया।

इस प्रकार वेद-विधि से पाणिग्रहण-संस्कार समाप्त करके दशरथ के पुत्रों ने अक्षता-रोपण-विधि पूरी की और लाज-होम (धान का लावा अग्नि में डालने की क्रिया) संपन्न करके मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त किये। स्वर्ग के देवों ने दुदुभियाँ बजाई, पुष्प-वृष्टि की, देवता संतुष्ट हुए, मुनि प्रसन्न हुए, गंधर्व अत्यन्त हर्षित होकर गाने लगे तथा आनन्द से अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। तब वसिष्ठ ने वैव.हिक हवन के उपरान्त राजकुमारों को अग्नि की परिक्रमा कराई और सप्तर्षियों की पूजा कराई। सब मुनि तथा पुरोहितों ने बड़े हर्ष से वर-वधुओं को आशीर्वाद दिये। दूसरे दिन सदसि (ब्राह्मणों की सभा, जिसमें वे वेदोच्चारण के साथ वर-वधू को आशीर्वाद देते हैं) संपन्न किया गया और सबने शुद्ध चित्त से आशीर्वाद दिये।

इस प्रकार, विवाह के चार दिन बड़े समारोह के साथ व्यतीत हुए। समस्त शुभ संस्कारों का दर्शन करके, महाराज दशरथ तथा समुद्र-सदृश शीलवान् जनक को आशीर्वाद देकर कौशिक ने हिमाचल की ओर प्रस्थान किया। मिथिलेश के आनन्द की सीमा न रही। इसके पश्चात् (जनक तथा दशरथ) दोनों राजाओं ने अपने विभव के अनुकूल विवाह में आये हुए राजाओं को श्रेष्ठ वस्त्राभरण देकर विदा किया और सभी याचकों को अपरिमित धन देकर संतुष्ट किया।

जनक ने अपनी पुत्रियों को बड़े स्नेह से उचित सीख दी और उन्हें श्रेष्ठ रत्ना-भूषण, चित्र-विचित्र के चीनांबर तथा दासियाँ भेंट में दीं। अपने जामाताओं को रथ, गज, तुरंग, पदचर, सैनिक तथा आभूषण भेंट किये। वसिष्ठ आदि संयमियों तथा महाराज दशरथ को विविध रत्नाभरण देकर उनका सत्कार किया और अपनी पुत्रियों को उनके साथ विदा किया। अपने पुत्र तथा पुत्र-वधुओं के साथ राजा दशरथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। किन्तु मार्ग में अचानक बड़े वेग से प्रतिकूल पवन चलने लगा। इसके अतिरिक्त कितने ही अपशकुन भी होने लगे। राजा ने बहुत व्याकुल होकर वसिष्ठ से पूछा—“हे मुनीश्वर, ये अपशकुन किस कारण से हो रहे हैं?” तब बड़ी अनुकंपा से वसिष्ठ ने राजा को देखकर कहा—‘राजन्, आगे एक बड़ी विपत्ति आनेवाली है, पर वह देखते-देखते दूर हो जायेगी। चिंता मत करो।’

मुनि इस प्रकार कह ही रहे थे कि पवन प्रचण्ड गति से चलने लगा, सारे आकाश में धूल छा गई। हाथी, घोड़े तथा रथों पर सवारयोद्धा तथा अन्य लोग चकित-से रह गये। सारी सेना तितर-बितर हो गई। सूर्य का तेज मलिन हो गया। उसी समय

पराक्रमी परशुराम कंधे पर परशु धारण किये आते दिखाई पड़े, जिन्होंने इक्कीस बार इस पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दिया था। उनकी आँखें ऐसी लाल थी, मानों अपने जटा-जूट में स्थित गंगा की आर्द्रता से ललाट को आर्द्र बनाये हुए, अत्यंत भयंकर रूप से जलनेवाले तथा अपने कंठ के विष को क्रोध से दैत्यों के ऊपर उगलनेवाले परम शिव के ललाट-नेत्र की प्रज्वलित वह्नि को (परशुराम) अपनी दोनों आँखों में लिये हुए आ रहे हों। उनकी बिखरी हुई लाल-लाल जटाएँ ऐसी दीख रही थी, मानों उनके भीतर की क्रोधाग्नि प्रज्वलित होकर बाहर तक अपनी लाल-लाल ज्वालाएँ फैला रही हो। उनके कंधे पर रहने-वाला परशु ऐसा शोभा दे रहा था, मानों उनकी भुजा रूपी लक्ष्मी ने नाल-युक्त विकसित कमल हाथ में धारण किया हो। ऐसे भयंकर रूप में आनेवाले परशुराम को देखकर राजा दशरथ तथा मुनिगण भयभीत होकर भय-निवारक मंत्रों का जप करते हुए अर्घ्य-पाद्यों के साथ परशुराम के सामने आये।

३७. परशुराम का गर्व-भंग

परशुराम ने अर्घ्य-पाद्य ग्रहण नहीं किया और राजा दशरथ को डरा-धमकाकर राम के आगे आकर खड़े हुए। भार्गव राम (परशुराम) को देखकर राम ने बड़ी भक्ति से प्रणाम किया और हाथ जोड़े बड़े विनय से खड़े रहे। उन्हें देखकर परशुराम ने कहा—“हे राजन्, तुम कितना भी विनय दिखाओ, तोभी मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। तुम मुझसे युद्ध करो।” तब राम ने कहा—“हे भूसुरोत्तम, आपने कश्यप आदि ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी दान कर दी है और महान् जितेन्द्रिय हो वनों में रहकर घोर तपस्या में संलग्न रहते हैं। अतः आपकी वंदना करना उचित है। हे मुनीश्वर, यही विचार करके मैंने आपको प्रणाम किया है, आपसे भीत होकर नहीं। क्या यह उचित है कि आप व्यर्थ ही मेरी निंदा करें ?”

परशुराम बोले—“तुम मुझे तपस्वी कहते हो ? जानते हो, मैंने युद्ध में सहस्रबाहु को मार डाला और इक्कीस बार पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियों का नाश कर डाला है तथा (उनके) रक्त से अपने पितरों की तिलोदक-क्रिया की है। हमारे पितर राजाओं के शत्रुओं का सोपान बनाकर स्वर्ग में चले गये हैं। हे अनघ, ऐसे भार्गव राम को बिना जाने तुम इस संसार में राम होकर कैसे जन्मे ? क्षत्रिय के नाम से जो जन्म लेता है, मैं उसका नाश करूँगा। (ऐसी दशा में) राम का नाम धारण करनेवाले क्षत्रिय को क्या मैं कभी छोड़ सकता हूँ ? राज-वंश में जन्म लेकर राम का नाम धारण करनेवाले तुम्हें मैं कदापि क्षमा नहीं करूँगा। राजा होने के कारण तुम्हारे पिता को युद्ध में मार डालने के उद्देश्य से मैं आया था; लेकिन स्त्रियों की आड़ में शरण लेने के कारण मैंने उसे छोड़ दिया था। इसीलिए वह गर्वाध हो यहाँ फूला-फूला विचर रहा है। आज भले ही वह कही छिप जाय, पर मैं उसे जीवित नहीं रहने दूँगा।”

तब दशरथ अत्यन्त भीत होकर बड़े विनय से भार्गव से बोले—“हे भार्गव, आप ब्राह्मण हैं, आपको इतना रोष क्यों ? मेरे पुत्र बालक हैं। उनपर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। मैं जानता हूँ कि आप समस्त शास्त्रों एवं पुराणों में पारंगत हैं। ऐसा

कौन धर्म है, जिसे आप नहीं जानते। आपका सामना करके आपसे युद्ध करने की क्षमता शिवजी में भी नहीं है। ऐसी दशा में दूसरों की शक्ति की बात कौन कहे ? हे परम-पावन, देवेन्द्र भी आपकी कठोर प्रतिज्ञा को व्यर्थ नहीं कर सकता। आप हम सबको क्षमा करके प्रसन्नता से गमन कीजिए।”

दशरथ ने इस प्रकार कहकर प्रणाम किया और सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हो गये। फिर भी परशुराम की आँखें क्रोध से लाल ही रहीं। उन्होंने अपनी प्रशंसा में कहे हुए वचनों को अनसुनी कर दिया और मन-ही-मन उन सबका दमन करने का विचार करके अत्यंत क्रोध के साथ बोले—“जिस समय मैं शिव के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, उस समय कार्तिकेय ने मुझसे युद्ध आरंभ किया, पर वह मुझसे हार गया। तब शिव ने भी मेरी शक्ति की प्रशंसा की थी। उस शिव के धनुष का तोड़ना मैं कैसे सहन कर सकता हूँ ?”

तब रघुराम ने हँसते हुए कहा—“मैंने विनोदार्थ उस धनुष का संधान किया, तो वह टूट गया। इतना ही नहीं, मेरे संधान करने से भला वह पिनाक कही टिक सकता था ? मेरी भुजाओं की शक्ति ही इतनी अधिक है। इक्ष्वाकु-वंशी युद्धों में कभी पशुओं तथा ब्राह्मणों का वध करना नहीं चाहते। आपने जो बातें कहीं, वे सब आपके लिए उचित हैं। आप ब्राह्मण हैं, मैं आपका वध करना नहीं चाहता। यह मेरी गर्दन है, वह आपका परशु है। विना दया दिखाये जो उचित समझें, करें।”

रघुराम को क्रोद्धोदीप्त देखकर भार्गव राम धबराकर बोले—“तुम्हारी बातों से मुझे ज्ञात होता है कि तुम्हें इस बात का गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम क्षत्रिय हो। तुम ऐसा मत सोचो। मैं अभी अपने प्रताप का तेज तुम्हें दरसाऊँगा। उस जनक राजा के घर में जिस धनुष को तुमने तोड़ा है, उसे तथा इस धनुष को (जो मेरे पास है) पहले देवताओं ने बड़े प्रेम से विश्वकर्मा के द्वारा एक साथ बनवाया था। उनमें से एक उन्होंने त्रिपुर-विजय के लिए जाते समय शिव को दिया। रुद्र ने उसी धनुष से त्रिपुरों को विजित किया।” उसके पश्चात् धीर-गर्व की मुद्रा धारण करके वे कहने लगे—“मैंने विना किसी की सहायता के ही त्रिपुरासुरों का वध किया है। मेरे समान शक्तिशाली स संसार में कौन है ?”

(उनके वचनों को सुनकर) देवता, मुनि, सनकादि, विष्णु के पार्श्वचर कहने लगे कि विष्णु त्रिपुरासुर के वध में शिव के सहायक बने, अन्यथा रुद्र से यह कार्य कैसे सघता ? यह वार्ता रुद्रगण ने सुनकर शिव से कह दिया। शिव ने अत्यंत क्रोध करके विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। (यह बात जानकर) सुर, गरुड़ तथा उरगादि देवता ब्रह्मा के पास गये और उनसे परामर्श करने के बाद यह निश्चय किया कि हरि तथा हर की परीक्षा के लिए दोनों में युद्ध होना ही चाहिए। अतः उन्होंने कामुक नामक धनुष विष्णु को दिया। हरि तथा हर दोनों अतुल रीति से युद्ध करने लगे। नारायण द्वारा की गई भयंकर बाण-वर्षा के कारण शिव के धनुष का थोड़ा-सा भाग टूट गया। तब देवताओं ने निर्णय किया कि हरि की शक्ति ही प्रबल है और उन्होंने दोनों का युद्ध बंद करवा दिया।

देवताओं का मनोभाव जानकर शिव ने अपना धनुष देवरात को दिया । उन्होंने वह धनुष जनक को दिया । विष्णु ने अपना धनुष रुचिक को दिया, रुचिक ने जमदग्नि को दिया और जमदग्नि ने कृपा करके मुझे यह धनुष दिया । शिव का धनुष पहले ही थोड़ा-सा टूटा हुआ था, इसलिए तुमने उसे तोड़ा होगा । हे राजन्, मेरे हाथ का यह धनुष उसी धनुष के जोड़ का है । इसपर बाण-संधान करके अपनी शक्ति का परिचय दिये विना मैं तुम्हें यहाँ से हटने नहीं दूँगा ।”

इन वचनों को सुनकर दशरथात्मज अत्यंत क्रुद्ध हुए । उनकी आँखों से अग्नि-कण निकलने लगे । राम ने भार्गव राम से, जो उनकी शक्ति से अनभिज्ञ थे, कहा—“मैं जानता हूँ कि आपमें अतुल बल है । मैं यह भी जानता हूँ कि आपने क्षत्रियों को परास्त करके उनका वध किया है । किन्तु, आप मुझे भी दूसरों की तरह समझकर, निर्भय होकर डींग मार रहे हैं । आपको मेरे भुज-बल का ज्ञान नहीं है । भला, आपकी शक्ति ही कितनी है ? आपका यह धनुष क्या चीज है ? लाइए, देखूँ तो सही ।

इस प्रकार कहकर उन्होंने (परशुराम के हाथ से) धनुष लेकर, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और एक उग्र बाण-संधान करके कहा—“मैं आपके पैर काटकर आपका गर्व-भंग करते हुए आपका क्रोध दूर करूँगा ।”

परशुराम भयभीत हो गये । उनका घमंड चूर-चूर हो गया । उनकी हँकड़ी जाती रही । तुरन्त बड़ी नम्रता से प्रार्थनापूर्वक कहने लगे—“हे राजेन्द्र, हे राम, मानवाधीश मुझे क्षमा करो । मेरी रक्षा करो । मैंने सारी पृथ्वी कश्यप को दान में दे दी है । अतः मैं रात के समय इस पृथ्वी पर ठहर नहीं सकता । मुझे रात तक महेन्द्राचल पर पहुँच जाना चाहिए । इसलिए तुम मेरे पैर मत काटो । (तुम चाहे तो) मेरे समस्त संचित पुण्य पर यह बाण छोड़ दो ।”

तब राम ने वह बाण परशुराम के (संचित) पुण्य पर छोड़ दिया । देवता, सिद्ध, खेचर आदि जड़वत् खड़े भार्गव राम तथा क्रुद्ध काकुत्स्थ राम को देखते रहे । तब पुष्प-वृष्टि हुई । स्वर्ग में रहनेवाले ब्रह्मादि देवता आनन्दित होकर राम की प्रशंसा करने लगे ।

भार्गव राम राम को देखकर मन-ही-मन उनकी महिमा का विचार करके बोले—“हे अनघ, मैंने तुम्हारी शक्ति को देख, मन-ही-मन विचार करके जान लिया है कि तुम विष्णु ही । हे काकुत्स्थ, इसलिए युद्ध में हार जाना मेरे लिए स्वाभाविक ही है । तुम मेरे बल हो, मेरी आत्मा हो, मेरे बंधु-बांधव सब तुम ही हो । हे रामचन्द्र, तुम मेरे कुवचनों का खयाल मत करो । हे रघुकुलाधीश राम, तुम मेरी रक्षा करो ।”

इस प्रकार उन्होंने राम की स्तुति की, मन-ही-मन रघुराम की महिमा गुनते हुए उनकी परिक्रमा की और भक्ति से हाथ जोड़कर, अत्यन्त विनय से राम की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से बोले—“हे राघव, हे जानकीनाथ, अब मुझे जाने की आज्ञा दो । मेरी त्रुटियों का ध्यान न करके उन्हें क्षमा कर दो, मेरी रक्षा करो और स्नेह से मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो । मैं एकनिष्ठ होकर, अविचल रीति से नेत्र बंद करके तुम्हारे प्रति तपस्या करूँगा और ज्ञान प्राप्त करूँगा, जिससे सभी मुनि-समाज हर्षित हो जाय ।”

इस प्रकार राम की स्तुति करके, बड़े प्रेम से वे वहाँ से प्रस्थान करते हुए बोले— 'राम, तुम्हारी शक्ति अनुपम है।' उसके पश्चात् वे महेन्द्राचल पर चले गये। वरुण की प्रार्थना मानकर रघुराम ने उसी क्षण परशुराम का धनुष उन्हें दे दिया।

तब अनुकूल पवन चलने लगा। ज्ञेना में फिर से उत्साह छा गया। नर तथा सुरों की प्रशंसा प्राप्त करते हुए विजय-श्री से युक्त हो राघव ने अपने पिता महाराज दशरथ तथा पुण्यात्मा वसिष्ठ को प्रणाम किया। राजा ने बड़े आनन्द से उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद दिया और बोले—“मेरा पुनर्जन्म-जैसा हुआ है। तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके इस पृथ्वी पर मैं देवराज इन्द्र के समान बन गया। परम पावन परशुराम जब शिव की तरह (भयंकर रूप लेकर) यहाँ आये, तब भय से मेरा सारा शरीर कांपने लगा और मैंने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैंने उनसे विनती की। जब उन्होंने मेरे विनीत वचनों को ठुकरा दिया, तब पुत्र-स्नेह से विह्वल होकर मैं चुप हो रहा। (तुम्हारा) उनको जीतना मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है। मैंने आज अतुल वैभव प्राप्त किया है। तुम्हारे प्रताप के फलस्वरूप सारा भय दूर हो गया है। मैं इस संसार में यशस्वी हुआ।”

इस प्रकार, राम का अभिनन्दन करने के उपरान्त राजा ने वसिष्ठादि मुनियों और सभी सेनाओं को साथ लिये हुए बड़े आनन्द से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया।

३८. अयोध्या में प्रवेश

मंगल-चिह्नों तथा पुण्यात्माओं के साथ, मंगल-वाद्यों की ध्वनि होते हुए, दशरथ ने अपने पुत्रों-सहित बड़ी प्रसन्नता से अयोध्या में प्रवेश किया। अलंकृत राजमार्ग में, राजकुल के लोग तथा अन्य मित्र-वर्ग, सौधों पर से उन सुन्दर राजकुमारों को देखकर उनपर पुष्प-वृष्टि करने लगे। भूसुर आशीर्वाद देने लगे। तब राजा ने अत्यन्त सुन्दर ढंग से अलंकृत अंतःपुर में प्रवेश किया। कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा आदि रनवास की सभी स्त्रियाँ अत्यन्त हर्ष से उनके स्वागतार्थ आईं। उन्होंने उनपर फूलों की वर्षा की और उनकी आरती उतारी। पुत्र तथा पुत्र-वधुओं ने उनके पैर छुए, तो उन्होंने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिये। सीता आदि पुत्र-वधुओं का मधुर स्वभाव एवं कुशलता देखकर सभी संतुष्ट हुए।

दशरथ अपने चारों पुत्रों की सेवाएँ प्राप्त करते हुए, चतुर्भुज विष्णु के समान, चार शृंगोंवाले स्वर्ग के हाथी (ऐरावत) के समान विलसित होते थे और बड़े आनन्द से पुण्य की रक्षा करते हुए राज्य करने लगे। एक दिन दशरथ ने उचित समय देखकर शूम लक्षणों से संपन्न अपने पुत्र भरत को बुलाकर कहा—“हे वत्स, तुम्हारे मामा कैकय तुम्हें अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, अतः तुम शत्रुघ्न के साथ उनके यहाँ जाओ और उनकी इच्छा पूर्ण करो। हे वत्स, (वहाँ) अपने नाना, नानी, मामा तथा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति-युक्त विनय दरसाते रहना। उनकी परिचर्या करते हुए उनसे रथ चलाना, शस्त्र चलाना, वेद-शास्त्र, नीति-शास्त्र तथा अन्य सभी कलाओं को सीखने में सतत तत्पर रहना। एक-क्षण भी व्यर्थ न बिताना और (समय-समय पर) अपना कुशल-समाचार भेजते रहना।”

राजा का आदेश पाते ही भरत ने माता-पिता तथा रघुराम को विनय से प्रणाम किया और शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा के साथ राजगृह की राजधानी के लिए रवाना हुए।

राजकुमारों ने अपने आगमन का समाचार अपने नाना को भेज दिया । उस राजा ने अपने नगर को फूल-मालाओं, तोरणों तथा पताकाओं से सुंदर ढंग से सजाया । सुगंधित जल से मार्गों का सिंचन करवाया तथा पुष्प एवं धूप आदि से राजमार्ग को सुगंधित किया । (फिर) मंत्रियों, स्त्रियों तथा परिचारकों को साथ लेकर तरह-तरह के वाद्य, नृत्य, गीतों से युक्त ही राजा ने उनकी अगवानी की और बंदी, सूत तथा मागध-जन की स्तुति-वचनों के साथ अपने नाती को बड़े स्नेह से अंतःपुर में ले आये । भरत ने अपने नाना से लेकर क्रमशः सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद प्राप्त किये ।

युवराज राम बड़ी कुशलता तथा एकाग्रता से, अपने पिता की सेवा करते हुए, भी प्रजा को एक समान मानते हुए धर्म-निरत हो, सीता के साथ नव-वैवाहिक जीवन का आनन्द प्राप्त करने लगे । वे अट्टालिकाओं पर, क्रीड़ा-सौधों में, चन्द्रकान्त शिलाओं पर, शीश-महलों में, सोने के शयनागारों में, जूही की पुष्प-शय्याओं पर, चंपक, पूग, नारियल, रसाल, नारंगी आदि वृक्षों से युक्त उपवनों में, क्रीड़ा-पर्वतों पर, सरोवरों में, लतागृहों में, धवल वितानों में, बालुकामय भूमि पर, आमोद-प्रमोद के साथ रहते हुए, समस्त सुख-भोगों का अनुभव करते रहे ।

इस प्रकार, आंध्र के भाषा-सम्राट्, काव्य तथा आगमों के ज्ञाता, आचारवान्, अपार ज्ञान-समुद्र, भूलोक के लिए निधि-सम दीखनेवाले गोनबुद्ध राजाने अपने पिताश्रेष्ठ, धैर्यवान्, शत्रुओं के लिए काल-स्वरूप, महापुरुष, श्रेष्ठ शूर, दयालु, गुणवान् विद्वलराजा के नाम, आचन्द्रार्क विलसित होनेवाली, समस्त भूमंडल में अत्यंत पूज्य, अनुपम, ललित शब्दार्थों से युक्त रस-सिद्ध रामायण के कला एवं भावों से परिपूर्ण बालकांड की रचना की ।

आर्षग्रन्थ, आदि काव्य, रसिकों को आनंद देनेवाले तथा शाश्वत, इस पुण्यचरित्र को जो कोई पढ़ेंगे या सुनेंगे, वे सामादि वेद-समूहों का निवास-स्थान, रामनाम चिंता-मणि, समस्त भोग, परहित आचरण, ऊँचे विचार, पूर्ण शक्ति, राज-सुख, विमल यश, चिर सुख, धर्म-निष्ठा, दान में आसक्ति, चिरायु, स्वास्थ्य, समृद्धि आदि अवश्य ही प्राप्त करेंगे । उनके पापों का नाश होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का नाश होगा और धन-धान्य की वृद्धि होगी । बिना किसी प्रकार के विघ्न-बाधाओं के, उन्हें लावण्यवती धर्म-पत्नी का सह-वास प्राप्त होगा । उनके भाई भी उन्नति प्राप्त करते हुए बड़े स्नेह से हिल-मिलकर रहेंगे । देवता तथा पितर सदा तृप्त रहेंगे । यह रामायण मोक्ष-साधक है, पापहारी है, दिव्य तथा भव्य है । शूभप्रद है । इस रामायण की पूजा नियम-पूर्वक करने से पुण्य प्राप्त होगा, इसकी रचना करनेवालों की शुभ उन्नति होगी और स्वर्ग-लोक का निवास प्राप्त होगा । जबतक कुल पर्वत, समुद्र, रवि-चंद्र, नक्षत्र, वेद, दिशाएँ तथा संसार शोभायमान रहेंगे, तबतक यह कथा शाश्वत आनंद-समूह का निवास-स्थान बनी रहेगी ।

; बालकांड सामप्त ;

श्रीरंगनाथ रामायण

(अयोध्या कांड)

१. राम-राज्याभिषेक का संकल्प

महाराजा दशरथ अत्यंत शुभप्रद रीति से राज्य का पालन करते थे । एक दिन उन्होंने विचार किया, 'मेरा पुत्र राम, मेरे चारों पुत्रों में शुभ-गुण-संपन्न, अतुल यशस्वी, सदा दीन-दुखियों की चिंता करनेवाला, परहित का विचार करनेवाला, समस्त प्राणियों पर दया दिखानेवाला, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए यत्न करनेवाला, सतत संतुष्ट, प्रशंसा के योग्य गुणों से युक्त उचित क्रोध तथा प्रसाद गुणों से पूर्ण, शासन-शक्ति से समन्वित, गज-नुरग आदि के आरोहण में दक्ष, विजयलक्ष्मी से समन्वित, चतुर, इच्छित कार्यों को अविलंब संपन्न करनेवाला, दीर्घ कोप से रहित, सेवकों पर कृपा रखनेवाला, अतिरथी, ईर्ष्यारहित, करुणा-सिद्ध, दूषण के अच्छे गुणों का आदर करनेवाला, बुद्धि में बृहस्पति को भी परास्त करनेवाला, शुद्ध तज में सूर्य के सदृश दीखनेवाला, प्रजारंजक, चंद्र के समान शोभायमान, धनुर्वेद तथा वेदशास्त्रों में पारंगत, न्याय के मार्ग से ही धनार्जन करने में निपुण, क्षमा में पृथ्वी के समान और सकल-सद्गुण-संपन्न है । उसका राज-तिलक कर देना चाहिए ।' ऐसा विचार करके उन्होंने वसिष्ठादि महामुनि, सुमंत्र आदि सचिव, पास-पड़ोस के राजा, मित्र, बंधु, नागरिक, जनपद के लोग, आश्रित, बुद्धिमान्, सामंत राजा, योद्धा, राजनीतिज्ञ

आदि लोगों को राजसभा में बुला भेजा । उनके समक्ष राजा धन-गर्भर स्वयं बोल—
‘हमारे पूर्वज इक्ष्वाकु-वंश के राजाओं ने बड़ी उत्तम रीति से इस पृथ्वी पर शासन किया था ।
उनके समान मैंने भी इस राज्य-भार को बड़ी क्षमता से वहन किया और आपके
सहयोग से निजकुल-धर्म में निरत होकर मैंने इसका पालन किया । यह विषय तो आपको
ज्ञात ही है । मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ । साठ हजार वर्ष तक मैंने इस
राज्य का पालन किया, सुंदर श्वेत छत्र की छाया में रहते हुए वृद्ध हो गया हूँ । भूमि-
भार की अपेक्षा वृद्धावस्था का भार मुझपर अधिक हो गया है । विकसित कमल के सदृश
मेरा शरीर कौमुदी के समान (पांडुर) हो गया है । केवल प्रताप बचा हुआ है । अतः,
प्रजा का पालन करने के लिए मैं अपने पुत्रकल्याण राम, देवता-हितकारी धीमान्, इंदीवर-
श्याम, कोटिसूर्यप्रभावान्, सौंदर्य में मन्मथ को भी जीतनेवाले, जगदभिराम, राम का
राजतिलक कर देना चाहता हूँ और राज-भार से अवकाश लेना चाहता हूँ । क्या आप
इसको स्वीकार करेंगे ?’

धन-गर्जन को सुनकर हर्षित होनेवाले वन-मयूरों की भाँति सभासदों में अत्यधिक
उत्साह छा गया । कल-कल ध्वनि होने लगी । प्रजा में प्रमुख भूसुरों ने परस्पर परामर्श
करके सूर्यवंशी राजा से कहा—‘हे राजन्, आपके श्रेष्ठवचन सब लोगों के लिए हितकर,
हृदयरंजक तथा अभीष्टदायक है । वे सब लोगों के लिए आनंददायक हैं । राजनीतिज्ञ,
निर्मल-धर्मनिपुण, जगत् के बंधु, दीनों के लिए कृपा-सिंधु, शांति-संपन्न, सत्यव्रती, सतत
विप्र-पूजा-निरत, सच्चरित्रवान्, नीति, प्रीति, निपुणता, क्षमा, ख्याति, ऐश्वर्य, कांति, दांति,
शांति आदि कितने ही सद्गुणों से आपसे भी श्रेष्ठ, लोकाभिराम राम को राजा बनाना
सर्वथा उचित है । वे तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ हैं, फिर इस लोक का शासन
करना इनके लिए कौन बड़ी बात है ? हमारी भी यही इच्छा है कि आप उनका राज-
तलक कर दें ।’

राजा ने ये बातें सुनी, तो उनका हर्ष दूना हो गया । हर्षातिरेक से प्रफुल्लित
होकर वे वसिष्ठ तथा वामदेव को देखकर बोले—‘हे अनघ, यह मधुमास अभीष्टप्रदायक है ।
अतः, हम इसी मास में राम को समस्त साम्राज्य-लक्ष्मी का राजा बनायेंगे । आप उचित
रीति से उसके लिए आवश्यक वस्तुएँ संचित करावें ।’ ये बातें सुनकर ऋषियों ने अभिषेकार्थ
आवश्यक वस्तुओं का संचय करने के लिए आदमी भेजे ।

वसिष्ठ ने राजा की आज्ञा के अनुसार परिचारकों से कहा—‘तुम लोग, श्रेष्ठ
स्वर्ण, रत्न, समस्त ओषधियाँ, चंदन, धवल पुष्प, मधु, घृत, खील (धान का लावा), नव
ललित-वस्त्र, राजा के लिए योग्य श्रेष्ठ रथ, स्वर्ण-रत्नजटित आयुध, शुभ लक्षणों से युक्त
भद्रगज, श्वेत अश्व, विजय धवल छत्र, चामर, श्रेष्ठ पताके, एक सौ स्वर्ण कलश, स्वर्ण
श्रृंगों से युक्त श्रेष्ठ वृषभ, व्याघ्र-चर्म और अन्य आवश्यक मंगल-द्रव्य हवन-शाला में
ले जाओ । नगर के द्वार, राज-पथ तथा सौध-शिखरों का अलंकार करो । समस्त नगर को
फूल-मालाओं, पताकाओं तथा तोरणों से सजाओ । कम-से-कम एक लाख भूसुरों (ब्राह्मणों)
की भोजन की व्यवस्था करो । दान-दक्षिणा आदि के लिए आवश्यक धन प्रस्तुत रखो ।

पूजा तथा उपहारों से नगर-देवताओं की अर्चना करो । नगर के सभी निवासी तथा वेश्याएँ, नगर के दूसरे फाटक के पास ढंग से आकर खड़े रहें । नगर के सभी सेवकों को सेवा के लिए उपस्थित रहने की सूचना दो ।' परिचारकों ने वसिष्ठ के आदेशों का पालन करके उसकी सूचना वसिष्ठ को दी ।

राजा ने सुमंत्र आदि उत्तम सचिवों तथा सगे-संबंधियों को अलग-अलग बुलाकर उन्हें संकल्प कह सुनाया । उन्होंने भी राजा के निश्चय का अनुमोदन किया । तब उन्होंने शीघ्र रघुराम को बुला भेजा और अपनी आँखों से स्नेह-सुधा की वृष्टि करते हुए कहा— 'हे वत्स, प्रजा की प्रशंसा प्राप्त करते हुए मैंने दीर्घ काल तक राज्य किया । दान, धर्म तथा यज्ञादि बड़ी निष्ठा से मैंने पूरे किये और अंत में तुम जैसे रङ्ग-मन्त्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया । अब मैं राज का भार संभालने में असमर्थ हो रहा हूँ । इसलिए मैं तुम्हारा राज-तिलक कर दूँगा । परसों ही राज्याभिषेक के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त है । सलिए तुम और सीता भक्ति के साथ उपवास करो ।'

तब राम ने राजा को देखकर विनय तथा साहस के साथ कहा— 'हे महाराज, मेरे लिए आपके चरण-कमलों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा राज्य इस संसार में ही नहीं सकता । आप अपने इन विचारों को त्याग दीजिए ।' तब राजा ने कहा— 'हे वत्स, तुम पुण्य-चरित्र हो, पुण्य-धनी हो, सूर्यकुल के रत्न हो । तुम्हारे सिवा इस पृथ्वी का पालन करने के लिए योग्य और कौन हो सकता है ? अतः, हे अद्वितीय वीर ! तुम इस राज्य-भार को अवश्य संभालो ।'

राम ने उनकी आज्ञा के सामने सिर झुकाया और अपने महल में चले गये । राजा भी सामंत राजाओं, नागरिकों तथा अन्य नातेदारों को विदा करके अपने महल में गये । (वहाँ पहुँचकर) उन्होंने सुमंत्र के द्वारा श्रीराम को बुलवाया, उन्हें अपने पास बिठाकर, आनंदाश्रु बहाते हुए बोले— 'हे मेरे भाग्य-निधि, हे मेरे पुण्य-स्वरूप, मेरे तप के फल, हे मेरे पुत्र, मैंने कुछ बुरे स्वप्न देखे हैं । मैंने दुष्ट ग्रहों को तथा उल्का-पात होते देखा है । अतः मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है । अभी तुम इस 'पुण्य-योग' में ही राज-तिलक कर लो । इससे मेरी इच्छा पूर्ण होगी । विलंब क्यों ? तुम्हारी उन्नति का समस्त संसार इच्छुक है ।'

रामचंद्र ने पिता की आज्ञा शिरोधारण करके, उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से विदा हुए । उन्होंने अपनी माता, सुमित्रा तथा जानकी तथा लक्ष्मण को यह समाचार सुनाकर उन्हें आनंद-सागर में डुबो दिया । उसके पश्चात् पूर्ण-चन्द्रसदृश राम, सीता के साथ प्रफुल्लित से अपने महल में गये ।

इसके पश्चात् राजा ने वसिष्ठ से कहा कि आप राम के उपवास के लिए विधिवत् संकल्प कराइए । तब वसिष्ठ ब्रह्म-रथ पर आरूढ़ हो रामचंद्र के महल के लिए रवाना हुए और अपने आगमन का समाचार देने के लिए एक शिष्य को पहले ही भेज दिया । उनके तीसरे फाटक तक पहुँचते-पहुँचते राम उनके स्वागतार्थ आ पहुँचे और बड़ी भक्ति से उस पुण्यात्मा को प्रणाम किया और बड़े हर्ष से उन्हें अंत-पुर में ले गये । वहाँ उन्होंने

उस लोक-बंध का उचित आदर-सत्कार किया। वसिष्ठ ने पुण्याह-वाचन कराया और पुण्य-संकल्प-पूर्वक उपवास व्रत का प्रारंभ कराया। दक्षिणा के रूप में राम से दस हजार गायें लेकर वसिष्ठ ने सारा समाचार राजा को कह सुनाया और घर चले गये।

राम ने बड़े प्रसन्नचित्त से सीता के साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु की प्रीति के लिए हवन किया, हवन-शेष को ग्रहण किया और वसिष्ठ के आदेश के अनुसार विष्णुगृह में कुशासन पर एकनिष्ठ हो विष्णु का ध्यान करते हुए उपवास करते रहे।

अयोध्या में लोग बड़े हर्ष से आनंदोत्सव की तैयारी में लग गये। कोई मोतियों से चौक पूर रहा था, तो कोई अपने घरों का अलंकार कर रहा था। कोई मणिमय तोरण सजा रहा था, तो कोई फूलों से वितान बना रहा था। कुछ लोग भंडे लगा रहे थे। कुछ जहाँ-तहाँ फूल-मालाएँ लटका रहे थे। कुछ एक दूसरे के अलंकरण में मग्न थे। कहीं लोग दशरथ की प्रशंसा कर रहे थे, तो कहीं इष्ट देवताओं की पूजा कर रहे थे। कुछ दान-पुण्य कर रहे थे और पुण्य कथा-गोष्ठियों में भाग ले रहे थे। जहाँ-तहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित होकर राम के गुणों का गान कर रही थी। लोग उनकी सेवा करने के लिए आतुरता प्रकट करते थे और भगवान् से राम को ही राजा बनाने की प्रार्थना कर रहे थे।

२. मंथरा की कुमंत्रणा

उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने रनवास की छत पर से नगर का यह आनंदोत्सव देखा। वह सोचने लगी—'बया कारण है कि आज नगर अद्भुत साज-सज्जा से परिपूर्ण है। सभी नगरवासी सजे-धजे तथा प्रफुल्ल दिखाई पड़ रहे हैं। कौसल्या के अंतःपुर की सभी स्त्रियाँ सुसज्जित होकर आनंद-मग्न हो रही हैं। जाने किस कारण से आज कौसल्या अगणित धन व्यय कर रही है।' उसने आनंद में मग्न राम की धाय से पूछकर यह जान लिया कि राम के राज-तिलक के लिए ही सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। तब उसने निश्चय किया कि बाल्यावस्था में रामने जो मेरी टाँग तोड़ दी थी, उसका बदला लेने का यही अच्छा अवसर है। इस प्रकार सोचकर वह रानी कैकेयी को सारा वृत्तान्त सुनाने के लिए उनके महल में गई। उस समय पद्मलोचना कैकेयी अपने क्रीड़ा-घर में हिंडोले पर लेटी थी। मंथराने उससे कहा—'उठिए महारानी, आपको किसी बात की चिंता ही नहीं है।' यों कहते हुए उसने कैकेयी का हाथ पकड़कर उसे उठाकर बैठाया और त्रिया-चरित्र रचती हुई बोली—'आप तो यह कहते हुए फूली न समाती थी कि राजा मुझसे ही अधिक प्रेम रखते हैं। वह झूठा सिद्ध हो गया है। महाराजा ने अपनी बड़ी रानी के भय से आपको भ्रम में डालकर, भरत को परदेश भेज दिया है और रघुराम का राज-तिलक करने की बात सोच रहे हैं। यदि यही बात हुई, तो आपका जीवन निरर्थक है। राजाओं का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आप फूली-फूली क्यों फिरती हैं? ऐसा क्रूर, बंचक और कपटी पुरुष मैंने कहीं देखा नहीं है। वे कैसे आपके पति हैं? वे तो आपके क्रूर शत्रु हैं। यदि आप अपनी सौत के पुत्र को सुमस्त पृथ्वी का राजा बनने देंगी, तो आपको, आपके पुत्र को तथा मुझे, दुःख के सिवा

अयोध्याकांड

सुख नहीं मिलेगा । आपकी भलाई का विचार करके आपके पिता ने मुझे भेजा, तो स्नेह के कारण मैं यहाँ आई हूँ । आपकी भलाई मेरी भलाई है, आपका अभाव मेरा अभाव है । मैंने आपकी भलाई की बात आपसे कह दी । आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे कि आपका पुत्र इस संसार में जीवित रहे ।’

कैकेयी ने ये बातें सुनीं तो अत्यन्त हर्ष से उसकी प्रशंसा करते हुए उसे गले से लगा लिया और कहा—‘हे सखी ! राम के राज-तिलक का शुभ समाचार देकर तुमने मेरे कर्णपुटों में सुधावृष्टि-सी कर दी । तुम्हारे साथ मेरी मित्रता आज सफल हुई । अब तुम अपने वक्र वचनों को छोड़ दो । भरत की अपेक्षा उसका अग्रज मेरे प्रति विशेष श्रद्धा रखता है । तुमने यह शुभ-समाचार मुझे देकर बहुत अच्छा किया ।’ इस प्रकार कहकर उसने मंथरा को नवरत्न-खचित अपने सोने का कड़ा उपहार के रूप में दिया । किन्तु, उस कपट स्त्री ने उस कड़े को दूर फेंककर अपने पापपूर्ण हृदय का क्रोध एवं जलन प्रकट करते हुए कहा—‘हे कैकेयी ! आप मन-ही-मन फूली हुई है, मानों कोई उत्तम कार्य हो रहा है । आपने यह उपहार मुझे किसलिए दिया ? आपकी भलाई के लिए जो परामर्श मैंने दिया, उसके विषय में विचार किये बिना ही आप-ऐसा प्रलाप क्यों करती है ? मैं आपके स्वभाव के बारे में क्या कहूँ ? क्या अपना अहित करनेवाला धर्म, कोई धर्म है ? आँखों को हानि पहुँचानेवाला काजल किस काम का ? कहीं इससंसारमें ऐसे भी लोग हैं, जो सौत के पुत्रों के हित की कामना करते हैं ? यदि आपकी सौत का पुत्र साम्राज्य का स्वामी हुआ, तो सभी राजा, नातेदार, प्रजा तथा मंत्री राम की सेवा में लगे रहेंगे । गज, तुरंग आदि सेना उनके वश में हो जायगी । उसके पश्चात् दशरथ भी स्वतंत्र नहीं रह सकेंगे । तब शशिमुखी कौसल्या समस्त ऐश्वर्य का उपभोग करेगी और आप उनकी सौत होती हुई एक पगली की तरह कैसे रह पायेंगे । इतना ही नहीं, आपको उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी दासी बनकर रहना पड़ेगा । भरत को उस रघुपति से भय खाते हुए एक भृत्य के समान रहना पड़ेगा । आपकी पुत्रवधू को राज-रानी सीता की सेवा करनी पड़ेगी । यदि यही हुआ, तो आपका जन्म निरर्थक हुआ । इसका उपाय यह है कि राम को वनवास के लिए भिजवा दीजिए और भरत का राज-तिलक करवाइए ।’

तब कैकेयी बोली—‘हाय, महाराज मुझे इतनी स्वतंत्रता क्यों देने लगे ? मैं उनसे ऐसी प्रार्थना कैसे करूँ ? करूँ भी तो वे मेरी प्रार्थना क्यों मानेंगे ? यह कैसी बात है ? तुम जो भी कहो, यह काम नहीं होने का । मैं राम से कैसे कहूँ कि तुम वन में जाकर निवास करो ।’

तब मंथरा अपनी पाप-बुद्धि को प्रकट करती हुई बोली—‘हे सुन्दरी, क्या आप इस बात को भूल गईं कि शंभरासुर और इंद्र के युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए अपनी सेनाओं के साथ जाते समय राजा आपको भी अपने साथ ले गये थे । महाराजा दशरथ ने रात्रि के समय उस राक्षस का सामना किया था । राक्षस ने क्रोध में आकर विभिन्न प्रकार की मायाओं से राजा का वध करने का प्रयत्न किया था; किन्तु आपने ध्वलांग नामक मुनि की कृपा से प्राप्त शक्ति की सहायता से उस राक्षस की मायाओं को

दूर कर दिया था और राजा को उस राक्षस के तेज बाणों से आहत होने से बचाया था । राजा ने संतुष्ट होकर आपको दो वर दिये थे । आपने ही खुद यह सारा वृत्तांत मुझे सुनाया था । भले ही आप इसे भूल जायँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ ? अतः आप राजा से दो वर माँगिए—एक तो यह कि कौसल्या का पुत्र राज-पाट छोड़कर चौदह वर्ष तक मुनियों का-सा जीवन व्यतीत करते हुए भयंकर वनों में रहे, और दूसरा, आपका पुत्र इस पृथ्वी पर शासन करे । आपके वर माँगने पर राजा बहुत गिड़गिड़ायेंगे । फिर भी, आप मूर्ख के समान मत रहें । सत्य की दुहाई देकर दृढ़ संकल्प से आप इस कार्य को सिद्ध कर लीजिए । आपके पति असत्य से डरते हैं; उसपर भी आपसे उनका अत्यधिक प्रेम है । इसलिए वे आपके वचनों का अतिक्रमण नहीं करेंगे । अवश्य आपकी बात मान लेगे ।”

इन बातों से प्रसन्न होकर कैकेयी ने मंथरा से कहा—‘तुम्हारी जैसी सखी, साथिन और गुणवती को मैंने कही नहीं देखा है । हे उत्तम नारी, जिन वरों के संबंध में मैंने तुमसे कहा था, उन्हें तो मैं भूल ही गई थी । तुमने जैसे सोचा, वैसे मेरा पुत्र यदि इस समस्त पृथ्वी का राजा बनेगा, तो मैं तुम्हारे कूबड़ को शुद्ध स्वर्ण से अच्छी तरह सजाऊँगी, तुम्हारे मुख-चन्द्र पर कस्तूरी-तिलक कूँगी और तुम्हारे शरीर पर असंख्य आभूषण पहनाकर तुम्हें अलंक्रित कूँगी । हे सखी ! इस प्रकार सज-धजकर तुम मन्मथ की स्त्री के समान विचरोगी, तो सभी दासियाँ तुम्हारी आज्ञा का पालन करती रहेंगी । मैं ऐसी व्यवस्था कर दूँगी ।’

इस प्रकार, मंथरा से प्रिय वचन कहने के पश्चात् कैकेयी अपने कक्ष में चली गई । उसने अपने समस्त आभूषण उतार दिये, माथे पर कस्तूरी का गाढ़ा लेप लगाया, मलिन वस्त्र पहने और अत्यन्त क्रोध धारण किये फर्श पर पड़ी रही । अपनी मंत्रणा की सफलता से संतुष्ट होनेवाली मंथरा को देखकर कैकेयी बोली—‘जबतक राजा राम को बुलाकर उसे वन में जाने की आज्ञा देकर नहीं भेजेंगे और भरत का राज-तिलक नहीं करेंगे, तबतक मैं अन्न-जल नहीं ग्रहण कूँगी । जितने भी स्वर्णाभूषण दें, मैं उन्हें नहीं लूँगी और यहाँ से हटूँगी भी नहीं ।’ यों कहते हुए वह मन-ही-मन बहुत क्रुद्ध होकर पड़ी रही ।

३. कैकेयी के महल में दशरथ का आगमन

राघव के राज-तिलक का समाचार कैकेयी को सुनाने के उद्देश्य से दशरथ उस दिन रात को वहाँ (कैकेयी के महल में) आये । स्वर्ण-रत्नजटित किवाड़ों तथा कक्षों, कस्तूरी, चंदन, कर्पूर की सुगंधि से युक्त तथा नाना रत्नों की कान्ति से सुशोभित सौधों को पार करके वे रंग-महल के निकट पहुँचे । कैकेयी को वहाँ न देखकर दशरथ ने सेवक से पूछा । उसने दुःख प्रकट करते हुए हाथ जोड़कर कहा—‘देव ! देवी न जाने किस कारण से कोप-भवन में चली गई हैं ।’

ये बातें दशरथ के कानों को धनुष की उग्र टंकार की भाँति भयंकर लगीं । उनका मुँह पीला पड़ गया । कैकेयी के प्रति उनका प्रेम द्विगुण हो उठा । धीरे-धीरे उन्होंने कोप-भवन में प्रवेश किया और स्वर्ग-लोक से पृथ्वी पर उतरकर वहाँ लेटी हुई अप्सरा

की भाँति, केशों को फैलाये फर्श पर पड़ी हुई कमलमुखी कैकेयी को देखकर राजा सन्न रह गये । उन्हें बड़ी वेदना का अनुभव हुआ । बड़े दीन भाव से वे उसके निकट पहुँचे; उसके शरीर का स्पर्श करके देखा और काम-पीड़ित होकर उससे प्रार्थना करने लगे—

“हे कमलाक्षी, हे चन्द्रवदनी, हे भूमरों के-से केशवाली, इतना कोप क्यों ? अत्यंत मृदु पर्यंक पर लेटनेवाली, तुम्हें लेटने के लिए यह कड़ी भूमि क्यों ? कोमल डुकूलों के रहते, तुमने ऐसे मैले वस्त्र क्यों पहने हैं ? कनकशलाका-सी अपनी देह पर तुमने आभूषण धारण क्यों नहीं किये ? उदधि-सुत चंद्रमा की चाँदनी के समान उज्ज्वल तुम्हारे ललाट पर यह लेप क्यों ? तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों उत्पन्न हुआ ? प्रतिदिन की भाँति तुम अपने घने तथा नीले केशों में माँग काढ़कर उन्हें सजाती क्यों नहीं ? पद्मराग मणि की लालिमा को परास्त करनेवाले अपने अरुणाधरों को तांबूल-चर्वण से अलंकृत क्यों नहीं करती ? तुम्हारे मुख-चंद्र में स्वर्ण-मुष्पों के समान प्रफुल्लित होनेवाली मुस्कान क्यों नहीं दीखती ? हे प्रिये, किसलिए तुम मन छोटा किये हुए हो ? इतनी संतप्त क्यों हो ? किसने तुम्हें कटुवचन कहे ? किसने तुम्हारी बातों का विरोध किया ? हे कमलनयनी ! उनके नाम बताओ । चाहे वे कोई भी हों, मैं उन्हें दण्ड दूँगा ।” इस प्रकार कहते हुए आँखों में उमड़नेवाले आँसुओं को पोंछते हुए वे बोले—“हे सुन्दरी, एक अनाथ की तरह तुम इस प्रकार भूमि पर क्यों लोट रही हो ? बताओ कि यह काम-पीड़ा है अथवा किसी भयंकर रोग का प्रकोप है ? क्यों संकोच कर रही हो । कहो तो वैद्य आकर तुरंत तुम्हें स्वस्थ करेंगे । हे ललितांगी ! तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो, मैं उसे पूरा करूँगा । तुम्हारे लिए मैं अवध्य पुण्यात्माओं का भी वध करूँगा । वध्य दुर्जनों को दण्ड देकर तुम्हारी बात रखूँगा । यदि तुम चाहो, तो रंक को राजा बनाऊँगा । तुम्हारे क्रोध का पात्र धनी को भी दरिद्र बनाऊँगा । जब मैं और मेरे परिवार के अन्य लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं, तब इस प्रकार क्यों रहती हो ? हे सुन्दरी ! मेरी बात सुनो, किञ्चित् मुँह उठाकर मेरी ओर देखो, ताकि मुझे शांति मिल जाय । तुम चाहो तो मैं अपने प्राण भी देने को प्रस्तुत हूँ ।”

दशरथ की ये बातें सुनकर कैकेयी प्रसन्न हुई । वह अपने पति का प्रेम जानती ही थी, इसलिए उसने क्षीण स्वर में राजा से कहा—“हे देव ! यदि मुझे यह वचन दें कि आप मेरे कथन के अनुसार कार्य करेंगे, तो मैं अपने मन की इच्छा कहूँगी ।”

राजा ने कहा—‘जो धनुर्विद्या में असमान है, जो धर्म का पालन करता है, जिसे विना देखे मैं एक क्षण भी जी नहीं सकता और जिसको मैं निरंतर भक्ति से भजता रहता हूँ, उस राघव की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा ।’

कैकेयी ने पवन, अग्नि, शशि तथा नभ को साक्षी के रूप में मानते हुए दशरथ के मन की आतुरता का ज्ञान रखते हुए निष्ठुर होकर कहा—‘हे राजन् ! आपने देवासुर-युद्ध में मुझे दो वर दिये थे । कदाचित् आप उन्हें भूल गये हैं । मैं अब उन दोनों वरों को माँगना चाहती हूँ ।’

४. दशरथ से कैकेयी का वर माँगना

‘आप रविकुल में उत्पन्न महाराज हैं । उस कुल के प्रथम राजाओं की अपेक्षा आप अधिक पुण्यात्मा हैं । आप असत्य नहीं कहेंगे और अपना वचन भी नहीं छोड़ेंगे । अतः, मुझे वे दोनों वर दीजिए । पहले वर से आप भरत का राज-तिलक कर दीजिए, और दूसरे वर से आप राम को चौदह वर्ष तक तपस्वी के रूप में वन में निवास करने के लिए भेज दीजिए ।’

इन वचनों को सुनते ही राजा स्तंभित रह गये । दुःख से वे तुरंत मूर्च्छित हो गये । बहुत समय के बाद उनकी चेतना लौटी तो वे बोले—“हे कोमलांगी, कैकय-वंश में जन्म लेकर इस प्रकार के वचन तुम्हारे मुँह से कैसे निकले ? राम ने तुम्हें क्या हानि पहुँचाई है कि तुम राम को अरण्य-वास देना चाहती हो ? वह कौसल्या की अपेक्षा तुम्हें अधिक मानता है, तुम्हारी सेवा करता है और तुम्हारा आदेश मानता है । ऐसे सद्गुण-संपन्न राम को निष्ठुर होकर वन जाने का आदेश कैसे देती हो ? तुम्ही कहो, मैं उसे वन जाने का आदेश कैसे दे सकता हूँ ? ऐसे महापुरुष राम को जंगल भेजने के बाद मेरे प्राण कैसे टिके रहेंगे ? तुम राजपुत्री हो, ऐसा समझकर मैंने तुम्हारा पाणिग्रहण किया था । किंतु तुम काली नागिन सिद्ध हो रही हो । तुम चाहो, तो मैं अपना सारा राज्य और अपने प्राण दे दूँगा, किंतु राम को वन जाने का आदेश न दे सकूँगा । इस वृद्ध, दीन, अनाथ तथा दुर्बल को दुःख से बचाओ । मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ । मैं राम के वियोग में जीवित नहीं रहूँगा । इसलिए इस पाप-कल्पना को छोड़ दो ।”

तब कैकेयी क्रोध में आकर कहने लगीं—“हे राजन् ! आप सत्यनिष्ठ, पराक्रमी और ओजस्वी हैं । ऐसे आपको असत्य कहना क्या शोभा देता है ? आपने इतने सारे देवताओं के समक्ष सौगंध खाई है । आप कैसे राजा हैं ? एक कबूतर के लिए शिवि ने अपने शरीर का सारा मांस काटकर बाज को दे दिया था । क्या आप इसे नहीं जानते ? क्या अलर्क नामक राजा ने बड़े प्रेम से क्षोणिदेव को अपने नेत्र नहीं दिये थे ? क्या उत्तुंग लहरों से युक्त समुद्र, वेला की मर्यादा के भीतर आबद्ध नहीं हुआ ? उनको छोड़ दीजिए । आपके पूर्वज कौतुक के लिए भी, स्वप्न में भी, कभी झूठ नहीं बोले । आप इक्ष्वाकु-वंश के होते हुए भी कौसल्या के भय से असत्य-भाषण करते हैं । असत्यभाषी कहीं पुरुष कहलाने योग्य हैं ? आपने असत्य कहा । अब आप मुझे पा नहीं सकते । मैं अब स्वतंत्र होकर विष-पान करूँगी और मर जाऊँगी । उसके पश्चात् आप भरत का वध करा दीजिए और राम का तिलक करके कौसल्या के साथ सुख से रहिए ।”

इस प्रकार के कैकेयी के कटुवचनों से राजा अत्यंत संतप्त हो गये । उनके मुख की कांति जाती रही, उनका विवेक जाता रहा । वे कैकेयी से बोले—“हे कैकेयी ! तुम्हारे मन में ऐसी पाप-कल्पना और ऐसी मन्द बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई ! ज्येष्ठ के रहते हुए कहीं कनिष्ठ अविनीत होकर पृथ्वी का पालन करेगा ? इतना क्यों, तुम्हारा धर्म-निरत भरत तुम्हारे इस पाप-पूर्ण वचन को कैसे स्वीकार करेगा ? हमारे कुल की रीति का विचार करो । शोक-पीड़ित मुझे निष्ठुर होकर मत मारो । सतत गृहिणी-धर्म का पालन करते हुए,

आठ कन्याएँ, हेम ऋक्ष, औदुम्बर (गूलर) की पीठिका, गंगादि तीर्थों का जल तथा अन्य मंगल-वस्तुओं को मँगाया, श्रेष्ठ रत्नाभूषणों को वेद-विधि से दान कराया, एक लाख कन्याएँ, एक लाख गायें, एक लाख ऊँट मँगाये; जप आदि कराया, शांति-पाठ कराया, हवन आदि संपन्न किया और शुभ मुहूर्त्त को आसन्न देखकर राजा को लिवा लाने के लिए सुमंत्र को भेजा ।

सुमंत्र कैकेयी के अंतःपुर में गया और शयन-कक्ष के किवाड़ के पास खड़े होकर निवेदन किया—‘हे देव ! सूर्योदय हो रहा है । श्रीराम के राज-तिलक का मुहूर्त्त निकट आ रहा है । अतः आप शीघ्र पधारें । हे राजन् ! अभिषेक-मण्डप में मुनि, राजा तथा अन्य महात्मा उपस्थित हैं । पुरजन विबुध तथा नातेदार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।’

इन बातों को सुनकर राजा सोचने लगे—‘अब तुम भी मुझे दुःख पहुँचाने के लिए आये हो, मानों अब तक मुझे कोई दुःख ही नहीं है ।’ यों सोचकर वे चुपचाप लेटे रहे । तब कैकेयी ने सुमंत्र से कहा—‘तुम शीघ्र जाकर राम को यहाँ ले आओ । यह राजा का आदेश है ।’ तुरंत सुमंत्र वहाँ से चला गया ।

सुमंत्र कैकेयी के अंतःपुर से उस राज-मार्ग से जाने लगा, जो शीतल चंदन-जल से सिंचित आँगन, ध्वजाओं से अलंकृत गृहों, चंदन, अगरु तथा धूप से सुगंधित वायु, मंद पवन से डोलनेवाली पुष्प-मालाओं, प्रत्येक गृहद्वार पर स्थापित कदली-वृक्षों, अतुलित मणि-तोरणों और उत्साह-पूर्ण पुरजनों से भरा हुआ, दुर्गम दीख रहा था । उस मार्ग से होकर वह रामचन्द्र के उस अंतःपुर के पास जा पहुँचा, जो इन्द्र-भवन का भी परिहास करता हुआ कुबेर के महल के समान अतुल वैभव-लक्ष्मी से समन्वित था । वहाँ पहुँचकर उसने राम को अपने आने का समाचार कहला भेजा और उनकी अनुमति पाकर भीतर गया । वहाँ उसने तारा से सुशोभित शशि के समान दीखनेवाले, सीता से युक्त रामचंद्र को देखकर उन्हें प्रणाम किया और कहा—‘हे देव ! महाराज दशरथ देवी कैकेयी के गृह में आपको लिवा लाने के लिए मुझे भेजा है ।’

राम मुस्कराते हुए जानकी को वहीं छोड़कर लक्ष्मण के साथ रथ पर आरूढ़ होकर कैकेयी के महल की ओर रवाना हुए । उनके पीछे चतुरंगिणी सेना चली । अतुल वाद्य बजने लगे, वन्दीजन स्तुति-पाठ करने लगे और सुमंगलियाँ पुष्प-वर्षा करने लगीं । नगर-निवासी जयजयकार करने लगे । इस प्रकार, वे बड़े वेग से राजा के अंतःपुर के पास जा पहुँचे, और रथ से उतरकर उन्होंने कैकेयी के भवन में प्रवेश किया ।

५. कैकेयी के भवन में राम का दशरथ से मँट करना

कैकेयी के भवन में जाकर राम ने देखा कि महाराज दशरथ सिर भुकाय, पांडुर-मुख में सूखनेवाले ओठों को आर्द्र करते हुए, सारा तेज खोकर सतत अश्रु-धारा बहाते हुए, शोक-संतप्त बैठे हैं । राम ने उनके निकट पहुँचकर अत्यंत शंकाकुल-चित्त से उन्हें प्रणाम किया और उसके पश्चात् कैकेयी को प्रणाम किया । फिर, अत्यंत संभूमित तथा व्याकुल होकर, भय तथा विह्वलता से रामचंद्र बोले—‘हे देवी, यह क्या बात है कि महाराज

मेरी ओर देखते भी नहीं हैं। मेरा क्या अपराध है ? यह खिन्नता, यह चिंता और दुःख राजा को किस कारण से हो रहे हैं ?' तब कैकेयी ने कहा—'हे राम, यदि तुम मानोगे, तो मैं राजा की इच्छा तुम्हें बतलाऊँ।' रघुराम ने कहा—'हे माता, आप कृपया विस्तार से सुनाइए कि वह कौन-सी बात है ? मैं पिता के आदेश से भयंकर अग्नि-ज्वालानों में या विष के समुद्र में कूद सकता हूँ या विष भी खा सकता हूँ। इसको सत्य मानें और विना संकोच के कहें।'

तब कैकेयी राम को देखकर किंचित् भी ममता-मोह के विना बोली—'देवासुर-संग्राम में राजा ने दया करके मुझे दो वर दिये थे। अब मैंने उन दोनों वरों को देने की प्रार्थना की। एक वर से मैंने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा और दूसरे से तुम्हें चौदह वर्ष तक वन-वास देने की प्रार्थना की। राजा ने वर देना तो स्वीकार किया; किन्तु तुम्हें अपना आदेश सुनाने में हिचकते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता को असत्य-भाषण का दोष न लगे, तो तुम तुरंत राजकुमार का वेष त्याग दो और वल्कल तथा जटाएँ धारण करके तपस्वी के रूप में वनवास के लिए चले जाओ।'

इन बातों को सुनकर राम के मुखपर मंद हँसी लास्य करने लगी। उनके वचनों में किसी भी प्रकार का मालिन्य नहीं आया। दया, त्याग और गरिमा दिखाते हुए परम पुण्यात्मा रामचंद्र बोले—'हे माता, इस प्रकार की आज्ञा देनेवाले सूर्यवंश के तिलक मेरे पिता हैं और राज्य का अधिकारी होगा मेरा भाई। फिर, आपकी इच्छा में बाधा क्यों पड़े ? हाय ! आप कितनी भोली है ! इस छोटी-सी बात के लिए सूर्यवंशी राजा को मन में चिंतित होने की क्या आवश्यकता है ? अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने-वाला कहीं पुत्र कहलाने योग्य है ? वह तो एक ज्ञाति-विरोधी है। मेरे और मेरे भाई में कोई भेद नहीं है। इस पृथ्वी का भार वहन करने के लिए जिस पुण्यात्मा को आपने नियत किया है, उस भरत के लिए मैं अपने प्राण भी देने के लिए प्रस्तुत हूँ, स राज्य की क्या गिनती !'

राम की बातों से अत्यंत हर्षित होकर कैकेयी बोली—'हे राजकुमार, तब मैं भरत को बुला भेजूंगी। तुम तुरंत वन के लिए रवाना हो जाओ। यहाँ से तुम्हारे जाने तक महाराज न भोजन करेंगे, न बोलेंगे, न उठेंगे ही। वे इसी प्रकार पड़े रहेंगे।'

कैकेयी के इस प्रकार कहते ही राजा ने कहा—'हाय, ऐसी कटुवृत्तियाँ भी क्या उचित हैं ? और वे तुरंत मूर्च्छित हो गये। तब राम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और शैत्योपचारों के उपरान्त, जब उनकी चेतना लौटी, तब उन्हें अच्छी तरह समझात हुए कैकेयी की ओर देखकर अत्यंत हर्ष से बोले—'आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है ? मेरे लिए यह कौन बड़ा काम है ? आप मन में किसी प्रकार का संदेह मत कीजिए। मैं तो विवेक के साथ धर्म का पालन करूँगा, कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करूँगा। राजा की आज्ञा यदि मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यह सत्र मानिए। शीघ्रगामी अश्वारोही दूतों को भेजकर इसी शुभ मूहूर्त्त में भरत को बुलवाकर उसका राज-तिलक कर दीजिए। मैं अभी वन के लिए प्रस्थान करता हूँ।'

इस प्रकार कहने के उपरान्त प्रफुल्ल-मुखचंद्र से राम ने कैकेयी की परिक्रमा की और कहा—‘मैं अपनी माता, माता सुमित्रा तथा जानकी को यह समाचार सुनाऊँगा और उन्हें सांत्वना देकर अवश्य वन में चला जाऊँगा । आप मन में संदेह न कीजिए ।’ यों कहकर उन्होंने राजा तथा कैकेयी को प्रणाम किया और लक्ष्मण के साथ वहाँ से चल पड़े ।

राम ने राज-तिलक के लिए संचित सभी मंगल-द्रव्यों की परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया । अचल तथा विकार-रहित चित्त से वे अपनी माता को यह समाचार सुनाने के लिए चले । तबतक अन्तःपुर में यह समाचार फैल गया कि लोकवन्द्य राम राज-पाट छोड़कर वन जा रहे हैं । दशरथ की अन्य स्त्रियाँ आपस में कहने लगी—‘राम अपनी माता कौसल्या के प्रति जो भक्ति दिखाते हैं, वही भक्ति हमारे प्रति भी रखते हैं । ऐसे सद्गुणालंकार, महान् उदार-चेता, हिमाचल के समान धीर, उस महान् वीर पुत्र-रत्न को हाय ! राजा ने वनवास की आज्ञा कैसे दी ? पागल की तरह राम को वनवास के दुःखों में भेजना कहाँ तक उचित है ।’ इस प्रकार, महाराजा की निंदा करते हुए सभी स्त्रियाँ शोक करने लगीं ।

उसी समय राम ने कौसल्या के अंतःपुर में प्रवेश किया । उससे पूर्व कौसल्या ने अभिषेक के निर्विघ्न संपन्न होने के निमित्त जप, शांति, हवन आदि को एकनिष्ठ होकर पूरा किया था और भक्ति-युक्त हो जनार्दन से प्रार्थना कर रही थीं । राम के आगमन से वे अत्यंत प्रसन्न हुईं । सुमंगलियों के साथ फूल लिये हुए वे सामने आईं और विधिवत् मंगलाचार आदि पूरे किये । रामचंद्र ने उनके चरण छुए । उन्होंने राम को उठाकर गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया—‘हे पुत्र, तुम चिरायु, सुयश एवं राज्य-लाभ करो ।’

६. कौसल्या का दुःख

अपनी माता कौसल्या को देखकर राम अत्यंत दीन होकर बोले—‘हे माता, आपको, माता सुमित्रा को तथा मैथिली को भय उत्पन्न करनेवाली एक घटना घटी है । मैं उसे आपको सुनाऊँगा । आप धैर्य के साथ सुनिए । किसी समय युद्ध में माता कैकेयी ने महाराज से दो वर प्राप्त किये थे । उन्होंने अभी वे दोनों वर राजा से माँगे हैं । एक वर से उन्होंने अपने पुत्र का राज-तिलक माँगा और दूसरे से मेरा वन-वास चाहा है । इस पर महाराजा अत्यंत शोक-संतप्त हो गये हैं । पिता के वचनों की रक्षा के लिए मैंने चौदह वर्षों तक वन में रहने का निश्चय किया है ।’

इन बातों को सुनकर कौसल्या मन-ही-मन दुःखी होकर, स्तंभित हो गईं । उनके मुख की कान्ति उतर गई और गला रँध गया । वे काष्ठ की तरह चेष्टाहीन हो गईं और चीत्कार करती हुई जड़ से उखाड़ी हुई लता के समान मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं । राम ने घबड़ाकर बड़ी भक्ति से उन्हें उठाया, उनके शरीर पर लगी हुई धूल पोंछी और उन्हें एक सुन्दर आसन पर बिठाया । इसके पश्चात् लक्ष्मण और राम ने उनका उचित उपचार किया । जब उनकी चेतना लौट आई, तब वे अपने ओठों को आर्द्र करती हुई कहने लगी—‘हे अनघ राघव ! तुम्हें वन में रहने का आदेश देना, मेरे कानों को अत्यंत

विचित्र-सा मालूम होता है । महाराज तुम्हें बुलाकर इस प्रकार का आदेश कैसे दे सके ? भले ही भरत का राज-तिलक करके उसे पृथ्वी का स्वामी बना दें; किन्तु काकुत्स्थ-वंशी राजा को तुम्हें बन भेजने की आवश्यकता क्यों हुई ? न वे विवेक-शून्य हैं, न अधम हैं । फिर सौत की बातों में आना उन्हें कैसे शोभा देता है ? क्या हितैषी मंत्री तथा कुल-गुरु वसिष्ठ ने भी तुम्हारे हित का विचार करके यह नहीं कहा कि अमुक कार्य धर्म-संगत है और अमुक कार्य उचित है ? मेरे प्राणनाथ ने इतना बड़ा अपराध कभी नहीं किया था और कैकेयी ने कभी ऐसा पाप नहीं किया । तुम्हें देखकर बन जाने का आदेश देने के लिए कैकेयी का मुख कैसे खुला ? हे राम, प्रेम से प्राण भी माँग लेनेवाली, महाराज की प्रेम-प्राप्ती कैकेयी के गर्भ से जन्म लेकर, पृथ्वी का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त न करके तुमने मेरे गर्भ से क्यों जन्म लिया ? यदि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो तुम पर यह विपत्ति क्यों आती ? हाय ! पुत्रहीन वंध्या की अपेक्षा भी मुझे आज अधिक दुःख मिल रहा है । दीर्घ काल तक संतानहीना होकर रही और उसके पश्चात् ईश्वर की कृपा से तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त किया, तो मन को बड़ी शांति मिली, किन्तु मेरा सारा तप आज व्यर्थ हो गया है । हे राजकुमार, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर साहस के साथ घोर वन में चले जाओगे, उस दिन मेरे लिए मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई शरण नहीं दीखती । तुम मुझे छोड़कर कैसे वन में जाओगे ? मैं कैसे अपने दुःख को शान्त कर सकूंगी ? पच्चीस वर्ष तक मैंने तुम्हें बड़े प्रेम से पाला-पोसा । यह सारा संसार जानता है । तुम मुझे इस दशा में छोड़कर कैसे जाओगे ? हे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए जो विविध व्रत रखे तथा विविध दान दिये, वे सब ऊसर भूमि में डाले गये बीजों की तरह निष्फल हो गये । यदि भरत राजा बन जाय, तो परिजन क्रूर कैकेयी के भय से मेरी सेवा करने के लिए कैसे आयेंगे ? राजा के प्रेम से वंचित तथा सब प्रकार के राजभोगों तथा वैभवों से रहित होकर मैं अपनी सौतों के मध्य कौन-सा मुँह लेकर रहूँगी ? कैकेयी का अधिकार मैं कैसे सहूँगी ? मैं नहीं जानती थी कि सारा कार्य इस प्रकार चौपट हो जायगा । इस अशुभ समाचार के सुनने के पहले ही मैं क्यों नहीं मर गई ? हे सूर्यवंश-तिलक, भले ही कैकेयी सारा राज्य लेकर अपने पुत्र को उसका अधिकारी बनाकर उसे भोग ले । हे तात, तुम वनों में क्यों जाओगे ? तुम मेरे पास वैसे ही रहो । तुम्हारी बाल्यावस्था में वसिष्ठ आदि मुनियों ने तुम्हारे चरण-कमलों में, पद्म, हल, वज्र, ध्वजा, कलश आदि चिह्नों को देखकर कहा था कि यह बालक समस्त विश्व का पालन करेगा । आज कैकेयी ने उनके वचन को असत्य सिद्ध कर दिया ।”

७. लक्ष्मण का क्रोध और राम का समझाना

इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप करनेवाली कौसल्या को देखकर लक्ष्मण दुःख और क्रोध से व्याकुल हो गये । उनका मुख तमतमाने लगा और उनकी भौहें तन गई । क्रोधाग्नि में जलते हुए तलवार चमकाते हुए वे राम तथा राम की माता से बोले—“हाय ! पौरुष तथा अभिमान को तिलांजलि देकर, क्षत्रिय-धर्म को त्यागकर, तेजोहत हो, ऐसे दीन वचन आप क्यों कह रहे हैं ? मंदमति पिता का आदेश आपको ठुकरा देना चाहिए ।

कामातुर, पापकर्मी तथा वृद्ध का इतना आदर करने की क्या आवश्यकता है ? जब कैकेयी को दिये हुए वचन का भंग करना वे नहीं चाहते, तो आपको राज्य देने का वचन देकर वे कैसे मुकर रहे हैं ? वसिष्ठ आदि सब सज्जनों के समक्ष ही तो उन्होंने कहा कि मैं राम को राज्य दूंगा। क्या इस वचन का पालन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यह असत्य हुआ कि नहीं ? कहाँ के दशरथ और कहाँ के वर ? कौन भरत और कौन कैकेयी ? यदि मैं हाथ में धनुष लूँ, तो मेरा सामना करने की क्षमता किसमें है ? भरत से लेकर मैं सभी शत्रुओं का वध करके इस नगर को मिट्टी में मिला दूंगा। हरि, हर, ब्रह्मा आदि युद्ध में मेरा सामना करें, तो भी मैं उनसे युद्ध करके उनपर विजय प्राप्त करूँगा। सुंदर केयूर-कंकणों से अलंकृत तथा चंदन-चर्चित अपने इन हाथों से मैं आपका राज-तिलक करूँगा और सभी शत्रुओं का वध कर दूँगा। मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आपको सारा साम्राज्य त्यागने की क्या आवश्यकता है ? वन जाने का विचार छोड़ दीजिए और अपनी शक्ति के प्रताप से राज्य ग्रहण करके प्रजा का पालन कीजिए और माता कौसल्या को प्रसन्न कीजिए ।”

राघव ने अपने अनुज की बातों पर मन-ही-मन विचार करके बड़े स्नेह से उन्हें देखकर कहा—“हे लक्ष्मण ! शौर्य-प्रदर्शन के लिए यह उचित अवसर नहीं है। इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। अब हमें राज्य-पालन करना नहीं है। हमें दूसरे काम करने हैं। शौर्य यहाँ दिखाने की क्या आवश्यकता है ? उसे तो शत्रुओं के प्रति दिखाना चाहिए।”

तब कौसल्या ने राम से कहा—“हे वत्स ! तुम अपने अनुज की इन विमल वचनों को सुनो। शौर्य का आश्रय लो और आर्य-सम्मत रीति से राज्य का पालन करते हुए प्रजा की प्रशंसा प्राप्त करो। क्या तुम्हें यह उचित है कि मेरी सौत की बातों के कारण राज्य छोड़कर वन में निवास करो। मेरे यहाँ रहो, और मेरी सेवा-शुश्रूषा करो। इससे बढ़कर इस पृथ्वी पर तुम्हारा कौन-सा धर्म है ? तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत हो, पर क्या, तुम्हें माता की आज्ञा कम मान्य हो गई है ?”

तब दुःखित होनेवाली माता को ढाढ़स बँधाते हुए राम उनसे बोले—“हे माता ! आप कैसी बातें कर रही हैं ? आप इतनी दुःखी क्यों हो रही हैं ? क्या अपने पिता की आज्ञा मानकर भार्गव ने अपनी माता का वध नहीं किया था ? क्या पिता की आज्ञा पाते ही कुंडिन ने एक गाय का वध नहीं किया था ? पुरूरवा ने अपना यौवन अपने पिता को देकर बुढ़ापा ग्रहण नहीं किया था ? अपने पिता के आदेश से क्या सगर के पुत्रों ने समुद्र-तल को खोद नहीं डाला था ? तब पिता की आज्ञा से वन में निवास करना मेरे लिए कौन बड़ा काम है ? आपके पति के वचन का पालन करना आपके और मेरे लिए परम धर्म है। लक्ष्मण तो अभी बच्चा है, वह वीरों के समान सोचने के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानता।” इस प्रकार कहकर वे हँसते हुए अपने अनुज से बोले—“हे लक्ष्मण, तुम्हारे भजबल, पराक्रम, धनुर्विद्या, बुद्धि तथा पीरुष ये सब किस काम के हैं ? मेरे प्रति श्रद्धा से प्रेरित होकर तुम कितना दुस्साहस करना चाहते हो ? तुमने मुझे कैसा उपदेश दिया ? माता ने वन जाने का आदेश दिया है और राजाने ममता त्याग करके वन जाने की आज्ञा

दी है। मेरा भाई इस समस्त राज्य पर शासन करनेवाला है। अब तुम किसपर क्रोध करते हो? ऐसे समय में अपने बल का घमंड दिखाना क्या तुम्हें उचित है? पिता की आज्ञा का पालन करने से बढ़कर दूसरा धर्म कौन-सा है? पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से बढ़कर दूसरा पाप कौन-सा है? चाहे तुम किसी भी रीति से विचार करो, राजा की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए, तुम्हारे लिए और माताओं के लिए धर्म-संगत है। उनकी आज्ञा के अनुसार मुझ वन जानेवाले को मत रोको। परम पवित्र रविकुल के वंशजों के चरित्र का तो तुम्हें विचार करना चाहिए। जो होना है, वह होकर ही रहेगा। विधि का लेख कौन मिटा सकता है?" इन बातों को सुनकर लक्ष्मण ने अपना क्रोध शान्त कर लिया और रामचंद्र का रुख देखकर भीत हो चुप रह गये।

८. राम का कौसल्या को धैर्य देना

सती कौसल्या अपने पुत्र का त्याग देखकर अत्यंत दुःखी हुई और षोडश कलाओं से युक्त, पूर्णचंद्र के सदृश, प्रकाशमान राम का मुख देखकर बोलीं—“हे मेरे कुल-दीपक, हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरे तात, वत्स (बछड़ा) को खोनेवाली गाय की तरह मैं तुम्हें छोड़कर चौदह साल तक यहाँ नहीं रह सकूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ घने वन में आकर रहूंगी।” इस प्रकार विलाप करती हुई माता को सात्वना देते हुए बड़े अनुनय-विनय से तथा अत्यंत दीन भाव से राम बोले—

“हे माता, ऐसा कहना क्या आपको उचित है? विचार करके देखिए। स्त्री के लिए पति ही प्राण है, नातेदार है और देवता है। ऐसे पति को त्यागकर मेरे साथ जाने के लिए जो आप कहती है, क्या यह आपको उचित है? यदि महाराज ने राज-पाट भरत को देने की आज्ञा दी है तो इसमें दोष क्या है? राजा ने जो वर देने का वचन दिया था, उन्हें माँगना क्या कैकेयी की भूल है? असत्य कहने से डरकर राजा का वर देना क्या अनुचित है? अपने पिता की आज्ञा मानकर मेरा इस प्रकार वन जाने के लिए प्रस्तुत होना क्या दोष है? सत्य तो यह है कि पति के आज्ञा-पालन में बाधा देना आपकी भूल कही जायगी। मेरे वन जाने के पश्चात् आपको दीन तथा दुःखी राजा की सतत सेवा-परिचर्या करते हुए, उनके मन का दुःख दूर करते रहना चाहिए। पाप-रहित तथा बंधु-प्रेमी भरत मुझसे अधिक भक्ति-युक्त होकर आपकी सेवा करेगा। आप शोक न करें। स्वप्न में भी महाराज दशरथ के संबंध में कटु विचार मत लाइए। आप कैकेयी के साथ स्नेहयुक्त होकर रहिए। मेरे कुशल का विचार करके आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए।”

इस प्रकार कहते हुए राम ने माता को प्रणाम किया। कौसल्या ने राम को हृदय से लगा लिया। उनकी आँखों से दुःख के अश्रु उमड़-उमड़कर राम की पीठ पर गिरने लगे। उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए वे गद्गद स्वर से बोलीं—“हाय, तुम वन में जाओगे?” इसके पश्चात् उन्होंने किञ्चित् धैर्य धारण करके अपने कपोलों पर भरनेवाले अश्रुओं को पोंछ लिया। पवित्र जल से हाथ तथा मूँह का प्रक्षालन किया और पुण्याह-वाचन कराया और कहा—“सुर, खेचर, यति, गिरि, वृक्ष, वेद, शान्ति, दान्ति, नदी, निधि, समुद्र आकाश, जल,

वायु, पृथ्वी, अग्नि, दिक्पाल, दश दिशाएँ, सूर्य-चन्द्र, तथा ब्रह्मा आदि सभी सदा तुम्हारा कल्याण करते रहें ।' इस प्रकार स्वस्ति-वचन कहकर कौसल्या ने देवताओं की पूजा करके राम के दाहिने हाथ में रक्षा-कंकण बाँधा और कहा—'वृत्रासुर का वध करने के लिए जानेवाले इन्द्र को देवताओं ने जो कल्याणप्रद कामनाएँ की थीं, वे सब तुम्हें प्राप्त हों । स्वर्ग से अमृत लाने के लिए जानेवाले गरुड़ को विनता ने जो शुभ आशीर्वाद दिये थे, हे राम, वे सब तुम्हें प्राप्त हों ।'

इस प्रकार, आशीर्वाद देकर कौसल्या ने राम को हृदय से लगा लिया, सिर सूँधा और उन्हें जाने की अनुमति दी । तब माता का चरण-स्पर्श करके वे अनुज के साथ वहाँ से अपने अंतःपुर के लिए श्वेत छत्र-चामर-रहित हो पैदल रवाना हुए । अभिषेक में विघ्न पड़ा हुआ जानकर राज-सभा के सभासद, सामंत राजा, मंत्री तथा नगर-निवासी अत्यंत दुःखी होने लगे ।

९. राम का अभिषेक-भंग का वृत्तांत सीता को सुनाना

रामचंद्र अपने अंतःपुर में पहुँच गये, तो सीता अपनी सहेलियों के साथ उनकी अगवानी के लिए आई । सीता को देखकर राम का मुख मलिन हो गया । यह देखकर सीता का मुख भी मलिन पड़ गया । उन्होंने कहा—'हे प्राणनाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि आपका मुख-कमल आज मुरझाया हुआ है ? क्या राजा ने पुण्य-योग का मुहूर्त्त बीतता जानकर आपका राज-तिलक कर दिया ? चंद्र-मंडल की समता करनेवाला श्वेत छत्र आपके मुख-कुमुद पर क्यों छाया नहीं कर रहा है ? क्या कारण है कि चामरधारी आपके पार्श्व-भाग में नहीं है ? भद्रगज क्यों नहीं दीख रहा है ? आपके सिर पर मंत्राक्षत क्यों नहीं दीख रहे हैं ? नगर-जन आपकी सेवा में प्रवृत्त हो क्यों नहीं आ रहे हैं ? दुंदुभी तथा पटह-नाद क्यों नहीं सुनाई पड़ रहे है ? बंदी-मागधों के स्तुति-पाठ कहाँ ? हे प्रभु ! आज तो राज-तिलक का दिन है । आपमें कोई राज-चिह्न नहीं दीख रहा है ? क्या कारण है कि सौमित्र का वदन प्रफुल्ल नहीं है ? इन सबका क्या कारण है, आप कृपया बतलाइए ।'

सीता के ये भोले वचन सुनकर राम मन-ही-मन दुःखी हुए और उस मानिनी सीता को देखकर बोले—'भला मुनियों को राज-चिह्नों से क्या मतलब ? सुनो, इसका कारण बताता हूँ । माता कैकेयी ने पहले मेरे पिताजी की सेवा करके उनसे जो वर प्राप्त किये थे, उन्हें आज माँग लिया है । एक वर से उन्होंने भरत का राज-तिलक और दूसरे वर से मेरा वन-वास माँगा है । अतः राजा ने राज्य का पालन करने के लिए मेरे अनुज का राज-तिलक करने का वचन दिया है और मुझे पिता की आज्ञा से चौदह साल तक वन में रहना है । माता-पिता की आज्ञा का पालन करनेवाले वीर के हाथ में ही ऐश्वर्य, यश, नाना लोक और नाना पुण्य रहेंगे । इसलिए हे कमललोचनी ! जबतक मैं महाराज की आज्ञा के अनुसार वनवास पूरा करके न लौटूँ, तबतक तुम दुःख त्याग कर गरुड़जनों की भक्तिपूर्वक परिचर्या करती रहो । मन-ही-मन मेरे कुशल की कामना करती रहो और उत्तम आचरण से अपने धर्म का पालन करती हुई माताओं के पास रहो ।'

इन बातों को सुनकर जानकी संभ्रम-चित्त हो उठीं । प्रचंड वायु से कंपायमान होनेवाली कदली के समान वह थरथर कांपने लगी और अत्यधिक दुःख से कांतिहीन होकर गद्गद स्वर में बोलीं—‘हे प्राणेश, यदि यह सच है, तो मैं भी अवश्य इसी क्षण आपके साथ चलूंगी । मैं आपके त्रियोग में जीवित नहीं रह सकूंगी । मेरे प्राण मुझमें नहीं रहेंगे । आप मुझे अपने साथ अवश्य ले चलिए ।’

राघव बोले—‘हे कमलाक्षी, यह कैसे संभव है कि तुम जंगलों में कंद-मूल खाते, पथरीले रास्तों में पैदल चलते, वल्कल पहने, कड़ी धूप तथा प्रचंड वायु को सहते तथा कड़ी भूमि पर शयन करत हुए पर्णशाला में जीवन बिताओ । तुम तो कोमलांगी हो और कष्ट का नाम तक नहीं जानती । ऐसी कोमलांगी तुम आश्चर्यजनक हाथी, बाघ, रीछ, भेड़िये, हिरन, साँप तथा लाल चीटियों से पूर्ण गिरि, गुफा, तथा घाटियों में कैसे रह सकोगी ? भयावने लता-मार्गों पर, अत्यंत दुर्गम, लता, कंटक, वृक्षों से भरे हुए पथों से युक्त भयंकर वनों में कैसे चल सकोगी ? हे सीते ! इसलिए तुम माता कौसल्या के पास रहो । उनकी इच्छा के अनुकूल तुम उनकी सेवा करती रहो । गृह-देवताओं की पूजा करती हुई मन में मेरी भक्ति करती रहो । दिन-रात पिता की सेवा में निरत भरत माता के समान तुम्हारी सेवा करता रहेगा । हे अबले, कभी उसे कटु वचन मत कहना । हे मुग्धे, चौदह वर्ष पूरा करके मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा । चिंता मत करो ।’

राम के इन वचनों को सुनकर सीता शोक-संतप्त होकर बोली—‘हे नाथ, पति का भाग्य ही सती स्त्रियों की रक्षा करने में समर्थ है । आप मेरे प्रभु हैं, मेरे देव हैं तथा मेरी पुण्य गति हैं । श्रेष्ठ स्वर्ग-सुख का उपभोग करने की अपेक्षा निश्चल मन से, अत्यंत भक्ति-युक्त होकर आपके चरणारविन्दों की सेवा करना ही मेरे लिए सुखदायक है । हे राजन्, विष्णु-सदृश जगदेकवीर आपकी रक्षा में रहते हुए, इन्द्र भी मेरी तरफ सिर उठाकर देख नहीं सकेगा । मैं आपके साथ वल्कल धारण करके पैदल चलूंगी और पर्वत तथा नदी-सरोवरों को देखूंगी । चाहे कुछ भी हो, आप मुझे अपने साथ अवश्य ले चलिए ।’

राम बोले—‘हे वनजाक्षी, अविरल दुर्गम वनवास की इच्छा तुम क्यों करती हो ? मैं सतत तुम्हारी याद मन में रखते हुए राजा की आज्ञा का पालन करके लौट आऊंगा । कहाँ तुम और कहाँ घोर वन ! कौतुक से विहार करने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त घने वन के दुर्गम तथा कुटिल मार्गों में तुम्हें ले जाना कहाँ तक उचित है ? अत्यंत क्रूर भेड़िया, बाघ, रीछ, सिंह आदि मृगों के हुंकार तथा उलूक, कनकौआ एवं भिल्ली की कर्कश भंकार से तुम अवश्य भीत हो जाओगी । इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है ।’

इन वचनों को सुनकर सीता बोली—‘हे नाथ, आपके रहते मुझे किसी प्रकार का भय नहीं होगा । वेदविदों (ज्योतिषियों) ने कहा है कि मेरे भाग्य में वनवास लिखा है । इसलिए हे भानुकुलाधीश, मैं आपके चरणों की सेवा करती हुई आपके साथ ही रहूंगी । मुझे मत छोड़िए । मेरी भक्ति का विचार कीजिए ।’

यों कहती हुई वे राम के चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी । फिर भी राम को विचलित होते नहीं देख अत्यंत दीन स्वर में वे बोली—“हे नाथ यदि जान-बूझकर, या अनजान में मैंने कोई अपराध किया हो, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए । कर्कश शिलाओं से आकीर्ण प्रदेशों में भी आपकी सेवा करते हुए मुझे कोई थकावट नहीं होगी । आप जो कंद-मूल कृपा-पूर्वक देंगे, वे मेरे लिए अमृत-तुल्य होंगे । आप ही मेरे आप्त-बंधु हैं । अतः, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी । न मैं अपने पिता का स्मरण करूंगी न माता का, न इष्ट बंधुजनों का । हे प्राणेश, आपने अग्नि के समक्ष मेरे पिता से मुझे सह-धर्म-चारिणी के रूप में ग्रहण किया था । आप लोकबंध है, सत्यनिष्ठ है । मुझे यही छोड़कर वनवास के लिए आपका चला जाना क्या उचित है ? वहाँ जो भी कष्ट हो, वह आपकी कृपा से मेरे लिए सुख ही सिद्ध होगा । आपके बिना ये राजभवन, ये बंधु-बंधव, यह ऐश्वर्य और जीवन भी सार-हीन हो जायेंगे । मैं कैसे यहाँ रह सकूंगी ? जैसे पुण्य सती सावित्री अपने पति की अनुगामिनी होकर रही, मैं भी आपकी परछाई की तरह आपके पीछे-पीछे चलूंगी । मेरी जैसी साध्वी के लिए यही धर्म है । आपको छोड़कर मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकती । आपके साथ चौदह वर्ष क्या, हजार वर्ष तक जंगलों में रहकर आपकी सेवा करती रहूंगी । आप ऐसे आदर्श का पालन कीजिए, जो संसार में पति-पत्नियों के लिए अनुकरणीय हो । इतना ही क्यों ? यदि आप मुझे छोड़कर वन चले जायेंगे, तो मेरे प्राण भी उड़ जायेंगे अथवा मैं स्वयं अग्नि, जल या विष से अपने प्राण त्याग दूंगी । मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरी मृत्यु देखकर जाइए ।” यों अत्यंत शोकात्त हो जानकी विलाप करने लगी ।

१०. राम का सीता तथा लक्ष्मण को भी साथ चलन की अनुमति देना

सीता की यह दशा देख राम का हृदय दया से पिघल गया । उन्होंने अपने कर-पल्लवों से उस सुंदरी को उठाकर कहा—“हे सुंदरी, तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेले वन में निवास करना मैं भी नहीं चाहता । मैं केवल तुम्हारा हृदय परखना चाहता था । तुम मेरे साथ चलो, तो सब तरह से मेरा कुशल ही होगा । मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा । तुम चलने से पूर्व आवश्यक दान आदि कर लो ।” कृपालु राम के अनुमति देते ही सीता ने स्वर्ण-रत्नादि आभूषण अपने प्रिय परिजनो को दान कर दिये ।

तत्पश्चात् राम ने सौमित्र को अपने पास बुलाकर कहा—“यदि तुम भी मेरे साथ वन में चलोगे, तो मेरे साथ तुम्हें भी खोकर हमारी माताएँ कौसल्या तथा सुमित्रा अत्यंत दुखी होंगी । उनका दुःख कौन दूर करेगा ? हम दोनों चले जायें, तो पिताजी की देख-भाल करनेवाले कौन हैं ? पहले से ही माता-कैकेयी सौतिया डाह से प्रेरित हैं । अब राज-मद भी उन्हें हो जाय, तो न जाने वे अपनी प्रभुता दिखाती हुई उन्हें दुःख देंगी या धर्म का विचार करके (चुप) रह जायेंगी । अतः मेरे लौटने तक तुम्हारा यहाँ रहना सर्वथा उचित है ।

इन बातों से दुःखी होकर लक्ष्मण ने अपने भाई से कहा—“मैं आपके साथ अवश्य वन चलूंगा । यदि आप मना करेंगे, तो यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा । यह मेरा दृढ़

निश्चय है ।' अनुज का यह दृढ़ निश्चय सुनकर राम ने उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति दे दी ।

११. राम-लक्ष्मण का संपत्ति-दान

फिर राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को भेजकर वसिष्ठ के पुत्र उत्तम गुण-संपन्न सुयज्ञ को बुलवाया और उचित रीति से उनका आदर-सत्कार करके उन्हें हार, कुंडल, वलय, अंगद आदि सभी आभूषण, मामा का दिया हुआ मत्त गज, ख्याति, शत्रुजय आदि नामवाले सहस्र हाथी, सुन्दर वस्त्र आदि दान में दिये । इनके अतिरिक्त राम ने उन्हें दस करोड़ सुवर्ण-मुद्राएँ तथा अन्य अनुपम वस्तुएँ भी बड़ी श्रद्धा से दी । उन्हें ग्रहण करके सुयज्ञ ने हर्षित होकर आश्चर्य-चकित हृदय से उस राज-दंपती को आशीर्वाद दिये । उसके पश्चात् उन्होंने अपने राज-कोष का समस्त धन मँगाकर, याचकों, निर्धनों तथा दीन-जनों में वितरित कर दिये । अगस्त्य तथा कौशिक मुनियों को रत्न-रागियों दान कर दीं । वसिष्ठ आदि मुनियों तथा तपस्त्रियों को उचित दान दिया । वंदी-मागध आदि, परिजन तथा अन्य निर्धनों को अमित धन दिया । तत्पश्चात् ब्राह्मणों तथा बंधु-मित्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार के दान देकर उन्होंने सौमित्र की ओर देखकर कहा—'तुम भी दान करो ।' तब उस राजकुमार ने बड़े आनंद से कौशिक, गार्ग्य तथा शांडिल्य को बुलवाकर उन्हें अमित धन दिया । जिस किसी ने जो कुछ माँगा, उसे उन्होंने दे दिया । सीता ने परम कल्याणी, अर्धवती तथा सुयज्ञ की पत्नी को अपने आभूषण, अपना धन, तथा अपने अंतःपुर के सभी वस्तु-समूह दान में द दिया । तब अरुधती ने वसिष्ठ को देखकर कहा—'हाय । इक्ष्वाकु के वंशजों की ऐसी दशा देखकर चुप रह जाना क्या आपको उचित लगता है ?' मुनि ने अच्छी तरह विचार करके कहा—'यह भगवान् की इच्छा है; किसी भी तरह यह टल नहीं सकती । तुम चुपचाप देखो ।'

१२. त्रिजटाख्य को राम का गायों का दान देना

उस समय त्रिजटाख्य नामक एक विप्र अपनी जीविका चलाने के उद्देश्य से खेत जोतते हुए मन-ही-मन अपने दारिद्र्य का विचार करके दुःखी हो रहा था । उसकी स्त्री अपने बच्चों के साथ अपने पति के पास गई और काम में व्यस्त पति को देखकर कहा—'हे नाथ, अभी आप हल चलाने में क्यों व्यस्त है, हल को वहीं छोड़कर आइए, मैं एक बात कहती हूँ । आज रामचंद्र बड़े आनंद से सभी याचकों को असंख्य धन दान कर रहे हैं । जो कोई जो कुछ माँगता है, उसे वे दे रहे हैं । आप अपना कुल तथा अपना नाम बतलाकर उस काकुत्स्थ पति से अपने इच्छानुसार धन प्राप्त कर लीजिए । आप शीघ्र जाइए ।'

यह सुनकर उस विप्र की इच्छाएँ प्रबल हो उठी । वह तुरंत रामचंद्र के निकट पहुँचकर उन्हें आशीर्वाद देकर बोला—'हे राजन्, मैं निपट दरिद्र हूँ । मेरे कई बाल-बच्चे हैं । मैं अत्यन्त निर्धन हूँ । आप मेरी रक्षा करें । तब रघुराम बोले—'अभी मेरे पास गायों के कई समूह हैं । आप अपनी सारी शक्ति लगाकर कोई ढेला फेंकिए । आपका ढेला जितनी दूर तक जायगा, उतनी दूर तक की भूमि में जितनी गायें हैं, वे सब आपको

मिल जायँगी । मन-ही-मन हर्षित होते हुए उस विप्र ने अपनी धोती तथा शिखा कसकर बाँध ली, सभी नाड़ियों को कस लिया, दाँत पीसे और हाथ में ढेला लिये हुए श्रीरामपति विष्णु तथा श्रीराम का नाम-स्मरण करके अपनी मुट्ठी जोर से घुमाकर ढेला सरयू नदी तक फेंक दिया । सरयू नदी तक की भूमि में जितनी गायें थी, उन्हें ब्राह्मण ने ले लिया । ब्राह्मण के इस बाहुबल को देख राम को आश्चर्य हुआ । उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यदि आपकी इच्छा हो, तो मैं बिना किसी संकोच के आपको और एक हजार गायें तथा वस्त्र आदि दूँगा । तब विप्र ने कहा—‘आप मुझे एक यज्ञ के लिए आवश्यक धन दे सकें, तो अच्छा होगा ।’ राम ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे धन देकर संतुष्ट किया । ब्राह्मण धन आदि लेकर अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट मन से घर लौट गया ।

तब रघुराम अपने-आपको कृत-कृत्य मानते हुए अंतःपुर के भीतर आये और गृह-देवताओं की पूजा की, भक्ति के साथ मुनियों को प्रणाम किया और याचको को मुँह-माँगा दान दिया । उसके पश्चात् उन्होंने अपने गुरु के घर में रखे हुए तथा धनुष-यज्ञ के समय वरुण से प्राप्त कोदंड, तूणीर, खड्ग आदि अपने अनुज के द्वारा माँगाये और उन्हें धारण करके सीता तथा लक्ष्मण के साथ राजा के दर्शन करने चले । नगर की प्रजा उन्नत सौध-शिखरों तथा चौपालों से राजचिह्न-रहित राम को जाते हुए देख अत्यंत शोक-संतप्त होकर कहने लगी—‘क्या राम ऐसी दुर्दशा को प्राप्त होने योग्य है ? वे जहाँ जायँगे, हम भी वही जायँगे ।’ कुछ लोग कहते—‘हम सब इस राजकुमार के साथ वन चले जायँ और उजड़े हुए नगर पर कैंकेयी राज्य करे ।’ इसी तरह कुछ दूसरे लोग कहते—‘यह नगर धीरे-धीरे भालू, बाघ, सिंह, लोमड़ी, पिशाच तथा असंख्य भूत-प्रेतों का निवास-स्थान बन जायगा और वन में जहाँ राम रहेंगे, वही एक नगर बस जायगा ।’ इस प्रकार लोगों के रोने-पीटने से सभी दिशाएँ गूँज उठीं ।

१३. सीता-लक्ष्मण-सहित राम का दशरथ के दर्शनार्थ जाना

लोगों की आर्त ध्वनियों को बड़े धैर्य के साथ सुनते हुए राम महाराज के अंतःपुर में पहुँचे । उन्होंने सुमंत्र के द्वारा राजा को अपने आगमन की सूचना भेजी । सुमंत्र ने शोक-संतप्त राजा को देखकर कहा—‘महाराज, राम-लक्ष्मण पूज्यशीला सीता के साथ आये हैं । यह संवाद सुनते ही राजा मूर्च्छित हो गये । जब उनकी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे धीरे-धीरे उठकर आसन पर बैठ गये और धैर्य धरकर गद्गद कंठ से बोले—‘मेरी सभी रानियाँ रघुराम को देखने के लिए आवें ।’

सुमंत्र राजा के वचन सुनकर रत्नवास में गये और राजा की तीन सौ पचास रानियों को अत्यंत विनय के साथ बुला लाये । तत्पश्चात् वे महान् तेजस्वी रामचंद्र को सीता और लक्ष्मण के साथ महाराजा के सामने ले गये । राजा राम को हृदय से लगा लेने के लिए उठे, किन्तु उनके पैर आगे नहीं बढ़ सके । वे वहीं लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़े । तब राम ने उन्हें उठाया और उनका सिर अपनी गोद में रखकर दुःख प्रकट करने लगे । थोड़ी देर बाद राजा की चेतना लौट आई और वे उठ बैठे । पिता को एकटक अपनी ओर ताकते हुए देखकर लोकवन्द्य राम बोले—‘हे अनघ, आपके वचन

की रक्षा करने के हेतु मुझे वन-गमन के लिए उद्यत देखकर साध्वी जानकी तथा सौमित्र, मेरे मना करने पर भी मेरे साथ वन जाने के लिए प्रस्तुत हो गये हैं । उन्हें भी वन जाने की अनुमति प्रदान कीजिए ।'

इन वचनों को सुनकर राजा ने कहा—'मतिःशुद्ध कैकेयी की बातों में आकर मैंने वन जाने का आदेश देकर बड़ी निर्दयता की है । किन्तु तुम्हें उसका पालन करने की आवश्यकता ही क्या है ? तुम अपने ढंग से राज्य करो ।'

इस पर राम ने हाथ जोड़कर कहा—'हे राजन्, आप मेरे गुरु हैं, पृथ्वीपति है, प्रेम से मेरी रक्षा करनेवाले आप्त-बंधु है । अतः, आप अपनी आज्ञा का पालन करने की अनुमति मुझे दीजिए और जाने की आज्ञा भी दीजिए । सत्यनिष्ठ होकर आप सदा समस्त लोकों का पालन कीजिए ।'

दशरथ बोले—'हे वत्स ! तुम चिरायु, अमितशुभ, सुयश, पराक्रम, निष्कलंक धर्म-बुद्धि प्राप्त करो । तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो । हे पुत्र, तुम आज रात को यहीं रहकर कल वन के लिए प्रस्थान करो ।' इस पर राम ने कहा—'हे महाराज, हमारा अब यहाँ रहना उचित नहीं है । आज और कल में विशेष अंतर नहीं पड़ता । अतः, आप हमें स्नेह से जाने की अनुमति दीजिए । मेरे अनुज भरत को राज्य-पालन करने दीजिए । अब आप शोक मत कीजिए ।'

राम की त्याग-बुद्धि देखकर महाराज दशरथ को अत्यधिक दुःख हुआ । वे बोले—'तुम्हारे जैसे सुपुत्र को घोर जंगलों में निवास करने की अनुमति मैं किस मुँह से दूँ ? हाय ! कैकेयी की बातों में आकर मैं धोखा खा गया ।' यों कहते हुए वे कशपोत्पादक ढंग से विलाप करने लगे । अंतःपुर की सब नारियाँ भी रोने लगी । इसी समय कौसल्या तथा सुमित्रा दुःख-संतप्त हृदय से वहाँ आई और राजा के साथ विलाप करने लगीं ।

उन रमणियों तथा राजा का विलाप सुनकर सुमंत्र अपार दुःख से पीड़ित हुए और क्रोध से कैकेयी की ओर देखकर कहने लगे—'आपके कारण ही राजा को तथा हम सबको यह संताप हो रहा है । मैं आपको क्या कहूँ ? आप पति के हित का विचार न करने-वाली राक्षसी है । आप भी अपनी माता के समान ही पति की हत्यारिन है । आपके पिता सभी भाषाओं के ज्ञाता थे । एक दिन वे और आपकी माता शय्या पर लेटे हुए थे । तब उन्होंने किन्ही कीड़ों को आपस में बोलते हुए सुना और उसका विचार करके हँस दिया । तब तुम्हारी माँ ने अपने पति से कहा—'बतलाइए कि आप क्यों हँस रहे रहे है ?' तब उन्होंने कहा—'यदि मैं इसका कारण तुम्हें बतला दूँ, तो मेरी मृत्यु हो जायगी ।' किन्तु आपकी माँ ने कहा कि मैं आपकी मृत्यु से नहीं घबराती, आप अवश्य अपनी हँसी का कारण बतलाइए । तब उन्होंने निर्दय होकर आपकी माता को नगर से निर्वासित कर दिया । भला, ऐसी चंडी की पुत्री, आपको अपने पति के हित का विचार कैसे होगा ?'

कैकेयी सिर झुकाकर थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर दशरथ को देखकर बोली—'हे राजन्, प्राचीन काल में आपके वंशज महाराज सगर महान् यशस्वी होकर

राज्य करते थे । क्या उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को बिना किसी भिन्नक के नगर से बाहर नहीं कर दिया था ? तब आप भी यदि राम को वन में भेज दें, तो इसमें दोष ही क्या है ?'

शोक-समुद्र में डूबे हुए दशरथ इसका प्रत्युत्तर नहीं दे सके । तब सिद्धार्थ नामक मंत्री ने कपटी कैकेयी को देखकर कहा—'असमंजस दर्प से उद्वृष्ट होकर नगर के बालकों को बाँध-बाँधकर सरयू नदी में फेंक देता था । जब प्रजा ने राजा से इसकी शिकायत की, तब जन-हित का विचार करके उन्होंने अपने पुत्र को नगर से निर्वासित कर दिया । क्या रामचंद्र में कोई दोष है ? वे तो उत्तम गुण-संपन्न हैं ।'

तब कैकेयी बोली—'राम तो पिता के दिये हुए वचनों का पालन कर रहा है । वह सुकृति है ।' कैकेयी की निष्ठुरता देखकर दशरथ बहुत दुःखी हुए और सुमंत्र को देखकर बोले—'हे सुमंत्र, तुम राज्य के धन, मणियाँ, गोधन, बंधुजन, अंतःपुर के निवासी मित्र, मंत्री तथा विजय-चिह्नों से अलंकृत गज, रथ, तुरग आदि सब को राम के साथ भेज दो । इस शून्य नगर पर ही कैकेयी का पुत्र राज्य करेगा ।'

इन वचनों को सुनते ही कैकेयी क्रोध से जल उठी । वह अपने पति को कोसती हुई बोली—'हे राजन्, आप रामचंद्र को राज्य का ऐश्वर्य देकर उजड़ा हुआ नगर भरत को क्यों देना चाहते हैं ? ऐसी बातें क्यों करते हैं ? यदि राम, सौमित्र तथा जानकी के साथ बल्कल पहनकर संतुष्ट मन से सारे ऐश्वर्य को त्याग कर मेरे देखते हुए वनवास के लिए नहीं जायगा, तो आपका वचन पूरा नहीं होगा । आपका वचन झूठा होगा । हे राजन्, मैं आपके वर नहीं चाहती । निश्चय ही आपका वचन भंग हुआ ।'

कैकेयी की बातें सुनकर दशरथ मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । उस दशा में पृथ्वी पर पड़े हुए पिता को देखकर घोर परितप से पीड़ित होकर राघव बोले—'हे माताजी ! आप बार-बार महाराज की निंदा क्यों करती हैं ? मेरे गुरु, महाराज, मेरे पूज्य पिता, मेरे परमदेव, मुझे आज्ञा दें, तो मैं प्रेम से विष-पान भी करूँगा । प्रचंड अग्नि या विष के समुद्र में भी प्रविष्ट होऊँगा । वनों में जाकर मुनियों के साथ रहना कौन-सा बड़ा कार्य है ?'

दशरथ उन वचनों को सुनकर कैकेयी को देखकर बोले—'सुनो, मैं भी राज्य छोड़कर राम के साथ वन में जाऊँगा । तुम समस्त वैभव के साथ भरत को अयोध्या का राजा बनाकर राज्य करो । अब अधिक विवाद क्यों ?' तब राम ने राजा से कहा—'महाराज, निर्जन वन मेरे लिए योग्य रहेगा । मेरे साथ और कोई क्यों आये ? मेरे लिए बल्कल मँगाइए । मैं उन्हें धारण कर चौदह वर्ष तक वन में रहते हुए आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । माता, आप शीघ्र हमें बल्कल दीजिए ।'

तब कैकेयी निर्लज्ज होकर मन-ही-मन प्रसन्न होती हुई सबके सामने बल्कल ले आई और उन्हें राम को देकर बोली—'हे राजकुमार ! इन्हें धारण कर लो ।'

राम ने बड़ी प्रसन्नता से माता से बल्कल ले लिये और अपने कपड़े उतारकर बल्कल पहन लिये । राम के समान ही लक्ष्मण ने भी बल्कल पहने । कैकेयी ने सीता को

दो वल्कल दिये । तब सीता ने मन-ही-मन व्याकुल होकर राम से कहा—‘वन में रहने-वाले मुनि, न जाने इन वल्कलों को कैसे पहनते होंगे ।’ उन्होंने एक वस्त्र को अपने कंधे पर डाल लिया और दूसरे को हाथ में लिये पहनने में असमर्थ हो खड़ी रही । राम ने यह ढंग देखा, तो उन्होंने स्वयं सीता को वह वल्कल पहना दिया । सभी रानियों ने राघव को देखकर कहा—‘हे राजकुमार ! इस श्रेष्ठ राजकुमारी सीता को इतना निष्ठुर होकर तपस्विनी की तरह घने जंगलों में क्यों ले जा रहे हो ? हमारी बात मानकर तुम सीता को हमारे पास छोड़ दो और लक्ष्मण के साथ तुम वन जाओ ।’

१४. कैकेयी पर वसिष्ठ का क्रोध

तब वसिष्ठ कैकेयी को देखकर अत्यंत क्रोध से बोले—‘तुम कुलनाशिनी हो । तुमने राजा को धोखा दिया है । तुमने जैसा पाप किया, वैसा पाप कहीं भी किसी ने नहीं किया है । रघुराम की आज्ञा से जानकी को रानियों के साथ रहने दो । तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं करती हो ? यदि वैदेही वन में चली जायगी, तो हम भी नगर-निवासियों के साथ वन चले जायेंगे । इतना ही नहीं, भरत तथा शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न मन से रामचन्द्र की सेवा करने के लिए वन जायेंगे । तब तुम इस निर्जन नगर में रहोगी । राम पुण्यशील है । उसके रहने से इस नगर की शोभा है । उसके चले जाने के बाद यह नगर उजड़ा हुआ दीखेगा । पाप-पूर्ण मन से तुमने पति को धोखा दिया । अधिक लोभ से प्रेरित हो, तुम राम को वन में भेजकर भरत का राज-तिलक करके चिर काल तक राज्य करने की बात सोच रही हो । भरत कभी अपने पिता की आज्ञा नहीं टालेगा । वह अपने भाई रामचंद्र को पितृ-तुल्य मानता है । तुम्हारी बात सुनकर, धर्म-निष्ठा को त्यागकर, रामचन्द्र को ठुकराकर क्या वह राज्य ग्रहण करेगा ? वह दशरथ का पुत्र है । तुम्हारा दोष सिद्ध होने पर, क्या वह तुम्हे मन से माता मानेगा ? क्या राम के वन में रहते हुए वह साम्राज्य का भार वहन करेगा ? तुम भरत का हृदय नहीं जानती । अगर उसे यह बात मालूम हो जाय, तो वह तुम पर क्रुद्ध होगा । किसके लिए तुम इतने निष्ठुर बन रही हो ? क्या भरत इसके लिए अपनी स्वीकृति देगा ? *कदापि नहीं । इसलिए इसे तुम शुभप्रद मन समझो । इतना ही नहीं, राम तथा सीता को वल्कल देने के लिए तुम्हारे हाथ कैसे आगे आये ? वल्कल छोड़कर नवरत्न-खचित आभूषण तथा चीनाम्बर पहने जानकी परिचारिकाओं के साथ वन में जाय ।’

इस प्रकार कहते हुए उस संयमीश्वर ने सीता को सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण दिये । सीता ने उन्हें ग्रहण किया और वल्कल वही छोड़ दिये । सब लोग कैकेयी की निंदा करने लगे । राजा सबकी निंदा सुनते रहे और अंत में कैकेयी को देखकर बोले—‘तुमने मन में पाप का संकल्प करके राम के लिए वनवास मांगा था । लेकिन क्या तुमने मुझसे यह भी मांगा था कि सीता को वल्कल पहनने चाहिए ? क्या यह मानवती इसके लिए योग्य है ? मैंने क्या पाप किया, जो तुम इतनी क्रूर बनी हुई हो ? विनयाभिराम राम को तपस्वी के रूप में वन भेजने से बढ़कर कोई और पाप है ? उसे यहाँ से भगाकर भी तुम्हें चैन क्यों नहीं मिलता ? ऐसी पापिनी का पति मेरे पापों का अंत ही नहीं है क्या ?’

तब राम ने दशरथ से कहा—‘महाराज, मेरे वियोग से शोक-सतप्त मेरी माता कौसल्या को सांत्वना देते हुए आप उनकी रक्षा करते रहें ।’

तब दशरथ ने अत्यंत दुःखी होकर कहा—‘हे राम, न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन-सा पाप किया था ? उसका फल तो मुझे भोगना ही चाहिए । माताओं से पुत्रों को अलग करके तुम्हारे हृदयों को दुःख देना पड़ रहा है । हाय, कैकेयी के वचनों के कारण तुम्हें वन में कष्टों को सहने के लिए निष्कुर होकर भोजना पड़ रहा है । हे पुत्र, हे राम, यह कैसा अनर्थ है ।’

यों कहकर दशरथ मूर्च्छित हो गये । उपचार के उपरांत जब वे कुछ सँभले, तब उन्होंने चौदह वर्ष के लिए आवश्यक श्रेष्ठ वस्त्र तथा आभूषण सीता को दिलवाये । सीता ने उन श्रेष्ठ वस्त्रों तथा आभूषणों को धारण किया ।

१५. राम का दशरथ को सांत्वना देना

तब दशरथ को देखकर राम ने कहा—‘महाराज मैं चौदह वर्ष की अवधि चौदह दिन की तरह बिताकर शीघ्र ही लौट आऊँगा । मेरी अपेक्षा भरत आपका प्रिय भक्त हैं । आप दुःख मत कीजिए । भरत का राज-तिलक कर दीजिए । माता कैकेयी के कृत्य को सोचते हुए आप मन-ही-मन क्षुब्ध मत होइए । मेरी माँ आपकी सेवा अच्छी तरह करती रहेगी । उन पर आप भी कृपा-दृष्टि रखिए ।’

यों कहकर उन्होंने सीता तथा लक्ष्मण के साथ उनकी परिक्रमा की और प्रणाम किया । तब राजा ने अपने पुत्रों तथा बहू को आशीर्वाद दिया—‘तुम वन जाकर कुशल-पूर्वक लौटो ।’ उसके पश्चात् उन तीनों ने कौसल्या के चरण-कमलों का स्पर्श किया । राघव की वेश-भूषा देखकर माता ने क्रूर विधि की निंदा करती हुई विलाप किया और फिर राम तथा लक्ष्मण को आशीर्वाद दिये ।

१६. सीता को सीख देना

फिर जानकी को देखकर कौसल्या अत्यंत दुःखी होकर बोली—‘राम को योग्य राज-पुत्र समझकर बिना हमारे माँगे ही तुम्हारे पिताने तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया । किन्तु आज दैव-योग से तुम्हारी यह दशा हो गई । तुम्हें तापस-वृत्ति ग्रहण कर अपने पति के साथ वनों में निवास करना पड़ रहा है । इसके लिए चिन्ता मत करो । राघव अवश्य बाद को पृथ्वी का पालन करेगा । चाहे पति निर्धन ही क्यों न हो जाय, फिर भी स्त्री को उसे त्यागना नहीं चाहिए । यही सती स्त्रियों का धर्म है । पति की आज्ञा पालन करनेवाली स्त्रियों का दोनों लोकों में शुभ होगा ।’

तब सीता ने कौसल्या को देखकर कहा—‘हे माताजी, मैं अवश्य पति के अनुकूल होकर भक्ति के साथ उनकी सेवा करूँगी और धर्म के मार्ग पर चलूँगी । पति की प्रसन्नता जिस रमणी को प्राप्त नहीं है, वह चक्र-हीन रथ के समान और तार-हीन वीणा के समान है । वह पुत्रोंवाली पुण्यवती होने पर भी अत्यंत दुःखी रहेगी । अतः, यदि पति को प्रिय हों, तो मैं अपने प्राणों को भी बड़े हर्ष से निछावर कर दूँगी ।’

तब कौसल्या ने सीता से कहा—‘भू-माता की पुत्री होकर तुम्हारे ये गुण तुम्हारे अनुकूल ही हैं । लक्ष्मण, उज्ज्वल गुण-संपन्न तुम्हारे पति का आप्त-बंधु है । उसके प्रति

स्नेह रखना । 'आपकी आज्ञा शिरोधार्य है'—सीता ने कहा और उन्हें प्रणाम किया । कौसल्या ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिये ।

फिर कौसल्या ने राम को संबोधित करके कहा—'हे राजकुमार, मैथिली तथा सौमित्र का सतत ध्यान रखना ।' राम बोले—'माता, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा । लक्ष्मण तो मेरा दाहिना हाथ है और सीता मेरी गति के समान है । क्या मैं कभी इनके प्रति असावधान रह सकता हूँ ? यदि मैं धनुष धारण करूँ, तो (इन्हें) कौन-सा भय हो सकता है । चाहे त्रिनयन ही क्यों न आ जायँ । अब आप शोक मत कीजिए । हम तीनों, आपको, पिताजी को और सब माताओं को प्रणाम करते हैं; आप हमें आशीर्वाद दीजिए ।'

इस प्रकार कहते हुए उन्होंने सीता तथा लक्ष्मण के साथ तीन सौ पचास माताओं की प्रदक्षिणा की । यह दृश्य देखकर सभी माताओं का हृदय पिघल गया और वे विलाप करने लगी ।

जब तीनों ने माता सुमित्रा को प्रणाम किया, तब उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया और राम तथा सीता को आशीर्वाद दिये । उसके पश्चात् वे महाराज के अनुचित कार्य का विचार करके दुःखी हुई और लक्ष्मण को पास बुलाकर अत्यंत गंभीर स्वर में बोली—'हे वत्स ! तुम राम को ही अपने पिता दशरथ के समान और जानकी को मेरे समान मानना । वन को ही अयोध्या समझना और अत्यंत भक्तियुक्त होकर राम की सेवा करते हुए अत्यधिक विजय तथा उन्नति प्राप्त करो ।' उसके बाद वे राम को देखकर बोलीं—'हे रघुवीर, लक्ष्मण सतत तुम्हारे कन्याण का विचार करनेवाला, कर्मष-रहित सखा तथा अनुज है । वन में तुम इसकी रक्षा करते रहना ।' राम ने माता की आज्ञा को बड़ी नम्रता से स्वीकार किया ।

१७. राम का वन-गमन

तत्पश्चात् राम ने गृह-देवताओं, मुनियों तथा माताओं को प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ शर-त्राप-त्गीर से युक्त हो वे वन-के लिए रवाना हुए । तब दशरथ ने मन-ही-मन दुःखी होते हुए सुमंत्र को देखकर कहा—'वह देखो, राम वन जा रहा है, उसके लिए रथ ले जाओ ।'

राजा की आज्ञा मानकर सुमंत्र रथ को लिये राम के पास पहुँचे और भक्ति से प्रणाम करके बोले—'हे रघुराम, राजा ने यह रथ भेजा है । इस पर आरूढ़ होकर आप वन के लिए प्रस्थान कीजिए ।' राजा की आज्ञा को मानकर राम ने सीता को पहले रथ पर बिठाया, फिर अपने शस्त्रों को रखने के बाद लक्ष्मण के साथ स्वयं भी उस विशाल रथ पर चढ़कर वन के लिए रवाना हुए ।

नागरिक, वृद्ध, आप्त, मंत्री, स्त्रियाँ, बालक, मित्र, आश्रित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अत्यधिक दुःख प्रकट करते हुए रथ के आगे-पीछे तथा दोनों ओर भीड़ लगाकर चलने लगे । कुछ लोग मंथरा को कोस रहे थे कि उसने इक्ष्वाकु-वंश के गौरव को नष्ट कर दिया; कुछ कैकेयी की निंदा करते हुए कह रहे थे कि क्या रघुराम को तपस्वी का

रूप देना उचित था; दूसरे कुछ लोग दशरथ पर क्रोध प्रकट करते हुए कह रहे थे कि राजा का इस प्रकार अपनी पत्नी से भीत होना उचित नहीं था; कुछ लोग दुःखी होकर कह रहे थे कि आज राम तथा सौमित्र अधिकार-रहित होकर कितने अनाथ हो गये ? ऐसे भी लोग थे, जो कह रहे थे कि प्राप्त होनेवाले साम्राज्य का भार वहन किये बिना व्यर्थ ही ये लोग वन में जा रहे हैं ? कुछ कह रहे थे, चौदह वर्ष तक ये लोग कैसे विपत्तियों को भेलते रहेंगे ? कुछ मन-ही-मन सोच रहे थे कि न जाने इस राजकुमारी ने किस व्रत का अनुष्ठान किया है ? कुछ कह रहे थे कि अत्यंत दुःखी होकर राम के वन चले जाने के पश्चात् बुद्धिमान् भरत कैसे राज्य करेंगे ? कुछ सीता की प्रशंसा कर रहे थे कि कोमलगात्री, भूमि-सुता को पति ने यही (अयोध्या में ही) क्यों नहीं छोड़ दिया ? कुछ आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसे पुत्र को वन जाते हुए देखकर न जाने कौसल्या कैसे धैर्य रख सकी ? इस प्रकार, कहते हुए सभी लोग शोक-संतप्त मन से रथ के पीछे-पीछे जाने लगे ।

कौसल्या तथा सुमित्रा अत्यंत दुःख के प्रवाह में डूबी हुई (उनके पीछे) जा रही थी । उनके हाथों का सहारा लिये हुए, झुके हुए, दुःख से लड़खड़ाते महाराज दशरथ, रत्नवास की स्त्रियों के साथ अविरल अश्रु-जल से भरे नेत्रों से, 'हे राम ! हे राम !' का आर्त्तनाद करते हुए अतःपुर से बाहर निकले । तब रवि का प्रकाश मंद पड़ गया और अंधकार चारों ओर से आकाश में व्याप्त होने लगा । अग्नि ने अपना सहज दहन-गुण त्याग दिया । पृथ्वी में दरारें पड़ गईं । नक्षत्रों का प्रकाश मंद पड़ गया । आकाश में ग्रह एक दूसरे से टकरा गये । हाथियों का मदजल सूख गया । अश्वों की आँखों से अश्रु टपकने लगे । छोटे, बड़े, बूढ़े, बच्चे, सभी की विलाप-ध्वनि सारे आकाश में व्याप्त हो गई । सुर-लोक की कामिनियों का अत्यधिक आर्त्तनाद नगर-निवासियों को सुनाई पड़ने लगा ।

तब दशरथ ने अश्रुपूरित नेत्रों से रथ की ओर देखा, मगर उन्हें कुछ भी दृष्टि-गोचर नहीं हुआ । तब वे उच्च स्वर में चिल्लाने लगे—'हे सुमत्र, रथ लौटा लाओ । रामचंद्र का चंद्रबिंब-सदृश मुख एक बार देखने दो ।' इस तरह नगर के बाहर भी शीघ्र गति से आनेवाले महाराज को देखकर रामचंद्र सुमंत्र से बोले—'वह देखो, सूर्यवंशाधिप आ रहे हैं । रथ की गति तीव्र कर दो । शीघ्रता करो ।'

उनकी आज्ञा के अनुसार सुमंत्र ने रथ की गति तीव्र कर दी । तब वसिष्ठ राजा से मन-ही-मन दुःखी होते हुए बोले—'हे अनघ, इस प्रकार दुःखी होकर तुम्हें (अपनी संतान को) भोजना नहीं चाहिए । यहाँ से अब तुम लौट चलो ।' तब दशरथ रुक गये और अपने पुत्र के रथ की ओर अपलक दृष्टि से देखते रहे । जब वे आँखों से ओझल हो गये, तब उस रथ की धूलि की ओर देखते रहे । जब वह भी दिखाई नहीं पड़ी तब वे ऊँचे स्वर में—'हा राम ! हा राम !' का आर्त्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिरकर लोटने लगे ।

जब उनकी मूर्च्छा छूटी, तब वे अत्यंत क्रोध-भरी दृष्टि से कैकेयी को देखकर बोले—'तुम्हारी पाप-मंत्रणा से अनभिज्ञ होकर मैं अपने पुत्र-रत्न को खो बैठा । तुम्हारे साथ

विवाह करके मैं पतित हो गया । सब बातों में श्रेष्ठ होते हुए भी मैं अब दीन-हीन हो गया हूँ । मैं सभी की निंदा का पात्र बन गया । जीवन के अंतिम समय में मैंने काकुत्स्थ-वंश की कीर्ति को कलकित किया । हे दुष्टे ! तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, तुमसे वार्त्तालाप तक नहीं करना चाहिए, तुम्हारा मुँह भी नहीं देखना चाहिए ।

इस प्रकार राजा के कहते ही सभी रानियाँ कैकेयी को कोसने लगीं । कैकेयी सब सुनती हुई सिर झुकाये खड़ी रही । दशरथ तब संतप्त-चित्त से अयोध्या नगर में लौट आये । उजड़े हुए-से दीखनेवाले राज-मार्ग में जहाँ-तहाँ ठहरते हुए वे निदान राजभवन में वापस आये । कौमल्या भी रनवास में पहुँच गई और धूलि-धूसरित मुँह से शय्या पर गिरकर लोट-लोटकर विलाप करने लगी । वे पथराई हुई आँखों से चारों ओर देखती थीं और बार-बार 'हा राम ! हा राम !' का आर्त्तनाद करती थी । वे इस प्रकार भगवान् को कोसती हुई, अपने-आपको दोष देती हुई असह्य दुःख का अनुभव करने लगी । वे कह रही थीं—'किंचित् भी दुःख से अनभिज्ञ मेरे पुत्र और पुत्रवधू न जाने अब कितनी दूर पहुँचे होंगे ? न जाने वे कहाँ है ? न जाने उन्हें मन-ही-मन कितना दुःख हुआ होगा ? न जाने वे कैसे वन में निवास करेंगे ? कैसे वे कंद-मूल खायेंगे ?' यों मन-ही-मन वे राम तथा सीता के कष्टों की कल्पना करके अत्यंत दुःखी हो रही थीं । सुमित्रा उनको सांत्वना दे रही थी ।

रामचंद्र थोड़ी दूर जाने के पश्चात्, अपने पीछे आनेवाले नगरवासियों को देखकर बोले—'हे सज्जनो, आप सब लोग अयोध्या लौट जाइए और मेरी विजय की कामना करते रहिए । भरत की आज्ञा का अनुसरण करते हुए आप सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए ।' तब सब लोगों ने एक स्वर से कहा—'हे राम, आप का इस प्रकार कहना क्या आपको उचित है ? जब आप वन-वास करने जा रहे हैं तब हमें भरत की क्या आवश्यकता है ? नगर, भवन, वाहन, सौध, स्त्री आदि हमें क्यों चाहिए ? आप जा रहे हैं, तो हम भी आपके साथ वन में चलेंगे । यदि आप हमें मना करेंगे, तो हम प्राण त्याग देंगे । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।' इस प्रकार सभी प्रजा राम के रथ के पीछे-पीछे चलने लगी ।

इस प्रकार, चलते-चलते संध्या तक वे तमसा नदी के तट पर पहुँच गये । उन्होंने उस रात को वहीं ठहरने का निश्चय किया और संध्या समय की पूजा-वन्दना आदि से निवृत्त हुए ।

राज-प्रासाद में, राजकुमारों के लिए योग्य मृदु शय्या पर शयन करनेवाले मोहना-कार राम ने उस दिन, पेड़ के नीचे, पर्ण-शय्या पर सीता के साथ विश्राम किया । उनके चारों ओर उनकी प्रजा अपने स्त्री-पुत्रों और घर-बार को भूलकर राम के साथ वन जाने का दृढ़ निश्चय करके गाढ़निद्रा में लेट गई । उन्हें नगर लौटाने का कोई और उपाय न देखकर, राम ने अर्द्ध-रात्रि के समय सुमंत्र से प्रजा को भुलावा देकर वहाँ से चल देने की बात उन्हें समझाकर कहा कि रथ तैयार करके ले आओ । रथ के आते ही उन्होंने पहले उसे अयोध्या की तरफ थोड़ी दूर चलाया, फिर उसे लौटाकर तमसा नदी को पार

कराया और तृण तथा शिला-आवृत भूमि पर अत्यंत वेग से उसे चलाने का आदेश दिया । उनका गमन तथा महाराज के आदेश की कथा सुनकर मार्ग के ग्राम-वासी अत्यंत दुःखी हुए और धैर्य तजकर रुदन करने लगे । ऐसे कितने ही ग्रामवासियों का रुदन बार-बार सुनते हुए मार्ग के विविध वन-दृश्यों को सीता को दिखाते हुए, प्राचीन काल में सूर्य-वंश-मणि इक्ष्वाकु को मनु के द्वारा दी हुई भूमि का अवलोकन करते हुए अत्यंत शीघ्र गति से उन्होंने सरयू नदी^१ को पार किया और दूसरे दिन संध्या तक गंगा नदी के तट पर पहुँच गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक इगुदी-वृक्ष के नीचे बड़ी शान्ति के साथ विश्राम किया ।

वहाँ, तमसा नदी के तट पर अयोध्या की प्रजा ने प्रभात के समय उठकर चारों ओर देखा, तो वे संभ्रमित तथा आश्चर्य-चकित रह गये । वहाँ न राम-लक्ष्मण थे, न रथ का कहीं पता था । उनके शोक की सीमा नहीं रही । रथ के पहियों के चिह्न देखकर उन्होंने सोचा कि कदाचित् महाराज की आज्ञा पाकर राम राज्य-भार को वहन करने अयोध्या लौट गये हैं । वे अयोध्या को लौट आये, किन्तु वहाँ भी राम को न देखकर वे शोकाग्नि में तपने लगे और कहने लगे—‘हाय ! राम हमें भुलावा देकर चले गये !’ वे राम की दयालुता, उनकी सत्यनिष्ठा तथा सद्ब्यवहार की प्रशंसा करते हुए उनके वियोग में दुःख का अनुभव करने लगे ।

१८. गुह से राम की भेंट

निषादराज गुह को जब यह समाचार मिला कि राघव गंगा-तट पर ठहरे हुए हैं, तब वह राम-लक्ष्मण की सेवा में कंदमूल-फल आदि खाद्य पदार्थ, सुनहले वस्त्र तथा विविध उपहार लेकर आया और बड़ी भक्ति से उन्हें प्रणाम करके सब वस्तुओं को उनके चरणों में अर्पित करके कहा—‘हे देव, क्या कारण है कि आप राज-पाट छोड़कर वनवास के लिए पधारे हैं ? हे सूर्य-वंश-तिलक, मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आपकी ऐसी दशा क्यों ? जिस दुष्ट ने आपकी यह दशा कर दी है, उस नीच का मैं युद्ध में वध कर डालूँगा ।’

उसकी सद्भक्ति, शक्ति तथा धीर वचनों को सुनकर राघव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे गले से लगाकर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया । सारी कथा सुनने के पश्चात् गुह मन-ही-मन चिंतित हुआ और कैकेयी की करतूत पर दुःख प्रकट करने लगा । उसने दशरथ की सरलता पर खेद प्रकट किया और दशरथात्मजों की दुर्दशा का विचार करके शोक-पीड़ित हुआ । राम अत्यंत स्नेहातुर हुए और आप तथा लक्ष्मण दोनों ने उचित रीति से गुह के दुःख का शमन किया ।

इतने में सूर्यास्त हो गया । राजकुमारों ने संध्या-त्रंदन आदि से निवृत्त होकर गंगा-जल से अपनी क्षुधा शांत की । उसके पश्चात् राम, जानकी तथा लक्ष्मण तृण-शय्या पर विश्राम करने लगे । सूत (सुमंत्र) तथा श्रृंगवेरपुर का स्वामी गुह उनकी सेवा में लगे रहे ।

१. सरयू नदी तो अयोध्या से उत्तर होकर बहती है और फिर बिहार में प्रवेश करती है । राम दक्षिण की ओर चले थे, उन्हें सरयू नदी कैसे मिलती ? वाल्मीकि ने गंगा के निकट पहुँचने के पहले राम को वेदश्रुति और गोमती नदी को पार उत्तरवाया है ।—सम्पादक

लक्ष्मण ने चौदह वर्ष तक अपने भाई की रक्षा में संलग्न रहने के उद्देश्य से दिन-रात कभी नहीं सोने की प्रतिज्ञा की और धनुष-बाण धारण किये अपने भाई की शय्या से थोड़ी दूर पर खड़े हो गये। उस रात को निद्रा देवी स्त्री का रूप धारण करके आई और लक्ष्मण से बोली—‘हे मानधनी, मैं निद्रादेवी हूँ। विधि के निर्देश का पालन तो मुझे करना ही होगा। आप मेरे लिए क्या व्यवस्था देते हैं, जिससे मैं आपको छोड़कर चली जाऊँ?’

तब लक्ष्मण बोले—‘तुम दिन-रात ऊर्मिला पर हावी होकर रहो। अवधि पूरा करके मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा।’ उनका आदेश शिरोधार्य करके निद्रा चली गई और लक्ष्मण भी निद्रा देवी की कृपा प्राप्त करके संतुष्ट हो गये।

उसके पश्चात् लक्ष्मण ने सुकुमार यौवन-शोभा-संपन्न तथा धीरचेता राम एवं सीता के दुःख का वृत्तांत गुह को कह सुनाया और कहा—‘हंस-तूलिका-तल्प (हंसों के पंखों से बनाई हुई कोमल गद्दी) पर शयन करनेवाले (भोगी) आज खुरदरे पत्थरों पर बिछी पल्लव-शय्या पर पत्थरों के चुभते रहने से परेशान होते हुए किसी तरह गाढ़ निद्रा में खरटि भर रहे हैं।’ इसके पश्चात् उन्होंने गुह को माता कौसल्या और सुमित्रा के शोक का वृत्तांत सुनाया और दोनों अत्यंत शोकमग्न हो गये।

इतने में अरुणोदय हुआ। राघव ने निष्ठा से प्रातःकाल के सब विधि-विधान पूरा किये। उसके पश्चात् उन्होंने गुह के द्वारा बट का दूध मँगाया, लक्ष्मण तथा अपने कोमल तथा दीर्घ केश खोलकर उन्हें उस दूध से जहाँ-तहाँ भिगोकर उनकी जटाएँ बनाई। वैदेही विवश तथा क्षुब्ध हो देखती रही। फिर अनुज के साथ राम ने बड़ी निष्ठा से वैखानस-वृत्ति (वानप्रस्थ की एक शाखा) ग्रहण की।

तत्पश्चात् राम ने सुमंत्र को पास बुलाकर कहा—‘हे सुमंत्र अब हमें रथ पर चढ़ना नहीं चाहिए। अतः, तुम रथ को लेकर अयोध्या को लौट जाओ और राजा की सेवा में प्रवृत्त हो जाओ। महाराज को तथा माताओं को हमारे प्रणाम कहना। तब सौमित्र ने क्रोध से कहा—‘अब भी ऐसी बातें क्यों? (शांतिपूर्ण वचन क्यों?)’ उनसे मेरी ओर से कहना कि अपनी स्त्री की प्रेरणा से उन्होंने नीति-भ्रष्ट होकर, किसी बात का विचार किये बिना ही हमारी ऐसी दशा कर दी। अब वे अपनी स्त्री तथा प्रिय पुत्र के साथ राज-भोग का अनुभव करें। अब तुम जा सकते हो।’ लक्ष्मण की बातों से अप्रसन्न होकर राम ने कहा—‘सौमित्र, तुम अपनी बातें बन्द करो।’ और, सुमंत्र को संबोधित करके कहा—‘तुम ये बातें राजा से मत कहना। यदि वे ये बातें सुनेंगे, तो और अधिक दुःख से पीड़ित होंगे।’ तब सुमंत्र ने अत्यधिक शोक-संतप्त तथा अत्यंत भीत होकर कहा—‘हे देव, आपको वन में छोड़कर मैं दीन की तरह अयोध्या कैसे जाऊँ? मैं प्रजा से यह समाचार कैसे कहूँ? मैं यह रिक्त रथ किस मुँह से ले जाऊँ? कौसल्या को मैं कैसे सांत्वना दूँ? कौकयी का मुँह मैं कैसे देखूँ? नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता। मैं भी आपके साथ चलूँगा।’

तब राम हँसकर बोले—‘हमने गंगा पार करके वन में प्रवेश किया है, यह समाचार तुम जब जाकर कौकयी से कहोगे, तभी वे उसे सत्य मानेंगी। इसलिए तुम शोक न

करके लौट जाओ । मेरे बदले तुम राजा को बार-बार धैर्य देते हुए, उनकी सेवा करते रहना ।' तब अत्यंत दीन होकर सुमंत्र साकेत नगर के लिए रवाना हुए ।

१९. राम का गंगा पार करके वन में प्रवेश करना

राधव ने बड़ी भक्ति के साथ मन-ही-मन अयोध्या नगर को प्रणाम किया और गुहू की लाई हुई नाव में बैठकर गंगा पार करने लगे । बीच धारा में पहुँचने पर सीता ने गंगा नदी को भक्ति के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी—'हे माता गंगे ! दशरथ नृप की आज्ञा से राज त्यागकर दुर्दशा को प्राप्त मेरे पति घोर कानन में चौदह वर्ष तक निवास करने जा रहे हैं । मैं उनके साथ भ्रमण करती हुई (अवधि-समाप्ति पर) यदि राम-लक्ष्मण के साथ सकुशल लौट आऊँगी, तो आपकी सेवा में असंख्य गायें, वस्त्र, मिष्टान्न आदि विविध चढ़ावें समर्पित करूँगी और भूसुरों को दान दूँगी ।' इस प्रकार उन्होंने भव-भंग (संसार के पापों का नाश करनेवाली) धवलांग (धवल शरीरवाली) भवमौलिसंग (शिव के जटाजूट में निवास करनेवाली) गंगा की प्रार्थना की ।

गंगा नदी पार करने के पश्चात् राम ने गुहू का आभार मानकर उसे विदा किया और उसके बताये हुए मार्ग से सीता को बीच में करके आगे-आगे लक्ष्मण तथा पीछे-पीछे स्वयं चलने लगे । इस प्रकार तीन योजन का मार्ग तय करके सुधर्मद नामक सरोवर के निकट पहुँचकर उस दिन वहीं ठहर गये । उस भयंकर कानन में अकेली सीता को सोती हुई देखकर, अपनी वशा, अपनी माताओं का शोक, कैकेयी की इच्छा की पूर्ति, महाराज की सत्य-निष्ठा, प्रजा का दुःख—इन सब के बारे में अपने अनुज से कहते हुए रामचन्द्र की आँखों से अश्रु बहने लगे ।

रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात होने ही राधव वहाँ से रवाना हुए और तीन योजन चलकर पवित्र गंगा तथा यमुना के संगम-स्थल पर प्रयाग पहुँचे । वहाँ निवास करनेवाले मुनिलोक-वंद भरद्वाज मुनि को देखकर राम ने उन्हें प्रणाम किया और सारा समाचार उनसे निवेदन किया । उस तपोधन ने रघुवंशज उन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिये, रघुराम की सुशीलता पर आश्चर्य प्रकट किया और तथ्य को जान गये । उन्होंने कंद-मूल-फल आदि से उन्हें संतुष्ट करके बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया । वहाँ उन्होंने बड़े आराम से रात बिताई और प्रातःकाल ही बड़ी निष्ठा से संध्योपासना करके मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त किये । इसके पश्चात् पुण्यात्मा भरद्वाज से अनुपम चित्रफूट पर्वत का मार्ग जानकर वे वहाँ से विदा हुए । वन के बीच राम अपने धनुष की टंकार-मात्र सुनकर भागनेवाले मृग-समूहों को सीता को दिखाते हुए उनका मनोरंजन करते जाते थे । जब वे थक जाते या सीता थक जाती थी, तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाते और फिर चल पड़ते । इस प्रकार कई दुगम स्थलों को पार करके वे यमुना के तट पर पहुँच गये । यमुना को पार करत ही उन्होंने सिद्ध-वटवृक्ष (अक्षय वट) को देखा । सीता ने बड़ी भक्ति से अपनी कायसिद्धि-हृत् हाथ जोड़कर उस वृक्ष की प्रार्थना की । वे उस रात को वहीं ठहर गये । और, दूसरे दिन घोर जंगलों में सुरक्षित मार्ग से होते हुए उन्होंने माल्यवती से धिरेकर,

श्रेष्ठ संयमी मुनियों के निवास-स्थान से होते हुए सुललित तरु-लताओं के समूह से भरे चित्रकूट को देखा । उस पर्वत पर निवास करनेवाले तपोधन मुनियों को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और उनसे उचित आदर-सत्कार प्राप्त किया । फिर, उनकी आज्ञा प्राप्त करके गम और उनके अनुज दोनों ने एक स्थान पर बड़े उत्साह से पेड़ों की शाखाओं को काटकर अनोखी पर्णशाला बनाई । एक काले हिरन का वध करके गृह-शान्ति तथा हवन-आदि विधिवत् पूरा किये । उसके पश्चात् राम और सीता ने उस पर्णशाला की प्रशंसा करते हुए उसमें प्रवेश किया और मुनियों की प्रशंसा प्राप्त करते हुए उनकी चरित्र-चर्चाओं में आनंद लेने हुए वहाँ रहने लगे ।

२०. काकासुर-वृत्तांत

एक दिन सीता की जाँघ पर सिर रखे राम सोये हुए थे । सीता भोजन के लिए कंद-मूल-फल आदि तैयार कर रही थी । तब निर्भय गति से एक दुष्ट कौआ पर्णशाला में प्रवेश करके उसका नाश करने लगा । सीता ने उसे भगाने का प्रयत्न किया, फिर भी वह भागा नहीं । वह इधर-उधर देखकर अंत में सीता के स्तन पर बैठकर चोंच मारने लगा । जब रक्त की धारा बहने लगी, तब राम जाग पड़े । उस दुष्ट कौए की करतूत पर क्रुद्ध होकर राम ने उस पर एक बाण चलाया । उसने कौए का पीछा किया । कौआ काँव-काँव करता हुआ (उस बाण से बचने के लिए) तीनों लोकों का चक्कर काटने लगा । मगर कहीं कोई रक्षक नहीं मिला । उसने दिक्पाल, ब्रह्मा तथा शिवकी शरण माँगी । किन्तु उन्होंने कहा— 'यह श्रीराम का शर है । इसे हम रोक नहीं सकते ।' तब वह कौआ फिर राम की शरण में आया । तब अत्यंत कृपा से उस कौए को देखकर राम ने कहा— 'मेरा बाण कभी खाली नहीं जायगा । अतः तुम अपना कोई अंग उसे देकर अपनी जान बचाओ । तब कौए ने बड़ी भक्ति से अपनी एक आँख उस अस्त्र को भेंट की और वहाँ से चला गया । तब राम ने देवताओं को सीता के तैयार किये हुए फल आदि का भोग चढ़ाया और उसके पश्चात् सब लोगों ने उन फलों को ग्रहण किया ।

२१. सुमंत्र का अयोध्या पहुँचना

वहाँ सुमंत्र राम की गति-विधि जानने के लिए तीन दिन तक गुह के साथ रहे । फिर दूसरे दिन उन्होंने घोर दुःख से पीड़ित होते हुए अयोध्या नगर में प्रवेश किया । सहज श्री से हीन उस राज-मार्ग में जब वह जाने लगा, तब नगरवासी रथ की ध्वनि सुनकर यह कहते हुए सुमंत्र के पास आये कि देखो, रामभद्र आ गये हैं । किन्तु रथ में रघुराम को न देखकर वे सुमंत्र से कहने लगे— 'हे क्रूरकर्मी, राम के विना यह रिक्त रथ यहाँ क्यों लाये हो ?' इस प्रकार लोगों की भीड़ एकत्रित होकर उनकी निंदा करने लगी । सुमंत्र उन्हें रामचन्द्र का वृत्तांत सुनाते हुए राजा के अंतःपुर के निकट आ पहुँचे । वहाँ रथ से उतरकर वे राजा के निवास की ओर गये । उन्होंने धूलि-धूसरित शरीर तथा अश्रु-पूरित नयनों से, मन-हीन-मन कुड़नेवाले राजा को अविरत दुःख से अभिभूत होकर कौसल्या के घर में पड़े और विलाप करते हुए देखा । उन्होंने राजा को प्रणाम

करके कहा—‘हे राजन्, आपके पुत्र-रत्न सत्यनिष्ठ राम तथा लक्ष्मण, दोनों ने जटाएँ धारण किये, गंगा को पार किया और पैदल चित्रकूट पर्वत की ओर चले गये हैं।’

इन वचनों को सुनकर राजा अत्यधिक शोक करने लगे। उन्होंने सुमंत्र को अपने निकट बुलाकर अपने पुत्र का समाचार विस्तार-पूर्वक जान लिया और उसके पश्चात् बोले—‘हे अन्ध, सुमन्त्र, हे मतिमान्, तुम्हारे कारण मैं अपने रामभद्र का कुशल-समाचार जान पाया। नेत्रों का दुःख तथा मन का शोक दूर करनेवाले उसे (राम को) जी भरकर देखे बिना मेरे ये प्राण शरीर में रहते नहीं दीखते। तुम मुझे राम के पास ले चलो।’ तब सुमंत्र बोले—‘राजन्, यदि आप श्रीराम के पीछे जायेंगे, तो प्रजा को दुःख होगा और कैकेयी आपकी निंदा करेगी। अतः यह आपके लिए उचित नहीं है।’ हे मानवेंद्र, आप इतना दुःख मत कीजिए, धैर्य धारण कर धर्म का पालन करते हुए पुण्यवान् बनिए। समस्त दुःख भूलकर बिना किसी अभाव का अनुभव किये आपके पुत्र कानन में सुख-पूर्वक रहते हैं।’

इसके पश्चात् सुमंत्र ने लक्ष्मण के वचन राजा को सुनाये, तो राजा अत्यधिक ग्लानि का अनुभव करते हुए बोले—‘सौमित्र के वचन सत्य है। मैं वैसा ही कामांध हूँ। क्रूर-कर्मी तथा पापी हूँ।’ इस प्रकार कहते हुए राजा ने सुमंत्र को भेज दिया और स्वयं मन-ही-मन कूढ़ने लगे। उन्हें देखकर कौसल्या बोली—‘हे राजन्, अब हे राम, हे राम, का आर्त्तनाद करते हुए चिंतित क्यों हो रहे है? क्यों ऐसा स्वांग भरते है? इस तरह शोक का अभिनय क्यों कर रहे है? क्या मैं सब बातें नहीं जानती? लोक-निंदा के भय से आपने स्वयं कैकेयी को सारी बानें सिखा दी थी। फिर अपने राम का राज-तिलक करके उसे समस्त पृथ्वी का पालन कराऊँगा, ऐसी घोषणा करके आपने उसे वन भेज दिया है। आप महादुष्ट हैं। आप का भी कोई धर्म है? निंदा के भय से आपने मेरे पुत्र का राज-तिलक रोकने के लिए उसे वन भेज दिया है। निस्सकोच होकर यदि कैकेयी राम का वध करने के लिए भी कहे, तो आप उसका वध भी कर देंगे। बहुत समय तक संतानहीन होकर मैं दुःखी रहती थी। निदान कितने ही जप-तप और व्रतों के उपरांत मैंने इस इकलौते पुत्र को प्राप्त किया था और इससे मेरा चित्त कुछ शांत हुआ था। आपने मुझे शांत रहने भी नहीं दिया।’

इस प्रकार निंदा करनेवाली कौसल्या को देखकर राजा अपनी पूर्व-कथा उन्हें सुनाने का विचार करके बोले—‘हे कौसल्ये ! तुम जो कुछ कह रही हो वह सत्य ही है। मैं निश्चय ही पापकर्मी हूँ। अब बहुत समय तक मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, इसलिए चिढ़ा-चिढ़ाकर मुझे मत मारो। मैंने जो पाप-कर्म पहले किये थे, वे वैसे ही नहीं टलेंगे। देवताओं को भी अपने कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। मैं अपनी एक कथा सुनाऊँगा। तुम उसे सुनो।’

२२. दशरथ का कौसल्या को अपने शाप का बृत्तांत सुनाना

‘यह मेरी युवावस्था की बात है। मैं सारे राज्य पर शासन करता था। एक दिन अर्द्धरात्रि के समय मैं मृगया की इच्छा से धनुष-बाण लिये सरयू नदी के किसी अनुपम

घाट के निकट झाड़ियों में छिपा बैठा था। विविध मृग-समूहों के पानी पीने का शब्द मुझे सुनाई पड़ने लगा। जैसे-जैसे शब्द सुनाई पड़ने लगा, वैसे-वैसे मैंने शब्दवेधी बाण चलाकर उनका वध कर डाला। मैं इससे संतुष्ट न होकर वही ताक में बैठा रहा। उस समय यज्ञदत्त नामक एक मुनि-पुत्र वहाँ आया और अपना जल-कलश पानी में डुबोया। कलश के डूबने से जो 'गद्गद्' की ध्वनि सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मुझे भ्रम हुआ कि वह कोई मत्त गज है। नुरन्त मैंने (शब्दवेधी) बाण चलाया। उस तीव्र शर के लगते ही—'हे पिता, हे माता, का आर्त्तनाद मेरे हृदय को चीरकर निकल गया। वह मुनि-पुत्र पृथ्वी पर गिरकर कहने लगा—'हाय, मैं वनों में कन्द-मूल-फल खाते हुए तपस्वी का जीवन व्यतीत करने, अपने माता-पिता की सेवा करता रहता हूँ। मैंने किसी का अहित नहीं चाहा। मुझे ऐसी घोर मृत्यु क्योंकर प्राप्त हुई? कोई पापी रात के समय, रति-केलि में प्रवृत्त मृगों का वध नहीं करता। कौन है वह मदांध, जिसने अर्द्ध-रात्रि के समय मुझपर बाण चलाया है। न जाने उसकी क्या दुर्गति होगी? अब मेरी मृत्यु को वह कैसे रोक सकेगा? हाय मेरे अंधे, दीन तथा वृद्ध माता-पिता इस पुत्र-शोक को कैसे सह सकेंगे? 'रात अधिक बीत गई है, अकेले गया हुआ है, उसके आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है'—ऐसे सोचती हुई न जाने मेरी माता कितना दुःख करती रहेगी? मेरे पिता मेरे नहीं लौटने का समाचार मेरी माता से कहकर न जाने शंकाकुल मन से कितने व्याकुल होते होंगे? वे सोचते होंगे कि बाल-सुलभ-कौतुक में व्यस्त, हमारा पुत्र अभी तक लौटा नहीं है। या सोचते होंगे कि शायद जल लाने में असमर्थ होकर वह वहीं रह गया है। यदि वे मेरी मृत्यु का समाचार सुन ले, तो न जाने उनकी क्या दशा होगी? उन्हें कौन जल ले जाकर देगा? उनकी रक्षा आगे कौन करेगा? हाय, इस एक शर से हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो गई। विधि के क्रूर विधान को मैं क्या दोष दूँ?'

"उस मुनि-पुत्र का आर्त्तनाद सुनकर मैं अत्यंत क्षोभ-युक्त हो, उस महापुरुष को देखने की तीव्र उत्कंठा लिये हुए अंधकार के दूर होने की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में उस वनधि (वन) में मेरी शोक-वनधि (शोक-समृद्ध) उमड़ते हुए चंद्रोदय हुआ। तब मैंने सरयू नदी को पार किया और उत्तर की दिशा में दूढ़ने लगा। वहाँ मैंने एक स्थान पर मुनि-कुमार को अपने हाथ में जल-कलश को नीचे रखकर अपना कपोल कलश के मुँह पर टेककर पड़े हुए पाया। उसके वक्ष तथा पीठ से बहनेवाली रक्त-धाराओं से सारा शरीर भीग गया था। उसकी शिखा खुल गई थी और अत्यधिक पीड़ा से उसका मुख काँति-हीन हो गया था। शर के भीतर प्रवेश करने से वह इस प्रकार पड़ा हुआ था, जैसे कोई योगी आत्मचिंतन में लीन हो और वह दैहिक व्यापारों को रोक, इंद्रियों की गति का दमन करके अंतिम योग-क्रिया में विस्मृत होकर पड़ा हो।

"उस सुंदर आकृतिवाले मुनि-कुमार को तथा अपने बाण को देखकर मैं धबड़ा गया। तुरंत मैंने नदी से जल लाकर उस मुनि-कुमार की आँखें पोंछी तथा उसके सारा शरीर पोंछ-डाला और फिर बहने लगा—'हाय मुनिनाथ! प्रमाददश मेरे शर ने आपका वध कर डाला। इस नदी में जल के लिए आप क्यों आये? मैं अब इस पाप से कैसे मुक्त होऊँगा?'

“इस प्रकार मैं अपना दुःख प्रकट कर रहा था कि मुनि-कुमार ने आँखें खोलीं । उसने अपनी ओर, फिर मेरी ओर देखा, और मेरे भय को देखकर कहा—‘हे राजन् ! आप क्या करेंगे ? आप क्यों दुःखी होते हैं ? मुझे मारने की शक्ति आपमें कहाँ है ? दैवयोग से ही मेरी ऐसी गति हुई है । इसके लिए आप क्यों शोक करते हैं ? आपने तो हाथी समझकर बाण चलाया था । जान-बूझकर तो नहीं चलाया । ब्रह्म-हत्या का दोष भी आपको नहीं लगेगा ; क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ । मैं वैश्य-पिता और शूद्र-माता से उत्पन्न हुआ हूँ । मेरी मृत्यु देखकर आप विचलित मत होइए । आप मेरे माता-पिता को मेरी मृत्यु का संवाद न भी दें, तो भी वे योग-दृष्टि से सभी बातें जान लेंगे । तब यदि वे क्रुद्ध होकर आपको शाप देंगे, तो उससे रघुकुल का क्षय हो सकता है । हे राजेन्द्र, इस पहाड़ के निकट, पश्चिमी कोने में एक वटवृक्ष है । उसी वटवृक्ष के पास मैं एक काँवर में बिठाकर बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा-शुश्रूषा में लगा रहता हूँ । आज रात भी मैं उन्हें उस वृक्ष के कोटर में बिठाकर आया हूँ । आप शीघ्र इस कलश का जल लेकर वहाँ जाइए और उन्हें सावधानी से नीचे उतारकर निर्भय होकर उन्हें सारा वृत्तान्त सुनाइए । हे राजन् ! इस अस्त्र के साथ मेरी मृत्यु अनुचित है । इसलिए धीरे-धीरे यह बाण निकाल दीजिए । शरीर की पीड़ा अब मुझसे सही नहीं जाती । मेरे प्राण अब नहीं रहेंगे ।’

“मुनि कुमार के इन वचनों को सुनकर मैं धीरे-धीरे उनके निकट पहुँचा । अत्यधिक आत्म-म्लानि से पीड़ित होते हुए मैंने उस शर को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, किन्तु भय से मेरा हाथ रुक गया । फिर साहस बटोरकर काँपते तथा दुःखी होते हुए मैंने उस शर को निकाल दिया । उसी क्षण मुनिकुमार की मृत्यु हो गई ।

“मन-ही-मन दुःखी होते हुए मैं जल-कलश लेकर मुनि के आश्रम में पहुँच गया और वहाँ अपने सुत की प्रतीक्षा करते हुए पर-कटे पक्षियों की तरह पड़े हुए वृद्ध तथा अंधे पुण्यात्माओं को देखा । निकट सुनाई पड़नेवाली आहट सुनकर मुनि कहने लगे—‘हे पुत्र, इस प्रकार कहीं विलम्ब किया जाता है ? मैं तुम्हारी माता के साथ यही मोच रहा था कि इतना विलम्ब करने का क्या कारण है ? क्या तुम एक ही स्थान में इतने समय तक ठहर सकते हो ? तुमने कहाँ इतनी देर लगाई ? तुम्हीं तो हमारी आँखें हो । हम अत्यंत वृद्धों के लिए तुम्हीं आधार हो । हम गतिहीनों के लिए तुम्हीं सद्गति हो । भ्रष्टा, तुम झीलते क्यों नहीं ? मैंने तुम्हें कहा ही क्या है ? हे पुत्र, मैं तो केवल जल माँग रहा हूँ ।’

“मुनि के ये वचन मेरे मन के भय और शोक को बढ़ाने लगे । मैंने शीघ्र वृक्ष पर चढ़कर काँवर नीचे उतारा और अत्यंत दीन होकर थर-थर काँपते हुए, एक क्षण तक इस दुविधा में पड़ा रहा कि सारा समाचार कहूँ या न कहूँ । फिर यह सोचकर कि किसी भी तरह मुझे कहना ही पड़ेगा, मैंने गद्गद स्वर से कहा—‘हे उत्तम तपस्वी, मैं राजा दशरथ हूँ । मैं आपका पालक हूँ, पुत्र नहीं हूँ । मैंने आज एक ऐसा नीच कर्म किया है, जिसे सुनकर नीच व्यक्ति भी मेरी निंदा करेंगे । किसी भी युग में किसी और ने जो पाप नहीं किया होगा, वैसा पाप करके मैं आज आपके पास आया हूँ । मैं कैसे कहूँ ? विधि ने

ही मुझसे ऐसा दुस्साहस करने के लिए प्रेरित किया है। सरयू नदी के तट पर मैं अँधेरी निशा में मृगया के लिए गया था और मृगों के आने के स्थान के पास छिपकर उनकी आहट सुनकर उनपर शब्दवेधी बाण चलाकर उनका शिकार करता था। संयोग की बात, उसी समय आपके पुत्र ने नदी के प्रवाह में जल के लिए कलश डुबोया। उसकी ध्वनि सुनकर मुझे हाथी का भ्रम हुआ और मैंने बाण चला दिया। हे अनघ, मेरे उस शक्ति-शाली बाण ने आपके पुत्र के प्राण हर लिये।'

“इतना सुनना था कि मुनि का हृदय धक्से रह गया और वे मूर्च्छित हो गये। मुनि-पत्नी 'हाय पुत्र !' कहकर भूमि पर निश्चेष्ट हो गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद मेरा विलाप सुनकर उनकी मूर्च्छा छूटी, तो उन्होंने मुझे देखकर कहा—‘हे दशरथ ! तुमने हमको शोकाग्नि में जलाने के लिए हमारे पुत्र को कहाँ छिपा रखा है ? वन में तपस्या करते हुए हम अंधे तथा वृद्ध को मारकर तुमने घोर पाप किया है। तुम्हारा बाण लगते ही न जाने हमारे पुत्र ने क्या कहा होगा ? कौन जाने कि उस हृदय-पीड़ा से उसके प्राण निकल गये या अभी तक वह तड़प रहा है। क्या मृत्यु का कोई कारण नहीं होना चाहिए क्या बाण बिना कारण ही मुनि-पुत्र के प्राण हर सकता है ? वानप्रस्थ-आश्रम में जीवन व्यतीत करनेवालों का वध, चाहे इन्द्र भी करें, तो उसका भी नाश हो जाता है, तो राजा की क्या गिनती ? हे राजन्, तुमने अनजान में हमारे पुत्र का वध किया है, इसलिए तुम पर क्रोध करना उचित नहीं है। अपने पुत्र को देखे बिना हमारी शोकाग्नि शांत नहीं होगी। हमें अपने पुत्र के पास ले चलो।’

“इस प्रकार शोक-विह्वल उन वृद्ध तपस्वियों को ले जाकर उन्हें उनके पुत्र को दिखाकर मैंने कहा—‘यही आपका पुत्र है। मुनि-पत्नी हाथों से टटोलते हुए कहने लगी, ‘कहाँ है वह दयालु, उदार और विमलचेता ? कहाँ है वह तपोधन तथा पुण्यवान् ? कहाँ है वह विद्वानों की प्रशंसा के योग्य अन्वरणवाला ? कहाँ है वह सतत वेदाध्ययन में तत्पर ?’ यों कहती हुई वह अपने पुत्र पर गिरकर विलाप करने लगी। फिर उन्होंने उसे अपनी गोद में लिटाकर उसके भीगे हुए केशों पर सिर रखकर रोती हुई कहने लगी—‘हे विमलात्मा, हे यज्ञदत्त, हे सदाचरणवाले, हे धर्म-निपुण, तुम हमसे कहे बिना कभी कहीं नहीं जाते थे। आज तुमने ऐसा क्यों किया ? आज स्वर्गलोक की यात्रा के लिए जाते समय तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा ? हे मेरे वंश-तिलक ! मैं बड़ी पापिनी हूँ। अर्द्ध-रात्रि के समय मैंने तुमसे (जल के लिए) जाने को कहा। गुरुजनों की भक्ति में संसार में अद्वितीय पुत्र को मैंने खो दिया। मेरे लिए अब तपस्या किसलिए ? तुम्हारे साथ परलोक जाने में ही मेरी सद्गति है। कहाँ तीक्ष्ण बाण और कहाँ तुम्हारे प्राण ? कहाँ राजा दशरथ और कहाँ तुम ? हाय ! अन्त में तुम्हारे कर्म-फल ने इन सबका संयोग करके तुम्हारे प्राण ले लिये हैं।’

“शोक-संतप्त माता के इस तरह के आर्त्तनाद को सुनकर मुनि अपने पुत्र पर गिरकर कहने लगे—‘हाय पुत्र ! तुम तो मेरे पास आकर मेरी सेवा करते थे। आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तो भी तुम मेरी सेवा-शुश्रूषा नहीं करते हो, क्या तुम्हें यह उचित है ?’

इस बाण से जो घाव तुम्हें लगा, उसके द्वारा क्या तुम्हारा सारा निर्मल गुण-समूह निकल गया ? मैं अब किसे वेद पढाऊँगा ? किसे अब शास्त्र समझाऊँगा ? किसे धर्म सुनाऊँगा ? काव्य किसे समझाऊँगा ? हमारी आवश्यकता पहचानकर हमें कौन फल तथा जल लाकर देगा ? मैंने सदा तुम्हें चिरायु रहने का ही तो आशीर्वाद दिया है ? कब मैंने वज्रसम शक्तिशाली बाण से तुम्हारी मृत्यु की कल्पना की थी ? हे पुत्र, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, तो मैं यम से भी पुत्र-भिक्षा देने की प्रार्थना करूँगा । ससार की यही रीति है कि पुत्र अपने माता-पिता के परलोक-संबन्धी क्रिया-कर्म करते हैं । आज विधि ने उस क्रम को उलट दिया और तुम्हारे क्रिया-कर्म करने के लिए हमें नियोजित किया । जबतक तुम रहे, तुमने बड़ी भवित से हमारी सेवा करके हमारी रक्षा की । हे पुण्यचरित्र ! मैं किस युग में तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करूँगा ? तुम पाप-रहित हो, श्रेष्ठ तपोनिधि हो, गुरुभक्त, परमार्थी, आर्य, धर्मनिष्ठ, दानी, पर-दुःखनिवारण करनेवाले, अन्न आदि महादान करनेवाले जो पुण्य लोक प्राप्त करते हैं, वही तुम भी प्राप्त करो ।’

“इस प्रकार शोक करते हुए उन्होंने अपने पुत्र का यथाविधि अग्नि-संस्कार किया । यज्ञदत्त ने देवताओं के विमान में आरूढ हो आकाश की ओर प्रस्थान करते हुए कहा— ‘हे गुरुजनो, मैंने स्वर्गलोक का भोग प्राप्त किया है आपकी सतत सेवा करते हुए पुण्यवान् हुआ हूँ । अब मेरी मृत्यु का आप शोक मत कीजिए । जिस समय जो होना चाहिए, वह हुए बिना नहीं रहता । होनहार होकर ही रहता है । आप इन पर (राजा पर) क्रोध न कीजिए ।’ इस प्रकार कह उसके स्वर्गलोक चले जाने के बाद, उन्होंने पुत्र-प्रेमजर्ज्र दुःख से प्रेरित होकर मुझे शाप दिया—‘हे-राजन् ! - लो, हम पुत्र-शोक से मर रहे हैं, तुम भी हमारे समान ही पुत्र-शोक के कारण मृत्यु को प्राप्त करोगे ।’ इस प्रकार, कहकर उन्होंने वही अपने प्राण छोड़ दिये ।”

२३. दशरथ का स्वर्गवास

‘यही मेरा कर्म-फल है, जिसे भोगने का समय आसन्न है । अग्नि-सम पवित्र उन तपस्विनों का अग्नि-संस्कार करके मैं नगर में लौट आया । मेरा धैर्य छूट गया है । मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, कंठ सूख रहा है, आँखें देखने में असमर्थ हो रही हैं, दूसरे के शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, अब मेरे प्राण रोकने पर भी इस शरीर में नहीं रुकेंगे । मेरे लिए कल्पतरु, बुद्धिमान्, पराक्रमी, गुणवान्, मेरा भाग्य-प्रद, शुभ-गुण-सयुक्त राम को इस समय मैं नहीं देख पा रहा हूँ । आज सात दिन हुए, मैंने राम को नहीं देखा । राम को छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ ?’ इस प्रकार ‘हा राम ! हा राम !’ का आर्त्तनाद करते हुए दशरथ का स्वर्गवास हो गया ।

शोक से अत्यधिक पीड़ित होकर राजा सो गये हैं, ऐसा सोचकर कौसल्या भी सो गई । प्रभात होते ही वदी तथा मागध स्तुति-पाठ करने लगे, मंगल-वाद्य बजने लगे और नगर-निवासी एकत्रित होकर राजा के दर्शनार्थ उत्कठा से प्रतीक्षा करने लगे । प्रतिदिन की तरह राजा अबतक जगें क्यों नहीं, यह सोचते हुए परिचारक राजा की शय्या के निकट गये और राजा को सोई हुई दशा में देख उन्हें कुछ भय हुआ । लंबी साँस भरते हुए

‘उन्होंने’ राजा के हाथ-पैर छूकर देखे । उन्हें अब ज्ञात हो गया कि राजा के शरीर में प्राण नहीं है । तब वे रुदन करने लगे । कौसल्या हड़बड़ाकर उठी, सुमित्रा भी जागकर आई । उन दोनों ने राजा को देखा और ऊँचे स्वर में विलाप करने लगीं—‘हाय प्राणनाथ, हाय महाराज ! आप हमें छोड़कर चले गये ।’ यह विलाप सुनकर कौकैयी दौड़ी हुई आई । दोनों ने सर पीटते हुए कौकैयी को देखकर कहा—‘हाय कौकैयी ! आज तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हुई । तुमने काकुत्स्थ-वंश का सर्वनाश किया । राम को वन में भेजकर अपयश का सहन करते हुए तुमने दशरथ के प्राण ले लिये । आज से तुम अपने पुत्र के साथ समस्त पृथ्वी का उपभोग करो ।’

इस प्रकार, कौसल्या आदि रानियाँ कौकैयी को घेरकर रोने-कलपने लगीं । वह सर भुकाये अत्यधिक शोक से अपने पति के शरीर पर गिरकर कई प्रकार से विलाप करने लगी । कौसल्या की चेतना जब लौट आई, तब उन्होंने कहा—‘हे राजन् ! क्या आप जैसे धर्मात्मा की ऐसी मृत्यु होनी चाहिए ? आपके आदेश का उल्लंघन न करके मैं धोखा खा गई । आपकी सत्यनिष्ठा ने आपकी यह दशा कर दी । अत्यंत क्रूर स्त्री कौकैयी को देखकर और राम के वनवास के दुःख से अभिभूत होकर मैं आपकी उचित परिचर्या न कर सकी । आपकी इच्छा का पालन करते हुए वन में निवास करके राघव महायश का भागी बना । सत्य का पालन करके आपने स्वर्ग-सुख को प्राप्त किया । अब मुझे केवल आप जैसे उत्तम पति को कटुवचन सुनाने का पाप मिला ।’

इस प्रकार, कौसल्या को विलाप करते देख सुमित्रा आदि रानियाँ ऊँचे स्वर में रुदन करने लगी । बात-की-बात में यह समाचार सारे नगर में फैल गया । स्त्रियों के विलाप से सारा आकाश गूँजने लगा । सूर्योदय के होते ही अत्यंत भीत हो राजा के मित्र, नातेदार, सामंत-राजा, वसिष्ठ आदि मुनि, ब्राह्मण तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति, आकर शोक व्यवत करने लगे । वसिष्ठ मुनि मंत्रियों के परामर्श के पश्चात् महाराज दशरथ के शरीर को तेल में डुबोकर मणिमय सिंहासन पर उसे बैठा दिया, मानों वे दरबार में बैठे हुए हों । उसके पश्चात् उन्होंने सामंत राजाओं को तथा मंत्री और राजनीतिज्ञों को संबोधित करते हुए कहा—‘महाराज साम्राज्य का पालन करके सुरधाम चले गये । पिता का वचन पालन करने के लिए राम अपनी स्त्री के साथ वन-वास करने गये । उससे पूर्व ही शत्रुघ्न के साथ भरत अपने मामा के नगर गये हैं । यदि हम रामचन्द्र को बुला भेजें, तो वे नहीं आयेंगे । वे अपने प्रण के पालन में पटु हैं । इसलिए हमें राजकाज को संभालने के लिए भरत को शीघ्र बुलाना चाहिए । राजा के विना कोई भी देश, नगर या राष्ट्र शोभा नहीं देता । दण्डनीति, दान-धर्म आदि की व्यवस्था बिगड़ जायगी । शत्रु प्रबल हो जायेंगे । जार-चोर आदि की वृद्धि होगी । दुर्जन सज्जनों को दुःख देने लगेंगे । सामंत, दुर्ग-रक्षक आदि कर नहीं देंगे ।’

ऐसा निश्चय करके उन्होंने धीमान्, जयन्त आदि चार मंत्रियों को बुलाकर कहा—‘तुम लोग भिन्न-भिन्न वस्त्राभरण लिये हुए वज्रपुर जाओ और भरत को यहाँ की घटनाओं का पता दिये विना सिर्फ इतना कहो कि गृह वसिष्ठ ने आपको लिवा लाने के लिए हमें

भेजा है। तुम उन्हें अपने साथ अवश्य लिवा लाना, शीघ्र जाओ। वे मंत्री घोड़ों पर सवार हो रथ की गति से चलते हुए विभिन्न नगरो, जनपदों, नदियों, काननों, पहाड़ों तथा भाडियों को पार करते हुए केकयराज के नगर में जा पहुँचे। दशरथ की मृत्यु के सातवें दिन रात को वहाँ उन्होंने (भरत और शत्रुघ्न) स्वप्न में देखा कि उनके पिता गोबर तथा कीचड़ से भरे विशाल गढ़े में गिर पड़े हैं। समुद्र सूख गया है, चन्द्र पृथ्वी पर गिर गया है; भद्रगज का एक दाँत टूट गया है। ऐसे दुस्वप्न देखकर वे जाग पड़े और अत्यंत भीत होकर अपने इष्ट-मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत सुनाकर, उसका फल जानना चाहा। इसी समय अयोध्या के दूत वहाँ पहुँचे और भरत को प्रणाम करके साथ लाई हुई भेंट उन्हें देकर अत्यंत विनीत भाव से बोले—‘हे देव, किसी कार्यवश वसिष्ठजी ने आपको शीघ्र लिवा लाने के लिए हमें भेजा है। अतः आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए।’

दूतों के कृत्रिम हाव-भाव देखकर वे और भी भीत हो गए। उन्होंने अपने मामा से सारा वृत्तांत कह सुनाया और सादर उनकी आज्ञा प्राप्त करके रथ पर आरूढ़ हो, मंत्री तथा चतुरगिणी सेना के साथ चल पड़े। अत्यंत वेग से यात्रा करते हुए वे सात दिनों में अयोध्या पहुँच गये।

२४. भरत का अयोध्या में प्रवेश

अयोध्या में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि सारा नगर पतिहीना पत्नी के समान तथा चन्द्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन होकर उजड़ा हुआ दीख रहा है। यह डंग देखकर वे मन-ही-मन व्याकुल होकर सोचने लगे कि आज सारा नगर शून्य-सा लग रहा है। नगर-निवासी मुझे देखकर आँखों से आँसू बहा रहे हैं। मुझसे कतराते हुए जा रहे हैं। क्या कारण है कि दूकानों में कोई भी चीज सजाकर नहीं रखी गई है? यों सोचते हुए अतः पुर के फाटक पर वे रथ से उतर गये और आप और शत्रुघ्न शून्य-से दीखनेवाले अतः पुर में पहुँचे। उनको देखते ही कैकेयी बड़े प्रेम से उनके सामने आई और उन्हें हृदय से लगा लिया। तब उन्होंने बड़ी भक्ति से उनको प्रणाम किया और अपने मामा की दी हुई भेंट उन्हें देकर उनका कुशल-समाचार कह सुनाया। उसके उपरांत भरत ने माता से पूछा—‘हे माता, यह कैसा आश्चर्य है कि सारा अतः पुर वैभवहीन होकर शून्य-सा लग रहा है। राम-लक्ष्मण और महाराज सकुशल तो हैं?’ तब बहुत चिंतित होती हुई कैकेयी ने भरत के सभ्रम को बढ़ाती हुई मद हास के साथ कहा—‘हे वत्स, किसी दिन तुम्हारे पिताजी ने बड़े प्रेम से मुझे दो वर दिये थे। मैंने एक वर से भरत का राज-तिलक और दूसरे वर से राम के वनवास की प्रार्थना की। पिता की आज्ञा के अनुसार राम, जानकी-लक्ष्मण-समेत वन-वास के लिए चला गया। पुत्र के वियोग से महाराज स्वर्ग सिंघारे। ईर्ष्यावश मैंने तुम्हारे लिए यह व्यवस्था कर ली। अब राज्य संभालो, प्रजा का पालन करो, ऐश्वर्य प्राप्त करो और अपने बाहुबल से राज्य की रक्षा करो। इसके विपरीत कुछ मत कहो।’

इन बातों को सुनते ही भरत मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद संभलकर उन्होंने अत्यंत क्रोध से कैकेयी को देखकर कहा—‘हे माता! मेरी माता

होती हुई तुम निर्दयता से ऐसा कठोर आचरण कैसे कर सकी ? राम को मुनि-वेष में वनवास की आज्ञा तुम कैसे दे सकी ? निर्मल धर्माचरण करनेवाले रघुवशियो की रीति तुम्हें क्या मालूम नहीं है ? मैं अपने पिता की मृत्यु पर कैसे शोक कर सकता हूँ ? कौन-सा मुँह लेकर राम को देख सकता हूँ ? हाय ! न जाने मन-ही-मन राम कितने व्याकुल हुए होंगे ? न जाने लक्ष्मण को कितना क्रोध आया होगा ? वन के लिए जाते समय सीता ने न जाने मुझे कितने अपशब्द कहे होंगे ? कौन जाने, माता कौसल्या की क्या दशा हुई ? माता सुमित्रा तथा अन्य रानियाँ न जाने कितनी दुखी होती होंगी ? इनके सामने विलाप करने के लिए मैं कहाँ योग्य रहा ? मैं उनके मन की व्यथा दूर कैसे कर सकूँगा ? मुझे अब यह नगर किसलिए ? मुझे राजभोग किसलिए ? निश्चय, वन ही अब मेरे लिए शरण है । घोर पापिनी तुम्हारी माता ने एक राक्षस से तुम्हें जन्म दिया होगा । तुम महाराज केकय से उत्पन्न पुत्री नहीं हो । अब मैं तुमसे क्या कहूँ ?” इन सब बातों को आड में खड़ी छिपकर सुननेवाली मधरा को देखकर लोगो ने कहा—‘इसीने इतने सारे पाप कराये’ यह सुनते ही शत्रुघ्न ने उस वृद्ध स्त्री की टाँग पकड़कर एकदम उसे उठाया और बड़े जोर से उसे घुमाकर इस तरह नीचे फेंक दिया कि उसकी कूबड जाती रही, केश बिखर गये और सभी भूषण तितर-बितर होकर गिर पड़े । सभी स्त्रियाँ देखती रह गई । कैकेयी आदि अन्य रानियाँ भागने लगी । कैकेयी का वध करने के लिए शत्रुघ्न को जाते हुए देख भरत ने कहा—‘इस पापिन को मारकर हम पाप क्यों कमायें ? रामचन्द्रजी सुनेंगे, तो मातृहता कहकर हमसे घृणा करेंगे । इसलिए तुम यह काम मत करो ।’

२५ भरत का कौसल्या के घर जाना

वहाँ से निकलकर भरत अनुज के साथ कौसल्या के यहाँ गये और उनके चरणों में सर नवाकर शोक-सतप्त हृदय से दोनों भाई उच्च स्वर से विलाप करने लगे । तब भरत को देखकर कौसल्या बड़े क्रोध से इस प्रकार बोलने लगी—‘पति को खोकर, सुत से अलग रहते हुए अत्यंत दुःख से पीड़ित मैं रोती हूँ, तो वह स्वाभाविक ही है । तुम क्यों रो रहे हो ? तुमने जैसा चाहा, तुम्हारी माता ने कर दिया । हे वत्स, अब तुम राज्य संभालो । यह सुनकर अत्यंत भीत हो, हाथ जोड़े कौसल्या के पीछे चलते हुए भरत कहने लगे—‘माताजी—यदि मैंने मन, वचन तथा कर्म में श्रीराम का अहित किया हो या पृथ्वी का पालन करना चाहा हो, कैकेयी के मन की इच्छा मुझे मालूम रही हो, एक भी अहित मैंने सोचा हो, तो मैं उस पापी की गति प्राप्त करूँ, जिसने मद्य पिया हो, निर्धन ब्राह्मण का वध किया हो, गुरु-पत्नी से व्यभिचार किया हो, युद्ध में अपजय प्राप्त की हो, दुष्टता से सोना चुराया हो, गाय की हत्या की हो, न्याय-रहित होकर राज्य-पालन किया हो, बराबर चुगली खाई हो, शरणार्थी को शरण नहीं दी हो, माता-पिता को अपशब्द कहे हो, श्रेष्ठ धर्म को बेचा हो, स्वामी से द्रोह किया हो, गुरुजनों को अपशब्द कहे हों, सतत पापी होकर असत्य कहा हो, दूसरों के धन की इच्छा की हो और पर-स्त्री गमन किया हो । मैं रामचन्द्रजी का अहित क्यों करूँगा ? मैं कहाँ और ये नीच कर्म कहाँ ?’ इस प्रकार विलाप करनेवाले भरत के शोक का आधिक्य समझकर कौसल्या आत्म-नलानि का

अनुभव करती हुई सोचने लगी—‘हाय ! मैंने ऐसे पुण्य-चरित को क्यों कोसा ?’ फिर उन्होंने भरत तथा शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया और परिताप से विलाप करने लगी ।

तब सयमी वसिष्ठ उन्हें लेकर राजा के अंतपुर में गये । वहाँ रत्न-पीठ पर राजा का शव रखा था । राजा की आँखें बन्द थी, मानो राजा ने यह विचार कर लिया हो कि यह पापिन कैकेयी का पुत्र है, इसे नहीं देखना चाहिए । पिता का शव देखकर भरत मूर्च्छित हो गये । थोड़ी देर में सँभलकर अत्यधिक पीड़ित हो आर्त्तनाद करने लगे—‘हे राजन्, मैं कैकेयराज के यहाँ से अनुपम मणि-भूषण आपके लिए ले आया हूँ । इन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते ? आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं हैं ? मेरा दोष क्या है ? पापिन कैकेयी का पुत्र हूँ, क्या इसलिए आप मुझे देखना नहीं चाहते ? हे महाराज ! इस सुमित्रा-पुत्र को तो देखिए । वह दुःख से कैसे तडप रहा है । शत्रुघ्न को उठाकर उसके शरीर पर लगी धूल को आप पोछते क्यों नहीं ? इस पर कृपा कीजिए । इससे बोलिए । इसने क्या किया है ? इसे अपने हृदय से लगा लीजिए । आपके सद्गुण, आपकी दया और आपका स्नेह कहाँ छिप गये हैं । हे पिता, क्या कैकेयी ने आपकी बुद्धि को क्लृप्त कर दिया है ? क्या ऐसी मृत्यु ही आपके भाग्य में लिखी थी ? राजाओं की मृत्यु तो होती ही है, किन्तु ऐसी मृत्यु कही नहीं होती । मैं इन कष्टों से कैसे पार पाऊँगा ? हाय, मैं क्या करूँ ?’

इस प्रकार विलपते हुए भरत को देखकर वसिष्ठ ने कहा—‘तुम्हारे पिता ने साठ सहस्र वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया और मनु के धर्म-पथ पर चलते हुए समस्त धर्मों का पालन किया । अंत में तुम जैसे पुत्रों को प्राप्त किया । इसलिए तुम शोक मत करो । इनकी देह का अग्नि-संस्कार करो ?’

मुनि की आज्ञा शिरोधारण कर भरत ने दूसरे दिन, मुनियों, राजाओं तथा अन्य महात्माओं को बुलाया । दशरथ के शव को तीर्थ-जलो से स्नान कराया और श्रेष्ठ वस्त्र, तथा भूषणों से उसे सजाया । वेदोक्त विधि से दान आदि देने के पश्चात् उस शव को अरथी पर रखा । इसके उपरान्त मधु-पूत अग्नि को लिये हुए वे (भरत) अनुज तथा मुनिजनो के साथ अरथी के आगे-आगे चलने लगे । अरथी के अगल-बगल में उच्च स्वर में रुदन करती हुई कौसल्या आदि रानियाँ लडखडाती हुई चलने लगी । सरयू के निकट श्मशान में चिता सजाई गई । उसमें त्रेताग्नियो को प्रतिष्ठित करके वेद-विधि से (भरत ने) महाराज दशरथ के शव का अग्नि-संस्कार किया, तिलोदक दिया, पिंडदान किया और फिर अंतपुर में लौट आये । उन्होंने बारह दिन तक विधि-युक्त क्रिया करते हुए ब्राह्मणों को दान आदि देकर मतुष्ट किया ।

अत्येष्टि-क्रियाओं की समाप्ति के पश्चात् इक्ष्वाकुओं के कुलगुरु मुनि वसिष्ठ आगे होने योग्य कार्यों का विचार करके, सामंत राजाओं तथा मंत्रियों को साथ लिये भानु-सम ‘उज्ज्वल’ भरत के निकट पहुँचकर बोले—‘हे वत्स, तुम्हारे पिता परलोक सिंघासन-भोग्य हैं । और तुम्हारे भाई राम वनवास के लिए गये हैं । राज्य में कोई राजा नहीं रहे, तो राज-काज चल नहीं सके । प्रजा उच्छ्रित हो जायगी, पृथ्वी विन्नलित होगी और समस्त

धर्मों का पतन हो जायगा, शत्रु प्रबल होंगे और वर्णसंकर पैदा होंगे । राज्य को राजा-रहित नहीं रहना चाहिए । तुम विमलमतिमान् हो, तुम राज्य का भार सँभालो ।’

मुनि के उपदेश सुनकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा—‘हे मुनिनाथ, क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि अपने कुल की रीति न जानूँ ? मेरी माता ने मेरे अग्रज को वन भेजकर मेरे पिता के प्राण ले लिये हैं । क्या यह (दंड) मेरे लिए पर्याप्त नहीं है ? क्या अब राज्य करने की बात भी मैं सोचूँ ? आप आगे कुछ मत कहिए । मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, इसीलिए तो आप मुझसे ऐसी बातें कहते हैं । अन्यथा आप मेरे सबध में ऐसे विचार मन में नहीं लाते । मैं तुरत अपने भाई राम के पास जाऊँगा । उनसे प्रार्थना करके उन्हें लौटा लाऊँगा और उनका राज-तिलक कराऊँगा । यदि मैं ऐसा नहीं कर सका, तो जैसे मेरे भाई ने मुनि-वृत्ति ग्रहण की, वैसे मैं भी मुनि-वृत्ति लूँगा । इसके सिवा मेरे लिए और कोई मार्ग नहीं है ।’

२६. भरत का राम के पास जाना

इस प्रकार निश्चय करके भरत ने मंत्रियों को देखकर कहा—‘हमें अपने बड़े भाई के दर्शनार्थ जाना है । मार्गों को ठीक करो और सभी नगरवासियों को मार्ग में जहाँ-तहाँ ठहरने के लिए उचित व्यवस्था करके आवश्यक वस्तुओं का सग्रह करो ।’ मंत्रियों ने उनकी आज्ञा का पालन किया । दूसरे दिन वदी-मागध, मंत्री, सुकुमार नर्तकी, नट, नौ सहस्र हाथी, एक लाख अश्व, साठ सहस्र रथ और असंख्य पदचर सेना, सभी नगरवासी तथा धन एव रत्नराशियों को साथ लिये वसिष्ठ आदि मुनि, राजा, मंत्री और प्रतिष्ठित जनों के संग, भरत, शत्रुघ्न तथा उनकी माताएँ विविध वाहनो पर सवार होकर चले । इस प्रकार, चलकर सब गगातट पर पहुँचे और वहाँ पडाव डाला । अत्यंत बाहुबली गुह को यह मालूम हुआ कि कैकेयी-पुत्र सेना के साथ राम पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और अपने दल-बल-सहित भरत के पास पहुँचकर बोला—‘हे भरत, जब रामचन्द्र आपको अपना सारा राज्य देकर वन में रहते हैं, तब क्या आपको यह उचित है कि आप अपनी सेना के साथ उनपर आक्रमण करते चले ? मैं राम का सेवक हूँ । मैं आपको जाने नहीं दूँगा । मैं आपकी सेना का सहार कर डालूँगा । आपसे युद्ध करते हुए मैं मर जाऊँगा । तभी आप राम पर आक्रमण कर सकेंगे ।’

गुह के इन रोषपूर्ण वचनों को सुनकर भरत विमल मन से हँसते हुए बोले—‘हे गुह, मैं परमात्मा रामचन्द्र से प्रार्थना करके उन्हें अयोध्या लौटाकर उनका राज-तिलक संपन्न कराने के उद्देश्य से ही उनकी सेवा में जा रहा हूँ । तुम अपने मन में अन्यथा समझकर ऐसे वचन मत कहो ।’ इस प्रकार कहकर भरत ने गुह को हृदय से लंगायी और उसके मन की राम-भक्ति समझ गये । गुह ने भरत के चरणों पर भस्त्रक नुकाकर अनुपम वन-वस्तुओं की भेंट की । फिर वह भरत को उस स्थल पर ले गया, जहाँ पहले राम गगातट पर ठहरे थे । भरत ने अपना पडाव वही डाल दिया । उसके पश्चात् गुह उन्हें उस स्थल पर ले गया, जहाँ राम ने जटाएँ धारण की थी । उस स्थल को देखकर सभी नगरवासी, मुनि, मंत्री तथा भरत अत्यंत दुखी हुए । तब भरत ने अत्यंत दीन होंकर घट का दूध भँगाकर अपने भाई शत्रुघ्न के साथ जटाएँ धारण कर ली ।

दूसरे दिन नित्यकर्मों से निवृत्त होकर भरत ने गुह के द्वारा मँगाई गई पाँच सौ विशाल नावों में चढ़कर माताओ, मुनियों, मंत्रियों तथा सेना के साथ गगा नदी पार की। वहाँ से गुह को साथ लिये हुए, उसके बताये मार्ग पर चलते हुए भरद्वाज के उस आश्रम के पास पहुँचे, जहाँ से निकलनेवाले यज्ञ-धूम से सारा आकाश व्याप्त होकर बादलों का भ्रम उत्पन्न कर रहा था तथा जिन्हें देखकर मोर अपने पखों को फैलाकर आनन्दोन्मत्त हो नाच रहे थे। उनके पखों के समूह से सारा आश्रम-स्थल ऐंश दीख रहा था, मानो विचित्र रत्न-तोरणों से सारा आश्रम अलङ्कृत किया गया हो।

२७. भरत का भरद्वाज के आश्रम में पहुँचना

भरत ने अपनी सारी सेना आश्रम से बहुत दूर पर ठहराकर आप-स्वयं उस पुण्यात्मा भरद्वाज मुनि के दर्शनार्थ गये और मुनि को देखकर प्रणाम किया। भरद्वाज बड़े दृष्ट होकर बोले—‘हे भरत, जब राम-राघव वन में निवास कर रहे हैं, तब तुम अपनी चतुरगिणी सेना लेकर उनपर आक्रमण करने क्यों जा रहे हो?’ मुनि का क्रोध समझकर भरत भय तथा विनय के साथ बोले—‘हे मुनीश्वर, मैं तो रामचन्द्रजी से राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। दूसरे किसी उद्देश्य से नहीं। आप अन्यथा न समझें।’

भरत की बातों से हर्षित होकर भरद्वाज बोले—‘हे अनघ, तुम अपनी समस्त सेना के साथ आज हमारे आश्रम में ठहरकर हमारा सत्कार स्वीकार करो।’ इसके पश्चात् मुनि ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा—‘तुम तुरत एक सुंदर नगर का निर्माण करो, जिसमें सभी लोगों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार निवास रहे। विश्वकर्मा ने तुरत पाँच योजन विस्तार में एक विशाल नगर बनाया, जो भूमि-देवता के चरण के आभूषण-सा विराज रहा था। उसमें एक स्वर्णमय राजभवन भी था। उस भवन में श्वेत छत्र-सपन्न सिंहासन रखा हुआ था और एक रमणीय सभा-भवन भी था। मुनि की आज्ञा से भरत ने उस राजभवन में प्रवेश किया। वहाँ सिंहासन को देखकर भरत ने उसे राम का सिंहासन कहकर उसका नमस्कार किया और उसके निकट ही एक पीठ पर आसीन हुए। मुनि की आज्ञा से किन्नर, गधर्व तथा खचर रमणियों ने भरत के सामने आकर नृत्य-गान किया। इस प्रकार, मुनि की आज्ञा से सभी निवासों में नृत्य-गीत आदि, पृथ्वी पर जितने मनोरजन हो सकते थे, वे सब वहाँ संपन्न हुए। (अयोध्या की) प्रजा ने स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, मदार-पुष्प-मालाएँ पहनी, चदन का लेप किया और विविध आभूषण पहने। इसके पश्चात् कामधेनु द्वारा प्रस्तुत किये गये चार प्रकार के भोजन ग्रहण करके परितृप्त हुए। तब सुरागनाओं के साथ रति-क्रीडाओं में मग्न होते हुए वे अपने जन्म को सफल मानने लगे। इस प्रकार, मुनि का आश्रम स्वर्ग का भी तिरस्कार करता हुआ-सा दीखने लगा।

भरत तथा उनकी सेना ने मुनि भरद्वाज की प्रशंसा करते हुए रात वही बिताई। प्रातःकाल होते ही उन्होंने देखा कि वहाँ न कोई नगर था, न भवन, न सुरागनाएँ। भरत के आश्चर्य की सीमा न रही। वे श्रेष्ठ तपस्वी भरद्वाज के सम्मुख जाकर बोले—

‘हे महात्मा, आपके तपोबल की महिमा की प्रशंसा करना ब्रह्मा के लिए भी कठिन है । अब हम सूर्यवश-तिलक रघुराम की सेवा में जायेंगे । हमें आज्ञा दें।’ यो कहकर भरत ने अपनी माताओं से मुनि को प्रणाम करवाया । मुनि बोले—‘ये कौन-कौन हैं ? अलग-अलग इनका परिचय मुझे दो ।’ तब भरत ने कहा—‘हे महात्मा, ये राजा की ज्येष्ठ रानी सफलजन्मा कौसल्या हैं, जिन्होंने सब लोगों में कीर्ति तथा प्रशंसा पाई है । राम को पुत्र-रूप में प्राप्त कर अपनी कोख को सफल बनाया है, पर उनके (राम के) वियोग की अग्नि में तप्त ही रही है । ये लक्ष्मण को जन्म देनेवाली पुण्यशीला सुमित्रा हैं, जो कौसल्या के बायें हाथ की तरह रहती हैं । पुष्प-रहित कर्णिकार की शाखा के समान अलकारहीना होकर राम के वियोग-दुःख से दुःखी है । ये हतपुण्या मेरी माता कैकेयी हैं, जिनके कारण मेरे अग्रज वनवास के लिए गये हैं, जिनके कारण मेरे पिता का देहात हुआ और जिनकी इच्छा ने मेरी ऐसी दुर्गति कर दी है ।’ इतना कहकर उमड़ते हुए शोक में विह्वल तथा गद्गद हो वे चुप हो रहे । मुनि ने उन्हें सात्वना देने हुए आगे के कार्य का विचार करके कहा—‘कैकेयी ने लोकहित किया है । यह तुम लोगों को आगे स्पष्ट होगा ।’ इतना कहकर उन्होंने भरत को राम के निवास-स्थान का मार्ग बताया और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया ।

भरत ने अत्यंत श्रद्धा में युक्त हो सेना के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया । हाथियों के चिंघाड़ने, अश्वों के हिनहिनाने, सेना के वार्त्तालाप करने, तथा रथों के चलने से जो विपुल रव होता था, उससे भीत होकर जगली मृग चारों दिशाओं में भागने लगे । विशाल सेना के चलने से उठी हुई धूल से आवृत होकर सूर्यमंडल भी मलिन दीखने लगा ।

वहाँ चित्रकूट में कुटिल-कुतला सीता के साथ राम बड़े आनंद से वार्त्तालाप कर रहे थे । सीता का ध्यान पर्वत की शोभा की ओर आकृष्ट करते हुए वे कह रहे थे—‘हे बिंवाधरवाली, देखा तुमने पर्वत की शोभा, हमारे नेत्रों को कितना अपूर्व आनंद पहुँचा रही है । इस पर्वत की महिमा का वर्णन करना क्या शेषनाग के लिए भी संभव है ? निर्भरो की घन गभीर ध्वनियों को मेघ-गर्जन समझकर अत्यंत आनंद से तुम्हारे केश की समता रखनेवाले अपनी पखों को फैलाकर नाचनेवाले उन मयूरो को देखो । क्या, इन भीलनियों को तुमने देखा, जो अपने कुच-कुभों को गज-कुभों की समता प्रदान करने के लिए, गजों के कुभस्थल को चीरकर उसमें से निकले हुए मणियों को धारण कर रखा है । देवताओं का सकंत-स्थान होने के कारण इस घाटी में दिव्य सुगंधि फैल रही है । वहाँ देखो, वह गधर्वों का श्रीडा-स्थल उनके पदतलों के महावर-वर्ण से प्रकाशमान दीख रहा है । हे किन्नर-कठवाली, यह गिरि-गुफा देखो, जो किन्नर-किन्नरियों के संगीत से मुखरित है । हे कोकिलकठी, इस सहकार-वृक्ष को देखो, जो कोयल की कलध्वनि तथा पल्लवों से युक्त है । हे कोमालागी, मलयानिल विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंधि को एकत्रित करते हुए मद-मद गति से चलकर हम पर अपना प्रभाव डाल रहा है । वहाँ उस मदाकिनी को देखो, जो लाल तथा सफेद कमलों के समूह से अलंकृत है, जिसके कूल

पर तमाल, रसाल, कपिला, ताल, हिलाल, लसोडा आदि वृक्ष सुशोभित हैं, जिसके-पवित्र-तट पर मुनियों का समूह विराज रहा है और जिसका प्रवाह हंसों के मद गमन से हिल-सा रहा है।' इस प्रकार कहते हुए वे विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नीचे, लता-कुजों, पर्वत के शिखरों पर, तराइयों में तथा गुफाओं में अत्यन्त प्रसन्नता से विचरण कर रहे थे।

इसी समय उन्होंने भरत की सेना का कोलाहल सुना। भयभीत होकर चारों ओर भागनेवाले हाथी, बराह आदि मृगों को तथा उड़ती हुई अत्यधिक धूल को देखा। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम पता लगाओ कि इस प्रकार धूल क्यों उड़ रही है? लक्ष्मण ने तुरत एक ऊँचे वृक्ष के शिखर पर चढ़कर देखा कि उत्तर की दिशा से सूर्यवंश के चिह्नों से युक्त पताकाएँ फहराती हुई एक विशाल सेना आ रही है। उन्होंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि भरत राम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। पर्वत पर वृक्षपात होने के समान तुरत वे पड़े से उतर पड़े और दौड़ते हुए राम के पास पहुँचकर अत्यधिक रोष से बोले—'हे देव, आपको वन भोजकर समस्त राज्य को हस्तगत करने से तृप्त न होकर, आज कैकेयी का पुत्र सारी सेना लेकर आप पर आक्रमण करने आ रहा है। वह देखिए, कचनार (जैसी लाल) ध्वजाएँ। वह सुनिए सैनिकों के वीर वचन! आप शर, चाप तथा कवच धारण करके भरत का सामना कीजिए। नहीं, नहीं, आप और सीता यहाँ से हट जाइए। आपकी सज्जनता ने ही इतना (अनर्थ) किया है। मैं अब सहन नहीं करूँगा। यदि भरत यहाँ आया, तो मैं उसका वध कर डालूँगा।'

राम बोले—'हे लक्ष्मण, मेरा अनुज होकर जन्म लेने पर भी तुम ऐसे अविनीत क्यों हो रहे हो! भ्रातृ-प्रेम की मूर्ति, परम पवित्र, नीति-कोविद तथा धर्म-तत्पर भरत, तुमसे भी अधिक मेरा भक्त है। भरत के मन में कोई पाप नहीं है। मुझसे अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना करने के लिए वह आ रहा है। तुम शका छोड़ दो। राम के आदेश का उल्लंघन न कर सकने के कारण लक्ष्मण चुप हो रहे।

२८. भरत की राम से भेंट

भरत ने नगरवासियों मित्रों, तथा सेना को एक जगह ठहरा दिया, माताओं के साथ आने के लिए वसिष्ठ मुनि से प्रार्थना करके, स्वयं शत्रुघ्न, सुमित्र और गुह के साथ, उस पर्वत पर चढ़ने लगे। जगल में मार्ग को पहचानने के लिए लक्ष्मण ने जो संकेत बना रखे थे, उन्हें पहचानते हुए, चारों ओर दृष्टि डालते हुए (उन्होंने) समस्त शस्त्रास्त्र-समूह से युक्त विशाल आँगनवाली सुंदर पर्णशाला को देखा। वहाँ पर मुनि-वेष धारण किये हुए अत्यंत हर्ष से विलसित होनेवाले राम को देखकर भरत मन-ही-मन अत्यंत दुःखी हुए और शत्रुघ्न से कहने लगे—'हे शत्रुघ्न, देखा तुमने? स्वर्ण-सौधों में रहनेवाले राम आज एक पर्णशाला में निवास कर रहे हैं। पुष्प-शय्या पर विराजनेवाले आज धूल-युक्त पर्णशाला में रह रहे हैं। मुकुट धारण करनेवाले, प्रेम से जटाएँ धारण किये हुए हैं। राजाओं की सेवाएँ प्राप्त करते हुए रहनेवाले आज मृगों के मध्य रहते हैं। दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले आज मुनियों के वल्कल पहने हुए हैं। सुस्वादु भोजन करनेवाले, आज कच्चे फलों पर दिन व्यतीत कर रहे हैं। हाय, शुभप्रद मूर्तिवाले राम आज इस

भक्ति का दुःख का अनुभव कर रहे हैं। कैकेयी के पापी गर्भ से जन्म लेने के कारण ही मुझे उनकी यह दुर्दशा देखनी पड़ रही है।'

११७. इसके पश्चात् उन दोनों ने (राम के निकट पहुँचकर) उनको प्रणाम किया। राम ने उन्हें गले से लगा लिया और नेत्रों से आनदाश्रु बहाते हुए बड़े स्नेह के साथ उनकी पीठों पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद दिये। तब सुमित्र तथा गुह ने उस सूर्यवंशी को बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम किया। भरत तथा शत्रुघ्न ने तब जानकी तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया। उसके पश्चात् उन्हें कुशासन पर बैठने का आदेश देकर राघव बार-बार पिता तथा माता का कुशल समाचार पूछते हुए बोले—“हे भरत, तुम क्यों इतनी दूर चलकर आये? राजा की आज्ञा से राज्य-भार ग्रहण करके नीति के साथ राज-काज चला रहे हो न? सत्यनिष्ठ महाराज दशरथ की सेवा नित्य प्रति करते हो न? माताओं को सात्वना देते हुए बड़े आदर के साथ उनकी देखभाल करते हो न? हमारे कुलगुरु-तपो-निष्ठ वसिष्ठ की पूजा करके सध्या के समय अग्निहोत्र की विधि का नियमपूर्वक पालन करते हो न? सज्जन मंत्रियों का परामर्श लेकर विजय-साधक मार्ग को समझ रहे हो न? प्रतिदिन रात्रि के पिछले पहर में जागकर तुम अर्थ-सिद्धि का चिंतन करते हो न? उत्तम, मध्यम और अधम, जनो का विचार करके उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम में लगाते हो न? अपराध का विचार करके अपने लोगों के सबध में भी न्यायदंड का पालन ठीक तरह से करते हो न? मतिमान्, लोकप्रिय, स्वामिभक्त तथा पराक्रमी को तुमने अपना सेनापति बनाया है कि नहीं? सेवकों के वेतन विना विलंब के उन्हें देते हो न? दूतों के द्वारा राज्य का समाचार तथा शत्रुओं की गति-विधि का ज्ञान रखते हो न? गर्व त्यागकर दीन तथा निर्धन व्यक्तियों की पुकार सुनते हो न? वर्णाश्रम-धर्म में किसी प्रकार का व्यतिक्रम लाये बिना आवश्यक व्यवस्था करते हो न? चोरो और जारो की बढ़ती को रोककर उन्हें कारावास में रखकर उचित दंड देते हो न? समय-समय पर चतुरगिणी सेना की पटुता का निरीक्षण करते हो कि नहीं? दुर्गों को धन-धान्य तथा सेना से युक्त रखते हुए उनका बल बढ़ाते रहते हो न? अन्याय से (पर) धन-सचय न करके, किसानों की प्रेम से साथ रक्षा करते हो न? धन-लोभ में पडकर विप्रों की जागीरों का किंचित् भाग भी अपहरण नहीं करते हो न? सतत गो-ब्राह्मणों के हित की कामना करते हुए धर्म-निष्ठा में तत्पर रहते हो कि नहीं? जो राजा (इच्छा, क्रिया, ज्ञान) शक्तित्रय का, चार उपायो (साम, दाम, भेद, दंड), पचासों, षड्गुणों तथा राजा के चौदह दोषों का ज्ञान रखते हुए, दयालु होते हुए, मनु-धर्मशास्त्र के अनुसार देवताओं, पितरों तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वही स्वर्ग प्राप्त करता है। तुम भी उसी प्रकार राज्य करते हो न?”

२९. भरत का राम की दशरथ की मृत्यु का समाचार देना

तब भरत गद्गद कंठ से हाथ जोड़कर बोले—“हे राजकुलाधीश, मैं यह धर्म-मार्गों को नहीं जानता। हे धर्मनिपुण, और एक समाचार सुनिए। कैकेयी ने निर्दयतापूर्वक आपको बुला भेजा और आपको वन जाने का आदेश दिया। आप बिना विलंब किये

यहाँ चले आये। आपके दुख में तडपते हुए 'सातवें दिन महाराज दशरथ ने अपन प्राण छोड़ दिये। मैं पितृ-कर्मों को पूरा करके आपके दर्शनार्थ यहाँ आया हूँ।'

यह समाचार राम को वज्र के समान लगा, और वे तुरत मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता तथा लक्ष्मण भी मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर गये। थोड़ी देर के पश्चात् राम कुछ सँभले और बार-बार विलाप करने लगे। तब उन्हें देखकर भरत ने कहा— 'हे देव, धीर होते हुए भी जड़ के समान इस प्रकार विलाप करना आपको शोभा नहीं देता। आप, लक्ष्मण तथा सीता महाराज की परलोक-क्रिया विधिबत् पूरा कीजिए। यही उचित है।'

तब राम मदाकिनी नदी के तट पर पहुँचकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर बड़ी निष्ठा से अपने पिता की तिलोदक-क्रिया की, पिंड-दान किया और अत्यधिक शोकाकुल चित्त से पर्णशाला में लौट आये। उस समय वसिष्ठ, कौसल्या आदि अवरोध-जन (रनवास की स्त्रियाँ), नगरवासी, नातेदार, सुशील मंत्री आदि के साथ पर्णशाला में पहुँच गये। शोकाग्नि से सतप्त होनेवाले राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ उनके चरणों में गिरे और रोने लगे। यह देखकर वे सब भी रोने लगे। तब वसिष्ठ ने सात्वना के शब्दों से उन्हें शांत किया।

तब वनवास के कारण विवर्ण दीखनेवाली सीता को देखकर कौसल्या मन-ही-मन विधि को कोसती हुई अत्यंत दुखी होने लगी। उसी समय उस पर्वत पर रहनेवाली किल्लर, यक्ष, गरुड, उरग तथा अमर-कामिनियाँ वहाँ आ पहुँची और कौसल्या से कहने लगी— 'राम की पत्नी, दशरथ की बहू, महाराज जनक की पुत्री (यहाँ) विविध सकटों का अनुभव कर रही है। विधि-विधान के लिए कोई बात असंभव नहीं है।'

उसके पश्चात् राम ने सीता के साथ अनघ वसिष्ठ के चरणों की वदना की; मुनियों माताओं, नातेदारों, मित्रों तथा मंत्रियों को कुशासनो पर बिठाया और आप भी कुशासन पर बैठ गये। तब भरत की वेश-भूषा देखकर राम बोले— 'हे वत्स, तुम जटाएँ तथा वल्कल क्यों धारण किये हुए हो? राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तुम शीघ्र जाकर राज्य-भार ग्रहण करो।' इन वचनों को सुनकर भरत ने राम के मुख-कमल को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा— 'हे देव, हे राघव, कैकेयी ने असहनशीला हो, आपके महत्त्व से अनभिज्ञ हो, आपको वन जाने का आदेश देकर महान् पाप किया, तो क्या आपको यह उचित था कि आप तुरत यहाँ चले आये? आपके वियोग से दुखी हो, महाराज दशरथ भी स्वर्ग सिधारे। मेरी माता ने ऐसे घोर पाप किये हैं। क्या इसके कारण वे नरक-कूप में नहीं गिरेंगी? राज्य आपका है। मैं उसे सँभालने में असमर्थ हूँ। आज ही आप अयोध्या को लौट चलिए और शुद्ध मन से राज्य-भार ग्रहण कीजिए। पति को खोकर अत्यधिक शोक से पीड़ित होनेवाली माताओं को सात्वना दीजिए। मित्रों, मंत्रियों, बधुओं तथा प्रजा-जन पर कृपा दृष्टि रखते हुए उनको अपनाइए। हे दयामय, मैं आपका दास हूँ, मुझे अपनाकर मेरी विनती को स्वीकार कीजिए।' इस प्रकार कहते हुए भरत राम के चरणों पर गिर पड़े।

पृथ्वी और मुझे वनवास देनेवाले राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के लिए ही ऐसी व्यवस्था दी है। इससे उनकी कीर्ति शाश्वत हो गई। इसलिए हम भी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए महान् यश को प्राप्त करें। सभी पिता इसीलिए पुत्र प्राप्त करते हैं कि वह गया की यात्रा करे, कन्यादान करे और वृषभ छोड़े। पुत्रायाम नरक से (पितरों की) रक्षा करनेवाला होने से ही वह पुत्र कहलाता है। यदि मैं ही अपने पिता के वचन का पालन नहीं करूँगा, तो इस पृथ्वी पर पिता के आदेश का पालन कौन करेगा? 'यथा राजा तथा प्रजा' वाली उक्ति के अनुसार प्रजा भी हमारे समान ही आचरण करेगी। मैंने जो व्रत लिया है, उसको पूरा करके लोटूँगा। तुम हठ का त्याग करो। मेरी बातें मानो और मेरे कथन के अनुसार राजा बनो। अब तुम नगर को लौट जाओ।'

तब सभा में उपस्थित मुनि, सुर तथा ब्राह्मणों ने (मन-ही-मन) निश्चय कर लिया कि अब युद्ध में रावण की मृत्यु निश्चित है। ऐसा सोचकर उन्होंने भरत से कहा—'हे उज्ज्वल धर्म-निरत भरत, तुम राम के आदेश का पालन करो।'

३०. श्राराम को जाबालि का उपदेश

तब मुनि जाबालि ने राम को देखकर कहा—'यह तुम्हारा कैसा व्यर्थ विचार है? तुमने मुनि-वेश धारण किये, नृप-वेष छोड़ दिया, राजभोग त्याग दिया और नियमों का पालन करते हुए इस ढंग से जीवन व्यतीत करते हो? कहाँ के माँ-बाप और कहाँ के पुत्र? कहाँ का सत्य और कहाँ का पुत्र-धर्म? यह सब मिथ्या है। माता-पिता अपने सुख के लिए आपस में मिलते हैं। शुक तथा रक्त के संयोग से मनुष्य का जन्म होता है। पिता केवल बीज का दान देता है। बहुत क्यो, बुझे हुए दीप में तेल देना जितना निरर्थक है, वेद-विधि से परलोक-क्रियाएँ करना भी उतना ही निरर्थक है। इसलिए मेरी बात मानकर तुम अयोध्या लौट जाओ और राज्य ग्रहण करो।'

जाबालि के इन वचनों को सुनकर रघुवीर ने क्रोध में आकर कहा—'हे मुनीन्द्र, ऐसे नास्तिकतापूर्ण विचार आप किसी दूसरे को समझावें। हमारे लिए वही आचरणीय है जिसे हमारे पूर्वजों ने किया है। सब धर्म सत्य के आधार पर निर्भर हैं। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म और क्या हो सकता है? ऐसे सत्य का पालन करने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे वन में भेजा है। यदि उनके आदेश का तिरस्कार करूँ तो मुझसे बढ़कर नीच और कौन हो सकता है? ज्ञानियों का कहना है कि सत्य, धर्म, शम, दम, भूत-दया, नीति, विक्रम, प्रिय वचन तथा देव-पितृ-पूजन स्वर्ग के साधन हैं। इन सब को मिथ्या घोषित करनेवाले आप अग्रजन्मा कैसे कहला सकते हैं? आपको क्यो दोष दूँ? आप जैसे नास्तिक का आदर करनेवाले मेरे पिता ही दोषी थे।

राम के वचनों को सुनकर जाबालि ने बड़े स्नेह से कहा—'हे राजन्, मैंने आपको नास्तिक मानकर ऐसा विचार इसलिए प्रकट किया है, कि आप किसी प्रकार भी अयोध्या लौट चलिए। इसलिए आप धर्म धारण करें।'

३१. पादुका-दान

तब संयमी वसिष्ठ ने इक्ष्वाकु से सूर्यवश तक के सभी राजाओं की 'वचि'

करते हुए कहा—'हे अनघ, तुम्हारे वश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अग्रज को रहते हुए अर्जुन राजा बने । पूवजों की परंपरा के अनुसार तुम्हारा राज्य ग्रहण करना ही उचित है । किन्तु पिता के आदेश का उल्लंघन न करने का तुम्हारा दृढ़ 'संकल्प' है, तो जैसे भरत प्रेम से तुम्हारी सेवा करता रहा है, वैसे वह तुम्हारी पादुकाओं की पूजा करतें हुए शांति से रह सकेगा । अतः, तुम अपनी पादुकाएँ उसे प्रदान करो ।

तब माता, मित्र, आश्रित, मंत्री, 'प्रजा आदि' सबने कहा—'हे राम, ऐसा करना ही उचित है ।' तुरत भरत ने स्वर्ण-विलसित पादुकाएँ राम के सामने रख दी । तब राम ने उत्कृष्ट अरुण कमल के गर्भ के वैभव को भी परास्त करनेवाले मुनि-बंधु के शाप का मोचन करनेवाले, सूति-शिरोभाग पर विलसित होनेवाले, सतत सनकादि मुनिजनों के विवाद के कारणभूत, अपने चरण उन पादुकाओं पर रखकर उन्हें भरत को दे दिया । उन दोनों को सिर पर धारण किये हुए भरत राघव से बोले—'हे देव, नृप-वेश त्याग करके, मुनि-वेश धारण किये हुए, राज्य का भार इन पादुकाओं पर रखकर, मैं चौदह वर्ष तक राज्य की रक्षा करूँगा । आपके चरणों की सौम्य खाकर कहता हूँ कि यदि अवधि के समाप्त होते ही आप अयोध्या नहीं लौटेंगे, तो मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा ।' यो कहकर उन्होंने अत्यंत भक्ति से अपने अग्रज को प्रणाम किया । राम ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया । उसके पश्चात् उन्होंने अपनी माताओं को सात्वना दी और पुण्यात्मा मुनि-पुंगवों, मित्रों, मंत्रियों, बन्धु-बाधवों तथा सभियों, प्रजा को बड़े प्रेम से विदा किया । अत्यधिक उमड़ते हुए शोकाकुल हृदय से भरत ने पादुकाओं की परिक्रमा की, उन्हें भद्रगज पर प्रतिष्ठित किया और आप तथा शत्रुघ्न छत्र-चामर लिये हुए उसके पाशव में खड़े हो गये । सब लोग वहाँ से रवाना हुए । भद्रगज के चारों ओर सेना चलने लगी ।

भरत इस प्रकार चित्रकूट से चलकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे । वहाँ उन्होंने भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके सारा वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया । उनकी आज्ञा लेकर आगे चले और गंगा नदी पार करके श्रगवैरपुर पहुँचे । बड़े आदर से वहाँ गृह को विदा करके, वे अयोध्या नगर पहुँच गये । रत्नवास में माताओं को छोड़कर उन्होंने अतः पुर की रक्षा के लिए सेना रख दी । मणि-रहित रत्न-मजूषा की तरह तथा मूय-रहित दिन की तरह रामचन्द्र-रहित शून्य अयोध्या को देखकर उन्हें उस नगर में रहने की किंचित् भी इच्छा नहीं रह गई थी । इसलिए वे नदीग्राम में जाकर निवास करने लगे । रघुराम की पादुकाओं पर समस्त राज्य-भार रखे हुए, राम के समान ही उनकी सतत सेवा करते हुए, बल्कल तथा जटाएँ धारण किये हुए, राघव के पुनरागमन की कामना करते हुए और उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते हुए सरस सज्जन मंत्रियों के परामर्श से भरत राज-काज संभालने लगे ।

यह अयोध्याकांड समस्त लोक में विख्यात होने हुए विद्वज्जनों की प्रशंसा का पात्र बन जाय । आध्र-भाषा के अधीश्वर, विमलचेता, आचारवान्, अनुपम धीमान्, भूतोकनिधि गोनबुद्ध राजा ने, कमनीय गुण तथा धैर्य में मेरुपर्वत, शत्रु के लिए भैरव-रूप, महात्मा, अपने पिता विद्वल-नरेश के नाम पर आचद्राक सप्तराज में पूज्य रहने योग्य रीति से, असमान भाव तथा ललित शब्दार्थों से युक्त रामायण के अयोध्या-कांड की रचना की ।

ऋषि-आदिकाव्य और रसिकजनो के लिए अन्नदायक होकर पृथ्वी पर विलसित इस पुण्य-चरित्र को जो पढ़ने है, या सुनते है, उन्हें साम आदि बहुवेदो का धाम, रामनाम-रूपी चितामणि की महिमा से समस्त भोग, परहित बुद्धि, उदार विचार, परिपूर्ण-शक्ति, साम्राज्य, विमल यश, नित्य सुख, धर्मनिष्ठा, दात में प्रेम, चिरायु, ऐश्वर्य तथा स्वास्थ्य, अक्षय कल्याण, पापों का क्षय, श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति, शत्रु-नाश और धन-धान्य-समृद्धि आदि प्राप्त होंगे । उन्हें बिना किसी विघ्न-बाधा के लाक्षणिकती स्त्रियो का प्रेम तथा पुत्रों के साथ जीवन प्राप्त होगा । उनके सब सकट दूर होंगे । नातेदारों से उनका प्रेमपूर्ण मिलन होता रहेगा और उनकी सब कामवाएँ पूर्ण होंगी । उनके गृहों में देवता तथा पितृ-देवताओं की तृप्ति होती रहेगी । यह (रामायण) मोक्षसाधक है, पापनाशक है, दिव्य है, भव्य है, श्रीकर है । इसके रचयिता की श्रेष्ठ तथा शुभ उन्नति होगी और वे इन्द्र-भोगादि को प्राप्त करेंगे । जबतक कुल-पर्वत, नक्षत्र, रक्षि, चन्द्र तथा दिशाएँ रहेंगी, जबतक वेद रहेंगे, पृथ्वी तथा समस्त लोक रहेंगे, तबतक यह कथा अक्षय आनन्द-समूह को देने में समर्थ होगी ।

: अयोध्याकांड समाप्त :

श्रीरंगनाथ रामायण

(अरण्यकांड)

१. चित्रकूट से प्रस्थान

चित्र-विचित्र वस्तुओं के आगार 'चित्रकूट' में निवास करते हुए और मुनियों की प्रशंसा प्राप्त करते हुए राम ने भरत के आगमन की बात सोचकर निश्चय किया कि अब मुझे यहाँ निवास नहीं करना चाहिए। वे सोचने लगे कि अगर मैं यहाँ रहूँ, तो अयोध्या-वासी यहाँ पर अक्सर आते रहेंगे। अब भी गज, रथ तथा अश्वों के आने से वन का बहुत-सा भाग नष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त परम सयमी मुनि मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि मैं खर-दूषण आदि राक्षस-समूह के अत्याचार दूर करूँ। (इसलिए मेरा यहाँ से चला जाना आवश्यक है।)

इस प्रकार सोचकर दूसरे दिन उन्होंने चित्रकूट के मुनियों की आज्ञा प्राप्त की और वहाँ से चलकर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँच गये। मुनि ने अपने शिष्यों के साथ बड़े स्नेह से राम की अगवानी की और उन्हें आश्रम में ले जाकर कई प्रकार से उनका आदर-सत्कार किया। मुनि-पत्नी अनसूया ने बड़े प्रेम से सीता का आतिथ्य किया। उन्होंने सीता को पातिव्रत्य-धर्म का उपदेश किया, अपने सगे-सबधियों को छोड़कर पति के साथ वन में रहने के उनके निश्चय की प्रशंसा की। इसके पश्चात् अनसूया ने सीता को विभिन्न प्रकार के अगराग, कभी न मुरझानेवाले फूल और कभी मूले न होनेवाले वस्त्र दिये।

फिर उन्होंने सीता से कहा—‘हे रमणी, तुम मुझे यह बताओ कि स्वयंवर में राघव ने तुम्हें कैसे प्राप्त किया ।’ तब (सीता) अपने पति की ओर देखकर व्रीडा से अभिभूत हुई और मद-मद मुस्कुराती हुई बोली—‘हे माता, सुनिए । मिथिला के अधिपति जनक के, यज्ञ-शाला के लिए भूमि जोतते समय मेरा जन्म हुआ । इस कारण मेरा नाम सीता पड़ा । सतानहीन होने के कारण राजा ने बड़े स्नेह से मेरा पालन-पोषण किया । युवावस्था को प्राप्त होनेवाली मुझे देखकर उन्होंने सोच-विचारकर घोषित किया कि हमारे घर में स्थित शिव-धनुष का जो सधान करेगा, उसी के साथ मैं इस कन्या-रत्न का विवाह करूँगा । इस समाचार के पाते ही अनेक राजा वहाँ आये, किन्तु वे शिव-धनुष को उठाकर उसका सधान न कर सकने के कारण वापस चले गये । कुछ दिनों के पश्चात् विश्वामित्र की सेवा करने के उपरान्त राघव वहाँ आय । उन्होंने शिव-धनु को इस प्रकार तोड़ दिया, जैसे हाथी ईख को तोड़ डालता है । तब उन्होंने मेरा पाणि-ग्रहण किया ।’

इस प्रकार सीता के अपने विवाह का वृत्तांत सुनाने पर अनसूया हर्षित हुई । तबतक रवि पश्चिम समुद्र में डूबने लगा । राम ने सध्या आदि नित्य-कर्मों को पूरा किया और अत्रि का सत्कार ग्रहण किया तथा उनकी सत्संगति में रात वही बिताई ।

२. राम का दण्डक-वन की यात्रा करना

दूसरे दिन प्रातःकाल ही सध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो अत्रि की आज्ञा लेकर राम ने उस दण्डक-वन में प्रवेश किया, जो सरल ताल, तमाल, साल, कपिला, कुरबक, अगुरु, कुटज आदि वृक्षों से भरा हुआ था, जो सूर्य के समान तेजस्वी मुनियों का निवास-स्थान था और जो गंडा, सिंह, हाथी, नीलगाय जैसे मृगों तथा ‘गड भेरुण्ड’ (दो शिरो-वाला एक पक्षी) जैसे पक्षियों से पूर्ण था । ऐसे वन में प्रवेश करके वेद-घोष से प्रति-ध्वनित होनेवाली तथा हवनकुंडों से पवित्र पर्णशालाओं में पवन, जल तथा सूखे पत्तों का आहार करते हुए तपश्चर्या में लीन मुनियों के निवासों तथा तपस्वियों के आश्रमों के दर्शन करते हुए, राम अपने अनुज के साथ मुनियों का आतिथ्य ग्रहण करने हुए यात्रा करते रहे ।

३. विराध का वध

इस प्रकार उस दण्डक-वन में जाते समय, पर्वत के समान आकार, भयंकर आँखें, बड़ा मुँह और नासिका तथा दीर्घकाय विराध नामक भयंकर राक्षस, अपने अट्टहास से सारे आकाश को कँपाते हुए और वन को चीरते हुए आया और अपनी बलिष्ठ तथा पैनी चोच तथा बाहुओं से कुचित केशीवाली सीता को इस प्रकार आकाश की ओर उड़ा ले गया, जैसे गरुड पक्षी सँपोले को उड़ा ले जाता है । फिर, जानकी की दशा देखकर दुःखी होनेवाले राम तथा लक्ष्मण को सबोधित करके उसने कहा—‘क्यों रे, तुम्हारा कितना साहस है कि तुम वीरों की तरह निर्भय होकर धनुष-बाण धारण किये इस वन में विचर रहे हो, जिसमें मैं रहता हूँ । आखिर तुम्हारा भुजबल कितना है ? मेरी माता शतहृद है और मेरे पिता जय है । किसी भी आद्युध से न मरने का वर मैंने पहले ही ब्रह्मा से प्राप्त किया है ।

मैं ब्राह्मणों को खानेवाला हूँ । मेरा नाम विराध है । मैं क्रोध में आता हूँ, तो इन्द्र आदि देवताओं को भी निगल जाता हूँ; फिर मनुष्यों की क्या बात ? अब तुम्हारा कुशल इसी में है कि इस रमणी को मुझे सौंपकर, तुम यह वन छोड़कर चले जाओ । अन्यथा मेरे हाथ के शूल के वार की प्रतीक्षा करो ।'

सौमित्र ने सीता की भीति, तथा राक्षस का गर्व देखकर कहा—'हे राक्षस, ये पृथ्वी की पुत्री, पुण्यवती, साध्वी, राम की पत्नी है, उन्हें ले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है । अब तुम ले भी कहीं जा सकते हो ? मैं अभी तुम्हें पकड़कर तुम्हारा वध कर डालूँगा ।'

इस प्रकार कहते हुए उन्होंने क्रोध से धनुष पर बाण-सधान करके उसके वक्षस्थल पर चलाया । तब विचित्र ढंग से अट्टहास करते हुए बड़े क्रोध से उसने शूल को घुमाकर उनपर फेंका । घने बादलों से छूटकर नीचे गिरनेवाली बिजली के समान आनेवाले उस शूल को राम ने अपने दो बाणों से काट दिया । इसपर और भी क्रुद्ध होकर उसने सीता को पृथ्वी पर गिरा दिया । उस राक्षस के हाथों से मुक्त होकर बादलों से निकलकर आकाश-मार्ग से पृथ्वी की ओर बिजली की तरह आनेवाली छटपटाती हुई सीता को राम ने गरुड-अस्त्र की सहायता से पृथ्वी पर उतार लिया ।

इसके पश्चात् राम ने उस राक्षस पर कई बाण चलाये, किन्तु वह उनकी जरा भी परवाह न करके अट्टहास करने लगा । वह बड़े वेग से आया और अपने हाथों से राम और लक्ष्मण को उठाकर अपनी पीठ पर लादकर वहाँ से शीघ्रता से जाने लगा । जानकी यह देखकर विलाप करने लगी । राम और लक्ष्मण ने अत्यन्त क्रोध से बिजली के समान चमकनेवाले अपने खड्गों को म्यान से निकालकर उसके दोनों हाथों को काट डाला । तब धराशायी होनेवाले पहाड़ की तरह वह राक्षस पृथ्वी पर लोटने लगा । फिर भी उसे जीवित देखकर राम-लक्ष्मण ने अपने पदाघात तथा मुष्टियों के प्रहार से उस राक्षस को चूर-चूर कर दिया । (यह देखकर) सभी मुनि साधुवाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे ।

इसके पश्चात् राक्षस गधर्व का रूप धारण किये हुए विमान में बैठकर राम ने बोला—'मैं गधर्व हूँ, मेरा नाम तुबुर है । रभा के साथ रति-क्रीड़ा में तल्लीन रहते हुए, कुबेर की सभा में उपस्थित न हो सकने के कारण कुबेर ने मुझे राक्षस का जन्म लेने का शाप दिया था । आपके बाहुबल के प्रताप से मेरा शाप-मोचन हुआ । अब मैं जा रहा हूँ । आप मेरे शरीर को यहीं गाड़कर शरभग मुनि के आश्रम में जाइए ।'

इस प्रकार कहकर प्रणाम करके वह वहाँ से चला गया । उसके शरीर को वही गाड़कर श्रीराम ने सीता को बड़े स्नेह से गले लगा लिया और उनका भय दूर किया । उसके पश्चात् उन्होंने अपने अनुज से कहा—'क्या इस पृथ्वी में ऐसे दुर्गम वन कहीं हो सकते हैं ? हमें शीघ्र ही सीता को लिये हुए इस वन को पार कर जाना चाहिए ।

४. श्रीराम का शरभग के आश्रम में पहुँचना

इस प्रकार सोचकर, शरभग के दर्शन करने की अभिलाषा से राम उनके आश्रम की ओर चले । उस समय उन्होंने उस आश्रम के ऊपर से उदित सूर्य की भाँति प्रकाशमान

अश्वो से युक्त, श्वेत छत्र से आवेष्टित, देवताओं से भरे एक विमान को चारों ओर उज्ज्वल-मणियों की आभा विकीर्ण करते जाते हुए देखा । उस विमान में विराजमान कल्याणगुण-संपन्न व्यक्ति को देखने की इच्छा से राम तेजी से आगे बढ़े, किन्तु इतने में वह विमान-आँखों से ओझल हो गया ।

राम ने मुनि के आश्रम में पहुँचकर, मुनि को प्रणाम किया और मुनि का सत्कार ग्रहण करने के पश्चात् बड़े प्रेम से मुनि को देखकर पूछा—‘हे मुनीश्वर आपके दर्शनार्थ हमारे आते समय एक विमान अपना प्रखर तेज विकीर्ण करते हुए यहाँ से निकल गया था । वह यहाँ क्यों आया था और कहाँ चला गया है ? उस विमान में कौन विराजमान थे ? आप कृपया बतावें ।’

तब मुनि बोले—‘हे देवेन्द्र-बंधु । वह देवेन्द्र था । हे देव, ब्रह्मलोक जाने का आमंत्रण देने के लिए वह देवताओं के साथ देवलोक से यहाँ आया था । हे रामचंद्र, मुझे मालूम था कि आप यहाँ पधारेंगे । आपका पूजा-सत्कार करने के पश्चात् जाने का निश्चय करके मैंने उससे कह दिया कि मैं अभी नहीं आऊँगा । तुम चाहो तो जा सकते हो । इन्द्र भी बहुत दुखी होकर, वनवास (के दुःख) से खिन्न आपको न देख सकने के कारण, यहाँ से चला गया है । इतने में आप भी यहाँ आ पहुँचे । हे राजन्, आपके प्रसाद से मैंने बड़ी निष्ठा से, अपना तप निर्विघ्न समाप्त किया है । यज्ञ भी सफल हुआ । मैं आपके दर्शन कर सका । आप अब सयमी सुतीक्ष्ण के दर्शन करके उनके यहाँ रहिए । मैं अब ब्रह्मलोक में जाऊँगा ।’ इस प्रकार कहने के पश्चात् उस मुनीश्वर ने राम के सम्मुख ही अपने शरीर को मन्त्र-रत करके, अग्नि में दहन कर दिया और इन्द्र आदि देवताओं की सेवाएँ प्राप्त करते हुए ब्रह्मलोक को चले गये ।

तब उस आश्रम के निवासी सयमी, वायुसेवी, वैखानस, मौनव्रती, पर्णशाला-विहीन, भूमिशायी, मननशील, उदात्त मुनि, एकातवासी, अनशनव्रती और पचाग्नि्यों के मध्य तपस्या करनेवाले, सभी तपस्वी भुङ्ग-के-भुङ्ग दयालु रामचंद्र के पास आये और बोले—‘हे राम, आप पिता की आज्ञा का पालन करने में अत्यंत तत्पर हैं, सत्यव्रती हैं और निर्मल यश के आगार हैं । आप जैसे राजा के रहते हुए क्या हमें रक्षसों के उपद्रवों से पीड़ित होना चाहिए ? व्रत की रक्षा करनेवाले राजा को भी उस व्रती के पुण्य का एक चौथाई भाग मिलता है । अब आप सभी दैत्यों का सहार करके हमारे तपोव्रत को सफल बनाइए । हम आपकी शरण में आये हैं ।’ शरणागत के रक्षक होने के कारण राम ने उन आश्रमवासी मुनियों को अभयदान दिया और कहा—‘आपकी कृपा से बलवान् रक्षसों के उपद्रवों को मैं दूर करूँगा । आप दुःखी मत होइए ।’

५. श्रीराम का सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुँचना

इसके पश्चात् वे भयकर वन-प्रांत में से होते हुए महान् मतिमान् सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुँचे । उस मुनि की परिक्रमा की और अपना नाम कहकर उन्हें प्रणाम किया । सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को आशीर्वाद देकर उनका उचित आदर-सत्कार किया और उसके पश्चात् बोले—‘हे अनघ, जबसे आपके मुनि-वेश धारणकर चित्रकूट में पहुँचने का समाचार

हमने सुना, तबसे हम आपके आगमन की उत्कट इच्छा लिये हुए थे । आखिर आप यहाँ आ ही गये हैं । आपके दर्शन कर सके, इसमें हम अपने को धन्य मानते हैं । दुरात्मा, अत्यधिक बाहुबली राक्षस गर्वोन्मत्त होकर हमारे आश्रम में आये, और हवन-वेदियों का नाश किया, यूप-काष्ठों को उखाड़कर फेंक दिया, पेड़ों को उखाड़ डाला, जप-मालाओं को तोड़ दिया, हमारे वस्त्र फाड़ डाले, फलों को चुन लिया, फूलों को गिरा दिया, सरोवरों का पानी गदा कर दिया, कई प्रकार के दुःख दिये और कई मुनियों को मार भी डाला । हमारी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । हे देव ! आप हमारी रक्षा कीजिए । हमें दुःख देनेवाले इन राक्षसों को हम अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखकर, चाहें तो भस्म कर सकते हैं । किन्तु पृथ्वी पर आपके जैसे राजा के रहने हुए हम क्रोध नहीं करते हैं । अतः, आप इन दुष्ट राक्षसों का सहार करके हमारे तप की रक्षा कीजिए ।” तब राम ने उन्हें सांत्वना दी कि मैं युद्ध में इन राक्षसों का वध करूँगा, आप खिन्न मत होइए । इसके पश्चात् उन्होंने शरभग के आश्रम के निवासी मुनियों को अपने अभयदान का वृत्तांत सुनाया, राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की और उनकी सगति में वही रात बिताई ।

दूसरे दिन बहुत-से मुनि वहाँ आये और राम से अपने-अपने आश्रमों में आने की प्रार्थना की । तब राम सूतीक्ष्ण मुनि से आज्ञा लेकर अन्य मुनियों के पुण्याश्रमों को देखने की अभिलाषा से वहाँ से रवाना हुए । मार्ग में जानकी ने राम को देखकर कहा—“हे अनघ, (हम) राज्य छोड़कर वन में आये हैं, जटाएँ तथा वल्कल धारण किये मुनियों की तरह जीवन बिता रहे हैं, ऐसी दशा में आप राक्षसों पर क्यों क्रोध करते हैं ? विचार करने पर यह सगत नहीं मालूम होता है । हे काकुत्स्थ-तिलक, जबसे आपने मुनियों को राक्षसों का वध करने का आश्वासन दिया है, तबसे मेरा मन बहुत ही खिन्न हो रहा है । यह कार्य ठीक नहीं है, इसलिए आप यह कर्म छोड़ दीजिए । हे प्राणेश्वर, क्या प्राणियों को मारने से पाप नहीं लगेगा ? किसी समय एक मुनि अत्यंत तपोनिष्ठा से जीवन-यापन करते थे । इन्द्र ने उन्हें एक खड्ग देकर कहा—‘इसे आप रखिए, मैं फिर आकर इसे ले जाऊँगा ।’ तदनंतर उस मुनि ने उस खड्ग से लता, वृक्षों को काटते हुए, हिंसा में प्रवृत्त हो, जडमति बनकर तपश्चर्या त्याग दी और अंत को दुर्गति को प्राप्त हुआ । इसलिए हे देव, कहाँ तप और कहाँ राजधर्म तथा अस्त्र-शस्त्र ? आप ऐसा कार्य न कीजिए ।”

तब रामचंद्र ने हँसकर सीता से कहा—‘हे साध्वी, तुम्हारा बताया हुआ मार्ग ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का नहीं । मेरा हृदय जानते हुए भी मुझपर अत्यधिक अनुराग रखने के कारण तुम ऐसा कह रही हो । हे तरुणी, उत्तम राजधर्म का पालन करनेवाले इसीलिए तो धनुष-बाण धारण करके विचरण करते हैं कि शरणागतों की रक्षा कर सकें । तुम इस परम धर्म का विचार क्यों नहीं करती हो ? मैं उन महामुनियों को दिये गये वचन का अवश्य ही पालन करूँगा । प्रही मेरा दृढ सकल्प है । मैं अपने प्राण भले ही छोड़ दूँ, तुम्हें भी त्याग दूँ, या लक्ष्मण को भी छोड़ दूँ, किन्तु अपना प्रण नहीं टाल सकूँगा ।’ इन बातों को सुनकर जानकी चुप रह गई और लक्ष्मण विस्मित हो गये ।

६. मंदकर्णी का वृत्तान्त

इसके पश्चात् रामचन्द्र प्रत्येक आश्रम में, कहीं तीन महीने, कहीं चार महीने, आराम से रहते हुए, पुण्याश्रमों के दर्शन करते हुए आगे बढ़े। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर एक तडाग देखा, जिसके जल के मध्य से सगीत का निनाद अत्यधिक सुनाई पड़ रहा था। अन्यत विम्मय-चकित होकर वे उस तडाग के किनारे पहुँचे और उसके निकट निवास करने-वाले धर्ममृत नामक मुनि को देखकर बोले—‘हे मुनिनाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि इस तडाग के जल में से ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है ?’ तब धर्ममृत ने अत्यंत उत्साह से रामचन्द्र से कहा—‘किसी समय मदकर्णी नामक मुनि इस तडाग के जल के बीच खड़े होकर बड़ी निष्ठा से अनेक वर्ष तक अत्युग्र तपस्या करते रहे। उस तप को देखकर इन्द्रादि देवता भयभीत हो गये। उस मुनि के महत्त्व को क्षीण करने के लिए उन्होंने पाँच अप्सराओं को भेजा। वे अप्सराएँ मुनि की परिणीता वधुएँ बन गईं और वे जल के मध्य मुनि के द्वारा निर्मित स्वर्ण-सीधो में, मुनि के सम्मुख बड़े मोद-मग्न हो नृत्य कर रही हैं। इसी कारण से यह सरोवर पचाप्सर के नाम से विख्यात है। जो मधुर ध्वनि अब सुनाई पड़ रही है, वह उनके वाद्यों की ध्वनि है।’

इन वचनों को सुनकर राम ने अत्यंत भक्ति में पुण्यात्मा मदकर्णी को प्रणाम किया और उस घोर वन के मार्ग से आगे बढ़े। मार्ग में उन्होंने कई मुनियों का दर्शन करके उनको प्रणाम किया। बहुत-से पुण्य तपोवनों को देखकर मुग्ध हुए, कमल और कमलिनियों से भरे सरोवरों में स्नान किया, मद-मद गति से चलनेवाले पवन की प्रशंसा और झिल्लियों की झकार की निंदा की। शुक, मयूर आदि पक्षियों को पकड़ते हुए, वे हाथी, वराह आदि मृगों का शिकार करते जाते थे। कभी मेघास्त्र का प्रयोग करके गर्मी को दूर करते और कभी अपने दर्शन करनेवाले के पाप मिटाते। कभी यौवन को प्राप्त लताओं से फूल चुनते, कभी झकार करनेवाले भ्रमरों को दूर भगाकर गगनचुबी पर्वत-शिखरों पर चढ़ जाते। जब जानकी थक जाती थी, तब उनका परिहास करते हुए बड़ी मृदुल गति से गुफाओं को पार करते हुए, चढ़ाव पर चढ़ने की क्रिया (जानकी को) सिखाते। वहाँ की भीलनियों के साहस की प्रशंसा करते हुए, अभेद्य भाडियों में प्रवेश करते हुए ऐसी घाटियों में भ्रमण करने लगे, जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी। इस तरह राम, लक्ष्मण तथा जानकी के साथ पुण्य तीर्थों, पुण्य नदियों तथा पुण्य तपोवनों में भ्रमण करते हुए दस वर्ष के उपरान्त फिर से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में लौट आये और उस मुनि के यहाँ बड़े आराम से कुछ वर्ष तक रहे।

७. अगस्त्य से भेंट

एक दिन रामचन्द्र ने अगस्त्य के दर्शन की इच्छा से प्रेरित होकर (सुतीक्ष्ण) मुनि को देखकर पवित्र भक्ति से साथ कहा—‘हे महात्मा, मुनिश्रेष्ठ, अगस्त्य कहाँ रहते हैं ? उनका आश्रम कहाँ है ? कृपया बतलाइए।’ सुतीक्ष्ण ने उन्हें उस आश्रम के मार्ग की दिशा तथा चिह्न बताये और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। अपने प्रिय अनुज तथा पत्नी के साथ दक्षिण की ओर चार योजन का रास्ता तय करके, बहुत-से जगलों, पहाड़ों

तथा नदियों को पार करते हुए वे अगस्त्य के भ्राता के आश्रम में पहुँचे । वहाँ बड़ी श्रद्धा से उस यतीश्वर के चरणों में सिर झुकाकर वे उस रात को वही ठहरे । मुनि के सत्संग में रहते हुए राम ने उनसे प्रश्न किया—‘हे यतीश्वर, पहले इस स्थान पर अगस्त्य ने वातापि का सहार कैसे किया ?’ तब वह मुनीन्द्र रामचन्द्र को देखकर उस पुण्य-कथा को इस प्रकार कहने लगे—‘किसी समय वातापि और इल्वल नामक दो प्रचंड राक्षस इस पृथ्वी पर रहते थे । उनमें वातापि मेष का रूप धारण कर लेता था और इल्वल ऋषि के रूप में मार्ग में अडा रहता था । वह मार्ग में जानेवाले ब्राह्मणों को श्राद्ध के बहाने अपने घर में आमन्त्रित करता था और बड़े प्रेम से घर बुला लाता था । उसके पश्चात् उस मेष को मारकर बड़े प्रेम से उसका भोजन बनाकर उसे अतिथिगो को खिलाता था । भोजन के पश्चात् वह वातापि का नाम लेकर पुकारता था—‘हे वातापि । जल्दी चले आओ ।’ तब वह ब्राह्मणों का पेट चीरकर बाहर निकल पड़ता था । इस प्रकार, उन्होंने कितने ही मुनियों को मार डाला । एक दिन कुभसभव (अगस्त्य) उस मार्ग से आये, तो उसने कपट से उन्हें भी भोजन कराया और भोजन के पश्चात् वातापि को पुकारा । तब अगस्त्य ने कहा—‘अब वातापि कहीं से निकलेगा । वह तो कभी का पच गया है ।’ इस पर क्रुद्ध होकर इल्वल ने राक्षस का रूप धरकर उनपर आक्रमण करने के लिए निकला, तो कुभसभव ने अपने हुकार-मात्र से देखने-देखते उसको भस्म कर दिया और सब मुनियों को हर्षित किया । इतना ही नहीं, उन्होंने विंध्याचल को दबा दिया, अद्वितीय ङग से समस्त सागर को पी गये और नहुष को साँप बन जाने का शाप दिया । ऐसे पुण्यमूर्ति अगस्त्य केवल मुनि नहीं है । वे मुनि के रूप में (रहनेवाले) शिवजी हैं ।”

इन बातों को सुनकर रघुराम हर्षित हुए । दूसरे दिन मुनि ने रामचन्द्र का उचित आदर-सत्कार करने के बाद उन्हें आशीर्वाद देकर अगस्त्य मुनि के आश्रम का मार्ग बताया उस मार्ग से एक योजन तक जाने के पश्चात् उन्होंने अगस्त्य के उस रमणीय आश्रम को देखा, जो कटहल, दाडिम, शमी, बेर, अश्वत्थ, साल, द्राक्षा (किशमिश), रसाल, तमाल, बेल, खर्जूर, मदार आदि वृक्षों से और उन वृक्षों पर लदे हुए सुगन्धित फूल, और उन फूलों के मकरद पर आसक्त भ्रमर, सुन्दर पुष्पों के पौधे, और उन पौधों के मध्य मित्रता के साथ विचरण करनेवाले मृगों, कोकिलों का कल-कूजन, शास्त्र तथा वेद-ध्वनि, तथा विविध तपोविनोदों से दीप्तिमान् था ।

आश्रम में पहुँचकर राम ने एक मुनि के द्वारा अपने आगमन का समाचार अगस्त्य मुनि को जनाया, और उसके पश्चात् उनके सम्मुख उपस्थित होकर उनके चरण-कमलों में बड़ी भक्ति से वदना की । अगस्त्य ने उन्हें हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिये और विविध प्रकार से सतुष्ट किया । तदुपरान्त मुनि बोले—‘हे शुभ नामवाले राम, हे उत्पल-श्याम, हे गुणधाम, तुम क्रूर दानवों में भय उत्पन्न करनेवाले हो । मुनियों का सौभाग्य है कि तुमने मुनि-वेश में तपस्वी की तरह वन में निवास करते हुए, मुनियों को अभयदान दिया है कि तुम राक्षसों का सहार करोगे, अतः वे दुःखी न हों । तुम्हारे इन दयापूर्ण वचनों को सुनकर मुझे परम हर्ष हुआ ।’

इस प्रकार कहने के पश्चात् उन्होंने बड़े प्रेम से उनका अतिथि-सत्कार किया और असमान दिव्याङ्ग, शस्त्र, कोदंड तथा कवच आदि प्रदान किये । उन सबको ग्रहण करके रामचंद्र ने वहीं उनके सत्सग में रात्रि बिताई ।

दूसरे दिन सध्या आदि से निवृत्त होने के पश्चात् परमात्मा राम ने उस मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम किया । तब उनको आशीर्वाद देकर भविष्य के कार्य की सभावना करके उस धीमान् कुभसभब ने अत्यंत आदर के साथ रामचंद्र को संबोधित करके कहा—‘हे राम ! तुम उस पंचवटी में जाकर रहो, जिसके प्रागण में गोदावरी नदी के पुण्य जल से शीतल बनाये गये तथा मद-मद चलनेवाले पवन के प्रभाव से लता-रुही नर्त्तकियाँ नृत्य करती रहती हैं, और जो जटाधारी धूर्जटि के लिए पूज्य है । कुभसभब की आज्ञा लेकर रघुवर उस स्थान के लिए रवाना हुए ।

८. जटायु से मित्रता

मार्ग के मध्य में उन्होंने एक खगराज को देखा, जो पक्षी से युक्त कुल-पर्वत के समान था । राम ने सोचा कि यह भी कोई राक्षस होगा, इसलिए उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो ? तब वह पक्षी बड़े हर्ष से कहने लगा—‘हे राम, मेरे पिता, गरुड के अग्रज, कश्यप के पुत्र तथा सूर्य के सारथी महात्मा अरुण हैं । मपाति मेरे अग्रज हैं । मैं आपके पिता का मित्र हूँ, आपका हितैषी हूँ, पराया नहीं हूँ और मैं महान् साहसी हूँ । मेरा नाम जटायु है । यह वन असुर-राजा के अधीन है, इसलिए (आप) सीता की रक्षा सावधानी से करते रहिएगा ।’ तब राम ने उसे अपने पिता दशरथ के समान मन में मानकर बड़े स्नेह से उसकी पूजा की और वहाँ से चलकर पंचवटी में जा पहुँचे । वहाँ के श्रेष्ठ तपस्वी तथा मुनियों को बड़ी भक्ति से प्रणाम करके राम ने उनका सत्कार ग्रहण किया और फिर लक्ष्मण तथा सीता को देखकर बोले—‘हमने कई प्रकार के पुण्य आश्रमों को देखा है, किन्तु ऐसी गौतमी गंगा (गोदावरी), ऐसे सरोवर, ऐसे वृक्ष और ऐसे आश्रम कहीं नहीं देखे । हम आज से यहीं रहेंगे ।’

इस प्रकार वे अत्यंत हर्षित हुए और वहाँ के मुनियों की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् स्वयं तथा लक्ष्मण ने उसी दिन बड़ी तत्परता से एक सुंदर पर्णशाला बनाई । तत्पश्चात् आप और लक्ष्मण ने उसकी पूजा की और भूसुता (सीता) के साथ उस पर्णशाला में प्रवेश किया । इस प्रकार वे छह मास तक बड़े सुख से वहाँ रहे ।

९ हेमंत-वर्णन

तब ससंस्त पृथ्वी को तथा दसो दिशाओं को कुहरे से आच्छादित करते हुए हेमत ऋतु का आगमन हुआ । एक दिन प्रातःकाल ही सीता के साथ स्नान करने के लिए जाते समय राम ने लक्ष्मण को देखकर कहा—‘हे लक्ष्मण, तुमने शीतकाल की महिमा देखी है ? चारों ओर हिम इस प्रकार आच्छादित हो गया है, मानो सभी दिशाएँ ठंड से भीस्त होकर श्वेत कौशेय धारण किये हो । सारी पृथ्वी पर गिरी हुई ओस की बूँदें जमकर ऐसी दिखाई दे रही हैं, मानो हेमत ऋतु-रूपी बादल ने समस्त आकाश में व्याप्त होकर

अत्यधिक ओले बरसाये हो । कहीं-कहीं ओस-कण दूर्वाकुरो के सिरों पर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, मानो मरकत की गलाकाओ की पक्षितियों पर सुंदर ढंग से पिरोये गये मोतियों की लड्डियाँ हो । उस पुष्प-जताओ को देखो, जो कामदेव के सम्मोहनास्त्र के समान, स्पर्श करनेवाले पवन से भयभीत होकर, मानो विरहिणियों की तरह चंचल गति से डोल रही हैं । ओस में रहनेवाले कमल, आँसुओं में निमग्न विरहिणियों के मुखों का उपहास कर रहे हैं । वहाँ देखो, पानी के ऊपर तैरनेवाले कमलों के पराग पर मँडरानेवाले भ्रमर और लाल कमल, ठंड से पीड़ित सरोबर के देवताओं के लिए धुएँ से युक्त अगीठियों के समान दीख रहे हैं । हे अनुज, वहाँ देखो, जगन्नी हाथी प्यास से व्याकुल होकर मद गति से दौड़ते हुए इस नदी में आते हैं, नदी के जल को अपनी सूँडों में भरकर चिंघाड़ते हुए अपनी सूँडों को समेटे हुए भाग रहे हैं । अब भरत भी मेरे प्रति भक्ति रखने के कारण राज-भोग छोड़कर, बल्कल तथा जटाएँ धारण करके, मेरे आगमन की प्रतीक्षा करते हुए तड़प रहा होगा । न जानें, वह महान् व्यक्ति, परम पावन भ्रातृ-प्रेमी, अपने पिता तथा अग्रज की आज्ञा का पालन करनेवाला परम यशस्वी, आश्रितों का रक्षक भरत, उषकाल में कैसे सरयु-नदी में स्नान करता होगा ? न जाने, वह मुनि की तरह कैसे पृथ्वी पर सोता होगा ? मेरे पिता के सत्य वचन तथा मेरा दृढ़ सकल्प उनके कारण ही सभी लोकों में इतने प्रख्यात हुए । जिस माता की आज्ञा के कारण मैं सभी समयों में मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त कर सका, ऐसी माता को न जाने कट्ट वचनों से वह कितना दुःख देता होगा । नहीं, बल्कि वह मुण्यात्मा ऐसा क्यों करने लगा ? राज्य के अधिकार से अलग होकर मैं तपस्वी हुआ, किंतु राज्य का अधिकारी होते हुए भी वह तपस्वी हुआ । उस पुण्यात्मा को देखकर दूसरों को सीखना चाहिए कि भाइयों में परस्पर कैसा व्यवहार उचित है । ऐसे भरत तथा स्नेहपूर्ण माताओं, तथा अन्य नातेदारों को न जाने हम कब देख पायेंगे ।” इस प्रकार उनके संबन्ध में सोचते हुए बड़ी श्रद्धा से उन्होंने गौतमी नदी में जी भरकर स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, गायत्री-मन्त्र का जप करने के पश्चात् ब्रह्म-यज्ञ किया और पर्णशाला को लौटकर बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे ।

१०. जंबुसालि का वृत्तान्त

एक दिन लक्ष्मण प्रातःकाल ही उठे और बड़े पवित्र चित्त से अपने भाई को प्रणाम किया और कद, मूल, फल आदि लाने वन में चले गये । वनों में घूमते-घामते उन्होंने एक ऊँचे पहाड़ को देखा और उसके निकट विचरण करने लगे । इसी समय समस्त पृथ्वी को देदीप्यमान करते हुए सूर्य से उत्पन्न एक खड्ग आकर भीषण जलद के गभीर गर्जन की-सी वाणी में कहने लगा—‘हे राक्षस-कुमार, तुम्हारे तप से प्रमत्त होकर सूर्य ने शत्रुओं का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है । तुम मुझे ग्रहण करो ।’ तब उस राक्षस-कुमार ने कहा—‘सूर्य ने स्वयं तुम्हें मुझे न देकर, मेरा अनादर किया है । मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूँगा । मेरे सारे तप पर पानी फिर गया है । हे सूर्य के खड्ग, तुम जहाँ चाहो, जा सकते हो ।’ श्री कृष्णकर वह पूर्ववत् अचल समाधि में लीन हो गया ।

(यह देखकर) लक्ष्मण विस्मित हुए और उस खड्ग की ओर देखकर बड़ी कुशलता से उसके निकट पहुँचे और उसे हाथ में लेकर देखने लगे। फिर यह सोचकर कि तपस्वियों के आधार इन फल-वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। वे जहाँ-तहाँ भटकते हुए एक विशाल बाँस की झाड़ी के निकट पहुँचे और उस झाड़ी पर खड्ग चलाया। खड्ग चलाते ही उस झाड़ी के मध्य में तपस्या में लीन एक मुनि कटकर भूमि पर लोटने लगा। यह देखकर लक्ष्मण मूर्च्छित-से हो गये। कुछ समय के उपरान्त वे सँभले और विलाप करने लगे—‘हाय, यह मैंने क्या कर डाला? अनजान में मैंने एक ब्राह्मण का वध किया और समस्त लोको की निंदा का पात्र बना। ब्रह्म-हत्या का पाप मुझे प्राप्त हुआ है। हाय, मैं इतनी दूर क्यों आया? मैंने यह खड्ग लिया ही क्यों? अनुपम धर्मिमा रामचंद्र के अनुज मुझे ऐसा घोर पाप लग गया है। यह मुनि न जाने कौन है? (अनजान में) मैंने उनका वध कर डाला। जानकीनाथ सुनौं, तो न जाने मुझे क्या कहकर तज देंगे। क्या जाने मुनिजन कैसा शाप देंगे। मैं यह वृत्तात (राम से) कह भी नहीं सकता, कहे विज्ञा रह भी नहीं सकता। हाय भगवान्! सर्वनाश हो गया है।’ इस प्रकार भय-विह्वल हो, दुःख करते हुए धीरे-धीरे पैर घसीटते हुए वे चले। मन ही-मन सोचते जाने थे कि महाराज दशरथ को पितृ-भक्त (श्रवणकुमार) के वध का पाप लगा था। पृथ्वी के लोग कहेंगे कि पिता के समान पुत्र को भी पाप लगा।

इस प्रकार चिंतित होते हुए वे अपने अग्रज के सम्मुख पहुँचे और थर-थर काँपते हुए गद्गद कंठ से युक्त हो उन्हें प्रणाम किया। राघव ने अपने अनुज को उठाकर गले से लगाया, (उनके) अश्रुओं को पोछा, और दयार्द्रचित्त से कहा—‘हे अनघ, मेरे रहते तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? तुम धर्म के अनुसार आचरण करनेवाले हो, उदार हो निर्मल आत्मा हो, नीतिवान् हो, महाराज दशरथ के मान्य पुत्र हो शिव के समान पराक्रमी तथा शूर हो। भाई, तुम्हारा मुँह ऐसा क्यों उतरा हुआ है? स्पष्ट रूप से सारा हाल कह सुनाओ।’

तब जयशील लक्ष्मण ने कहा—‘हे भयत्राता, आपकी आज्ञा लेकर मैं वन से कद-मूल, फल लिये आ रहा था। तब एक क्रूर खड्ग को आकाश से आता हुआ देखकर मैंने उसे हाथ में ले लिया और एक बाँस की घनी झाड़ी पर उसे चलाया। उस झाड़ी में (तपस्या में लीन) एक श्रेष्ठ मुनि तुरत भूमि पर लोट गये। अपने अपराध के लिए चिंतित होते हुए, आपके सामने आने का साहस न रहने हुए भी मुझे आना ही पडा।’

यह सुनकर राघव अत्यधिक आश्चर्य में पड़कर आगे के कर्तव्य के सन्ध में सोचते हुए चुप हो रहे। उसी समय वहाँ के सब मुनि सारा वृत्तात (राम को) सुनाने का निश्चय करके आद्य और रामचंद्र को आशीर्वाद देकर अत्यंत कोमल स्वर में यों बोले—

‘हे अखिलेश, आपके अनुज ने अभी अखिललोक-शत्रु रावण के भानुजे, जबु नामक एक दुष्ट का सहार किया है। इसमें कोई दोष नहीं है। हे राजन्, उनके इस कृत्य से सभी मुनि सतुष्ट हो गये हैं।’

तब राघव ने उन मुनियों से पूछा—‘हे महात्मा, कृपया बतलाइए कि उसने किस देवता के प्रति इतना घोर तप किया और वह खड्ग कहाँ से आया ?’ तब मुनियों ने राम से कहा—‘पूर्वकाल में अपने बल-विक्रम से सभी दिशाओं को जीतने के लिए जाने समय दशकठ ने किसी दूसरे पर विश्वास न करके, अपने बहनोई, पराक्रमी विद्युज्जिह्व को बुलाकर कहा था—‘सावधान होकर लका की रखवाली करते रहना ।’ इस प्रकार उसे लका की रखवाली करने के लिए नियुक्त करके वह चला गया ।

‘इसके पश्चात् विद्युज्जिह्व ने मन-ही-मन सोचा—मैं सभी मायाओं को जानकर दशकठ को लकापुर में प्रवेश नहीं करने दूँगा और खुद लका को हस्तगत कर लूँगा । यो सोचकर वह पाताल-लोक में चला गया और वहाँ प्रमुख राक्षसों के पास रहते हुए महान् माया-युक्त मन्त्र-तन्त्र, ग्रहवाद, अखिलवाद, गारुड क्रियाएँ, विषवाद, रसवाद आदि विद्याएँ सीखी और वही रहने हुए तरह-तरह की मायाओं को सीखने में तत्पर रहा । इधर रावण सभी दिक्पालों को जीतकर लका लौट आया । विद्युज्जिह्व का सारा हाल जानकर वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और आँखों से अग्नि-वर्षा करने लगा, कहने लगा—‘मेरी आज्ञा का पालन किये बिना ही यह (विद्युज्जिह्व) मायाओं के जानने गया है । मैं भी देखूँगा, उसकी समस्त मायाओं को आज मैं मटियामेट कर दूँगा ।’ यो कहते हुए वह पाताल-लोक में गया तो ‘अस्मय’ नगरवासी सभी राक्षस भयाकुल हो गये । रावण ने अत्यधिक क्रोध से अपनी तलवार को म्यान से निकालकर, इसका विचार भी नहीं करके कि यह मेरा बहनोई है, मेरी बहन का पति है, विद्युज्जिह्व का पीछा करके उसका वध कर डाला ।

‘इसके बाद वह लका लौट आया और अपनी बहन शूर्पणखा को बुलवाकर उसे सात्वना दी और कहा—‘तुम अपनी स्वेच्छा से विचरण करती हुई, अपनी इच्छा के अनुकूल किसी भी पति का वरण करके निर्भय ससार में रहो ।’ उस समय शूर्पणखा को छह मास का गर्भ था । यथासमय उसने जबकुमार नामक एक भयंकर तथा बलशाली पुत्र को जन्म दिया । वह जब बड़ा हुआ, तब उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का समाचार जान लिया और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया । उसने सोचा—यदि मैं ब्रह्मा की तपस्या करूँ, तो वे मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, शिव की तपस्या करूँ, तो रावण शिवभक्त होने के कारण वे उस पर क्रोध नहीं करेंगे, यदि विष्णु की तपस्या करूँ, तो न जाने कब वे प्रसन्न होंगे और कब मैं प्रतिशोध ले सकूँगा । कहते हैं कि हरि, हर तथा ब्रह्मा ये तीनों सूर्य के रूप में रहते हैं । इसलिए मैं सूर्य के प्रति तपस्या करके उनकी कृपा प्राप्त करूँगा तथा दनुजों के नेता दशकठ का वध करूँगा । यो सोचकर वह सूर्य की तपस्या करने लगा ।

‘सूर्य ने उसकी तपस्या से सतुष्ट होकर प्रतिशोध लेने के लिए उस राक्षस के पास एक खड्ग भेजा । किन्तु गर्वान्ध होकर उसने वह खड्ग नहीं लिया । इस तरह वह खड्ग आपके अनुज को मिल गया । ऐसा न होकर यदि वह राक्षस के हाथ में पड़ जाता, तो वह सभी लोगों को त्रास देता । दैवयोग से वह राक्षस नष्ट हुआ । हे सूर्यवश-तिलक, अब इसके बारे में चिंता क्यों करते हैं ? युद्ध में कार्तवीर्य ने रावण को जीता था ।

भार्गव ने उसे मार डाला । ऐसे भार्गव राम को आपने युद्ध में हराकर उनका मद चूर्ण किया । ऐसे (शक्ति-सपन्न) आपके द्वारा राक्षस युद्ध में अवश्य ही मारे जायेंगे ।” इन बातों को सुनकर रघुराम आश्चर्य-चकित हुए और विनम्र होकर मुनियों को प्रणाम करके उन्हें बिदा किया ।

११. शूर्पणखा का वृत्तांत

शूर्पणखा प्रतिदिन के जैसे बडिया भोजन, विविध मिष्टान्न आदि से भरा हुआ टोकरा लिये हुए आई और कटी हुई बाँस की झाड़ी के बीच खड-खड होकर गिरे अपने पुत्र को देखकर मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । सँभलने के बाद वह उन खडों को एकत्र करके बड़ी देर तक विलाप करती रही । उसके पश्चात् वह कहने लगी—“हे कुमार, तुम्हारे लिए क्या यह उचित है कि तुम अपनी आँखें खोलकर मेरी ओर न देखो और मुझे न अपनाओ । रावण तुम्हारे मामा है, इसका भी विचार किये बिना तुम उस प्रतापी (रावण) का वध करना चाहते थे; किन्तु वह तुम से नहीं हो सका । क्या तुम ऐसा कर सकोगे ? क्या वे (रावण) कार्तवीर्य से पराजित हुए थे ? क्या अनरण्य की शापाग्नि से वे नष्ट हुए ? क्या ब्रह्मा के धनुष की अग्नि से उनका अंत हुआ ? क्या नलकूबर से वे पराजित हुए ? क्या वे शिव के वाहन नदीश्वर के क्रोध का शिकार बने ? क्या शाण्डिल्य मुनि का क्रोध उनका नाश कर सका ? इतना क्यों, क्या कुबेर लका में रह सका ? तुमने बात पर ध्यान नहीं दिया कि बलवान् से विरोध करना उचित नहीं । उनकी मृत्यु अब नहीं होने की । क्या पापी चिरायु की लोकोक्ति झूठी होगी ? (अर्थात् पापी चिरायु होता है, यह लोकोक्ति प्रचलित है) ? मैंने तुम्हें कितना समझाया कि (उन से) वैर मत ठानी, किन्तु तुमने मेरी बातों की परवाह न की, और इस प्रकार नष्ट हो गये । भला, रावण तुम्हारे हाथ क्योंकर मरने लगे ? कहते हैं कि माता का वचन धर्म-देवता का वचन होता है । हे निर्मलात्मा, तुमने उसकी (माता के वचन की) परवाह न की । गंधर्व, सुर, सिद्ध आदि (रावण के) कारागार में रहते-रहते अंधे हो गये हैं । क्यों कहीं राक्षसों को जीता जा सकता है ? हे विद्युज्जिह्व के कुल-दीपक, हे महांतपस्वी, हे पुण्यवान्, तप के सिद्ध होते समय तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी । अब भगवान् की सिंहा क्यों कहें ? मैं तो पतिहीना पापिनी हूँ । यदि सूत का मुँह देखती रहती, तो शोक कुछ कम हो जाता । स्त्रियों के लिए कुल का उद्धार करनेवाली सतान बहुत ही आवश्यक है ।”

इस प्रकार विलाप करती हुई उसने अपने पुत्र के शरीर का अग्नि-संस्कार किया । उसके पश्चात् थोड़ी दूर पर तप करते रहनेवाले महात्माओं के पास जाकर बोली—“हे नीच तपस्वियों, तुम सिर पर जटाएँ धारण किये, शरीर पर विभूति मले हुए, जनेऊ धारण करके, आँखें बंद किये, घोर निष्ठा-युक्त तपस्या का बहाना करते हो । सबलोग मिलकर बंकरो का सिर काटते हो, उन्हें अच्छी तरह पकाकर पेट भर खा लेते हो और उनकी सूखी खालों को पहनकर कपट-वेष धारण किये निरपराधों की तरह रहते हो । हे गर्व से अंधे, तुमलोगों ने पाप-बुद्धि से प्रेरित होकर मेरे पुत्र को किस प्रकार और क्यों मारा ?

यदि यह नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हें अवश्य निगल जाऊँगी और अपना क्रोध शान्त करूँगी । आज मैं तुम्हें छोड़नेवाली नहीं हूँ ।’

इस प्रकार गरजती हुई वह उन मुनियों के निकट पहुँची । मुनि भयभीत होकर उससे बोले—‘हे शूर्पणखा, सुनो । मुनि-वेष धारण किये हुए एक मानव, तुम्हारे पुत्र का वध करके, फल आदि इकट्ठा करके, उस पर्णशाला में जाकर अविचलित मन से रहता है । वहाँ जाओ, तो तुम्हें सभी बातों का पता चल जायगा ।’

तब वह दुर्मति राक्षसी क्रोध से लक्ष्मण के चरण-चिह्न का अनुसरण करती हुई (राम की पर्णशाला की ओर) चली । इधर मुनि लोग हर्षित होने लगे कि यह बाघ को छोड़ेगी और अवश्य ही रघुवशी इसे उचित दंड देकर भेजेंगे । सभी दैत्यों के नाश का यह मूल कारण बनेगी ।

तब राक्षस राजा की बहन शूर्पणखा ने समय का विचार करके ऊँची नाक, उग्र भाव, बड़ी-बड़ी आँखें, दाढ़ों से युक्त जबड़े, विशाल उदर, बिखरे केश, खुला हुआ मुँह, काला शरीर, लंबी जीभ, विशाल काया और क्रूर दृष्टि आदि धारण किये और स्त्री-रूप में राम के निकट इस प्रकार पहुँची, मानो वह अत्यंत भयकर गति से आनेवाला विष ही या समस्त लोको को निगलने के निमित्त आनेवाला भूत ही, या दैत्य-वश के नाश का समय आसन्न जानकर पृथ्वी पर उतर आई हुई मृत्यु ही हो ।

उसने जब इदीवरस्याम, सूर्य-प्रभा-सम तेजस्वी, सौंदर्य में काम को भी लजानेवाले, जगदभिराम, दैत्यों का नाश करनेवाले, राम को देखा, तो तुरत वह काम-पीडित हो गई । वह अपने-आपको भूल गई और तमोगुण से प्रेरित होकर अपने को समस्त लोक की सुदरी मानने लगी । उस राक्षसी ने अपने चौड़े मुख से उनके (राम के) मनोज्ञ मुख की, अपने विशाल उदर से उनके क्षीण उदर की, और अपनी तिरछी आँखों से उनके विशाल नेत्रों की तुलना करके अपने में और रामचन्द्र में बिलकुल समानता देखने लगी । तब उसने निश्चय कर लिया कि यही मेरे लिए उचित पति है । तदुपरान्त उसने सूप-जैसे अपने मुख पर हँसी प्रकट करते हुए कहा—‘धनुष-बाण धारण किये, पत्नी के साथ तुम इन अगम्य वनों में क्यों भ्रमण कर रहे हो ? इस वेश में तुम क्यों रहते हो ? तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है ?’

इन वचनों को सुनकर राम ने मद-मद हँसकर उस राक्षस-रमणी से कहा—‘हे मनोहरसुदरी, मेरा नाम राम है । मेरे पिता महाराज दशरथ हैं । इस पर्णकुटी में रहने-वाला मेरा अनुज है । यह पद्माक्षी मेरी पत्नी सीता है । पिता की आज्ञा से मैं इस वन में तपस्वियों की तरह रहता हूँ । हे युवती, तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? आज हमारे यहाँ तुम क्यों आई हो ? तुम्हारे हाव-भाष, तुम्हारा यौवन-रूप तथा तुम्हारी सुदरता, क्या अन्य किसी रमणी में है ?’

इन बातों को सुनकर शूर्पणखा ने राम को संबोधित करके कहा—‘मैं विश्रवसु के पुत्र, समस्त ससार का शत्रु, विक्रम-यशोधन, अमित शक्तिशाली रावण की बहन हूँ । मेरा नाम शूर्पणखा है । मैं तुम्हारे रूप की अपने रूप के साथ तुलना की है और मुझे

विश्वास हो गया है कि मेरा और तुम्हारा प्रेम उचित होगा। इसलिए मैं तुम पर आसक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी जाने की क्षमता रखती हूँ, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकती हूँ, कोई भी सुख पहुँचा सकती हूँ। अब तुम्हारे साथ जो (स्त्री) है, वह किस काम की है? मेरा सौंदर्य देखो और मेरा प्राणि-ग्रहण करो। यह (सीता) कुल तथा गुण में हीन है, विकृतरूपिणी है, यह तुम्हारे लिए कहाँ योग्य है? हे राम, मैं अभी इसे निगल जाऊँगी और तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे साथ रति-क्रीडा में प्रवृत्त हो जाऊँगी।'

इस प्रकार कहते हुए जब वह राम के पास आने लगी, तब राम ने सीता को अपने निकट बुला लिया। तरुणी की इच्छा को सुनकर, उसका परिहास करने के उद्देश्य से उसके रूप को देखकर हँसते हुए बोले—'हे सुदरी, मैं पत्नी के साथ रहता हूँ। यह मेरा विश्वास करके मेरे साथ वन में आई है, इसलिए इसे तुमको सौपना उचित नहीं है। इतना ही नहीं, तुम सौत के साथ सुख से कैसे रह सकोगी? अगर यह नहीं होती, तो मैं पहले ही तुम्हें ग्रहण करता। अब भी कुछ विगडा नहीं है। वह देखो, मेरा भाई है, श्रेष्ठ तपोधन है, वह मुझसे भी अधिक सुंदर है। वह सदा अपने लिए अनुकूल, चंचल तथा विनाल नेत्रवाली स्त्री की अभिलाषा करता रहता है। इसलिए वही तुम्हें ग्रहण करने में समर्थ है।'

इस पर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी—'हे लक्ष्मण, मैं तुम पर आसक्त होकर तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए आई हूँ। मुझे तुम ग्रहण करो।' लक्ष्मण समझ गये कि राम के भोजने पर यह मेरे पास आई है। इसलिए वे बोले—'हे सुदरी, पहले तुमने अपने मन से मेरे भाई से प्रेम किया था। अतः, तुम्हें ग्रहण करना मेरे लिए उचित नहीं है। सौंदर्य में साता तुम्हारी समता नहीं कर सकती। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे हाव-भाव आदि यदि एक बार और राघव देखेंगे, तो वे सीता को छोड़कर तुम्हें ग्रहण करेंगे। हे रमणी, इसलिए तुम राम से ही प्रार्थना करो।'

सौमित्र की बातों पर विश्वास करके वह तमोगुण-सपन्न स्त्री, अपने भद्देपन का विचार न करके पुनः राम के पास गई और रति-क्रीडा के लिए प्रार्थना करने लगी। तब राम ने कहा—'हे सुदरी, तुम उसी (लक्ष्मण) के पास जाओ।' तब युवती पुनः लक्ष्मण के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार अनुज अग्रज को, अग्रज अनुज को दिखाने लगे। वह युवती विकल मन के साथ बड़ी अनुचित आशा लिये मन्मथ के सूत्र के द्वारा नचाई जानेवाली कठपुतली की तरह, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, आने-जाने लगी। अतः मैं वह उन दोनों की रसहीन बातों से तग आकर क्रुद्ध होकर बोली—'हे मानव, एक अकिंचन स्त्री के समान मुझे तग करना क्या तुम्हारे लिए उचित है? अगर मैं क्रोध करूँ, तो मानवों की कौन कहे, इन्द्रादि देवताओं को भी खा जाऊँगी। अब मैं इस स्त्री के साथ समस्त मसार को पीसकर खा जाऊँगी।' यो कहती हुई उसने बडा भयकर रूप धारण कर लिया और मृत्यु के समान अट्टहास करती हुई वह (सीता के) निकट जाने लगी। तब राघव बोले—'हे सौमित्र, यह जानकी के ऊपर आक्रमण करने

आ रही है । अब इससे परिहास छोड़कर, इसे दण्ड दो ।’ तब लक्ष्मण ने बाँबी से निकलनेवाले विष-ज्वालाओं से युक्त सोंप-सा अपना खड्ग म्यान से निकाला और उस राक्षसी की नाक और कान काट लिये । तब वह रोती-कलपती, विवश हो, टूटे हुए शृगवाले लाल पर्वत के सदृश (नाक-कान से) रक्त बहाती हुई, वहाँ से भाग गई । वहाँ से भागकर वह चतुर्दश सहस्र श्रेष्ठ निशाचरो के निलय, खर के निवास-स्थान में पहुँची ।

१२ खर-दूषण का वध

खर ने जब उस (शूर्पणखा)का रूप देखा, तब वह डर गया और पूछा—‘किसने निर्भय होकर तुम्हारा रूप ऐसा विकृत कर दिया है ? काले नाग को जानकर भी किसने उसे पैर से कुचला है ? किसने मृत्यु को इस प्रकार छेड़ा है ? मुझे उसका नाम बताओ । मैं शीघ्र उसका रक्त और मांस तुम्हें ला दूँगा । इस प्रकार प्रश्नों की वर्षा करनेवाले खर को देखकर वह स्त्री भरी हुई विकृत आवाज में रोती हुई, अत्यधिक लज्जा से सर झुकाये हुए, इस प्रकार कहने लगी—‘वन में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा पुत्र सूर्य के प्रति अत्यंत निष्ठा से तप कर रहा था । तब मुनि-वेशधारी अत्यंत साहसी, मोहनाकार राम-लक्ष्मण नाम के राजकुमारो ने बिना भय के उसका वध कर डाला । मैंने अपने पुत्र की अत्येष्टि-क्रियाएँ की और वन में रहनेवाले उन सुन्दर आकारवाले राजकुमारो के पास गई और उनपर मोहित हो गई । उन्होंने अपनी अमित शक्ति के प्रताप से मेरी ऐसी दुर्गति कर दी है । मैं दुःखी होती हुई तुम्हारे पास आई हूँ । तुम तुरत उनके पास जाओ और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनका वध करके उनका मांस ला दो । इस तरह मेरे हृदय को शांति पहुँचाओ ।’

इन बातों को सुनकर खर ने कहा—‘इस छॉटी-सी बात के लिए मेरे आने की आवश्यकता ही क्या है ? उनकी शक्ति ही कितनी है ? मैं अपने अनुचरो को (तुम्हारे साथ) भेजूँगा । उन्हें ले जाओ । इस प्रकार कहकर उसने यम के-से उग्र तेजवाले (भटो) को बुलाकर कहा—‘तुम इस शूर्पणखा के साथ जाओ और उन मानवों का वध करके मेरी बहन शूर्पणखा को उनका रक्त पिला दो ।’

वे राक्षस वायु के साथ आनेवाले दुर्वार मेघों के समान, बिजलियों के-से शूल घुमाते हुए राम और लक्ष्मण-रूपी सूर्य-चन्द्रो पर आक्रमण करने लगे, और घोर गर्जन करने लगे । तब राम ने अपने दीप्तिमान् धनुष तथा अन्य आयुधों से युक्त हो उनका सामना किया । उन्होंने राक्षसों से फेंकी हुई बिजली तथा शूलों को अपने शस्त्रों से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया । उसके पश्चात् (राम ने) भयकर वज्र-से बाणों से उनके कंठों को काट डाला और तब उनके सिर पके हुए फलों के समान गिर पड़े और वे अनुपम बाणों के आघात से सीधी शिलाओं के समान पृथ्वी पर लुढ़क पड़े ।

तब शूर्पणखा अत्यंत वेग से भागकर सभी लोकों को भयभीत करनेवाले खर से उन राक्षसों की मृत्यु का तथा रघुराम की महिमा-समन्वित युद्ध का समाचार कहा । आह्वति के पड़ने से उत्तेजित होकर भभक उठनेवाली अग्नि के समान क्रुद्ध होकर खर अत्यधिक आवेश से भरे दूषण, त्रिशिर आदि चौदह सहस्र बलशाली राक्षस वीरों को साथ

लेकर चला । यह देखकर देवताओं के साथ सारा स्वर्ग काँप गया और सभी पहाड़ों से युक्त पृथ्वी हिल उठी । खर ने रण-भेरी बजाई और सुमेष-पर्वत की आभा के समान दीखनेवाले चितकबरे रग के अश्वों से युक्त, मणिमय कूबर तथा दस स्वर्णमय चक्रों से समन्वित, रण में विजय प्रदान करनेवाले, धनुष-बाण और खड्गों से भरे, किकिणि-ध्वनि से मुखरित होनेवाले रथ पर चढ़कर वह गण-विद्या-विशारद राम पर आक्रमण के लिए निकल पड़ा । (उसके पीछे-पीछे) बाज के पंखों के समान बाणवाला, बिजली की समता रखनेवाला, त्रिशिर (नामक राक्षस) सभी दिशाओं-की कात्ति को मलिन करता हुआ, सूर्य की कात्ति के समान उज्ज्वल, श्रेष्ठ गधों के समूह से खींचे जानेवाले स्वर्ण से आच्छादित रथ पर बैठकर बड़े गर्व के साथ उस महायुद्ध के लिए रवाना हुआ । उसके आगे-आगे मयूर की छटा को मात करनेवाले, पवन की गति का भी तिरस्कार करनेवाले, कात्ति-युक्त शीघ्र-गामी अश्व-समूह के द्वारा खींचे जानेवाले उत्तम रथ पर ब्रैठकर, अत्यधिक उत्साह से बड़े ठाट-बाट के साथ (खर) जा रहा था । पृथुग्रीव, श्येनगामी, विहगमुख, मेघमाली, महामाली प्रलयकाल की कालाग्नि की समता करनेवाला सर्पमुखी, कालकार्मुक, दुर्जय, यज्ञ-शत्रु, पक्ष, कश्पा-रहित, करवीरनेत्र और श्विराशन नामक बारह प्रतापी राक्षस वीर, बारह आदित्यों के समान, बड़ी श्रद्धा से खर के पीछे जा रहे थे । त्रिशिर, प्रमाथी, रणकुशल, महाकपाल और स्थूलाक्ष, (आदि राक्षस) उस रण-मदमत्त सेना के साथ चारों ओर सावधान होकर चल रहे थे ।

(इस प्रकार जब राक्षस-सेना निकली), तब भयंकर गज-समूहों के चिंघाडने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के चलने तथा पदचरों के हूँकारने की ध्वनि तथा पताकाओं के फड़फड़ाने की ध्वनि से पृथ्वी घँस गई, दिशाएँ चूर-चूर हो गईं, समुद्र उमडने लगे और सभी भूत थर-थर काँपने लगे । सेना के चलने से जो धूल उड़ी, उसने आकाश को ऐसा ढक दिया कि सदेह होने लगा कि रवि-मंडल है या नहीं । इसी समय खर की पताका पर चील बैठने लगे । घोड़े घुटने टेकने लगे, रक्त की वर्षा होने लगी, सियार रोते हुए सेना के बीच से दौड़ने लगे, नक्षत्र टूटने लगे, पक्षियों की ध्वनि चारों ओर सुनाई पड़ने लगी । इसी प्रकार के कितने ही उत्पात पृथ्वी और आकाश में होने लगे । फिर भी खर बिना भयभीत हुए आगे बढ़ता गया और दण्डक-वन में पहुँच गया । अनुपम आकारवाले राम उस कोलाहल को सुनकर पर्णशाला के बाहर आकर खड़े हुए और पृथ्वी तथा आकाश में दीखने-वाले अपशकुन को देखकर, शीघ्र अपने अनुज को बुलाया और कहा—'सौमित्र, युद्ध-सूचक चिह्न कितने ही दिखाई पड़ रहे हैं । कदाचित् वह निघ और नकटी राक्षसी अपने साथ और सेना ला रही है । वह सुनो, सेना का रणघोष सुनाई पड़ रहा है । वहाँ देखो, सेनाओं के चलने से धूल आसमान में छा रही है । जानकी का अब यहाँ रहना ठीक नहीं । इसलिए सावधान होकर तुम शीघ्र ही उसे अपने साथ ले जाकर पर्वत की गुफा में ठहरो ।

तब लक्ष्मण ने कहा—'हे सूर्यवंश-तिलक, आपको यहाँ छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ ? आप ही सीताजी के साथ पर्वत की गुफा में जाकर देखते रहिए । मैं आपकी कृपा धन दुर्गराक्षसों का वध करूँगा ।' ये बातें सुनकर राम ने कहा—'इनसे युद्ध करना

मेरे लिए कौतुक का विषय होगा। इसलिए तुम यहाँ मत रहो। जानकी को साथ लेकर जाओ।' (इन बातों को सुनकर) लक्ष्मण सीता को साथ लेकर पर्वत-गुफा में चले गये।

तब राम प्रलयकाल के रुद्र के समान क्रुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने हुए, कृपाण, कवच, धनुष-बाण धारणकर, श्रेष्ठ तूणीर-युगल (पीठ पर) बाँधकर और पर्वत को भी धनुष के आकार में झुकानेवाले शिव की तरह, अपने धनुष पर प्रत्यचा चढाकर, उस प्रत्यचा की टकार करने लगे। उस धनुष की टकार की शक्ति सारे आकाश में गूँजने लगी। इन्द्र, दिक्पाल और अन्य देवता अपने रत्न-सज्जित विमानों पर आसीन हो यह देखने की उत्सुकता प्रकट करने लगे कि राम अकेले खर तथा दूषण आदि अत्यन्त पाश्र्विकी चौदह सहस्र राक्षसों का वध कैसे करते हैं? सभी देवर्षि स्वर्ग से कई बार आशीर्वाद देने लगे कि महात्मा राम इन मायावी राक्षसों का वध करने में सफल हों। राम का तेज अभी वन, वृक्ष, पृथ्वी तथा आकाश में ऐसा व्याप्त हुआ, मानो दस सहस्र कोटि सूर्यों का तेज समस्त लोको में व्याप्त हो गया हो।

इस प्रखर तेज के कारण जडवत् हो, अभी उत्साह को खोकर, आँखें चौधिया जाने के कारण अत्यन्त दीन दीखनेवाले राक्षस-समूह को देखकर, खर ने दूषण से कहा—'(हे भाई), क्या कारण है कि हमारी सेना की गति मद पड गई है। क्या शत्रु-सेना ने उसका सामना किया है? या कोई नदी बीच में पड गई है?'

तब दूषण ने सारा समाचार जानकर कहा—'हे दनुजेश्वर, राम का उद्वृष्ट तेज सारे ससार में व्याप्त हो गया है। इसलिए हमारी सेना की गति मद पड गई है।'

यह बात सुनकर खर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और सेना को डाँट-फटकार बताते हुए, भयंकर रीति से सारी सेना का संचालन करते हुए वह आगे बढ़ा। अत्यधिक भुजबल, आटोप तथा पराक्रम से समन्वित उस राक्षस-सेना ने गज, रथ, तुरग आदि से युक्त हो, अत्यन्त वेग से काकुत्स्थ-वशज राम को इस तरह घेर लिया, जैसे अग्नि-समूह एक साथ प्रचंड दावानल पर आक्रमण कर दे। (इस प्रकार राम को चारों ओर से घेरकर) वे उन पर, शर, खड्ग, त्रिशूल, करवाल, भाले, मुद्गर, परशु, गँड़ासा, गदा, पाश, चक्र आदि विविध आयुधों की वर्षा करने लगे। देवता भयभीत हो उठे। मेघों से आच्छादित भास्कर के समान थोड़ी देर के लिए राम दिखाई भी नहीं पडे। किन्तु तुरन्त उन्होंने ऐन्द्रजालिक की तरह राक्षसों के द्वारा चलाये गये सभी विविध शस्त्रास्त्रों को नष्ट कर दिया। इससे हर्षित होकर सभी देवता उनकी प्रशंसा करने लगे। अविरल गति से राक्षसों के द्वारा बरसाये जानेवाले शस्त्रास्त्रों को बीच में ही नष्ट करते हुए (राम ने) परिवेश (मडल) से घिरे हुए मध्याह्न-सूर्य के समान अपने चारों ओर अपने प्रखर तेज का घेरा बनाया हुआ, कोदंड को कुडलाकार में झुकाकर, युद्ध के उत्साह से फडकनेवाली भुजाओं से युक्त हो, अपने तूणीर के अनगिनत बाणों का एक साथ संचालन करके, अपने आगे-पीछे तथा दोनों पार्श्व-भागों में व्याप्त राक्षस-सेना पर उनका प्रयोग किया। उनके इस शर-प्रयोग से मत्त त्राणी और योद्धा बट भरे, अश्व और घुड़सवारों के टुकड़े-टुकड़े हो गये, पदचर सैनिक और उनके आयुध नष्ट-भ्रष्ट हो गये। शिर और शर उनके सामने कट-कटकर

गिरने लगे, योद्धाओं के अग और रथों के भाग पृथ्वी पर गिरने लगे, गुण-सहित धनुष तथा कवच चूर-चूर हो गये, रथी और सूत पृथ्वी पर लोटने लगे, श्वेत छत्र और पताकाएँ टूटने लगी, और मास-खड छिन्न-भिन्न होकर गिरने लगे । इस प्रकार, युद्ध ने भयकर रूप धारण किया ।

सूर्य के प्रकाश से जिस प्रकार अंधकार तितर-बितर हो जाता है, वैसे ही राम के अस्मान पराक्रम से नष्ट होने के बाद बची हुई राक्षस-सेना दर्प खोकर खर की शरण में पहुँची । खर ने उनको प्रोत्साहित किया और दूषण को युद्ध करने के लिए भेजा । बची हुई सेना के साथ वह अपनी शक्ति दरसाते हुए, शीघ्र ही राम के निकट आ पहुँचा और उनपर ताल, साल (आदि वृक्ष), शिलाएँ तथा विविध अस्त्रों की वर्षा करने लगा । (इन अस्त्रों के लगने से) राम के शरीर से रक्त-प्रवाह होने लगा । तब क्रोध से आँखें लाल किये हुए राम ने उन राक्षसों पर गाधर्व-अस्त्र चलाया । उन शक्ति-संपन्न अस्त्र के तेज के आगे गज, रथ, तुरग, पदाति राक्षस-सेना टिक न सकी । वह अस्त्र अपने भयकर तेज से दनुज-वर्ग को नष्ट-भ्रष्ट करके, उनका सहार करने लगा । रण-भूमि में जहाँ देखो, अश्व तथा गज के घड, भुङ्ग, आँट, भेजा तम्र, वन का प्रवाह दिखई पडन लगा । शक्तिनी, भूत, पिशाच, वैगल आदि भुङ्ग-भुङ्ग वहाँ पहुँचकर कहने लगे—'यह लो, राम के युद्ध-रूपी धर्मशाला में हाथियों के शिर-रूपी घट में मोती-रूपी चावल का भात पकाया गया है । चलो हम सब खायें ।'

वे सब भूत-प्रेत अत्यंत हर्ष से पक्तियों में बैठ गये, रक्त-चदन, नवरक्त-अक्षत रक्त-सकल्पपूर्वक धारण किया, चमड़ा-रूपी केले के पत्ते बिछाये, खोपड़ी-रूपी दोने सजाये, शर की अग्नि में पकाये गये मास को भात, मस्तिष्क को दाल, चर्बी को घृत, विभिन्न अंगों के मास को शाक, छोटी आँतों को पायस, हृदय-पिंड को मिठाई, नये रक्त को मीठा जल मानते हुए, उसे सब प्रकार से विप्रोचित भोजन समझकर छककर खाया । भोजनोपरांत सब एकत्रित हुए कुछ ने आशीर्वाद दिये कि—'श्रीरामचन्द्र ! ते विजयोऽस्तु ।' तो कुछ ने पीछे से कहा—'तथास्तु ।' कुछ भूतों ने हाथियों के दाँत छडी की तरह हाथ में धारण कर लिया, तो कुछ ने अस्थियों की मालाएँ कठाभरणों के रूप में धारण कर ली और हाथियों की घटिकाओं का ताल देते हुए बड़े आनंद से अपना निदनीय रूप प्रकट करना शुरू किया ।

तब मदमत्त वैरियों के लिए भयकर रूपवाला दूषण अत्यंत दुखी होकर अपने समान बलशाली पाँच सहस्र योद्धाओं को राम पर आक्रमण करने के लिए भेजा । उन्होंने तीनों लोकों को कँपाते हुए, राम पर आक्रमण किया, तो राम ने अपनी धनुर्विद्या की कुशलता प्रदर्शित करते हुए, अत्यंत क्रुद्ध दृष्टि धारण किये हुए एक-एक राक्षस पर एक-एक बाण का प्रयोग कर उन सब का वध कर दिया । कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठा करके भी उनका सहार किया । यह देखकर दूषण अत्यंत क्रोध से राम को कटु वचन कहते हुए, अपना रथ राम के सम्मुख ले गया और उनपर वज्र तथा काल-नाग की समता करनेवाले बाणों की वर्षा करने लगा । राम ने उन बाणों को बीच ही में तोड़ दिया, उसके

धनुष के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । रथ से विहीन होन से दूषण क्रोधोन्मत्त होकर भयकर, प्राणातक, विजयशील यम की गदा की समता रखनेवाले मुद्गर को धुमाते हुए राम पर दौड़ा । तब राम ने दो तेज बाणों को चलाकर उसके दोनों हाथ काट डाले और एक घातक तीर उसके हृदय में मारा । तब वह राक्षस पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा, जैसे मत्तगज दाँतो के टूटने से ढेर होकर पृथ्वी पर गिरता है । उसको गिरा देखकर प्रमाथी, महाकपाल तथा स्थूलाक्ष नामक तीन दण्ड-नायको ने परशु, कृपाण तथा भाला उनपर चलाये, तो राम ने उनके अस्त्रों तथा उनके मस्तकों को एक-एक करके गिरा दिया ।

तब खर ने अपने बारह सेनापतियों को उत्तेजित किया । उन बारहों सेनापतियों ने अपने दुर्वार शौर्य से वीर राघव पर आक्रमण किया और अलग-अलग उनसे युद्ध करने लगे । तब राम ने वज्र की धार के समान पने तथा भयकर बाणों के प्रयोग से अपनी शक्ति दरसाते हुए श्येनगामी का अंत कर डाला, कालकार्मुक का वध किया, करवीरनेत्र को गिरा दिया, सर्पास्य का गर्व-भंग किया, विहगम का सहार किया, यज्ञशात्रव की शक्ति को नष्ट करके उसे दण्ड दिया, दुर्जय तथा महामर्ला का वध किया; भेंद्रगाली का सहार किया, रुधिराशन का अंत किया और खर तथा त्रिशिर को छोड़कर अन्य सभी राक्षसों का सहार कर डाला ।

इस प्रकार पवन के चलने से गिरनेवाले पके पत्तों के समान सारी सेना नष्ट हुई देखकर त्रिशिर ने अत्यंत क्रोध से राम के निकट अपना रथ चलाया और सिंह-गर्जन करते हुए, राम पर ऐसे आक्रमण किया, जैसे मत्त हाथी सिंह पर आक्रमण करता है । धनुष की टकार करते हुए उसने एक साथ असंख्य बाण राम पर चलाये । राम ने बड़े क्रोध से प्रतिरोधक बाण चलाकर उसके बाणों को बीच में ही नष्ट कर दिया । तब उसने अपने नाम के प्रताप के अनुरूप राम के ललाट पर तीन बाण छोड़े । जब वे तेज बाण राम के ललाट पर लगे, राम हँसने लगे और त्रिशिर के वे तीनों बाण कुसुमों की दशा को प्राप्त हो गये । तब राघव बोले—'अब मैं ऐसे चौदह दारुण बाण तुम पर छोड़ूँगा, जो चतुर्दश भुवनो में प्रवेश करने पर भी तुम्हें पकड़कर तुम्हारा वध कर दूँगे । अब तुम उनका सामना करो । इस प्रकार कहते हुए राम ने चौदह बाण छोड़े । वे बाण उस राक्षस के हृदय को पार करके पृथ्वी में जा गड़े । तब राघव ने चार और बाणों का प्रयोग करके उसके रथ को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और तत्क्षण ही दस अस्त्र उस राक्षस के उर पर चलाये । उस सुरवैरी (त्रिशिर) ने क्रोधोन्मत्त हो राम पर शूल चलाया, किन्तु राम ने चार बाणों से शूल को काट दिया । इसके पश्चात् उन्होंने तीन अस्त्र चलाकर उस राक्षस के तीनों सिर काट डाले । त्रिशिर पृथ्वी पर ऐसे गिरा, जैसे कोई वृक्ष तीन शाखाओं के साथ समूल कटकर, शोभा-रहित हो, पृथ्वी पर गिर पड़ता है ।

त्रिशिर को गिरते हुए देखकर, खर राम के प्रताप का विचार करके विस्मित हो गया । वह तुरंत अत्यधिक क्रोध से अपना रथ राम के सामने ले गया और राम पर भयकर बाण-वर्षा करने लगा । राम भी अस्त्र चलाने में अपना कौशल दिखाते हुए खर पर प्रतिबाण चलाने लगे । खर के तथा राघव के बाणों से पृथ्वी तथा आकाश भर गये ।

सूर्य की दीर्घिर्त मंद-सी हो गई और दिशाओ में अधकार व्याप्त हो गया । न खर राघव से भीत था, न राघव ही खर से भीत थे । दोनों विजय की आकांक्षा से दो हाथियों के समान, दो सिंहों के समान और महिष-द्वय के समान आपस में जूझ गये और अपने बाहुबल को प्रदर्शित करने लगे । तब खर ने एक अर्द्धचंद्राकार बाण से राम के हाथ के धनुष को काट डाला, उनके कवच को छिन्न-भिन्न कर दिया, और उनके शरीर को शर-वर्षा से भर दिया । उन बाणों की परवाह किये बिना ही सूर्यवशी राम ने अगस्त्य से प्राप्त वैष्णव-चाप का तुरत सधान किया, धनुष की टकार की और तेज बाण चलाकर उस राक्षस की पताका को काट डाला । तब उस राक्षस ने राम के हृदय का विदारण कर सकने की शक्ति रखनेवाले चार बाण चलाये । रक्त-सिक्त अगो से राम ने उस राक्षस को विविध बाणों से पीड़ित करते हुए एक प्रबल अस्त्र से उसका धनुष तोड़ दिया, चार बाणों से घोड़ों को मार गिराया और सारथी को मार डाला । उनका धनुष ऐसा दीखने लगा, मानो वह अपनी बाणाग्नि में रथ की पूर्णाहुति देना चाहता हो । तब रथ से वचित हो खर प्रलयकाल के रुद्र की भाँति हाथ में गदा लिये हुए राम की ओर आने लगा तो पहाड़ों के साथ पृथ्वी काँप गई । उस दुष्ट दैत्य को देखकर रघुराम ने बड़े दर्प के साथ कहा—‘हे राक्षस, हे नीच, अब भी तुम्हारी शूरता किस काम की ? तुम्हारी सेना नष्ट हो गई, तुम्हारे बधु कट मरे, तुम्हारी अस्त्र-संपत्ति समाप्त हो चली; इस दण्डक वन में अपने अद्वितीय शौर्य से बढ़ते हुए, यहाँ के पुण्यात्मा मुनियों को मारने के पाप-फल को भोगने का (तुम्हारा) समय आ गया है । उसे अब भोगो, मैं अभी तुम्हारा बध करता हूँ ।’

इन वचनों को सुनकर खर क्रोध से जलते हुए बड़े घमड के साथ बोला—‘हे राघव, ऐसा गर्व क्यों करते हो ? युद्ध में कुछ क्षुद्र राक्षसों को मारने से (गर्व से) फूलकर अपनी प्रशंसा आप क्यों कर लेते हो ? कुलीन जन कही अपनी प्रशंसा आप करते हैं ? यह लो, मैं गदा लिये हुए आया । मुझसे भिड़ो और मेरी शक्ति देखो । देवता तथा असुर मेरी ओर दृष्टि तक नहीं उठा सकते, तब क्या तुम मेरे आगे खड़े रहने योग्य शूर हो ? मैं एक-एक करके तुम्हारी मास-पेशियों को काटकर अपनी बहन को दे दूँगा ।’

इस प्रकार कहकर उसने अपनी गदा घुमाकर उसे राम पर फेंका । पवन की शीघ्र गति, सूर्य का तेज, अग्नि का ताप, और बिजली की कठोरता मानो उस गदा के रूप में आ रही हो । उस गदा को, अत्यन्त प्रचंड वेग से अपनी तरफ आते देखकर राम ने उस गदा के लंबे कांड (भाग) को खड-खड कर दिया और बोले—‘क्यों रे, तुम्हारी गर्ववित्तियाँ तथा घमड चूर हुए कि नहीं ?’ तब उसने (खर) गर्जन करते हुए एक वृक्ष को उखाड़कर अपने बाहुबल से उसे घुमाकर ‘लो, मरों’—कहते हुए राम पर फेंका । राघव ने तुरत उस वृक्ष को काटकर सूर्य की सहस्र किरणों की आभा के समान उज्ज्वल सहस्र शरो को उस पर छोड़ा, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो उठा । उसके शरीर से रक्त की धाराएँ बहने लगी । फिर भी वह अपना समस्त साहस एकत्रित करके राम के आगे आया । उसे देखकर राम ने, दया त्यागकर, समस्त भुवनों को व्याकुल करते हुए, ऐन्द्रास्त्र का सधान करके

उस पर चलाया । तब वह राक्षस (खर) अपना सारा अकड़ खोकर वज्रपात से चूर-चूर होकर पृथ्वी पर गिरनेवाले पर्वत के समान गिर पड़ा । डेढ़ मुहूर्त्त के अंतर (तीन घड़ियों) में अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले खर-दूषणदि चौदह सहस्र राक्षसों का (राम ने) इस प्रकार वध किया, यह देखकर सुरों ने राम की भूरि-भूरि प्रशंसा की । मुनियों ने आशीर्वाद दिये, देवताओं ने पुष्प-वृष्टि की । पर्वत की गुफा से शीघ्र जानकी को साथ लिये हुए लक्ष्मण बाहर आये, राम को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके हाथ में शोभायमान होनवाले धनुष को ले लिया । हर्ष से भरे हृदय से जानकीरमण पर्णशाला में गये और युद्ध में मरे हुए राक्षसों का वृत्तांत सीता को सुनाते हुए बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे ।

१३ लंका में अकंपन तथा रावण का वार्त्तालाप

तब अकंपन नामक राक्षस प्रकंपित हो आर्त्तनाद करते हुए, बड़े वेग से लका गया और रावण को देखकर कहा—'हे असुराधिपति, चौदह सहस्र राक्षस वीर तथा खर-दूषण आदि काकुत्स्थ राम के शरीर की अग्नि में भस्म हो गये हैं । यह सत्य है ।' यह सुनकर रावण आश्चर्य-चकित हुआ और उस अकंपन को रोषपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा—'क्यों रे, कैसी बात कर रहा है ? कौन है वह राम ? क्या वह कोई कुबेर है, या इंद्र है, या यम धर्मराज है ? वे तीनों मिलकर भी तो हमारे खर-दूषण को जीत नहीं सकते । ऐसी दशा में वह अकेले उन प्रतापी वीरों को किस प्रकार जीत सका, स्पष्ट रूप से समझाओ । हम तुम्हें अभय-दान देते हैं ।' तब अकंपन निर्भय होकर राघव का वृत्तांत, उनके साहस और शौर्य, खर-दूषण आदि राक्षसों का वध, सौमित्र और जानकी का वृत्तांत आदि से अत तक कह सुनाया ।

तब रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और युद्ध करने के लिए उद्यत होने लगा । उससे घनिष्ठ मित्रता रखने के कारण अकंपन ने रावण से कहा—'हे राक्षसराज, रघुराम को जीतना क्या पक्षिवाहन (विष्णु) या शूलपाणि (शिव) के लिए भी संभव हो सकता है ? वह निपुण (व्यक्ति) बात-की-बात में आकाश तथा पृथ्वी को जोड़ने अथवा तोड़ने की शक्ति रखता है, दावाग्नि का या पवन का अवरोध करते तथा मुक्त करने में वही समर्थ है । सभी लोकों का नाश करने या उनका पोषण करने की शक्ति उसी में है, समस्त ब्रह्माण्ड की रक्षा करने की क्षमता उसी में है, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ । युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है । उस काकुत्स्थ राम की देवी, लावण्य का समुद्र (सीता) को यदि आप ला सकें, तो राम उसके वियोग की अग्नि में भस्म हो जागा ।

यह सुनकर उस राक्षसराज ने उसी को उचित समझकर अकंपन की भूरि-भूरि प्रशंसा की और स्वर्ण-रथ पर आरूढ़ होकर समुद्र पार किया और धुरधुर मंत्री ताड़का-पुत्र मारीच के पास पहुँचा । उसने उसे खर-दूषण आदि राक्षसों के वध का वृत्तांत सुनाया और कहा—'मैं राम की स्त्री सीता को हरकर ले जाने के उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ ।'

तब मारीच ने कहा—'हे रावण, यह कैसी इच्छा है ? किसी अभाव के विना, समस्त भोगों का अनुभव करके भी ऐसी दुष्ट बुद्धि-तम में कैसे उत्पन्न हुई ? किस दुष्ट-बुद्धि

मन्त्री ने तुम्हें ऐसा परामर्श दिया है ? तुम उसे अपना शत्रु जानो । मैं तुम्हारा हित चाहनेवाला मन्त्री हूँ, अन्य नहीं हूँ । यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है । इस पृथ्वी पर किसी भी पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा अनुचित ही है । ऐसी इच्छा तुम करोगे तो तुम्हारे वश का सर्वनाश हो जायगा । इसलिए हे दानवनाथ, तुम लका को लौट जाओ और प्रसन्नता से रहो । अपनी स्त्रियों के साथ सुख-भोग प्राप्त करो ।' मारीच की इन बातों को सुनकर रावण लका लौट गया ।

१४ शूर्पणखा का रावण से दीनालाप

खर, दूषण आदि राक्षसों को राम की शर-वर्षा में भस्म हुए देखकर शूर्पणखा अत्यंत सतप्त होती हुई लका पहुँची । देव-सभा के बीच चिंतामणि से निर्मित सिंहासन पर विराजनेवाले इद्र के समान, सम्माननीय सभा-मंडप के बीच सिंहासन पर आसीन, गरुड, उरग, अमर तथा गधर्व-युवतियों की संवाएँ प्राप्त करनेवाले, ऐरावत के भयकर दाँतों के अग्रभाग से रगड़ खाये हुए उर को श्रेष्ठ आभूषणों से आच्छादित रखनेवाले, सारे ससार में एकमात्र भीषण आकारवाले, सग्राम में भयकर रूप से गर्जन करनेवाले, शत्रुओं का सर्वनाश करनेवाले रावण को देखकर शूर्पणखा रोती हुई हाथ जोड़कर अपने हृदय के विषाद को प्रकट करती हुई बोली—'हे असुरेन्द्र, तुम समझते हो कि मैं समस्त लोको में अद्वितीय शक्तिशाली हूँ, तुम गर्व करते रहते हो कि मैंने तीनों लोको के शत्रुओं का सर्वनाश किया है । तुम प्रसन्नता से फूले रहते हो कि मेरा राज्य अकटक है । वही समस्त लोको का स्वामी कहला सकता है, जो गुप्तचरो के द्वारा (अन्य) राजाओं का, (उनके) राजकोषों का, उनकी इच्छाओं का, तथा रहस्यों का पता लगाकर कार्य करता रहता है । तुम्हारी भयकर मायाओं की शक्ति, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा बाहुबल और तुम्हारा वैभव—ये सब इसके पहले सफल होते थे, अब नहीं । इसका कारण भी सुन लो । भानुकुल का पावन व्यक्ति राम तपस्वी के रूप में अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ दंडक वन में आया है और मुनियों पर दया करके उन्हें अभय-दान देकर पंचवटी में बड़े आनंद के साथ रहता है । मैं उस पर आसक्त होकर उसके निकट पहुँची, तो क्रोध में आकर उसने मेरी ऐसी दुर्गति कर दी । मैंने खर से सारा वृत्तत कहा, तो उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रलयकाल के रुद्र के समान भयकर रूप धारण कर, दूषण तथा त्रिशिरो के साथ चौदह सहस्र मानव-भक्षक वीर राक्षस-सैनिकों के सहित राम पर आक्रमण किया और रघुराम के बाण-रूपी अग्नि-शिखाओं में भस्मीभूत हो गये । इसलिए अब मेरे अपमान को दूर करनेवाले तुम्हारे सिवा और कौन है ? मेरे मुख की विकृति देखो और मेरा दुःख तुम अपना दुःख मानो ।'

उसकी बातें सुनकर दानवनाथ विस्मित हुआ और (थोड़ी देर तक) सोचने के बाद उस राक्षसी से कहा—'मैंने अपने ज्ञातियों का वध तथा तुम्हारे वहाँ पहुँचने आदि का समाचार सुना है । उसे रहने दो । तुम तो भुंके यह बताओ कि उस राम की शक्ति कैसी है ? उसका कैसा रूप है ? उसकी क्या अवस्था है ? उसका आकार कैसा है ? उसके

भाई का रूप कैसा है ? उसकी स्त्री सीता का रूप कैसा है ? तुम अपनी देखी हुई बातों का पूरा विवरण दो, तो मैं उनको रक्त-धाराओं से तुम्हारी प्यास बुझाऊँगा ।’

तब शूर्पणखा बड़ी प्रसन्नता से यो कहने लगी—‘रामचन्द्र उन्नत वक्षवाला, श्यामालोत्पल वर्णवाला, सभी लोको में श्रेष्ठ रूपवान्, सूर्य-मडल के तेज को परास्त करनेवाला तेजस्वी, धीर, आजानुबाहु, महान् पराक्रमी और कमलो के समान नेत्रवाला है । उसी योद्धा न अकेले खर, दूषण आदि राक्षसों को परास्त किया था । सौमित्र हेमवर्णवाला है और दूसरी बातों में अपने भाई के समान ही सभी गुणों से संपन्न है । उसी ने मेरी ऐसी गति कर दी है । अब सीता की सुंदरता के सबध में भी जान लो । मैंने देवताओं की स्त्रियों को, राक्षस-स्त्रियों को, किलर-अगनाओं को, भोगिनी कामिनियों को, गधर्व-पत्नियों को, यक्ष-काताओं को अच्छी तरह देखा है । मैंने पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती तथा रति को भी देखा है । मैंने रभा, शची तथा त्रिभुवनो में रहनेवाली सभी स्त्रियों को देखा है, मुनि-पत्नियों को देखा है और ब्राह्मण-स्त्रियों को भी देखा है । किन्तु वैसे कुच, वैसी आँखें, वैसी मधुर बोली, वैसे कपोल, वैसी नाक, वैसा सौंदर्य, वैसे चिकुर, वैसे कटाक्ष, वैसे उरु, वैसे हाव-भाव, वैसी मद हँसी, वह मद-गमन, और वह विवेक किसी भी स्त्री में नहीं देखा । मैं कैसे सीता की प्रशंसा करूँ ? वह स्त्री सभी लोको पर राज्य करनेवाले तुम्हारे जैसे पति के लिए ही योग्य है, अन्यो के लिए योग्य नहीं है । वह चंद्रमुखी, वह चकोराक्षी, वह नवयुवती, वह कुद-सम दाँतवाली, वह गजगामिनी, वह नवल-लतिका, वह मानिनीमणि, वह पुष्पगधि, वह स्त्री, तुम्हारी स्त्री होकर रहे, तो हे दनुजेश, तुम्हारे राज्य की शोभा बढ़ेगी ।’

१५ रावण का पुनः मारीच के पास जाना

कामातुर रावण ने जब देखा कि इस स्त्री की बातों तथा अकपन की बातों में कितनी समानता है, तो वह अत्यंत विस्मित हुआ । उसने राजसभा स्थगित कर दी और भाग्य से प्रेरित होकर एकान्त में चला गया और सारथी को बुलाकर रथ लाने की आज्ञा दी । सारथी के रथ लाते ही वह सूर्य-किरणों के सदृश अनुपम आयुधों से परिपूर्ण उस रथ पर आरूढ़ होकर करोड़ सूर्यों की दीप्ति से विलसित होते हुए आकाश-मार्ग से समुद्र के मध्यभाग से जाते, विविध वस्तुओं को देखते समुद्र पार कर गया और पूगीफल, मिर्च, अगरु, नारिकेल, साल, हरेणु, रसाल, विशाल आदि वनों को बड़े कौतुक के साथ देखता हुआ चला । पहले, गरुड के सुधा-कलश को लाने के लिए जाते समय, गज-कच्छपो को खाने के लिए, जिस वृक्ष पर अपना पैर रखा था, उस वृक्ष को, तथा उस पर पक्षी के द्वारा कृत चिह्न को और शत योजनो तक फैली हुई शाखाओं से विलसित, मुनियों से घिरे हुए सुभद्र नामक वटवृक्ष को बड़ी प्रसन्नता से देखा और महान् महिमा-समन्वित आसुचद्र आश्रम में जटा-वल्कल धारण किये हुए, शात चित्त तथा सौम्य भाव से अत्यधिक तपोनिष्ठा से रहनवाले मारीच के पास पहुँचा और उससे आदर-सत्कार प्राप्त करने के पश्चात्, अत्यंत दीन होकर उससे अपने आगमन का कारण यो कहने लगा—‘हे मारीच, तुम मेरे अतरंग मंत्री हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ । सूर्यवशी रामचन्द्र अपने पिता की

आज्ञा से अपने अनुज तथा पत्नी के साथ तपस्वी की तरह जीवन बिताने के लिए दडक-वन में आया है और अपने सहज स्वभाव के कारण यहाँ के मुनियों को अभय-दान देकर यही रहने लगा है। उसने निर्भय होकर अकारण ही हमारी शूर्पणखा की नाक और कान काट लिये हैं तथा खर-दूषण आदि राक्षसों का वध किया है। उस युद्ध में मरे हुए चौदह सहस्र राक्षस-बधुओं का प्रतिशोध लिये विना मेरे मन की पीडा दूर नहीं होगी। तुमने इसके पहले मुझे अच्छा उपदेश तो दिया था, किन्तु उसका अनुसरण करने से मेरा मान-भग होगा। इसलिए मैं उस रामचंद्र की स्त्री का माया से अपहरण करके ले जाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने एक उपाय सोचा है। यदि तुम चाहो, तो वह सिद्ध होगा। तुम अत्यधिक प्रयत्न से उस आश्रम के पास जाना और माया-मृग का रूप धारण करके विचरण करते रहना। सीता तुम्हें देखकर तुम्हारे प्रति आकृष्ट होगी और राम तथा लक्ष्मण से तुम्हें लाकर देने की प्रार्थना करेगी। तुम मृग-सुलभ कौशल से उन्हें भुलाते हुए घने वन के मध्यभाग में ले जाकर अतर्धान होकर अपने आश्रम में पहुँच जाना। मैं यहाँ सीता को बड़े हर्ष से लका ले जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि राम सीताजी की विरहाग्नि में ही भस्म हो जाय। इसलिए तुम ऐसा करो, मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूँगा।”

१६ मारीच का पुनः उद्बोधन

उस नीच के वचनों को सुनकर मारीच अत्यंत भयभीत हुआ और दुख-सागर की लहरी में डूबते-उतराते सौजन्य छोड़कर कहा—“हे दनुजेश्वर, ऐसा विचार तुम्हें कैसे उत्पन्न हुआ ? ऐसा अनुचित मार्ग तुम्हें कैसे शोभा देगा ? किसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया ? सुख-चैन से रहनेवाले तुम, अपने सभी बधु-मित्रों के साथ क्यों मरना चाहते हो ? न जाने तुमने कुटिल राक्षस-व्रश का नाश करनेवाले राम को क्या समझ रखा है ? मैं उनकी बाल्यावस्था का थोड़ा-सा हाल जानता हूँ। वे नित्य कल्याणगुण-संपन्न हैं; असमान साहसी हैं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब वे आये और यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, तब मैं और सुबाहु ने अपनी समस्त शक्ति के साथ उनसे युद्ध किया था। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर एक ही शर से सुबाहु का वध कर दिया और दूसरे बाण से मुझे समुद्र के मध्य में फेंक दिया। अस्त्रहीन होले हुए भी, बालक होते हुए भी बाल्यावस्था में ही उस अकलक साहसी ने वैसा शौर्य दिखाया था। आज वे प्रबल अस्त्रों से सुसज्जित शौर्यनिधि हैं। आज उनके प्रताप के आगे कौन टिक सकता है ? उनके वर्तमान शौर्य का भी थोड़ा-सा हाल मैं जानता हूँ, तुम अवश्य सुनो। पहले की शत्रुता से प्रेरित होकर मैं दो और भयकर राक्षसों के साथ बाध का रूप धारण किये हुए, उनके तप में अपने-आपको नष्ट करने के उद्देश्य से गया। तब की बात कैसे कहूँ ? उन्होंने तीन बाणों से हम तीनों को गिरा दिया। किन्तु हममें से दो ही मरे। न जाने मेरी शेष आयु की कितनी शक्ति है ? मैं यहाँ आकर गिरा और अपने-आपको सजीव पाया। तब से राम के अतुल पराक्रम का विचार करके मैंने अपना समस्त पौरुष त्याग दिया और ‘रकार’ (‘र’ ध्वनि) से प्रारंभ होनेवाले—रव, रथ, रमणीय, रवि, रति, रत्न आदि शब्दमात्र के सुनने से उनका स्मरण करके भयभीत होता हुआ इस प्रकार तपस्वी

का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । हे रावण, तुम राम की शक्ति को नहीं जानते । हमारी शूर्पणखा अपने भद्दे रूप का विचार नहीं करती, अपनी दशा के बारे में नहीं सोचती । उन अनुपम गुणधाम, अभिराम, रामचंद्र पर यो फूली-फूली आसक्त होना क्या उचित था ? उसने स्वयं ही (अपने अपराध से ही) अपना रूप ऐसा विकृत करवा लिया । इसपर क्रुद्ध होकर खर और दूषण रघुराम पर आक्रमण करने गये और उनकी बाणाग्नि की ज्वालाओं में दग्ध हो गये । उनके कारण तुम क्यों मतिभ्रष्ट हो राम का शत्रु बनकर अपने को नष्ट करना चाहते हो । यह न उचित है, न नीतिसंगत है । इसलिए तुम अपना विचार छोड़ दो और लका लौटकर प्रसन्नता से रहो । किसी भी प्रकार तुम विचार करो, यह अनुचित कार्य ही है । यदि मैं प्रयत्न करके जाऊँ भी, तो राम के बाण से मेरे प्राण नहीं बचेंगे । मैं तुम्हारा अपकार कभी नहीं करूँगा । मैं अपने मन में कभी तुम्हारे अहित की इच्छा नहीं करता । इसलिए तुम अवश्य मेरी बात मानो । मैं जो कहता हूँ, उसे हित-वचन मानो । तुमने तो कहा था कि यदि तुम यह कार्य करोगे, तो मैं अपना आधा राज्य दूँगा । किन्तु कौन कह सकता है कि रघुराम को छोड़कर मैं जीवित लोट आ सकूँगा ?”

मारीच के इन वचनों को सुनकर रावण क्रोध-विवश होकर बोला—‘एक साधारण मानव को तुम लोकरक्षक, तीनों लोकों को भयभीत करनेवाला, तथा मुझसे श्रेष्ठ बतलाते हो । तुम अपने प्राणों के भय से ऐसा प्रलाप कर रहे हो और मुझे भयभीत करने के लिए बातें बना रहे हो । तुम नहीं सोचते कि मैं राजा हूँ । मेरी आज्ञा की तुम अकहेलना करते हो । अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता ही क्या है । साथ कर लेने के लिए तुम्हें बुलाया भी, तो मेरी ऐसी दशा हुई ।’

इस प्रकार कहकर रावण मारीच का वध करने के लिए उद्यत हुआ । उसका क्रोध देखकर मारीच ने मन-ही-मन सोचा—‘इस नीच के हाथ से मरने की अपेक्षा उस राम के हाथों से मरना ही भला है ।’ इसके पश्चात् उसने राक्षसराज को देखकर कहा—‘उचित बात कहने पर तुम ऐसा क्रोध क्यों करते हो ? अच्छा उपदेश देनेवाले मंत्रियों का वध करनेवाले राजा कहीं हो सकते हैं ? ठीक है, तुम जो कहो, मैं उसके अनुसार करूँगा ।’ तब रावण ने बड़े स्नेह से उसको क्षमा कर दिया और उसे अपने स्थ पर बैठाकर अत्यंत वेग से उसके साथ पंचवटी में पहुँच गया । कामातुर की बुद्धि ऐसी ही होती है । बुरे मार्ग को वह क्यों त्यागने लगा ?

१७ मारीच का माया-मृग के रूप में आना

मारीच रथ से उतर गया और उस राक्षसराज की प्रार्थना के अनुसार, (स्वयं मायावी होने के कारण) अच्छी तरह सोच-विचारकर राक्षस-शक्ति के प्रभाव से सुदूर माया-मृग का रूप धारण किया । उस माया-मृग का शरीर सुनहला था, उसका विशाल नेत्रयुग्म इन्द्रनील मणि के समान था, उसकी भौहें प्रवाल की-सी और कान उज्ज्वल वज्र के-से थे, नीले खड्ग के समान उसके मरकत के सींग थे, मोतियों का-सा उसका पृष्ठ-भाग था, रत्न-बिंदुओं के समान (उसके शरीर पर) धब्बे थे, नव पद्मराग के समान उसका उदर था, और उसके खुर रजत के समान चमकते थे । वह मृग ऐसा प्रतीत होता था

मानो रोहणाचल का समस्त सौंदर्य मृग का रूप धारण किये हुए पृथ्वी पर विचर रहा हो, अथवा अकेले राहु से भीत होकर चद्रमडल पृथ्वी पर घूम रहा हो, अथवा राक्षस-क्षय करने के हेतु ब्रह्मा ने समस्त सौंदर्य को एकत्रित करके मृग का निर्माण किया हो और उसे कपट (मन) से भोजने पर यहाँ वह आ गया हो, अथवा जानकी ने अपनी कुटिल वेणी से इन्द्रनील मणियों का, दाँतों से मोतियों का, अरुण ओष्ठों से प्रवालो का, कपोलो से वज्रो का, शरीर की कांति से वैदूर्य का, उदर के ऊपर की रोम-राजि से मरकत-मणियों का, पाणि-द्युति से पद्मरागो का, और नख-द्युति से गोमेदको का परिहास किया था । इसलिए सभी रत्न, रत्नगर्भा की पुत्री-रूपी रत्न को सताने के लिए मृग का रूप धारण करके आये हो, अथवा रघुराम ने सीता के लिए मेरा धनुष तोड़ा था । अब मैं उन्हें व्याकुल करूँगा—यो सोचकर हर के भोजने पर उनके हाथ का हिरन इस प्रकार आया हो, अथवा सीता के मुख की कांति से पराजित होकर, चद्र के भोजने पर आया हुआ माया-मृग हो । इस प्रकार का वह हिरण चित्र-विचित्र वर्णों की कांति से समन्वित हो, कपट-रूप धारण किये हुए, अनुपम सौंदर्य को प्रकट करते हुए, ढूँढ-ढूँढ-कर तृण चरने लगा । कभी वह अपनी पूँछ की रमणीय कांति से वन के मयूरो को नचाता, कभी अपने शरीर की कांति को विकीर्ण करके सारे वन को सुनहला बना देता था, तो कभी चौकड़ी भरकर इन्द्रधनुष का-सा दृश्य प्रस्तुत करता था, कभी तो आकाश की ओर उछलकर विद्युल्लता की-सी ज्योति उत्पन्न कर देता, तो कभी अपने पार्श्वभाग की कांति से चद्रकांत मणि को लज्जित कर देता, कभी मृगों के झुंडों के साथ मिलकर चरने लगता, तो कभी उन्हें डराता, कभी छिप जाता, तो कभी प्रकट हो जाता, कभी अति निकट पहुँच जाता, फिर इतने में डरकर चौकड़ी भरकर दूर निकल जाता, कभी पेड़ों की छाया में चला जाता, कभी पर्णशालाओं में घुस जाता, कभी सिकुडता, फिर तुरत ही छलाँग मारकर निकल जाता, कभी वह पृथ्वी को सूँघने लगता, पूँछ हिलाता, कान खड़े करके कुछ सुनता और तुरत अत्यंत वेग से दौड़ने लगता । कभी निकट पहुँचता, सिकुडे हुए अपने शरीर को हिलावा, घास पर लेट जाता, और बड़े स्नेह से मुनियों के निकट चला जाता, कभी अपने खुरों से अपने कानों को खुजलाता और सींगों से पुष्प-लताओं को हिलाकर उनके सभी फूलों को गिरा देता । इस प्रकार वह हिरण उस सुन्दर पर्णशाला के आगे बड़े आनंद से विविध कौतुक करने लगा ।

उसी समय सीता फूल चुनने के लिए आई और उस पर्णशाला की सुंदर भूमि को अपने मजुल नूपुरों की मृदु ध्वनि से भरती हुई, सौरभ से महकनेवाली पुष्प-लताओं की झाड़ियों के निकट पहुँचकर फूल चुनने लगी । तब वह मन को आश्चर्यचकित कर देनेवाले उस हिरन को देखकर विस्मित हुई और सूर्यवशाधिप राम को देखकर बोली—
'हे नाथ, यह देखिए निकट ही एक अद्भुत मृग दीख रहा है । हमने इतने वर्णों का, ऐसा सुंदर मृग अबतक किसी भी वन में नहीं देखा । इसके चर्म पर सुख से शयन करने की बड़ी इच्छा हो रही है । इसलिए हे प्राणेश, इसका पीछा कीजिए और इसे मारकर मुझे इसका चर्म ला दीजिए । नहीं, नहीं, किसी भी उपाय से इसे जीवित ही पकड़कर

लौं सकैं, तो और भी अच्छा होगा । हमारा वनवास तो समान्त होनेवाला है । हम इस स्वर्ण-मृग को अपने नगर में ले जायेंगे और सासो तथा भरत आदि को इसे दिखाकर उन्हें आनंद दे सकते हैं ।'

सीता के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण रामचंद्र को देखकर बोले—'हे प्रभु, जब पृथ्वी पर मृगराज का भी ऐसा (सुन्दर) शरीर नहीं है, तो भला मृग का ऐसा शरीर कहाँ हो सकता है ? यह माया-मृग है, इसका विश्वास मत कीजिए । राक्षस मायावी होते हैं और कदाचित् यह उनकी माया ही है । यही नहीं, क्या आपने मुनियों के वे वचन नहीं सुने कि क्रूर मायावी मारीच इस प्रात में घूमता रहता है । प्राय वही हमें भ्रम में डालने के लिए इस प्रकार आ गया है । इस पर आसक्त होकर, उतावले हो आप इसे पकड़ने का विचार मत कीजिए । वैदेही तो भोली-भाली है । हे प्रभु, आप भी वैसे थोड़े ही है ?'

यह सुनकर रामने सीता का मुख-कमल देखा और हँसते हुए लक्ष्मण को देखकर बोले—'हे लक्ष्मण, ऐसे विचलित क्यों होते हो ? क्या पृथ्वी पर राक्षसों की माया भेरा सामना कर सकेगी ? मैं या तो इस मृग को पकड़कर ले आऊँगा या इस प्रचंड राक्षस का वध करूँगा ? इन दो बातों को अच्छी तरह जानकर ही मैं इसका पीछा करूँगा और इसे मारकर, इसका चर्म लाकर जनकजा को दूँगा । इतने दिनों के बाद सीता ने यह छोटी-सी इच्छा प्रकट की है, तो क्या मैं इसे भी पूरा न करूँ ? तुम सावधान होकर इस पर्णशाला का तथा सीता की रक्षा करते रहो ।'

१८ राम का माया-मृग का पीछा करना

इस प्रकार उन्हें यह भार सीपकर, रघुराम ने उनके हाथ में स्थित धनुष को लिया और उस पर डोरी चढाकर, ऐसे चल पड़े, जैसे पूर्वकाल में यज्ञ-मृग का पीछा करने-वाला गजासुर-वैरी गया था । वे कहीं धीरे-धीरे किसी झाड़ी के पीछे छिपते, कहीं भुक्तते, कहीं दौड़ते, फिर खड़े होकर देखते, किसी आड में छिपते (मृग का) पीछा करते, उसे पकड़ने के लिए आतुर होते और धनुष-बाण को पीछे छिपाकर दबे पाँव चलने लगते ।

वे उस मृग को पकड़ने के लिए, अवसर देखकर, उसके निकट पहुँचते, 'अब पकड़ा, लो, यह आया, अब हाथ में आ गया'—ऐसा सोचते हुए उसका पीछा करते जाते । वह हिरन भी कभी निकट ही दिखाई पड़ता, उनके पास पहुँच भी जाता, किन्तु पकड़ने का यत्न करते ही भाग निकलता । कभी राम को क्रोध में आया जान (वह) खडा हो जाता, फिर चारों दिशाओं में मनोहर ढग से चीकड़ियाँ भरने लगता । लार के साथ घास के टुकड़ों को (वह अपने मुँह से) गिराता, एक छलाँग में निकट पहुँच जाता, तो दूसरी छलाँग में दूर निकल जाता, (जहाँ-तहाँ) सूँघ-सूँघकर चौकड़ी भरता और बिजली की तरह अपनी जीभ को (एक क्षण के लिए) बाहर निकालकर घुमाता, मानो कोई मशाल घुमा रहा हो । (वह) कभी कुम्हार के चाक के समान चक्कर काटता, कभी थके हुए की भाँति, घुटनों के बल खडा रहता, किन्तु निकट पहुँचते ही बाज की तरह आकाश की ओर छलाँग मारकर निकल जाता । थके-माँदे जब राम आश्चर्यचकित होकर

खड़े हो जाते, तब उनके पार्श्वभाग में ही दिखाई पड़ता और तुरत छल करके दूर हो जाता। जब राम तग आकर उसपर बाण चलाने के लिए सन्नद्ध हो जाते, तब वह अदृश्य हो जाता। इस प्रकार वह माया-मृग राम को थकाते हुए, वहाँ से दूर घने वन में जा पहुँचा और उनकी आँखों से ओभल होने का यत्न करने लगा। अब राम समझ गये कि वह माया-मृग है और मन-ही-मन कहने लगे—‘दिखाई देकर अब कैसे बचोगे ?’ उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सधान किया, और पर्वतों को कँपाते हुए, समुद्र को आदोलित करते हुए, सभी लोको को भयभीत करते हुए और दिशाओं को थरते हुए, उस अस्त्र को मृग पर चलाया। वह माया-मृग अपना कपटरूप छोड़कर, असुर का दीर्घ आकार धारण किये हुए ‘हाय लक्ष्मण’ का आर्त्तनाद से दिशाओं को गुँजाते हुए, प्राण छोड़कर पृथ्वी पर ऐसे गिरा, मानो राक्षसों की लक्ष्मी ही नष्ट हो गई हो, रावण का ही सर्वनाश हुआ हो, अथवा लकापुरी ही विध्वस्त हो गई हो। उस माया-मृग को पृथ्वी पर गिरते देख, जानकीनाथ ने अत्यंत हर्षित होकर उस राक्षस को देखा और निश्चय कर लिया कि वह मारीच ही है। उन्हें अपने भाई के वचन याद आये और वे अपने भाई की प्रशंसा करने लगे। वे मन-ही-मन सोचने लगे—इस मायावी राक्षस का आर्त्तनाद सुनकर न जाने सौमित्र और सीता कितना भयभीत होते होंगे।

(राक्षस के) उस आर्त्तनाद को सुनकर सीता भयभीत हो गईं और मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। चेतना लौटते ही फटी-फटी आँखों से चारों ओर देखती हुई घैर्य खोकर तड़पने लगी और ऊँचे स्वर में लक्ष्मण को देखकर बोली—‘हे सौमित्र, यह कैसी बात है कि राम तुम्हें आर्त्तध्वनि में पुकार रहे हैं ? हे अनघ, क्या तुम उनकी आवाज नहीं सुन रहे हो, या सुनना नहीं चाहते हो, या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती ? तुम तो किंचित् भी विचलित नहीं हो, भयभीत नहीं हो, दुःखी नहीं हो ? यह कैसी बात है ? मेरा हृदय विविध प्रकार के दुःखों से उबल रहा है। वे वन में अकेले चले गये हैं। बहुत विलब हो चुका है, फिर भी नहीं आये हैं। कहीं राक्षसों के साथ युद्ध करते-करते उनके हाथों में फँस तो नहीं गये ? इसीलिए हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई के पास विना विलब किये चले जाओ।’

इस प्रकार कहती हुई और आँखों से आँसू बहाती हुई जानकी को देखकर लक्ष्मण बोले—‘हे माता, आप क्यों विचलित होती हैं ? क्या, प्रभु राम पर कहीं भी कोई विपत्ति आ सकती है ? क्या आप अपने प्रिय हृदयेश्वर के प्रताप को नहीं जानती ? जानती हुई भी आप ऐसा क्यों कहती हैं ? किसी दैत्य ने आपको इस प्रकार से व्याकुल करने के लिए ऐसा आर्त्तनाद किया है। जगदीश राम ऐसी छोटी बातों के लिए कहीं भयभीत हो सकते हैं ? आपको इतना दैन्य क्यों हो रहा है ? यदि रघुराम युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जायें, तो क्या राक्षस उनके सामने टिक सकते हैं ? गर्व से फूलकर दावानल पर आक्रमण करनेवाला शलभ-समूह क्या भस्म हुए विना रह सकता है ? इसलिए राम की आज्ञा का उल्लंघन करके आपको यहाँ छोड़कर जाना मेरे लिए उचित नहीं है। इसे घने वन में आपको छोड़ जाऊँ, तो न जाने आप पर कैसी विपत्ति आ पड़ेगी। इसलिए, मैं जाने से डरता हूँ। मेरी बातों का विश्वास करके आप व्याकुल हुए विना रहें।’

तैव धरणिजा (जानकी) ने रोषाग्नि से जलते हुए सौमित्र की निंदा करते हुए कहा—“हे लक्ष्मण, तुम तो रामचंद्र के परम भक्त हो, आज तुम इतने नीच कैसे हो गये ? श्रीराम के पुकारते रहने पर भी भयकर शत्रु के समान तुम चुप क्यों हो ? क्या यह तुम्हारे लिए उचित है ? ‘मेरा अनुज बुद्धिमान् है, उत्तम है’, यो सोचकर, तुम्हारा विश्वास करके, जब तुम्हारे भाई यहाँ से गये हैं, तुम ऐसा पापमय व्यवहार क्यों करते हो ? हाँ, मैं जानती हूँ, असुरो की माया से राम का वध होगा, इसे अच्छी तरह जानकर अनुचित बुद्धि से, निश्चक हो, अपने भाई को दिये हुए वचन की अवहेलना करते हुए मुझे प्राप्त करने का विचार कर रहे हो, या कदाचित् यह सोचते हो कि मैं इसको कैकेयी-सुत को सौंप दूँगा । अपने इस शरीर में मुझे अब प्राणों को रखना उचित नहीं प्रतीत होता । मैं तुरत गोदावरी में डूबकर अपना प्राण-त्याग कहूँगी । अब अन्य बातों से कोई प्रयोजन नहीं है ।”

सीता के ऐसे कठोर वचन कहने पर लक्ष्मण अत्यंत क्षुब्ध हो गये । उन्होंने राम का नाम लेते हुए अपने कर्णपुटों पर हाथ रखे तथा चारों ओर देखते हुए बोले—“हे वन-देवताओ, क्या तुम लोग मुन रहे हो ? सीता कठोर होकर मुझे कैसे पापपूर्ण कटु वचन सुना रही है ।’ इस प्रकार कहकर उन्होंने आँखों में आँसू भरे हुए, अब यहाँ रहना अनुचित समझकर, सीता से कहा—‘माता, मैं अभी जा रहा हूँ । मैं आपके पति को शीघ्र ही लिवा लाऊँगा । आप दुखी मत होइए ।’

इसके पश्चात् उन्होंने पर्णशाला के चारों ओर सात रेखाएँ खींच दी और कहा—‘माता, इन रेखाओं को पार करके बाहर मत जाइए । यदि कोई इन रेखाओं को पार करेगा, तो उसका सिर उसी क्षण चूर-चूर हो जायगा ।’ तब उन्होंने अनल से प्रार्थना की और उन्हें सीता की रक्षा का भार सौंपकर, जानकी को बड़ी भक्ति से प्रणाम करके वहाँ से राम की खोज में चल पडे ।

१९. भिक्षुक के वेश में रावण का सीता के पास आना

उसी अवसर की प्रतीक्षा में, अत्यंत उद्विग्न होकर रहनेवाला रावण कपट सन्यासी का वेश धारण करके वहाँ आया । उसके हाथ में दंड और कमंडल थे । विशाल ललाट पर तिलक था, उँगलियों में कुश की पवित्री थी, विशाल उर पर जनेऊ था, दायें हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, और वह गुरुए रग के वस्त्र पहने हुए था । कई प्रकार की जपमालाएँ धारण करने से उसकी गरदन एक ओर झुकी हुई थी । उसका गात्र कुश था और उसके हाथ में एक जीर्ण छत्र था । उसकी बँधी हुई शिखा पीछे की ओर लटक रही थी । सन्यासी का ऐसा लज्ज-वेश धरकर वह उगलियों को गिनता हुआ, कुछ मंत्रों को गुन-गुनाता हुआ, कहीं मुनि उसे पहचान न जायँ, ऐसा मन-ही-मन भयभीत होता हुआ, जरा-पीडित वृद्ध के समान सिर को किंचित् हिलाता हुआ, थके हुए के समान जहाँ-तहाँ ठहरता हुआ ‘हरि-हरि’ शब्द का उच्चारण करके मानो शांति प्राप्त करता हुआ-सा, धीरे-धीरे पर्णशाला के निकट पहुँचा । वनदेवताओं ने जब देखा कि जगद्रोही वहाँ पहुँच गया है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर एक ओर सटककर रह गई ।

पर्णशाला के सम्मुख खंडे हुए उस कपटवेशधारी को देखकर सीता ने उसे एक सयमी मुनि समझा । तुरत अत्यंत भक्ति-युक्त हो, कर-कमलो को जोड़कर उसे प्रणाम किया और सौमित्र की खीची हुई रेखाओं को पारकर बड़ी भक्ति के साथ उस अभ्यागत का पूजन-सत्कार किया । तब उस कल्याणी सीता को देखकर उसने कहा—‘हे सुदरी, तुम ऐसे दुर्गम कानन में किस प्रकार अकेली रहती हो ? पता नहीं, तुम रति हो, या लक्ष्मी हो, या भारती हो ? नहीं तो पृथ्वी तथा स्वर्गलोक की स्त्रियो में ऐसा सौंदर्य कहाँ ? तुम्हारा मुख पूर्ण चंद्र की राका का उपहास कर रहा है, तुम्हारे अधर पद्मराग मणियों को परास्त कर रहे हैं, तुम्हारा शरीर विद्युल्लता को लज्जित कर रहा है, तुम्हारी वाणी सुधा से भी अधिक पवित्र है, तुम्हारी वेणी जलद की वेणी को परास्त कर रही है, तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है । हे तृष्णी, तुम्हारे आर्लिंगन-पाश में बंधकर सुख-भोग करनेवाला व्यक्ति ही पुरुषों में श्रेष्ठ है । तुम्हारा साहचर्य प्राप्त करनेवाला व्यक्ति ही पूर्णकामी तथा नित्यकल्याणसंपन्न है । हे कमलाक्षी, तुमको यहाँ रहते देखकर, हमें आश्चर्य तथा दुःख हो रहा है । हे सुदरी, तुम कौन हो ? इस कानन में किस लिए तुम रहती हो ? हमें सारा समाचार कहो ।’

तब सीता ने बड़ी भक्ति से कहा—‘हे अनघ, मैं रघुराम की पत्नी हूँ । मेरे पिता महाराज जनक हैं । महाराज दशरथ मेरे ससुर हैं । मेरा नाम सीता है । उन्नत कार्त्तवान् रामचंद्रजों अपने पिता की आज्ञा के अनुसार गृह त्यागकर वनवास के लिए आये, तो मैं और लक्ष्मण उनके साथ चले आये हैं । इस आश्रम में हम तीनों तपस्वियोंका-सा जीवन व्यतात करते हैं । आज हमने अपने आश्रम के सामने एक स्वर्ण-मृग को चौकड़ी भरते देखा, तो मैंने अपने पति से उसे किसी तरह ला देने के लिए कहा । इसी हेतु वे गये हैं । उसके पश्चात्, ‘हाय लक्ष्मण’ का आर्त्तनाद शूल की तरह मेरे कानों को चुभाते हुए सुनाई पड़ा । भयभीत हो मैंने लक्ष्मण को भेजा । वह गया हुआ है, किन्तु न जाने अब तक वह क्यों नहीं लौटा ।’

इतना कहकर, उन्होंने उस कपट मुनि को संबोधित करके कहा—‘हे अनघ, आपका शुभ नाम क्या है ? और आप यहाँ क्यों आये हैं ?’ तब लकाधिपति ने अपना कपट तजकर उनसे कहा—‘हे वनजाक्षी, मैं समुद्र के मध्य में स्थित लका का राजा हूँ । राक्षसों में श्रेष्ठ हूँ, विश्रवसु का पुत्र हूँ, यक्षेश का अनुज हूँ, दिग्विजयी हूँ । मेरा नाम रावण है, युद्ध में देवता तथा राक्षसों में किसी को भी मारने की क्षमता रखता हूँ । हे सुन्दरी, मैंने तुम्हारे रूप-सौंदर्य की प्रशंसा सुनी थी, इसलिए बड़े हर्ष से तुम्हें देखने आया हूँ । इस अकिंचन मानव के साथ तुम इन घोर वनों में क्यों रहती हो ? हे विशालाक्षी, तुम अपनी इच्छा से शासन करती हुई अपनी मनोज्ञता को प्रकट करती हुई, अत्यधिक आदर के साथ, पुष्पक आदि विमानों तथा ऊँची अट्टालिकाओं में सुर, गरुड, उरग, असुर तथा सिद्धों की श्रेष्ठ कन्याओं की सेवाएँ प्राप्त करती हुई निवास करो । तुम्हारे चरणों की कांति मेरे महलो का मणिमय कुट्टिम (फर्श) बन जाय । हे सुदरी, तुम्हारे कटाक्ष की शोभा मेरे अत पुर की कुमुदिनियों के साथ होड लगावे । तुम्हारा मदहास प्रतिदिन मेरे प्रेम-सागर के लिए चंद्रिका बन जाय । तुम मेरी लकापुरी को चलो ।’

इन बातों को सुनकर सीता अत्यंत भयभीत हुई। किन्तु वे धीरमना थी, इसलिए एक तृण हाथ में लिये हुए वे उसे संबोधित करके उसकी बातों का उत्तर देने लगी, मानो वे उस रावण को तृणवत् मानती हो। वे कहने लगी—'क्यों रे, मुझे श्रेष्ठ पतिव्रता न मानकर, इस प्रकार कहना, क्या तुम्हें उचित है? तुम्हारी इच्छा ऐसी दुर्लभ है, जैसे देवताओं को प्राप्त करने योग्य पूर्णाहुति किसी कुत्ते के लिए दुर्लभ है। तुम श्रीरामचंद्र को प्राप्त मुझ पर आसक्त होने का साहस करते हो? चुपचाप तुम अपने नगर को लौट जाओ। यदि ऐसा न करके तुम कोई दुराचरण करने का विचार करोगे, तो मेरे पति राघव, जो विविध शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में निपुण है, जो अनायास ही, देखते-देखते शिव-धनुष को भंग करने में सफल हुए, और खर-दूषण आदि राक्षसों के शिरच्छेदन करनेवाले हैं, तुम्हें तथा तुम्हारे वश को नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे। तुम्हारे और उन सूर्यवंशी में उतना ही अंतर है, जितना सियार और सिंह में, मशक तथा दिग्गज में, नाले और समुद्र में, कौआ और गरुड़ में अंतर होता है। इसलिए अब तुम सुबुद्धि के साथ लका लौट जाओ।'।

इन बातों को सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोधावेश से अभिभूत हो, भयकर दृष्टि से जानकी को देखा—और कपट रूप तजकर निज रूप धारण किया। उसके मन में मन्मथ दीप्त हो रहा था और उसकी दस अवस्थाएँ मानो रावण के दस मणिमय जटा-जूटों से युक्त सिरो के रूप में दिखाई देने लगी। उसकी बीस भुजाएँ ऐसी दीखने लगी, मानो मन्मथ की दस अवस्थाओं की इच्छाएँ दुगुनी होकर प्रकट हो रही हो। उसके कमल के-से बीस हाथ ऐसे दीख रहे थे, मानो उसकी (मदन-प्रेरित) इच्छाएँ पल्लवित हो गई हो। इच्छा के उन पल्लवों में फूलों के समान शस्त्रास्त्र दिखाई देने लगे। उसके शरीर के विविध आभूषणों की काति मदनान्नि की ज्वालाओं के समान दीखने लगी। इस प्रकार भयकर आकार धारण करके खड़े हुए रावण को देख सीता का धैर्य छूट गया और वे भयभीत हो मूर्च्छित हो गईं। तेज आधी के प्रहार से (पेड़ से अलग हो) नीचे पड़ी हुई वनलता के समान पृथ्वी पर पड़ी हुई चारुलोचनी सीता को, निर्दयी हो दशकठ ने, अपने रथ पर ला रखा। सीता की आँखों से अश्रु-धारा बह रही थी, बाहु-लताएँ भय से काँप रही थी, उनकी वेणी खुल गई थी, कुच हिल रहे थे, रत्न-हार जहाँ-तहाँ टूटकर उसके रत्न बिखर रहे थे, और भय तथा शोक से उनका सारा शरीर काँप रहा था। ऐसी स्थिति में वह राक्षस सीता को अपने रथ पर बिठाकर आकाश-मार्ग से यो जाने लगा, मानो दैव-प्रेरित हो मृत्यु-देवता को साथ लिये जा रहा हो। रास्ते में सीता की चेतना लौट आई, तो उन्होंने आँखें खोलकर देखा और (सूखे हुए) होठों को आर्द्र करनी हुई, अपने बिखरे हुए आँचल को ठीक कर लिया और ऊँचे स्वर में शिशु-कोयल की-सी वाणी में विधि को कोसती हुई, अपने प्राणेश्वर को पुकारती हुई क्रोध तथा विषाद से सतप्त होकर विलाप करने लगी।

२०. जानकी का शोक

सीता कहने लगी—'हे राघवेश्वर, हे रामचंद्र, हे सूर्यवंशी, हाय ! आपकी पत्नी—मुझे एक अनाथा बनाकर यह कुटिल राक्षस उठाकर ले जा रहा है। आप शीघ्र आकर

इसका नाश कीजिए और मेरी लाज बचाइए और मेरी रक्षा कीजिए । अरे राक्षस, यह निंदा तुम अपने ऊपर क्यों लेते हो ? तुम स्वयं अपनी लका को क्यों भस्म कर देना चाहते हो ? तुम्हारे लिए यह भयंकर अन्याय उचित नहीं है । क्रोध में राघव तुम्हारा वध कर डालेंगे । हाय, मैंने स्वर्ण-मृग देखा ही क्यों ? मैंने अपने प्राणेश को क्यों जाने के लिए कहा ? (लक्ष्मण को) मना करने पर मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी ? प्रभु मृग लाने के लिए क्यों गये ? मैंने उनकी शक्ति का विचार क्यों नहीं किया ? लक्ष्मण को कोसकर जाने के लिए मैंने उससे क्यों कहा ? हाय ! होनहार मुझे क्यों चुप रहने देगा ? इन बातों से क्या प्रयोजन है ? हे भाई लक्ष्मण, तुम अभिमान-धनी हो, मुझे माता के समान माननेवाले उन्नत गुणवान् हो । सौजन्य की मूर्ति हो । ऐसे तुम्हें जो अपशब्द मैंने कहे, उनका फल मैं अब भोग रही हूँ । क्रोध तज दो और शीघ्र आकर मेरी रक्षा करो । हाय कैकेयी ! आपने जो वर माँगे, वे आगे चलकर सफल होंगे । आप अपने पुत्र के हाथ एकच्छत्राधिकार का अनुभव करते हुए राजभोग कीजिए ।'

इस प्रकार सीता उस राक्षसराज की निंदा करती हुई, रामचंद्र को पुकारती हुई, भगवान् को कोसने लगी । वह काकुत्स्थवशी लक्ष्मण की प्रशंसा करती और कैकेयी की निंदा करती हुई अत्यधिक शोक से कहने लगी—'मैं मिथिलेश्वर की पुत्री, दशरथ की पुत्र-वधू और राम की पत्नी हूँ, ऐसी मुझे रक्षा करनेवाले जहाँ अनुपस्थित हैं—उस स्थान से एक राक्षस मुझे उठाकर ले जा रहा है । हे वृक्षो, हे मेरे सहोदरो, आप धरणी-श्वर (राम) से सारा वृत्तात कह सुनाइए । हे सुरो, आप सुरवैरी का सामना करके किसी उपाय से मुझे कैद से छुड़ाइए । हे गोदावरी, बड़ी भक्ति के साथ मैं आपके आश्रय में रहती थी, अब आपको मेरी रक्षा करना उचित है । कम-से-कम आप जाकर भूपति से यह वृत्तात सुनाइए । मैं दुष्ट के हाथों में फँसकर विपत्ति में पड़ी हूँ । हे माता, क्या आपको मेरी रक्षा नहीं करनी चाहिए ? हे भूमाता, आप रघुराम भूपालमणि से मेरी इस दुरवस्था का समाचार बतलाइए । सब प्रकार के लोगो को पुकारते हुए मेरा कठ सूख रहा है, धैर्य छूट रहा है, प्राण दुखी हो रहे हैं । हे किन्नरो, हे पुण्यात्माओ, हे महात्माओ, हे तपस्वियो, हे खेचरो, हे व्रतियो, हे यतियो, हे वन-पक्षियो, हे सिहो, हे गधर्वो, हे नरो, हे सुरो, हे नागेंद्रो, आप (सब) मेरी रक्षा कीजिए ।'

भूसुता विविध प्रकार से व्यर्थ ही शोक करने लगी । पृथ्वी भी काँप उठी, गौतमी (गोदावरी) ने अपनी गति रोक दी । समस्त प्राणी शोकाकुल हुए । मुनि लोग 'यह अन्याय है, अन्याय है,' कहते हुए, कपट सन्यासी रावण का स्वभाव जानकर, परित्याग करने लगे और शोकाश्रु बहाने लगे । मृग उनका (आर्त्तनाद) सुनते हुए चरना भूल गये, पक्षी क्रन्दन करत लगे, पवन की गति मद पड़ गई, वृक्ष सूखने लगे, सारा आकाश क्षुब्ध हो उठा, धर्म-देवता यह सोचकर कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, दुःखी हुए, वन-देवता शोक-सतप्त हुए, साधुजन जानकी को देख रोने लगे ।

२१. जटायु और रावण का युद्ध

उस समय अरुण का पुत्र, पक्षिराज तथा महान् साहसी जटायु ने एक पहाड़ पर से

तेरे बधुजनी तथा तेरी लका को भस्मीभूत कर देगी । जान-बूझकर क्यों विष पी रहा है ? क्रोधी सर्प के ऊपर पैर क्यों रखता है ? साठ सहस्र वर्ष की आयुवाले मुझे जानता है या नहीं ? मैं जटायु हूँ । इस पुण्य साध्वी को मुझे सौपकर चला जा, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूँगा, अपनी चोच से तेरे धनुष के टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा और वर्म तथा मर्म को भेदकर तेरे प्राण ले लूँगा और साथ ही जानकी को मुक्त करूँगा ।'

तब उस भयकर राक्षसश्रेष्ठ ने अपना रथ रोका, क्रोधोन्मत्त हो धनुष की टकार की और लक्ष्य साधकर जटायु पर घोर अस्त्र चलाये । किन्तु उस वीर विहग ने हष्ट होकर उसके बाणों को तोड़ दिया और अपने पखों से उसके वक्ष पर आघात किया, ललाट पर चोच मारी, कंधों पर पद-प्रहार किया और अपने तेज नखों से उसे अत्यधिक पीडा पहुँचाई । तब उस राक्षसकुलेश्वर ने उस खगराज के पखों का लक्ष्य करके दस उग्र बाण चलाये । जटायु ने अपनी चोच से रावण के धनुष के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, उसकी ध्वजाओं को नीचे गिराकर उसके मुकुट को भी पृथ्वी पर गिरा दिया, सारथी से जूझकर उसका पेट चीर दिया, आगे बढ़कर उस राक्षस के रथ के अश्वों को मार डाला और अत्यधिक क्रोध से उसके रथ को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । तब राक्षसराज कपित्त होकर पृथ्वी पर गिरकर फिर उठा और धरणिजा (सीता) को उठाये हुए अपनी माया की शक्ति से आकाश में और भी ऊँचा उड़ गया । उसे जाते हुए देखकर जटायु ने उसको रोका और आकाश-मार्ग में महान् वेग से उस पर आक्रमण किया और कहने लगा—'हे पापी, तू लुक-छिपकर भले ही किसी भी लोक में चला जा, मैं तुझे तिनके की तरह पकड़कर तेरा वध कर दूँगा ।'

तब अत्यंत रोष से दैत्यराज ने अति भयकर मुद्गर उस पर फेंका । जटायु ने उसे अपनी चोच से तोड़ दिया और उसके सिर पर चलते हुए उसे कुचल-सा दिया और उसके सर के केशों को चुनने लगा । रावण ने क्रोध से, बिना भय या सकोच के, उस पक्षीराज को दृढ़ता से पकड़कर नीचे अपने सामने रखा, और अपनी भयकर शक्ति को प्रकट करते हुए अपनी मुष्टियों के प्रहार से उसे पीड़ित करने लगा । दनुजेन्द्र और विहगेंद्र के बीच के उस युद्ध को देख देवता आश्चर्यचकित हुए । तब रावण अपने अद्वितीय पराक्रम को प्रकट करते हुए अपने अति भयकर खड्ग को खींचकर जटायु के पखों और पैरों को काट दिया । तुरत खगपति धरती पर गिर पड़ा ।

उसे इस प्रकार गिरते देख वैदेही दुःखी हो किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राम का नाम ले-लेकर विलाप करने लगी । रावण उस परम पतिव्रता को उठाकर बड़े हर्ष से आकाश के मार्ग से अत्यंत शीघ्र जाने लगा । ब्रह्मादि देवता तथा मुनि आपस में यह कहकर हर्षित होने लगे कि अब दशकठ अवश्य ही राम के हाथों मारा जायगा और हमारे मनोरथ सफल होंगे ।

आकाश-मार्ग से जब रावण अत्यधिक वेग से जाने लगा, तब सीता के चरण का नूपुर इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा, मानो सुरवैरी के लिए उत्पात की सूचना देनेवाली उल्का हो । उस रमणी के कुचों पर विहार करनेवाले हार दूटकर इस प्रकार जहाँ-तहाँ

पृथ्वी पर गिरने लगे, मानो जाह्नवी की जल-धारा हो। सीता हाहाकार करती हुई मन-ही-मन कुबती जाती थी। ऋष्यमूक पर्वत पर सीता ने पाँच बलिष्ठ वानरो को देखा, तो तुरत अपने वस्त्र का थोड़ा सा भाग फाड़ा, उसमें अपने आभूषणों को बाँधा और सोचने लगी कि कम-से-कम ये मेरे आभूषण राम भूपाल को मेरे हरण का समाचार देंगे, तो राम के द्वारा दशकठ का वध शीघ्र होगा। इस प्रकार सोचकर उन्होंने उस पोटली को उनके बीच गिरा दिया। उन (वानरो) ने उस पोटली को तुरत छिपा दिया।

वनुजाधिपति (यह सोचकर) भय से व्याकुल हो रहा था कि दशरथात्मज उसका पीछा करेंगे। इसलिए वह पीछे की ओर देखते हुए, भय-विह्वल होते हुए, शीघ्र ही समुद्र पार कर गया और लका में जा पहुँचा। उस समय कितने ही मृत्युसूचक अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। वह लका पहुँचकर अनुपम तथा विविध भोगों का आगार अपने महल में गया और बड़े गर्व के साथ जानकी को अपनी सारी संपत्ति दिखाई।

२२. जानकी को अशोक-वन में रखना

तत्पश्चात् रावण ने बड़े हर्ष से सीता से कहा—‘हे कमललोचनी, ये मेरे भवन हैं, यह मेरा धन है, ये मेरे तुरग हैं, ये मेरे गज हैं। यह वे मेरे दिव्य आभूषण हैं, जिन्हें मैंने सभी देवताओं को परास्त करके प्राप्त किया था, यह पुष्पक-विमान है, जिसे मैंने कुबेर को जीतकर प्राप्त किया था, ये चारण, अमर, सिद्ध तथा साधकों की पत्नियाँ हैं, जो अलग-अलग मेरी सेवा करती रहती हैं। ये स्त्रियाँ वे हैं, जो घमडी होकर मेरी बात स्वीकार नहीं करने के कारण कारागार में तडप रही हैं। वह देखो, नाट्यशाला है, वह क्रीडा-वन है, ये चन्द्रशालाएँ हैं। तुम इन सब की स्वामिनी होकर अनुपम गति से समस्त वैभवों का उपभोग करो।’

तब सीता एक तृण-खड को हाथ में लेकर, रावण की उपेक्षा करती हुई कहने लगी—‘अरे मूर्ख, तुम्हारा यह पाप तुम्हें यो ही नहीं छोड़ेगा। वह भयकर अग्नि बनकर तुम्हें दग्ध कर देगा। तुम और तुम्हारे बधु-बाधव अब बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकेंगे। अवश्य ही नष्ट हो जायेंगे। यह सत्य है। जबतक राम की बाणाग्नि की राशि में गिरकर तुम्हारा शरीर जल नहीं जायगा, तबतक तुम्हारे ये पाप कैसे कटेंगे?’ फिर सीता बार-बार परिताप करती हुई बोली—‘तुमने आज मुझे ऐसे क्लुषित वाक्य सुनाये, जिनसे मेरा सारा महत्त्व जाता रहा। मेरे गर्व ने मुझे ऐसा कर दिया, मैं अपने भाग्य को कैसे रोऊँ?’ यो कहती हुई वह उच्च स्वर में रुदन करने लगी। (यह देखकर) राक्षस-बल्लभ मन-ही-मन बहुत क्रुद्ध हुआ और त्रिजटा आदि स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सीता को दिखाते हुए कहा—‘तुम लोग बड़ी सावधानी से इसकी रक्षा करती रहो और मुझसे विवाह कर लेने का उपदेश देती रहो। उचित यत्न के साथ इस रमणी को अशोक-वन में रखो।’ यो कहकर उसने उन्हें भेज दिया और काम-पीडित मन से व्याकुल रहने लगा।

२३. श्रीराम का दुःख

माया-मृग का वध करने के पश्चात् राम ने और एक हिरन का वध किया और उसके मांस तथा चर्म को लेकर बड़े हर्ष से लौट रहे थे। सियारों का चिल्लाना मन्त्र

(मन-ही-मन) वे व्याकुल होते हुए बड़ी तेजी के साथ निःश्वास भरते हुए आ रहे थे कि वन के मध्य में उन्होंने लक्ष्मण को देखा । लक्ष्मण को देखते ही वे अत्यंत भय-विह्वल हुए और बोले—‘हाय लक्ष्मण, अत्यंत धीर तथा विवेकी होकर भी मेरी आज्ञा के विना, सीता को वन में अकेली छोड़कर तुम कैसे आये ? तुम इस तरह क्यों आये ? क्या, तुम नहीं जानते कि इस पृथ्वी पर रहनेवाले सभी राक्षस हमारे शत्रु हैं ? भाई, क्या तुम्हें वश-मर्यादा, धर्म तथा गुरुजनो की हानि का विचार नहीं करना चाहिए था ?’

इन बातों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत भयभीत हुए । काँपते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—‘हे प्रभो, त्रिलोकीनाथ, मैं जानता हूँ कि मेरा इस प्रकार चला आना उचित नहीं है । जिस कुटिल राक्षस ने माया-मृग के रूप में आपको भटकाकर निदान आपके दिव्य बाणों की अग्नि-शिखाओं से प्राणत्याग किये, उसने मरते समय ‘हाय लक्ष्मण’ कहकर आर्त्तनाद किया । वह आर्त्तनाद जब सीताजी के कानों में पड़ा, तब वे अत्यंत भयभीत हुईं और आपकी श्रेष्ठता को सर्वथा भुलाकर कहने लगी—‘भाई लक्ष्मण, क्या बात है ? कुछ पता लगाओ । हे सौमित्र, तुम्हारे भाई कभी ऐसा दीन आलाप नहीं करते ।’ तब मैंने उनसे कहा—‘माताजी, हमारे मन में भय उत्पन्न करने के निमित्त ही क्रूर राक्षस ने ऐसी पुकार मचाई होगी । कहाँ सूर्य-वश के अधीश्वर और कहाँ दीन वचन, माताजी आप विचलित मत होइए ।’ तब देवी मुझे अपशब्द सुनाती हुईं कोसने लगी और मैं मन ही मन दुःखी हुआ और वन-देवताओं के सरक्षण में उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया । इसलिए प्रभो, आप इसे मेरी त्रुटि न मानें ।’

इस प्रकार कहते हुए अश्रुपूरित नयनों से लक्ष्मण ने अपने भाई को प्रणाम किया । राम ने अपने अनुज को बड़े स्नेह से उठाया, आँखों से गिरनेवाले अश्रुजल को पोछा, और अत्यंत दुःखी होते हुए बोले—‘हे तात, आजन्म पवित्र, सर्वज्ञ जनक महाराज की पुत्री होती हुई, उस प्रख्यात पुण्यशीला सीता का ऐसे वचन कहना ही सभी विपत्तियों का कारण है—ऐसा विचार करके तुम्हें तो वही ठहर जाना चाहिए था । तुम्हारे जैसे व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए था ।’

इस प्रकार, सौमित्र को सात्वता देकर राम ने अपनी आश्रम-भूमि में प्रवेश किया और (उसे सर्वथा निस्तब्ध पाकर) बोले—‘हे लक्ष्मण, यह कैसी बात है कि यह आश्रम सर्वथा शून्य दीख रहा है । वन-देवताओं के हर्ष भरे वचनों की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है ? पक्षियों का कलरव नहीं सुनाई पड़ रहा है । मुनिजनो का संचार यहाँ नहीं दीख रहा है ? सीता (मेरे स्वागतार्थ) आगे आती नहीं दीख रही है ? मेरा मन अत्यंत दीन तथा व्याकुल हो रहा है । आज मेरी बाईं आँख न जाने क्यों फड़क रही है । हाय, इस वन में न जाने हम दोनों कैसा दुःख भोगेंगे ?’

इस प्रकार कहते हुए वे पर्णशाला के पास पहुँचे और दिनकर-रहित दिन-लक्ष्मी के समान, निशाकर-विहीन रश्मि के समान, सारिका-रहित पिंजड़े के समान, कोयल-रहित आम्र-वृक्ष के समान, देखने में विवर्ण तथा कातिहीन दीखनेवाले उस पर्णशाला को देखकर वे मन-ही-मन बहुत अधीर हुए । व्याकुलता के कारण उनका मुख विवर्ण हो गया ;

आँखों से अश्रु ऐसे बहने लगे, मानो शोक-रस ही प्रवाहित हो रहा है। वे अपने सूखे ओठों को आर्द्र करते हुए भग्न हृदय से अपने अनुज को देखकर बोले—‘हे लक्ष्मण, मैंने अच्छी तरह देख लिया, पर्णशाला में कहीं भी भूमिसुता का पता नहीं है। कदाचित् पुष्प-चयन के लिए गई हों अथवा हमें ढूँढती हुई किसी दूसरे मार्ग से चली गई हों। पता नहीं, सरोवर में जल-क्रीडा करने गई हो या अत्यंत भयभीत हो कहीं सतप्त हो रही हो, निकट पहुँचनेवाले बाघों के भय से कहीं छिप गई हो अथवा क्रोध से कहीं अकेली चली गई हो। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है कि वह कहाँ गई, जो भी हो यहाँ तो नहीं है।’

इस प्रकार तर्क-वितर्क करते हुए उन्होंने पर्णशाला के भीतर प्रवेश करके सब स्थानों में ढूँढा। किन्तु कहीं भी जानकी को न पाकर उनका मन अत्यधिक सतप्त होने लगा, शरीर निश्चेष्ट हो गया, ज्ञान-रूपी रवि-शोक-समुद्र में अस्त होने से भ्रांति-रूपी अधिकार ने व्याप्त होकर उनके अतरंग तथा नेत्रों को ढक लिया, धैर्य को आवृत कर लिया और अभिमान को घेर लिया। वे व्याकुल होकर भूमि पर लोट गये। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं पहले ही सीता के (वनवास) दुःख से चिंतित हूँ, अब मुझे यह दुःख भी सहना पड़ा। यह दुःख मुझे कैसे प्राप्त हुआ? कैसे मैं इस दुःख को पार करूँगा? हम क्यों इस वन में आये? अब मैं इससे (लक्ष्मण से) क्या बात कर सकता हूँ? मैं इसका अग्रज हूँ, यह मेरा अनुज है, हम दोनों इस दुःख का भार कैसे वहन करेंगे?’ इन बातों का विचार किये बिना वे मन-ही-मन क्षुब्ध होकर मदन-पीडित उन्मत्त की तरह चारों ओर निरुद्देश्य दृष्टि से देखते हुए, अपने महत्त्व को भी भूलकर प्रलाप करने लगे। वे कभी चिल्लाते—‘हे तनुमध्ये (पतली कमरवाली)। इतनी देर तक तुम कहाँ हो? शीघ्र आओ।’ फिर ऐसी चेष्टाएँ करते, मानो वे आ गई हो और उनका आलिंगन कर रहे हो। तुरन्त दुःखी होते, फिर धीरे-धीरे उनको सात्वना देते। थोड़ी देर में जब किंचित् चेतना लौट आती तो कहते—‘हाय सौमित्र, अवनिमुता न जाने कहाँ चली गई? क्या हो गया उसे, उसके पद-चिह्नों के अनुसार चलकर ढूँढने पर भी वह दिखाई नहीं देती; वह पर्णशाला में भी नहीं है। वह कमललोचनी न जाने किस दिशा में गई है? क्या यह दण्डकवन नहीं है? क्या यह (हमारा) निवास-स्थान नहीं है? क्या यह (हमारी) पर्णशाला नहीं है? क्या मैं राम नहीं हूँ? तब तो उस चंचलाक्षी से बिछुड़कर मेरे प्राण अभी क्यों टिके हुए हैं? उसके विधोग-दुःख से यदि मैं प्राणों का मोह त्यागकर मर जाऊँ, तो महाराज दशरथ तो यही सोचेंगे कि यह कैसा पुत्र है, जो व्रत को पूर्ण किये बिना ही चला आया है? ऐसी दशा में क्या वे मेरा आदर करेंगे? ऐसा नहीं करके यदि मैं व्रत को पूर्ण करके, राज्य करने के लिए राजधानी को लौट जाऊँ और मिथिलेश्वर वहाँ आयें तो, उन्हें देखकर क्या मैं लज्जित नहीं होऊँगा? इसलिए तुम मुझे इस कानन में ही छोड़कर राजधानी को लौट जाओ और भरत से कहो कि वह अपनी इच्छा से समस्त पृथ्वी का शासन करे और माता कैकेयी, सुमित्रा तथा कौशल्या को जानकी के खो जाने का तथा मेरा समाचार कहो। मेरी बात मानो।’

इस प्रकार कहते हुए राघव ने अपनी आँखें ऐसे बंद कर ली, मानो वे इस समाचार को मन से बाहर जाने नहीं देना चाहते थे कि सीता पर्णशाला से अदृश्य हो गई है ।

तब लक्ष्मण सारी स्थिति देखकर अत्यधिक शोक से विलाप करने लगे—‘मैं अब किस माता की सेवा करूँगा ? किस माता की आज्ञा का पालन करूँगा ? किसे मैं अपनी माता के समान मानूँगा ? सूर्यवश-तिलक के शोक को कैसे शान्त करूँगा ? सभी माताओं तथा भाइयों के लिए, इनके साथ का जीवन ही जीवन है (ये यदि न रहें, तो दूसरे कैसे रह सकेंगे) । हाय ! अब तो मनुवश का ही अंत हो गया ।’

इतने में राम की चेतना लौट आई । उन्होंने उमड़ते हुए शोक से दण्डकवन के चारों ओर एक बार दृष्टि दौड़ाई, और आँखों में आँसू भर लिये । सीता का स्मरण करते ही उनका दुःख दुगुना हो गया, धैर्य के छूट जाने से मन और भी शोकाकुल हुआ । वे बोले—‘हाय सीता, तुम चली गई । तुम अपने शरीर को मेरे इस शरीर से अलग करके इसे यही छोड़कर चली गई ? सुर तथा असुरों के लिए पूजनीय है, इसका भी विचार नहीं करके मैंने तुम्हारे लिए शिव-धनुष को भग कर दिया था । परशुराम ब्राह्मण है इसका भी विचार नहीं करके मैंने उन्हें शत्रु समझकर उनका गर्व भग किया था । हे कमलाक्षी, तुम्हारे लिए मैंने इन दोनों निंदाओं को अपने ऊपर ले लिया है । अंत में क्रूर दैव ने तुम्हें मुझसे अलग किया है । मैं तो केवल निंदा प्राप्त करने के लिए रह गया । तुम्हारे मन की अभिलाषा देखकर, उसे पूर्ण करके तुम्हें आनन्दित करने के लिए मैं गया, उस माया-भूग का वध करके उसका चर्म लाया हूँ । अब मैं प्रेम से वह (चर्म) किसको दूँ ? सब सुखों को भुलाकर, मेरा विश्वास करके मेरे साथ वन में आई हुई तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सका । तुम्हारे जाने का मार्ग जानकर, तुमसे शीघ्र आकर मिल न सका । समस्त जगत् का शासन करने की महान् शक्ति रखनेवाले के समान शर-चाप धारण करके इस घोर वन में रहने आया और मूर्ख मति से अपने पूर्वजों की महत्ता को भी भुलाकर, आज तुम्हें खो बैठा हूँ । हे मृगलोचनी, तुमसे बिछुड़कर मैं इस शरीर में अपने प्राण कैसे रोक सकूँगा ? हे भूमिसुते ! इस भूमि को छोड़कर मैं और किस स्थान पर इस शरीर को धारण कर सकूँगा ? हे सुदरी, तुम्हारी विरहाग्नि तुम्हारे सौदर्य-सागर में डूबे बिना बुझेगी नहीं । तुम्हारे शरीर-रूपी नौका के बिना, इस शोक-समुद्र को कैसे तर सकूँगा ? तुम्हारे कुचों की आड के बिना मैं कामदेव की शर-वृष्टि को कैसे सह सकूँगा ? भगवान् मुझे उस तरफ ले गया और तुम्हें इस तरफ । हम दोनों को अलग करनेवाले भगवान् के लिए क्या असंभव है ? हे कोमलाग्री, तुम्हें उठाकर ले जाते समय, तुमने क्या कहकर विलाप किया था ? तुमने मुझे क्या कहा था ? तुम किस देश में चली गई हो ? कहाँ रहती हो ? कैसा दुःख भोग रही हो ? क्या कर रही हो ? कौन तुम्हें ले गया है ? किस मार्ग से गई हो ? हाय, हमारी कैसी दशा हो गई है । तुम्हारी जैसी निपुणा, तुम्हारी जैसी मृगधा, तुम्हारी जैसी सौदर्य-निधि कहाँ है ? तुम्हारे साथ रहते एक दिन जी भरकर सुख भोगने का सौभाग्य (अब) मिलेगा क्या ? हे जलजनयनी, तुम्हारे साथ रहने पर मैं यही अनुभव करता था कि साकेतपुरी में ही रह रहा हूँ ।

हे पिकवयनी, तुम्हारे सग रहने पर मैं अपने को स्वर्ण-महलो में रहनेवाले के समान ही समझता था । हे सुदरी, मैं तुम्हारे सहवास में अपने को समस्त भोगों को प्राप्त करता हुआ-सा अनुभव करता था । तुम्हारे साथ रहते हुए सब प्रकार के सुख-भोगों को भोगता हुआ-सा मानता था । आज ही मुझे ज्ञात हो रहा है कि यह महाकानन है, यह पर्ण-शाला है, यह तपस्या है, यह दुःखमय जीवन है । हे राजकुमारी, हे मृगनयनी, हे कमलाक्षी, हे लतागी, मैं कैसे सतप्त हो रहा हूँ । फिर भी तुम सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कहती हो ? आज दैव ने तुम्हारे मद गमन की शोभा हसी को, ललित चरणों की कान्ति प्रवालों को, उन्नत कुचों की शोभा चक्रवालों को, कर्णों का अरुण राग पद्मों को, तन की कान्ति नय जलद की बिजली को, आँखों का वैभव मछलियों को, शीतल मुख की शोभा चद्र को, उज्ज्वल हँसी चद्रिका को, मधुर भाषण तोते को, केशों की कान्ति भ्रमरों को, कटि की कृशता आकाश को, देकर तुम्हें निगल लिया है । हे वामलोचनी ! हे पद्मगंधी ! हे कमलमुखी ! हे सीते !” कहते हुए दुःख-विवश हो राम भूपाल अत्यधिक व्याकुल हुए । उसके पश्चात् अत्यंत दीन होकर वे अपने अनुज को देखकर बोले—“हे लक्ष्मण, वह इदीवराक्षी न जाने किस ओर गई है । क्या हम उसे खोजते हुए चलें ? वह इन लता-समूहों में न जाने कहाँ लीन हो गई है, क्या हम उसे पुकारें ? वह पृथ्वी की कुमारी न जाने किन पेड़ों की आड़ में छिप गई है, क्या हम चलकर देखें ? वह शुक-जुवाणी न जाने किन सरोवरों में (स्नान करने) गई है; क्या हम उसका पता लगाने जायँ ?” इस प्रकार बार-बार अत्यंत दीनालाप करते हुए, मन-ही-मन खिन्न होते हुए वे असह्य वेदना से पीड़ित होने लगे ।

(तत्पश्चात्) वे गौतमी के किनारे पहुँचे और उसे संबोधित करके कहने लगे—“हे लोकपावनी, हे लोकमाता, लोकपावनी सीता का पता क्या आप जानती हैं ? हे लोक-बधु, हे कर्मसाक्षी (सूर्य), क्या आप जानते हैं कि सीता कहाँ है ? हे जगत्प्राण, हे सब स्थानों में संचार करनेवाले (पवन) क्या आप भी नहीं जानते कि सीता कहाँ है ? हे लताकुमारी, क्या तुम नहीं जानती कि वह लतागी कहाँ है ? हे जलज, क्या तुमने उस जलजातगंधी को नहीं देखा ? हे सिंह, क्या तुमने उस सिंहमध्या (क्षीण कटिवाली) को नहीं देखा ? हे गजराज, क्या तुमने उस गजगामिनी को नहीं देखा ? हे हरिण, क्या तुमने उस हरिणाक्षी को नहीं देखा ? हे पिक, क्या तुमने उस पिकवयनी को नहीं देखा ? हे भ्रमर, क्या तुमने उस नीलवेणी को नहीं देखा ? हे तिलकवृक्ष, क्या तुमने उस तिलक से अलंकृत मुखवाली को नहीं देखा ?” इस प्रकार भ्रातृ हो, राघव जहाँ-तहाँ जाकर सीता को ढूँढने लगे, पर कहीं भी वैदेही का पता न मिलने से, विरहाकुल तथा विवश होकर रह गये ।

२४. लक्ष्मण का राम को सांत्वना देना

ऐसे दुःखी होनेवाले अपने भाई को देखकर लक्ष्मण ने उनसे कहा—“हे भाई, आप समस्त लोकों के लिए आराध्य हैं, उदात्त चित्तवाले हैं, महान् बलशाली हैं, अपनी स्त्री के लिए इस प्रकार आप शोक करें, यह उचित नहीं । हे सूर्यवशाधिप, इस प्रकार का मोह

तथा शोक आपको क्यों ? यह ससार तो तमोगुण से आवृत है । आप यदि धनुष अपने हाथ में लें, तो देवता भी आपको देखकर दूर जायेंगे । हे अखिलेश, आप अद्वितीय शक्तिशाली हैं । मेरे जैसा व्यक्ति आपका सेवक है । आपके लिए असाध्य क्या हो सकता है ? आप अपने महत्त्व का विचार क्यों नहीं करते ?'

तब राम ने अपने आपको सँभाल, शोक तज दिया और अपने भाई को देखकर बोले—'अब मैं जानकी का वियोग किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता । मैं अपने दुर्गार बाणों के सतत प्रयोग से सारी पृथ्वी को चीरकर, पातालवासियों को पीड़ित करके, चंद्रमुखी सीता को प्राप्त करूँगा या सप्त समुद्रों को आलोकित करके भूधरो को चूर-चूर करके, दिग्गजों के कुभ-स्थलों को फाड़कर भूमिसुता को प्राप्त करूँगा । या सभी दिक्पालों के हृदयों को चीरकर, सूर्यबिम्ब को तोड़कर, नक्षत्रों को चूर-चूर करके सारी पृथ्वी को अधकार में डुबोकर अपनी स्त्री को प्राप्त करूँगा या अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके सभी राक्षसों को भस्म कर दूँगा, पृथ्वी को राक्षस-रहित कर दूँगा और वैदेही को साध लूँगा (प्राप्त कर लूँगा) । या समस्त ब्रह्मलोक को छानकर, आदि ब्रह्मा का सहार करके, सभी प्राणियों में भय उत्पन्न करके, अपने पराक्रम से अपनी स्त्री को प्राप्त करूँगा । यदि मैं अपने बाहुबल का प्रदर्शन नहीं करूँ, तो क्या, यो ही सुरगण सीता का पता बतायेंगे ? यह देखो, सभी भुवनों को कँपाती हुई मेरे बाणों की अग्नि-ज्वाला दीप्त हो रही है । लो, सीता को देखो, मैं अभी सीता को ऐसे प्राप्त करूँगा कि सभी देवता मेरी प्रशंसा करने लगेंगे ।'

इस प्रकार कहते हुए उनकी भाँहें ऐसी तन गईं, मानो वे सभी लोकों के लिए उत्पात की सूचना दे रही हो । सभी जीवों के साथ समस्त ब्रह्माण्ड को चूर-चूर करनेवाला सकर्षण रूप उन्होंने धारण किया और प्रलयकाल के रुद्र की भाँति क्रुद्ध होकर धनुष हाथ में ले लिया । तभी सभी जीव भयभीत हुए, सारी पृथ्वी धरधराने लगी, सभी लोक व्याकुल हुए, आकाश हिलने लगा, ब्रह्माण्ड मानो टूटने लगा, ब्रह्मा का मंत्र मिट गया; रवि पथ-भ्रष्ट हो गया, नक्षत्र टूटने लगे, शिव भी भयभीत हुए और यक्ष, देव तथा असुर विचलित हुए ।

तब लक्ष्मण राम के निकट पहुँचकर अत्यधिक भय से, हाथ जोड़कर बोले—'हे प्रभो, आप करुणानिधि हैं, लोक रक्षण-कला में प्रवीण हैं । जनकजा के लिए सभी लोकों का समूल नाश कर देना, क्या आपके लिए उचित है ? एक-एक वन में, सभी समुद्रों में, जनाकीर्ण नगरों में तथा समस्त देशों में वैदेही को विना थके डूँडन के उपरान्त भी यदि वे नहीं मिली, तब आप अपने क्रोध तथा पराक्रम से उनको प्राप्त कर सकते हैं ।'

इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर राम ने उनकी बातें बड़े स्नेह से मान ली, क्रोध तजा और धनुष को रख दिया । उसके पश्चात् अखिलेश राम अपने अनुज के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े । उस समय मार्ग में जहाँ-तहाँ सीता की वेणी से गिरे हुए फूल, उक्ष तन्वी के वक्षों पर विलसित हारों के रत्न, उनके मणिमय चरण-नूपुर पृथ्वी पर

पड़े हुए देखकर राम अत्यधिक शोक से अभिभूत हुए । उन्होंने विचार करके निश्चय कर लिया—हाय, निश्चय ही कोई क्रूर दानव उस कुटिल-कुतला सीता को उठाकर ले गया है ।

यो चिंतित होते हुए वे मार्ग में अन्वेषण करते हुए थोड़ी दूर आगे बढ़े । मार्ग में जहाँ-तहाँ राक्षस के चरण-चिह्नों को देखते तथा उनका अनुसरण करते हुए वे कुछ दूर गये । वहाँ उन सूर्यवशजो ने एक स्थान पर कटे हुए पंख, रक्त के कीचड़ में मृत पड़े हुए सारथी, उसपर टूटकर गिरे हुए रथ, रथ के पास कटकर गिरे हुए अश्व, पृथ्वी पर बिखरे हुए पताका के खड, उनके सामने ही गिरे हुए धनुष के खड, छितराये हुए अस्त्र-शस्त्र देखे । (इन सब वस्तुओं को) लक्ष्मण के दिखाने पर राम विस्मित हुए और सोचने लगे कि किन्हीं ने यहाँ पर युद्ध के आनन्द का उपभोग किया है ।

२५. जटायु का अग्नि-संस्कार करना

उक्त योद्धा का पता लगाने के उद्देश्य से रघुराम उस मार्ग में जहाँ-तहाँ ध्यान से देखते हुए आगे बढ़े । उस स्थान के निकट ही पंख और पैर कटे हुए, रक्त में डूबे, वज्र के आघात से गिरे हुए मैनाक पर्वत की भाँति विवश पड़े हुए विहगोन्द्र (पक्षिराज) को देखकर राम ने कहा—‘हे लक्ष्मण, देखा तुमने ? चपलराक्षस सीता को निगलकर, अपना निज रूप दिखाने से डरकर पक्षी के रूप में यहाँ पड़ा हुआ है । भय से तडपनेवाले इसका वध मैं कर डालूँगा ।’ यो कहते हुए वे धनुष हाथ में लिये उस पक्षी पर आक्रमण करने को उद्यत हुए । उन्हें देखकर पक्षिराज ने रक्त का वमन करते हुए, लबी साँस भरते हुए, गद्गद कट से कहा—‘हे राजन्, मैं आपके पिता का मित्र हूँ, कश्यप ब्रह्म का पौत्र हूँ, अरुण का पुत्र हूँ तथा जटायु नामधारी हूँ । मैं इन घने वन तथा शैल-शृंगो पर निवास करता हूँ । मैंने अपना सारा वृत्तत आपको इसके पहले स्पष्ट रूप से निवेदन कर ही दिया था । हे पुण्यात्मा, ऐसे मुझे यह विपत्ति क्यों कर आई, उसका भी विवरण सुन लीजिए । आज रावण आपकी देवी को चुराकर लिये जा रहा था, तो मैंने उसको रोका और अपनी अमित शक्ति के साथ उससे युद्ध करके बुरी तरह घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा हूँ । यह उसका केतु, सूत तथा अश्वो से युक्त रथ है । युद्ध में मेरे द्वारा ये नष्ट हुए हैं । तब क्रोध से वह क्रूर राक्षस सीता को उठाकर आकाश-मार्ग से चला गया । आप तो आये नहीं । (अब) मैं आपको यह समाचार सुना सका, आपकी शुभ मूर्ति के दर्शन कर सका । मैं पुण्यवान् हुआ ।’

तब राघव का शोक द्विगुण हो उठा । उन्होंने धनुष को फेंक दिया और मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पड़े । सौमित्र की परिचर्या के उपरान्त उनकी चेतना लौटी, तो वे बोले—‘हाय, महात्मा जटायु ! मेरे कारण आप पर यह विपत्ति आई है ।’ उन्होंने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा, और सारा रक्त स्वयं पोछा और अपने अनुज को देखकर बोले—‘लक्ष्मण, इन्होंने हमारे लिए रावण का सामना करके इस प्रकार युद्ध किया है । ऐसे पुण्यात्मा कहाँ मिल सकते हैं ? इनके स्वर्ग सिंघारने के पहले ही तुम इनसे पूछ लो कि रावण की राजधानी को जाने का क्या मार्ग है, उसकी शक्ति आदि कितनी है ।’ तुरन्त लक्ष्मण ने रघुराम के कार्य में सहायक जटायु से उस सुरवेरी की शक्ति आदि

के संबंध में कई उचित प्रश्न किये । तब जटायु ने कुछ बातें बताईं, किन्तु कठ से फिर से रक्त बहने के कारण आगे बोल न सके । तब उन्होंने अतुल पुण्यात्मा राम को देखा और मन में उनका सतत स्मरण करते हुए बड़े आनन्द से मोक्ष-मार्ग को सामने देख पुलकित होकर प्राण त्याग दिये । राजकुमार उनकी मृत्यु पर, महाराज दशरथ की मृत्यु से भी अधिक दुखी हुए और वेद-विधि से उस पक्षिराज का दाह-संस्कार किया ।

२६. कबंध का वध

वहाँ से वे दोनों कौचवन की ओर बड़े और वहाँ नाना लता, वृक्ष, नग तथा मृग से भरी एक घाटी में से होकर जाने लगे । वहाँ एक स्थान पर 'अयोमुखी' नामक एक राक्षसी को देखा । उसके केश पके हुए थे, दाढ़ें लंबी थी, उदर विशाल था, मुँह बहुत बड़ा था, आँखें उभरी हुई थी और कुच घुटनो तक लटक रहे थे । उसकी चेष्टाएँ पागलो की-सी थी । उसने सुंदर आकार तथा शुभ लक्षणों से समन्वित लक्ष्मण को देखा, तो उनपर आसक्त हो गई और उनका हाथ पकड़कर रति-क्रीडा के लिए उनसे आग्रह करने लगी । उन्होंने उस राक्षसी को तलवार की सहायता से वही सुख दिया, जो उन्होंने शूर्पणखा को दिया था ।

इसके पश्चात् उन्होंने दुदुभि, पटह तथा तूर्य आदि की ध्वनि से भी अधिक ध्वनि अपने आगे सुनी । उसके सबध में जानने के लिए दोनों राजकुमार आगे बड़े । वहाँ उन्होंने एक ऐसे राक्षस को देखा, जिसकी बाँहें एक योजन लंबी थी । वह अपनी बाँहों को फैलाकर उनके बीच फँसनेवाले किसी भी जंतु को पकड़कर तुरत ही निगल जाता था और डकार लेता था । उसका सिर बहुत छोटा था और उसका पेट ही उसका मुँह था । इस प्रकार का आकारवाला, बहुत से जीव-जंतुओं का नाश करनेवाला, देवताओं को कष्ट पहुँचानेवाला मदाध कबंध नामक राक्षस को देखकर राम-लक्ष्मण आश्चर्यचकित हुए । उसने भी अपने दोनों करों से उन दोनों को पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा । उस समय अपने अग्रज को देखकर लक्ष्मण ने कहा—'हे भाई, आप मुझे इस राक्षस का आहार बनाकर सीता के अन्वेषण में चले जाइए और उन्हें प्राप्त करके समस्त ससार का शासन करने के लिए (अयोध्या) लौट जाइए ।'

लक्ष्मण की बातों पर विचार करते हुए राम उस राक्षस के हाथों के साथ थोड़ी दूर गये । उसके पश्चात् राम तथा उनके भाई दोनों ने खूब सोच-विचार करके अपनी म्यानों से खड्ग खींचे और उन तेज खड्गों से उस राक्षस के दोनों हाथ काट डाले ।

राक्षस का सारा गर्व चूर-चूर हो गया । वह धरती पर लोट गया और थोड़ी देर के बाद सँभलकर उसने उन लोगों से पूछा कि आप कौन हैं ? तब लक्ष्मण ने श्रीराम का सारा वृत्तांत कह सुनाया, तो उसे (अपने पूर्व जन्म का) ज्ञान हो आया और वह अपना वृत्तांत सुनाने लगा । (उसने कहा)—'महाराज, मैं दनु नामक स्वर्ग का निवासी हूँ । एक महात्मा मुनि के शाप के कारण मैं ऐसा हो गया हूँ । मैंने ब्रह्मा से कामरूपत्व (इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति) तथा चिरायु प्राप्त की और उस गर्व से ऐसा रूप धारण करके सभी संयमी जत्नों को दुःख देने लगा । इस सिलसिले में स्थूलशिर नामक

मुनि का अपकार करके मैंने यह भयकर रूप प्राप्त किया । फिर मेरे प्रार्थना करने पर उस मुनि ने कहा कि आपके द्वारा मेरी शाप-मुक्ति होगी । मैंने उस वचन को स्मरण रखा और इस रूप को धारण करके इन्द्र को युद्ध के लिए न्योता दिया । उसने अपने वज्र के प्रहारसे कठ-सहित मेरे सिर को मेरे पेट में दबा दिया ।”

तब रामचन्द्र ने उससे पूछा, ‘हे अनघ ! क्या तुम रावण की शक्ति के बारे में जानते हो ?’ तब उसने कहा—‘मैं तो जानता हूँ, लेकिन मुनीन्द्र के शाप के कारण मेरा ज्ञान कुठित हो गया । आप मेरे शरीर को अग्नि में जलाइए, तो उसके पश्चात् मैं सब कुछ आपको सुना सकता हूँ ।’

उन्होंने अपने धनुष की सहायता से ही उसके शरीर का अग्नि-संस्कार किया । तब वह देवता का रूप धारण करके आकाश-मार्ग में एक सुन्दर विमान पर बैठे हुए इस प्रकार कहने लगा—‘हे रघुराम, हे युद्धप्रवीण, हे करुणानिलय, हे गभीर, हे काकुत्स्थ-श्रेष्ठ, आपकी करुणा-पूरित दृष्टि के प्रताप से मैंने अपनी पूर्व दशा प्राप्त की है । मैं अब आपसे रावण के सबध में स्पष्ट रूप से कहूँगा, सुनिए—‘रावण कुबेर का भाई है । पुलस्त्य ब्रह्मा का प्रिय पोता है । उसने अपनी तपस्या की महिमा से ब्रह्मा को प्रसन्न करके श्रेष्ठ वरदान तथा औन्नत्य प्राप्त किया है । उसने दिग्विजय किया है । वह दानवों का स्वामी, देवों का शत्रु, दस बड़े शिरोवाला, बीस भुजाओंवाला, लवण-सागर से परिवृत, लकापुर का राजा है । उसने गर्व से रजत-पर्वत को भी उखाड़ दिया था ।’ इतना कहकर उसने वह मार्ग भी बताया जिससे होकर रावण सीता को ले गया था, उस मार्ग के चिह्न बताये और रास्ते में पडनेवाली सभी वस्तुओं के नाम बताये । उसने यह भी कहा कि पपा के आस-पास श्रेष्ठ ज्ञानी मतग मुनि का आश्रम है, उनकी शिष्या शबरी आपका आदर-सत्कार करेगी । उस स्त्री के निवास के पास यदि आप जायें, तो सूर्यपुत्र से आपकी मित्रता होगी, जिसकी सहायता से आप जानकी को प्राप्त कर सकेंगे और निदान साम्राज्य का लाभ भी करेंगे । इस प्रकार कहकर वह स्वर्ग चला गया ।

२७. राम-लक्ष्मण की शबरी से भेंट

दूसरे दिन मनुवश-तिलक वहाँ से निकले और पपा सरोवर के पश्चिम भाग में स्थित तरु-लता-समूह से विलसित, प्रबल पुण्यो का आवास, शबरी के आश्रम-स्थल में पहुँचे । शबरी उनके स्वागतार्थ सामने आई और बड़ी भक्ति के साथ रामचन्द्र के चरणों पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया । उसके पश्चात् वह श्रीरामचन्द्र की स्तुति यों करने लगी—‘हे दशरथ के वरपुत्र, ताडकाविजयी, कौशिक के यज्ञ के रक्षक, मुनियों के ध्येय; ताडका के पुत्रों को दड देनेवाले, परम पवित्र गंगानदी के तट पर पैदल चलनेवाले, निर्मल पद-रजवाले, अहल्या के उद्धारक, हर के प्रचंड तथा विशाल कोदंड को भग करनेवाले, भयकर भागव राम का गर्व तोड़नेवाले, अभिराम नामवाले, पितृ-वचन का पालन करनेवाले, सत्कीर्तिवाले, विराध के कुकर्मों को रोकनेवाले, सफल मुनित्राता, सत्यसपन्न, खर-दूषणादि राक्षसों का शिरच्छेदन करनेवाले, मरणार्थी मारीच का वध करनेवाले, सीता-वियोग-जनित मोह से अभिभूत होनेवाले, खगेन्द्र को मोक्ष प्रदान करनेवाले, महान् विक्रम के

धाम, अति पुण्यप्रद नामवाले, हे रघुराम, मैं आज आपके दर्शन कर सकी। मेरी तपस्या आज सफल हुई। मैंने अद्वितीय पुण्यो को प्राप्त किया। हे काकुत्स्थ, मार्ग के श्रम से आप बहुत क्लान्त हुए होंगे, कहीं और न जाकर आज हमारे आश्रम में ठहर जाइए। हे अनघात्म, मैंने अपने गुरु मतग मुनि के द्वारा आपका वृत्तांत सुना है। आप आदिदेव हैं, सर्वनिगम-वेद्य हैं, अतः, आपकी स्तुति करना असंभव है। यह मतग मुनींद्र का आश्रम है, तपश्चर्या से परिपूर्ण तथा विश्रामदायक है।

इस प्रकार (उस आश्रम का) महत्त्व बताकर उसने बड़े प्रेम से वन के कद, मूल, फल ले आकर उन्हें दिये और राम ने उन फलों को खाया। राम उस रात को वही ठहर गये और दूसरे दिन घनी जटा-जूट की कबरी धारण करनेवाली शबरी को देखकर बोले—'सीता की वियोगाग्नि से मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, अतः, एक स्थान पर ठहर नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे उस उत्फुल्लकमलमुखी सीता को ढूँढ़ने के निमित्त जाना है। आप कृपया मुझे आज्ञा दें।'

तब शबरी अत्यंत सतुष्ट होकर बोली—'वनु नामक देवता ने आपको भविष्य में करने योग्य सभी विषयों के सबध में कहा ही है। फिर भी मैं कहूँगी। हे राजन्, आप अवश्य ही रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त करेंगे। इसमें सन्देह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अकेले मत जाइए। हे भानुकुलाधिप, यहाँ से आप ऋष्यमूक पर्वत के निकट जाइए। उस पर्वत पर तीक्ष्ण बुद्धिवाले, सूर्य-पुत्र सुग्रीव नामक वानर राजा रहता है। वह अपने अग्रज के हाथों अपना राज्य तथा अपनी स्त्री को खो चुका है। वह शोकातुर है। उसकी वानर-सेना अनंत है। इसलिए आप उसका उपकार कीजिए जिससे कि उसके मन में आपके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाय। उसके पश्चात् आप उसके साथ लका जाइए और अति शक्तिशाली रावण को युद्ध में मारकर अपने बल-विक्रम की ख्याति चारों ओर फैलाते हुए अपनी स्त्री सीता को प्राप्त कीजिए।

इस प्रकार शबरी ने उन्हें भविष्य में करने योग्य सभी कार्य बतलाकर अपने गुरु के वचनों का स्मरण किया और तुरन्त अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपना शरीर भस्म कर देने के लिए तैयार हो गई। उस समय आकाश में इन्द्रादि देवता मणियों के प्रकाश से वेदीप्यमान होनेवाले विमानों पर आरूढ होकर इस दृश्य को देखने लगे। नारद, सनक, सनन्दन आदि प्रमुख मुनींद्र अत्यंत हर्षित हुए। तब शबरी ने परमधाम, परमकल्याण-गुण-संपन्न, पूर्णस्वरूप, अव्यय, अविकार, अखिल अतरात्मा, अव्यक्त अखिलेश, आघात-रहित, ब्रह्मा से भी स्तुत्य, ससार के रोगों के वैद्य, और रघुकुल-रूपी समुद्र के लिए चंद्र के समान शोभित होनेवाले, रघुराम चन्द्र को अपने मन में प्रतिष्ठित करके, बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की और उस प्रभु के समक्ष ही रामार्पण के रूप में अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। उसके पश्चात् वह देवताओं के लिए मान्य दिव्य विमान पर आरूढ होकर देवताओं की विविध सेवाओं को प्राप्त करती हुई बड़े हर्ष से देवलोक को चली गई।

२८. श्रीराम का ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचना

इस प्रकार शबरी अग्नि-मुख के द्वारा स्वर्ग-सुख को प्राप्त हुई। यह देखकर रमणीय

आँकारवाले महाबलशाली राम-लक्ष्मण उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़े और उस ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँच गये, जो सतत आलोकमय, तथा श्रेष्ठसपन्न मुनियों का निवास था ।

उस पर्वत के भरने ऐसे दीख रहे थे, मानो त्रिलोकीनाथ के आगमन के कारण आनंद से उमड़कर, वह पर्वत आनदाश्रु बहा रहा हो । उस पर्वत की तराइयों में अत्यधिक सख्या में देदीप्यमान चद्रकांत मणियों की कांति ऐसी दीख रही थी, मानो मेघ, मदर तथा हिमाचलो का उपहास करनेवाली उस पर्वत की हँसी हो । उस पर्वत की ऊँची चोटियों पर चमकनेवाले नक्षत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो ब्रह्मा ने इस पृथ्वी के पर्वत-राज्य का अभिषेक करके उसके सिर पर मन्त्राक्षत छीट दिये हो ।

उस पर्वत पर उज्ज्वल रूप से दीप्त होनेवाली सूर्यकांत मणियों की दीप्ति ऐसी दीख रही थी, मानो उस पर्वत की शरण में आये हुए सुग्रीव पर अत्याचार करनेवाले वालि पर क्रुद्ध होकर वह अपने प्रताप की अग्नि दिखा रही हो । उस पर्वत पर विचरण करनेवाले दतो से युक्त मत्त गज ऐसी शोभा दे रहे थे, मानो नील मेघ उस पर्वत पर विचरण करते हुए अपनी बिजलियों को चमका रहे हो । उस पर्वत के शिखर के निकट ही बहने-वाली आकाश-गंगा, (मन्मथवैरी) शिव के जटा-जूटो पर शोभायमान गंगा के समान थी, उसके आस-पास क्रीडा करनेवाले हंसों की पक्ति शिव का शिरोभूषण चद्र के समान थी । उस पर्वत पर रहनेवाले अत्यधिक श्रृग, वृक्ष तथा पल्लव-समूह शिव के बिखरे जटा-जूट के समान सुशोभित थे और वह पर्वत सिद्धो की सेवाएँ प्राप्त करते रहनेवाले शिव के सदृश ही दीख रहा था । उस पर्वत पर रहनेवाले कल्प-वृक्ष, कामधेनुएँ, देव-कन्याएँ, विविध औषधियाँ, चिंतामणि जैसी श्रेष्ठ मणियों का समूह, कभी नष्ट न होनेवाली निधियाँ और सतान-वृक्ष (एक प्रकार का कल्प-वृक्ष) आदि ऐसे दीख रहे थे, मानो इद्रादि देवता, समुद्र-मथन से प्राप्त वस्तुओं को (उनके वितरण के समय इद्रादि देवताओं के बीच भगड़ा उत्पन्न होने के कारण लाकर यहाँ पर रख दिया हो), या अमृत-पान से बेसुध होकर भूल से यही छोड़ दिया हो, या योग्य स्थान होने के कारण उन्हें यहाँ छिपा रखा हो ।

इस पर्वत को देखकर राघव अत्यंत विस्मित हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे । अपने अनुज की अकलक भक्ति-युक्त सेवा प्राप्त करते हुए वे उस शैल के निकटवर्ती पपा सरोवर के पास पहुँचे और उस सरोवर में नियमानुसार स्नान किया । उसके पश्चात् वे उस सरोवर के चारों ओर की शोभा का अवलोकन करके अत्यंत मुग्ध-से हो गये । अपनी क्लान्ति मिटाने के निमित्त वे एक आम के वृक्ष की छाया में बैठे, तो लक्ष्मण उनका शीतलोपचार करने में प्रवृत्त हुए ।

कुछ समय के पश्चात् राघव ने उस आम के वृक्ष को ध्यान से देखा और लक्ष्मण से बोले—'हे अनुज, जबसे हमने बन के लिए प्रस्थान किया, तबसे कितने ही ऊँचे पर्वत और पुण्य नदियाँ देखी, किन्तु हमने इस वृक्ष के जोड़ का वृक्ष कहीं नहीं देखा । कदाचित् सुरपति आदि देवताओं ने मिलकर इस वृक्ष का निर्माण किया हो; ब्रह्मा ने स्वयं प्राण देकर इसे यहाँ पर प्रतिष्ठित किया हो, या रविसुत (सुग्रीव) की तपस्या से सतुष्ट होकर

पुत्र का पक्ष लेकर अमृत से सींचकर इस वृक्ष को वर्द्धित किया हो । सूर्य के साथ प्रेम बढ़ाने के निमित्त इस वृक्ष ने आठों दिशाओं में अपनी उन्नत शाखाओं को फैलाया है । इच्छित फल प्रदान करने के निमित्त मानो इसने अपनी शाखाओं की काति चारों ओर फैला रखी है । यह अपने पत्तों को फैलाकर, उसकी काति को विकीर्ण करते हुए, सूर्य की रश्मि भी नीचे आने नहीं देता, रात्रि के समय यह शशि के प्रेम से अनुरक्त हो उनकी चाँदनी को पृथ्वी पर पड़ने नहीं देता । इसके फल अमृत-फलों की अपेक्षा सौगुने अधिक स्वादिष्ट है । ऐसा लगता है कि देवताओं ने इस पृथ्वी के वृक्षों के राजा के रूप में इसका अभिषेक कर दिया है ।

लक्ष्मण ने अपने अग्रज के चित्त कां भाव जानकर उनके कथन का अनुमोदन किया और उनके लिए पत्रों की मूढ शय्या का प्रबन्ध किया । तब राम ने उस शय्या पर शयन किया, तो लक्ष्मण रघुराम के चरण दबाने लगे । इस प्रकार अत्यंत शोभा-समन्वित हो उनके वहाँ रहते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ । तब अनघ रघुराम को संबोधित करके लक्ष्मण ऊँचे स्वर में बोले—‘हे देव, अभी-अभी छिपकली की बोली मुझे सुनाई पड़ी है कि आप युद्ध में शत्रु-सेना को जीतकर अवश्य अपनी देवी को प्राप्त करेंगे । सर्वत्र आपकी विजय ही होगी ।’

तब राम ने कहा—‘अब वानरेश्वर बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आकर हम से मिलेगा और हम शीघ्र ही लका जायेंगे । युद्ध में रावण मरेगा और सीता हमें मिल जायगी और उसके पश्चात् मैं राज्य-भार ग्रहण करूँगा ।’ इस प्रकार राम के कहने के पश्चात् राम तथा लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता से वहाँ रहने लगे ।

आध्र-भाषा के सम्राट्, श्रेष्ठ काव्य तथा आगम आदि के ज्ञाता, आचारवान्, अपार वैयं-सागर, भूलोक-निधि गोन बुद्ध राजा ने अपने पिता महनीय गुणसंपन्न, मेरु पर्वत के समान धीर, विट्ठल राजा के नाम पर, आचन्द्रार्क पृथ्वी पर स्थायी रहनेवाली, असमान तथा ललित शब्द तथा अर्थों से विलसित रामायण के, अलंकार तथा भावों से भरे अरण्य-काण्ड की रचना इस प्रकार की कि वह इस पृथ्वी पर आचन्द्रार्क लोगों की प्रशंसा प्राप्त करती रहे । रसिकजनों को सतत आनंद देनेवाले, श्रेष्ठ, आर्ष, आदि काव्य-रूपी इस पुण्य चरित को जो पढ़ेंगे, या सुनेंगे, उन्हें सामादि वेद-समूहों का आधार, रामनाम-रूपी चिन्ता-मणि, नव-भोग, परहित-बुद्धि, उन्नत विचार, परिपूर्ण शक्ति, राज्य-सुख, निर्मल कीर्ति, नित्य सुख, धर्म में निष्ठा, दान में आसक्ति, चिरायु, आरोग्य तथा ऐश्वर्य सतत संप्राप्त होंगे । इसे सुनते रहने से पाप-क्षय, पुत्र-प्राप्ति, शत्रुओं का नाश, धन-धान्य की समृद्धि, विघ्न-बाधरहित सुन्दर स्त्रियों के साथ जीवन और पुत्रों के साथ सहजीवन सिद्ध होंगे । सब विपत्तियाँ दूर होंगी, बधु-बाधवों का सहवास रहेगा, अभिलषित वस्तुओं का वियोग न होगा; (घरों में) देवता-तर्पण तथा पितरों की तृप्ति होती रहेगी । इस पुण्य चरित के लिखनेवालों को श्रेष्ठ तथा शुभ उन्नति तथा इद्रलोक का निवास प्राप्त होगा । जब-सक कुलपर्वत, नक्षत्र, रवि तथा चन्द्र, दिशाएँ, वेद, पृथ्वी तथा समस्त लोक स्थित रहेंगे, तबतक यह कथा अक्षय आनंद-समूह का आधार रहेगी ।

; अरण्यकांड समाप्त ;

श्रीरंगनाथ रामायण

(चिह्निकांड)

१. पंपासर-दर्शन

श्रीराम ने तब शीतल जल तथा कमल, उत्पल एवं कुमुदो से सुशोभित पपा सरोवर को और उसके तटवर्ती, वसत ऋतु के कारण, फूल और फल के भार से युक्त चपक तथा सहकार वृक्षो की शोभा को देखकर जानकी के विरह से कपित होते हुए लक्ष्मण से कहा— “हे सौमित्र, यह पपा सरोवर इतना मनोहर है कि यह देवताओ की कामिनियो के लिए भी जल-क्रीडा करने की इच्छा करने योग्य है । इस सरोवर की समता करनेवाला कोई दूसरा सरोवर बताना, क्या शेषनाग के लिए भी संभव हो सकता है ? इसका महत्त्व जानने के पश्चात् क्या मानसरोवर भी तुच्छ नहीं प्रतीत होगा ? पवित्र जीवन का आधार इस सरोवर की समता, क्या स्वर्गलोक का कोई भी जलाशय कर सकता है ? (जल के) बाहर निकले हुए मृणालो के ऊपर दीखनेवाली कर्णिकाओ पर (बीजकोष) विकसित श्वेत कमल, मरकत के स्तभो पर स्थित स्वर्ण-कलशो पर आधारित छत्रो की भाँति दीखते हैं । दोनो पार्श्वभागो में भ्रमरो के पखो से उत्पन्न शीतल वायु के कारण तरगायमान होनेवाली लहरो पर डोलनेवाले राजहसो के फैलाये हुए पंख चामरों की भाँति सुशोभित हैं । इनके कारण यह सरोवर शोभा-रूपी साम्राज्य के लिए अभिषिक्त सा अत्यंत मनोहर दीख रहा है ।

माणिक्य के आभूषण पहने हुए ये पेड़ों की फँसी हुई शाखाएँ इस स्निग्ध सरोवर रूपी दर्पण में उभक-उभककर (अपना मुँह) देख रही हैं। उनकी शिखाएँ मद पवन में इस तरह हिल रही हैं, मानो वे अपने सौंदर्य को देखकर प्रसन्नता से अपना सिर हिला रही हैं। यहाँ की शुक-सारिकाएँ इस प्रकार बोल रही हैं, मानो एक दूसरे की प्रशंसा कर रही हैं। इस सरोवर के तीर की वन-स्थली को देखकर मेरा सताप, मन्मथ के प्रताप के समान, उद्दीप्त हो उठा है। मेरी धृति भी नष्ट हो गई है।

“हे सौमित्र, विचार करने पर ऐसा लगता है कि यह वन-भूमि नहीं है, बल्कि कामदेव का शस्त्रागार है, वे आम-पल्लव नहीं हैं, बल्कि मन्मथ के तेज खड्ग हैं, यह भ्रमरो का गुजार नहीं है, बल्कि निकट पहुँचनेवाले मन्मथ के धनुष्टकार हैं, वे फूलों के गुच्छ नहीं हैं, बल्कि मन्मथ के तीक्ष्ण बाण हैं, यह कोयल की मीठी बोली नहीं है, बल्कि उसके (कामदेव के) कर्णकटु हुकार हैं। मेरे जैसे स्त्री-विरही इस कानन में कैसे रात्रि बितायेंगे ? इस वन में सुनाई पड़नेवाला कोयल का कल-कूजन वर्षा ऋतु के बादलों के घोर गर्जन के समान लगता है, वृक्षों से गिरनेवाले पुष्प-रज का प्रकाश, नये बादलों की बिजली के समान लगता है, पल्लव-युक्त शाखाएँ इन्द्र-धनुष के समान लगती हैं, पृथ्वी पर गिरनेवाले फूल ओले के समान लगते हैं, सतत भरनेवाला मकरद वर्षा के समान दीखता है। (इन कारणों से) यह वसत ऋतु भी वर्षा ऋतु के समान दिखाई पड़ती है। इस पर भी पल्लव-रूपी अग्नि-ज्वालाओं से, भ्रमर रूपी धुएँ से, वकुल के पुष्परज-रूपी राख से, संमर के फूल-रूपी अगारों से प्रकट होकर, यह ऋतु विरहियों के लिए अग्नि के समान दीखती है और मन्मथ के प्रताप की अग्नि का भी तिरस्कार करती हुई, मेरे मन को जला रही है। हाय ! अब मैं क्या करूँ ? कैसे मैं इसे सहन करूँ ? कामिनी-कुल-भूषणा सीता को मैं कब देखूँगा ? क्या कभी मैं सीता के साथ उस प्रकार मिलकर रह सकूँगा, जैसे पपा सरोवर के तटवर्ती वन की शोभा के साथ वसत रहता है। इस पपा के कमलों के समान दीखनेवाले सीता के मुख का मैं कब अवलोकन कर सकूँगा ? यहाँ की मछलियों की आँखों के समान उस इदुवदनी की आँखें मैं कब देख सकूँगा ? भ्रमर यहाँ के पद्मों का मकरद जैसे पान करते हैं, वैसे ही मैं कब उस सुदरी का अधर-पान करूँगा ? यहाँ के जलपक्षी जैसे जोड़ों में रहते हैं, वैसे ही उस कमलाक्षी के सग मैं कब रह सकूँगा ? हाय, यह कैसा विचार है ! अब वह सीता कहाँ ? कहाँ यह विरह ? इन दोनों का मिल कैसे संभव है ? हे अनुज, अब तुम अयोध्या लौट जाओ। मैं अब अपने प्राणों को रख नहीं सकूँगा।”

इस प्रकार अनाथ की तरह शोक करनेवाले राम को देखकर लक्ष्मण बोले—‘हे रघुराम, आप समस्त लोको का सामना करने की क्षमता रखनेवाले पुरुषोत्तम हैं। ऐसे मोहजन्य शोक से आप क्यों पीड़ित हो रहे हैं ? सीता को छल से ले जानेवाले रावण के संहार का उपक्रम कीजिए।’ तभी भासंत नामक पक्षी (शकुन-पक्षी) बोल उठा।

इतने में उस ऋष्यमूक पर्वत की तराइयों में विचरण करते हुए सुग्रीव ने निकट ही राम तथा लक्ष्मण को देखा। वह अत्यधिक भयभीत होकर, चीत्कार करते हुए, अपने

मार्ग में पडनेवाले झाड-झुआड की परवाह किये विना अघाधुध पर्वत पर चढने लगा । उसने वानरो को एकात में बुलाकर उन्हें राम और लक्ष्मण को दिखाते हुए कहा— 'वह देखो, पपा के पास दो व्यक्ति धनुष धारण किये हुए, विविध शस्त्रास्त्रो से सज्जित होकर ठहरे हुए हैं । ये प्रच्छन्न वेशधारी, वालि के भेजने पर, हमारा सहार करने आये हैं । अन्यथा, मुनियो को खड्ग, तूणीर, धनुष-बाण आदि की क्या आवश्यकता है ? इनके पवित्र मुनिवेश देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है । अब हमें यहाँ से कहीं चला जाना चाहिए, यहाँ रहना उचित नहीं है ।'

जब सुग्रीव ने मन्त्रियो से इस प्रकार के वचन कहे, तब उसे सुनकर विमल विचारो से भरे हनुमान् बोले—'इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई पुण्यात्मा है, ये कपट-वेशधारी नहीं है । रवि-चद्र के समान दीखनेवाले, ये दयालु व्यक्ति ही है । पता नहीं कि इस रूप में वे यहाँ क्यों आकर रहते हैं ? उनका महत्त्व जाने विना हमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है ?' तब सुग्रीव ने हनुमान् से कहा—'हमें शका होती है कि ये वालि के भेजने पर यहाँ आये हैं, पता नहीं कि क्रोध से भरा हुआ वालि हमें कब कौसी हानि पहुँचायेगा । हमें कभी अपने शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए । अतः हे पवन-पुत्र, तुम किसी कौशल से उनसे जाकर मिलो और इस बात का पता लगाओ कि ये क्यों आये हैं । उनके मन की बात जानकर मेरे मन के भय का निवारण करो । शीघ्र जाओ ।'

२. हनुमान् की राम से भेंट

इस प्रकार हनुमान् को विदा करके सुग्रीव अपने मन्त्रियो के साथ वहाँ रहने से डरकर मलयाद्रि पर चला गया । तब अत्यंत शूर, उत्तम गुणवान्, शीलवान्, बाहुबली, तैजस्वी, कमनीय रूपवाले, वानरो के रक्षक, धर्मार्थमोक्ष के इच्छुक, अतुल गुरु-भक्त, अत्यंत कुशल, तथा कीर्तिवान्, अजन-सुत हनुमान् उस पर्वत से धीरे-धीरे ऐसे उतरा, मानों वालि को अमरलोक भेजकर सुग्रीव को राज्य पर प्रतिष्ठित करने, सुरो की रक्षा करने, रावण की विजय-लक्ष्मी राम को देने, सीता के दुख को दूर करने तथा रवि-पुत्र (सुग्रीव) के चित्त को मोद-मग्न करने के लिए जा रहा हो । इस प्रकार वह वानरेश्वर पर्वत से उतरकर आया और वटु का वेश धारण करके पपा सरोवर के निकट पहुँचा । महात्माओ के दर्शनार्थ जाते हुए रिक्त हस्तो से जाना उचित नहीं है, इसलिए राम के देने योग्य एक फल हाथ में लिये हुए, वह उनके निकट जाने लगा । इस प्रकार आते हुए अनिल-कुमार को देखकर राम अपने अनुज से बोले—'हे लक्ष्मण, सुनहला रंग, मुज की सुंदर कर्षणी, रत्न-कुडलो से विलसित कर्ण, श्रेष्ठ हार, यज्ञोपवीत, कौपीन, तथा हस्त-ककण धारण किये हुए किसी मनुष्य ने क्या अनुपम कपि का रूप धारण किया है ? इस रूप को धारण करने की इच्छा से स्वयं रुद्र ने इस रूप में जन्म तो नहीं लिया है ? अन्यथा इस पृथ्वी पर कपिमात्र को ऐसी प्रभा कैसे प्राप्त हो सकती है ?'

इस प्रकार प्रशंसा करनेवाले राजकुमार को देखकर पुलकित गात्र से हनुमान् उनके निकट पहुँचा और बड़ी प्रीति के साथ फल उनको भेंट किया, मानो कह रहा हो कि मैं साध्वी

आप ही शरण हैं। आपकी दृष्टि ने मेरा स्पर्श किया। मैं विभूषित हुआ। मैं कृतार्थ हुआ। धन्य हुआ। मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान् है, मैं वायु-पुत्र हूँ, और सूर्य-पुत्र का मंत्री हूँ। अजना-सुत हूँ। मैं भय तजकर भिक्षुक के रूप में आपके विषय में जानने के लिए आपके पास आया हूँ। आप सुनिए। यशस्वी सुग्रीव वानरो के राजा हैं। और परम बलवान् हैं। वे सूर्य-पुत्र हैं और सूर्य-सम तेजस्वी हैं, वे अभिमानी तथा असमान पराक्रमी हैं। अपने भाई वालि के द्वारा अपना सारा राज्य खोकर, अत्यंत व्याकुल हो, वे इस पर्वत पर रहते हैं। वे दुःखी हैं और आपके सखा बनकर रहने योग्य हैं।'

इस प्रकार कहकर उसने हाथ जोड़कर राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया और बड़ी भक्ति के साथ आगे कहा—'हे महात्माओ! इस पृथ्वी के इन्द्र तथा उपेन्द्र के समान, अश्विनीकुमारों के समान, रवि-चंद्रो के समान मनोहर रूप, उन्नत स्कन्ध, चन्द्र के समान मद हास से युक्त मुख, कमल-दलो को भी परास्त करनेवाले नेत्र, स्वर्ग के निवासियों की भी प्रशंसा प्राप्त करने योग्य बाहुबलवाले, दुर्लभ राजचिह्नो से सुशोभित, धनुष धारण करनेवाले, आपने यह मुनिवेश क्यों धारण किया है? आप कौन हैं? यहाँ क्यों आये हैं?'

इस प्रकार के सुधा-मधुर वाक्यों में अत्यंत नम्र होकर जब हनुमान् ने उनसे प्रश्न किया, तब राम उसकी वाक्-पटुता, बुद्धि-चातुरी, आकृति, मन की प्रीति तथा नीति से प्रसन्न होकर अपने भाई से बोले—'हे लक्ष्मण, ऐसे वचन कहना ब्रह्मा के लिए या उनकी पत्नी के लिए ही संभव है, अन्यो के लिए नहीं। कदाचित् यह (वानर) व्याकरण, निगम, शास्त्रादि का ज्ञाता है। इसके सभाषण तथा रूप अतुल्य शुभ लक्षणों से समन्वित है। ऐसा दूत यदि हमें मिल जाय, तो हमारे सभी कार्य सफल होने में कोई सदेह नहीं रहेगा। इसलिए तुम इसे मेरे सभी कार्यों का विवरण क्रमशः सुना दो।'

तब रामानुज ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान् को संबोधित करके कहा—'हे अनघ, हम इक्ष्वाकु-वंश में उत्पन्न दोनों भाई हैं। ये मेरे भाई राम हैं और मैं लक्ष्मण हूँ। हम दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राजा दशरथ की आज्ञा से तपस्वियों का-सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दुर्मति रावण हमें धोखा देकर राम की स्त्री, भूमिसुता को ले गया है। उसके मार्ग का अन्वेषण करते हुए हम वन में फिर रहे थे तो एक स्थान पर शबरी ने हमें सुग्रीव का समाचार सुनाया था। वह महाबली हमारा मित्र बन जाय, ऐसी कामना करके हम यहाँ आये हैं। अब तुम हमें स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या परिचय है?'

३. हनुमान् का अपने जन्म का वृत्तान्त सुनाना

तब हनुमान् ने उन रघुवशियों को प्रणाम करके निवेदन किया—'हे महात्माओ, अपनी प्रिय माता के गर्भ से जन्म लेने के कुछ वर्षों के पश्चात् मैंने किसी उद्देश्य से ब्रह्मा की तपस्या की थी। तब मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर सरसिजभव ने मुझे दर्शन दिये और बोले—'कोई इच्छा हो तो कहो।' तब मैंने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया, सर्वत्र प्रकार से उनकी स्तुति की और फिर कहा—'हे विमलात्मा, इस पृथ्वी पर मेरे मोक्ष तथा इच्छित कार्यों की सिद्धि का आधार तथा मेरा आराध्य कौन है? मैं किसकी

प्रार्थना तथा सेवा करूँ ?' तब कमलसभव ने अपने मन में विचार करके कहा—'जो तुम्हारे शरीर के आभूषणों को देख सकेगा, वही तुम्हारा स्वामी और प्रभु होगा। (भाव यह है कि हनुमान् के आभूषण दूसरों के लिए अदृश्य थे।) वही हम सब के इष्टदेव, समस्त प्राणियों तथा इस ससार के कर्ता है, वे ही विष्णु है। जान लो, वे ही तुम्हारे ज्ञाता तथा प्रभु हैं।'।

'इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मा चले गये। तब से मैं समस्त लोक में विचरण करता रहता हूँ। हे राजन्! मेरे आभूषणों की दीप्ति स्वर्ग के निवासी भी नहीं देख सकते।'।

तब सौमित्र ने मारुति को देखकर कहा—'हे अनघ, सुनो, राघव की शक्ति लोक-विख्यात है। वे अनुपम दिव्यास्त्र के ज्ञाता तथा अतुल साहसी हैं, वे कथना के समुद्र हैं और गभीर प्रकृति के हैं, वे शरणागत-ज्ञाता तथा सद्धर्म में तत्पर हैं। वे जगन्नाथ हैं, अक्षरणगरण हैं, अगणित गुणों से विभूषित हैं, तेजस्वी, दिव्य पराक्रमी तथा सत्यवादी हैं। ऐसे महान् व्यक्ति का सेवक तथा हितेच्छु होकर मैं रहता हूँ। राघव के लिए कोई कार्य असाध्य नहीं है। कुटिल राक्षस का पता लगाकर हम स्वयं सीता को लः सकते हैं; किन्तु परिश्रम उठाकर अकेले जाना उचित नहीं है और वह राजनीति भी नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु का विचार है कि तुम्हारे सुग्रीव को अपना मित्र बनाया जाय। अब तुम इस कार्य को किसी तरह सपन्न करो।'।

तब पवन-पुत्र ने अत्यंत प्रमत्त होकर अपना निज रूप दिखाया। राम-लक्ष्मण न उसे अपनाया, इससे उसने अपने को कृतार्थ समझा। तब उसने अपनी आँखों में आनदाश्रु भरकर उनकी अत्यधिक स्तुति की। तत्पश्चात् राम और लक्ष्मण ने अत्यंत हर्ष से अनिल-कुमार को विदा किया। हनुमान् अत्यधिक आनंद तथा उत्साह से सुग्रीव के पास पहुँचा और उसे रघुवश के राजकुमारों का वृत्तांत इस प्रकार कहने लगा—'हे सुग्रीव, रमणीय रूपवाले राम-लक्ष्मण, महनीय गुणों से अलंकृत होते हुए इस जगत् में विद्यमान हैं। शोक-सागर में निमग्न होनेवाले तुम्हें, रघुराम एक नौका के रूप में मिल गये हैं। हे सुग्रीव, अब तुम सुरक्षित हो गये। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण होगा। तुम्हें पूर्ण सतोष होगा। मैं तुम्हारे पुण्य की प्रशंसा कैसे करूँ? सच्चरित्रवान्, दयामूर्ति, सत्यवादी, आजानुबाहु, महा-विष्णु, श्रीनिवास और पुण्यनिधि, दशरथात्मज राम ही तुम्हारे प्रभु हैं। वे महात्मा जब अपने पिता की आज्ञा से डडकवन में रहते थे, तब दशानन उनकी पत्नी को चुराकर ले गया। उससे युद्ध करके उसका सहार करने के उद्देश्य से वे तुमसे मित्रता करने यहाँ आये हैं।

इन बातों को सुनकर सुग्रीव हर्षित हुआ। उसने अनिलकुमार को देखकर कहा—'हे पवनसुत, मेरा सारा भय दूर हो गया। मेरी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे जैसे अंजन के प्राप्त होने से मैं राघव-रूपी निधि को देख सका। तुम्हारे जैसे कर्णधार के रहने से मैं इस शोक-सागर को पार करने में समर्थ हुआ। तुम उन्हें ऋष्यमूक पर्वत पर लिवा लाओ और मेरे मन का सताप दूर करो। अब तुम जाओ।'।

वायु-पुत्र तुरत रघुराम के पास गया और प्रणाम करके उससे निवेदन किया—'हे देव, श्रीमान् का मित्र सुग्रीव, आपके दर्शनो का अभिलाषी है, अतः आप पधारें।'। राम

मन-ही-मन हर्षित हुए और हनुमान् की प्रशंसा करने लगे । तत्पश्चात् एक पुण्य मुहूर्त्त म अपने अनुज के साथ वे हनुमान् के कंधे पर बैठकर ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचकर अत्यंत हर्षित हुए । हनुमान ने उन्हें किसी निर्जन स्थान में ठहरा दिया और मलयाद्रि पर पहुँचकर, श्रीराम के दर्शनी के लिए उत्कण्ठित सुग्रीव को देखकर कहा—‘हे देव, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई । राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर आ गये । तुम अब चलो । तब सूर्यपुत्र ने आनन्द से फूलकर मनुष्य-रूप धारण किया । मुकुट, केयूर आदि आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही ऋष्यमूक पर जा पहुँचा । वह बड़ी भक्ति के साथ राम के सामने पहुँचा और साष्टांग प्रणाम करके संतुष्ट होकर, हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ा रहा ।

तब राम ने सुग्रीव को गले से लगाया और मद हास की अमृत-वृष्टि करते हुए वे सुग्रीव से बोले—‘हे सूर्यपुत्र, मैं वायु-पुत्र के मुख से तुम्हारे पराक्रम, बाहुबल आदि को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । अब तुम भयभीत मत होओ । तुम पर आक्रमण करनेवाले तुम्हारे शत्रु का सहार मैं करूँगा । अब तुम्हारे सिवा मेरा आप्तबन्धु और विश्वास-पात्र मित्र दूसरा कौन है ?’

इस प्रकार सात्वता देने पर सूर्यनन्दन ने कहा—‘हे देव, आपने मुझे अपना प्रिय सेवक स्वीकार किया है, आपकी करुणापूर्ण दृष्टिमात्र से मैं धन्य हुआ । हे सूर्य-कुल-नाथ, मेरे जैसा सेवक आपको मिल गया है, अब आप निश्चय जानिए कि आपने रावण का वध करके सीता को प्राप्त कर लिया । तब राम तथा सुग्रीव अग्नि के समक्ष परस्पर (एक दूसरे की सहायता करने का) वचन देकर संतुष्ट हुए ।

उस समय अगद ने, जो क्रीडा करने योग्य आयु का था, और जो विनोदार्थ वही पर विचरण करते हुए खेल रहा था, राम तथा सुग्रीव के अग्नि-समक्ष दिये हुए वचनों को सुन लिया । उसने घर जाकर अपनी माता तारा से सभी बातें कह सुनाईं । वह मन-ही-मन अत्यंत दुःखी होती हुई कितनी ही दुःशकाओं से पीड़ित हो उठी ।

४. सुग्रीव का सीता के आभूषणों को देना

तब वायुपुत्र ने एक विशाल वृक्ष की शाखा को तोड़कर, सुग्रीव तथा राघव के लिए एक आसन बनाया । उस पर बैठकर वे दोनों वार्त्तालाप करने लगे । कुछ समय के पश्चात् सूर्यपुत्र दोनों राजकुमारों को गुफा के भीतर ले गया और बड़े प्रेम से उन सभी आभूषणों को लाकर दिखाया, जिन्हें सीता ने फेंका था । उसने कहा—‘हे देव, जिस समय राक्षस दण्डकवन में आपको धोखा देकर, आपकी देवी को आकाश-मार्ग से उठाकर लिये जा रहा था, उन्होंने (सीता ने) हमें इस पहाड़ पर देखकर, ऊँचे स्वर में आपका नाम लेकर पुकारा और अपने भीने अचल का एक भाग फाड़कर इन आभूषणों को बाँधा और उन्हें यहाँ गिरा दिया ।’

इतना कहते ही राम शोक-सागर में डूब गये और अश्रुधारा बहाकर उन आभूषणों का सारा मूल घो दिया । उन्होंने उन आभूषणों को अपने वक्ष पर जहाँ-तहाँ रखकर देखा । सीता का स्मरण आते ही उनका सभी अंग सिध्दिल-से हो गये । उन्होंने लडखडाते हुए

स्वर में लक्ष्मण को बुलाकर कहा—‘लक्ष्मण, देखा तुमने ? सीता के सभी शृंगार इस प्रकार मिट्टी में मिल गये हैं । भला, आभूषणों को गिरा देने का क्या अर्थ है ? इनको साथ रखने में उसे क्या कष्ट होता ? सीता तो मेरी प्राणेश्वरी है । हाय, इस अचल की दशा को तो देखो ! जो भीना अचल उसके सुडौल कुचों पर सतत रहता था, उसकी ऐसी दशा हुई । मेरे चरणों को गुलाबजल से धोकर, उन्हें इसी से वह पोछती थी । इसे विजन बनाकर, अत्यंत सुंदर ढग से मेरे श्रम-विदुओं को सुखा देती थी । अपनी प्रभा-समन्वित तनुलता की काति बिखेरती हुई वह इसी के पाँवों में बिछा देती थी ।’ इस प्रकार शोक करते हुए राम अश्रु बहाने तथा बार-बार मूर्च्छित होने लगे । फिर सँभलकर भक्ति के साथ सिर झुकाये खड़े सुग्रीव को देखकर रघुनाथ बोले—‘हे सुग्रीव, बतलाओ कि मेरी देवी को लेकर आनेवाला वह इन्द्र का शत्रु किस देश में रहता है ? उसका नगर कौन-सा है ? मैं अभी उस राक्षस का सहार करके सीता को छुड़ा लाऊँगा ।’

यह सुनकर सुग्रीव बोला—‘हे देव, मैं उस द्रोही का निवास नहीं जानता । फिर भी कोई चिंता नहीं । अब मैं सब बानों जानने का प्रयत्न करूँगा । आप शोक त्यागकर धैर्य धारण कीजिए । अत्यंत पराक्रमी वालि के द्वारा अपनी पत्नी के हरे जाने पर भी मैं इतना दुःखी नहीं हूँ । हे देव, विपत्ति-रूपी सागर को आत्मधैर्य-रूपी नौका से ही पार किया जा सकता है । हे प्रभो, हम जैसे साधारण मानवों की तरह आप भी शोक करें, यह कहाँ उचित है ?’

सुग्रीव के आप्त वचन सुनकर रघुवीर धैर्य धारण करते हुए सोचने लगे—‘सीता के खो जाने का ढग जानने के पश्चात् मन-ही-मन दुःखी होते रहना शूरता नहीं है । यो सोचकर उन्होंने सताप त्याग कर सीता को किसी भी प्रकार प्राप्त करने के कार्य में प्रवृत्त होने का निश्चय किया । किन्तु उसके पूर्व उन्होंने सुग्रीव के शत्रु का अंत करने का निश्चय किया । सीता के आभूषण लक्ष्मण को सौंपकर वे सुग्रीव को देखकर बोले—‘हे मित्र, विद्वानों का कहना है कि विपत्ति के समय मित्र के समान कोई सहायक नहीं होते । चाहे मित्र गुणवान् हो, या गुणहीन, विपत्ति के समय वही सहायक होता है । तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके मुझे किसी भी वस्तु के अभाव की चिंता नहीं रही, यह तो निश्चित है । अब मैं उस पापी वालि का वध करूँगा, जो तुम्हारी स्त्री का अपहरण करके तुम्हारा वध करना चाहता है । भाइयों में स्नेह का भाव हो, तो उससे श्रेष्ठ सुख और कुछ नहीं है । किन्तु ऐसा स्नेह तुम में क्यों नहीं रह पाया ? तुम्हारे और तुम्हारे अग्रज में शत्रुता क्यों हुई ? इसका वृत्तांत मुझे सुनाओ ।’

तब सुग्रीव ने कहा—‘हे राम, मैं अपने और वालि की शत्रुता का वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनिए । (समुद्र-मथन के समय) मद्राचल को मथानी बनाकर, वासुकि को नेती बनाकर जब देवताओं ने हमारे बाहुबल को जानकर हमसे प्रार्थना की, तब मैं और वालि, दोनों मथन के लिए एक ओर खड़े हो गये और दूसरी ओर देवता, गरुड, उरग, असुर, सिद्ध आदि थे । इस प्रकार जब हम क्षीरसागर का मथन करने लगे, तब उसमें से हलाहल निकलकर समस्त लोक को जलाने लगा, तो महादेव ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए

उसे पी गये । उसके पश्चात् उसमें से ज्योष्ठा देवी का जन्म हुआ, तो उसे कलि महाराज ने बड़े प्रेम से अपनाया । इसके उपरान्त कितनी ही वस्तुएँ उसमें से उत्पन्न हुईं । सब नें अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार उन वस्तुओं को बड़े हर्ष से ग्रहण किया । आगे चलकर ऐरावत, मेघ, महिष, मकर, करेणु (हथिनी), हय, वृषभ आदि उस सागर से उत्पन्न हुए, तो इन्द्रादि दिक्पालों ने बड़े हर्ष से उन्हें अपने-अपने वाहनो के रूप में ग्रहण किया । महनीय सौभाग्यवती तथा महिमामयी लक्ष्मी का जब जन्म हुआ, तब लक्ष्मीनारायण ने उन पर आसक्त होकर अपनी पत्नी के रूप में उन्हें ग्रहण किया । तत्पश्चात् चंद्र तथा देव-कामिनियों का जन्म हुआ । देवताओं ने उन सुंदरियों में से 'तारा' नामक सुंदरी को हमें दिया, तो हमने उसे ग्रहण किया । उसके उपरान्त हमारे मथने पर अमृत का जन्म हुआ । देवताओं ने बड़े प्रेम से उस सुवारस को कामधेनु और कलन्वृक्ष के साथ चंद्र को भी लेकर अपने निवास-स्थानों में चले गये । हम भी वहाँ से विदा हुए ।

हम अपने निवास को लौटकर बड़े आनन्दपूर्वक उस सुंदरी के साथ रहने लगे । कुछ दिनों के पश्चात् सुषेण की प्रिय पुत्री रमा के साथ विवाह करके बड़े उत्साह से मैं जीवन व्यतीत करने लगा । मेरे पिता तथा अन्य मंत्रियों ने ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वालि को वानर-राज्य का अधिपति बना दिया । वालि भी मेरा बड़ा आदर करते हुए, राज्य करने लगा और मैं भी उसका सेवक बनकर उसे पिता के समान मानते हुए दिन-रात उसकी सेवा में लगा रहा । इस प्रकार हम परस्पर प्रेम-भाव रखते हुए जीवन व्यतीत करने लगे ।

एक दिन की बात है कि पुरानी शत्रुता से प्रेरित होकर दुडुभि का पुत्र मायावी नामक भयकर राक्षस अर्द्ध-रात्रि के समय किष्किंधा नगर को भयभीत करते हुए आया, और दुर्वार गर्व से उसने हमें युद्ध के लिए चुनौती दी । अनुपम शील-सपन्न वालि ने क्रुद्ध होकर मुझे साथ लेकर युद्ध के लिए निकला । हम दोनों को आक्रमण करने के लिए आते देखकर वह राक्षस भयभीत होकर भागा और अपनी गुफा में छिप गया । तब वालि ने मुझसे कहा—'मैं इस गर्वोद्धत राक्षस को पकड़कर उसका वध करके लौटूँगा, मेरे आने तक तुम सावधान होकर यहाँ रहो, जिससे अन्य कोई यहाँ प्रवेश न कर पाये । इस प्रकार, मुझे गुफा के द्वार पर नियुक्त करके वालि ने गुफा में प्रवेश किया । एक वर्ष पर्यन्त गुफा में घोर युद्ध होता रहा । रक्त उमड़कर गुफा के द्वार तक बहने लगा और राक्षस के ह्मकार मुझे सुनाई पड़ने लगे । तब मैंने निश्चय कर लिया कि वालि राक्षस के हाथों मे मारा गया है । यदि वह जान जाय कि मैं यहाँ हूँ, तो वह बाहर आकर मेरा भी वध कर डालेगा । इस प्रकार सोचकर मैं एक पहाड़ी से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और बालि की तिलोदक-क्रिया करके किष्किंधा लौट आया । मंत्रियों ने यह कहकर कि वालि की मृत्यु के बाद इस राज्य के अधिकारी तुम ही हो, विवश करके मुझे वानर-राज्य का राजा अभिषिक्त किया । तब से मैं वानरो का चक्रवर्ती होकर राज्य करता रहा ।

'हे राजन्, वहाँ वालि मायावी (राक्षस) का सहार करके, मुझे पुकार-पुकार कर, ह्मर गया । उसके पश्चात् वह द्वार पर मेरे द्वारा स्थापित पहाड़ी को पदाघातो से चूर-चूर

करके बाहर निकल आया । मुझे वहाँ न देखकर वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और किष्किंधा में प्रवेश किया । मेरे प्रणाम को भी स्वीकार किये बिना वह गरज उठा—‘क्यों रे, तुम्हें अपना अनुज समझकर तुम पर विश्वास करके मैं शत्रुओं से युद्ध करने गया, तो तुम इस प्रकार मुझे धोखा देकर मेरे राज्य का अपहरण करके, उसका शासन करने लगे ? क्या तुम्हारे लिए यह उचित है ? तुम महा पापात्मा हो । तुम्हें मारने से भी कोई दोष नहीं लगेगा ।’

तब मैंने उसके चरणों पर गिरकर भक्ति तथा विनय के साथ निवेदन किया—‘हे भाई, एक वर्ष तक आप और मायावी युद्ध करते रहे । तब (एक दिन) मैंने गुफा से रक्त का प्रवाह उसके द्वार तक आते देखा, तो भयभीत तथा मतिभ्रष्ट हो भागकर यहाँ आया । मुझे देखकर मंत्रियों ने विवश करके मेरा राज्याभिषेक कर दिया । इसके अतिरिक्त मैं कोई कपट नहीं जानता । आपका आगमन मेरे लिए शुभप्रद है । यह वानर-राज्य आप पुनः ग्रहण कीजिए । मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नाते से मैं आपका भाई हूँ, किन्तु वस्तुतः मैं आपका सेवक तथा पुत्र हूँ । हे कश्गानिधि, मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो उसे क्षमा कीजिए ।’

इस प्रकार के वचनों से मैंने वालि की बहुत विनती की, किन्तु उसका क्रोध पग-पग पर बढ़ता ही गया । मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया कि अनुज के प्रति इतना क्रोध उचित नहीं है, किन्तु उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया । उसने मेरी पत्नी रुमा को मुझसे छीन लिया, मेरा राज्य ले लिया और मेरा वध करने के लिए तैयार हो गया । मैं भयभीत होकर भागने लगा, तो वह मेरा पीछा करने लगा । मैं सारे भूलोक में शरण ढूँढते हुए भागा और अंत में इस पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि वालि इस पर्वत पर चढ़ नहीं सकता ।’

तब राम ने आश्चर्य से पूछा—‘हे सूर्यपुत्र, इस पर्वत पर वालि क्यों नहीं चढ़ सकता ? इसकी कथा मुझे सुनाओ ।’ तब सुग्रीव विनम्र भाव से यों कहने लगा—‘पूर्वकाल में द्रुपदि नामक दुष्ट राक्षस, वरदानों के प्रताप से प्रबल होकर तीन लोकों को भयभीत करने लगा था । वह जगली भैक्षे का रूप धारण करके समुद्र के पीछे पड़ गया और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी । तब समुद्र व्याकूल हो उठा और करोड़ों रत्नों की भेंट देकर कहा—‘तुम्हारे साथ युद्ध करके श्रेष्ठ हिमाद्रि ही जीवित रह सकता है । मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता ।’ तब वह उस हिमाद्रि से युद्ध करने चला गया, जिसके शृंगों ने इंद्र के बाहुस्तम्भ से सम्मानित वज्रायुध के तेज को भंग किया था । तब उस पर्वतेश्वर ने कहा—‘क्या मैं तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ ? इस ससार में तुम्हारा सामना करके, तुम्हारे साथ युद्ध करने का बाहुबल केवल वालि में है । वह अपनी प्रबल शक्ति के साथ किष्किंधा पर राज्य कर रहा है । यदि तुम युद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो हे महाबली, वही जाओ ।’

तब वह राक्षस बड़े उत्साह से किष्किंधा आया और प्रलय-काल के बादल के समान गर्जन करके अपने साथ युद्ध करने के लिए वालि को चुनौती दी ।

बाहर आया और गर्जन करते हुए दुदुभि के समान ध्वनि करनेवाले उस दुदुभि का सामना करके बोला—‘देखूँ अब तुम कहाँ जाते हो?’ इस प्रकार कहकर वालि ने शिलाओ तथा वृक्षो को उखाड़-उखाड़कर फेंका और मुष्टि के प्रहारों से उसे व्याकुल कर दिया। जब उसने अपने तीक्ष्ण श्रुती से वालि पर आक्रमण करना आरभ किया, तब वालि ने क्रुद्ध होकर, भयकर रूप धारण करके एक पर्वत उठाकर उस पर फेंका। राक्षस ने उसे बचाकर, स्वयं एक और पहाड़ उठाकर वालि पर फेंका। तब कपिराज ने एक बहुत बड़ा पर्वत उस पर फेंका। राक्षस ने अपने सींगों से उन पहाड़ों को हटाते हुए, वालि के कंठ को पकड़कर ऐसा धक्का दिया कि वालि विचलित हो उठा। तब वालि ने उसका पीछा किया और एक वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंका। राक्षस उससे भी बच गया और छिपकर वालि पर आक्रमण करने लगा। तब वालि ने एक मोटे ताड़ के वृक्ष से उस पर प्रहार किया। राक्षस ने अपने सींगों से उसे भी उठाकर फेंक दिया, तो कपिराज ने अपनी कठोर मुष्टिसे उस पर प्रहार करना आरभ किया। राक्षस भी अपने सींगों से वालि को मारने लगा। इस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करते हुए एक सौ वर्ष तक दोनों घोर युद्ध करने लगे। तब वालि ने उसके दोनों सींगों को पकड़ कर नीचे गिरा दिया और उसका वध कर डाला। उसके पश्चात् उसने अपना सारा बल लगाकर लात मारी, तो उसका शव मुँह तथा नाक से रक्त बहाते हुए वज्राघात से गिरनेवाले पर्वत की तरह, एक योजन दूर पर जा गिरा। गेरू रंग के भरने के समान गिरनेवाली उस रक्त-धारा की कुछ बूँदें, इस पर्वत पर भी गिरी। तब इस पर्वत पर तपस्या में निरत भयकर शक्तिशाली मतंग मुनि ने क्रोध में आकर शाप दिया कि वालि इस पर्वत पर न चढ़ सकेगा। हे जगन्नाथ, मैं इसी कारण से निर्भय हो सतत इस ऋष्यमूक पर ही निवास करता हूँ। हे राजन्, दुदुभि के उस शरीर को एक योजन तक फेंक सकने की शक्ति वालि के सिवा और किसी में नहीं है। यदि आप उस शव को, उससे भी दूर, न फेंक सकें, तो मैं आपकी शक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता।’

तब राम ने मंद-मंद हँसकर कहा—‘हे सूर्यपुत्र, मैं उस दुदुभि के शरीर को वैसे ही फेंककर तुम्हारा सदेह दूर करूँगा। मुझे वह शव दिखाओ। मेरु-मंदराकारवाले उस शव को सुग्रीव के दिखाने पर, राम उसके पास पहुँचे और उसकी परवाह किये बिना ही, केवल अपने अगुठे से उठाकर उसे दस योजन दूर फेंक दिया। तब भी सुग्रीव को रघुराम की शक्ति के महत्त्व पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा—‘हे देव, जब वालि ने इसे फेंका था तब यह बहुत से रक्त-मास से भरा था, आज तो केवल इसकी अस्थियाँ रह गई हैं। इसलिए आप इसे बड़े वेग से फेंक सकें, इसलिए विश्वास नहीं होता कि आपका बल वालि से भी अधिक है। इतना ही नहीं, बिना थके वालि पहाड़ों को गेंदों की तरह उछाल सकता है; चारों समुद्रों में सध्या-वदन करता है और शिवजी के चरणों को अपने सिर पर धारण करता है। वायु से भी अधिक वेग से वह सभी समुद्रों को पार कर सकता है। ऐसे वालि की, जिसे इन्द्र ने स्वर्ण-माला प्रदान की थी, कौन समता कर सकता है? हे राजन्, और एक बात सुनिए। यहाँ जो सात ताल-वृक्ष खड़े हैं, इन सभी

को वालि अपनी वर-शक्ति से एक साथ अपने हाथों में पकड़कर उनके सभी पत्तों को तोड़ सकता है। इन्द्रादि देवता इन में से किसी एक ताल को भी हिला नहीं सकते। हे वसुधेश, यदि आप एक बाण से इस सातों ताल-वृक्षों को गिरा सकते हैं, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि आपकी शक्ति वालि की शक्ति से भी अधिक है। मातंग मुनि ने मुझसे कहा था कि जो इन सातों ताल-वृक्षों को - एक ही बाण से गिराने की शक्ति रखता है, उस व्यक्ति के हाथों से वालि का नाश होगा।'

तब राम ने मदहास करके कहा—'हे वनेचरेश्वर, उन ताल-वृक्षों को तुम अवश्य मुझे दिखाओ। तब निपुण राम ने वज्र-सम अद्वितीय तथा निश्चित बाण सधान करके चलाया, तो वह बाण, पृथ्वी पर टेढ़े-मेढ़े ढग से खड़े उन ताल-वृक्षों को एक साथ ऐसे काटकर गिरा दिया, मानो रावण की नाड़ियों को ही काट दिया हो। उसके पश्चात् वह शर निकट के पर्वत को भी पार करके पृथ्वी में प्रवेश किया और पाताल तक पहुँचकर किंचित भी अपनी गति मद किये बिना, बड़े वेग से रघुराम के तूणीर में वापस आ गया। यह देखकर सुग्रीव आश्चर्यचकित हो अत्यधिक आनंद में डूब गया और मन-ही-मन यह सोचकर फूल उठा कि जिन ताल-वृक्षों के मूल सप्त पातालों तक गये थे, जिनके पत्र सप्त वायुमंडलों तक फैले थे, ऐसे तालों को इन्होंने एक ही शर से गिरा दिया। अब मेरा सदेह दूर हो गया। अब अवश्य ही राघव के हाथों वालि का वध होगा। मैं अब वानर-राज्य पर शासन कर सकूँगा। तब सूर्यवश के प्रभु राम को देखकर सूर्यपुत्र ने हाथ जोड़कर कहा—'हे देव, आपका रूप देखकर मैंने आपकी शक्ति की कल्पना नहीं करके पशु-बुद्धि का परिचय दिया। मैं सूर्यपुत्र हूँ और आप सूर्य-वश-सम्भव हैं। अतः मैंने आपकी समानता करने का विचार करने का अपराध किया। आप त्रिलोकीनाथ हैं। मुझ मूर्ख को अपना सेवक मानकर मेरे शत्रु का सहार कीजिए और मुझे मेरा राज्य दिलाकर मेरा दुःख दूर कीजिए।'

५ वालि-सुग्रीव का द्वन्द्व-युद्ध

तब राम ने अत्यधिक कृपा-दृष्टि से सुग्रीव को देखकर कहा—'हे सुग्रीव, तुम शीघ्र ही किष्किधा को जाओ और वहाँ वालि से युद्ध करते रहो। मैं एक ही बाण से (वालि का वध करके) सहज ही तुम्हें राज्य दिला दूँगा। तुम निर्भय होकर जाओ। तब बिना किसी सकोच के तथा अत्यंत उत्साह से सुग्रीव ने, नल, नील, हनुमान् तथा बलवान् तार आदि को साथ लिये युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर किष्किधा के लिए प्रस्थान किया। राम तथा लक्ष्मण उसके पीछे-पीछे चले। किष्किधा के निकट एक वन में प्रवेश करके उन्होंने वहाँ से सुग्रीव को वालि पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सुग्रीव शीघ्र किष्किधा पहुँचा और नगर के बाहर खड़े होकर भयकर गर्जन किया और अपने साथ युद्ध करने के लिए वालि को चुनौती दी। हाथी का चिंघाड़ना सुनकर जिस प्रकार सिंह क्रोध में आ जाता है, वैसे क्रुद्ध होकर, शिवजी के चरण-कमलों को प्रणाम करके, रावण के कठों को अपनी बगल में दबानेवाले वालि ने आकर सुग्रीव का सामना किया। अप्रतिहत पराक्रमी, समान

एक दूसरे के घुटनो, जाघो, वक्षो, नाभियो तथा कटि-प्रदेशो को विचित्र ढंग से भुकाकर इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे पूर्व तथा पश्चिम के समुद्र आपस में युद्ध करते हो । उसी समय राम ने अपने धनुष पर बाण का सधान करके, उसे चलाने के विचार से, उन दोनों को देखा । किन्तु उनके वदन तथा रदन, पूँछ तथा बाहु, उदर तथा अधर, उरु तथा पार्श्व, कक्ष तथा वक्ष, पैर तथा उँगली, वीक्षण तथा शिक्षण, वेष तथा भाषा, नाक तथा गाल, सिर तथा स्कन्ध, पिंडली तथा चरणयुग्म, कर्ण तथा वर्ण, कठ तथा अंग, इन सब को एक समान देखकर, यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में वालि कौन है और सुग्रीव कौन ? तब राम ने मन-ही-मन आश्चर्यचकित होकर सोचा कि यदि मैं बाण चलाऊँ, तो न जाने इनमें से कौन मृत्यु-मुख को प्राप्त हो जायँ । यो सोचकर वे विना बाण चलाये ही रह गये ।

युद्ध करते-करते अत्यधिक थक जाने पर भी सुग्रीव ने अपनी सारी शक्ति तथा निपुणता लगाकर युद्ध किया, किन्तु वालि से परास्त हो गया । वालि की बलिष्ठ मुष्टियों के आघातो के कारण वह घोघो की थैली के समान हो गया और लंबी साँसें लेता हुआ सोचने लगा—‘हाय रे, राम का विश्वास करके मैं क्यों आया ? इसका मुझे अच्छा पुरस्कार मिला । बस, बस, अब अपना रास्ता नापने में ही मेरा कल्याण है ।’ यो सोचते हुए वह सुध-बुध खोकर, अपनी पूँछ को कठ में लपेटे हुए, चारो ओर देखते तथा भूलते हुए ऋष्यमूक पर्वत पर भागा और मन-ही-मन दुःखी होने लगा ।

ठीक इसी समय राम वहाँ पहुँचे । अनन्त विक्रमधाम राम को देखकर सूर्यपुत्र ने सिर भुकाकर कहा—‘हे राजन्, मैंने आपका विश्वास करके अपना असमान बल-विक्रम दिखाकर वालि से युद्ध किया । किन्तु आपने मेरी उपेक्षा की, मेरी रक्षा नहीं की, चुपचाप देखते ही रह गये । सूर्य-वश मैं जन्म लेकर ऐसा अधर्म करना, क्या, आपको शोभा देता है ? हे देव, आपके सत्य तथा तेज का विश्वास करके मैंने वालि को छोड़ा । नहीं तो मैं कहाँ और वालि कहाँ ? वालि को चुनौती देकर फिर बचकर आना असभव था । शायद किसी पूर्व-पुण्य के फल से बचकर मैं पूर्ववत् इस पर्वत पर पहुँच सका । आपका विश्वास करने के कारण शत्रु के हाथो से पराजय और जग-हँसाई मुझे प्राप्त हुई । आपमें दया, साहस और शक्ति की अधिकता देखकर मैंने आपका विश्वास किया था ।’

इन वचनो को सुनकर राम बोले—‘हे सुग्रीव, तुम अपने मन में इतना सदेह क्यों करते हो ? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । क्या मैं तुम्हें शत्रु के हाथ में सौंप दूँगा ? एक बात सुनो । विश्व-विमोहक आकारवाले विख्यात अश्विनीकुमारो के समान तुम्हारी और वालि की रूप-रेखा समान होने के कारण मैं तुम दोनों में भेद नहीं कर सका और बाण चलाने में मुझे भय हुआ; क्योंकि यह अस्त्र अमोघ है । इसलिए तुम इसे बुरा मत समझो । इस बार तुम इन गज-पुष्पो की माला पहनकर वालि से युद्ध करो । मैं अवश्य ही वालि का वध करूँगा । संदेह मत करो, दृढ निश्चय से युद्ध के लिए किष्किषा के लिए प्रस्थान करो ।’ यो कहकर उन्होंने अपने प्रिय अनुज से गज-पुष्पो की माला मँगवाकर उसे सुग्रीव के कंठ में पहनाया । तब सुग्रीव नक्षत्रो से घिरे हुए चन्द्र के समान,

बक-पक्षियों से अलंकृत सध्या-गगन के समान, शरत्काल के बादलों के साथ विलसित मेरु-पर्वत के समान सुशोभित दीखने लगा ।

तब राम तथा उनके अनुज बड़े हर्ष से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए । उसके पश्चात् वे नल, नील, तारा तथा हनुमान् के साथ सुग्रीव को साथ लिये हुए नदियों, पुष्पो से युक्त लता-समूहों, पुन्नाग, नारगी, कदली तथा सहकार-वृक्षों से भरे वनों को देखते हुए उज्ज्वल कौरव, पद्म तथा कल्लागो से शोभायमान, बहु सरोवरों का दर्शन करते हुए, गज, सिंह, वराह तथा जगली भैंसों को देखते हुए, बहुत दूर तक चल और वहाँ अग्नि-सम तेजस्वी 'सप्त जनाह्व' नामक मुनि के आश्रम का दर्शन किया । सुग्रीव के मुँह से उस आश्रम का महत्त्व सुना । उसके पश्चात् वालि के शासन में रहते हुए ऐश्वर्य से सपन्न किष्किंधा-नगर को देखकर सुग्रीव स बोले—'तुम पूर्ववत् जाकर वालि के साथ युद्ध करो, मैं अवश्य वालि का सहार करूँगा ।' यो कहकर उस पुण्यात्मा सुग्रीव को आदर के साथ भेजकर राम समीप ही एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गये ।

६. तारा का वालि को रोकना

तब सूर्यनदन ने किष्किंधा की सभी गुफाओं को विदीर्ण करते हुए घोर गर्जन किया और इन्द्र-सुत वालि को अपने साथ युद्ध के लिए ललकारा । वालि अत्यंत क्रोधावेश में आकर सोचने लगा—'यह एक मर्द की तरह अपने बाहुबल का गर्व कर रहा है । अब इसका सहन करना उचित नहीं है, अब मैं इसका वध कर डालूँगा ।'

इस प्रकार निश्चय करके वह शक्तिशाली तथा जयशील वालि युद्ध के लिए निकला, तो अपने पति का मार्ग रोककर तारा कहने लगी,—'हे देवेन्द्रनदन, बिना सोचे-विचारे आप नूर्य-पुत्र पर आक्रमण करने क्यों जा रहे हैं ? अभी-अभी आपसे युद्ध करके वह घायल होकर भाग गया था । फिर इतना शीघ्र वह कैसे आ गया ? यदि आपसे कहीं अधिक बलवान् की सहायता उसे नहीं मिलती, तो वह कदापि यहाँ नहीं आता । हे इन्द्र-पुत्र, यही नहीं, मैंने अगद से और एक बात सुनी है । अपने पिता की आज्ञा क अनुसार दशरथ-राम वनवास के लिए आये थे । वहाँ दशकधर (रावण) ने उनकी पत्नी को हर लिया । वे और उनके भाई मुनि-वंश में सीता की खोज में ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचे और सुग्रीव को अपना सेवक स्वीकार करके तुम्हें मारना चाहते हैं । राघव स्वयं विष्णु हैं, कमलनाभ हैं, वैरियों के लिए भयकर रूप हैं, दयालु हैं, धीर हैं और धनुर्विद्या के गुरु ह । उनका शत्रु बनकर उनको जीतना असंभव है । आप प्रेम से सूर्य-पुत्र को अपना राज्य देकर, फिर राम से सधि कर लीजिए । यदि ऐसा नहीं हो सकता, तो मुनि-वृत्ति ग्रहण करके अपने प्राणों की रक्षा कीजिए ।'

तारा के इन वचनों को सुनकर वालि अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला—'मेरी पत्नी होकर तुम इतनी भयभीत क्यों होती हो ? मैं अपने बाहुबल से किसी भी बलवान् पुरुष को युद्ध में जीतकर विजय प्राप्त कर सकता हूँ । मैं कभी किसी से पराजित नहीं होऊँगा । जब शत्रु आकर युद्ध के लिए ललकारे, तब अधीर होकर उससे सधि कर लेना वीरों का धर्म नहीं है । हे कमलाक्षी, मेरे-जैसे बलवान् के रहते, मुझे स्वीकार नहीं करके, राम ने

सुग्रीव को अपनाया है। इसलिए जान पड़ता है कि राम नीतिवान् नहीं है। ऐसी दशा में राम की मित्रता स्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं है। सुग्रीव अनाथ होकर राम का सेवक बन गया है। मुझे राम की क्या आवश्यकता है। सधि की क्या आवश्यकता है? मैं किसी की प्रार्थना क्यों करूँ? वह महान् पुरुष तथा धर्मात्मा राम, अकारण ही मेरा वध क्यों करेंगे? (तुम्हारी) ये बातें सर्वथा असंगत हैं। मैं अभी जाकर अपने भयकर वज्र की समता करनेवाली अपने मुष्टि-प्रहारों से सुग्रीव का वध करके आता हूँ। तुम निश्चित रहो।'

इस प्रकार के वचनों से तारा को सतुष्ट कर इन्द्र-पुत्र वालि अपने पराक्रम, शक्ति तथा साहस के साथ इस ढंग से (युद्ध के लिए) निकला, मानो कर्मपाश के आकर्षण को टालने की शक्ति उसमें नहीं रही हो। उसने अपने गर्जन से सभी समुद्रों को क्षुब्ध कर दिया; भू-वल्लय को कंपा दिया। उसके बाद वह सुग्रीव को डौंटेते हुए भयकर स्वर में बोला—'मेरे साथ युद्ध में हारकर, लज्जाहीन हो, फिर युद्ध करने आया है? कोई बात नहीं। मैं अभी तुम्हें यम के मुँह की बरी बनाऊँगा। डींगें मारना छोड़कर तू थोड़ी देर बदल खड़ा रह। मैं युद्ध में अपने मुष्टि-प्रहारों से तेरे प्राण हरण करूँगा।'

इस प्रकार कहकर वालि ने वज्र का परिहास करनेवाली, अपनी मुष्टि बाँधकर उससे ऐसा प्रहार किया कि सुग्रीव नीचे गिरकर रक्त उगलने लगा। तुरत वह सँभल उठा और साहस के साथ खड़े होकर गर्जन किया और तिरस्कारपूर्ण वचनों से इन्द्र-सुत की निंदा करते हुए कहा—'मैं अब तक तुम्हारी उद्विग्नता केवल इसलिए सहता आ रहा था कि तुम मेरे भाई हो और पूज्य हो। ऐसी बात नहीं कि मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूँ। मैं पहले का सुग्रीव नहीं हूँ। सोच-विचार कर मेरे साथ युद्ध करना। मैं वालि, मैं अवश्य अभी तुम्हारा वध कर दूँगा और कपि-राज्य पर अधिकार करूँगा।'

इतना कहकर सुग्रीव ने अत्यधिक क्रोध से एक साल-वृक्ष को उखाड़कर तेजी से वालि पर फेंका। उसके लगते ही वालि कपित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया। थोड़ी देर के बाद वालि सचेत होकर दुर्वार गर्व और बड़े शौर्य तथा धैर्य के साथ एक पर्वत उठाकर उस रवि-पुत्र पर इस प्रकार फेंका कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गये। सुग्रीव ने उस पर्वत को अपनी पूँछ से रोक दिया। तब वालि ने सुग्रीव के पैरों पर प्रहार किया। सुग्रीव ने अपने तेज नखों से वालि का शरीर नोच डाला। वालि ने उग्र रूप धरकर सुग्रीव पर मुष्टि का प्रहार किया। क्रमशः दोनों अपनी अमित शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक-दूसरे की शिखाओं को पकड़कर पदाघातों से, नखों से, मुष्टियों से, एक-दूसरे पर प्रहार करते हुए, गर्जन करते हुए, हुंकार भरते हुए, घोर युद्ध करने लगे। उनके अगों से रक्त की धारा बहने लगी। वे अपनी बाहुओं तथा पूँछों को दूसरों की बाहुओं तथा पूँछों से फँसाकर, परस्पर धक्का देते हुए, फिर दूर हटते हुए, अपना सारा बल लगाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार अत्यंत भयकर रीति से जब वे लड़ रहे थे, तब इन्द्र-सुत वालि के आघातों से रवि-पुत्र सुग्रीव बहुत घायल हुआ। वह गर्व खोकर, ध्याकुल और भयभीत हो, अपने ओठों को आर्द्र करते हुए, दीन दृष्टि से चारों ओर देखने लगा।

७. वालि का संहार

निग्रह तथा अनुग्रह के निधि राम ने जब देखा कि सुग्रीव अब क्लान्त तथा खिन्न हो गया है, तब सोचते लगे कि यदि मैं अब वालि का वध नहीं करूँ, तो वह अवश्य ही सुग्रीव को मार डालेगा। तब राम ने सप्त समुद्रों तथा सप्त लोको को क्षुब्ध करते और समस्त भूतो को कँपाते हुए, अपने धनुष का टकार किया, वालि को तृणवत् मानकर, लक्ष्य को साधा, और एक अमोघ अस्त्र का सधान करके उसे उस असमान बलशाली वालि पर चलाया। तब वह बाण अपनी सूर्य-तेज सदृश कालि को सारे आकाश-मंडल में विकीर्ण करने तथा भयकर अग्नि-शिखाओं की फैलाते हुए, गरुड, उरग, अमर, गधर्वों को भयभीत करते हुए ऐसे वेग से चला, मानो अपने पुत्र की रक्षा करने तथा शत्रु को दण्ड देने के लिए सूर्य ही अस्त्र के रूप में जा रहा हो, अथवा सूर्य-पुत्र होने के कारण यम धर्मराज ने ही अपने अनुज सुग्रीव की रक्षा करने के लिए, अपना काल-दंड वालि पर चलाया हो। वह बाण सीधे जाकर वालि के उर में लगा। वालि पृथ्वी पर ऐसे गिरा कि दिग्गजों, पर्वतों तथा वृक्षों के साथ पृथ्वी काँप उठी। वह बाण वालि के उर के पार निकलकर पृथ्वी में धँस गया। अद्विरल बहनेवाली रक्त की धाराओं से वानरेश्वर का सारा शरीर भीग गया और वह इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा, मानो पुष्पित अशोक-वृक्ष आँधी में गिर गया हो, अथवा प्रलय-काल में कालिहीन होकर पृथ्वी पर गिरा हुआ सूर्य हो। तब पृथ्वी पर विवश पड़े हुए उस वालि के पास राम आये।

अपने समीप पहुँचे हुए रघुराम को देखकर मन-ही-मन कुपित होता हुआ वालि कहने लगा—'हे राघवेश्वर, हे रामचंद्र, इस पृथ्वी पर लोग आपको धर्मात्मा कहते हैं। आप दम-शम, दया, सत्य, सम-बुद्धि, नीति, सौजन्य आदि सद्गुणों के भाण्डार हैं। ऐसे होते हुए भी आपने अपनी महत्ता को त्यागकर मेरे और सुग्रीव के युद्ध करते समय हमारे बीच में आये और मेरे ऊपर बाण चलाया, क्या यह आपके लिए उचित है? मैंने आपका कोई अपकार नहीं किया है। मैंने कभी आपकी बुराई नहीं सोची। मैं आपका शत्रु भी नहीं हूँ। मैं जानता भी नहीं हूँ कि आपके शत्रुओं ने आपका क्या अहित किया है। उन बातों को जानकर मैंने आपकी उपेक्षा की ही, सो भी नहीं। फिर भी आपका ऐसा करना, क्या उचित है? हे सूर्य-कुल-तिलक, आप जानते हुए भी अज्ञान बनकर रहे। ससार में राजा लोग, शरभ, सिंह, शार्दूल, कोला, गज, हिरण आदि का सहार करने के लिए मृगया खेलते हैं। भला, कहीं कोई वानरो का वध भी करता है? सूर्य-पुत्र तथा मैं, दोनों भाई-भाई हैं। गर्वांध हो, क्रूर बनकर, हम चाहें जैसा भी आचरण करें, आपका इस प्रकार मेरा सहार करने का क्या कारण है? खरगोश, नेवला, कछुआ, जगली सूअर आदि जानवर खाद्य होते हैं, किन्तु वानर को कोई खाता नहीं है। फिर आपने आड में छिपकर क्यों मेरा वध किया? हे राजन्, अब आप अपने अनुज के साथ मेरे रक्त-मास का भोग लगाइए। उज्ज्वल कीर्तिवान्, जगद्विख्यात दशरथ की आज्ञा से वन में तपस्वियों का-सा जीवन व्यतीत करने के लिए आप आये, फिर भी जीव-हिंसा का त्याग नहीं किया। यदि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम कोई अपराध करते हैं, तो उसके लिए दण्ड देने का कार्य

भरत का है । आपका इससे क्या सबध है ? क्या आप राजा है ? आपने मुझे नहीं अपनाकर मेरा वध कर डाला । अपनी पत्नी को हरकर ले जानेवाले नीच रावण को जीतने के उद्देश्य से आप आये है । आपने मेरी अवहेलना की और सूर्य-पुत्र को अपनाया । इस प्रकार आप इस लोक में नीति-रहित-से हो गये । यदि यह समाचार आप मुझे देते, तो क्या मैं आपकी पत्नी को छुड़ाकर नहीं ला देता ? जो महाबलवान् की तरह आकर सीताजी को चुराकर ले गया, उसे मैंने अपनी पूँछ की रोमावली से बाँधकर सभी समुद्रों में डुबोया था और अंत में उसपर कृपा करके उसे छोड़ दिया था । मेरा बाहुबल सारा ससार जानता है और सुग्रीव भी जानता है । हाय ! मुझे भयभीत करके मार डालने की शक्ति रखनेवाले आप, मेरे सामने खड़े होकर, मुझे ललकार कर, मुझपर आक्रमण करके मार न सके । भय से आड में छिपकर आपने मुझे मारा । क्या यही राजधर्म है ?'

वालि के इन वचनों को सुनकर राम ने कहा—'हे वालि, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती । तुम कपि के वंश में पैदा हुए और कपियो के बीच में पले हो । धर्मशास्त्र की नीति न जानते हुए भी वाचाल के समान मेरे दोष गिना रहे हो । यह न्यायसगत नहीं है । तुमने जो वचन कहे, उनके प्रत्युत्तर में मेरी कुछ बातें ध्यान देकर सुनो । ससार के धर्मचार्यों की सम्मति है कि अग्रज को चाहिए कि वह अपने अनुज को अपने तनुजवत् (पुत्रवत्) पाले । तुमने उस नियम का उल्लंघन किया । निरपराध सूर्य-पुत्र को तुमने नगर से निर्वासित किया । ऐसा कामान्ध, तुम्हारे सिवा इन तीनों लोकों में और कौन हो सकता है । दूसरी बात यह है कि जब हम दोनों (मैं और सुग्रीव) मित्र हैं, तो तुम मेरे मित्र के शत्रु होने के कारण तुम्हारा वध करना मेरे लिए उचित ही था । मृगया खेलने-वाले निष्कलक राजा, सजातीय पशु-पक्षियों की सहायता से मृगों का शिकार करते हैं, या एक मृग को किसी दूसरे के साथ लडते समय उसको मारते हैं, या झाड़ी में छिपकर उसका शिकार करते हैं या जाल फैलाकर मारते हैं, या अकारण ही मारते हैं, या आड में खड़े होकर शिकार खेलते हैं, या कटधरा सजाकर शिकार खेलते हैं । इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से इसका दोष नहीं लगेगा । तुम तो शाखा-मृग ठहरे । तुम्हारा वध मैं किसी भी प्रकार करूँ, तो उसका दोष मुझे क्यों लगेगा ? अपने श्रेष्ठ बाहुबल से समस्त जगत् के स्वामी (बने हुए) भरत की आज्ञा से हम दुष्ट मृग तथा राक्षसों का वध करते रहते हैं । तुम अपने अनुज की पत्नी को बलात् छीननेवाले पापात्मा हो । इसलिए हमने तुम्हारा वध किया । राजाज्ञा से दण्डित व्यक्ति नरक के सकटों को प्राप्त नहीं होते । इसलिए तुम दुःखी न होओ और स्वर्ग-सुख को प्राप्त करो ।'

रघुराम के इन वचनों को सुनकर वालि थोड़ी देर तक आँखें बंद किये हुए विवश पड़ा रहा और उसके पश्चात् कातियुक्त पूर्णचंद्र रामचन्द्र को देखकर कहा—'हे शुभ नाम-वाले राम, हे भयकर किरणवाले, हे चद्रसम मुखवाले, मेरी पत्नी तारा ने आप प्रभु के शौर्य का परिचय देकर मुझसे अनुरोध किया था कि आप युद्ध में मत जाइए । मैंने अपनी दुर्बुद्धि के कारण, विधि की प्रेरणा से, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आपने शत्रुता

करके इस प्रकार पृथ्वी पर पडा हुआ हूँ । क्रोध के आवेश में मैंने मूर्ख हो, आपको अप-शब्द कहे हैं । आप मुझे क्षमा कीजिए । हे राजन्, मैं अपनी दुर्दशा की चिन्ता नहीं करता, तारा के लिए भी चिन्ता नहीं करता, किन्तु अपने पुत्र अगद के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ । मेरी पत्नी और पुत्र की न जाने क्या दशा होगी । मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी दुर्दशा होगी ।' इस प्रकार कहते और शोक तथा मोह-रूपी समुद्र में डूबे हुए (मूक की तरह) मूर्च्छित हो पडा रहा ।

यह समाचार जब (वालि के) रनवास में पहुँचा, तब तारा आदि स्त्रियाँ वालि के वध का हाल जानकर अधीर हो उठी और उनके हृदयो पर वज्र के समान आघात हुआ । वे सब पछाड खाकर पृथ्वी पर गिर पडी । वे एक क्षण होश में आती, फिर दूसरे ही क्षण मूर्च्छित हो जाती । वे अत्यधिक सतप्त हो, वालि का नाम ले-लेकर पुकारती हुई चिल्ला-चिल्लाकर विलाप करने लगी—'हे अगद, हाय, आज वालि का स्वर्गवास हो गया है ।' फिर वे अत्यधिक शोक में डूबी हुई उच्च स्वर में रोती हुई अगद को साथ लेकर किष्किंधा नगर से बाहर निकली । चलते समय उनके पैर लडखडाने लगे, उनके अचल खिसक गये, उनकी वेणियाँ खुल गईं, होठ कपित होने लगे, आँखों से अश्रु-धारा बहने लगी और उनकी क्षीण कटियाँ इधर-उधर हिलने लगी । इस प्रकार जब वे आ रही थी, तब मार्ग में ही वानरो ने उन्हें सूचना दी कि राघव के हाथों से वालि का वध हो गया है । अब तुमलोग क्यों जा रही हो ? यदि वहाँ जाओगी, तो अवश्य कोई-न-कोई विपत्ति आयगी । क्या तुम नहीं जानती कि राम तथा सुग्रीव मिल गये हैं । न जाने, वे इस अगद को पकड़कर क्या करेंगे ? हमें शत्रुओं के मन का विश्वास नहीं करना चाहिए । अतः हम अब अगद को ही अपना राजा बनायेंगे । वैसे तो हमारे यहाँ अनेक बुद्धिमान् मन्त्री हैं । तुम वहाँ मत जाओ ।'

८. तारा का शोक

तब तारा, औचित्य का विचार करके, उन कपियों की बार-बार निंदा करती हुई बोली—'यदि मैं अपने प्राणनाथ वालि को न देख सकूँ तो मुझे यह अगद किस लिए और यह राज्य ही किस लिए है ?' इस प्रकार उनकी बातों की परवाह न करके, वह चद्रमुखी तारा मन-ही-मन वालि का स्मरण करती हुई अपने कुचों को देखकर अत्यंत शोक-सतप्त होकर कहने लगी—'दूर से ही अमरत्त-पुत्र का आगमन देखकर, यत्न करके, उनके निकट पहुँचकर, रति-क्रीडा की अभिलाषा करके उनसे टकराते रहने के कारण ही तो आज तुम उस सुरराज के पुत्र को खो बैठे । अपने किये का फल तुम अब भोगो ।' यो कहकर अत्यधिक क्रोध से वह अपनी छाती पीटने लगी । उमडते हुए शोक से जब वह चलने लगी, तब उसके हार छिन्न-भिन्न होकर गिरने लगे । वेणी खुल गई । जैसे कमल से मकरद भरता है, वैसे ही उसकी आँखों से अश्रु गिरने लगे । वह पवन के वेग से वालि के निकट पहुँच गई और तः से टूटकर गिरनेवाली पुष्प-लता के समान वालि पर जा गिरी और बार-बार परितप्त होती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी—'हे कपिकुलाधीश, हे कपि-राजचद्र, हे कपिराजशेखर, हे कपिसावैभौम, समस्त सुरासुर-समूहोंमें तम अकलक शक्ति-शाली त्रो-

तुम विध्याद्रि को उखाड़कर फेंकने तथा उन्हें व्याकुल करने में समर्थ हो; तुम महाबलशाली, त्रिभुवनो के पालन करनेवाले, कुल-पर्वतो को भेदनेवाले (इन्द्र) के पुत्र हो। कोलबु नामक क्रूर गधर्व का सहार करनेवाले युद्ध-वीर तुम ही तो हो। ऐसे तुम, एक मानव के हाथों से ऐसी नीच मृत्यु को प्राप्त हुए। अब मैं क्या कहूँ ? सूर्य-पुत्र तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं रख सकने के कारण तुम्हें युद्ध में मारने के लिए राम को साथ लेकर आया था। मैंने तुम से कहा था कि राम को जीतना असंभव है; तुम युद्ध में मत्त जाओ। मेरी बात तुमने नहीं मानी, मेरा सर्वस्व तुमने हर लिया। मैंने कहा कि वह महात्मा विष्णु ही है, उनके निकट मत्त जाओ। यह भी कहा कि वह महान् शूर है, तुम अपना प्रताप त्याग दो। तुमने नहीं जाना कि राम तुम्हारा सहार करने आया हुआ यम ही है। तुमने उनसे दुःख पाया। जब समुद्र का मथन करते-करते देवासुरों की सारी शक्ति शिथिल हो गई थी और वे क्लान्त होकर पड़े हुए थे, तब तुम्हारी जिन भुजाओं ने वासुकि को मदर पर्वत से लपेटकर, समुद्र का मथन करके तीनों लोकों में अपनी श्रेष्ठ शक्ति का परिचय दिया था, वे ही आज धूलि से सनी हुई हैं। महान् शक्ति-शाली राक्षसराज (रावण) को अपनी दृढ़ मुष्टि में पकड़कर उसको व्याकुल करते हुए सभी समुद्रों में डुबोनेवाली तुम्हारी पूँछ आज मिट्टी में लोट रही है। नीलकंठ के श्रीचरण-कमलों में भ्रमर के समान झुकनेवाला तुम्हारा सिर आज निरी पृथ्वी पर पड़ा है। हे हृदयेश्वर, मैं तुम्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, जहाँ तुम जाओगे, वही मैं भी जाऊँगी। इस वेदना को सहना मेरे भाग्य में लिखा था। मैं अपनी अनाथ अवस्था के कारण दुःखी नहीं होती। हे इन्द्र-नंदन, मैं आपके प्रिय पुत्र के लिए शोक करती हूँ। हे स्वामिन्, तुम्हारा पुत्रधूल में सने हुए तुम्हारी गोद में लोट रहा है। उसे क्यों नहीं अपनाते ? हे राजन्, अपने पुत्र अगद को अपनी जाँघों पर बैठाकर, प्रेम से उसका सिर सूँधकर, उसके गालों पर हाथ फेरकर, उसे चूमते हुए, उसको रोने से क्यों नहीं रोकते ?'

इस प्रकार विलाप करती हुई और उमड़ते हुए शोक से उसने सुग्रीव को संबोधित करके कहा—'वालिके सामने खड़े रहने की क्षमता न रखने के कारण, कई बार कायर के समान तुम भाग गये और अनाथ की तरह जाकर राघव को साथ ले आकर कपट-विजय के बाद तुमने किष्किंधा को जीता। तुमने जो चाहा, वही हुआ। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। अब कपियो का राज्य लेकर उसका पालन करो। सधि की बातें (मित्रता की बातें) करके राघव को यहाँ लाने के लिए हनुमान् तो तुम्हारे साथ है ही। मन्त्रणा के लिए तुम्हारे पास नल, नील तथा तार भी हैं। (अब तुम्हें किस बात की कमी है ?)'

इसके पश्चात् उस कमलाक्षी ने रघुराम को देखकर कहा—'हे राजन्, आपने वालिके सहार क्यों किया ? हे रघुराम, क्या वालिके ने आपकी ऐसी दशा कर देने के लिए (वनवास की आज्ञा देने के लिए) आपके पिता को परामर्श दिया था ? हे रघुराम, क्या वालिके आपके राज्य-सुख को छीननेवाला भरत था ? क्या वालिके दुष्टता करके आपकी पत्नी को चुराकर ले जानेवाला रावण था ? आपने वालिके से अकारण वैर ठानकर इस प्रकार उसका सहार क्यों किया ? आप-जैसे पृण्यात्मा, आप-जैसे प्रभु और, आप-जैसे करुणानिधिके

क्या ऐसा करना उचित है ? क्या जानकी के साथ आपका विवेक भी चला गया ? क्या घोर विरहाग्नि में आपका ज्ञान भी जल गया ? हे राजन्, मेरा भाग्य ही आज ऐसा हो गया है । अब मैं क्या करूँ ? होनहार को मैं कैसे दोष दूँ ? मैं वालि को छोड़कर नहीं रह सकती । हे देव, आप मेरा भी वध कर डालिए ।’

इस प्रकार विलाप करती हुई वह अपनी छाती और मुँह को पीटती हुई रुदन करती रही । तब हनुमान् ने तारा को देखकर कहा—‘क्या ऐसी कोई धर्म-नीति है, जिसे तुम नहीं जानती ? युद्ध में स्वर्ग को प्राप्त होनेवाले वीर वालि के लिए इस प्रकार तुम शोक क्यों करती हो ? ये सब कार्य भगवान् की इच्छा के अनुसार चलते हैं ।’ इस प्रकार वह नीति-विलक्षण (हनुमान्) बार-बार तारा को समझाता रहा ।

९. वालि का सुग्रीव को उपदेश देना

इतने में अमरेन्द्र-पुत्र ने आँखें खोलकर अपनी पत्नी का अवर्णनीय शोक तथा अगद के उससे भी अधिक कठोर दुःख को देखा और फिर सूर्य-नदन को सत्रोषित करके कहा—‘हे भानु-पुत्र, राम के द्वारा आज समस्त ससार के समक्ष तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ । इस पृथ्वी पर राजाओं की कृपा का कभी विश्वास मत करना । अपनी बुद्धि का विश्वास करके सावधान होकर व्यवहार करना । तुमने राम को जो वचन दिया था, अब उसका पालन करने का प्रयत्न करो । मायावी पुरूहुत जब लगातार अपनी सारी शक्ति लगाकर, अनवरत युद्ध करके हार गया था, तब मुझसे सतुष्ट होकर उसने यह हेम-मालिका दी थी । इसे तुम धारण करो । यही कपि-राज्य का राज-चिह्न होगा । अब इस अगद के शोक को दूर करो । तुम मेरे समान ही उसकी रक्षा इस प्रकार करो कि वह मुझे भूल जाय । सुषेण की पुत्री यह तारा बुद्धिमती है । इसके परामर्श के अनुसार तुम आचरण करो और मेरे सब अपराधों को भूल जाओ । अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, लो, इस रत्न-मालिका को भी ले लो ।’ यह कहकर उसने शोक से सिर झुकाये खड़े रहनेवाले सुग्रीव को बुलाया । तब सुग्रीव ने रघुराम की अनुमति प्राप्त करके उस हेम-मालिका को बड़ी भक्ति के साथ धारण किया ।

इसके पश्चात् वालि ने बड़े प्रेम से अगद को देखकर कहा—‘हे पुत्र, अब तुम शोक त्यागो । सुग्रीव के रहते हुए तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है ? सूर्य-पुत्र मुझसे भी अधिक प्रेम से तुम्हारा लालन-पालन करेगा । सुग्रीव जो पद तुम्हें दे, उसी में सतुष्ट रहना । तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी और तुम्हें श्रेष्ठ सुख प्राप्त होंगे । तुम्हें किष्किंधा का राजा बनाकर उसे देखकर आनन्द पाने के योग्य पुण्य मैंने नहीं किया था । अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ ।’

इसके उपरान्त बालि ने रघुराम को अत्यंत प्रेम से देखकर कहा—‘हे राम, अत्यधिक गर्व करके, मेरा सुग्रीव से जूझना ही मेरे लिए अंतिम पथ्य सिद्ध हुआ । वही मेरी मृत्यु का कारण सिद्ध हुआ । यह अगद निर्बल है । यदि वह कोई अपराध करे, तो उसे सहन कीजिएगा । हे सूर्य-वश-तिलक, सूर्य-पुत्र के बाद इसको राजा बनाइए । वेद-शास्त्रों के अध्ययन-मात्र से किसी को तुम्हारे दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते ।’

अत नहीं है । प्राणों के जाते समय आपने यहाँ पधारकर मुझे दर्शन दिये । परलोक में जाने पर ही जिसके दर्शन संभव होते हैं, (उसके दर्शन) मैंने अभी प्राप्त कर लिये हैं । मैं कृतार्थ हुआ । हे सूर्य-वश-तिलक, हे परमकल्याण-रूप, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे । कृपया यह बाण (मेरे शरीर से) निकालिए ।' राम की आज्ञा पाकर नील ने उस दिव्य बाण को बालि के शरीर से बाहर निकाला । तब बालि ने पवन की गति को अपने शरीर में रोककर, उस रुद्ध पवन की सहायता से अपनी चित्त-वृत्ति को निश्चल बनाकर, उस सुदरमूर्ति श्रीराम को मन में धारण करके, ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हुए ब्रह्मरुद्र के द्वारा अपने प्राण छोड़ दिये ।

तब तारा आदि स्त्रियाँ बालि के शरीर पर गिरकर बार-बार हाहाकार करती हुई विलाप करने लगी । अगद, सुग्रीव तथा वहाँ के सभी कपि-भृगव 'हाय, बालि तुम हमें छोड़कर चले गये ।' कहते हुए विलाप करने लगे । तब सौमित्र ने सुग्रीव तथा अन्य कपियों को सात्वना देते हुए कहा—'हे हनुमान्, तुम तुरत वस्त्र, माला, कर्पूर, चन्दन आदि मँगवाओ । हे तारे, स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित शिबिका शीघ्र मँगवाओ ।' उन्होंने वैसा ही किया । सभी वनचर वहाँ पहुँच गये । सूर्य-पुत्र ने तारा आदि स्त्रियों का दुःख शान्त किया । रामचन्द्र की आज्ञा प्राप्त करके सुग्रीव, अगद, हनुमान् आदि ने बालि की उत्तर-क्रियाएँ यथाविधि समाप्त की । दस रात्रियों तक शेष क्रिया-कर्म पूरे किये और परिशुद्ध होकर रामचन्द्र के सम्मुख उपस्थित हुए ।

१०. सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाना

तब राम ने अत्यंत हर्ष से उन कपि-नायकों को देखकर कहा—'अब तुमलोग मेरा आदेश मानकर किष्किंधा नगर को सजाओ और कपिराज के सिंहासन पर सुग्रीव का राज-तिलक करो तथा अगद को युवराज के पद से अभिषिक्त करो ।' तुरन्त सभी वानर-दण्ड-नायक एकत्र होकर किष्किंधा चले आय । उन्होंने सारा नगर सुदर ढग से सजाया । सारा नगर, नूतन शृंगारों से सुसज्जित भवन, रत्नों की वेदियाँ, रमणीय हीरों के चौकों से अलंकृत द्वार, सुरम्य ध्वजाएँ, विशाल तथा सुगन्धित जल से सिक्त राज-मार्ग तथा उनमें संचार करनेवाले निरुपम सुदराकार पुरजनों से परिपूर्ण दीखने लगा । उन्होंने राजसभा का भी अलंकार किया, मानो वह अत्यधिक ऐश्वर्य-रूपी समुद्र का आवास हो । नद तथा नदियों का जल मँगवाया और विविध मंगल-द्रव्यों को एकत्र किया । इसके पश्चात् उन्होंने सुदर पुण्य मुहूर्त में पुण्याह वचन का उच्चारण करते हुए कपिसिंह (सुग्रीव) को सिंह के चर्म से अलंकृत सिंहासन पर बिठाया और जिस प्रकार देवता इन्द्र का अभिषेक करते हैं, वैसी ही उज्ज्वल तथा पवित्र ढग से श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया । पुण्य-स्त्रियाँ रत्नों की वर्षा करने लगी । तदनंतर उन्होंने अगद को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित किया । तब सारे अत.पुर तथा नगर में अत्यधिक आनन्द छा गया । नल, नील, तार, हनुमान् तथा सगे-संबंधी सुग्रीव से बड़े प्रेम से मिले । अन्य वानर-राजाओं ने हाथ जोड़कर बड़े हर्ष से उसकी प्रशंसा की । तब सुग्रीव ने अपनी विशाल संपत्ति को प्राप्त करके, बड़ी प्रसन्नता से रत्न-राशि वानरों को भेंट की । तत्पश्चात् सुग्रीव ने अपनी वानर-सेना के

साथ रामचंद्र के निकट पहुँचकर बड़ी भक्ति से उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़े प्रेम तथा आनंद से कहने लगा—‘हे विश्वेश, अब आपको यहाँ ठहरने की क्या आवश्यकता है ? आप कृपया मेरे नगर में पधारें ।’

११. राम का माल्यवंत पर पहुँचना

तब राम ने सुग्रीव को देखकर बड़े प्रेम से कहा—‘हे सूर्य-पुत्र, तपस्विनों को नगरो में निवास नहीं करना चाहिए, इसलिए किष्किधा नगर हमारे रहने योग्य नहीं है । आषाढ का महीना आ गया है, अतः शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है । मैं वर्षाऋतु में किसी तरह माल्यवंत पर अपने दिन व्यतीत करूँगा । तुम किष्किधा में जाकर रहो । शरत्काल के आते ही हम शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करेंगे ।’ इन वचनों को कहकर राम ने उसे बड़े आदर के साथ विदा किया और उस स्थान को छोड़कर वे अपने अनुज के साथ माल्यवंत पर्वत पर जा पहुँचे ।

पर्वत पर पहुँचकर राम कुसुम सदृश कोमल सीता के गुण, वय तथा असमान रूप-विलास को मन-ही-मन सोचते हुए अत्यधिक दुःख में मग्न हो रहे ।

उस समय आकाश में, सूर्य के प्रकाश को ढँकते हुए बादल इस प्रकार घिर आये, जैसे सीता के वियोग से दुःखी होनेवाले राम को घेरकर दुःख बार-बार आता था । बादलों में से निकलकर बिजली इस प्रकार जहाँ-तहाँ अपनी चंचलता दिखाने लगी, मानो वह बता रही हो कि रावण का राज्य राम के द्वारा विचलित हो जायगा । वायु के साथ धूल इस प्रकार आकाश की तरफ उड़ने लगी, मानो पृथ्वी देवताओं को इस बात की सूचना देने जा रही हो कि इक्ष्वाकु-वल्लभ (राम) देवलोक के शत्रु (रावण) पर आक्रमण करने जा रहे हैं । आकाश में इंद्र-धनुष इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो युद्ध में राक्षसों का वध करने के लिए यम ने अपने हाथ का काल-पाश भेज दिया हो । आकाश में जहाँ-तहाँ मँडराते हुए मेघ ऐसे गर्जन कर रहे थे, मानो राम की सहायता के लिए देवताओं की भेजी हुई सेना, भेरी-निनाद कर रही हो । प्रथम वर्षा की बूँदें जहाँ-तहाँ इस तरह गिरने लगीं, मानो वर्षाकाल-रूपी पुष्प के, आकाश-लक्ष्मी से बड़े प्रेम से भेंट होने पर, उसके (मोतियों के) हार टूटकर उसके मोती पृथ्वी पर गिर रहे हो । जहाँ-तहाँ धरती के भीतरसे भाँप इस प्रकार निकलने लगी, मानो (राक्षस के हाथों में) फँसकर कैद में पड़ी हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके धरती माता दुःख से पीड़ित होकर निश्वास छोड़ रही हो । आकाश में उमड़-धुमड़कर दौड़नेवाले बादलों को देखकर चातक पक्षी ऐसे फूल उठे, मानो राम-लक्ष्मण-रूपी मेघों को देखकर सुर-लोक के चातक आनंद से फूल उठे हो । मेघ के ‘घर-घर’ गर्जन के साथ लय मिलाकर मयूर कोका करते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानों मर्दल की ‘धी-धी-धूप’ की ध्वनि से लय मिलाकर नर्त्तकियाँ सगीत के साथ नृत्य कर रही हो । भयकर घोष करते हुए वज्र पर्वत के शिखरोपर इस प्रकार गिरने लगे, मानो वे यह प्रकट कर रहे हो कि राक्षसों के अगो पर राम के बाण इसी प्रकार गिरेंगे । अत्यधिक अरुण वर्ण धारण करके इंद्रगोप (वीरबहूटी) पृथ्वी पर इस प्रकार बिखर गये, मानो वे यह प्रकट करते हो कि राक्षसराज के शरीर के मांस के टुकड़े इसी प्रकार रण-भूमि में बिखर जायेंगे ।

ओले इस प्रकार पृथ्वी पर गिरने लगे, मानो रावण का सहार करते समय देवता हर्षित होकर दिव्य पुष्पो की वृष्टि करेंगे। राजहंसो का झुंड इस प्रकार धीरे-धीरे वहाँ से त्रौच-गिरि पर चले गये, मानो राम के प्रताप के कारण रावण की कीर्ति-परपरा लुप्त हो जायगी। सूर्य के चारो ओर का परिवेश ऐसा दीखने लगा, मानो उसने इस विचार से अपने चारो ओर एक सुदृढ़ प्राचीर बना लिया हो कि मेरे पुत्र सुग्रीव ने युद्ध में इन्द्र के पुत्र को मरवा डाला है, इसलिए इन्द्र मेरे ऊपर क्रोध न करे। वर्षा की धारा ऐसी दीखने लगी, मानो अघट उत्साह से आकाश-गंगा में स्नानार्थ गई हुई नाग-कन्याएँ फिर से रसातल को लौट रही हो। मेढक जहाँ-तहाँ ऐसे अद्भुत ढग से स्वर-भेद दिखाते हुए टर-टराने लगे, मानो वे उस महान् व्यक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हो, जिसने उन्हें प्रचुर मात्रा में जीवन-दान किया है। सारी धरती पर नीला पक ऐसा दीख रहा था, मानो मेघो ने वर्षाऋतु-रूपी वधू के शरीर पर कस्तूरी लपेट दी हो। जल-प्रवाह जहाँ-तहाँ के तालाबो में इस कारण से ठहर गया, मानो वह यह सोचकर डर रहा हो कि समुद्र में मिल जाने से श्रीराम के बाणो की अग्नि से तप्त होना पड़ेगा। बड़ी-बड़ी नदियों का जल इस प्रकार भँवरों में चक्कर काटता हुआ घोर शब्द करता हुआ, समुद्र में प्रवेश कर रहा था, मानो वह भयभीत हो कह रहा हो कि लोक-कंटक राक्षस को मैंने अपनी गोद में स्थान दिया है; काकुत्स्थ-वशज राम मुझे बधन में डालेंगे।

कुछ दिनों में वर्षा समाप्त हुई, आकाश में दीखनेवाले मेघ विलीन हो गये। अपनी किरणो को सारे लोको में फैलाते हुए सूर्य सर्वत्र प्रकाशमान होने लगा। पृथ्वी कीचड़ से रहित हो गई। सरोवरो में कमल सुंदर रूप से दीखने लगे। मत्त गज अपने दाँतो से टीलो को खोद-खोदकर मिट्टी उछालने लगे। रात्रि चद्रिका तथा नक्षत्रो से सुशोभित हो उठी। हंस सरोवरो में निवास करने के लिए लौट आये और मृणालो का भक्षण कर सतुष्ट हुए। ईख, लाल-लाल धान तथा पकी फसलें प्रचुर हो गईं। वृषभ-समूह गर्जन करने लगा। जल का गँदलापन दूर हो गया और वह स्वच्छ दीखने लगा तथा यात्रियो को (इससे) सुख मिलने लगा। आकाश में मेघ निर्मल दीखने लगे। जल कम हो जाने से नदियाँ पार करने योग्य हो गईं।

इसके कुछ दिन पूर्व हनुमान सूर्य-पुत्र से मिलकर कहने लगा—‘शरत्काल आ गया है; अब श्रीराम का कार्य संपन्न करना चाहिए। अतः सब वानर-राजाओ को बुला भेजो।’ तब रवि-पुत्र ने अपने सेनापति नील को बुलाकर कहा—‘विविध पर्वत, नदी तथा द्वीपो के राजाओ, वानर, लंगूर तथा रीछ-राजाओ को बुला भेजो। जो नहीं आवे, उसे भी आदेश भेजकर बुला लेना।’

यहाँ राम ने अनुज की सहायता तथा सात्वना प्राप्त करते हुए, दुख से पीड़ित होते हुए जैसे-तैसे वर्षाकाल को समाप्त किया। शरत्काल का आगमन होते ही कोमलांगी सीता का स्मरण-मात्र से उनके मन में विविध इच्छाएँ उत्पन्न हुईं। मदनानुर हो वे भ्रमित मन से उदयाद्रि पर स्थित उडुपति को देखकर कहने लगे—‘यह कैसा उत्पात है? यह कैसी रीति है? रात्रि के समय सूर्योदय क्यों हुआ? मेरे शरीर का ताप दुगुना हो

सुग्रीव ने शकाकुल चित्त से अपने मन्त्रियों को बुलाकर कहा—‘क्या कारण है कि सौमित्र मित्रता छोड़कर इस प्रकार आ गये हैं ? मेरे जाने, मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ है ।’ इस प्रकार दुविधा में पड़े सुग्रीव को देखकर हनुमान् ने कहा—‘‘राम ने उस महेन्द्रसुत वालि का युद्ध में सहार करके तुम्हें कपियों का राज्य दिया था । ऐसे राम के कार्य को भुलाकर तुम इस प्रकार भोग-विलास में निमग्न रहते हो ? क्या यह उचित है ? इसमें कोई सदेह नहीं कि इसी कारण से सौमित्र यहाँ उग्र रूप धारण करके आये होंगे । ऐसे वीर को द्वार पर ही खड़ा रखना उचित नहीं । लोकवच उस महात्मा का स्वागत करो, उनकी सेवा करो, राम के कार्य का विचार करो और अपना वचन पूरा करो ।’’

इन बातों को सुनकर सूर्य-पुत्र ने रामानुज को लिवा लाने का आदेश दिया । तब लक्ष्मण ने स्वर्ण-नोपुरों के हर्म्य-समूह, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित चित्रों का कला-कौशल, कैलास पर्वत के समान दीखनेवाले सौध, मध्यभाग में निर्मित क्रीडा-सरोवरों से युक्त उपवन देव-गवर्धन के अवतार, वानरों के आवास आदि से पूर्ण उस नगर में प्रवेश किया और वहाँ की अनुपम वस्तुओं की उत्कृष्टता पर आश्चर्य प्रकट करते हुए, इन्द्र के गृह की समता रखनेवाले वानरराज के प्रासाद में प्रवेश किया । वहाँ पहुँचकर उन्होंने उमड़ते हुए क्रोध से, अप्सराओं का सौंदर्य देखा और सुंदर स्त्रियों का सिंगघ संगीत, उनकी वीणा, वेणु एव मृदंगों की ध्वनि, तथा उनके गहनो की मधुर ध्वनि सुनी । वे यम के समान अत्यधिक क्रुद्ध होकर अतपुर के द्वार पर आकर खड़े हुए ।

उनके आगमन का वृत्तांत सुनकर, सुग्रीव अकेले ही न आकर, तारा को भी अपने साथ लिये हुए शीघ्र वहाँ आया । अत्यधिक भय के साथ उनका क्रोध तथा उनका रूप देखकर बड़ी भक्ति से उनके चरणों पर गिरकर उचित अर्घ्य-पाद्य देने का उपक्रम किया । इतन में ही उसे देखकर लक्ष्मण गरज उठे—‘हे रामद्रोही, हे कृतघ्न, क्या यह उचित है कि तुम मरी पूजा-अर्चना करो । तुमने सत्यात्मा जानकीनाथ को वचन दिया था कि वर्षा-काल के समाप्त होते ही आऊँगा । किन्तु, तुम नहीं आये । तुमने अपने वचन का भंग किया । रघुराम की आज्ञा का तुमने विचार नहीं किया । तुम पशुबुद्धिवाले हो । राम को जिस शर ने वालि का वध किया था, वह कालाग्नि उगल रहा है । वह तुम्हारा सर्वनाश किये बिना नहीं रहेगा । हे नीच वनचर, मूर्ख बनकर तुम स्वयं अपना नाश कर रहे हो ।’

तब तारा ने अत्यंत भयभीत होकर कहा—‘हे अनघ, यह सूर्य-पुत्र आपका दास है । यह राज्य-संपत्ति, यह ऐश्वर्य आप ही कं दिये हुए है । ये रविसुत आपके ही लगाये हुए पौधे के समाव हैं । ये सूर्य-पुत्र, रणविशारद राम की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, सो बात नहीं है । इस कार्तिक-पूर्णिमा तक सारी कपि-सेना को एकत्र करने के लिए उन्होंने सेनापति नील को भेज दिया है और स्वयं युद्ध में जाने के लिए सन्नद्ध होकर बैठे हैं । ये न राम-द्रोही हैं, न असत्यभाषी, न कृतघ्न ही हैं । अतः आप इनपर कृपा कीजिए ।’

इन बातों को सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शान्त हुआ और उन्होंने सुग्रीव की पूजा-अर्चना स्वीकार की । उसके पश्चात् सुग्रीव ने राजकुमार को एक स्वर्ण-पीठ पर आसीन

कराया और उनकी आज्ञा लेकर मृदु-मधुर वचन कहने लगा—‘हूँ सौमित्र, क्या मैं प्रभु राघव के कार्य का विस्मरण करूँगा । मैं अभी सभी वानरो को एकत्र करूँगा और वैदेही के अन्वेषण के लिए सभी दिशाओं में आदमी भेजूँगा । चलिए, मैं अभी आपके पीछे-पीछे चलता हूँ । जिस शर से बालि पृथ्वी पर गिरा, जिस शर से सातो ताल-वृक्ष पृथ्वी पर गिरे, वही शर सभी दानवों का नाश करने के लिए तथा साध्वी को मुक्त करने के लिए पर्याप्त है । फिर भी मैं अत्यंत भक्ति के साथ प्रभु राम की सेवा करूँगा और यश प्राप्त करूँगा ।’

१३. सुग्रीव का माल्यगंत पर पहुँचना

इतना कहकर सुग्रीव ने नीतिवान् हनुमान् को देखकर कहा—‘अब विलंब करना उचित नहीं है । वचन-पालन के निमित्त यत्न करो । हमारे राज्य के सभी वानरो को सूचित करके, उनको रवाना करने का प्रयत्न करो । अब हमें प्रभु राम के दर्शनार्थ जाना है ।’ यो कहकर अत्यधिक उत्साह से सूर्यनदन ने तारा आदि पत्नियों को विदा किया और सब दिशाओं में रहनेवाले वानर-सेनापतियों को बुलाकर, उन्हें प्रस्थान करने की आज्ञा दी ।

उस समय प्रस्थान की भेरी की जो ध्वनि हुई, वह पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं की विदीर्ण करने लगी । सुग्रीव ने स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित एक रम्य शिविका में लक्ष्मण को बड़े आदर के साथ बिठाया, श्वेत छत्र तथा चामर उस महात्मा के निकट सजाये, और स्वयं एक शिविका पर आरूढ होकर लक्ष्मण के पीछे-पीछे चला । (लक्ष्मण के) आगे मंगल-वाद्य बज रहे थे और वदी-मागधों की स्तुतियों की गभीर ध्वनि हो रही थी । कपियों के नेता आ-आकर सुग्रीव के दर्शन कर रहे थे । नक्षत्रों के मध्य में विलसित होनेवाले चन्द्र के समान वह सुग्रीव, सभी वानर-वीरों की सेना को साथ लिये हुए, समस्त पृथ्वी को कँपाते हुए, लक्ष्मण की सेवा में निरंत होकर वहाँ से चला ।

माल्यवत पर रामचन्द्र ने जब सेना का कोलाहल सुना, तब मन-ही-मन कहने लगे—‘लो कपि-सेना आ गई ।’ अब उनका क्रोध शान्त हुआ और रवि-पुत्र के प्रति उनका हृदय क्रोमल बन गया । सुग्रीव कुछ दूर पर ही सुदर तथा स्वर्ण-मणिमय शिविका से उतरकर, सौमित्र के साथ राम के पास आया और बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर राम से कहा—‘हे देव, सेनाओं को एकत्र करने में मैंने अपने वीरों को भेजा था । उनके एकत्र होते-होते इतना समय लग गया है । इसलिए आपके यहाँ आने में विलंब हुआ, अन्य किसी कारण से नहीं ।’ तब राम ने सुग्रीव को कृपा की दृष्टि से देखकर उसको आदर से अपनाया ।

तब कैलास-पर्वत, मेरु-पर्वत, नीलाचल, निषधाद्रि, द्रोणाचल, ऋक्षाद्रि, पारियात्र, उदयाद्रि, रत्नगिरि, अस्ताद्रि, मलयाचल, मथाद्रि आदि पर्वतों पर रहनेवाले महान् बाहुबली (वानर), पवनसुत (हनुमान्), पनस, अगद, गवय, नील, गधमादन, पावकाक्ष, कालपाश, ग्रधन, वेगदर्शी, गवाक्ष, नल, मैन्द, महानाथ, धूम, जघ, गिरिभेदी, सुमुख, केसरी, ज्योतिर्मुख, विमुख, तार, विनत, गज, जाबवान्, संपाति, रंभ, समुद्र-पुत्र सुषेण, शतबली, शरभ, सन्नाथ

आदि श्रेष्ठ वीर अपने पुत्र, मित्र, सहोदर, तथा सगे-सबधी सब एकत्र होकर क्रमशः दस, सौ, सहस्र, लाख, करोड़, सौ करोड़, पक्ष, महापक्ष और अंत में शत्रु की सख्या में ऐसे आ जुटे, मानो धरती ने ही इन सबको उत्पन्न कर दिया हो। जिस दिशा में देखें, कपि-ही-कपि दीखते थे। उन कपियों का समूह पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त था। अति-भयकर काल-दड के समान दीखनेवाले भुज-दड, सब दिशाओं में व्याप्त होनेवाली बडवानल की अग्नि-शिखाओं के समान आकाश से टकरानेवाले लागूल, प्रलयकाल के मेघों की काति (बिजली) के सदृश दीखनेवाले भयकर दष्ट, प्रलय-काल के सूर्यबिंब की समता करनेवाले मुँह के गह्वर, चंचल समुद्र के विपुल कल्लोलों के घोष के समान सुनाई पड़नेवाले गर्जन आदि से युक्त वानर-सेना को लिये हुए आनेवाले वानर-राजाओं को देखकर राम मन-ही-मन आश्चर्य करते हुए प्रसन्न हुए।

तब सुग्रीव ने राम को देखकर कहा—‘हे देव, मेरी सेना के आगमन की रीति आपने देखी? इतमें प्रत्येक बड़े यत्न से आपका कार्य साधने की क्षमता रखता है।’ यो कहकर उसने उनकी शक्ति, उनके नाम, उनके जन्म-वृत्तांत, उनकी जाति, उनका सामर्थ्य, उनके रंग-ढंग, उनके भोजन तथा निवास आदि का समग्र वर्णन करके कहा—‘हे देव, इन वानर-राजाओं में प्रत्येक आपकी पत्नी वैदेही को लाने की क्षमता रखता है। आप आज्ञा दें।’ तब राम ने सूर्य-पुत्र को बड़े आदर से गले लगाया और कहा—‘हे भानु-पुत्र, बल-संपत्ति में तुम्हारे लिए कोई भी अलभ्य नहीं है। तुम्हारे पौष को देखकर ही तो मैंने तुम्हें अपनाया था? अब तुम वैदेही का पता लगाने के लिए (अपने वीरों को) भेजो।’

१४. सीता के अन्वेषण के लिए सुग्रीव का वानरों को भेजना

एक शुभ मुहूर्त में सुग्रीव ने ‘विनत’ नामक एक वानर वीर को देखकर कहा—‘तुम अपनी सेना को साथ लेकर बड़ी सावधानी के साथ, पूर्व दिशा की ओर सीता की खोज में जाओ। तुम पहले यमुना नदी के तट पर तथा यमुना गिरि में उनको ढूँढो और उसके पश्चात् गंगा नदी तथा शोण नदी के आसपास ढूँढो। वहाँ से निकलकर कौशिकी, और सरस्वती नदियों में देखो। फिर समुद्र में ढूँढो और पौण्ड्र तथा विदेह के प्रदेशों में सीता का अन्वेषण करो। वहाँ से तुम मालव, कोसल, मगध, ब्रह्म देश, आदि में भी मैथिली की खोज करना। तदनंतर समुद्र के तटों पर देखते हुए मंदर पर्वत पर चले जाना और वहाँ के किरातों के निवास-स्थानों में उनकी खोज करते हुए तत्परता के साथ यव-द्वीप तथा ब्रह्मद्वीप को पार करके शिशिराद्रि पर पहुँच जाना। वहाँ कालोद नामक सरोवर के तट पर ढूँढ़ना। तदनंतर लोहित समुद्र पार करके शाल्मलि वृक्ष की छाया में उन्हें ढूँढ़ना। वहाँ से गण्डाश्रम में जाना। फिर गोश्रुग पर्वत पर ढूँढ़कर, उस पर्वत के शिखरों पर रहनेवाले मदमत्त राक्षसों के मध्य सीताजी का अन्वेषण करना। उसके पश्चात् क्षीर सागर को सहज ही पार करके सुदर्शन नामक पर्वत पर उन्हें ढूँढ़ना। वहाँ से निकलकर शुद्धार्णव पार करना और महानुजात-रूप शिलाद्रि में सीताजी का अन्वेषण करना। वहाँ तुम सुहृद् सिरोवाने, इडुवर्ण (आदि शेष को) बैठे हुए देखोगे। उनको प्रणाम करना और

वहाँ से चौदह योजन से अधिक की दूरी पर स्थित मेरु पर्वत पर ढूँढना । उस मेरु पर्वत के चारो ओर चक्कर काटनेवाले सूर्य के चरणों में वन्दना करना और उसी प्रकार बाल-खिल्य आदि को भी प्रणाम करना । उसके पश्चात् उदयाद्रि में भी सीताजी का अन्वेषण करके रावण के निवास का पता लगाकर हमें समाचार देना । (उदयाद्रि के) उस पार की भूमि पर रवि का प्रकाश न पडने के कारण, वहाँ सदा अधकार व्याप्त रहता है । अतः मैं वहाँ के प्रदेशों के संबन्ध में नहीं जानता । तुम तुरन्त यहाँ से प्रस्थान करो और एक मास के भीतर वापस लौट आओ । ऐसा न करने से तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा ।'

तब विनत ने बालि के भाई सूर्य-पुत्र को अत्यन्त विनम्र ढींकर प्रणाम किया और एक लाख वानरो को साथ लेकर पूर्व की दिशा में प्रस्थान कर गया । इसके पश्चात् सूर्य-पुत्र ने सुशीर, नील, हनुमान्, अगद, जाबवान्, गज, गधमादन, गवाक्ष, विजय, मैन्द, द्विविद और तार आदि वानरों को बुलाकर कहा—'अब तुम योग्य वानरों को साथ लेकर शीघ्र दक्षिण दिशा में चल पडो । विध्याचल से प्रारंभ करके तुम नर्मदा तथा दशार्ण नगर में ढूँढना । फिर दण्डकवन में अवश्य उनकी खोज करना । वहाँ से चलकर गोदावरी के तट पर ढूँढना, फिर वेत्रवती के निकट देखना । तदनंतर तुम कलिंग तथा निषध देशों में अन्वेषण करना । फिर कर्णाटक, आंध्र, चोल, चेर, केरल, तथा पाण्ड्य देशों में ढूँढना । तत्पश्चात् मलय-पर्वत तथा कावेरी के किनारे देखना; फिर अगस्त्य के आश्रम में जाना और उस महात्मा की आज्ञा प्राप्त करके ताम्रपर्णी नदी को पार करना । उसके बाद समुद्र के तट पर स्थित वनों में ढूँढना, और फिर स्वर्णपुरी में उनकी खोज करना । वहाँ से बड़ी तत्परता से महेन्द्र पर्वत पर जाकर देखना, उसके उस पार रहनेवाले विषमाद्रि में ढूँढना; फिर पुष्पाद्रि में देखना और क्रेव कुजर नामक पहाड पर अन्वेषण करना । वहाँ विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अगस्त्य का आश्रम है । वहाँ भी सीता को ढूँढना । उसके पश्चात् अजना नदी को पार करना । अजना नदी के उस पार भोगवती नामक नगर है, जो मणियों से पूर्ण तथा फणियों से रक्षित है । तुम अवश्य उस नगर में प्रवेश करके वहाँ सीता का अन्वेषण करना । वहाँ से चलकर तुम वृषभाद्रि पर जाना । उस पर्वत पर गधर्व, अप्सराएँ तथा सुर रहते हैं । वहाँ भी तुम सीताजी को ढूँढना और विना विचलित हुए वैतरणी पार करके वैवस्वत नगर में चले जाना । वहाँ यम की अनुमति प्राप्त करके समस्त पितृ-लोक में सीताजी की खोज करना और उनका समाचार जानकर एक महीने के भीतर अवश्य लौट आना । वैवस्वत नगर के उस पार का प्रदेश अधकारानृत है । वहाँ देवता भी नहीं जा सकते ।

१५. हनुमान् को सूत्रिका देना

तब वे सब कपिश्रेष्ठ, आनद के समुद्र में गोते लगाते हुए, सूर्य के तेज से भी अधिक दीप्तिमान् राम-भूपति को अपनी शक्ति का परिचय देते हुए कहने लगे—'हे राजन्, किसी भी प्रकार से क्यों न हो, हम जानकी का पता लगाये विना वापस नहीं लौटेंगे । तब राम, भावी कार्यों का निश्चय करते हुए बड़ी कृपापूर्ण दृष्टि से हनुमान् की ओर देखकर तथा उन्हें अपने निकट बुलाकर कहा—'हे पवनसुत, तुम मेरे निकट आओ । तब

अवश्य ही जानकी को देख सकोगे । हे अनघ, तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि होगी । तुम कार्य करने की शक्ति रखते हो । तुम्हारा बाहुबल भी वैसा है । यह मेरी मुद्रिका लो । इसे सीता को देना और उस रमणी के चित्त का दुःख दूर करना । सीता से हमारे कुशल-समाचार कहना और उसका कुशल सुनाने के लिए तुम शीघ्र यहाँ लौट आना ।' इस प्रकार कहकर राम ने अगूठी हनुमान् को दी, तो उसने उसे अपने सिर पर इस प्रकार रख लिया, मानो उदायाचल ने अपने शिखर पर सूर्य को धारण कर लिया हो ।

तब हनुमान् अत्यधिक हर्ष से उछल पड़ा और हाथ जोड़कर बोला—'हे सूर्य-कुल के अधीश्वर, चाहे जितनी भी दूर जाना पड़े, मैं अवश्य जाकर सीताजी का पता लगाकर आऊँगा । आवश्यकता हुई तो सूर्य तथा चन्द्र को भी रोककर पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में भी प्रवेश करके सीता की खोज करूँगा । रावण के निवास में इस प्रकार प्रविष्ट होऊँगा कि मेरी अनुपम शक्ति की सब लोग प्रशंसा करेंगे । अब मैं जाता हूँ ।' ऐसा कहकर वायु-पुत्र ने अगद आदि के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया ।

उसके पश्चात् वानरेश्वर ने सुषेण से कहा—'तुम एक लाख वानरो को साथ लेकर सौराष्ट्र में जाकर वहाँ सीताजी का अन्वेषण करो । वहाँ से निकलकर धैर्य के साथ वाह्लीक देश में प्रवेश करो और वहाँ ढूँढने के पश्चात् श्रीसप्त सिंधु, सौवीर, तथा कैकय देश में जाकर देखो । तत्पश्चात् अच्छी तरह पुन्नाग वन में ढूँढो और पश्चिमी सागर में ढूँढो । तदनंतर ललित नारिकेल वनो में देखो और विना क्लान्त हुए वज्राद्रि पर पहुँच जाओ । वहाँ से निकलकर पारियात्रक (पर्वत के) वन में पहुँचो और वहाँ रहनेवाले गधर्वों का परिचय प्राप्त करके सीताजी का अन्वेषण करो । उसके पश्चात् तुम उस चक्रवन्त पर्वत पर चले जाओ, जहाँ विष्णु ने ह्यग्रीव तथा पचजन्य नामक राक्षसों का वध करके शस्त्र तथा चक्र प्राप्त किये थे । वहाँ से तुम मेघाद्रि पर चले जाना और वहाँ पर स्थित साठ कचनाद्रियों में सीताजी को ढूँढना । फिर जिस स्थान पर सूर्य अस्त होता है, उस अस्ताद्रि में जाकर सौवर्ण नामक पर्वत पर ढूँढो और फिर वरुण की राजधानी में देखो । तदनंतर वहाँ पर रहनेवाले मेघ सावर्णि नामक मुनि के दर्शन करके एक महीने के अंदर सीताजी का समाचार लेकर वापस आओ । उसके बाद की पृथ्वी सूर्य-रहित तथा सीमाहीन होने के कारण, मैं उसके संबन्ध में कुछ नहीं जानता ।' इस आदेश को मानकर सुषेण पश्चिम की ओर चल पड़ा ।

फिर सूर्य-पुत्र ने शतबली को बुलाकर कहा—'तुम एक लाख सैनिकों को लेकर पुलिंदो के देश में प्रवेश कर वहाँ सीताजी को ढूँढो । फिर शौरसेन प्रदेश में देखो और वहाँ से समस्त भरत भूमि में ढूँढते हुए यवनराजा के देशों में जाओ । वहाँ ढूँढकर, कामोज तथा कोंकण प्रदेशों को देखते हुए हेमंत पर्वत पर चले जाओ । वहाँ के सोमाश्रमों में ढूँढकर, श्रीसमन्वित कालाख्य शिखर पर पहुँच जाओ । वहाँ देखने के पश्चात् तुम सुदर्शन नामक पर्वत पर ढूँढो और फिर कनकाद्रि पर पहुँच जाओ । वहाँ से कैलास पर्वत पर चले जाओ और कौबेर वन में देखो । फिर कुबेर के नगर में तथा उसके सरोवर के तट पर देखो । उसके पश्चात् कुबेर की आज्ञा प्राप्त करके त्रौचाद्रि में जाकर सीताजी का अन्वेषण करो ।

वहाँ से मेनाक पर्वत पर पहुँच जाओ और वहाँ वैश्वानस नामक सरोवर में ढूँढो । उस सरोवर के पात्र जो शैलोदया नामक नदी बहती है, उसे लौंघकर उत्तर कुम्भूमि में अन्वेषण करो । उन प्रदेशों में गधर्व तथा अप्सराएँ अपनी इच्छा से विचरण करती रहती हैं । उन प्रदेशों में तुम सीताजी का अन्वेषण करो और वहाँ न ठहरकर उत्तर समुद्र को पार करके सोमाद्रि पर पहुँच जाओ । जहाँ ब्रह्मा तथा शिव अविचल समाधि में रहते हैं । तब तुम वहाँ से लौटकर एक महीने में समाचार ले आओ ।' इस आदेश के अनुसार शतबली रामचन्द्र की आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पडा ।

उसके पश्चात् रघुराम ने सूर्य-पुत्र को देखकर कहा—'हे सुग्रीव, तुमने इन सब प्रदेशों को कब देखा ?' तब सुग्रीव ने कहा—'हे देव, जिस दिन मैं बालि से भयभीत होकर भागा था और बालि मेरा पीछा करने लगा था, उस दिन मैंने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटकर इन सब प्रदेशों को देखा था ।'

इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए । राम की आज्ञा के अनुसार पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं में गये हुए वानर सीता का अन्वेषण करते हुए पृथ्वी के उस भाग तक गये, जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती हैं और वहाँ से लौटकर राम से निवेदन किया कि हम कहीं भी सीताजी का पता नहीं लगा सके । तब राम तथा सुग्रीव बड़ी उत्कण्ठा से प्रतीक्षा करते हुए सोचते रहे कि न जाने अगद आदि वानर-त्रीर क्या समाचार लायेंगे ।

अगद आदि वानर-त्रीर एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए बड़े हर्ष के साथ अपनी शक्ति तथा प्रताप का प्रदर्शन करने हुए, सुग्रीव के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए, पहले विंध्याचल पर गये । वहाँ की गुफाओं तथा वनों में उन्होंने सीताजी को ढूँढा । वहाँ से वे दक्षिण की ओर चले । मार्ग में पड़नेवाली पुष्प-लता-समूहों में, पेड़ों में, नदियों में पहाड़ों में, तथा नगरों में सीताजी को ढूँढते हुए, वे आगे बढ़ते जाते थे । किन्तु कहीं भी सीता का पता न लगने से वे बहुत चिंतित थे । वे उस वन में से होकर जाने लगे, जो महामुनि कंडु की शापाग्नि से निर्जन, छायाहीन तथा जल-रहित हो गया था । अपने दस वर्ष की अवस्था के पुत्र की मृत्यु के तीव्र दुःख से अभिभूत होकर कंडु मुनि ने अपने शाप से उस वन को ऐसा बना दिया था ।

१६. महर्षि कंडु के आश्रम में

वानर अत्यंत क्लान्त हो, पानी ढूँढते हुए उस वन में फिर रहे थे । तब एक राक्षस ने उनका मार्ग रोककर भयकर गर्जन करके कहा—'मेरे हाथों मरे बिना अब तुम कहीं जाओगे ? तब अगद ने क्रुद्ध होकर उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस मुँह से रक्त उगलते हुए पृथ्वी पर गिर पडा । तब सब वानर थककर एक महान् वृक्ष की छाया में बैठ गये और प्यास से व्याकुल होते हुए सोचने लगे कि यहाँ जल कहाँ मिलेगा ? वहाँ उन्होंने एक गुफा के द्वार से कुछ जल-पक्षियों को उड़ते हुए देखा और निश्चय किया कि अवश्य वहाँ जल मिल सकता है । यों सोचकर उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया । गुफा में अंधकार व्याप्त रहने के कारण उन्हें मार्ग न दीखता था । फिर भी धैर्य के साथ, एक दूसरे का आधार लेते हुए वे आगे बढ़ते गये । कुछ दूर जाने पर मार्ग का अंधकार

दूर हो गया और वहाँ उन्होंने ससार-भर में अद्भुत तथा अनुपम नगर देखा । वे खड़े होकर उस नगर के स्वर्ण-गोपुरो, स्वर्ण-सौधो, स्वर्ण-अट्टालिकाओ, स्वर्ण-दुर्गो, स्वर्ण-वृक्षो तथा स्वर्ण के पुष्प-लता-समूहो के देखकर आश्चर्यचकित हो गये । वे सोचने लगे— 'यह कितने आश्चर्य की बात है । ऐसे ऐश्वर्य से परिपूर्ण यह नगर जन-रहित क्यों है ? यह नगर ऐसा क्यों बन गया ? उनकी समझ में नहीं आता था कि उस नगर से बाहर कैसे निकला जाय । चिन्ता में पड़े हुए वे कुछ देर तक वही भटकते रहे । एक दिन उन्होंने उस नगर के मध्य में स्थित सब सौधो में श्रेष्ठ, एक गगनचुबी सौध को देखा । तुरत सभी वानर उस सौध पर चढ़ गये और वहाँ मृगछाला पहनी हुई, तरुण इन्द्र की कात्ति के समान दीप्त एक पुण्यात्मा स्त्री को तपस्या में निरत देखा । हनुमान् ने उसे प्रणाम किया और अकलक मन से कहा—'हे साध्वी, तुम कौन हो ? अकेली यहाँ किस कारण से तपस्या में लीन रहती हो ? यह पुण्य नगर किस महात्मा का है ? हमने तो ऐसा अनोखा नगर कहीं भी नहीं देखा ।'

१७. स्वयंप्रभा का सत्कार

तब वह कोमलांगी, हनुमान् को देखकर अपना पूर्व वृत्तात यो कहने लगी—'पूर्व-काल में मय नामक राक्षस राजा ने ब्रह्मा की बड़ी तपस्या की और वास्तु-कला में अद्भुत कुशलता प्राप्त की । तत्पश्चात् उसने यह नगर बनाया और हेमा नामक एक दिव्य रमणी के साथ बहुत वर्ष तक अबाध गति से यहाँ जीवन व्यतीत करता रहा । अमरवल्लभ (इन्द्र) वज्रायुध से उस राक्षस राजा का वध करके उसकी स्त्री को उठा ले गया । उसी चञ्चल नेत्रवाली (देव-स्त्री) की मैं सखी हूँ । मेरे पति महान् आत्मा सौवर्णी है । मेरा नाम स्वयंप्रभा है और उस देव-स्त्री की आज्ञा से तप में निरत होकर मैं यहाँ रहती हूँ ।' इतना कहकर उसने कद-मूल-फल दकर सब वानरो का सत्कार किया, जल देकर उनकी प्यास बुझाई और फिर पूछने लगी—'हे अनघ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आये हो ? यहाँ पहुँचना देवताओ के लिए भी कठिन है । तुम लोग यहाँ किस प्रकार आये ?'

तब हनुमान् ने उस स्त्री से कहा—'हे साध्वी, अपने पिता की आज्ञा से जब राम मुनि-वेश धारण कर दण्डक-वन में निवास करते थे, तब उनकी पत्नी कमलाक्षी सीता को (रावण) चुरा ले गया । राम की आज्ञा से हम उनके (सीता के) अन्वेषण में निकले हैं । मार्ग में प्यास के कारण अत्यन्त क्लान्त हो हमने एक गुफा में प्रवेश किया और उस गुफा के अधकार से विचलित न होकर हम आगे बढ़ते गये और सयोग से तुम्हारे इस आश्रम में आ पहुँचे । यहाँ से निकलकर जाने का मार्ग न जानकर विवश हो हम कई दिनों से यही भटक रहे हैं ।'

तब उसने बड़ी भक्ति से उन्हें देखकर कहा—'तुम लोग राम के कार्य के लिए आये हो । तुम पुण्यात्मा हो । तुम लोग जो चाहो, सो मुझ से माँगो ।' तब उन्होंने कहा—'तुम हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बताओ । हम शीघ्र यहाँ से सीता के अन्वेषण में जाना चाहते हैं ।' तब उस स्त्री ने अत्यन्त आनन्द से कहा—'तुम सब अपनी आँखें बंद कर लो ।' उसके पश्चात् वह अपनी तपस्या की शक्ति से सहज ही एक क्षण-मात्र में उन्हें

गुफा के बाहर पहुँचा दिया और स्वयं फिर उस गुफा में चली गई। सभी वानर-पुंगव उस स्त्री की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़े। वे श्रेष्ठ वीर-वानर, मार्ग में पड़नेवाले एक विशाल सरोवर में जल पीकर फिर महेन्द्राद्रि पर पहुँचे।

१८. वानरों की व्याकुलता

तब अगद इस प्रकार दुःख करने लगा—‘सूर्य-पुत्र की दी हुई अवधि समाप्त हो गई’, किन्तु अबतक सूर्यवशी (राम) की पत्नी का पता हम नहीं लगा सके। आज्ञा-पालन को विशेष महत्त्व देनेवाले सुग्रीव, यह कहकर हमारा वध कर देंगे कि इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए कपिराज के दर्शनार्थ हमारा जाना उचित नहीं है। हम जिस गुफा से अभी बाहर आये, उसी में प्रवेश करके, वही सुख से रहेंगे। वहाँ का मार्ग अष्ट-दिक्पालों के लिए भी अभेद्य है। वहाँ के वन विविध प्रकार के फले हुए फलों से भरे हुए हैं। वहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर पायेगा।’ कुछ वानरों ने अंगद की बातों का समर्थन किया।

तब मासति ने क्रुद्ध होकर कहा—‘तुम बड़े बुद्धिमान् हो। काका की आज्ञा से बड़े वीर के समान राम का कार्य करने चले। अब चल-चित्त हो कपियों के साथ उस गुफा में प्रवेश करने का जो प्रस्ताव तुम करते हो, क्या यह सूर्य-पुत्र की आज्ञा का तिरस्कार नहीं हुआ? मै, नील, तार और नल—चारों इसके लिए किसी भी प्रकार सहमत नहीं हो सकते। अन्य वानर भी अपने सगे-संबंधियों को छोड़कर तुम्हारी सेवा में नहीं रह सकेंगे। इतना ही नहीं, पूर्वकाल में इन्द्र ने अपने वज्र के आघात से उस गुफा का निर्माण किया था। लक्ष्मण के पास उनके वज्र की समता करनेवाले पैने अस्त्रों की कमी नहीं है। क्या वे बात-की-बात में तुम्हें और तुम्हारे सैनिक-बल का सर्वनाश नहीं कर देंगे? इसलिए यह दुर्बुद्धि छोड़ दो। हम सूर्य-पुत्र की सेवा में पहुँचकर कहेंगे कि हम सीता को नहीं देख सके। वं तुम्हें और हमें अवश्य ही क्षमा करेंगे। सौजन्य के कारण मुझ पर, और तुम्हारी माता पर अनुरक्त होने के कारण तुम पर, वे क्रोध नहीं करेंगे। तुम उनके पुत्र हो, इसलिए वे तुमको ही राज्य देंगे।’

तब बालि-पुत्र ने कहा—‘मेरे काका पितृ-तुल्य बालि का वध कराके, उनकी स्त्री के साथ विवाह करके, उपकार करनेवाले राम के कार्य को भूलकर, भोग-विलास में निमग्न रहे। लक्ष्मण के क्रोध करने पर ही तो वे राम के पास आये। क्या, तुम उनका नीच व्यवहार नहीं जानते? ऐसे कृतघ्न तथा कामाध का विश्वास कैसे किया जाय? इतना ही क्यों? श्रीराम का कार्य किये बिना वहाँ पहुँचकर उस रवि-पुत्र के हाथों मरने की अपेक्षा यही मर जाना अच्छा है। अब प्रायोपवेश के लिए तत्पर हो जाओ।’

ऐसा कहकर अगद तथा अन्य कपि दर्भ-शय्या पर लेट गये। अपना प्रयत्न विफल होने से वे मन-ही-मन दुःखी होने लगे। प्रायोपवेश करते रहने से तथा मानसिक पीड़ा से परितप्त होते रहने से वे बहुत ही निर्बल हो गये। कभी वे उठकर बैठते, कभी लेट जाते, कभी चारों दिशाओं में शून्य दृष्टियों से देखते, कभी अपने पुत्र तथा सगे-संबंधियों का स्मरण करते और कहते—‘हे भगवान्, आप इस प्रकार हमारे प्राण क्यों लेना चाहते हैं?’

फिर सभी वानर अलग-अलग समूहों में एकत्र होकर आपस में कहते—‘हाय ! सूर्यकुलसभ (राम) वन में आये ही क्यों ? अपनी पत्नी को राक्षसों के हाथ में खोया ही क्यों ? उस राक्षस ने जटायु का वध ही क्यों किया ? राम ने उसको देखा ही क्यों ? उस जटायु ने सीता का समाचार उनसे कहा ही क्यों ? राम पपा सरोवर के तट पर आये ही क्यों ? वहाँ उन्होंने मुश्रिव से भेंट ही क्यों की ? सुश्रिव उनके मित्र ही क्यों बने ? राजकुमार ने वालि का वध की क्यों किया ? इननी बड़ी कपि-सेना एकत्र ही क्यों हुई ? सूर्य-पुत्र ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों ? हमारी ऐसी दुर्गति ही क्यों हुई ? हमारे प्राण व्यर्थ क्यों जायें ? हाय, कैकेयी के वर ने सूर्यवंश के साथ ही हमारे वश का भी सर्वनाश कर दिया ।’ इस प्रकार सभी वानर विलाप करने लगे ।

१९. संपाति से भेंट

तब एक विशालकाय, यौवन तथा पखों से हीन एव अत्यंत वृद्ध संपाति नामक पक्षिराज उस पहाड़ की गुफा से बाहर निकला और मृत्यु की इच्छा करते हुए धरती पर पड़े हुए वानर-समूह को देखकर धीरे-धीरे उनके समीप आया । वह सोचने लगा कि भगवान् ने बड़ी कृपा करके मुझे आहरण भेजा है । उसे देखकर सभी चपल वानर अपने निश्चय पर पश्चात्ताप करने लगे । तब अगद ने हनुमान् से कहा—‘यह पक्षी नहीं है । स्वयं यम निर्दयी होकर हमारे प्राण लेने के लिए इस रूप में आया है । उस दिन जटायु न, राम की पत्नी को चुराकर ले जानेवाले रावण के साथ युद्ध करके उसके प्रखर खड्ग के प्रहार से मृत्यु प्राप्त की और फलतः सहज ही स्वर्ग का लाभ कर लिया । अब राम के कार्य के लिए आये हुए हम भी इस महापक्षी के हाथों में अपने प्राण खो दें, तो अच्छा ही होगा ।’ उनकी बातों को सुनते ही अरुण-पुत्र (संपाति) का कठ शोक से गदगद हो गया । वह उन कपि-वीरों के निकट जाकर पूछने लगा—‘हे वानरो, तुम कहाँ से आये हो ? वह जटायु मेरा प्रिय अनुज है । हम दोनों अरुण के पुत्र हैं । वह पौने तथा भयकर नखवाला, गुफा के समान मुखवाला, दशरथ का मित्र, सतत सुखी मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ ?’ तब वालि-पुत्र ने उसे सारा समाचार कह सुनाया । उस समाचार को सुनकर संपाति अत्यधिक शोक से सतप्त हुआ । दुःखी होनेवाले उस पक्षी को वानरों ने उठाकर समीप ही रहनेवाले समुद्र के पास पहुँचा दिया, तो उसने समुद्र में स्नान किया और उसके पश्चात् बड़े दुःख से पीड़ित होते हुए अपनी पूर्व-कथा उन वानरों से कहने लगा ।

उसने कहा—‘मैं और जटायु, हम दोनों किम्बी समय कैलास पर्वत पर एक साथ रहते थे । अपने यौवन तथा शक्ति के गर्व में प्रेरित होकर एक दिन प्रभात के समय हम दोनों साथ-साथ आकाश में उड़ते-उड़ते बहुत दूर चले गये । मध्याह्न के समय हम सूर्य-मंडल के समीप पहुँचे । जटायु सूर्य की किरणों के लगने से जलने लगा । तब मैंने उसे अपने पंखों के नीचे छिपा लिया । तब मेरे पंख भी जल गये । पंखों के जल जाने से, अपनी सारी शक्ति खोकर, मैं इस आश्रम-भूमि में गिर पड़ा । पता नहीं, जटायु कहाँ चला गया । तुम जोगी मे यह समाचार सुनकर भी मैं आज चुप बैठता हुआ हूँ । यदि पहले की तरह मेरे पंख होते, तो मैं अपनी शक्ति से अपने भाई का प्रतिशोध लेता और राम

के पास पहुँचकर उनमें अपने पोष्य की प्रशंसा प्राप्त करना । लेकिन अब उन बातों से क्या प्रयोजन है ?'

तब जांबवान् ने हनुमान् तथा अगद को अत्यन्त हर्षित करने हुए उस पक्षी से कहा—'ऐसे शक्तिशाली जटायु के अग्रज तुम्हारा इतना ससारा में कौन सामना कर सकता है ? कोई ऐसा स्थान नहीं होगा, जिसे तुमने नहीं देखा है । तुम कृपया हमें बताओ कि रावण ने रवृगम की पत्नी को कहाँ छिपा रखा है ?'

२०. सीता का पता बताना

मराति का सदेह दूर हुआ । उसने कहा—'मेरा पुत्र सुपाश्र्व, दुर्दम पराक्रमी तथा महान् पितृभक्त है । पत्नी के जलने से अगमर्ण हो यहाँ पर पड़े हुए मुझे वह प्रति दिन बड़ी भक्ति के साथ भोजन ताकर दिया करता है । एक दिन की बात है कि वह बहुत विलंब से, बिना भोजन लाये ही यहाँ था । जब मैंने उससे विलंब का कारण पूछा तब उसने उत्तर दिया—'पिताजी, आपके लिए आहार प्राप्त करने का उद्देश्य से मैं हेमेत्र गिरि के समीप समुद्र-नट पर बैठा था । उसी समय काजल के पर्वत के सङ्ग एक राक्षस, सूर्य-प्रभा के समान एक रमणी को साथ लिये हुए आया और मुझसे मीठी-मीठी बातें करने लगा । मेरे मार्ग देने पर वह शीघ्र वहाँ से चला गया । तब वहाँ रहनेवाले मुनि मुझे देखकर हर्ष से कहने लगे कि आज तुम मृत्यु के मुख से बच गये । वह (काला पुस्र) यम रूपी रावण था । श्रीराम की पत्नी को चुराकर वह लका को ले जा रहा था । इसी कारण से मुझे यहाँ आने में विलंब हुआ है । अब इसमें कोई सदेह नहीं है कि जानकी, बादलों में धिरी हुई चद्रिका की तरह, राक्षस-रमणियों में परिचरित हो लका में रहती है । मेरी दृष्टि इस पृथ्वी पर शत योजन तक देख सकती है । सभी पक्षियों की अपेक्षा मेरी दृष्टि तथा गमन-शक्ति अधिक है ।'

सपाति ने आगे कहा—'जब मेरे दोनों पक्ष जल गये और मैं मृत्यु से बचकर, मूर्च्छित होकर यहाँ गिर पड़ा, तब कई वर्ष तक प्यास से व्याकुल हो, कराहते हुए यहाँ पड़ा रहा । एक दिन मेरे सौभाग्य से सकल जनों का ताप हरण करनेवाले, साक्षान् निशाकर (चद्रमा) के समान गुणवाले निशाकर (नामक मुनि) को मैंने देखा । सूर्य-तेज से दग्ध अपने पत्नी का वृत्तात मैंने उनमें कहा । वे मुनि-शिरोमणि पहले से ही मुझे जानते थे । इसलिए दयाद्वं होकर बोले—आश्रितवत्सल, पगलर विष्णु महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लगे । वह सूर्य-त्रश-तिलक वनवास के लिए भयकर वनों में आयेंगे, उनकी पत्नी को रावण चुराकर ले जायगा । उस रमणी को अमृताञ्जु (चन्द्र) अमृताञ्जु देंगे, जिससे वह क्षुधा तथा तृषा से मुक्त होकर रहेगी । तब राम शीघ्र आकर इन्द्र-पुत्र (वालि) का सहार करके सूर्य-पुत्र की रक्षा करेंगे और सीता के जन्नेषणार्थ वानरो को चारों दिशाओं में भेजेंगे । जिस दिन तुम राम के उन भट्टों को यह वृत्तात सुनाओगे, उमी दिन तुम्हारे पक्ष तुम्हें मिल जायेंगे । उनके आदेशानुसार मैंने तुम लोभो से यह वृत्तात सुनाया । लो, देखो, मुझे अपने पक्ष भी मिल गये ।' इतना कहकर वह एकदम उछलकर आकाश में उड़ा और कहने लगा—'देखा मैंने सीता को । लंका के समीप एक वन में मैंने सीता को देखा ।'

वह लो, यहाँ से शतयोजन की दूरी पर, लका में, वह पवित्र साध्वी बैठी है। तुम प्रायोश्नेश छोड़ो। अब उठो। पौलस्त्यपति (रावण) की लका में जाकर सीता के दर्शन करो।'

इतना कहकर वह वानरो को लका का मार्ग बताकर बड़े हर्ष से महेन्द्र गिरि पर चला गया। तब सभी वानर-वीर प्रसन्नचित्त हो, शीघ्र गति से महासागर के पास पहुँचे। उस सागर की शब्दमयी तरंगों, प्रचंड वायु के आघात से, अत्यधिक उद्धत होकर विहार कर रही थी। उनसे उत्पन्न भाग दियतो तक फँस गया था और ऐसा लग रहा था, मानो वह समुद्र का गडूष (कुल्ली) हो, उस समुद्र में भयकर मगर अपनी पूँछ-रूपी तलवारो से बड़े आदेश से लड़ रहे थे। ऐसे समुद्र के निकट पहुँचकर सभी वानर (मन-ही-मन) अत्यंत व्याकुल हो, थोड़ी देर तक निरुचेष्ट बैठे रहे और चिन्ता करने लगे कि इस समुद्र को कौन पार कर सकता है ? ऐसी शक्ति किसमें है ?'

२१. वानरों का अपनी शक्ति का परिचय देना

अगद ने वह रात उस समुद्र-तट पर बिताई और दूसरे दिन अलग-अलग सभी वानरो को संबोधित करके कहा—'यदि तुम वीर वानर अपने पौरुष को खोकर, सौ योजन की जलराशि को पार करने के लिए इतना भिन्नकते हो, तो अपयश-रूपी विशाल समुद्र को किस प्रकार पार कर सकोगे ? तुम सब अलग-अलग अपनी-अपनी शक्ति का परिचय मुझे दो।'

तब व्याकुल-चित्त सभी वानर सावधान हो गये और अपनी शक्ति का विचार कर अपने-अपने बल का परिचय देने लगे। गज ने कहा—'मैं दस योजन लाँघ सकता हूँ।' गवाक्ष ने कहा—'मैं बीस योजन विना किसी कठिनाई के लाँघ सकता हूँ।' शरभ ने कहा—'अपनी शक्ति के प्रताप स मैं चालीस योजन पार कर सकता हूँ।' गधमादन ने अपना पराक्रम प्रकट करते हुए कहा—'मैं पचास योजन की दूरी लाँघ सकता हूँ।' मैन्द ने कहा—'मैं अपनी शक्ति को हानि पहुँचाये विना साठ योजन पार कर सकता हूँ।' द्विविद ने कहा—'विना विशेष प्रयत्न के मैं सत्तर योजन की दूरी लाँघकर जा सकता हूँ।' तार ने अपनी शक्ति को प्रकट करते हुए कहा—'मैं अस्सी योजन लाँघ सकता हूँ।' इस प्रकार सभी वानर निश्चक होकर अपनी-अपनी शक्ति का सही-सही परिचय देने लगे।

तब अत्यंत वृद्ध तथा समस्त ससार में पराक्रमी, भल्लूकनाथ (जाबवान्) ने कहा—'यदि मैं अपने लङ्कपन (या यौवन) की बात कहूँ, तो वह उपहास का विषय होगा, फिर भी कहता हूँ, सुनो। पहले जब अमृत के लिए सुर तथा दानवो ने युद्ध किया था, तब मैंने सुरो की सहायता की थी और बड़े प्रेम से उनका दिया हुआ अमृत पान किया था। मैं सप्त समुद्रो को पार करने की क्षमता रखता हूँ। उदयाचल पर खड़े होकर अपना दूसरा चरण अस्ताचल पर रख सकता हूँ। सभी लोको में मेरी समता कर सकनेवाला कोई नहीं है। जब त्रिविक्रम ने महाबली बलि महाराज का दर्प तोड़ा था, उस दिन मैंने संमस्त पृथ्वी की इक्कीस बार परिक्रमा की और त्रिविक्रम की प्रार्थना की। उस समय मेरी टाँग टूट गई; मेरा दर्प तथा शक्ति नष्ट हो गई। ऊपर से वृद्धावस्था ने भी मुझे आ घेरा।

अब मैं बहुत वृद्ध हो चला हूँ । मेरी अवस्था नब्बे वर्ष की है । अब मैं ऐसा कार्य करने योग्य नहीं रहा । तब नील ने कहा—‘मैं नब्बे योजन की जलधि को पार कर सकता हूँ । मारुति अपनी शक्ति का परिचय दिये बिना चुपचाप बैठा रहा । तब अगद ने कहा—‘मैं अत्यधिक प्रयत्न से शत योजन पार कर सकता हूँ, किन्तु कदाचित् लौटकर आ नहीं सकता ।’

तब जाबवान् ने अगद से कहा—‘हे अनघ, तुम हमारे नेता हो । तुम इस समुद्र को पार भी कर सकते हो और लौट भी सकते हो । तुम सुग्रीव के समान इस वानर-मेना के राजा हो । अतः तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम हम से काम लो । इतनी दीनता क्यों व्यक्त करते हो ? राम के कार्य में सतत तत्पर रहनेवाले, रवि-पुत्र के मन्त्री, इस वानर-समूह के लिए प्राण-सम, पवन-कुमार के रहते, भला तुम्हारे लिए कौन-सा कार्य असाध्य है ? तुम निश्चित रहो ।’

२२. समुद्र लौघने के लिए हनुमान् को प्रेरित करना

इसके पश्चात् जाबवान् ने हनुमान् को बुलाकर बड़े स्नेह से कहा—‘हे पवन-सुत, यह क्या उचित है कि अपना काम हम पर छोड़कर स्वयं चुपचाप बैठे रहो ? ललित लावण्य-विलास में परिपूर्ण अप्सरा स्त्रियों में श्रेष्ठ ‘पुजिक-स्थल’ नाम से विख्यात तुम्हारी माता ने अग्निदेव के शाप से अजना के नाम से वानर-युवती होकर जन्म लिया और इस पृथ्वी पर केसरी की पत्नी होकर रही । एक दिन जब वह वन में विचरण कर रही थी, तब वायुदेव उस युवती के मद गमन, सुडौल जंघा, भारी नितम्ब, चन्द्र-मुख, सुदूर अधर, क्षीण कटि, उन्नत कुच और विशाल आँखें देखकर उस पर मोहित हो गया । मन्मथ के बाणों से आहत होकर उसने अजना के वस्त्रों को उडा दिया और उसके समीप पहुँचकर उसका आलिंगन किया । तब अजना ने क्रुद्ध होकर कहा—‘किस दुर्मति ने मेरा शील बिगाड़ने का यह साहस किया है ?’ तब वायुदेव ने कहा—‘हे सुदरी, क्रुद्ध मत होवो । मैं पवन हूँ । हे कमलाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ केवल हृदय-संगम किया है, जिससे तुम्हारा शील खडित न हो । इससे तुम्हें ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो बल, तेज, विक्रम, पौरुष तथा धैर्य से संपन्न होगा ।’ इतना कहकर वायुदेव चले गये । उस नारी-रत्न ने वायुदेव की विमल कृपा से अत्यन्त हर्ष से तुम्हें जन्म दिया । तुम इस पृथ्वी पर वायु के समान शक्ति-शाली हो । यही नहीं, किसी भी आयुध से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती । सभी लोको में तुम्हारी समता करनेवाला कोई नहीं है । मैं तुम्हारी शक्ति से भली भाँति परिचित हूँ । अतः, तुम समुद्र को पार करो, सीता के दर्शन करो और यत्नपूर्वक राम का कार्य संपन्न करके, कपियों के, दशरथ-पुत्रों के तथा वानर-राजा के प्राणों की रक्षा करो । हे जगत्प्राण-नदन, तुम इस प्रकार उत्तम लोको की गति प्राप्त करो ।’

तब हनुमान् ने कहा—‘ऐसा ही हो । मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा । हे वानरो, आज तुम मेरी शक्ति देखो । मैं समस्त लोक के हितार्थ समुद्र को पार करूँगा । भले ही देवता भी मुझे रोकें, मैं उन्हें भी जीत लूँगा । (आवश्यकता पड़े तो) समस्त लोको का नाश भी कर दूँगा । सब को आश्चर्यचकित करनेवाली अपनी शक्ति से

लका में प्रविष्ट होऊँगा । अथक परिश्रम वारके ढूँढ़ूँगा और भूमि-मुता को देखकर ही वापस आऊँगा । अथवा उस लका को भी उन्वाडकर यहाँ ले आऊँगा तथा सीता को अवश्य ही राम के चरणों में पहुँचा दूँगा । नहीं तो सभी समुद्रों का मथन करूँगा, उद्धत गति से अमरात्रि को नष्ट-भ्रष्ट करूँगा, पृथ्वी को चूर-चूर कर दूँगा, मृत्यु का भी सहार करूँगा, समस्त द्वीपों को छान डालूँगा, देवेन्द्र का त्रास दूँगा, अभी दुष्ट राक्षसों का सहार करूँगा, और समस्त समार में अवकार फैला दूँगा, किन्तु विना कार्य सपन्न किये तुम्हारे निकट नहीं आऊँगा ।'

२३. समुद्र पार करना—मैनाक से भेंट

इतना कहकर हनुमान् महेंद्रगिरि पर चढ़ गया और त्रिविक्रम विष्णु के समान ऐसा अद्वितीय शरीर धारण किया, मानो प्रलयकालीन काल सभी समुद्रों के साथ सारी सृष्टि को निगलने के लिए प्रस्तुत हुआ हो । उसके पश्चान् उसने अगद आदि वानरो की अनुमति ली । मन-ही-मन अपने पिता वायुदेव का स्मरण किया, श्रीराम के चरण-कमलों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया । दृढ़ता के साथ अपने पैरों को पहाड़ पर जमाया, कठ ऊपर को उठाया, देह को झुकाया और भौहें उठाकर विशाल जल-राशिको चारों ओर से देखा । उसके उपरान्त उसने रावण की नगरी पर दृष्टि डाली, अपना लागूल जोर से घुमाया, दोनों कान खड़े किये, शिलाओं पर अपने हाथ टेके और आकाश की ओर बड़े वेग से ऐसे उछला, जैसे पूर्वकाल में अमृत को छीनने के उद्देश्य से गरुड पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ा था । उस वेग के प्रभाव से पर्वत-शृंग चूर-चूर हो गये, मानो रावण ने अबतक जो अत्यधिक महत्त्व और यश प्राप्त किया था, वे सब चूर-चूर हो गये हों । (उस पर्वत पर के) वृक्ष उसके वेग के कारण उसके साथ ही आकाश की ओर उड़ चले और खड़-खड़ होकर उस सागर में ऐसे गिरे, मानो पवन-पुत्र ने स्वयं ही भावी सेतु का शकु-स्थापन किया हो ।

उस समय उत्पन्न प्रचंड वायु के कारण वादल चारों ओर ऐसे भागे, मानो वे पवन-पुत्र के लका में आगमन की सूचना इद्र आदि देवताओं को देने के लिए जा रहे हों । समुद्र का सारा जल एक ओर हट गया और जल के भीतर पाताल-लोक ऐसा दीखने लगा, मानो समुद्र हनुमान् को यह दिखा रहा हो कि रावण ने मेरे जल में जानकी को नहीं छिपाया है । हनुमान् की स्वामिभक्ति, धैर्य, साहस, तेज, चातुर्य, और उदात्त शक्ति को देखकर इन्द्रादि देवता उनकी प्रशंसा करने लगे ।

इस प्रकार जानेवाले हनुमान् को देखकर समुद्र मन-ही-मन सोचने लगा—'यह पुण्यात्मा, जगत् के कल्याण के लिए बहुत दूर जा रहा है । उसका श्रम दूर करने के निमित्त, मैं मैनाक को भेजूँगा ।' यो सोचकर उसने मैनाक को बुलाकर कहा—'अभी हनुमान् यहाँ आया है । उचित रीति से उसके अतिथि-सत्कार की व्यवस्था करो ।'

शोभा-समन्वित, स्वर्ण-शिखरों से विलसित, स्वर्ण-समसुंदर बहूँ मैनाक पर्वत तुरन्त अपने विशाल पखों को फैलाते हुए उड़ा और समुद्र के मध्य भाग से ऊपर आया और हनुमान् के सामने आ पहुँचा । हनुमान् ने अपने सामने उस विशाल पर्वत को देखकर

सोचा—‘यह दैत्यो की माया है । यह कदाचित् मेरे कार्य में विघ्न डालना चाहता है । पर कोई चिंता की बात नहीं है । मैं अपनी शक्ति से इसका नाश करूँगा । यो सोचकर हनुमान् ने वज्र के समान कठोर अपने वक्षस्थल से उस पर्वत को धक्का दिया । तुरत वह पर्वत, बबडर में फँसे हुए सूखे पत्ते की तरह शक्तिहीन होकर चक्कर खाने लगा । फिर वह मनुष्य का रूप धारण करके हनुमान् से बोला—‘हे अनिलकुमार, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ । समुद्र की आज्ञा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ । उस महानुभाव ने तुम्हें आतिथ्य देने के निमित्त, मुझे तुम्हारे पास भेजा है । इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ । प्राचीन काल में सभी पर्वतों के पक्ष थे । अपने इन पक्षों के कारण जब वे गर्व करने लगे, तब इन्द्र क्रोध में आकर वज्रायुध से सभी पर्वतों के पक्ष एक-एक करके काटने लगा । तब यह देखकर तुम्हारे पिता पवन सहज ही मुझे इस लवण-समुद्र में ले आये और मेरे पखों की तथा मेरी रक्षा की । इसलिए मैं तुम्हारा अपना ही व्यक्ति हूँ, पराया नहीं हूँ । मैं पर्वतश्रेष्ठ शीताचल का पुत्र हूँ । मेरा नाम मैनाक है । मेरे पेड़ों पर जो फल लगे है, उनको ग्रहण करके, अपनी क्षुधा तथा क्लान्ति दूर करो । हे पवन-पुत्र, उसके पश्चात् तुम लकापुर को जा सकते हो ।’ तब उस महाबली हनुमान् ने कहा—‘अब विश्राम करना उचित नहीं है । मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं समुद्र के मध्य में कहीं नहीं ठहरूँगा । अतः, हे पर्वतराज, मुझे यहाँ कहीं ठहरना नहीं चाहिए ।’ इस प्रकार कहकर उसने अपने करतल से उस पर्वत की मूर्धा का स्पर्श किया और कहा—‘हे अनघ, तुम्हारी पूजा फलवती हुई । अब तुम जाओ ।’

इस प्रकार कहकर शीघ्र गति से जानेवाले अनिलकुमार की शक्ति को देखकर देवता आश्चर्य तथा हर्ष से भर गये । देवेन्द्र ने भी मैनाक पर्वत को देखकर बड़े प्रेम से कहा—‘श्रीराम के कार्य के लिए जानेवाले हनुमान् के प्रति तुमने उचित व्यवहार किया । अतः, मैं तुम्हें अभय-दान देता हूँ । तुम सुख से यही रहो ।’

तब गधर्व, अमर तथा मुनियो ने हनुमान् की शक्ति की परीक्षा लेने का विचार करके सुरसा नामक नाग-माता को हनुमान् का मार्ग रोकने के लिए भेजा । तब वह एक राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान् के मार्ग में आ खड़ी हुई और बोली—‘इस समुद्र के ऊपर से होकर जानेवाले तुम्हें मैंने देखा, दैवयोग से अब मेरे प्राण बच गये, मैं बहुत भूखी हूँ । अतः, तुम अब मुझसे बचने की चेष्टा न करके, मेरे मुँह में प्रवेश करो । तब हनुमान् ने कहा—‘हे नारी, तुम मेरा मार्ग मत रोको । मैं राम का कार्य पूरा करके लौटते समय तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा । अब मैं जाता हूँ । मैं असत्य वचन नहीं कहता ।’

तब वह स्त्री क्रुद्ध होकर हनुमान् का मार्ग रोककर खड़ी हो गई और बोली,—‘मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी, मैं अवश्य तुम्हारा वध करूँगी ।’ यो कहती हुई उसने अपना मुँह खोल दिया । तब अनिलकुमार ने अपना शरीर दस योजन तक बढ़ा लिया । तब उस स्त्री ने अपना मुँह उसके दुगुना चौड़ा कर लिया । हनुमान् ने अपना शरीर तीस योजन तक बढ़ाया, तो उस स्त्री ने अपना मुँह चालीस योजन विशाल बना लिया । इस प्रकार एक-दूसरे से स्पर्धा करते हुए क्रमशः अपने शरीर तथा मुँह को दस योजन तक

बन्धा दिया । तब हनुमान् ने बड़ी चतुरता से एक अंगुष्ठ-प्रमाण-मात्र का अपना शरीर बर्माकर, सूक्ष्म रूप से उस स्त्री के मुँह में प्रवेश करके सहज ही इस प्रकार-बाहर निकल आया जैसे कोई ज्ञानी संसार के जटिल बंधनों से अपने-आपको मुक्त करके निकल आता है । उसके पश्चात् उसने उस स्त्री को देखकर कहा—'हे नारी, मेने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब मैं समुद्र पार जाऊँगा ।' उस स्त्री ने भी उस कथिकुलोत्तम हनुमान् की वृद्धि की प्रशंसा करती हुई दिव्य रूप धारण करके बड़े स्नेह से आशीर्वाद दिया और कहा—'शीघ्र ही तुम्हारा कार्य सिद्ध हो ।'

तब हनुमान् संभ्रम गया कि यह आयाशाहिणी है और विमो भय के तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके उसके उदर में प्रवेश किया । फिर उसने उसका उदर चीरकर उस दुष्ट राक्षसी को समुद्र में फेंक दिया । इंद्रादि देवता इसे देखकर अत्यंत हर्षित हुए और पुष्प-वृष्टि करने लगे । इस प्रकार हनुमान् सहज ही समुद्र पार करके सुवैल (त्रिकूट) पर्वत पर पहुँच गया ।

इस प्रकार, आश्र-भाषा का सञ्जाट, श्रेष्ठ काव्यागमों के ज्ञाता, पवित्रात्मा, आशीर्वान्, अपार धीमान्, तथा भूलोक का निधि, गोन बुद्ध नरेश-ने, गुणवनि, धीर, शत्रुओं में भय उत्पन्न करनेवाले, महात्मा, श्रेष्ठ वीर, अपने पिता विट्टलनरेश के नाम पर समस्त संसार में पूज्य, अनुपम शब्दार्थों से परिपूर्ण तथा लोकप्रिय रामायण के किष्किंधाकांड की रचना इस प्रकार की कि वह अलंकार तथा भावों से युक्त हो और जबतक सूर्य तथा चंद्र इस संसार में रहें, तबतक इसकी प्रशंसा होती रहे ।

किष्किंधाकांड समाप्त

श्रीरंगनाथ रामायण

(सुन्दरकांड)

१. हनुमान् का लंका में प्रवेश

श्रीराम का कार्य सपन्न करने का निश्चय करके हनुमान् ने विशाल सागर को ऐसा पार किया, मानो वह एक छोटी-सी नहर हो और उस सुबेल पर्वत पर चढ गया, जो लकापुरी के निकट था । वह लकापुरी सुदर शृंगोसे, पहाडी तराइयो से, प्रचुर वृक्षो तथा लता-समूहो से, कैरव, बधूक, कल्हार एव कुमुद आदि पुष्पो से, सारस आदि जलचर पक्षियो से, विलास गति से विहरण करनेवाले हंसो के कलरव से, क्राँच पक्षियो के निनादो से तथा कमल का मकरद पान करने से मत्त होकर भ्रकार करनेवाले भ्रमरो की पक्तियो सं युक्त तडागो से परिपूर्ण था ।

उस पर्वत पर चढकर हनुमान् ने दक्षिण दिशा में दृष्टि दौडाई और लका नगरी को देखा । वह नगरी त्रिकूटाद्रि पर सुशोभित थी, और धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनो को एकत्र किये बैठी लक्ष्मी के समान सुशोभित थी । अपनी उज्ज्वल कान्ति के कारण वह ताराद्रि की समता करती थी और आकाश-मार्ग से स्पर्धा करती हुई दिखाई पडती थी । वह अपने रत्नो की कान्ति से सुशोभित होकर ऐसी दीखती थी, मानो देवताओ से युक्त अमरावती ही समुद्र के मध्य में सदर ढग से शोभायमान हो रही हो । अथवा सदर

मकर, कच्छप तथा पद्मनिधियो से युक्त अलकापुरी ही मानो कुबेर से हूठकर वहाँ आ गई हो, या चिरकाल से समुद्र के नीचे रहने के कारण ऊबकर भोगवती नगरी ही समुद्र-तल से ऊपर उठकर त्रिकूट पर्वत पर आ गई हो। उस नगरी का प्रभा-समन्वित स्वर्ण-दुर्ग, समुद्र को ही अपनी परिखा बनाकर, ब्रह्माण्ड के समान सुशोभित था और ब्रह्मादि देवताओं को भी अभेद्य दीखता था। वह लकापुरी दुर्वार गज, रथ, तुरग तथा भयकर एव श्रेष्ठ वीरो से युक्त थी और अलौकिक ऐश्वर्य से सपन्न हो बहुत सुंदर दीखती थी। ऐसी लका नगरी को देखकर हनुमान् आश्चर्य-चकित हो गया और निर्निमेष नेत्रों से जहाँ-तहाँ देखता ही रह गया। वह सोचने लगा—‘अकेले समस्त लोको को जीतकर, अपने पराक्रम से सभी लोको में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनेवाला दशकधर ऐसे ऐश्वर्य से सपन्न लका का राजा बना हुआ है। फिर भी, उसके भाग्य में जीवित रहना नहीं लिखा है। सर्वेश्वर रामचंद्र की पत्नी को ले आकर इस मूर्ख ने क्यों मृत्यु को आमंत्रित किया है?’ इस प्रकार रावण की निंदा करते हुए वह शक्तिशाली हनुमान् लका में प्रवेश करने का उपाय सोचने लगा। वह नगर के उत्तर द्वार पर पहुँचा और सारी परिस्थिति तथा अपने कर्तव्य का विचार किया। उसके पश्चात् वह सोचने लगा—‘भला, इस विशाल सागर को वानर कैसे पार कर सकेंगे? यदि पार भी करेंगे, तो इन्द्रादि देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य इस लका को जीतना क्या किसी भी रीति से उनके लिए संभव होगा? युद्ध-भूमि में भयकर साहसी रावण को राम कैसे जीत सकेंगे?’

एक मुहूर्त काल तक इस प्रकार सोचने के पश्चात् हनुमान् ने मन-ही-मन विचार किया—यदि मैं अपने इस विशालकाय के साथ, दिन को ही इस नगर में प्रवेश करूँगा, तो राक्षस भटो से मेरा सामना हो जायगा। उस प्रकार मैं सीताजी का पता नहीं लगा सकूँगा। अतः मैं सूक्ष्म रूप धारण करके इस नगर में प्रवेश करूँगा और दैत्यो की आँखों में धूल भोकेकर अवश्य ही सीताजी के दर्शन करूँगा। इस प्रकार मन में विचार करके वह सूर्यास्त को प्रतीक्षा में बैठा रहा। निदान सूर्य-निबिड इत्थं तरह तिर्योहित झूने लगा, मान्ने सूर्य यह सोच रह्य हो कि विशाल शक्तिशाली राम की पत्नी सीता देवी का पता लगाने के लिए जो यह (हनुमान्) श्रमया है, मेरे आकाश में रहते समय उसको लिए लका में प्रवेश करना कठिन होगा। दिशाओं में घोर अंधकार ऐसा व्याप्त हो गया, मार्ग अनिल-पुत्र के आयमन्त्र से भयभीत हो राक्षस (रावण) के घोर पाप चारों ओर भाग रहे हो। ऋषयः दैत्यो की कलकल ध्वनि मंद पडने लगी। यह देखकर पवन-पुत्र ने सारी बातें मन-ही-मन विचार करके एक बिल्ली के समान छोटा रूप धारण किया और फिर रात्रवो का स्मरण करके लका में प्रवेश करने का उपक्रम करने लगे।

२. लंकिणी का हनुमान् को रोकना

उस समय अंधकार आकाशवाली लंकिणी हनुमान् के मार्ग को रोककर ऐसे खड़ी हो गई, जैसे किसी निधि को बाहर लाते समय उस प्रदल में बाधा डालने के लिए कोई भूख उलपन्न होकर खड़ा हो जाता है। उसके अट्टहास करके पवनकुमार को अट्टहास हुए कहा—‘तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? इस नगर में तुम क्यों प्रवेश कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है?’

तब हनुमान् अविचल खड़ा होकर बोला—‘तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? तुम क्यों मेरे मार्ग को रोककर खड़ी हो ? पहले तुम अपना परिचय दो, तो फिर मैं अपने बारे में कहूँगा।’ तब वह बोली—‘मैं दशकूट की आज्ञा से, बड़े यत्न से इस नगर की रक्षा करती रहती हूँ। मेरा नाम लंकिणी है। जब मैं पराये व्यक्तियों को देखती हूँ, तब उन्हें नगर के भीतर प्रवेश करने नहीं देती और उन्हें तुरत मार डालती हूँ। तब हनुमान् ने उस स्त्री से कहा—‘हे नारी, मैं इस नगर को देखने के उद्देश्य से आया हूँ, मुझे जाने दो।’ तब वह राक्षसी आँखों से क्रोध प्रकट करती हुई बोली—‘अब तुम कहाँ जाओगे ? अब तो तुम मेरे हाथ में पड गये हो। तुम्हें पकड़कर तुम्हारे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दूँगी और तुम्हारा रक्त पी जाऊँगी।’ यो कहती हुई उसने बड़े क्रोध से उस श्रेष्ठ धर्म के वक्ष पर एक घूँसा मारा। हनुमान् ने सोचा कि स्त्री का वध करना पाप है। इसलिए उसने लंकिणी के वक्ष पर ऐसा घूँसा जमाया कि वह अपनी सारी शक्ति खोकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और हनुमान् को देखकर क्षीण स्वर में प्रार्थना करने लगी—‘हे कपि-कुलीसम्, मुझपर कृपा करो। जिस दिन इस नगर का निर्माण हुआ, उस दिन निघुण ब्रह्मा ने कहा था कि जिस दिन एक वानर यहाँ आकर तुम्हें दुःख पहुँचायेगा, उसी दिन से राक्षसों का नाश प्रारंभ हो जायगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मनस्कामना सफल होगी।’ इस प्रकार कहती हुई वह स्त्री चली गई। उस स्त्री की बातों से हनुमान् अत्यंत हर्षित हुआ और मन-ही-मन यह निश्चय करके कि अब राक्षसों का नाश निश्चित है, पहली बार लका की घरती पर अपना वाम चरण प्रतिष्ठित किया।

३. हनुमान् का लंका में सीता का अन्वेषण

फिर हनुमान् ने सूक्ष्म रूप धारण किया और किले की भित्तियों पर चढ़कर इस प्रकार लका में प्रवेश किया कि किले के द्वार-रक्षक तथा सैनिक उनको देख न सके। फिर गुप्त रूप से मार्गों, बाजारों तथा चौपालों को देखते हुए वह आगे बढ़ा। उसके पश्चात् बड़े-बड़े गोपुरों पर चढ़ा और गज-शालाओं से लेकर श्रेष्ठ सौधों के सभी स्थान देखे। फिर उसने भद्रिरो में देखा, धर-धर में ढूँढा, तथा अत पुरों में ढूँढा, मडपों और सौधों में देखा। फिर अश्वशालाओं, रथशालाओं तथा शस्त्रागारों में देखा और मणिमय भवनों में सीता का अन्वेषण किया। तत्पश्चात् विभीषण, अतिकाय, देवातक और विशिर के घरों में, कुभकर्ण के विशाल भवन में, कुभ के घर में, निकुभ के निवास में, शोभा-समन्वित इन्द्रजीत के अतश्रुत में, महोदर के भवन में और सभी दनुज-नायकों के घरों में क्रमशः सीता की खोज की। दैत्यों के इन निवासों को देखकर हनुमान् आश्चर्य-चकित हो गया। फिर उसने सभी अतश्रुतों में सीता को ढूँढा, सभी स्त्री-जनो में देखा, और एक-एक करके राक्षसों के सभी घर देख डाले। किसी-किसी स्थान पर एक आँख, एक कान, एक हाथ-खाले विकृत रूपों को देखकर वह चकित रह गया। कहीं-कहीं उसने बहुत-से चरण, अनेक भुजाओं तथा कई शिरोवाले राक्षसों को देखा। फिर वह जप-तप तथा स्वाध्याय में तत्पर, सत्कर्मा तथा निष्ठावान् तपस्वीश्रेष्ठ वानवों को देखते हुए आगे बढ़ गया।

उसके पश्चात् हनुमान् रावण के अत पुर के निकट पहुँचा । वह (अत पुर) मकर-तोरणों (मकर के आकार में बँधा हुआ बदनवार) पुष्प-मालिकाओ, विविध धूपों की सुगंधि, रत्न तथा मोतियों से पूरे गये चौको, चद्रकात-शिलाओ से निर्मित चबूतरों, स्वर्ण तथा मणियों से बनाये गये कपाटों, प्रशसा के योग्य मडपों, प्रवाल के बने ऊँचे स्तंभों, अनेक अट्टालिकाओं तथा सीधों की पकितियों से अलङ्कृत था तथा सशस्त्र राक्षसों के द्वारा सतत रक्षित था । उस अत पुर के पास पहुँचकर हनुमान् ने अत पुर के पहरेदारों के निकट जाकर देखा, फिर कई द्वारों को निर्भय गति से पार करता हुआ आगे बढ़ा और सभा-मडपों में सीता को ढूँढा । वह रनिवास के निकट पहुँचा ही था कि इतने में, समुद्र में ज्वार उत्पन्न करते हुए, कमल-समूह की कांति को मलिन करके उन्हें मुकुलित करते हुए, मदमत्त चक्रवाल पक्षियों को विरहानि से पीडित करते हुए, मन्मथ के प्रताप को बढ़ाते हुए, मुरझाई हुई कमलिनियों के समूह को विकसित करते हुए, मुग्धा-जारिणियों के चित्तों में चचलता उत्पन्न करते हुए, घने अधकार के प्रताप को नष्ट करते हुए, चद्रकात-शिलाओं को गलाते हुए, चक्रोर पक्षियों को प्रेम से अधाते हुए, प्रेमी-प्रेमिकाओं का मिलन सपन्न करते हुए, अपनी सपूर्ण राका से दिशाओं को भी उज्ज्वल बनाते हुए, मन्मथ का ससुर, उत्तम शोभा की सीमा, कुमुदिनियों का प्रेमी, नक्षत्रों के अधिपति चद्र का उदय आकाश में ऐसे हुआ, मानों लकापुरी में सीताजी का अन्वेषण करनेवाले हनुमान की सहायता करने के हेतु देवताओं ने मशाल जला दी हो ।

४ हनुमान् का रावण के अंतःपुर में प्रवेश करना

ऐसे चन्द्र को देखकर हनुमान् मन-ही-मन हर्षित हुआ और सारे अत पुर में देखते हुए जाने लगा । एक स्थान पर उसने कातिमान्, विष्वकर्मा से रचित, अपनी इच्छा से चलने की शक्ति रखनेवाला, विचित्र कला-कौशल से सपन्न सूर्य-चद्र के समान प्रकाशमान मणि-पुष्पक नामक विमान को देखा, जिसे देवलोक के शत्रु (रावण) ने युद्ध में कुबेर को पराजित करके छीन लिया था ।

उस विमान में पवन-पुत्र ने उन सुंदरियों को देखा, जिन्होंने रावण को सुख के समुद्र में उतराकर, मद्यपान तथा भोग-विलास के मधुर रसास्वादन के कारण शिथिल हो सोई पडी थी । उनकी शरीर-रूपी लताएँ अवश हो पडी हुई थी, उनकी स्निग्ध जाँधों का सौंदर्य प्रकट दीख रहा था, उनकी नीवियों की गाँठें ढीली हो गई थी, उनके मुख मुरझाये हुए थे, उनकी सुगंधित साँसें चल रही थी, अधर एक विचित्र सुंदरता के साथ एक ओर झुके हुए थे और उनपर मद हास नृत्य कर रहा था, उनके अर्द्ध-निमीलित नयन उनकी रति-क्रीडा की मुग्ध परवशता प्रकट कर रहे थे, उनके नूपुर निशब्द होकर उनके चरणों में लिपटे हुए थे, उनका चदन-तिलक श्रम-जल से गल रहा था; उनकी वेणियाँ खुली हुई थी; पुष्प-मालाएँ टूटी पडी थी; श्रष्ठ मुक्ताओं की मालाएँ उनके दोनों कठोर कुच-पर्वतों के बीच दबी हुई थी और उनके चित्त मदिरा-पान से मत्त थे । अपने कठि-रूपी सँकत, केश-रूपी शैवाल, नाभि-रूपी सरोवर, भ्रू-रूपी तरंगों, कुच-रूपी भँवर तथा नयन-रूपी मीनों से युक्त वे सुंदरियाँ सुख-निद्रा में सोनेवाली नदियों के समान दीख रही थी ।

परस्त्रियो के शरीर के विविध अंगो को देखने से पुण्यात्मा हनुमान् मन-ही-मन अन्यत दुखी था । वह सोचने लगा कि स्वामी के कार्य में निरत रहने के कारण मुझे इस प्रकार परस्त्रियो के शरीर के अंगो को देखना पडा है । पाप-बुद्धि से मने ऐसा नही किया है । इन स्त्रियो के भुङ्ग में ही सीताजी को ढूँढना है, अन्य स्त्रियो में नही ।

इस प्रकार मन में सोचते हुए दबे पाँव वह आगे बढ़ा । वहाँ उसने एक विशाल रत्न-वेदी पर पुष्प-शय्या पर सोनेवाले इन्द्र के भोग-विलास को भी मात करनेवाले, साध्य-राग से युक्त जलद की भाँति चदन तथा अगराग से दीप्त शरीरवाले सुंदर भरतों से युक्त नीलाद्रि के समान मोतियों की मालाओ से सुशोभित देहवाले, पचशिरवाले भयकर सर्पों की भाँति सुपोषित उँगलियों से युक्त भुजाओवाले, स्वच्छ चाँदनी के साथ रहनेवाले अधकार के समान अपने शरीर को स्वच्छ चादर से ढककर सोनेवाले, अपने विशाल वक्ष पर ऐरावत के दाँतो के आघातो को बडे साहस के साथ वहन करनेवाले, अपने दोनो पार्श्वों में रखे मणिमय दीपो की शिखाओ को अपनी उसाँसो से हिलानेवाले, मुकुट तथा कुडलो की दीप्ति से सुशोभित रूपवाले तथा सभी शत्रुओ का गर्व निचोडनेवाले रावण को देखा और अनुमान कर लिया कि यही राक्षस राजा है । उसके पार्श्वों में गधर्व, देव तथा दैत्य कामिनियो को देखा । उनमें से कुछ पानदान, कुछ पीकदान और कुछ अपने हाथो में पखे लिये हुई थी । कुछ कामिनियाँ अपने कर-ककणो से शब्द करती हुई चामर डुलाने, कुछ मधुर-मधुर गीत गाने, कुछ नृत्य करने, कुछ वीणा बजाने और कुछ मृदग बजाने के पश्चात् अब थककर अपने-अपने उपकरणो से लिपटी हुई सोई पडी थी ।

उसके पश्चात् परम पावन हनुमान् ने रावण की शय्या पर सोई हुई, नव यौवनवती देव-स्त्रियो के सदृश दीखनेवाली और गगन-मडल के मध्य रहनेवाली चद्रकला के समान प्रकाशित होनेवाली, मदोदरी को देखा । हनुमान् ने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि मैंने सीताजी को देख लिया और वह आनदविभोर हो उठा । उस आनद में कभी उछलता, कभी कूदता, कभी वहाँ के स्तभो पर चढता और कभी अपने लागूल का चुबन करता । इस प्रकार वह थोड़ी देर तक अपनी जाति-सहज विडम्बे चेष्टाएँ करता रहा । फिर वह मन-ही-मन अपने विवेक को जाग्रत करके सोचने लगा,—‘मनुकुलेश्वर की पत्नी, पति-व्रताओ में शिरोमणि, परमपावनी, तथा महाराज जनक की पुत्री, भला, देवाधिदेव राम को छोडकर, रावण के साथ रहने की इच्छा करेंगी ? कही आसक्त हो मधुपान करेंगी ? हाय, मेरी बुद्धि को ऐसा भ्रम क्यों हुआ ? कैसे भी विचार करूँ, यह चचलाक्षी अवश्य ही कोई दानवी है, सीता नही है ।’

इस प्रकार निश्चय करके वह उस स्थान को छोडकर आगे बढ़ा और आसब, रक्त, मधु एव मास-युक्त मधुशालाओ को देखकर उन भवनो में सीता को ढूँढा, जिनमें गरुड, उरग, अमर, गधर्व तथा सिद्धो की स्त्रियाँ बदी थी । फिर उसने जहाँ-तहाँ छाया में खड़े होकर, एकात में वार्त्तालाप करनेवालो का सभाषण ध्यान से सुना । विना इस बात का विचार किये ही कि मे अमुक स्थान में प्रवेश कर सकता हूँ, अमुक स्थान में नही, अमुक स्थान में जाना मेरे लिए उचित है, अमुक स्थान में नही, हनुमान् ने सारी लकापुरी में

ढूढ डाला, किन्तु मानव-रूप मे रहनेवाली सीता को कही भी और किसी भी प्रकार से देख न पाने के कारण अत्यत दुखी हुआ ।

५. हनुमान् का रावण के उद्यान में जाना

इसके पश्चात् हनुमान् ने नगर के समीप रहनेवाले और सोने की चहारदीवारी से घिरे हुए एक उद्यान को देखा । धीरे-धीरे वह उस उद्यान के निकट पहुँचा । चारो ओर भली भाँति देखकर वह उसकी दीवार पर चढ गया और उस सुदर उद्यान के भीतर देखने लगा । वह उद्यान चन्दन, पुष्पाग, सहकार, मदार, खजूर, कटहल, पीपल, नीबू, बिजौरा, पाटली, बकुल, घनसार, सौवीर, कर्णिकार, कुरबक, जवीर, ताल, तमाल, हिताल, माल, नारिकेल, अशोक, मत्तपर्णी, दाडिम, नारगी, केतकी और पुगीफल, आदि के वृक्षो से, मल्लिका, मालती, माधवी, नागवल्ली, एला, लवग आदि लताओ से, पके हुए द्राक्षाफल के गुच्छो से और पके हुए फलो तथा पुष्पो की सुगधि से युक्त वायु से परिपूर्ण था । वह (उपवन) पिक, शुक, नीलकण्ठ एव सारिकाओ तथा भ्रमरो मे शोभायमान था । वह सुदर सरोवरो से, कुमुद-समूहो से, चद्रकात-मणियो की वेदिकाओ से, स्वच्छ चाँदनी से तथा सैकत स्थलो से अत्यत मनोहर था । वह सभी ऋतुओ में विहार करने योग्य था और उसकी शोभा चैत्ररथ (कुबेर का उपवन) को भी मात करती थी । अमरेन्द्र के नदन-वन की समता करनेवाली रावण की उस उद्यान-वाटिका को देखकर हनुमान् आश्चर्यचकित हो गया और उस उपवन में प्रवेश करके दबे पाँव सरोवरो में, खड्डो में, उनके तटो पर, निकुञ्जो में, पेडो के नीचे तथा सुरक्षित स्थानो मे बढी सावधानी से सीताजी की खोज करने लगा । उसके पश्चात् उस उपवन के मध्य भाग में स्थित, रात-दिन पहरा देनेवाले राक्षस-वीरो से रक्षित, गगनचुबी अट्टालिकाओ से सुशोभित मेरु पर्वत के शिखरो के समान स्वर्ण-कलशो से शोभायमान, स्वर्ण-स्तभो तथा श्रेष्ठ रत्नो के बदनवारो से भासमान एक विशाल भवन को हनुमान् ने देखा । हनुमान् ने उस भवन में भी सीता को ढूँढा, किन्तु वहाँ भी उनका पता नही चला ।

तब हनुमान् मन-ही-मन अत्यत दुखी हुआ और सोचने लगा—‘हाय, सूर्यकुल-तिलक राम ने मुझे एकात में बुलाकर, बडे प्रेम से कहा था कि तुम अवश्य सीता का पता लगा सकोगे और मेरे हाथ में अपनी मुद्रिका दी थी । उनका आदेश स्वीकार करके मैं यहाँ आया हूँ । किन्तु उस कमल लोचनी का पता कही नही मिल रहा है । उस दुरात्मा रावण के ले आते समय कदाचित् उस साध्वी ने अपने प्राण त्याग दिये हो या आकाश-मार्ग से अत्यधिक वेग से आते समय भयभीत हो सीताजी, राक्षस के हाथो से मुक्त होकर समुद्र में गिर गई हो, अथवा यहाँ के राक्षसों को देखकर भय से प्राण छोड़ दिये हो, अथवा विरहाग्नि में जलकर भस्म हो गई हो, या राक्षस ने किसी ऐसी माया की रचना की हो, जिससे सीता किसी को दीख नही पडती हो, या रावण ने उन्हें विदेशो में रख दिया हो, या उस राक्षस ने उस चंचलाक्षी को दण्ड देकर उसके प्राण ले लिये हो । हाय, मैं किस मुँह से लौट जाऊँगा और राम से क्या कहूँगा ? अब मैं क्या करूँ ? ज्यो ही मैं यह कहूँगा कि मैंने सीता को नही देखा, त्यो ही राम अपने प्राण त्याग देंगे । अपने भाई

के लिए लक्ष्मण भी शरीर छोड़ देंगे । यह समाचार सुनकर भरत भी अपने प्राण-त्याग करेंगे, उनके लिए शत्रुघ्न तथा अन्य सगे-सवध्नी अपने-अपने प्राण तज देंगे । इस प्रकार समस्त सूर्य-वंश का नाश हो जायगा । यह देख मुग्धाव, अगद आदि सभी वानरो के वंश भी नष्ट हो जायेंगे । इसलिए मैं एक वानप्रस्थ की भाँति वनों में ही निवाम करूँगा, या चिता रचकर अग्नि में प्रवेश करूँगा, या प्राणो का मोह छोड़कर समुद्र में डूब करूँगा । हाय, सपाति के वचनों को सत्य मानकर, अकेले मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ । ठीक है, चिता की कोई बात नहीं है । मैं माहस करके देवताओं से भिड़ जाऊँगा और देवेन्द्र को पकड़कर उसे त्रास दूँगा, अथवा ज्वालाओं में युक्त अग्नि को पानी में डुबोकर उसे पृथ्वी पर रगड़ दूँगा और उसकी प्रभा को नष्ट कर दूँगा, अथवा यम को उसके भटों के साथ ऐसा दण्ड दूँगा कि उसका हृदय फट जाय, अथवा नैऋत को सभी राक्षसों के साथ भय से तडपाकर उसे अत्यधिक दुःख दूँगा, अथवा जल-राशियों के साथ वरुण को परास्त करके उसे जीत लूँगा या वायु के सप्त पवनों को घेरकर उन्हें दण्ड दूँगा, या कुबेर को किन्नरियों के साथ कैद करके उन्हें इस तरह तडपाऊँगा कि उनकी सारी सुदरता नष्ट हो जायगी या अपने अतुल पराक्रम से ईशान को उसके मेनापति के साथ पकड़कर उनके साथ युद्ध करके उन्हें जीत लूँगा, पृथ्वी को सभी पहाड़ों के साथ, कुम्हार के चक्र के समान घुमाकर उसके गर्भ की सभी चीजों को उगलवा दूँगा या इम लका के राक्षसों को समुद्र में डुबोकर सबका नाश करके सारी लका को छान डालूँगा । जब मैं इतना सब करूँगा, तभी सभी देवता (मेरे सामने) झुककर, सीताजी को दिखायेंगे, या राघव स्वयं दया करके ससार का नाश करने से मुझे रोकेंगे ।

६. हनुमान् की सीता से भेंट

इस प्रकार निश्चय करके हनुमान् उस भवन के शिखर पर चढ़ गया । उसने निकट ही स्थित वायु तथा सूर्य-किरणों के लिए भी अभेद्य अशोकवन के एक प्रातर भाग में अत्यंत समृद्ध हेम-वर्ण के अशोक-वृक्ष के नीचे एक स्त्री को देखा । वह व्रतों के अनुष्ठान के कारण क्लान्त हो गई थी, शोक से कृश हो गई थी, अत्यधिक दुःख से दबी हुई थी, वेदना से दग्ध थी, अनवरत भरनेवाले अधुजल में डूबी हुई थी, विरहाग्नि में तप्त थी, कपट आचरण का शिकार बनने से मर्माह्न होकर सूख-झी गई थी, जीवन के प्रति विरक्त-सी हो गई थी और उसके चौर मूले हो गये थे । वह भगवान् को मन-ही-मन कोसती हुई, दुःखों का सहन करती हुई, अपने को असहाय समझकर धैर्य त्यागी हुई, सूर्य की प्रचंड रश्मि से सूखी नव-लता के समान, धुएँ से घिरी हुई दीप-शिखा के समान, बादलों की पक्ति के मध्य दीखनेवाली चंद्र-रेखा के समान, पाले से आहत पद्मिनी के समान, मार्जारों के मध्य रहनेवाले तोता पक्षी के समान और व्याघ्रों के मध्य फँसी हुई गाय के समान, दुर्वार घोर राक्षसों के मध्य बड़े उदास भाव से एक हथेली पर कपोल रखे बैठी हुई थी । ऐसी मुद्रा में बैठी हुई आभूषणों से युक्त वेणी से आच्छादित जघावाली, मलिन अगोवाली, गद्गद कठवाली, उष्ण निःस्वास छोड़ती रहनेवाली, सतत उपवास करनेवाली विशालाक्षी, जनक की पुत्री तथा जगन्माता सीता को हनुमान् ने देखा । उसने तुरत सोचा कि ये कदाचिन् सीता ही हो ।

इस प्रकार सोचकर उसने मन-ही-मन राम तथा लक्ष्मण को बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम किया, बड़े उत्साह से देवताओं की प्रार्थना की और बड़े हर्ष से उस भवन से नीचे उतर आया। उसके पश्चात् उसने एक अगुष्ठ-मात्र का आकार ग्रहण किया और उस अशोक-वृक्ष के पास पहुँचकर उसपर चढ़ गया। बालक के रूप में वट-वृक्ष के पत्रों में शयन करने-वाले विष्णु के समान, वह श्रेष्ठ वानर उस वृक्ष की घनी शाखाओं में बड़ी कुशलता के साथ छिपकर बैठ गया और (उस पुण्यात्मा ने) बड़े ध्यान से उस विशालाक्षी को बार-बार देखने और सोचने लगा—'ऋष्यमूक पर्वत पर जिन आभूषणों को मैंने देखा था, उनमें और इनके शरीर पर दीखनेवाले आभूषणों में समानता दीखती है। अतः, यह पद्मगर्भी, काकुत्स्थवशी राम की पत्नी ही होगी।' इस प्रकार सोचकर वायु-नदन ने और एक बार सीता को ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि उस रमणी के अग, कर्ण-भूषण, मणिमय कंकण तथा सुनहले वस्त्र, ठीक उसी प्रकार के थे, जैसे कि राम ने बताया था। उसके अतिरिक्त उसने उस नारी-रत्न में विरह-व्यथा से पीड़ित होनेवाली स्त्रियों के लक्षण, पतिव्रता नारियों के शुभ चिह्न और निपुण मानव-स्त्रियों के सभी चिह्न देखे। साथ-ही-साथ उसने यह भी देखा कि वह साध्वी राम का नाम लेकर कुछ प्रलाप कर रही है। इन सब बातों पर कुछ समय तक विचार करने के पश्चात् उसने निश्चय किया कि ये सीता ही हैं। फिर उनका विवरण मुख, कृश गात्र, बिखरे हुए केश, उनकी दुर्दशा, उनका विलाप तथा उनकी दीनता देखकर वह मन-ही-मन बहुत दुःखी हुआ और विचार करने लगा—'चंद्र से बिछुड़ी हुई चंद्रिका की भाँति यह चंद्रमुखी रामचंद्र से विलग होकर क्या रह सकती है? क्या इस रमणी से बिछुड़कर राम रह सकते हैं? यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इन दोनों के कुल, शील, दक्षिण्य, गुण, वय, धर्म, तथा सुंदर रूप एक समान हैं। अतः राम के लिए यह रमणी तथा इस युवती के लिए राजा राम सर्वथा उपयुक्त है। इस काता के लिए ही तो सूर्यकुलाधिप ने शिव का धनुष ईश्वर की तरह तोड़ा था। जब ये पीड़ित हुई, तब बड़ी कठोरता के साथ उन्होंने उस कपटी कौए को दण्ड दिया था। जिस विराघ ने पहले इनपर आक्रमण किया था, उसका वध किया था। इन्हीं के लिए उन्होंने शूर्पणखा के नाक और कान कटवाये, खर और दूषण आदि राक्षसों का सहार किया, मारीच को मृत्यु के मुँह में भेजा, बालि को एक ही शर से मार डाला और कपियों को चारों दिशाओं में भिजवा दिया। मैं उन कपियों में अपने को बड़ा बलवान् समझकर, उस पुण्यात्मा काकुत्स्थवशी राम के सामने यह कार्य-भार अपने ऊपर लेकर, अगद आदि वानरों के साथ मैं यहाँ आया। अपने पुण्य-फल के प्रताप से और अपनी इच्छा के अनुसार ही इस पुण्य सती को मैं यहाँ आकर देख सका। भयकर असुर-स्त्रियों के मध्य, यातनाओं में पड़ी हुई इस स्त्री-रत्न को मैं अपना रूप किस प्रकार दिखाऊँ? किस प्रकार मैं इससे वार्त्तालाप करूँ? इस पुण्य साध्वी को कैसे सात्वना दूँ? किस प्रकार प्रभु को यहाँ की दशा सुनाऊँ?'

७ सीता से रावण का प्रलाप

हनुमान् मन-ही-मन इस प्रकार की चिंताओं से व्याकुल होता रहा। वहाँ रावण जानकी

कं सवध में सोचते-सोचते सतप्त हो उठा। वह बड़े तडके ही उठा, तो उसका चित्त काम-देव के प्रभाव से उद्विग्न होने लगा। उसने सुन्दर ढग से दिव्य मालाएँ धारण की, शरीर पर दिव्य गध का लेप किया। दिव्य आभूषणों से अपने शरीर को सजाया। चारो दिशाओं में अपनी शोभा को विकीर्ण करनेवाला मुकुट मस्तक पर रखा और चन्द्रहास (खड्ग) को भी साथ लेकर वह अशोक-वन की ओर चल पड़ा। उसके पार्श्व-भाग में अप्सराएँ, अपने मणिमय कंकणों को क्वणित करती हुई चामर डुला रही थी, गधर्व-युवतियाँ अपने घन-कुचों पर कं हारों को चंचल करती हुई पखे झल रही थी, किन्नर-रमणियाँ छत्र पकड़े हुए अपने कुच-मूलों की शोभा प्रकट कर रही थी, यक्ष-युवतियाँ अपनी बाहुओं तथा पार्श्व-भागों को प्रकट करती हुई हस्त-वाहिकाओं के रूप में जा रही थी। दोनों ओर गहड़ की स्त्रियाँ परिमलं जल तथा मद्य के पात्र लिये हुए चल रही थी। भीड़ में कुचल न जायँ, इम भय से नाग-कन्याएँ आगे-आगे जा रही थी। विद्याधरो की स्त्रियाँ वीणा आदि वाद्यों के साथ कर्णमधुर स्वर में गान कर रही थी। रावण के गुण तथा औन्नत्य के अनुसार सिद्धों तथा साध्यों की रमणियाँ एकत्र होकर उसका गुणगान कर रही थी, खड्गपाणि राक्षस-स्त्रियाँ बड़े उत्साह से उसके पीछे-पीछे चल रही थी। इस प्रकार परिजनो को साथ लेकर सहस्रो मशालों के प्रकाश में बादलों के पीछे चलनेवाली विद्युल्लता के समान मदोदरी को साथ लिये हुए रावण चला। उसकी अन्य स्त्रियाँ भी उसकी सेवा में लगी हुई, उसके पीछे-पीछे जाने लगी। उसके बलिष्ठ पदाघात से पृथ्वी कांपन लगी। भीड़ के परिहास की ध्वनि से आकाश गूँजने लगा। स्त्रियों की मेखलाओं, नूपुरों तथा मणिमय आभूषणों का कलनाद कर्णपुटों को मधुर लग रहा था। इस प्रकार, उनीदी दृष्टि से, कनक-कैयूरी से अलंकृत बाहुओं से, पृथ्वी पर लोटनेवाले वस्त्रों से, अत्यधिक मुरझाये हुए वदन से तथा अत्यंत भीषण आकार में रावण सीता के सामने आकर खड़ा हुआ। उसे देखते ही सीता दिग्भ्रान्त-सी हो गई। अपने मन में उन्होंने रघुराम का स्मरण किया और अपनी जाँघें, उदर, कुच-द्वय, और सुंदर हाथों को अपने वस्त्रों से अच्छी तरह ढक लिया और बाघ द्वारा देखी हुई हिरणी की भाँति सिकुड़कर बैठ गई। ऐसी साध्वी को देखकर अपने मद के प्रभाव में आकर रावण बोला—“हे सुदरी, तुम अपनी क्षीण कटि को क्यों छिपा रही हो? अपना सुंदर मुख क्यों नीचे झुका रही हो? हे अबले, मन्मथ की पीडा से त्रस्त हुए मुझे तुम अपने कृपा-कटाक्ष से बचाओ। परस्त्रियों को बलात् अपने वश में कर लेना हमारी जाति के धर्म के अनुकूल ही है। फिर भी मैं केवल तुम्हारी कृपा-दृष्टि का आकाक्षी हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो। इस हीन दशा में तुम क्यों रहती हो? कदाचित् तुम सोचती हो कि राम अपने भाई के साथ भयकर वन को पार करके यहाँ आयगा और समुद्र पर पुल बाँधकर अपने अतुल पराक्रम से मुझे जीतकर, तुम्हें छुड़ाकर ले जायगा। यह असंभव है। इन्द्र, यम, वरुण आदि देवताओं के लिए भी युद्ध में मुझपर विजय पाना असंभव है। हे कमललोचनी, अब तुम इस पागलपन को छोड़ो। मेरी भुज-शक्ति के सामने मनुष्य की शक्ति ही क्या है? अनाथों की भाँति पर्वतों तथा जंगलों में भटकते हुए, कष्ट सहनेवाले एक शक्तिहीन मानव का सहवास क्यों चाहती हो?

हे सुदरी, तुम मुझे अपनाकर राज्य-सुख क्यों नहीं भोगती ? चाहे इन्द्र हो, यम हो, वरुण हो या कुबेर हो, अग्नि, नैऋत, वायु या ईशान ही क्यों न हों, कोई भी मेरी लका को जीत नहीं सकता। क्या किसी मानव के लिए लका की ओर दृष्टि डालना भी संभव है ? अब राम कहाँ है ? वह यहाँ कैसे आयगा ? आकर लका में प्रवेश करेगा किस ढंग से ? प्रवेश करके भी विना भयकपित हुए मेरा सामना करेगा कैसे ? सामना करके भी मेरे साथ लड़ेगा कैसे ? लड़ेगा भी, तो मेरी शक्ति को किस प्रकार सहन कर सकेगा ? सहन करेगा भी, तो कब तक कर सकेगा ? इसलिए, ये सब बातें असंभव हैं। उन बातों को छोड़ दो।' रावण इस प्रकार राम की निंदा करते हुए कर्णकटु शब्द कहता रहा।

८ सीता का रावण की निंदा करना

तब सीता ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक तिनका ऐसा तोड़ा, मानो वे इसकी घोषणा कर रही हो कि तुम अवश्य राम के हाथों से नाश को प्राप्त होंगे। फिर वे उस तृण को हाथ में लेकर उसे संबोधित करके कहने लगी—'हे पापी, मेरे पति को धोखा देकर तुम मुझे अपनी लका नगरी में ले आये हो। इसे बहुत बड़ा पराक्रम मानकर तुम क्यों गर्व कर रहे हो ? इसे महान् कार्य समझकर क्यों प्रलाप कर रहे हो ? पराई स्त्रियों के साथ समागम चाहनेवालों का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है और उनकी आयु भी क्षीण होती है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो औचित्य तथा धर्म का विचार करके मुझे राम के पास पहुँचा दो। इसके विपरीत यदि दुर्बुद्धि के वश में पड़कर तुम मुझे ग्रहण करना चाहोगे, तो कोदण्ड-दीक्षा-गुरु राजा राम के हाथों से मारे जाओगे। यह निश्चित है। तुम अपने मन में यह मत समझो कि वे वनवास के कारण कृश-गात्र, दुर्बल, अनाथ, राज्यहीन, असहाय हो गये हैं और वे मनुज-मात्र हैं। क्या उन्होंने दडकवन में चौदह सहस्र भयकर राक्षसों को नहीं मारा ? दण्डधर के उदूढ दण्ड के प्रताप को मात करनेवाले तथा सूर्य-किरणों के भयकर गर्व को भी परास्त करनेवाले राम के असख्य रण-भीषण-बाण जिस दिन तुम्हारी लका में व्याप्त होंगे, जिस दिन वे बाण तुम्हारे वक्षस्थल में गड़ेंगे, उसी दिन तुम अपनी तथा राम की शक्ति का अनुभव कर सकोगे। मैं अब उसके सबध में क्यों कहूँ ? जैसे कुहरा सूर्य का सामना करने पर नष्ट हो जाता है, जैसे भेडा पहाड़ से टक्कर लेने से नष्ट हो जाता है, जैसे मच्छर मत्त गज का सामना करने से पिस जाता है, जैसे नाला समुद्र का सामना करके अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही तुम भी यदि अपनी और उनकी शक्ति की तुलना किये विना ही राजा राम के साथ भिड़ जाओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। भला, तुम क्या देखकर इठला रहे हो ? सूर्यवश के तिलक (राम) इस प्रकार तुम्हें इस पृथ्वी पर थोड़े ही रहने देंगे ?'

इन बातों को सुनकर रावण अत्यंत रोष से जानकी को देखकर बोला—'मैंने तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे श्रेष्ठ शक्ति का वर प्राप्त किया है, इन्द्र से लेकर सभी देवताओं को परास्त किया है, शिवजी के साथ समस्त कैलास पर्वत को उठाया है, बड़े साहस के साथ सभी ऊर्ध्व लोको को जीता है, पाताल के निवासियों को परास्त किया है

और ससार में महान् उन्नति प्राप्त की है । अपने पिताजी द्वारा निर्वासित एक मूर्ख, निरुपाय तथा तपस्वी का जीवन व्यतीत करनेवाला एक साधारण मानव क्या मेरे-जैसे व्यक्ति के सामने टिक सकता है ?'

इस प्रकार जब रावण राम की निंदा करने लगा, तब सीता उमडते हुए क्षेम से, व्याकुल एवं दुःखी होकर, गद्गद कंठ से विलाप करने लगी । जानकी का दुःख देखकर देव तथा गधर्व-स्त्रियों का भी धैर्य जाता रहा और वे भी रोने लगी । रावण का घमड तथा सीता का दुःख देख अनिलकुमार हनुमान् क्रोधाग्नि में सतप्त होने लगा और तुरंत मन-ही-मन उस दुष्ट राक्षस पर भ्रष्टने का विचार करने लगा । उसने सोचा—'यदि मैं इसका वध करने में समर्थ होऊँ तो मैं अपने प्रभु को भूमिसुता (सीता) का कुशल-समाचार सुना सकता हूँ । किन्तु यदि मैं अपनी समस्त शक्ति खोकर, युद्ध में, देवताओं के शत्रु (रावण) के हाथों मारा जाऊँ, तो राम को किस प्रकार लका का पता लगेगा ? लका का पता न जानने से वे स्त्री के वियोग में अत्यधिक पीडित होंगे, लका में सीता की उपस्थिति तथा मेरी मृत्यु, इन दोनों का समाचार वे जान नहीं पायेंगे, तो वे निदान अपने प्राण-त्याग कर देंगे । मेरे सारे किये-करायें पर पानी फिर जायगा । साथ-ही-साथ इससे मेरे प्रभु के कार्य की हानि ही होगी । इसलिए ऐसा कार्य मुझ अब नहीं करना चाहिए ।' यो सोचकर धैर्य के साथ हनुमान् उसी पेंड पर बैठ रहा । रावण ने काम, क्रोध, भय तथा दृढता के साथ जो बातें कही, उनसे भयभीत न होकर सीता ने सब स्त्रियों के सामने ही अत्यंत कठोर वचनों से रावण की निंदा की । उनकी बातें सुनकर दनुजेश्वर दुष्ट भावनाओं से अभिभूत-सा हो गया । उसकी मृकटियाँ कुटिल हो गईं, उसके चंचल नेत्र रक्तवर्ण के हो गये । प्रज्वलित, चंचल एवं भयकर प्रलयकालीन लोक-संहारक अग्नि की भाँति वह क्रोध से भभक उठा । उसने भयकर हुंकार किया और क्रूर तथा नीति-रहित हो साध्वी सीता को त्रास देने के लिए सन्नद्ध हो गया ।

९ मन्दोदरी का रावण को उपदेश

तब धन्यात्मा मन्दोदरी रावण के पास पहुँचकर बोली—'हे नाथ, ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य आप क्यों करते हैं ? सीता अबला है; मानिनी है, मानव की स्त्री है, इसके ऊपर मोहित होकर ऐसा क्रोध क्यों करते हैं ? हमारे अंतपुर में जो सुदरियाँ हैं, उनमें से यह किसकी बराबरी कर सकती है ? आप मेरे साथ सुख भोगिए । आपका यह कार्य आप-जैसे व्यक्ति के लिए नीतिसंगत नहीं है ।'

मन्दोदरी की बातें सुनकर रावण लज्जित तथा क्षुब्ध हो गया । फिर भी उसने सीता के निकट रहनेवाली दीर्घकाया, भयकर आकृतिवाली, निष्ठुर वचन कहनेवाली, सतत ऋगडा करनेवाली, क्रूर स्वभाववाली और विकृत शरीरवाली भयकर हयास्या, हरिजटा, त्रिजटा तथा महोदरी नामक राक्षसियों को बुलाया और उनसे निर्लज्ज होकर कहा—'दो महीनों के भीतर तुम इसे प्रिय वचनों से, या धमकियों से, या भयभीत करके अथवा त्रास देकर ऐसा बनाओ कि यह मेरी बात मान ले । यदि यह न माने, तो तुम सब इसका वध करके प्रीतिपूर्वक इसका मांस खा लें।' यह कहकर वह राक्षसराज असोक-वन से अपने अंतपुर को चला गया ।

१० राक्षसियों का सीता को दुःख देना

इसके पश्चात् दानव-स्त्रियाँ अपनी चिकनी-चुपडी बातों से जानकी को समझाने लगी—‘हे सीते, तुम रावण को अपना लो ।’ एक राक्षसी हाथ में शूल लिये उन्हें धमकी देने लगी—‘राम इस लका की ओर ताक भी नहीं सकेगा, इसलिए तुम उसकी आशा छोड़ दो ।’ एक नीचबुद्धिवाली कहने लगी — ‘इस प्रकार क्यों कष्ट भोग रही हो ? दानवेश्वर को वर लो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर डालूँगी ।’ एक राक्षसी बीच ही में रोककर बोली—‘खड्ग लाओ, हम अभी इसका सिर काट डालें और इसका मांस मधु में डुवोकर चखें ।’ उसका समर्थन करती हुई एक दूसरी राक्षसी ने कहा—‘ठीक है, यही करो ।’

इस प्रकार धमकी देनेवाली राक्षसियों को देखकर भूमिसुता, कुमुदनयनी सीता मन-ही-मन क्रोधित एव दुखी हुई और आँसू बहाती हुई गद्गद कंठ से धमकानेवाली उन स्त्रियों को देखकर बोली—‘क्या दानव और मानव में कही दापत्य निभ सकता है, तुम सब मिलकर ऐसे अपशब्द कह रही हो, क्या यह तुम्हारे लिए उचित है ? जैसे चंद्रिका, चंद्र से बिछुड़कर नहीं रह सकती, जैसे प्रभा सूर्य से बिछुड़कर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं राम से बिछुड़कर नहीं रह सकती । मेरे प्रभु भले ही दीन रहें, राज्यहीन रहें तो भी वे मेरे इष्ट देवता हैं । मैं भी जलधि (लक्ष्मी) के समान, पार्वती के समान, वाणी के के समान, पौलोमी के समान, सावित्री के समान तथा रति के समान पतिव्रता की निष्ठा से अपने पति राम की ही आराधना करूँगी । तुम चाहो, तो मेरा वध कर डालो, तेज खड्ग से मेरा सिर काटना चाहो, तो काट दो । मैं केवल राम के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं कर सकती । मैं भ्रम में डालनेवाली तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊँगी । अब तुम इन बातों को छोड़ दो ।’

सीता की बातें सुनकर सभी राक्षसियाँ क्रोध से भभक उठी और मदमत्त हो सीता को विविध प्रकार से पीडा देने लगी । तब सीता धूलि-धूसरित हो पृथ्वी पर लोट गई और उनकी काली नागिन की-सी वेणी बिखर गई । वह उत्तम स्त्री पृथ्वी पर पड़ी हुई, उससे भरने लगी । वे ऊँचे स्वर में बार-बार, ‘हाय लक्ष्मण’, ‘हाय राम’, ‘हाय माता कौसल्य’, कहकर रोने लगी ।

११ त्रिजटा का स्वप्न

त्रिजटा सीता का सताप न देख सकने के कारण वहाँ से उठकर चली गई और किसी एकांत स्थान में जाकर सो गई । सोते-सोते एक स्वप्न देखकर वह जाग पड़ी । उसने सभी राक्षस-स्त्रियों को देखकर कहा—‘हे नारियो, मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे मैं तुम लोगों को सुनाऊँगी, ध्यान से सुनो । मैंने स्वप्न में देखा कि राम एक हाथी पर चढ़कर आ रहे हैं; उनके पीछे-पीछे लक्ष्मण, उनके सेवक के रूप में आ रहे हैं । फिर मैंने देखा कि वह पृथ्वीपति इस कोमलागी को उस गज पर बैठाकर ले जा रहे हैं । फिर मैंने देखा कि रामचंद्र का राजतिलक हो रहा है और ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा कर रहे हैं । इतना ही नहीं, मैंने यह भी देखा कि रावण सुंदर पुष्पक विमान से चकराकर पृथ्वी पर गिर गये है । तब नीलाबर धारण किये हुई एक युवती एक भयकर खड्ग लेकर

गिरे हुए रावण के निकट पहुँची और उसने उनके सिर काट डाले है । फिर उसने बड़े बड़े गधे जुते हुए रथ में उन्हें रख दिया और उस रथ को दक्षिण दिशा की ओर ले गई । उसके पश्चात् मैंने देखा कि कुभकर्ण एक ऊँट पर चढ़कर दक्षिण की ओर जा रहा है । सुदूर दग से विलसित होनेवाले अपने तोरणों के साथ, लका समुद्र में डूब गई है । सभी राक्षस नैल-धाराओं में डूबे हुए पड़े हैं । विभीषण धवल छत्र धारण करके एक हाथी पर विनय से बैठा हुआ है । इसलिए हे दानवियो, अब रावण का मरण, और रघुराम की विजय निश्चित ही समझो । अतः, तुम इस भूमिसुता को न अपशब्द कहो, न उन्हें सताओ ही । तुम सब अब यहाँ से हट जाओ ।” उसकी बातें सुनकर सभी दानवियाँ वहाँ से हट गईं और थकी रहने कारण जाकर सो गईं ।

उस समय सीता भय तथा दुःख से काँपती हुई, दो मास में उन्हें मार डालने की जो आज्ञा रावण ने दी थी, उसके बार-बार स्मरण से ही भयभीत हो उठी । वे अशोक-वृक्ष की शाखा के सहारे उठकर खड़ी हुई, और अपनी चञ्चलता के कारण वन में मार्ग खोई हुई बालिका के समान विलाप करने लगी । वे कहने लगी—‘हाय भगवान्, क्रूरता के साथ यहाँ बंदी बनाकर मुझे इस प्रकार दुःखी बनाना, क्या तुम्हारे लिए उचित है ? क्या ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मैं इस पापी दैत्य के हाथों मरूँ ? ऐसा न होता, तो राम दण्डक वन में क्यों आते ? स्वर्ण-मृग मुझे भ्रम में क्यों डालता ? यह रावण मुझे बंदी बनाकर दुःख ही क्यों देता ? किन्तु मैं अपने बारे में क्यों सोचूँ ? चंद्र के समान मुख-वाले, लोक-रक्षण-कार्य में तत्पर रहनेवाले, मेरे प्रभु रामचंद्र न जाने घोर वन में सौमित्र के साथ किस प्रकार दुःख से पीड़ित होते होंगे और कैसी दुरवस्था भोग रहे होंगे ? पता नहीं, उनकी क्या दशा होगी ? न जाने, वे शूर यहाँ कब आयेंगे, कब इस नीच राक्षस का गर्व चूर करेंगे, और कब मुझे अपने साथ ले जायेंगे । ये सब कार्य कब सिद्ध होंगे ? और कैसे सिद्ध होंगे ? इस दुरात्मा के हाथों मरने से स्वयं मर जाना मैं अच्छा समझती हूँ ; किन्तु मुझ पर दया करके विष लाकर देनेवाला भी यहाँ कोई नहीं है । हे राम, हे धर्म-निरत, मेरा पातिव्रत्य आज खिन्न हो गया है । मैं अब आत्मघात कर लूँगी ।’ इस प्रकार कहती हुई वे अपने केशों को कंठ में बाँधकर अपने प्राण देने का उपक्रम करने लगी । इतने में उनका वाम-नेत्र मछलियों के स्पर्श से हिलनेवाले कमलो के समान फड़कने लगा । मलयानिल से चञ्चल होनेवाली वन-लता के समान उनकी वाम भुजा फड़क उठी । मत्त गज की सूँड की भाँति उस रमणी की बाईं जाँघ भी फड़क गई । भयकर राहु से मुक्त कुमुद-बधु (चंद्र) के समान उनका मुखचंद्र दीप्त हो उठा । जब इस प्रकार शुभ शकुन दीखने लगे, तब गजगामिनी सीता ने अपने दुःसाहसपूर्ण निश्चय का त्याग कर दिया । वे रामचंद्र का, उनके भाइयों का, तथा अपनी सासों का स्मरण करने लगी । राक्षसों के द्वारा दिये गये कष्टों से बहुत ही क्लान्त होकर वे अपनी दयनीय स्थिति का विचार करके दुःखी होने लगी ।

१२. हनुमान् का सीता को राघवों का वृत्तान्त सुनाना

हनुमान् ने सोचा कि इस साध्वी का दुःख शांत करने का यही अच्छा अवसर है ।

यो सोचकर वह वृक्ष पर बैठे-बैठे ही रविकुल की रीति तथा राम के पीरुष की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगा । उसके पश्चात्, यह सोचकर कि यह साध्वी वानरो की भाषा तथा गीर्वाण (संस्कृत)-भाषा कदाचित् जानती न हो, उसने मानवों की भाषा में उनको संबोधित करके कहा—‘हे भूमिसुते, हे पुण्यसाध्वी, इस प्रकार आप दुःख क्यों कर रही हैं ? आपके प्रभु सकुशल हैं । जगदीश्वर, राजा राम समुद्र पार करेंगे और रावण का सहार करके अपने साथ आपको ले जायेंगे । यह सत्य है । अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अपनी महान् महिमा प्रकट करते हुए रामचंद्र माल्यवत में रहते हैं और अनेक वानर-सेनाएँ उनकी सेवा में लगी हैं ।’

इन वचनों को सुनकर सीता ने सोचा कि यह कोई आकाशवाणी है । उन्होंने तुरन्त अशोक-वृक्ष की ओर सिर उठाकर देखा । तब उन्होंने सुन्दर नील मेघों के भीतर दीखनेवाले बालचंद्र के समान तथा विद्युत् के समान, उस वृक्ष की शाखाओं के मध्य, लघुरूप धारण किये बैठे एक वानर को देखा । तुरत वे दुःखी होकर कहने लगी—‘हाय मैंने स्वप्न में एक बदर को देखा है । भगवान् करे कि इस स्वप्न का अशुभ फल काकुत्स्थ-वशजो को न मिले ।’ फिर, उन्होंने इन्द्र आदि सभी देवताओं, वृहस्पति, अग्नि तथा सभी लोक-पालकों की बड़ी भक्ति से प्रार्थना की ।

इसके बाद वे सोचने लगी—‘हम जिसके सबध में बार-बार सोचते रहते हैं, या जिसके विषय में प्रायः सुनते रहते हैं, वे ही स्वप्न में हमें दिखाई देते हैं । मैं अपने मन में राघव के सिवा और किसी विषय के सबध में सोचती ही नहीं हूँ । पुण्यात्मा मेरे प्रिय प्रभु, सूर्यवंशज, विमल चरित्रवान् राम से विछुड़कर विरहाग्नि में तप्त रहने तथा भयकर राक्षसियों के द्वारा प्राप्त दुःखों से पीडित होने के कारण मैं दिन-रात निद्रा से वंचित रहती हूँ । किन्तु विना निद्रा के यह स्वप्न कैसे हुआ ? मैं और एक बार ध्यान से अशोक-वृक्ष की ओर देखूँ ।’

इस प्रकार, विचार करके उन्होंने अपने मुख-कमल को धीरे से ऊपर उठाया और बार-बार हनुमान् को देखा । फिर सोचने लगी—‘यह कैसे आश्चर्य की बात है कि कोई बदर इस वृक्ष पर कहीं से आकर बैठा है । मानव के समान सुंदर ढंग से इसने मेरे पतिदेव का कुशल-समाचार सुनाया है और बार-बार प्रिय वचन बोल रहा है । भला, कहीं वानरो में ऐसी बातें संभव हैं । कई प्रकार से विचार करने पर ऐसा लगता है कि यह कदाचित् राक्षस की माया ही है । ऐसा सोचकर वे प्रत्युत्तर दिये विना चुप रही ।

१३ हनुमान् का सीता को राम की अँगूठी देना

तब पवनकुमार समझ गया कि सीता मेरा विश्वास नहीं कर रही है । इसलिए वह पैड़ से उतर आया और बड़ी भक्ति के साथ सीता को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा—‘हे कल्याणी, आप मेरा विश्वास कीजिए । मैं आपको आपके पति से मिलाने के लिए आया हुआ सेवक हूँ । आपको मुझ पर विश्वास हो जाय, इसी उद्देश्य से राम ने यह अँगूठी देकर मुझे भेजा है ।’ इतना कहकर हनुमान् ने राम की अँगूठी उन्हें दिखाकर प्रणाम किया । तब सीता हनुमान् को देखकर बोली—‘हे अनघ, निशाचरो की मायाओं से

सदा सतप्त रहने के कारण रघुराम की अँगूठी देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है । तुम कौन हो ? सूर्यकुलाधिप का रूत कैसा है ? उनके अनुज सौमित्र का रूप कैसा है ? मेरे प्रभु अब कहाँ रहते हैं ? उन्होंने तुम्हें कौन-सा सदेश सुनाने के लिए भेजा है ? तुम किस प्रकार समुद्र पार करके यहाँ आये ? तुम इन सब बातों का उत्तर दो, ताकि मुझे विश्वास हो जाय ।'

तब हनुमान् सीता से इस प्रकार कहने लगा—'हे देवी, वायुदेव के वर-प्रसाद से कैसरी नामक एक कपि-श्रेष्ठ तथा अजना देवी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ । मेरा नाम हनुमान् है । इस पृथ्वी पर सुग्रीव नामक वानर-राजा का मैं विश्वस्त मंत्री हूँ । उनके भाई बालि ने उनके राज्य तथा पत्नी को उनसे छीन लिया था । तब से वे अपने चार मंत्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहते थे । दशकठ जब कपट रूप से आपको लिये जा रहा था, तब मैंने आपका विलाप सुना और सिर उठाकर आपकी ओर देखते रहे । आपने भी हमें देखा और एक वस्त्र में बाँधकर अपने कुछ आभूषण पृथ्वी पर गिरा दिये । उन आभूषणों को सुग्रीव ने सुरक्षित रखा । उसके पश्चात् रघुराम आपका अन्वेषण करत हुए अपने भाई के साथ पपा सरोवर के तट पर पहुँचे । उनको वहाँ देखकर सूर्य-पुत्र ने उनका समाचार जानने के लिए मुझे भेजा । मैंने जाकर उनकी सभी बातें जान लीं और सुग्रीव की राम से भेंट करा दी । तब सूर्य-पुत्र ने राम को बड़ा भक्ति से आपके आभूषण दिखाये । उन्हें देख राम बहुत प्रमत्न हुए । उसके पश्चात् उन्होंने सुग्रीव के शत्रु बालि का सहार किया, और उपकार के भार से दबे सुग्रीव को कपियों का राजा अभिषिक्त किया । सुग्रीव राम को अपना प्रभु मानते हुए बड़ी भक्ति के साथ एक सेवक की भाँति रहने लगे । उन्होंने अनुपम बली दो लाख वानरों की सेना एकत्रित की और उनसे कहा—'तुम लोग जाकर सीताजी का पता लगाकर आओ और साथ-साथ घमडी राक्षसों के सैन्य-बल का भी पता लगाकर एक महीने के भीतर लौट आओ ।' उनका आदेश मानकर सभी कपि सब दिशाओं में निकल पडे । आपका अन्वेषण करने के लिए अगद आदि कुछ लोग दक्षिण दिशा में आये । हमने बहुत देशों में आपको ढूँढा, पर कहीं आपका पता नहीं चला । तब हम अत्यंत दुःखी हुए । उस समय अरुण-पुत्र सपाति ने हमें लकापुरी का मार्ग बताया । आपके दर्शनार्थ मैंने अपने पराक्रम से समुद्र को पार किया और आज सूर्यास्त के समय दूसरों की आँखें बचाकर इस नगर में प्रवेश किया । मैंने अपना विशाल रूप छोड़कर लघु रूप धारण करके सब स्थानों में आपको ढूँढा; पर कहीं भी आपको मैं देख न सका । निदान मैं यहाँ आ पहुँचा, जहाँ आपके दर्शन हुए । फिर भी, मुझे सदेह था कि आप रविकुलाधिप की पत्नी हैं या नहीं । किन्तु जगदीश राम ने आपकी जो आकृति मुझे बतलाई थी, वह आपसे मिलती-जुलती है, इसलिए मेरा सदेह दूर हो गया । अभी-अभी जब रावण यहाँ आकर आपसे वात्सलाप कर रहा था, तब मैं यही था । मैंने यह भी सोचा कि मैं अपनी अपार शक्ति से उससे युद्ध करूँ और उसका वध कर डालूँ । किन्तु, मैंने यही उचित समझा कि पहले आपसे भेंट कर लूँ, और आपके प्राणनाथ का कुशल-समाचार आपको सुना दूँ । उसके बाद रावण से भिड़ूँ । मुझे अपने प्राणों का मोह तिल-भर भी नहीं है ।

इतना कहने के पश्चात् हनुमान् ने राम का कद, उनकी अवस्था, उनकी आँखों का सौंदर्य, कंठ का माधुर्य, मद हँसी से युक्त मुख की शोभा, नखों की आकृति, उन्नत स्कंधों की सुंदरता, कसी हुई कमर की मनोज्ञता, विशाल वक्ष की शोभा, कानों का रंग, चलने का ढंग, नाभि की सुघडता, जाँघों की विशालता, करों की लालिमा आदि शरीर के सभी लक्षणों का वर्णन किया। तत्पश्चात् उसने उनके शौर्य, धैर्य, ब्रह्मचर्य, उनकी शक्ति दाति, सयम और क्षाति (क्षमा) उनकी शक्ति, युक्ति, और पितृ-भक्ति तथा उनके शील और बर्ताव आदि का वर्णन किया। फिर उस पुण्यात्मा ने लक्ष्मण के रूप का भी वर्णन किया और तब राम की अँगूठी सीता को दी।

सीता ने अँगूठी ली और उसे देखकर ऐसी आश्चर्य से भरी, मानो उनके खोये हुए प्राण लौट आये हों। राम के दर्शनों से भी अधिक उस अँगूठी को देखकर वह रमणी आनंदित हुई। उन्होंने उसे अपने वक्ष से ऐसे लगाया, मानो उसे अपने हृदय-रूपी सिंहासन पर बिठा रही हों, उनकी आँखों से आनंद के अश्रु ऐसे बहने लगे, मानो वे उस अँगूठी को अर्घ्य-पाद्य आदि दे रही हों। वे पुलकित गात्र से उसे देखकर ऐसी मूर्च्छित हो गई, मानो धूप-दीप आदि दिखाने के पश्चात् वे उसके (उस अँगूठी के) सामने साष्टांग प्रणाम कर रही हों।

कुछ समय के पश्चात् वे सँभल गईं और हनुमान् को देखकर कहने लगी—
‘हे कपिकुलोत्तम, हे राम-कार्य-तत्पर, हे उपकार-निरत, हे लोकोन्नत-चरित्रवान्, हे पवनकुमार, तुमने मुझे प्राण-दान किया है। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार कर नहीं सकती। काकुत्स्थतिलक की कृपा से तुम कल्पांत तक जीवित रहो।’ इस प्रकार आशीर्वाद देनेवाली जानकी को देखकर, महान् पराक्रमी वायुपुत्र ने हाथ जोड़कर कहा—‘हे देवी, मैंने आपकी वह कृपा प्राप्त की है, जो ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैंने आपकी दर्शन भी कर लिये। मेरे लिए यही क्या कम है?’

तब सीता अपने प्राणनाथ तथा देवर का कुशल-समाचार पूछती हुई बोली—
‘हे अनघ, अनुपम बलशाली रघुराम मुझसे बिछुड़कर क्या धैर्य के साथ रह रहे हैं? व तथा उनके अनुज क्या कभी मेरा स्मरण करते हैं? क्या वे युद्ध करने के लिए शीघ्र यहाँ आनेवाले हैं? तब हनुमान् ने कहा—‘हे माता, अपने प्राणनाथ का वृत्तांत सुनिए। जिस दिन से वे आपसे जुदा हुए हैं, वे सतत वेदना से पीड़ित रहते हैं, धरती पर सोते हैं, निद्रा को तो वे जानते ही नहीं। मासाहार भी उन्होंने छोड़ दिया है। वे सदा दण्डक-वन में आपके खो जाने की बात सोचते रहते हैं। सिर किंचित् भुका लेते हैं, लबी साँस खींचते हैं, आँखों में आँसू भर लेते हैं, मूर्च्छित हो जाते हैं, धरती पर गिर पड़ते हैं और बेतना लौटते ही उठकर चारों ओर शून्य दृष्टियों से देखने लगते हैं और व्यथा से पीड़ित तथा व्याकुल होते हैं। कभी-कभी हाय सीता! हाय सीता! कहकर पुकारते हैं। सुमित्रा-नंदन जब उनकी यह दशा देखते हैं, तब वे भी दुःखी हो जाते हैं। जब वे दोनों आपके यहाँ रहने का समाचार सुनेंगे, तब तुरंत वहाँ से चल पड़ेंगे। वे मुझसे भी श्रेष्ठ, भयकर आकारवाले; अमैत्र पराक्रमवाले; नग, शृंग, तरु, नख तथा दाँतों को आयुधों के रूप में प्रयोग करनेवाले; सुग्रीव, नल, अंगद आदि भयकर वीरों को साथ लेकर, समुद्र को लाँघकर

किसी भी प्रकार यहाँ आयेंगे और आपको साथ लेकर अयोध्या जायेंगे। रावण रामके द्वारा युद्ध में मारा जायगा। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। पर हे माता, इतना विलब क्यों ? चलिए, स्वयं आपको अपनी पीठ पर लेकर, बड़े यत्न से समुद्र को लाँचकर प्रातःकाल होते-होते प्रभु के पास पहुँच जाऊँगा।”

वायु-पुत्र के सद्गुणों से प्रसन्न होकर सीता बोली—“हे पवनसुत, तुम अवश्य ही इस प्रकार करने की क्षमता रखते हो। सचमुच तुम्हारी शक्ति वैसी ही है। किन्तु, हे अनघ, विवाह के दिन से अबतक लोकप्रभु, रामचंद्र के सिवा अन्य पुरुष का स्पर्श स्वप्न में भी मैंने नहीं किया। यह नीच रावण मुझे यहाँ उठा लाया है, उसके स्पर्श का दुःख ही मुझे सतत सालता रहता है। उसने दुस्साहस के साथ बलात् मेरा स्पर्श किया। मैं अन्य किसी पुरुषों के स्पर्श की कल्पना भी नहीं करती। तुम मेरे प्राणनाथ के विश्वासपात्र अनुचर हो। फिर भी, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर चलना नहीं चाहती। लोग कहेंगे कि राम की पत्नी को धोखे से दैत्य उठा ले गया था और राम भी उसी प्रकार उसे वापस ले आये, इसलिए यह उचित नहीं है। पहले एक बार चित्रकूट में रहते समय राम मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय आरे के जैसे तीक्ष्ण नखोवाला एक कौआ वहाँ आया और अवसर देखकर मेरे कुच के मध्य में चोंच मारी। जब (मेरे शरीर से) रक्त प्रवाहित होने लगा, तब सूर्यवंश-तिलक की निद्रा खुल गई। उन्होंने कौए पर एक बाण चला दिया। वह बाण ब्रह्मास्त्र बनकर बड़ी भयंकर शक्ति के साथ उस कौए का पीछा करने लगा। तब वह कौआ दुहाई देते हुए सारे ससार में चक्कर काटने लगा। किन्तु कहीं, कोई भी उसे शरण देनेवाला नहीं मिला। तब वह फिर रामचंद्र की शरण में आया, तो शरणागतवत्सल होने के कारण उन्होंने उसे शरण दी और उसकी एक आँख अपने चलाये अस्त्र के लिए दिला दी। उस सूर्यवंश-तिलक ने मेरे लिए यह सब किया।”

१४. सीता का संदेह

“हे पवनकुमार, मेरा प्राणनाथ को स्मरण दिलाना कि उस दिन का वह प्रेम और उस दिन का वह अस्त्र, वे क्यों भूल गये हैं ? आज पति से बिछुड़कर दस सहस्र प्रकार के कष्टों का सहन करते हुए मुझे दस महीने व्यतीत हो गये हैं। तुमने मेरी दशा देखी, मेरे कष्ट देखे। किसी भी प्रकार अब ये सड़े नहीं जाते। कभी काम न होने-वाले दुःखों को सहते हुए एक दिन बिताना मेरे लिए एक समुद्र को पार करने के समान है। तुम मेरे प्राणनाथ से ऐसी नम्रता के साथ मेरी ओर से यह निवेदन करना कि उनके मन में मेरे प्रति दया उत्पन्न हो। तुम उनसे कहना कि मेरे पिता जनक ने यह विश्वास करके कि आप (राम) अपने वचन का भंग नहीं करेंगे, मुझे उनके हाथों में सौंपा था। अब मेरा हाथ छोड़ना उनके लिए उचित नहीं है। विवाह की वेदी पर, अग्नि-देवता को साक्षी बनाकर सदा मेरी रक्षा करने का वचन देकर वे मुझे ले आये। किन्तु, अब मेरी उपेक्षा करके उन्होंने मुझे असहाय बना दिया है। अपनी स्त्री को दूसरे के हाथ में खोकर चुप बैठे रहना पौरुष नहीं कहलाता। इससे उनकी कीर्ति में कलंक लगेगा। इसका मुझे बड़ा दुःख है। मेरे मन और प्राण उन्हीं पर केन्द्रित हैं।

“हे हनुमान्, तुम सौमित्र से मेरी ओर से ये बातें कहना—‘तुम मुझे अपनी मातः के समान मानते थे । अब मुझको इस प्रकार भूल जाना और मेरी दशा का विचार नहीं करना क्या तुम्हारे लिए उचित है ? मैंने तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा को दण्डक वन में अपशब्द कहे थे, उसका फल मैं अब भुगत रही हूँ । अब विलम्ब मत करो, दया दिखाओ ।’ हे पवनकुमार, तुम अगद, रविपुत्र तथा अन्य वानरनायको से अवसर के अनुकूल मेरे विनीत वचन कहना, और किमी भी प्रकार उन्हें रामचन्द्र तथा लक्ष्मण के साथ यहाँ ले आना । मैं बड़े साहस के साथ एक मास तक तुम्हारे, आगमन की प्रतीक्षा करूँगी । उसके पश्चात् मैं जीवित नहीं रह सकूँगी । इस अवधि के भीतर तुम अवश्य रघुराम को किमी भी प्रकार से यहाँ ले आना । अब तुम शीघ्र यहाँ से जाओ ।”

सीता के इन वचनों को सुनकर हनुमान् विनम्र होकर बोले—‘हे माता, ऐसा ही होगा । मैं आपकी सभी बातें उनसे कह दूँगा । अब आप आश्वस्त हो जाँय । हे देवी, मैंने आपको रघुराम की अँगूठी ला दी थी । अब मैं रिक्त हाथो यहाँ से जाऊँ, यह दूत के लिए उचित नहीं है । अतः, आप अपने चिह्न के स्वरूप में कोई रत्न दीजिए ।’ तब सीता बोली—‘तुम देखने में इनने छोटे हो, तब इस विशाल समुद्र को किस प्रकार पार कर सकोगे ? महान् बल तथा पराक्रम से पूर्ण अपना मच्चा रूप तुम मुझे दिखाओ । तुम्हारा निज रूप देखे बिना मैं तुम्हें अपनी चूडामणि नहीं दूँगी ।’

तब हनुमान् ने अपना रूप इतना ऊँचा बनाया कि सारा आकाश उनके शरीर पर व्याप्त हो गया । चमकनेवाले नक्षत्रों का समूह पहले उनके कंठ का मालती-मल्लिका का हार बना, फिर वक्षस्थल पर शोभित होनेवाले रजत का हार बना और उसके पश्चात् उसके कटि-प्रदेश को अलङ्कृत करनेवाली चाँदी की क्षुद्र घटिकाओं की मेखला बन गया । ऐसा अत्यन्त भयकर रूप धारण करके जब हनुमान् सीताजी के समक्ष खड़ा हुआ, तब वे मन ही मन भयभीत हो गईं और कहने लगी—‘हे अनुपम गात्रवाले, हे अजनासुत, तुम्हारा यह रूप आश्चर्यजनक है । शीघ्र ही इस रूप का उपसहार करो ।’ यो कहकर उन्होंने हनुमान् की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया । उसका विश्वरूप देखकर देवता भी उसकी प्रशंसा करने लगे । फिर पवनपुत्र ने विष्णु के समान, उस विशाल आकार को छोड़कर लघु रूप धारण कर लिया । तब सीता ने बड़े स्नेह से हनुमान् को अपने निकट बुलाया, अपनी साड़ी के छोर में बँधी हुई चूडामणि निकाली और बड़ी प्रीति से उसे हनुमान् के हाथों में रखा । हनुमान् ने बड़ी भक्ति के साथ उसे ग्रहण किया और प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से विदा हुआ ।

१५. अशोक-वन का ध्वंस

हनुमान् ने सोचा—मैं अब रावण को अपने आगमन का समाचार बताता हूँ । फिर, थोड़ी देर तक सोचने के पश्चात् वन का नाश करने के उद्देश्य से उसने शरीर बढ़ाया और अपने उरु से उत्पन्न बवंडर (प्रचंड वायु) के धक्के से उस वन के वृक्षों को तोड़कर इस प्रकार गिरा दिया, मानो वे (कपड़े के) ताने-बाने हों । फिर, नित्य अलङ्कृत उस अशोक-वन में रहनेवाली रमणीय अट्टालिकाओं को पृथ्वी पर गिरा दिया, क्रीड़ा-गृहों को चूर-चूर

कर दिया, वृक्ष की शाखाओं को तोड़ दिया, फूलों को भाड़ दिया और उनके सुगंधित मकरद को बिखेर दिया, नाली को नष्ट कर दिया, पुष्प-लताओं को तोड़ दिया, निकुंजों को छिन्न-भिन्न कर दिया और तालाबों के जल को आलोकित करते हुए उसमें अच्छी तरह तैरने लगा। हनुमान् के इस भयकर कृत्य के कारण पिक, बक, सारस, क्रीच, कलहस, शुक, शारिका, मयूर आदि सभी पक्षी आर्तध्वनि करते हुए उड़ने लगे। तब वन के माली जाग पड़े और हनुमान् से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। आकाश तथा दिगंतों को अपने गर्जनो से गुंजायमान करते हुए वे हाथ में अनुपम कंगवाल लेकर हनुमान् पर भ्रष्टे। हनुमान् अपने नाम, अपने आगमन-कारण तथा अपनी शक्ति का परिचय देकर बड़ी भयकर गति में एक-एक राक्षस का संहार करने लगा। इस प्रकार, अनिलकुमार ने प्रथम युद्ध का प्रारंभ किया और अत्यधिक शक्ति से मपन्न आठ सहस्र घोर राक्षसों का सहज ही वध कर दिया तथा पृथ्वी पर शवों का ढेर लगा दिया। उसके पश्चात् जब हनुमान् ने गर्जन किया, तब सीता की रखवाली में नियुक्त राक्षसियाँ भी भयभीत हो गईं। उनका धैर्य जाता रहा। वे भागती हुई लोक-कटक रावण के पास गईं और कहने लगी—‘हे देव, आज एक वानर बड़े साहस के साथ अशोक-वन में आया है। उसने कुछ समय तक वैदेहीं से बातचीत की और उसके पश्चात् वह सारे वन को उजाड़ने लगा। उसने उद्यान की रक्षा करनेवाले आठ सहस्र राक्षसों का वध कर दिया है। वह राघव का भेजा हुआ लगता है। अन्यथा, जिस वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई हैं, केवल उस वृक्ष को छोड़कर सारे वन को उखाड़ फेंकने का दूसरा कारण क्या हो सकता है? उसके सबध में वैदेहीं से हमने पूछा भी, किन्तु उन्होंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करके सत्य को छिपा रखा। इसमें कोई सदेह नहीं है कि वह वानर राघव का दूत ही है। अब आप अवश्य अपनी शक्ति तथा पराक्रम से उसे पकड़कर दण्ड दीजिए।’

१६. हनुमान् का राक्षसों का वध करना

इन बातों को सुनकर दानव-लोक-प्रभु रावण आग-बबूला हो गया। उसकी दृष्टि भयंकर हो गई। उसकी आँखों से दीपशिखा-सी, दीप्त लौ की भाँति अग्नि-ज्वाला निकलने लगी। उसने तुरन्त अपने अस्मी हजार-अत्यंत पराक्रमी राक्षस-वीरों को भेजा। वे बड़े उत्साह से, अपना प्रताप दिखाते हुए धनुष, अस्त्र, शूल, मुद्गर, गदा, तलवार आदि आयुधों से युक्त हो, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो, गर्जन करते हुए निकले।

इतने में सूर्योदय हुआ। पर्वताकार हनुमान् का उत्साह और भी बढ़ गया। वह मकर-तोरण पर चढ़ गया और चारों ओर से घेरकर आनेवाले तथा शस्त्रों के प्रहार से कष्ट पहुँचानेवाले राक्षस-वीरों को देखकर बड़े दर्प के साथ बोला—‘हे राक्षसों, मैं महान् शूर सुग्रीव का अनुचर हूँ। राम का दूत हूँ। रामचंद्र का कुशल-समाचार, सीताजी में कहकर वापस जा रहा हूँ। मेरा नाम हनुमान् है। मैं अत्यधिक बलवान् हूँ। प्रशसनीय पराक्रम तथा चातुर्य के वैभव से सपन्न वीर हूँ। लकापुरी में रहनेवाले पुरुषों के लिए मैं काल बनकर आया हूँ। अब तुम लोग मुझे छेड़कर क्यों मरना चाहते हो?’

इतना कहकर वह अपने रण-कौशल तथा शौर्य को प्रकट करते हुए सहस्रों राक्षस-सैनिकों को अपने भयंकर लांगूल में बाँधकर उन्हें तोरण के स्तंभों से मारने लगा।

इस प्रकार, उसने एक भी राक्षस को जीवित लौटने नहीं दिया और युद्ध में आये हुए वीरो को निशेध कर दिया। उद्यान के रक्षक भयभीत होकर भागे-भागै रवण के निकट पहुँचे और कहने लगे—'हे दनुजेश, अपना भीषण रण-कौशल प्रदर्शित करते हुए उस वानर ने अपनी पूँछ से अस्सी सहस्र राक्षस वीरो का नाश कर दिया और अब मकर-तोरण पर इठलाता हुआ बैठा है।

रावण कालातक (शिव) की भाँति क्रोध से अभिभूत हुआ और पिंगलाक्ष, दीर्घ-जिह्व, वक्रनास, अश्मवक्ष, तथा शत्रुओं के लिए भयकर रूपवाले शार्दूलमुख को बुलाकर कहा—'तुम शीघ्र जाकर उस वानर का वध करके आओ।' रावण की आज्ञा सिर पर रखकर वे प्रबल सेना के साथ रथों पर बैठकर चल पड़े और भयकर गर्जन करते हुए पवनपुत्र के निकट पहुँचकर उस पर आक्रमण करने लगे। उनकी बाण-वृष्टि से विचलित न होकर अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके हनुमान् ने अपनी पूँछ घुमाकर उन राक्षसों के रथों को तोड़ डाला, सारथियों को मार डाला, रथ के घोड़ों को मार डाला, हाथियों को मार गिराया और तुरगों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार, सारी राक्षस-सेना को धूल में मिलाकर हनुमान् तोरण से नीचे पृथ्वी पर कूद पड़ा और अपनी पूँछ को फदे के समान बनाकर वक्रनास के कंठ में लपेट दिया और उसका गला घोटकर उसे मार डाला। इससे सतुष्ट न होकर हनुमान् ने बढ़ते हुए क्रोध, साहस तथा शौर्य से दीप्त होते हुए, भयंकर गर्जन करते हुए, वज्र से भी कठोर दीखनेवाली अपनी मुट्ठी से अश्मवक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि वह रक्त उगलते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गया। तब अनुपम भुज-बल से भूमनेवाले उस हनुमान् को घेरकर अन्य राक्षस-वीर युद्ध करने लगे, तो हनुमान् ने उन सब का भी सहार कर दिया। फिर, शार्दूलमुख को वेग से घुमाकर पृथ्वी पर ऐसा पटका कि उसका सिर चूर-चूर हो गया। उसके पश्चात् उमड़ते हुए क्रोध से समस्त राक्षसों को व्याकुल करते हुए हनुमान् ने अत्यंत क्रूरता के साथ अपनी पूँछ से बाँधकर पिंगलाक्ष को ऐसा घुमाया, जैसे बवडर मूखे पत्तों को घुमाता है, और फिर उसको तोरण के स्तम्भ से दे मारा।

इस प्रकार, अपने अद्वितीय पराक्रम से उसका वध करके, हनुमान् ने दानव-सेना में प्रवेश किया। उसने बड़े वेग से दीर्घजिह्व पर आक्रमण किया और अपनी कठोर मुष्टि के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हनुमान् ने उसकी जीभ खींचकर उसका सहार कर डाला और फिर तोरण पर जा बैठा। हनुमान् के इस घोर कृत्य को देखकर बचे हुए दैत्य भयभीत होकर भाग गये और सारा वृत्तान्त दनुजेंद्र को जा सुनाया। तब दशकंठ ने क्रोधावेश में आकर अपने मन्त्री के पुत्र रक्तरोम, शतजिह्व, रुधिरलोचन, स्तनित-हास, शूलद्रष्ट, दुर्मुख तथा महान् शक्तिशाली व्याघ्रकवल नामक राक्षसों को बुलाया और कहा—'एक वानर उद्दण्ड होकर राक्षसों का सहार कर रहा है। तुम जाकर उसका वध कर डालो।'।

तब वे महाबली राक्षस गर्जन करते हुए, अनुपम रथों पर बैठकर, चतुरगिणी सेना को साथ लेकर चल पड़े। मकर-तोरण पर अप्रतिहत शौर्य के साथ उपस्थित हनुमान् को

यम के समान आँखों से अग्निवर्षा करते हुए (हनुमान् के प्रत्याघात की प्रतीक्षा में) खड़ा रहा । इतने में हनुमान् ने उस दैत्य के रथ को अपने पदाघात से पृथ्वी पर गिरा दिया, अपने दाँतों से उसे पकड़कर उसके खड-खड कर दिये । फिर एक विशाल सालवृक्ष के प्रहार से उसके रथ के अश्वों तथा सारथी को चूर-चूर कर दिया और सिंहसम गर्जन किया । तब जबुमाली रथ-हीन हो ढाल तथा खड्ग हाथ में लिये, अपनी प्रचंड शक्ति प्रदर्शित करते हुए, पवनसुत के भाल पर प्रहार किया, तो वह मूर्च्छित हो गया, किन्तु शीघ्र ही वह सँभलकर उठा और अपनी वज्रसम मुष्टि के आघात से उसके ढाल के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । फिर, उस दैत्य को पकड़कर हनुमान् ने बलात् उसका खड्ग छीन लिया और भयकर गति से उस राक्षस के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके पश्चात् हनुमान् ने बची हुई सेना पर आक्रमण करके उसे छिन्न-भिन्न कर दिया । इस प्रकार, हनुमान् बड़ी चतुरता तथा पराक्रम से विजय प्राप्त करके तोरण पर जा बैठा । अपने प्राण बचाकर जो लोग भाग गये थे, उन्होंने हनुमान् के पराक्रम का सारा वृत्तान्त रावण को जाकर सुनाया ।

उनकी बातें सुनकर रावण को महान् आश्चर्य हुआ । उसने अपने मंत्रियों को बुला भेजा और कुछ समय तक उनके साथ परामर्श करने के पश्चात् इन्द्र को भी युद्ध में परास्त करनेवाले, घोर पराक्रमी तथा क्रूर, विरूपाक्ष, उपाक्ष, कलहदुर्दर, भासकर्ण तथा प्रथस नामक पाँच प्रचंड योद्धा तथा अग्र-सेनापतियों को देखकर कहा—'किसी भी लोक में वानरों की ऐसी शक्ति हमने न देखी, न सुनी है । हमें पता नहीं कि यह कौन है । तुम पाँचों वीर, अगणित सेना को साथ लेकर जाओ और अपना भीषण बल तथा युद्ध-कौशल प्रकट करते हुए, सावधान होकर उस वानर को बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो ।'

रावण की आज्ञा को सिर पर धारण करके, अग्नि तथा सूर्य की-सी प्रभा से दीप्त होते हुए, वे पाँचों राक्षसवीर, असह्य रथ, गज, तुरग, तथा पदचर सेना को साथ लेकर शीघ्र चल पड़े और उदयाद्रि पर प्रकाशमान होनेवाले सूर्य के समान, तोरण पर विराजमान होकर दिगतो तक अपने तेज को व्याप्त करनेवाले तथा दैत्य-वीरों के साथ रण करने के लिए उद्यत पवनसुत को घेर लिया । फिर, उन्होंने पृथ्वी तथा आकाश को अपने भयकर सिंहनादों से विदीर्ण करते हुए हनुमान् पर दिव्य शस्त्रों की घोर वृष्टि आरम्भ की । उन राक्षसवीरों में दुर्दर नामक राक्षस हनुमान् का शिरच्छेदन करने के उद्देश्य से उस पर एक साथ पाँच बाण चलाये । तब हनुमान् भयंकर क्रोध के साथ गर्जन करके आकाश की ओर उड़ा । दुर्दर भी उसके साथ उड़ा और धनुष पर तीर चढ़ाकर प्रलयकाल के भयकर मोघ की भाँति शरवृष्टि करने लगा । पवनकुमार ने उस भयंकर शर-वृष्टि को असफल करते हुए, आकाश में और भी ऊँचा उड़कर बड़े वेग के साथ दुर्दर के ऊपर कूदा, जिससे वह राक्षस चूर-चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

इसे देखकर, विरूपाक्ष तथा उपाक्ष नामक राक्षस अति भयंकर ढंग से मुद्गरी से सज्जित होकर आकाश में उड़कर खड़े हुए और सिंहनाद करने लगे । तब हनुमान् भी उनकी ओर लपका और उनसे भिड गया । उन्होंने हनुमान् पर अपने घोर मुद्गरी का

प्रहार किया, तो हनुमान् पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तुरन्त वह उठा और एक विशाल साल-वृक्ष को उखाड़कर हुंकार करते हुए उनकी ओर लपका और बड़े वेग से उस वृक्ष को घुमाकर उन राक्षसों पर प्रहार किया और एक ही प्रहार से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया।

तब भासकर्ण तथा प्रधस नामक राक्षसों ने अनिलपुत्र पर आक्रमण किया और अपने शूल तथा मुद्गरों की चोट से उसे व्याकुल कर दिया। उनके प्रहारों से हनुमान् घायल हो गया और उसके अंगों से रक्त बहने लगा। तब वायुपुत्र अत्यधिक क्रोधावेश में आकर कुलपर्वत-सदृश एक विशाल पर्वत को उखाड़कर उन राक्षसों पर फेंका कि राक्षस ऐसे चूर-चूर होकर गिर गये, जैसे घूस के द्वारा भीतर से खोखला बना दिये जाने पर, ऊपर की धरती गिर जाती है।

इसके पश्चात् वायुपुत्र यमराज की भ्रांति राक्षस-सेना का सर्वनाश करने लगा। हाथियों का हनन हुआ, तुरग तहस-नहस हुए, पदानि-सेना परास्त हुई, रथ ध्वस्त हुए, शूर गिरे, महारथी मरे, सारथी दब गये, शस्त्रास्त्र चूर-चूर हो गये, महावत मारे गये, घुड़-सवार गिर गये, छत्र भुंक गये, ध्वजाएँ ध्वस्त हुईं और रक्त की नदियाँ बह चलीं तथा मास-खंडों से आकृष्ट हो बहुत-से भूत वहाँ एकत्रित हो गये। इस प्रकार पवन-कुमार ने एक ही क्षण में सारी सेना का ध्वम किया और रण की आकाशा करते हुए तोरण पर जा बैठा।

१७ अक्षयकुमार का हनुमान् पर आक्रमण करना

हतशेष राक्षस भागते हुए रावण के पास पहुँचे और उसे पाँचों अग्र सेनापतियों की मृत्यु का समाचार सुनाया। तब राक्षसराज ने, रण-कौशल में निपुण, मन्मथाकार, परिष्कृत विचारवाले, अक्षीण शौर्यवाले, भयकर शूर तथा महावीर अक्षयकुमार को बुलाकर कहा—
'तुम जाकर बड़े यत्न के साथ उस वानर को युद्ध में मार डालो और उसका सिर काटकर तोरण के स्तम्भ पर लटका दो।'

पिता का आदेश मानकर अक्षयकुमार, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित तथा अपनी पताका से अलंकृत हो, उदित होनेवाले सूर्य की-सी काति से शोभायमान होते हुए, आठ घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर शीघ्र गति से चला। उसके चलते समय पृथ्वी कांपने लगी, रथ के चलने से उत्पन्न ध्वनि, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंघाड़, राक्षसों के हुंकार, तथा उस (अक्षयकुमार) के धनुष के टकार, इन सबकी सम्मिलित ध्वनियों से समस्त आकाश गूँजने लगा। वहाँ पहुँचकर अक्षयकुमार ने तोरण पर आरूढ पवनपुत्र को घेर लिया, और तीनों लोको को, कर्पाते हुए, दिशाओं को हिलाते हुए, अपने बाहुबल को प्रकट करते हुए, हनुमान् पर असख्य बाणों की ऐसी वर्षा की कि दर्शकों को आश्चर्य होने लगा। हनुमान् ने निश्चय किया कि मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बालक है। यह शौर्यनिधि दिखाई देता है। यों सोचकर उन्होंने अविचलित भाव से उन बाणों को अपने लाल से तोड़ डाला। अक्षयकुमार ने भी हनुमान् की प्रशंसा करते हुए उसके निर पर तीन बाण ऐसे चलाये कि उसके सिर से रक्त की धाराएँ बह चलीं। रक्त की धाराओं में युक्त हनुमान् लाल किरणों से युक्त बालसूर्य की तरह दिखने लगा। राक्षसकुमार के बाणों से आहत होते ही

हनुमान् क्रोध से प्रलयकालाग्नि की भांति भभक उठा और एक ताल-वृक्ष लेकर उससे उसके रथ के अश्वों को मार डाला । तब वह (राक्षसकुमार) पृथ्वी पर खड़े होकर हनुमान् के भाल पर दस शर ऐसे चलाये कि हनुमान् मूर्च्छित होकर गिर पडा । किन्तु वह शीघ्र ही संभल गया और अपनी पूँछ से अक्षयकुमार पर ऐसा प्रहार किया कि वह विचलित हो उठा । तब उसने अपनी गदा को अनिलकुमार के वक्ष पर ऐसा चलाया कि वह मूर्च्छित हो गया । किन्तु, शीघ्र ही उसकी चेतना लौट आई और वह अक्षयकुमार पर भपटकर उसकी गदा छीन ली और उसी को उस पर पूरी शक्ति से चलाया । तब अक्षय-कुमार ने एक बाण चलाकर उस गदा को रोक लिया और अपने को बचा लिया । फिर, वह करवाल तथा ढाल लेकर आकाश की ओर उडा । वायुपुत्र भी उसके साथ-साथ आकाश में उडा । हनुमान् ने तब अपने शत्रु पर गदा चलाई । लेकिन, अक्षयकुमार ने अपने खड्ग से उस गदा के दो टुकड़े कर दिये और तुरत अपने खड्ग से हनुमान् की जाँघों पर प्रहार किया । उस खड्ग की चोट खाकर वायुनदन पृथ्वी पर गिर पडा । लेकिन, वह तुरत ऊपर की ओर उछला और अक्षयकुमार की दोनों टाँगों पकडकर उसे ऐसे खींच लिया, जैसे गरुड सर्प को अपने वश में कर लेता है । फिर, उसने अक्षयकुमार को कुम्हार के चाक के समान बड़े वेग से चारो ओर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, तो उसका सारा प्रताप जाता रहा । उसके सिर का मुकुट छिन्न-भिन्न हो गया और उस मुकुट के सभी रत्न बिखर गये, उसका हृदय-पिंड फट गया, आँतें निकल आईं, मांस-पेशियाँ छिन्न-भिन्न होकर गिर पडी । आँख की पुतलियाँ कुचल गई; सारा शरीर विदीर्ण हो गया और रक्त की धारा उगलते हुए उस राक्षस ने अपने प्राण छोड दिये । उसकी वैसी मृत्यु देखकर इन्द्र आदि देवता आनन्द से फूल उठे और वायुपुत्र की प्रशंसा करने लगे । ऐसी अनुपम विजय को साधकर हनुमान् हर्षध्वनि करने लगा ।

भयभीत होकर भागे हुए राक्षस-सैनिकों ने देवताओं के शत्रु रावण की सभा में पहुँचकर निवेदन किया—'हे दानवेन्द्र, उस वानराधिप का बाहुबल आश्चर्यजनक है । अशोक-वन के रक्षक समाप्त हुए, अत्यंत पराक्रमी राक्षस-सैनिक मृत्यु का प्रास बने, शतजिह्व नष्ट हो गया; शार्दूलमुख प्राण खो बैठा; पिंगलनेत्र की मृत्यु हुई, स्तनितहास मर गया; शार्दूलकवल युद्ध में मारा गया, जबुमाली नष्ट हुआ, वक्रनास समाप्त हो गया; रक्तरोम की मृत्यु हो गई; रुधिराक्ष की जीवन-लीला समाप्त हो गई; सेना के साथ शूलदंष्ट्र कुचल दिया गया, प्रतापी दीर्घजिह्व कट मरा, दुर्मुख का नाम ही शेष रह गया, दुर्धर मृत्यु को प्राप्त हुआ, प्रवस गिर गया, भासकर्ण चूर-चूर हो गया, उपाक्ष का नाश हुआ; विरूपाक्ष ने अपने प्राण गँवा दिये; अश्मवक्ष का वध हो गया और अक्षयकुमार भी मारा गया । हमारी दुर्वार सेना भी नष्ट हो गई । निस्सदेह उस वानर को इन्द्र आदि देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकेंगे । ऐसा लाता है कि वह प्रलयातक (रुद्र) को भी परास्त करने की क्षमता रखता है । सब पूछा जाय, तो वह राक्षसों को निगल जाने के निमित्त वानर-रूप धारण करके आया हुआ मृत्यु-देवता ही है ।' इन बातों को सुनकर स्वर्गलोक का शत्रु रावण अक्षयकुमार की मृत्यु के लिए विलाप करने लगा—

‘हे कुमार, हे प्रिय अक्ष, हे वीर, एक कपि के हाथो तुम्हें मरना पडा । हाय, यह कैसी विपरीत बात हुई ।’

१८. इन्द्रजीत का हनुमान् को बन्दी बनाना

इस प्रकार, शोक-सतप्त होनेवाले पिता को देखकर इन्द्रजीत ने कहा—‘हे देव, आप इस प्रकार धैर्य खोकर दुःखी क्यों होते हैं । मैं अभी उस नीच वानर पर आक्रमण करता हूँ । या तो उसे युद्ध में अवश्य मार ही डालूँगा, या बड़े पराक्रम के साथ उसे बन्दी बनाकर आपके समक्ष उपस्थित करूँगा । आप शोक मत कीजिए ।’

अपने ज्येष्ठ पुत्र की इन बातों को सुनकर रावण को धीरज हुआ और वह कहने लगा—‘हे पुत्र, तुमने चिरकाल तक इन्द्र को बन्दी बनाकर रखा था । माया तथा शक्ति में तुम श्रौढ़ हो, तुम्हारा पराक्रम मुझसे भी श्रेष्ठ है । इस पृथ्वी पर तुम्हारी समता कौन कर सकता है ? फिर भी, उस वानरश्रेष्ठ को साधारण वीर मत समझो । सतत सावधान रहते हुए अपने दिव्य बाणों के प्रभाव से तथा अपनी सहज शक्ति के प्रताप से विजय प्राप्त करके लौटो ।’

पिता की आज्ञा पाकर मेघनाद अग्नि तथा सूर्य के ममान दीप्तिमान् रथ पर आरूढ़ होकर चला । उसके धनुष के अगणित टकारों से दिग्गजों के कर्णपुट विदीर्ण हो गये । अपने गर्जन से सभी लोको को भयभीत करते हुए दिगतों की सधियों को शिथिल बनाते हुए, उसने हनुमान् पर आक्रमण किया । उस समय देवता, मुनि, इन्द्र आदि दिक्पाल, तथा किन्नर स्वर्ग से बड़े कौतूहल से यह दृश्य देखने लगे । इन्द्रजीत ने हनुमान् पर अद्भुत तथा तीक्ष्ण बाणों की ऐसी वृष्टि की कि हनुमान् के शरीर पर तिल धरने के लिए भी स्थान न रहा ; किन्तु पवनपुत्र ने उन शरों को अपनी पूँछ से छिन्न-भिन्न करके अपने को बचा लिया और अपने विशाल बाहु-बल तथा पराक्रम का परिचय दिया । ऐरावत को जीतनेवाला इन्द्रजीत पवनपुत्र के इस अनुपम बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कई दिव्यास्त्र उस पर चलाये । पवनपुत्र ने उस शस्त्रों को नष्ट-भ्रष्ट करके विशाल वृक्ष तथा पर्वतों को उठाकर इन्द्रजीत पर फेंका । मेघनाद ने अपने तीक्ष्ण शरों से उन्हें छिन्न-भिन्न कर डाला । इस पर पवनपुत्र क्रोध से इन्द्रजीत पर भ्रपटा और उसके रथ तथा उसके घोड़ों को अपने पदाघात से चूर-चूर कर दिया । इन्द्रजीत रथ से वचित हो गया । हनुमान् के शौर्य को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए उसने उस पर वायव्यास्त्र चलाया । हनुमान् तो वायुपुत्र ही था, इसलिए उस अस्त्र का कोई प्रभाव उस पर नहीं हुआ और वह अविचल खड़ा रहा । तब मेघनाद ने उस पर रौद्रास्त्र चलाया । हनुमान् में रुद्र का अंश भी था, इसलिए उसका भी कोई प्रभाव हनुमान् पर नहीं हुआ और वह अटल खड़ा रहा । यह देखकर इन्द्रजीत के क्रोध की सीमा नहीं रही । उसने अत्यधिक क्रोध से पवनकुमार पर दुर्जय ब्रह्मास्त्र चलाया । इसे देखकर सभी सुर, सिद्ध तथा साधक काँप उठे । वह अस्त्र पृथ्वी तथा आकाश का स्पर्श करते हुए बड़े वेग से हनुमान् की ओर आने लगा । हनुमान् को ब्रह्मा से यह वर प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र से उसके प्राणों को हानि नहीं होगी । अतः, वह उस अस्त्र को देखकर विना विचलित हुए, ब्रह्मा-मंत्र का उच्चारण करते हुए

खड़ा रहा। ब्रह्मास्त्र उसके प्राण नहीं ले सकता था, इसलिए उसने हनुमान् को बाँधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मारुति को गिरा हुआ देखकर समस्त राक्षसों ने, 'मारो, मारो, पकड़ो, बाँधो,' कहकर चिल्लाते हुए उसे घेर लिया और उमड़ते हुए क्रोध से हनुमान् को मजबूत रस्सियों से बाँध दिया। अवश होकर गिरे हुए हनुमान् के पास पहुँचकर इन्द्रजीत ने सोचा कि यह महाबली ब्रह्मास्त्र के लगने पर भी प्राण खोये बिना, बँधा हुआ पड़ा है। न जाने यह वानर कौन है? इसका वध नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार निश्चय करके वह शक्तिशाली बौध्द ही हनुमान् को अपने पिता के समक्ष उपस्थित किया। रावण तथा उसके मंत्री इन्द्रजीत की शक्ति तथा निपुणता को देखकर अत्यधिक हर्षित हुए। हनुमान् को देखकर रावण अपनी आँखों से अग्निवर्षा करते हुए बोला—'हे वानर, तुम मेरे नगर में अकेले कैसे प्रविष्ट हो सके? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस उपाय से समुद्र पार करके यहाँ आये? तुम्हें किसने भेजा? शिव ने? हरि ने या ब्रह्मा ने? सुर, गरुड, उरग, सिद्ध, साध्य, नर तथा खेचर मेरा नाम सुनते ही भय से काँप उठते हैं। ऐसी दशा में तुम निर्भय होकर मेरे ऐसे नगर में कैसे आये, जिसमें आने से इन्द्र भी डरता है? तुमने धोखे से इस नगर में प्रवेश किया और मेरे उपवन का सर्वनाश करके अपने पराक्रम का परिचय दिया। बड़ी वीरता दिखाकर कुछ बूढ़े तथा दुर्बल राक्षसों का वध किया। तुम्हारे दीप्तिमान् तेज को देखने से अनुमान होता है कि तुम साधारण कपि नहीं हो। यदि तुम अपने आगमन का सही-सही कारण बताओ, तो मैं तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दूँ।'

१९. हनुमान् का रावण को अपने आगमन का कारण बताना

तब हनुमान् ने उस दशकठ को देखकर बड़े क्रोध से कहा—'हे राक्षस, हे नीचात्मा, हे पापकर्मी, हे दुष्ट, मैं उस राक्षसकुलातक, जगदीश्वर राम का दूत हूँ, जिनकी कीर्ति समस्त ससार में व्याप्त है, और जिन्होंने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, शिव-धनुष को तोड़ा, अपनी महान् शक्ति से परशुराम का गर्वभंग किया, खर-दूषण आदि राक्षसों का नाश किया, तुम्हें अपनी पूँछ से बाँधकर समुद्र में डुबोनेवाले बालि का एक ही बाण में सहार किया, सुग्रीव का राजतिलक किया, और जो अपनी अक्षय शक्ति के कारण कोदण्ड-दीक्षा-गुरु के नाम से विख्यात हैं। मेरा नाम हनुमान् है, मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। सूर्यकुल-निधि राम के भेजने पर मैं बड़े हर्ष से उनकी अँगूठी लेकर, सीताजी का अन्वेषण करते हुए समुद्र पार करके तुम्हारे नगर में आया। सब स्थानों में ढूँढने पर भी सीताजी का पता नहीं पा सका। इससे मैं अत्यंत दुःखी हुआ, आखिर उन्हें उम उपवन में देखा और अपने प्रभु की अँगूठी देकर उन्हें राम का कुशल-समाचार सुना दिया। फिर, उनकी दशा का वृत्तांत राम को सुनाने के लिए मैं लौटने लगा। आने से पहले मैं अपने आगमन का समाचार तुम्हें बता देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे वन को उजाड़ा, उसके रक्षकों का वध किया, अस्ती सहस्र राक्षसों का नाश किया, तुम्हारे मंत्रिकुमारों तथा अक्षयकुमार का सहार किया और तुम्हारा रूप-रंग देखकर यहाँ से लौटने के विचार से बदी बना। राम के अनुयायी सुग्रीव की सेना में मुझसे भी

अधिक पराक्रमी तथा बाहु-बल में श्रेष्ठ करोडो वीर है । ऐसे बलवान् भी है, जो ब्रह्मादि देवताओं को भी जीत सकते हैं और जो तुम्हारे नाम से ही जलते हैं । ऐसे करोडो वीरों के साथ राम समुद्र को पार करके लका पर आक्रमण करेंगे, हठ तथा क्रोध से राक्षसों का सहार करने के पश्चात् तुम्हारे सिर काटकर तुम्हारा अंत कर देंगे और सीता को साथ लेकर वापस जायेंगे । यह सत्य है । यदि तुम बुद्धिमान् हो और नीति के पथ पर चलना चाहते हो, तो सुनो । तुम शीघ्र सीताजी को उन्हें सौंप दो और उस आश्रित लोक-रक्षक रघुराम की शरण में जाओ । शत्रुता करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए तुम उसे (शत्रुता को) तज दो । मृत्यु का शिकार न बनकर अपने प्राणों की रक्षा करो ।”

ऐसे हित वचन कहनेवाले हनुमान् को देखकर क्रोध, गर्व और मात्सर्य से अभिभूत होकर घनघोर बादलों के समान गरजते हुए दशकठ ने प्रहस्त को आज्ञा दी— ‘यह नीच निर्भय होकर मेरे सामने ऐसे अपशब्द कह रहा है । इस नीच वपि को ले जाकर तुरन्त इसका वध कर दो ।’ तब विनय-भाषण तथा विवेक-भूषण से सपन्न अनघों का पोषण करनेवाले, शत्रुओं के लिए भीषण दीखनेवाले विभीषण ने, रावण की आज्ञा के परिणाम के सबध में सोच-विचार करके दंडी नञ्जता के साथ रावण से निवेदन किया— ‘अपने प्रभु के द्वारा भेजे गये दूत, सदा कोई-न-कोई ऐसी बात कहते ही हैं । यह उनका सहज गुण होता है, इसलिए आप अपना क्रोध शांत कीजिए । इतना ही नहीं, दूत अवध्य होता है । अतः, इस कपि को मारना उचित नहीं है । आप अपने हठ और क्रोध राम तथा लक्ष्मण पर दिखाइए । इसे मुबत कर दीजिए । यदि आपका क्रोध शांत नहीं होता हो, तो इसे कोई छोटा दंड देकर भज दीजिए ।’

२०. लंका-दहन

उसके नीति-वचन सुनकर रावण ने दैत्य-वीरों को देखकर कहा— ‘कपियों को अपनी पूँछ बहुत प्रिय होती है, और वह उसका चिह्न भी होता है । इसलिए सब लोगों के समक्ष तुम इसकी पूँछ जला दो और नगर-मार्ग में घुमाकर इसे छोड़ दो । तब राक्षसों ने मोटे-मोटे रस्सों से पवनपुत्र के हाथ और पैर बांध दिये और कहने लगे— ‘बच्छा हुआ कि हमारे कितने ही बधुओं को मारनेवाला यह दुष्ट कीड़ा हमारे हाथों में फँस गया है । फिर वे तूर्य-शोष के साथ उसे नगर के मार्ग में घुमाने लगे । तब वायुपुत्र ऐसा बहाना किये बैठा रहा, मानो वह इन राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित तथा निर्बल बन गया हो और उन दुष्ट राक्षसों को तथा लका नगर को अपनी कनखियों से देखने लगा । सभी दानव-वृन्द आबाल-वृद्ध उसके पीछे हँसते हुए और उसका उपहास करते हुए चलने लगे । उन दुश्चर्याओं को देखकर सज्जन पुरुष मन-ही-मन दुःखी होते थे । कुछ दानव जिद करके असह्य वस्त्र ले आये; उन्हें कालसर्पों के आकार में बँटा और तेल में डुबोकर कहने लगे— ‘इसने सारा अशोक-वन नष्ट किया है, कितने ही दानव-वीरों का सहार किया है, दानवेश्वर ने इसको उचित दंड दिया है । चलो, हम इसे ‘जला डालें ।’ यों कहते हुए उन्होंने तेल में भीगे हुए कपड़े उसकी पूँछ में लपेट दिये और उसमें आग लगा दी । कपड़े आश्चर्य-जनक ढंग से जलने लगे । ऐसा लगता था, मानो लंका में कोई उत्पात-सूचक चिह्न दिखाई पड रहा हो । राक्षस सिंहनाद करते हुए हनुमान् के पीछे-पीछे जाने लगे ।

राक्षस-स्त्रियो ने यह दृश्य देखा, तो जाकर सीता से सारी बातें कही । सीता यह समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई और कहने लगी—‘हे तात, कितने दुख की बात है कि तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा को ऐसे सकट भोगने पड रहे है ।’ फिर, उन्होने जल का स्पर्श करके एक पवित्र स्थान में खड़ी हुई और हाथ जोडकर अग्निदेव से प्रार्थना करने लगी—‘हे पवनमित्र, हे परम पवित्र, हे वैश्वानर, हे वरद, यदि मेरे प्रभु राम धर्मात्मा है, यदि वे मेरे लिए समुद्र पार करनेवाले हैं, यदि वे रावण का वध करनेवाले हैं, यदि मैं पतिव्रता हूँ, यदि महाराज जनक सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं, और यदि वेद सत्य है, तो आप परम शीतल होकर उस श्रेष्ठ वानर की रक्षा कीजिए ।’

इस प्रकार, जब सीता ने प्रार्थना की, तब अनल ‘धलवाल’ नामक कालसर्प के सिर पर रहनेवाले माणिक्य की ज्वाला के समान दीप्त होते हुए भी शीतल हो गया । इस विचित्र बात को देखकर हनुमान् आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा — ‘यह कैसा आश्चर्य है कि अग्नि आज शीतल लग रही है । कदाचित् मेरे पिता अग्नि के मित्र है, इसलिए उन्होने मुझ पर दया की है, अथवा सभी देवताओं ने प्रार्थना की होगी, या राम के प्रताप के काण्ण ही ऐसा हुआ होगा । नहीं नहीं, यह तो सीताजी के आशीर्वाद का ही पुण्य-प्रभाव है ।’ उसके पश्चात् हनुमान् के सतत ब्रह्ममन्त्रों का उच्चारण करने के फलस्वरूप ब्रह्म-पाश ऐसे छूट गये, जैसे परमात्मा का एकनिष्ठ हो ध्यान लगानेवाले नरो के भव-बधन छूट जाते हैं ।

तब हनुमान् उस असुरेश की लका का दहन करने के उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा । इतने में पश्चिम समुद्र में सूर्यास्त हुआ, मानो सूर्य समुद्र में स्नान करके ‘अग्नि-सूक्त’ का जप करने के उद्देश्य से चला गया हो । तब हनुमान् ने मेरु पर्वत के समान अपने शरीर को छोटा बना लिया । सभी बधनों को तोड़ दिया और दुख देते, तथा उपहास करते हुए बड़े कौतुक के साथ अपने पीछे-पीछे आनेवाले राक्षसों को अपनी पूँछ से मार डाला । फिर, एक ऊँचे सौध पर उछलकर, अपनी पूँछ की अग्नि चारों ओर लगा दी । देखते-देखते भयकर धुआँ तीव्र गति से चारों ओर व्याप्त हो गया । धुएँ के व्याप्त होने के पहले ही अग्नि-ज्वालाएँ आकाश में फैल गई । आकाश में ज्वालाओं के व्याप्त होने के पहले जहाँ-तहाँ उत्काएँ गिरने लगी । उससे भी पहले (देवताओं के) श्रेष्ठ विमान सब दिशाओं में बिखर गये ।

तब हनुमान् बड़े वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछलते हुए नगर में आग लगाने लगा । उमने राजसभा-भवनो को जला दिया, शस्त्रागारो को ध्वस्त कर दिया, भंडार-घरों की पकितियों को नष्ट कर दिया और बड़े-वड़े सौधों को भस्मसात् कर दिया । फिर क्रम से मंडपो को जला डाला, मणिमय चद्र-शालाओं को राख कर दिया, प्रशसनीय शयनागारो की श्रेणियों का दहन कर डाला, और रमणीय गज, तुरग तथा रथ-शालाओं को अग्निसात् कर दिया ।

तब लाल-लाल अग्निबिखाएँ अविरल गति से आकाश में व्याप्त होने लगी । खेचर, उरग, तथा अमर-गणों के विमान वेग से (आकाश में) ऐसे चक्कर काटने लगे, मानो

रावणासुर के नाश की सूचना देने के निमित्त उल्कापात होने लगा हो । अग्नि अपनी प्रचंड गति से समस्त ब्रह्माण्ड में ऐसे व्याप्त होने लगी, मानों राजाओं में श्रेष्ठ रामचंद्र के लका पर आक्रमण करने का उपक्रम करते ही उनका प्रताप-रूपी अग्नि पहले ही सर्वत्र व्याप्त हो गई हो । रावण ने इसके पूर्व अपना भयकर रण-कौशल दिखाकर समस्त दिक्-पालो को युद्ध में परास्त कर दिया था । उस पराजय को भूले विना आज अग्नि ने, अपनी समस्त शक्ति को दिखाते हुए, एक ही क्षण में एक मात्र विभीषण के भवन को छोड़कर, सारे नगर को जलाकर भस्म कर दिया । उस समय राक्षसों की ऐसी दुर्गति हुई कि कुछ राक्षस भय से कांपने लगे, वस्त्र तथा केशों में आग लग जाने से कुछ राक्षस हाहाकार करते हुए चारों ओर भागने लगे, कुछ अपने सगे-संबंधियों को नष्ट होते देख कुछ राक्षस शोक करने लगे; कुछ हाहाकार करने लगे, कुछ हनुमान् पर क्रोध दिखाने लगे । ऐसे भी राक्षस थे, जो कह रहे थे कि इस पापी रावण ने उस महाविष्णु के अवतार राम का अहित किया है; ऐसा अहित करनेवाले रावण के लिए इस प्रकार ही विपत्ति का आना कोई अनहोनी बात नहीं है ।

तब वानरवीर हनुमान् अत्यंत भयकर रूप धारण करके नगर का कोई भी स्थान विना छोड़े, समस्त लका में आग लगा दी । उस कपिश्रेष्ठ की पूँछ के स्पर्श से उत्पन्न भीषण अग्नि-ज्वालाएँ जहाँ-तहाँ फैलने लगी । सुरापान से सुप्त कुछ राक्षस विना जाने ही जलने लगे । मृदुल शय्याओं पर सोनेवाले राक्षस तीव्र अग्नि-ज्वालाओं के मध्य फँसकर, छटपटाते हुए मरने लगे । कुछ राक्षस अपने सगे-संबंधियों, स्त्री तथा बच्चों, प्राणाधिक मित्रों को एकत्र करके भागते समय, बीच ही में अग्नि में फँसकर जलने लगे । अपने घर की वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए गये हुए लोग फिर लौटकर नहीं आ सके और वही जल गये । कुछ राक्षस अपनी-अपनी पत्नियों को छाती से लगाये बाहर आने लगे, तो देहली के पास आते-आते जल गये । इस प्रकार, वायु-पुत्र की पूँछ से निकली हुई अग्नि भयकर गति से समस्त लंका नगर में व्याप्त होने लगी और श्रेष्ठ सिंहा की भाँति उग्र रूप धारण करके, हाथियों के कुम्भ-स्थलों को विदीर्ण करने लगी । तेज से युक्त घुडसवारों के समान वह अश्वों पर आक्रमण करने लगी; लम्पटों की भाँति, कामिनियों के कुचों पर हाथ रखने लगी; दूसरों की निंदा करनेवालों की भाँति अपनी जिह्वा को चारों ओर फैलाने लगी, अत्यधिक आनंद से फूल उठनेवाले की भाँति आकाश तक बढ़ने लगी और भयभीन होकर भागनेवाले कायरों की भाँति वह गलियों में प्रवेश करने लगी । इस प्रकार, वह अग्नि लंका को चारों ओर से घेरकर शीघ्रता से उसका ध्वंस करने लगी । सभी देवता आनंद से फूल उठे और हनुमान् को अपने आप्त बधु मानकर उसकी प्रशंसा करने लगे ।

तब हनुमान् मन-ही-मन जानकी की मृत्यु की आशंका से पीड़ित होकर सोचने लगा—'हाय ! यह मैंने क्या कर डाला ! मदान्ध होकर मैंने लका के साथ-साथ राम की पत्नी को भी जला डाला । अब मैं किस मुँह से राम के पास जाऊँगा ? जानकी का कुशल-समाचार मैं राम को कैसे सुनाऊँगा ? हाय ! मेरे सारे प्रयत्नों पर पानी फिर गया !' इस प्रकार, थोड़ी देर तक चिंतित रहने के पश्चात् उसका विवेक जागा और वह सोचने

लगा—'मैं भी कैसा मूर्ख हूँ ? इसी माता के आशीर्वाद का फल था कि यह भयंकर अग्नि मेरी पूँछ को जलाने का साहस नहीं कर सकती । भला, अग्नि साध्वी का क्या बिगाड़ सकती है ?' यो सोचकर उसने अपनी पूँछ समुद्र में ऐसे बुझा दी, मानो वह सीताजी की दुःखान्नि को ही बुझा रहा हो । फिर, वह सीता के दर्शनार्थ अशोक-वन में गया । सीता पहले ही राक्षस-स्त्रियो के मुँह से हनुमान् के कुशल का समाचार सुनकर आनन्द से गद्गद होकर बैठी थी । हनुमान् ने उन्हें प्रणाम किया, अपने साहसपूर्ण कृत्यों का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और फिर कहा—'हे माता, मैं अभी जाकर रामचंद्रजी को साथ लेकर आता हूँ, जिससे आपके मन का दुख दूर हो जाय ।' इतना कहकर उसने सीता को भक्ति से प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से चल पड़ा । वहाँ से चलकर वह नगर के पश्चिम द्वार के पास आया और उसके किवाड़ो पर इस जोर से पदाघात किया कि वे टूटकर पृथ्वी पर गिर गये । यह देखकर सभी राक्षस भय-विह्वल हो गये ।

२१. अंगद आदि वानरों से हनुमान् की भेंट

वहाँ से चलकर, फिर एक बार अपना पराक्रम दिखाते हुए, हनुमान् ने साहस के साथ परकोटे के ऊपर के महलो को अपने पदाघात से गिरा दिया और सहज ही सुवेलाद्रि पर चढ़ गया । वह आकाश की ओर ऐसा उछला कि लकापुरी में रहनेवाले समस्त दैत्य भोका खाकर भयभीत हो उठे; पहाड़ के शिखर भग्न होकर समुद्र में गिरने लगे, बड़ी-बड़ी चट्टानें लुढ़कने लगी, दक्षिण दिशा को बहन करनेवाली अगद नामक हथिनी का शरीर दब गया, पहाड़ो के शृङ्ग गिर गये और पृथ्वी नीचे को धँस गई । फिर, उसने अपने अनुपम भुजबल की सहायता से आकाश-मार्ग से जाते हुए समुद्र के मध्य भाग में स्थित मैनाक पर्वत पर उतरकर अपनी थकावट दूर की । फिर, उस पर्वत की आज्ञा लेकर अपने असमान वेग तथा प्रताप का प्रदर्शन करते हुए समुद्र के उत्तरी किनारे पर उतर पड़ा ।

हनुमान् के मुख पर स्पष्ट रूप से दीखनेवाले हर्ष के चिह्नो को देखकर अगद आदि श्रेष्ठ वानर उसकी अगवानी करने गये और उसे गले से लगा लिया । फिर, वे सब एक स्थान पर बैठ गये और हनुमान् से उसके कार्य के परिणाम के सबंध में प्रश्न किये । तब हनुमान् ने कहा—'हे वानरो, आपकी कृपा से मैंने अनुपम समुद्र को पार किया, अगणित वैभवो से संपन्न लका में प्रवेश किया, और बहुत समय तक अन्वेषण करने के बाद सीताजी के दर्शन भी कर लिये । फिर, मैंने राम की आज्ञा के अनुसार जानकी से उनका सारा वृत्तांत कह सुनाया और उनकी दी हुई अगूठी भी सीताजी को दे दी । फिर, उनकी चूड़ामणि लेकर यहाँ लौट आया हूँ ।'

हनुमान् की बातें सुनकर सभी वानर अत्यंत हर्षित हुए और हनुमान् की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । तब अत्यधिक उत्साह से भरे हुए श्रेष्ठ वीर अंगद कहने लगा—अब यही उचित होगा कि किसी भी प्रकार हम जानकी को लका से जीतकर ले आवें और उन्हें रघुराम के पास पहुँचा दें । चलो, हम अभी समुद्र पार करें और पुत्र, मित्र तथा परिवार-सहित दशकठ का वध करके सीताजी को छुड़ा लायें ।'

तब जाबवान् ने वालिपुत्र को देखकर कहा—‘सुग्रीव ने हमें जानकी के अन्वेषणार्थ भेजा है, उस परम पवित्र सीता की कृपा से हमारा प्रयत्न सफल हुआ। अब हमारे लिए उचित यही है कि हम जाकर रामचंद्रजी से यह समाचार कह दें, तब सबने परस्पर परामर्श कर, वैसा ही करने का निश्चय किया। उस दिन वायुपुत्र तथा दूसरे वानर समुद्र के किनारे ही कंद-मूल-फलो से अपनी क्षुधा शांत करके रहे। वे परम शक्ति-शाली वानर दूसरे दिन वहाँ से रवाना हुए और मेरु, मदर-पर्वतो से भी विशाल दर्दुर नामक पर्वत के निकट पहुँच गये। उस पर्वत की नगद्वयो में विचरण करते हुए उन्होंने फल, मूल, आदि खाकर वही रात्रि बिताई।

२२. वानरों का मधुवन में विचरण करना

प्रातःकाल होते ही उन बाहुबली वानरवीरो ने सोचा—‘हमें जब सुग्रीव के मधुवन में जाकर, वहाँ जी भरकर मधु (शहद) का पान करना चाहिए, अन्यथा हमारी प्यास शांत नहीं होगी। हमने रामचंद्र का कार्य सपन्न किया है। अतः, सुग्रीव क्रुद्ध होकर हमें दंड नहीं देंगे।’ यो निश्चय करके सभी वानरो ने अगद तथा हनुमान् से प्रार्थना करके उनकी भी सम्मति प्राप्त कर ली और मधुवन के लिए रवाना हो गये। मध्याह्न होते-होते वे मधुवन में पहुँच गये। चारो दिशाओं में भरनेवाली मधु-धाराओं को देखकर उनके मुँह में पानी भर आया। विभिन्न प्रकार के हाव-भाव करते हुए, वे अपने कान खड़े करके, एक दूसरे को अपने दाँत दिखाते हुए, एक दूसरे से तर्क-वितर्क करते हुए, बड़े कौतुक के साथ अपने इष्टानुसार उस वन के विभिन्न दिशाओं में विचरण करने और पुष्पो से भरनेवाला मकरद, छत्तो में एकत्रित मधु आदि का पान करने लगे। फिर, उन्होंने कई प्रकार के फल खाये। कच्चे फलो तथा फूलो को तोड़कर नीचे गिरा दिया। अत्यधिक उल्लास के आवेश में आकर उन्होंने पेड़ की शाखाओं को तोड़ दिया और पेड़ो को भुकाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलाँग मारकर जाने लगे। फिर, वे पुष्प-लताओं को झूला बनाकर झूलने लगे तथा सरोवरो में स्नान करते हुए नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ करने लगे।

जब मधुवन की रक्षा करनेवाले वानर (दधिमुख) ने इन वानरो की करतूत देखी, तब क्रोध में आकर उसने सभी वानरो को डाँटकर उन्हें तुरत वहाँ से निकल जाने का आदेश दिया। जब उसके अनुचर सभी वानरो को धक्का देकर बाहर निकालने लगे, तब अगद तथा हनुमान् ने भागनेवाले अपने माथी वानरो को रोका और वन-रक्षक दधिमुख को मुँह के बल नीचे गिराकर, उसे पृथ्वी पर घसीटकर, मुष्टियों का प्रहार करके भगा दिया। बेचारा दधिमुख क्रोध तथा दुःख से व्याकुल होकर भगवान् की दुहाई देते हुए भागा और राजा राम तथा लक्ष्मण के श्रीचरणो में बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके, फिर सूर्य-पुत्र के चरणो में सिर झुकाकर कहने लगा—‘हे देव, आपका मधुवन देव-दानवो के लिए भी अभेद्य है। आज वायु-पुत्र तथा वालि-पुत्र, दोनो ने अपने बहुत-से साथियों को लेकर ऐसे मधुवन में प्रवेश किया है और वृक्षो पर चढ़कर शाखाओं पर विचरण करते हुए अपने इच्छानुसार फल खाये हैं और जी भरकर मधु पिया है। इसका किंचित्

भी विचार न करके कि यह उपवन राजा का है, वे मनमानी कर रहे हैं। मैंने उन्हें डाँट-डपटकर बाहर निकालने का प्रयत्न किया, तो उन्होंने मुझे मुष्टियों से मारकर भगा दिया है।'

दधिमुख का विलाप सुनकर सुग्रीव अत्यंत क्रुद्ध हो गया और उन वानरो को उचित दंड देने का विचार करने लगा। तब सारी परिस्थिति समझकर सतत-विजयी लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा—'यदि अगद आदि महावीर तुम्हारी आज्ञा बिना प्राप्त किये ही, निर्भय होकर तुम्हारे वन में प्रवेश करके शहद पी रहे हैं, तो कदाचित् उन बाहुबलियों के द्वारा रामचंद्रजी का कार्य सपन्न हुआ होगा। अन्यथा, वे इस प्रकार तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम उन्हें शीघ्र यहाँ बुलाओ।'

तब सूर्यपुत्र ने दधिमुख को देखकर कहा—'वे रामचंद्रजी का कार्य सपन्न करके आये दीखते हैं, इसलिए उनके सभी अपराध क्षम्य हैं। तुम अपना दुख सहन कर जाओ और उन्हें यहाँ बुला लाओ।' सुग्रीव का आदेश पाकर वह उन वानरो के समीप पहुँचा और हनुमान्, अगद तथा जाबवान् आदि वानर-वीरो को प्रणाम करके कहा—'हे श्रेष्ठ वानरो, मेरा अपराध क्षमा करो और शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। तुम्हें लिवाने के लिये सूर्यपुत्र ने मुझे भेजा है।

यह समाचार सुनकर सब वानर बहुत हर्षित हुए। वे रविपुत्र के आदेश को सिर आँखों पर धारण करके, सुग्रीव के दंड की कल्पना करके भयभीत होनेवाले अगद को घेर्ये बैठाकर, बड़े उत्साह के साथ वहाँ से चले। उनकी हर्ष-ध्वनि बादलों की ध्वनि के समान सुनाई पड़ने लगी। बहुत अधिक मोद-मग्न हो जानेवाले उन वानरो को दूर से ही देखकर सुग्रीव ने उनकी अगवानी के लिए कपि-सेना भेजी और बड़ी प्रीति से उनका स्वागत किया।

२३. राम को सीता का कुशल-समाचार सुनाना

तब सभी वानरो ने जगदीश्वर रामचंद्र के चरणों में दण्ड-प्रणाम किया, और फिर सुमित्रानन्दन तथा सूर्यपुत्र को बड़े प्रेम से प्रणाम किया और हनुमान् को आगे करके रामचंद्र के आसन के समीप एक झुंड में बैठ गये। तब हनुमान् अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनने की रामचंद्र की उत्सुकता को समझ गया और अत्यधिक भक्ति से हाथ जोड़कर कहने लगा—'हे सूर्यवंश के नाथ, देखा मैंने उस वैदेही को, जो स्त्रियों में शिरोमणि, तथा परम कल्याणी है। हे राजन्, मैंने उनका अन्वेषण किया और फिर संपाति के द्वारा मार्ग जानकर (दक्षिण दिशा में) गया, सहज ही समुद्र को पार किया, और दक्षिण समुद्र के तट पर अपार शोभा से विलसित त्रिकूट पर्वत पर स्थित दानव-समूहों से रक्षित लका में अकेले प्रवेश किया। वहाँ सब स्थानों में दूँडने पर भी सीता को न देख सकने के कारण मैं अत्यंत दुःखी हुआ, फिर मैंने रावण के उद्यान में प्रवेश किया और वहाँ मैंने आपकी धर्म-पत्नी को राक्षस-स्त्रियों से घिरे हुए देखा। वे कई दिनों के उपवास के कारण बहुत ही क्लान्त हो गई थी। वे एक वृक्ष के नीचे विपुल दुःख की बाढ में डूबी हुई अपने हाथ पर कपोल टँककर चिंताक्रान्त हृदय से आपका ही स्मरण करती हुई बैठी थी। उस समय राक्षस रावण वहाँ आया और उन्हें विभिन्न प्रकार से भय दिखाने लगा। तब वे अपनी विवशता

तथा दीन दशा का विचार करती हुई अविरल गति से अश्रुधारा बहाने तथा आहें भरने लगी । मलिन वस्त्र तथा धूलि-धूसरित शरीर से युक्त वे, उमडते हुए शोक से बार-बार विलाप करने लगी । आपने अपनी पत्नी की जो रूप-रेखा मुझे बताई थी, वह उनकी रूप-रेखा से सर्वथा मिलती थी, इसलिए मैंने निश्चय किया कि वे ही सीता हैं । फिर, मैंने उनके समीप जाकर प्रणाम किया, उनसे उचित वार्त्तालाप करके आपकी अगूठी उन्हें दी । फिर, उनकी चूडामणि लेकर मैं समुद्र लाँघकर यहाँ पहुँच गया हूँ ।” इतना कहकर हनुमान् ने राम को सीता की चूडामणि दी, जो उनके वियोग की अग्निशिखाओं के प्रतीक के समान दीप्तिमान् थी ।

राम ने उस शिरोरत्न को बड़े अनुराग से लिया और उसे अपने हृदय से लगाकर थोड़ी देर तक मूर्च्छित-से हो रहे । फिर, अपने धैर्य को सञ्चित करके वे सँभल गये और बाष्पपूरित नयनों से वानर-राजा को देखकर बोले—“हे सूर्यनदन, मेरे प्राण-समान देवी की शिरोमणि को देखकर मेरा हृदय लाख के समान पिघल रहा है । इन्द्र ने यज्ञ से सतुष्ट होकर यह रत्न मेरे स्वशूर को दिया था । उस गुणनिधि जनक महाराज ने इसे सीता के सिर में पहनाकर बड़े सम्मान के साथ सीता का विवाह मेरे साथ किया । यह रत्न लतांगी सीता से तथा मुझसे कभी अलग नहीं रहता । आज मेरी तथा सीता की भेंट कराने के हेतु यह रत्न आया है ।” इस प्रकार कहते हुए राम उस मणि को बार-बार अपने हृदय से लगाने लगे ।

उसके पश्चात् राम हनुमान् को देखकर बोले—“हे पुण्यात्मा, तुम्हारे लौटते समय सीता ने तुम से क्या कहा था ? सुनाओ ।” तब शक्तिसपन्न हनुमान् राम को देखकर कहने लगा—“हे देव, उन्होंने कहा, ‘सूर्यवशतिलक के वियोग में गत दस महीने मैंने असख्य दुखों को भेलते हुए बिताये हैं । दो महीने के पश्चात् रावण मुझे मार डालने का निश्चय कर चुका है । इसलिए तुम राम भूपाल से निवेदन करो कि मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे । उन्हें सत्यनिष्ठ मानकर ही मेरे पिता ने मेरा पाणिग्रहण उनसे कराया । विवाह-वेदी पर उन्होंने (मेरे पति ने) अग्निदेव के समक्ष सदा मेरी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की और मुझे अपने साथ अपने घर ले आये । आज उन्होंने मेरी उपेक्षा कर दी और मुझे अनाथ बना दिया । इस पर विचार करने के लिए प्रभु राम से निवेदन करो । उनसे यह भी निवेदन करो कि अपनी धर्मपत्नी को कोई चुराकर ले जाय, तो चुपचाप बैठे रहना वीरो का धर्म नहीं है । औचित्य का विचार करके मैंने इन बातों की चर्चा की है । मेरा शरीर चाहे जहाँ भी रहे, मेरे मन, वचन और कर्म उन्हीं में रमण करते रहेंगे ।” इतना कहने के पश्चात् उन्होंने यह भी बताया कि चित्रकूट पर्वत पर, उन पर कौए ने कैसे आक्रमण किया था ; कैसे आपने गैरिक से उनके कपोलो पर सुदर मकराकृति की रचना की थी । (ये बातें उन्होंने इसलिए बताई थी कि) मेरे वचनों पर आपका विश्वास हो जाय ।” रामचन्द्र से इतना कहने के पश्चात् हनुमान् ने लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी सीताजी का सदेश सुना दिया । सभी वानरवीर मन-ही-मन हर्षित हुए ।

यह सुदरकाण्ड संसार में व्याप्त होकर सभी काव्यों में सुदर सिद्ध हुआ है । इसका विचार करके आंध्र-भाषा का सम्राट्, काव्य-आगम आदि के ज्ञाता, आचारवान्, धीर, भूलोक-

निधि, गोतबुद्ध भूपाल ने सुदर गुणोसे सपन्न, धैर्यवान्, शत्रुओ के लिए भयकर स्वरूप, महात्मा, अपने पिता विट्ठल-नरेश के नाम पर रसिक जनो के लिए प्रिय, अनुपम तथा ललित शब्द तथा अर्थों से सपन्न रामायण के इस सुदरकांड की, श्रेष्ठ अलंकार तथा सुदर भावो से परिपूर्ण बनाकर इस प्रकार रचना की कि वह आचंद्रार्क, परमपूज्य हो शोभायमान होता रहे। प्रसिद्ध, आर्ष, रसिको के लिए सतत आनददायक इस आदिकाव्य का पठन जो कोई भी करेगा, या जो इसका श्रवण करेगा, उसे सामवेद आदि विविध वेदो का आधार राम-नाम-रूपी चिंतामणि के द्वारा नये भोग, परोपकार-बुद्धि, उदात्त विचार, परिपूर्ण शक्ति, राज्य-सुख, निर्मलकीर्ति, नित्य सुख, धर्मनिष्ठा, दान-पुण्य में अनुरक्ति, चिरायु, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, अक्षय शुभ, पाप-क्षय, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति, शत्रुओ का नाश, और धन-धान्य-समृद्धि, आदि सुलभ होंगे। उनका जीवन निर्विघ्न होगा, घरों में लावण्यवती स्त्रियो का अनुराग तथा पुत्रो के साथ जीवन सिद्ध होगा। सब प्रकार के सकट दूर होंगे, सगे-सबधियो से मिलन, इच्छित कार्यों की सिद्धि, देवताओ की प्रीति, और पितरो की तृप्ति सुलभ होगी। इसके रचयिता की श्रेष्ठ तथा शुभ उन्नति होगी तथा उसे इन्द्रभोग की प्राप्ति होगी। जबतक कुलपर्वत, सूर्य, चंद्र, दिशाएँ, वेद, पृथ्वी, तथा सभी भुवन सुशोभित रहेंगे, तबतक यह कथा अक्षय आनद-समूह का आगार सिद्ध होगी।

सुन्दरकांड समाप्त

श्रीरंगनाथ रामायण

(सुद्धकांड)

१. श्रीराम का हनुमान् की प्रशंसा करना

आश्रितो के हिताकाक्षी, सूर्यवंश के सबद्धक रामचन्द्र ने जब प्राणाधिका प्रिया के इन प्रिय वचनो को हनुमान् के द्वारा सुना और उनका पता जान लिया, तब उन्होने बडे प्रेम से कहा—“हनुमान् ने जैसा कार्य किया है, क्या, वैसा कार्य करना देवताओ के लिए भी मभव है ? ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति में या तो हनुमान् ही श्रेष्ठ है, या पवन श्रेष्ठ है या गरुड ही श्रेष्ठ है । समुद्र को पार करना उनके सिवा और किसके लिए मभव है ? देव, गधर्व, दैत्य तथा किन्नरो के लिए भी दुर्गम, राक्षस-सेना के प्रचड बाहुबल से दिन-रात सुरक्षित लका में प्रवेश करके वहाँ से जीवित लौट आना क्या शशिधर (शिव) के लिए भी मभव है ? अपने प्रभु का महान् कार्य बडे आनन्द के साथ जो शीघ्र ही सपन्न करता है, वही उत्तम पुरुष है । प्रभु के कार्य में विघ्न पडने पर, विलव के साथ उसे पूरा करने-वाला मध्यम श्रेणी का पुरुष है । प्रभु के बताये हुए कार्य से बचने की चेष्टा करनेवाला तथा हीला-हवाला करनेवाला व्यक्ति दुस्सेवक है । इन तीनों में हनुमान् निस्सदेह श्रेष्ठ व्यक्ति ही सिद्ध हुआ है । अनिलकुमार ने एक महान् कार्य को बडे हर्ष तथा तत्परता से सपन्न किया है । अब उसका प्रत्युपकार, मैं किस प्रकार से कर सकूंगा । अब (प्रेम से)

उसका आलिंगन करना ही इस समय मेरे वश की बात है।" यो कहकर प्रभु ने हनुमान् को अपने हृदय से लगा लिया ।

इस प्रकार, सुग्रीव के समक्ष राम ने हनुमान् की प्रशंसा करके कहा—'हे पवनपुत्र, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम जानकी का पता लगाकर आये हो। मुझे अत्यन्त आनन्द का अनुभव हो रहा है। पता नहीं, इस कार्य की समाप्ति कैसे होगी। मेरा मन यह सोचकर व्याकुल हो रहा है कि इस विशाल समुद्र को लाँघकर जाने की क्षमता वानर-सेना को कैसे प्राप्त होगी।' इतना कहकर राम अपना सिर झुकाकर चुप हो रहे। रविपुत्र, राम के मन की चिंता को दूर करने के उद्देश्य से कहने लगा—'हे देव! आप साधारण लोगों की भाँति इस प्रकार क्यों दुःखी हो रहे हैं? आप क्यों कहते हैं कि हम समुद्र को पार नहीं कर सकते? हम अवश्य समुद्र को पार करेंगे, सुवेलान्द्रि को पार करके लंका को जीतेंगे और रावण का सहार करके ससार का दुःख दूर करेंगे। हे राजन्, आप विचार कीजिए। मेरे सभी वानर परिश्रमशील हैं, बाहुबल से संपन्न हैं, और दुर्जय हैं। हे राघव, इनके रहते हुए आप इस प्रकार क्यों चिंतित होते हैं? आप तैयार हो जाइए। उद्योगी पुरुष के लिए सभी अर्थ सब फल-प्रद सिद्ध होते हैं। शत्रु सदा उत्साही व्यक्ति से भयभीत रहते हैं, उत्साहहीन व्यक्ति से नहीं।'

सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर प्रभु ने हनुमान् से कहा—'ठीक है। मैं पहले समुद्र से (मार्ग देने की) प्रार्थना करूँगा। यदि उसने नहीं दिया, तो अपने बाणों की अग्नि से समुद्र को ही सुखा दूँगा, या उस पर पुल बाँधूँगा। हे पवनपुत्र, समुद्र पार करना मेरे लिए कौन बड़ा कार्य है? अब तुम यह तो बताओ कि उस दशकठ के नगर में कितने किले हैं, उसकी सेना कितनी बड़ी है? उसके नगर के कितने द्वार हैं? कितने राक्षस उन द्वारों की रक्षा करते हैं? उस नगर के सौधों की पकितियाँ कैसी हैं? तुम तो इन सबका पता लगाकर आये हो, इसलिए मैं तुमसे इन सब बातों का विवरण सुनना चाहता हूँ।'

२. लंका के वैभव का वर्णन

तब हनुमान् हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ प्रभु से इस प्रकार निवेदन करने लगा—
"हे दाशरथि, उस नगर में सतत (गड-स्थलो से) मधु-धारा बहानेवाले, मुख से रौद्र भाव प्रकट करनेवाले, पर्वताकार भद्र गजों के असंख्य समूह हैं। बहुत-से आयुधों से सज्जित, आश्चर्यजनक तथा भयकर दिखनेवाले, छत्रों, पताकाओं तथा विविध चिह्नों एवं ध्वजाओं से युक्त सूर्य-बिंब की प्रभा के समान मणियों से दीप्तिमान्, अश्वों एवं सारथियों से युक्त असंख्य रथ हैं। वीर रस के समुद्र की लहरों के समान दिखाई देनेवाले विविध रंगों से युक्त, (दर्शकों की) दृष्टियों को चौंधिया देनेवाले, अपनी हिनहिनाहट से सबको आश्चर्य-चकित करनेवाले, अपने वंश में पवनदेव के अश्वों को भी मात करने की दिव्य शक्ति रखनेवाले तथा मनोहर आकारवाले, अश्व अनगिनत संख्या में हैं। हे देव, हे राघव, वहाँ के राक्षसवीरों की तो गिनती ही नहीं हो सकती है, वे ऐसे दिखाई देते हैं, मानो बिजलियों से युक्त काले बादलों ने ही दानवों का रूप ले लिया हो, यो काले पर्वत ही मूर्तिमान् रौद्र का-सा रूप धारण किये हुए हो, या जिस गरल का पान शिव ने किया था,

उसी ने मानो दैत्यों का रूप धारण कर लिया हो, या प्रलय-काल की अग्नि के धुएँ ने ही मानो राक्षसों का रूप धर लिया हो। बाहुबल में उन राक्षसों की समता ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर सकते। हे राजन्, लका में ममस्न समार में अनुपम सात उच्चत तथा श्रेष्ठ दुर्ग है। एक ईंटों का दुर्ग है, जिसके चारों ओर के कगूरे सुदूर दिखाई पड़ने हैं। उसके भीतर शिलाओं से निर्मित एक विशाल दुर्ग है, जिसके भीतर फौलाद का दुर्ग है। उसके मध्य में गवाक्षों से युक्त एक तारों का दुर्ग है, जिसके भीतर (बड़ी-बड़ी तोपों की समता करनेवाले) शिला-यंत्रों से युक्त एक विशाल काँसे का दुर्ग है। उसके मध्य ब्रह्मा तथा शिव के लिए भी अभेद्य एक रजत-दुर्ग है, जिसके मध्य में मणियों के प्रकाश की किरणों से मुशोभित तथा प्रशसनीय एक स्वर्ण-दुर्ग है।

“हे राजन्, उन सात किलों में से प्रत्येक किले में, असंख्य दीप्तियों को विकीर्ण करने-वाली मणियों से खचित चार द्वार हैं, जिनके दरवाजे यम धर्मराज के वक्षस्थल के समान विशाल हैं। उन दुर्गों में तंत्र-विधियों से अभिमन्त्रित अमर्ष्य शर-चाप रखे हुए हैं। उस किले के चारों ओर पाताल के समान गहरी, मकरो से भरी चार परिखाएँ हैं, जिनके मध्य में चार पुल बने हैं।

“उन चारों पुलों पर बहुत-से राक्षस किले की रक्षा के लिए नियुक्त हैं। वहाँ ऐसी अमर्ष्य शिलाएँ, बाण तथा यंत्र-समूह हैं, जो अपने-आप शत्रुओं का नाश कर देते हैं। अब उन सबका वर्णन ही मैं क्यों करूँ? महान् वैभव से सपन्न हो रावण, प्रति दिन अपनी सेना के साथ भ्रमण के लिए निकलता है और सबका निरीक्षण करता है। अपने उद्धत गर्व से प्रेरित होकर वह सतत दूसरों को युद्ध के लिए चुनौती देता रहता है। पराक्रम तथा शक्ति से सपन्न शत्रुओं के लिए भी लका को वश में करना दुष्कर है। इसके अलावा समुद्र में जल, वन, (कृत्रिम) स्थल, तथा पर्वत के चार दुर्ग और हैं। वे सतत दिखाई तो देते हैं, किन्तु उनको घेरने का उपत्रम करने जायँ, तो उनका पता ही नहीं लगता।

“हे राजन्, इस लका नगर की रक्षा करनेवाले भूयंकर राक्षस मृत्यु की जिह्वा की समता करनेवाले, शूल धारण किये हुए सतत रक्षण-कार्य में तत्पर रहते हैं। ऐसे रक्षक पश्चिम द्वार पर दस सहस्र रहते हैं। पूर्व द्वार पर स्वयं रावण चतुरगिणी सेना के साथ रहता है। दक्षिण द्वार पर एक लाख राक्षस रक्षा करते रहते हैं। उत्तर द्वार पर अगणित शस्त्रों से सुसज्जित एक लाख राक्षस रहते हैं। नगर के मध्य में एक लाख पच्चीस हजार राक्षस रहते हैं। हे सूर्यवशतिलक, ऐसी लका में, बिना अन्य किमी का ध्यान किये मैं आपकी कृपा से प्रवेश कर सका, उन पुलों को अपने पदाघात से चूर-चूर कर दिया, दुर्गों को गिराकर खदकों में भर दिया, सारी लका को जला दिया और आपके शीघ्ररणों में लौट आया। आपने वहाँ की सारी बातें जान ली हैं। अब विलब क्यों? हम शीघ्र समुद्र को पार करेंगे। समुद्र पार करने की देर है कि वानर-सेना दशकठ की लंका को क्षण भर में उड़ा देंगी।”

तब रघुराम ने सुग्रीव को देखकर कहा—“हे सूर्यपुत्र, अब विलब क्यों करें? यही शुभ मुहूर्त्त है। इसी मुहूर्त्त में प्रस्थान कर जाना ही हमारे लिए उचित है। अब उस राक्षस

के लिए मेरे अस्त्र के सिवाय (मुक्ति का) और कोई उपाय नहीं है । वह छिप कहां सकता है ?' फिर उन्होंने नील को देखकर कहा—'तुम सेना के आगे-आगे ऐसे मार्ग से चलो, जो बहुत ही मनोहर हो तथा जिसमें स्वच्छ एव मीठा जल, पके हुए फल, तथा पेड़ों की छाया का प्राचुर्य हो । साथ-ही-साथ शत्रुजनों का भी पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ।' नल उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़ा । सुग्रीव ने सभी वानरों को युद्ध-यात्रा पर चलने की आज्ञा दी ।

३. कपि-सेनाओं की युद्ध-यात्रा

तब वानर-सेना जहाँ-तहाँ की गुफाओं से बड़े उत्साह के साथ चली । उनके पदाघातों की घोर ध्वनि से सब गुंफाएँ गूँजने लगी । उनके घोर हुंकार, तथा विकट अट्टहास के निनाद आकाश तक व्याप्त हो गये । कुछ वानर भयकर गर्जन करते हुए, अपनी शक्ति के गर्व में भूमते हुए जा रहे थे । कुछ पके हुए फल-वृक्षों को ही अपने कंधों पर रखे हुए उनके फलों को चबाते हुए जा रहे थे । कुछ वानर राम के समक्ष खड़े होकर कह रहे थे कि—'हे राम भूपाल, हम अवश्य युद्ध में राक्षस-समूह के साथ रावण का वध करेंगे ।' इस प्रकार, सभी वानरवीर अत्यधिक उत्साह से उछलते, हर्ष-निनाद करते, अपनी पूँछों को हिलाते, पर्वत-शिखरों पर चढ़कर अपनी इच्छा से भयकर गर्जन करने लगे । उस ध्वनि से आकाश गूँजने लगा, पृथ्वी डोलने लगी, पहाड़ कांपने लगे, अष्ट दिग्गज धँस-से गये, आदिशेष अत्यधिक भार का अनुभव करने लगा, कच्छप ने अपना सिर झुका लिया । उस विशाल सेना के चलने से जो धूलि उठी, वह कई रगों से आकाश में व्याप्त होकर ऐसी दीखने लगी, मानो उस ध्वनि के आधिक्य के कारण पृथ्वी से निश्वास का धुआँ इस रूप में निकल रहा हो ।

वानरों की उस विशाल सेना के अग्र भाग में नील के नेतृत्व में चलनेवाली सेना (गण्ड के) भयकर मुख के समान थी, दोनों पार्श्व भागों में चलनेवाली सेनाएँ दो पक्षों की भाँति थी, मध्य भाग में आनेवाले रामचंद्र आत्मा के समान थे, पीछे बड़े आटोप के साथ आनेवाली सेना पूँछ की तरह प्रकट होती थी । इस तरह वह विशाल सेना ऐसी दीख रही थी, मानो नागपाश से पीड़ित होनेवाले सूर्यवशी राजकुमारों के सकट दूर करने के निमित्त, गण्ड पृथ्वी पर चल रहा हो । प्रजघ, कंसरी तथा दधिमुख आदि वानर-वीर भीड़ को हटाकर मार्ग बनाने हुए जा रहे थे । उनके पीछे अत्यधिक हर्षल्लास से भरे हुए हृदयों से गवय, तार, गधमादन, हनुमान्, अगद, शरभ, नल, जाबवान्, हर, मैन्द आदि वानर जा रहे थे । उनके पीछे रामचंद्र, अनुज लक्ष्मण के साथ चल रहे थे । इस प्रकार, सह्याद्रि पर पहुँचकर वही उन्होंने पड़ाव डाला । सुग्रीव ने वहाँ के विशाल वनों में, तडागों के किनारे, तथा वृक्षों की छाया में सेना को ठहरने का आदेश दिया ।

दूसरे दिन पूर्ववत् सेना को रवाना करके लक्ष्मण स्वयं भी अपने प्रभु राम के साथ चले । वानरों के चलने से धरती हिलने लगी । उस सेना-समुद्र में वीर रस का उफान-सा उठ रहा था; उसकी शक्ति चारों ओर व्याप्त हो रही थी; (सैनिकों की) शरीर-कांति की तरफें उठ रही थी, हर्ष-ध्वनियों का घोष आकाश का स्पर्श कर रहा था,

मनुवशचन्द्र, (रामचन्द्र) के सान्निध्य से वह सेना-ममुद्र उद्वेलित हो रहा था । इस प्रकार वह वानर-सेना-ममुद्र (दक्षिण के) महासागर के गर्व को चूर करने के लिए निकल पडा । (उस सेना-ममुद्र के बीच में) धीरे राम-लक्ष्मण आकाश के मध्य भाग में प्रकाशमान होने-वाले सूर्य तथा चन्द्र की भाँति मुशोभित थे । जब नदियों में उतरकर मंता चलने लगी, तब नदी का पानी उमडने लगा । जब वह सेना सन्नाद्रि पर्वत तथा मलय पर्वत के मध्य भाग से होकर जाने लगी, तब मद पवन के चलने से वृक्षों की शाखाएँ आपस में रगड खाकर उन वानरों पर पुष्प बरसाने लगी । यह उचित ही तो था । वन-लक्ष्मी प्रभु राम के आगमन से हर्षित होकर पुष्पाजलि दिये विना कैसे रह सकती थी ?

वानर-वीर उस पर्वत-प्रदेश में स्थित सरोवरों में उतरकर उनका निर्मल जल पानकर सतुष्ट होते । उन सरोवरों में पाये जानेवाले कमल-समूहों को वे अपने कर-कमल-युग्मों से इस प्रकार तोडते, मानो कह रहे हो कि हे कमलाकर, (सरोवर) जैसे कमलों का शत्रु (चंद्रमा) क्रोध में कमलों को जैसे तोड डालेगा, वैसे ही हमारे कमलाप्त-कुल-तिलक (मूर्यवशतिलक) दशकठ के वदन-कमलों को भी तोड देगा । वे इस प्रकार कुमुदों* को कुचल डालते थे, मानो कह रहे हो कि हम दुष्ट-शत्रु की स्त्रियों को दुःख* देकर, जानकी के दुःखी* को भी इसी प्रकार* कुचल डालेंगे । सरोवरों के गर्भ से दीर्घ मृणालों को वे इस प्रकार उखाडते थे, मानो कह रहे हो कि हम राक्षसों के उदरस्थ आँतों को इसी प्रकार चीरकर बाहर निकालेंगे । इस प्रकार के विनोदों में मग्न होते हुए सभी वानर सरोवरों के किनारे लाँघकर जाते और फिर पहाडों पर चढकर वहाँ प्राप्त होनेवाला मधु छककर खाते और फिर जल पीकर बडे उन्माह के साथ आगे बढ़ने जाते थे ।

४ महेन्द्र पर्वत से राम का समुद्र का देखना

तब रामचन्द्र ने महेन्द्र पर्वत पर चढकर वहाँ से अनतिदूर पर दीखनेवाले समुद्र का अवलोकन किया । वह समुद्र विविध क्रूर प्राणियों को अपने गर्भ में एकत्र किये हुए बडा प्रचंड रूप धारण करके ऐसा कहते हुए-से दिग्वाई दे रहा था कि जो रावण दीर्घ-काय मगर-रूपी हाथियों के भुडों से, उत्तुंग तरंग-रूपी धोंडों से, कछुए तथा कैंकडे-रूपी रथ-समूह से, अमर्ष्य मत्स्य-रूपी मैनिकों से, सर्पों के फन-रूपी पताकाओं से, उनकी सुदर तथा चटुल पूँछ-रूपी खड्गों से, मीनावली-रूपी चामरों से, ऊपर तैरनेवाले भाग-रूपी छत्रों से, घनघोष-रूपी भेरी-निनाद से तथा जल-रूपी वीर रस से, मेरी शरण में आया हुआ है, उसका वध मैं कैसे करने दूँगा ?

ऐसे विशाल समुद्र को देखकर राघव आश्चर्यचकित हुए और निदान उस समुद्र के निकट पहुँचे । समुद्र के किनारे समस्त सेना को एकत्र करने लायक चद्रकात शिलाओं से पूर्ण एक विशाल प्रदेश में रामचन्द्र इस प्रकार बैठ गये, मानो वे अपने शर-रूपी बसी से समुद्र के आश्रय में विचरनेवाले रावण-रूपी मोटे पाठीन (मछली विशेष) को पकड़ने के लिए बैठे हो । तब वे अपने पास ही बैठे हुए सूर्यपुत्र सुग्रीव को देखकर बोले—

* इन सभी शब्दों के लिए तेलुगु में एक ही शब्द (तोग) का उपयोग होता है । कवि ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग करके यमक अलंकार सिद्ध किया है । —लेखक

‘हे मुग्धीव, हम तो समुद्र के किनारे पहुँच ही गये । अब कहाँ से और कैसे इस समुद्र को पार किया जाय, इसका उपाय तुम सोचो । पहले एक सुंदर स्थान में इस वानर-सेना को ठहरने की आज्ञा दो ।’ सुग्धीव ने इस कार्य के लिए नील को नियुक्त किया । नील ने शीघ्र ही सारी सेना को एक सुन्दर स्थान में ठहराने का प्रबंध किया । वानरो के, शिविरो में आते तथा वहाँ उनके ठहराते समय जो तुमुल शब्द हो रहा था, वह सूर्यमंडल तक व्याप्त होकर ऐसा लगता था, मानो वह समुद्र को डाँट रहा हो कि ऐ समुद्र, मैं स्वयं तो वनचरो (वानर) से उत्पन्न हूँ, भला मैं तुम्हारे वनचरो से (जल-चर) उत्पन्न घोष को कैसे सहन कर सकता हूँ और वह समुद्र के घोष को दबा देता था । सारी वानर-सेना, तीन सैनिक-शिविरो में, समुद्र-तट पर स्थित वनो में ठहर गई ।

तब रामचंद्र ने लक्ष्मण से एकांत में कहा—‘हे सौमित्र, इस समुद्र की विशालता तो देखो, इसके अंत का पता कोई कैसे पा सकेगा ? इसी प्रकार दुख-समुद्र का भी अंत नहीं होगा ।’

५. संध्या-वर्णन

इस प्रकार कहते हुए प्रभु रामचंद्र जब दुख-समुद्र में डूब गये, तब सूर्य भी पश्चिम समुद्र में ऐसा डूब गया, मानो उसने ऐसा विचार किया हो कि रामचन्द्र का जीवन ही मेरा जीवन है । सूर्यास्त होते ही समस्त लोक मणिहीन मजूषा की भाँति कातिहीन हो गये । सध्या-राग चारो ओर इस प्रकार व्याप्त हो गया, मानो मनसिज के बाणो की अग्नि से तप्त मनवाले राम का शीतलोपचार करने के निमित्त पश्चिम समुद्र राग-रजित वस्त्र लेकर आया हो । कमल-दलो का यौवन ढल जाने से, कमल अपने शेष सौंदर्य को लिये हुए मुकुलित हो गये, मानो यह बता रहे हो कि राम के प्रताप के आगे इंद्र के शत्रु रावण का मुँह भी ऐसा ही कुम्हला जायगा । चारो ओर अधकार ऐसा व्याप्त होने लगा, मानो राम का शीतलोपचार करने के लिए दिग्दधुएँ ललित तमाल-पल्लव-राशियो को उछाल रही हो । जहाँ-तहाँ कुमुद ऐसे विकसित हुए, मानो वे यह सोचकर हँस रहे हो कि सूर्यवश-तिलक राम की वधू को बदी बनाकर हर्षित होनेवाले दनुजेन्द्र का हर्ष भग हो जायगा । सारा आकाश इस प्रकार नक्षत्र समूह से अलकृत था, मानो वह इस बात की सूचना दे रहा हो कि रामचन्द्र के पैने शरो से सारा समुद्र सूख जायगा और उसके गर्भ में स्थित रत्न-राशियाँ इस प्रकार दिखाई पड़ेंगी । आकाश के सारे नक्षत्र समुद्र के जल में इस प्रकार प्रतिबिंबित हो रहे थे, मानो रामचन्द्र के विरह-ताप का शमन करने के लिए निशासुदरी ने सुगंधित मल्लिका-पुष्पो की शय्या का प्रबंध कर दिया हो । चक्रवाक एक दूसरे से अलग होकर शीघ्र गति से चारों दिशाओ में चले गये, जिससे सब दिशाओ में इस बात की घोषणा करें कि श्रीरामचन्द्र विरह-व्यथा से पीडित हो रहे हैं, यदि हम भी विरह से पीडित हो, तो क्या, आश्चर्य है । चन्द्र अपनी किरणो को आकाश में व्याप्त करते हुए ऐसा उदित होने लगा, मानो वह श्रीराम की निंदा यो कर रहा हो कि हे राजन्, मैं राजा (नक्षत्रो का) होकर समुद्र को प्रसन्नता से प्रफुल्ल कर देता हूँ और आप राजा होकर उसको सुखा देना चाहते हैं । आप पूर्णकला से समन्वित हैं, क्या आपके लिए यह उचित है ? यदि आप

ऐसा करेंगे, तो आपको भी (मेरे समान) कलक लग जायगा। चन्द्रिका समस्त दिशाओं में ऐसे व्याप्त हो गई, मानो चन्द्र विकट अट्टहास कर रहा हो कि हे राजा राम, जिस शिव ने मुझे अपने सिर पर धारण करके मेरा सम्मान किया है, ऐसे शिवजी के धनुष को तोड़ने के कारण ही आपको विरह-दुःख हुआ है। उज्वल चाँदनी चारों दिशाओं में ऐसे व्याप्त हो गई, मानो चन्द्रमा ने समुद्र के फेन-रूपी चदन को अपनी किरणों के द्वारा लहरो से आकृष्ट करके, दिग्बधुओं के शरीर पर मल दिया हो। तब चकोर-चकोरी अत्यधिक आनंद से एक दूसरे का आलिंगन करते बार-बार अपनी चोंचों को पसारकर छककर चन्द्रिका-रस का पान करने, बड़े अनुराग से अपनी प्रियाओं को पिलाते, उनके पीने पर स्वयं पीते और इसी प्रकार बड़े मोद-मग्न हो चन्द्रिका में खेलने-कूदते। इस प्रकार, जब वे अपनी प्रियाओं से अलग होते, फिर उनको ढूँढ़कर उनके साथ बड़े आनंद से रहने लगते थे। इन पक्षियों को देखकर वियोग-दुःख से पीड़ित राम, सीताजी का स्मरण करके मन-ही-मन अत्यधिक व्यथा का अनुभव करने लगते।

अपने अग्रज को इस प्रकार सतप्त होने देख लक्ष्मण उन्हें शांति पहुँचाने के उद्देश्य से बोले—'हे देव, आप अनुपम वीर हैं, उदात्त चित्तवाले हैं। आप इसके लिए क्यों डूबी हैं। अभी हम समुद्र को पार करके लका पहुँचेंगे, युद्ध में दशकठ का सहार करेंगे, और मिथिलेश की प्रिय पुत्री, कमलवदनी सीता को मुक्त करेंगे। आप विघ्न न होइए।' अनुज के इन नम्र वचनों को सुनकर राम प्रसन्नचित्त हुए।

सैनिक-शिविरो में, वानर उस आनंदप्रद चाँदनी में मुदित मन से रामचन्द्र के गुणों का गान करने, खेलने तथा कूदते रहे। कुछ लोग समुद्र के किनारे बड़े आह्लाद से विचरण कर रहे थे। कुछ लोग विष्णु के सभी अवतारों की कथाएँ दूसरों को सुना रहे थे, तो कुछ वानर पिघलनेवाली उन चन्द्रकांत शिलाओं पर बड़े आनंद से सोने का यत्न कर रहे थे। इस प्रकार, वे बड़ी देर तक विविध क्रीडाओं में मग्न रहे।

शीघ्र ही पूर्व दिशा में अरुणिमा का ऐसा आभास हुआ, मानो वडवानल ही इस भय से कपित होते हुए कि, जब राघव समुद्र पर अपने पौत्रों का प्रयोग करेंगे, तब उनका लक्ष्य बन जाऊँगा, उदयाचल पर चढ़ गया हो। सभी नक्षत्र इस भय से व्याकुल हो छिपने लगे कि समुद्र का दहन करने के लिए राम के वाणों से उत्पन्न अग्नि की शिखाएँ कहीं आकाश तक न व्याप्त हो जायँ। धीरे-धीरे सूर्य का उदय होने लगा, मानो वे अपने पौत्र (राम) को सचेत करने के लिए आ रहे हो कि हे राघव, अभी विलंब क्यों करने हो, समुद्र को पार करके शीघ्र ही रावण का सहार करो। सभी कमल एक साथ ऐसे विकसित हुए, मानो कमलाप्त-वृगज (सूर्यवशी) राघव का विजय-कमल, साम्राज्य-कमल, तथा कीर्ति-कमल एक साथ ही विकसित हो रहे हो। तब दाशरथि जगकर प्रातःकालीन सध्या-वदन आदि नित्यकर्मों से निवृत्त हुए।

६ मंत्रियों के साथ रावण की मंत्रणा

लका में रावण ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे कहा—'हे मंत्रिवरो, तुम जानते ही हो कि एक वानर ने, एक यत्र-संचालित चित्रों की भाँति, मेरे नगर में

प्रवेश किया, लकिनी का वध किया, सीता के लिए लका को शोध डाला, मेरे पुत्र का वध किया, मेरी शक्ति का तिरस्कार करने हुए मेरी नगरी को जलाकर भस्म किया और बहुत-से राक्षसों का वध किया। वह हमारे हाथ में फँसकर भी हमारे हाथ से बचकर चला गया। वही राघवों को समुद्र के किनारे ले आया है। यदि सूर्यवशतिलक समुद्र को सुखाकर या समुद्र पर पुल बाँधकर इस पार चला आया, तो हमारा सब क्रिया-कराया मिट्टी में मिल जायगा। उसके समुद्र पार करने के पहले हम क्या उपाय करे, जिससे वह लका में नहीं आ सके। तुम अच्छी तरह सोच-विचारकर कहो कि हमारा अब क्या कर्त्तव्य है। यदि तुम्हारा बताया हुआ उपाय उपयोगी होगा, तो वैसा ही करेंगे।”

तब उन मूर्ख मन्त्रियों ने राक्षसेश्वर से कहा—“हे देव, आपके वश में बहुत-से ऐसे दिव्यास्त्र हैं, जो देवताओं के लिए भी अजेय हैं। आप ने सर्पराज को बाँधा, उसका विष उगलवाकर गर्व-भग किया। रूद्र के मित्र कुबेर का गर्व चूर करके आपने उसका पुष्पक विमान ले लिया। मय की ख्याति को नष्ट करके उसकी प्रिय पुत्री से विवाह कर लिया। मृत्यु-देवता अतक (यम) को बंदी बनाकर उस अतक के लिए आप अतक बन गये। अनुपम बलशाली वरुण को कैँपा दिया और उसे अपने वश में कर लिया। हे सम्राट्, आपने सभी चक्रवर्तियों के राज्य बात-बी-बात में हस्तगत कर लिये। क्या आपने शूलपाणि (शिव) के निकट अपने बाहुबल का प्रदर्शन करके उनको नीचा नहीं दिखाया? क्या, स्वर्ग के देवताओं के साथ उस इन्द्र का गर्व आपने नहीं तोड़ा? क्या, आपने अग्नि को अपनी प्रतापानि का ताप दिखाकर उसका ताप नष्ट नहीं किया? क्या, दैत्यनाथ नैऋत पर क्रुद्ध होकर अपने पराक्रम से उसका गर्व-भग नहीं किया? आपने पवन को एक स्थान पर स्थिर रहने नहीं दिया और अपने बाहुबल से उसे विचलित कर दिया। राम तो एक मानवमात्र है और आप मनुष्य-भक्षी हैं। यह कैसे संभव है कि वह आपके हाथों से बचकर जीवित रहे? आपके पुत्र ने ईश्वर की प्रीति के लिए महेश्वर-यज्ञ करके शाश्वत कीर्ति तथा पूर्ण सफलता प्राप्त की, इन्द्र को जीतकर उसने इन्द्रजीत का नाम प्राप्त किया। उसने इन्द्र को भी बंदी बनाया था, किन्तु ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने उसे ब्रह्मा को दे दिया। क्या, युद्ध में विजय पाने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त नहीं है? हे दैत्यराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

७. दानव-वीरों के दर्पपूर्ण वचन

इस प्रकार, जब मन्त्री रावण को समझा रहे थे, तब महान् बलशाली एव प्रलय-काल के रूद्र को भी परास्त करनेवाले शूर, ब्रह्मन्त, इन्द्रजीत, शतमाय, दुर्मुख, अतिकाय, मकराक्ष, खड्गरोम, वृश्चिकरोम, सर्परोम, अग्निवर्ण, विरूपाक्ष, अक्षीणबल धूम्राक्ष, अक्षतविजयी उपाक्ष, अनुपम बली रश्मिकेतन, अमित पराक्रमी अग्निकेतन, वज्रदध्नुः, सप्तघ्न, शोणिताक्ष, प्रबलशूर महापार्श्व, कुभ, निकुभ, सूर्यशत्रु, अग्निकोपन, महोदर, देवताओं को जीतनेवाला वेवातक, अद्वितीय पराक्रमी तथा नरों का नाश करनेवाला एव भयकर आकारवाला महाकाय, विद्युज्जिह्व, कपन तथा अकपन आदि अभेद्य विक्रमी एव श्रेष्ठ दैत्यवीर, राक्षस राजा रावण के सामने क्रोधाभिभूत होकर खड़े रहे। उनकी लाल-लाल आँखों से क्रोध की भयकर

ज्वालाएँ निकल रही थी। प्रलय-काल के प्रचंड प्रभंजन से मुक्त, कुलपर्वतो की भाँति वे परस्पर देख रहे थे, फुफकारनेवाले सर्पों की भाँति उनकी भाँस वेग से चल रही थी। वे बड़े गर्व से शूल उठाते, खड्गों को खींचते, करवालों को आकाश में घुमाते, लाठियों को ऊँचा करते, चक्रों को घुमाते, प्रबल मुद्गरों को सँभालने, दीर्घ खड्गों को दिखाते, भालों को घुमाते और धनुष का टकार करते हुए अपने क्रोध को प्रकट कर रहे थे। उनके इस क्रोध-प्रदर्शन के समय, उनके करवाल एक दूसरे से टकराकर स्फूर्तिलग उगलते थे, परस्पर उनके केशुर तथा मुकुटों के रगड़ खाने से मोती बिखर जाते थे और आभूषण चूर-चूर हो जाते थे। वे क्रोधोन्मत्त हो आकाश को कँपा देनेवाली गभीर ध्वनि से रावण से कहने लगे—‘हे देव, देवता गधर्व, दैतेय तथा किन्नर आपको देखने का भी साहस नहीं करते, इन्द्र भी तो आपको देखकर भय से मिकुड़ जाता है। तब नर तथा वानरों का साहस ही कितना है कि वे आपका सामना कर सकें? उस दिन हम कुछ आसावधान से रहे, इसलिए उस नीच वानर ने अपनी दुष्टता से आतंक फैला दिया था। अब हमारे सामने किसकी शक्ति है कि लका में प्रवेश करने का साहस करे। हे दानव-नाथ, इतना क्यों, आप हमें शीघ्र आदेश दीजिए। हम तुरन्त जाकर उन वानरों का नामो-निशान मिटा देंगे और राजकुमारों का सहार करके वापस आयेंगे।’

८. राक्षसवीरों को विभीषण का उपदेश

इस प्रकार की दुर्वार गर्वोक्तियाँ कहनेवाले राक्षसों को देखकर विभीषण, समस्त इन्द्रियों को अपने वश में किये हुए योगीन्द्र की भाँति, गरजनवाले उदृण्ड मेघों को शांत रखनेवाले इन्द्र की भाँति उन सब को अपने-अपने आसनों पर बैठ जाने का आदेश देकर बोला—‘हे वीरो, तुम उतावले मत बनो। किंचित् विचार करके देखो। किसी भी कार्य को साधने के लिए पहले साम, दान, तथा भेद के उपायों का आश्रय लेना चाहिए। यदि उनमें कार्य सिद्ध न हो, तभी दण्ड-विधान का आश्रय लेना पड़ता है। पहले ही दण्ड-नीति को अपनाना नीति-विरुद्ध है। शत्रु के असावधान रहते समय ही, उसको जीतना सुलभ है; या उस समय उसको जीता जा सकता है, जब कोई अन्य शत्रु उस पर आक्रमण करने आता है और वह भगवान् की कृपा से वंचित रहता है। राम कभी असावधान नहीं रहते; उनका पराक्रम दुर्वार है; उन पर कोई आक्रमण करने नहीं आता। और तो और, वे स्वयं भगवान् हैं। शिव-धनुष का भग उन्हीं ने तो किया था? वे परम विवेकी हैं, अनुपम बाहुबल-सपन्न, तथा विजयी हैं। तुम चाहे जितना भी डीग हाँकी, उस सूर्यकुल-तिलक को जीतना क्या, तुम्हारे लिए संभव है? उस वायुपुत्र की शक्ति का किंचित् विचार करो, जिसने विशाल समुद्र को एक छोटी नहर की भाँति पार कर लिया है। तुम नहीं जानते कि उसने तुम्हारे देखते-देखते लका में कैसा उत्पान मचा दिया? उस वानर ने राम की सेना के गौर्य का आभासमात्र दिखाया है। ऐसे अनेक वानर और उनसे भी अधिक शक्तिशाली असंख्य वानर उनकी (राम की) सेवा में हैं। तुम लोग राम के पराक्रम के आगे कैसे टिक सकते हो? हे दानववीरो, क्रोधोन्मत्त हो अपने तथा दूसरों के बल का अनुमान किये बिना, ऐसे वचन कहना क्या बुद्धिमानी है? सुदरियों में

श्रेष्ठ सुदरी राम की पत्नी सीता जब भयभीत होकर रामचन्द्र को पुकारने लगी, तब राक्षसेश्वर अत्यन्त वेग से उन्हें उठा लाये। हम स्वयं सोचें, उन्होंने हमें कौन-सी हानि पहुँचाई है ? तुम लोग इस बात का तो विचार करते ही कि उन्होंने खर-दूषण आदि राक्षसों को खड-खड कर दिया, किन्तु तुम यह नहीं सोचते कि पहले उन राक्षसों ने ही आपको घेरा था। क्या, राम-लक्ष्मण पर आक्रमण करना आपको उचित था ? अपने किये हुए कर्मों के फल भोगकर वे नष्ट हो गये और अमर-लोक को प्राप्त हो गये। अब उनकी चिन्ता क्यों करें ? हमारी भलाई इसी में है कि वीर वानरो के लका में प्रविष्ट होने के पहले, हमारे दुर्गों के उनके पदाघात से नष्ट होने के पहले ही, सौमित्र के बाण-रूपी वज्र के गिरने के पहले, रामचन्द्र के क्रोध से उत्तेजित होने के पहले ही और उनकी क्रोधाग्नि से लका के भस्म होने के पहले ही, हम सीता को श्रीरामचन्द्र के पास पहुँचा दें। सीता को ले आने के दोष का यही परिहार है। राम-भूपाल धर्मात्मा है और धर्म की सदा विजय होती है।”

इस प्रकार विभीषण ने कई प्रकार से राक्षसवीरों को समझाया और फिर दशकठ को देखकर कहा—“हे प्रभु, दुर्व्यसन सुख तथा धर्म में बाधा डालनेवाले होने हैं। अतएव आप उनका त्याग कीजिए। धर्म-पालन सुख तथा कीर्ति प्रदान करनेवाला होता है। इसलिए आप धर्म के पथ का अनुसरण कीजिए और नीतिज्ञ कहलाइए। हठ छोड़िए, और प्रसन्नचित्त होइए। यदि आप अपने समस्त कुल की रक्षा करना चाहते हैं, तो जानकी को मुक्त कर दीजिए। उस राम से हम शत्रुता क्यों करें ?” इस प्रकार के नीतियुक्त वचन सुनना रावण को अप्रिय लगा। इसलिए वह तुरन्त सभा-भवन छोड़कर अतपुर में चला गया।

९. रावण को विभीषण का हितोपदेश

दूसरे दिन प्रातःकाल ही विभीषण संध्यावदन आदि प्रातःकाल के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने रथ पर सवार हो रावण के अतपुर को चला। उसके चारों ओर राक्षस सैनिक उसकी सेवा में चल रहे थे। वह रमणीय तथा चित्र-विचित्र तोरणों से अलङ्कृत राज-मार्ग से होकर सुदर शिल्पों को देखते हुए रावण के उस अतपुर के सिंहद्वार पर पहुँचा, जहाँ (अश्वों की) हिनहिनाहट, (गजों की) चिंघाड, पटह तथा शखों के निनाद, सेवा-कार्यों में प्रवृत्त परिचारिकारिओं की पायलों का भ्रकार, अतपुर के रक्षकों के हुंकार, सूत-मागध बंदी-जनो की स्तुति, परिवारकों के वार्त्तालाप की ध्वनि, तथा गजों की निश्वास-वायु के कारण बड़े वेग से फडफडानेवाली पताकाओं की ध्वनि, समुद्र की तरंगों के घोष के समान समस्त दिशाओं को वधिर बना रही थी। वह अतपुर विश्वस्त राक्षस-वीरों से ऐसा रक्षित था, मानो नक्षत्रों से परिवृत हो। उस सौध के सिंहद्वार पर असख्य, गज-रथ तथा अश्वों का समूह था। ऐसे सिंहद्वार के निकट विभीषण अपने रथ से उतरा और अतपुर में प्रवेश किया। वहाँ यज्ञ आदि सत्कर्मों से अनुरक्त पूजनीय ब्राह्मणों को पुण्याहवाचन तथा शान्ति-पाठ करते हुए देखा। विभीषण उन्हें देखते हुए बड़ी प्रीति से आगे बढ़ा और सभा-भवन में पहुँचकर अपने अग्रज को अत्यन्त भक्ति के साथ प्रणाम किया। फिर, रावण का आदेश पाकर एक उचित आसन पर बैठा।

उसके पश्चात् मंत्रणा-कुशल विभीषण सभी मंत्रियों के समक्ष कहने लगा—“हे देव, हे दैत्यनाथ, आप ध्यान देकर मेरा निवेदन सुनिए । जिम् दिन से आप सीता को ले आये हैं, उसी दिन से दुःशकुन दिखाई देने लगे हैं । आजकल होम-कुंडों में श्रेताग्नियाँ प्रदीप्त नहीं होती । उन कुंडों को घेरकर बहुत-से साँप पडे रहते हैं । सतत मदजल बहानेवाले जिन हाथियों के गडस्थल पर भ्रमरो का गुजार होता रहता था, वे मत्तगज आज शुष्क शरीरो से, गर्दनो को ऊपर उठाये, चुपचाप खडे रहते हैं । अत्यधिक शक्ति तथा स्फूर्ति से सपन्न उत्तम अश्व, आज आँखो से पानी गिराते हुए चारा-पानी छोडकर, शक्तिहीन ही पडे हुए हैं । हे असुराधिपति, इन सब के निराकरण का एक ही मार्ग है । आप सीता को ले जाकर श्रीराम को साँप दीजिए । वे आपके अपराध पर ध्यान नहीं देंगे (वे आपको क्षमा कर देंगे) । यही नीतिवान् के लिए उचित कार्य है । ‘यही कार्य उचित है’, इस बात को सब लोग ममभते हैं, किन्तु आपको इस धर्म का उपदेश देने से वे डरते हैं । मैं भी विवश होकर ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ ।”

विभीषण के ये आप्त वचन रावण के कानो में प्रवेश ही नहीं कर पाये । उसने कहा—‘मैं किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रखता । चाहे कुछ भी हो जाय, मैं सीता को राम के पास नहीं भेजूँगा । चाहे देवना भी उसकी सहायता के लिए आ जाय, फिर भी युद्ध में मुझ दुर्जयी के सामने वह टिक नहीं सकेगा ।’ इस प्रकार कहते हुए वह अत्यंत क्रोध ने सभा-भवन छोडकर भीतर चला गया ।

दूमरे दिन प्रातःकाल ही उठकर रावण सध्यावदन तथा ध्यान आदि मे निवृत्त हुआ और अपने अनुज के वचनो पर मन-ही-मन विचार करके अपने मंत्रियों के साथ उन वचनो के बारे में मंत्रणा करने का निश्चय किया । फिर, वह सूर्य-मंडल के समान प्रभा से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ हुआ । उस विमान का स्वर्ण-कलश बहुत-से सुन्दर रत्नो से खचित था । उसका ऊँचा छत्र, चद्रिका के फन से विरचित-से अत्यधिक धवल दिखाई पड रहा था । सुदरियाँ अपने ककणो को झनझनाती हुई चामर डुला रही थी । असख्य तुरहियाँ बज रही थी और बहुत-से सैनिक रावण की सेवा में लगे हुए उसका अनुगमन कर रहे थे । वेत्रधर-कचुकी, सेवक-समूह को अनुशासन में रखने में तत्पर थे । इस प्रकार, अखड वैभव से सुशोभित उस रावण ने अपने सभी मंत्रियों के साथ सभा-मंडप में इस प्रकार प्रवेश किया, मानों यह कह रहा हो कि सूर्यवशी (राम) के शरो से आहत होने के पश्चात् मैं सूर्य-बिंब में प्रवेश करूँगा । फिर, सिंहासन पर आरूढ होकर मेनापतियो तथा गुप्तचरो को बुलाया । वे भी अपने रथो, गजो तथा अश्वो पर बैठकर तुरहियो के निनादो के साथ आये और सभा-मंडप के आँगन में पहुँचकर अपने वाहनो पर से उतरकर उस सभा-मंडप में प्रवेश किया, जैसे सिंह गिरि-गुफा में प्रवेश करते हैं । फिर, दानवेंद्र से उचित आदर प्राप्त करके प्रसन्नचित्त से अपने आसनो पर बैठ गये ।

उचित कार्यों के सबध में निवेदन करने का अच्छा अवसर जानकर मंत्रियों ने रावण से निवेदन किया, ‘हे देव, आपके अनुज, प्रचंड बलशाली कुभकर्ण आज जाते हुए हैं । यह सुनकर रावण ने आदेश दिया कि उसे बुला लाओ । तुरत वे कुभकर्ण के यहाँ

गये और उससे कहा—‘हे देव, आज प्रभु, सभा में विराजमान है और आपको बुला लाने के लिए हमें भेजा है ।’ यह आदेश सुनकर कुभकर्ण अपने पुत्र कुभ तथा निकुभ के साथ शीघ्र सभा-मंडप में पहुँचा । मणिमय, महिमा-समन्वित तथा नर्त्तिकियो के संगीत की मधुर ध्वनि में सपन्न उस सभा-मंडप में सिंहासनस्थ अपने अग्रज को उसने प्रणाम किया और बड़ी नम्रता से एक उन्नत आसन पर बैठ गया । अपने भाई के साथ ही विभीषण भी आ गया और स्वर्ण के आसन पर उपविष्ट हुआ । तब रावण सुरेश (इंद्र) के समान प्रभाव उत्पन्न करते हुए प्रहस्त को देखकर बोला—‘लका नगर की रक्षा के लिए और भी अधिक सैनिकों को नियुक्त करो, सभी मार्गों में, किले के द्वारों पर, भीतर तथा बाहर, राक्षस-वीरों को सावधान रहने की चेतावनी देकर नियुक्त करो ।’

१०. कुंभकर्ण को सीतापहरण का वृत्तान्त सुनाना

उसके पश्चात् दानवेश्वर कुभकर्ण को देखकर अत्यधिक व्यग्रता से कहने लगा—‘हे कुभकर्ण, मैं तुम्हें एक ऐसी बात सुनाता हूँ, जिसे तुमने अबतक नहीं सुना होगा । मैं एक दिन जनपद में गया और वहाँ राम की पत्नी, भूमि-सुता कमलाक्षी सीता पर मुग्ध होकर उम्रे यहाँ ले आया । कुछ दिन पहले हनुमान् नामक एक वानर यहाँ आया और सीता से मिलकर उसे प्रणाम किया और कहा—‘हे देवी, आपके पति राम यहाँ अवश्य आयेंगे ।’ सीता उन बातों पर विश्वास किये बैठी है । वह मानव (राम) अत्यधिक साहस के साथ समुद्र के उस पार शिविर डाले पडा हुआ है । वह अपने साथ, वनों में पाये जानेवाले वानरों की एक बड़ी सेना एकत्र करके लाया है । शीघ्र मुझसे युद्ध करके सीता को ले जाने के निमित्त वह आ रहा है । वह भले ही यहाँ आवे । मैंने इन्द्र आदि देवताओं को परास्त किया है । जिस कैलास पर्वत पर शिव रहते हैं, उसे मैंने उठाया है । शम्भु से मैंने चद्रहास (नामक खड्ग) प्राप्त किया है । कमलसभव ब्रह्मा का वर मुझे प्राप्त है । तिस पर मुझे तुम्हारी शक्ति की सहायता प्राप्त है । तब, क्या एक साधारण मानव मुझे परास्त कर सकता है ? राम कैसे मुझे युद्ध में जीत सकेगा, और कैसे उस सुदरी को यहाँ से ले जा सकेगा ?’

इन बातों को सुनकर कुभकर्ण ने क्रोध में आकर सब लोगों के समक्ष रावण से कहा—‘हे रावण, राम को धोखा देकर, उनकी पत्नी को इतनी क्रूरता के साथ तुम कैसे लाये ? क्या इस प्रकार उसे ले आना उचित था ? तुमने अपने मन में नीति का विचार ही नहीं किया । धर्म-मार्ग का स्मरण ही नहीं किया । काम के पीछे तुमने सारे कुल को कलकित किया । जिस दिन तुम सीता को ले आये, उसी दिन लका का सर्वनाश हो गया ? इसका नाश तो अब निश्चित ही है, चाहे कैसे भी हो । तुम उस सूर्यवशज राम के अप्रति-हृत वाणों का लक्ष्य हुए बिना अपने भाग्य से बचकर चले आये, यही बड़ी गनीमत है । अब मैं जाता हूँ । हे रावण, इतना बड़ा कार्य सँभालने का भार मुझ पर पडा है । अब तुम वानर तथा राक्षसों का किञ्चित् भी भय किये बिना सुख भोगते रहो ।’

इन बातों को सुनकर महापार्श्व ने कहा—‘हे राक्षसाधीश, आप तो समस्त लोकों के अधिपति हैं । क्या आप सीता के साथ बलपूर्वक रति-क्रीड़ा नहीं कर सकते ?’ यह

सुनकर मन-ही-मन अत्यंत प्रसन्न होने हुए राक्षमराज ने कहा—‘हे महापाश्र्व, सुनो । एक बार मैं ब्रह्मा की सभा में जाते समय पुजिकस्थली नामक एक सुदरी को देखकर उस पर मुग्ध हुआ और वामना से प्रेरित होकर बलपूर्वक उसके साथ रति-क्रीडा की । यह बात जानकर ब्रह्मा मुझ पर क्रुद्ध हुए और शाप दिया कि हे राक्षस, स्त्रियों के प्रति आदर दिखाये बिना, अनुचित रीति से यदि तुम भविष्य में किसी भी स्त्री के साथ बलात् रति-क्रीडा करोगे, तो अवश्य तुम्हारे मिर के सौ टुकड़े हो जायेंगे । यही कारण है कि मैं किसी भी स्त्री की स्वीकृति प्राप्त किये बिना उसके साथ बलात्कार नहीं करता । मेरी शक्ति का विचार किये बिना वानर-मेना के साथ राम का लका पर चढ़ आना उसी प्रकार है, जैसे भद्रगजों के समूह का मोनेवाले मिह को जगाना ।’

तब विभीषण ने हँसकर रावण से विनयपूर्वक निवेदन किया—‘हे भाई, तुम्हारे लिए सीता एक भयकर कालमर्षिणी है । उनकी उमामें ही (नागिन का) फुफकार है और उनका वृष ही गरल है । वह (काली नागिन) किसी भी प्रकार तुम्हें नहीं छोड़ेगी । इस कार्य से तुम्हें अपयश मिलेगा, पाप होगा, और तुम्हारा मुख नष्ट हो जायगा । इसलिए इस अनीति को तुम छोड़ दो ।’ उसके पश्चात् प्रहस्त को देखकर विभीषण ने प्रखर वाणी से कहा—“आज तुम क्यों इतना इतरा रहे हो ? जिस दिन राम के वज्र-जैसे बाण तुम्हारे वक्ष में गड़ेंगे, उम दिन तुम जानोगे, परप वचन कहना तो आसान है । क्या यह कुभकर्ण, यह निकुभ, यह कुभ, यह महोदर, यह महापाश्र्व, यह इन्द्रजीत युद्ध में राम को जीत सकेंगे ? युद्ध में वे भी अपनी शक्ति दिखायेंगे ही, युद्ध में तुम सभी रक्षक होकर रावण की रक्षा में तत्पर रहना । एक बान स्मरण रखो, चाहे इन्द्र ही रावण की रक्षा करे, देवता ही उनको बचाने का प्रयत्न करें, कालाग्नि-सम भयकर व्र ही उनकी रक्षा करने आवें, यहाँ तक कि मृत्यु ही म्रय उन्हें बचाना चाहे, तो भी रामचंद्र रावण का सहार किये बिना नहीं रहेंगे । जब मनुकुल-तिलक दनुजेश्वर को जीतने के लिए धनुष हाथ में धारण करे, तो क्या, हम उनकी शक्ति का सामना कर सकते हैं ? प्रलय-काल की अग्नि कहीं मुट्ठी में समा सकती है ? उमडनेवाली जलराशि क्या, छोटे-से मुँह में समा सकती है ? क्या, पाताल को अपने क्रोड के भीतर मीमित कर सकते हैं ? क्या, गगन को पार करना संभव है ? क्या दिङ्मडल के वितान को तोडना संभव है ? क्या, शिवजी के ऋवाल को खड-खड करना मद्दज है ? क्या, सूर्य को हथेली से ढक सकते हैं ? तुम जैसे अज्ञान लोगो से बान करना भी वृथा है । तुम्हारे जैसे मत्रियों के रहते मूर्ख तथा कामातुर रावण मरेंगे क्यों नहीं ? क्या, वे मेरे हित वचनो को सुनेंगे ? वे मदाघ होकर तुम्हारी मत्रणा से अवश्य ही नष्ट होंगे ।” इस प्रकार, मौजन्य का [विचार किये बिना जब विभीषण ने स्पष्ट वचन कहे, तो प्रहस्त ने उसकी बातों की उपेक्षा करते हुए कहा—‘हम उरगो से युद्ध करके कभी परास्त नहीं हुए । सुरो से भिड़कर भी हम कभी नहीं हारे । यक्षो का सामना करके हम कभी विजित नहीं हुए । राक्षसो से जूझकर हम सतप्त नहीं हुए । हे विभीषण, तब क्या, मानवमात्र राम से, युद्ध में हम हार जायेंगे ? न जाने, उनके सबध में तुम इतनी बातें कैसे जान पाये ? आज पहले-पहल हम तुम्हारे

मुँह से ऐसी विचित्र बातें सुन रहे हैं । क्या, तुम समझते हो कि राक्षस उतने शक्ति हीन है ?'

११ इन्द्रजीत का विभीषण को अपने पराक्रम का परिचय देना

रामानुज की बाणाग्नि से दग्ध होना इन्द्रजीत के भाग्य में लिखा हुआ था । इसलिए वह अत्यधिक मद से उन्मत्त हो, किसी भी प्रकार की नीति का ख्याल किये बिना कहने लगा—“हे विभीषण सुनो । राक्षसों की शक्ति तथा प्रताप का विचार करके देखो, तो यह निश्चय है कि हम में से अल्पशक्तिमान् भी राम तथा लक्ष्मण को जीत सकता है । तीनों लोको पर बड़े वैभव से राज्य करनेवाले इन्द्र को क्या मैंने पकड़कर बंदी नहीं बनाया ? उसके ऐरावत को पकड़कर उसके दाँत मैंने नहीं तोड़े ? ये सब मेरे लिए कौन बड़ी बात थी ? मैंने अग्नि को अपमानित किया, यम को दबा दिया, नैऋत की शक्ति को नष्ट किया तथा वरुण को परास्त किया । दिक्पालो को इस प्रकार निष्चुर होकर त्रास देनेवाले मेरे प्रबल हाथों से क्या, ये मानव नष्ट नहीं होंगे ? तुम तो बहुत बड़ा-चढ़ाकर उनकी महिमा का राग अलाप रहे हो । हे विभीषण, सप्त समुद्रों में प्रविष्ट होकर मैं उन्हें आलोडित करूँगा; मेरु तथा मदर पर्वतों को नचा दूँगा, समस्त पृथ्वी को लाँघ जाऊँगा, इस पृथ्वी को ऐसे उछालूँगा कि वह जाकर आकाश से टकरा जायगी, मैं समस्त लोकों को झुका दूँगा, सारे वनचर समूह को इस प्रकार समुद्र में डुबो दूँगा कि वे थर-थर काँप उठेंगे, पृथ्वी का भार वहन करनेवाले उस शेष नाग को पकड़कर, उसका विष निचोड़ दूँगा । अपने भुज-बल में सूर्य तथा चंद्र को पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर रगड़ दूँगा । वनचर-समूह को पकड़कर उन्हें सूर्य तथा दिशाओं के उस पार फेंक दूँगा, युद्ध में वानरों का रक्त भूतों को पिलाऊँगा, अपने शर-समूह से आकाश, दिशाएँ तथा पृथ्वी को ढक दूँगा । सूर्य के रथ का जुआ पकड़कर आकाश में घुमाऊँगा और उसे पृथ्वी में दबा दूँगा । अपने दायें और बायें हाथों में पृथ्वी तथा आकाश को ग्रहण कर उनको ऐसा मसल दूँगा कि वे चूर-चूर हो जायँ । हे विभीषण, तुम दनुजेश्वर के भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहे बिना क्षमा करता हूँ । यदि दूसरा कोई होता, तो मैं कदापि ऐसी बातें नहीं सहता । ऐसी व्यर्थ की बातें क्यों करते हो ?”

१२. विभीषण द्वारा इन्द्रजीत के दंभ की निंदा

इन दर्पपूर्ण वचनों को सुनकर विभीषण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इन्द्रजीत को देखकर इस प्रकार कहने लगा—“तुमने सूर्यवशज राम को क्या समझ रखा है कि ऐसे मात्सर्य-युक्त अनुचित वचन कह रहे हो ? तुम्हारे हाथोंसे पराजित होने के लिए वे इन्द्र नहीं हैं, वे तो युद्ध में भयकर बननेवाले राम हैं । तुम्हारे द्वारा परास्त होने के लिए वे अग्नि-देव नहीं हैं, वे तो रणनीति-कुशल राम हैं । तुमसे हार जाने के लिए वे यम नहीं हैं, वे तो रण में प्रचण्ड रूप धारण करनेवाले राम हैं । तुमसे परास्त होने के लिए, वे नैऋत नहीं हैं, वे तो युद्ध में भयोत्पादक रूप धारण करनेवाले राम हैं । तुम्हारे द्वारा विजित होने के लिए वे वरुण नहीं हैं; वे तो रण में अत्यधिक सावधान रहनेवाले राम हैं । वे तुमसे हार जानेवाला पवन नहीं हैं; वे युद्ध-निपुण राम हैं । तुमसे परास्त होने वाले कुबेर नहीं हैं,

वे तो युद्ध में वज्रसम शत्रुओं का नाश करनेवाले राम हैं । तुम्हारे हाथों से पराजित होने के लिए वे पशुपति नहीं हैं, वे तो रण में अवश्य विजय प्राप्त करनेवाले रामचन्द्र हैं । युद्ध में उनका सामना करना इतना महज मत समझो, जितना दिक्पालो का सामना करना है । मदाघ होकर अमभव कार्यों को साधने का विचार करोगे, तो मुँह की झाँकर गिरोगे । तुम पुत्र नहीं हो, कुलनाशक हो । तुम ही रावण के शत्रु हो । रामचन्द्र के अग्निसम बाणों के प्रहार के सामने क्या रावण टिक सकता है ? उचित यही है कि रावण मणियों, गज-मणियों तथा अश्व-मणियों साथ उस मानिनी-मणि (सीता) को रामचन्द्र के पास पहुँचा दे ।

१३. रावण का विभीषण को नगर से निर्वासित करना

तब रावण ने विभीषण को रोषपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा—‘शत्रु के साथ भी सतत (युद्ध करते हुए) रह सकने है, विष उगलनेवाले सर्प के साथ भी निर्भय होकर रह सकते हैं, किन्तु शत्रु से मिले हुए पर अपना बनकर रहनेवाले लोगों के साथ जीवन विताना कठिन है । तुम ऐसे ही व्यक्ति हो । इमीलिए मेरे सामने तुम बड़े गर्व से शत्रु की प्रणसा करने रहते हो । तुम मेरे अनुज हो, इसलिए अवध्य हो ? (क्रोध से) क्या, तुम सचमुच मेरे अनुज हो ? तुम तो मेरे जाति (गोतिया) हो ।’

कुभकर्ण ने देखा कि ब्रह्मा का शाप प्रबल है, (अर्थात्, रावण का अत निश्चित है), न तो वह अपने अनुज की बातों को अनुचित कह सका, न अपने अग्रज को अनुचित कहने से रोक ही सका । इसलिए वह बड़े आदर के साथ अपने अग्रज को प्रणाम करके सोने के लिए अपनी गुफा में चला गया । उसके चले जाने के पश्चात् विभीषण ने रावण को देखकर कहा—‘हे भाई, तुम मेरे अग्रज हो, इसलिए तुम पर आनेवाली विपत्ति की कल्पना से भयभीत होकर मैंने तुमको उचित परामर्श दिया है । हे असुरेन्द्र, आप्त बधुओं के हित-वचन तुमको बुरे लगते हैं । ऐसे मन्त्री बहुत कम होंगे, जो अच्छा परामर्श देते हैं और ऐसे राजा भी बहुत कम होंगे, जो उन वचनों को सुनने हैं । मेरा धर्म है कि मैं आपके हित का विचार करके उचित परामर्श दूँ और आपका धर्म है कि आप उसे स्वीकार करें । सीता को लौटा देना तुम्हारे लिए नीतिमगत होगा । यदि ईश्वर स्वयं प्रतिकूल हो, तो शक्ति तथा पराक्रम आदि किस काम आयेंगे ? दशरथ के पुत्र स्वयं ईश्वर हैं, भला उनके अतिरिक्त और कोई ईश्वर भी है ?’

विभीषण के इन वचनों को सुनकर रावण की भौंहें तन गईं, मुख विकृत हो उठा, क्रोध के कारण आँखों से अग्नि निकलने लगी और होठ फड़कने लगे । उसने गरजकर कहा—‘तुम मेरे सम्मुख राम को ईश्वर कहते हो ? एक साधारण मानव कहीं ईश्वर हो सकता है ? अविवेकी पिता के द्वारा राज ने निर्वासित होकर, वनो में भटकते हुए कद-मूल तथा पत्तों पर जीवन व्यतीत करनेवाले को कहीं ईश्वर कहते हैं । यदि वह ईश्वर होता, तो जब मैं उसकी पत्नी को चुराकर लाया, तभी वह मुझ पर आक्रमण करता । इसके विपरीत, वह अपने भाई के साथ जगलो में रौते-कलपते फिरता रहा और भटककर सुग्रीव नामक एक वानर के आश्रम में रह रहा है । क्या, यह सब ईश्वर के ढग है ? एक कायर मानव को मेरे समान कहकर, क्यों बार-बार मेरे सामने उसकी प्रशंसा करते हो ?’

तब विभीषण ने मन-ही-मन हँसते हुए रावण से कहा—“हे राक्षसाधीश, देवताओं की वृद्धि करने, ऋषियों की रक्षा करने, तथा असुरों को दड देकर पृथ्वी का पालन करने के लिए आदिनारायण ने सूर्यवश में दशरथ का पुत्र होकर जन्म लिया है। उस महा महिमा-सपन्न आदि देव की महिमा का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। सनकादि मुनि भी उसका बखान नहीं कर सकते। भला, तुम उनकी महिमा कैसे जान सकोगे। राम साधारण मानव नहीं है। इसलिए यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो राम के दर्शन करके कमलमुखी सीता को उन्हें सौंप दो। विचार करके देखो, अर्थ तथा काम मात्र की प्राप्ति से धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। तुम तो कभी नीतिमार्ग का अनुसरण करना नहीं चाहते। तुमसे भी अधिक तुम्हारे मित्र तथा अनुयायी उसे नहीं चाहते। हे दानवेन्द्र, कार्य तथा अकार्य का विवेक नहीं रखनेवाले तुम्हारे लिए धर्म का क्या मूल्य हो सकता है? वानर अवश्य समुद्र पार करके यहाँ आयेंगे। हाथ जोड़कर (दया की भिक्षा माँगने-वाली) राक्षस-स्त्रियो के केश पकड़कर उन्हें धसीटेंगे। ऐसा करने के पहले ही तुम सीता को रामचन्द्र के पास पहुँचा दो। यही मेरा तुम से अनुरोध है। मैं तुम्हें राज करने हुए देखना चाहता हूँ, अग्नि-ज्वालाओ के सदृश राघव के असख्य शरो को उद्वण्डता से तुम्हारे वक्ष पर लगते हुए मैं देखना नहीं चाहता। प्रलय-काल की अग्नि किस प्रकार कुलपर्वतों के शिखरों को गिरा देती है, वैसे ही राम युद्ध में तुम्हारे सिर गिराने लगेंगे। उस दृश्य को मैं कैसे देख सकूँगा ?”

विभीषण की इन बातों को सुनते ही रावण के दसो मुख क्रोध से लाल हो गये, कनपटी की शिराएँ फूल गईं और प्रचंड गति से निश्वास चलने लगा, मानो धूम से युक्त अनल ही हो। अपने पदाघात से पृथ्वी को चूर-चूर करते हुए, तथा गर्जन से आकाश को कँपाते हुए, अपने क्रोध का पूर्ण स्वरूप प्रकट करते हुए तुरत वह सिंहासन से उतरकर विभीषण की ओर लपका और उस पर प्रहार करने के लिए अपना खड्ग उठाया। फिर, अपने-आप को रोककर उसने विभीषण पर पदाघात किया। तब वज्रपात से गिरनेवाले पर्वत के उन्नत शिखर के समान विभीषण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरे हुए विभीषण पर जब रावण खड्ग का प्रहार करने का उपक्रम करने लगा, तब प्रहस्त ने उसे रोका। सभा के सभी लोग कहने लगे—‘हाय, यह कैसा अनर्थ है ?’

रावण की आँखों से क्रोध की ज्वालाएँ निकल रही थी। उसने प्रहस्त को देखकर कहा—‘हे प्रहस्त, तुमने इसके दुर्वचन सुने ? इसे अनुज मानकर इस पर कौन विश्वास कर सकता है। इसको तुरत बाहर निकालो। सौजन्य के कारण विलंब करो, तो मेरी सौगंध है।’ तब प्रहस्त ने क्रोध प्रकट करते हुए विभीषण को देखकर कहा—‘अब तुम यहाँ मत रहो। यहाँ से तुम अपनी इच्छा से कहीं भी जाकर रहो।’ तब विभीषण अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अनल, नल, हर, सपाति नामक अपने साथियों को साथ लेकर हाथ में गदा लिये हुए वहाँ से चल पड़ा और चलने समय उसने रावण को देखकर कहा—‘हे राक्षसेन्द्र, तुम कामातुर हो, समस्त पापों का भांडार हो और क्रूर कर्म करनेवाले हो। मैं पहले से से ही तुम से दूर रहना चाहता था। तुम्हारा यह आचरण मेरे लिए नया नहीं है।

मैं उस आर्त-रक्षक, कृपानिधि, दिव्य मूर्ति, जगद्विख्यात, सत्यनिष्ठ, नित्य यज्ञोनिधि और निर्मलात्मा रामचन्द्र भूपाल की शरण में जाऊँगा। वे सदा शरणागन की रक्षा करते हैं। मैं तो जा ही रहा हूँ। कम-से-कम भविष्य में तुम नीतिमंथन होकर अपना जीवन व्यतीत करना। ऐसा नहीं करोगे, तो जब सुग्रीव लका पर आक्रमण करेगा, तब तुम्हें मेरे हित-वचन का स्मरण होगा; या जब वानर लका को घेर लेंगे, तब तुम मेरी मंत्रणा का स्मरण करोगे, या रघुराम के भयकर बाण तुम्हारा नाश करने लगेंगे, तब तो अवश्य मेरी बातों को याद करोगे।'

१४. विभीषण का अपनी माता के भवन में जाना

ऐसा कहकर विभीषण ने अपने अग्रज को प्रणाम किया और बड़े वेग से अपनी माता के अंतपुर की ओर चला। वह ऋद्ध मिह के आक्रमण से आहत होकर, उससे बचकर जानेवाले मत्त हाथी के समान तथा भयकर रव के साथ गिरनेवाले वज्रपात से खडित पर्वत के समान दीखते हुए अपनी माता के घर में पहुँचा। वह अंतपुर विश्वकर्मा से निर्मित था और कैलास पर्वत के सदृश शोभायमान था। अंतपुर में पहुँचकर विभीषण ने अपनी माता को प्रणाम किया, जो अत्यंत निर्मल प्रभा से दीप्तिमान् थी; पर रावण की दुष्टता का स्मरण करके अत्यधिक दुःखित हो रही थी। वह स्वर्ण तथा मोटे वस्त्र धारण किये हुए थी। उसकी भौहें तथा केश, चद्रिका में धूलकर, आकाश-गंगा के भाग का रोगन चढाये हुए के समान अत्यधिक धवल दिखाई पड़ते थे और दर्शकों में आदर का भाव उत्पन्न करने थे। सहारा लेकर चलने के लिए उनके हाथ में एक डंडा था। असंख्य वृद्ध ब्राह्मण, उनके समीप उनकी सेवा में लगे हुए थे। करुणा-रूपी जल-प्रवाह सरस वाग्विलास-रूपी लहरें, शम तथा दम-रूपी दोनों तट, धवल केश-रूपी भाग, निकटवर्ती ब्राह्मणों के वेदोच्चारण की ध्वनि-रूपी जल-घोष असंख्य श्रेष्ठ ब्राह्मण-रूपी पक्षियों के साथ विलसित होनीं हुई वह वृद्धा जाह्नवी के समान दीख रही थी। उसके निकट (बैठे हुए) कितने ही ब्रह्मराक्षस वेद-पुगण तथा शास्त्र आदि पढकर उसे सुना रहे थे।

अपनी वृद्धा माता को प्रणाम करके विभीषण आँखों में आँसू भरकर खड़ा रहा। उसे इस प्रकार दुःखी देखकर माता कैकयी सन्नमित हुई और बड़े स्नेह से उसे अपने क्रीड में भरकर बार-बार कहने लगी—'हे वत्स, तुम इस प्रकार दुःखी क्यों हो? क्या अंतपुर पर कोई ऐसी विपत्ति आई है, जिसका निवारण करना कठिन है? या किसी ब्राह्मण का वध हो चुका है? या ब्रह्मा ने क्रोध किया है? या शिव रुष्ट हो गये हैं? या विष्णु क्रुद्ध हो गये हैं? या रामचन्द्रजी लका पर चढ आये हैं? शीघ्र बताओ कि तुम्हारे दुःख का क्या कारण है; अन्यथा मेरे प्राण मेरे शरीर में नहीं रह सकेंगे।'

तब विभीषण ने हाथ जोडकर कहा—'हे माता, सुनिए। आज आपका ज्येष्ठ पुत्र, रविकुलाधीश राम के समुद्र-तट पर पहुँचने के संबन्ध में अपने मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे। तब मैंने उनसे माग्रह निवेदन किया कि किसी भी प्रकार से सोचा जाय, उत्तम यही है कि सीता को गम की सेवा में पहुँचा दिया जाय। यदि हम ऐसा न करें, तो अवश्य ही राघव समुद्र पार करके आर्येण और हमारे कुल का नाश करेंगे। इस पर रावण अनि

समान जल उठे और मुझ पर ऐसा पदाघात किया कि आसन के साथ मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने से सतुष्ट न होकर उन्होंने मुझपर खड्ग चलाना भी चाहा। किन्तु, मैं किसी तरह वहाँ से बचकर बहाँ आ गया हूँ। अब मैं उसी राम भूपाल की शरण में जाऊँगा और उनकी कृपा प्राप्त करके बही रहूँगा। अब यहाँ पर मेरे आगत बधु और कौन है कि मैं यहाँ रहूँ।'

इन बातों को सुनकर कौकसी भय से मूर्च्छित हो गई और थोड़ी देर के बाद सँभलकर अपने पुत्र से कहने लगी—“हे वत्स, मैं पूर्व से ही यह बात जानती हूँ। जिस समय देवता, देवेन्द्र तथा ब्रह्मा ने अमृत सागर के निकट पहुँचकर भगवान् विष्णु को अपनी विपत्तियों का वृत्तात सुनाया, तब उन्होंने कहा ‘बड़ी निर्दयता से तुम्हें त्रास देनेवाले क्रूर रावण तथा कुभकर्ण का वध करने के लिए मैं सूर्यवश में जन्म लूँगा।’ तुम्हारे पिता ने यह वृत्तात मुझे विस्तार से सुनाया था। तब मैंने भयभीत होकर अपने पति से पूछा—‘हे देव, आपके पुत्रों में कौन ऐसा पुण्यवान् है, जो आपके वश का उद्धार करेगा?’ तब उन्होंने कहा—‘सत्य, धर्म, तथा पवित्रता से सपन्न, नित्य यशस्वी तुम्हारा कनिष्ठ पुत्र ही राम की कृपा प्राप्त करके इस लका का पालन करेगा।’ इस प्रकार, कहकर तुम्हारे पिता तपस्या करने के निमित्त मेरे पर्वत पर चले गये। हे पुत्र, सूर्यवशतिलक राम ही विष्णु हैं; मानिनी सीता ही महालक्ष्मी हैं। क्या, तुम्हारे पिता विश्ववसु की बात मिथ्या हो सकती है? तुम अवश्य राम की शरण में रहने हुए सुखी रहो और राक्षस-कुल को बचाने का प्रयत्न करो।”

इतना कहकर उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे मन्त्राक्षत देकर विदा किया। विभीषण ने भी अपनी माता को बार-बार प्रणाम किया, और मन-ही-मन प्रसन्न होते हुए, अपने मन्त्रियों के साथ आकाश की ओर इस प्रकार उड़ा, मानो यह बता रहा हो कि रावण के पच-प्राण उसका शरीर छोड़कर इसी प्रकार उड़ जायेंगे। उस गुणनिधि विभीषण को देखकर लका के लोग अपने-अपने आँगनों में तथा गलियों में एकत्र होकर आपस में कहने लगे—‘रावण ने धर्म का त्याग करके, भाई के प्रेम को भी टुकराकर, विभीषण को निर्वासित किया है। नीति-रीति तथा कुशलता को उसने तिलाजलि दे दी है। रावण का नाश तो होगा ही, अब लका की क्या दशा होगी?’ कुछ लोग मन-ही-मन सोचने लगे कि विभीषण ही अब लका का राजा होगा। कुछ अन्य यह सोचने लगे, क्या विभीषण के राम से मिल जाने मात्र से रावण का नाश हो सकेगा? ऐसे भी लोग थे, जो सोच रहे थे कि भले ही यह (विभीषण) राम के पास जाय, क्या राम इमका विश्वास करेंगे?

१५. विभीषण की शरणागति

विभीषण अपने मन्त्रियों के साथ बड़े हर्ष से, आकाश-मार्ग से, रामचन्द्र के निकट आ रहा था। तब सभी वानरो ने अत्यंत आश्चर्य से उसकी ओर अपने सिर ऐसे उठाये मानों वे देवताओं को यह बता रहे हो कि हे देवताओ, रामचन्द्र (रावण पर) आक्रमण करने जा रहे हैं; परन्तु रावण अब अपने सिर नहीं उठा सकेगा, उसका कुल नष्ट होगा।

तुम लोग भय को त्यागकर अपने सिर उठाओ । तब सुग्रीव ने उन्हें देखकर कहा—हे वानरो, वह देखो, कोई अखंड विक्रमी पर्वनाकार, दीर्घकाय, शस्त्रो से सुसज्जित होकर इसी ओर आ रहा है । देखो, वह कौन है ? तब मभी वानर बड़े-बड़े वृक्षो तथा पर्वतो को हाथ में उठाकर कहने लगे—‘हे सुग्रीव, हे देव, हमें उससे युद्ध करने के लिए भेजिए, हम युद्ध में उस दैत्य का सहार करेंगे ।’

उनकी बातें सुनकर विभीषण ने कहा—‘हे वानरो, मैं तुम्हारे पक्ष का ही व्यक्ति हूँ । इस प्रकार उतावले मत बनो । मैं रावण का भाई हूँ, किन्तु मैं उत्तम राक्षस तथा निष्कलक मन का हूँ । श्रीगम की शरण पाने के निमित्त मैं लका में यहाँ उनकी सेवा में आया हूँ । मैंने रावण को विविध रीति में समझाया कि तुम भीताजी को राम की सेवा में पहुँचा दो, किन्तु रावण ने मेरी बातों से क्रुद्ध होकर भरी मभा में मुझ पर पद-प्रहार किया । उससे सन्तुष्ट न होकर उसने निर्दय होकर मुझमें कहा कि यदि तुम मेरे राज्य में रहोगे, तो मैं तुम्हारा वध कर दूँगा, इसलिए मैं रामचन्द्र को दर्शनार्थ आया हूँ । मैं कपटी नहीं हूँ । मेरे मन में कोई पाप नहीं है । मैं भयभीत होकर आया हूँ । अतः तुम लोग मुझे राम भूपाल की शरण दिला दो ।’

तब सुग्रीव राम के दर्शनार्थ गया और बड़े विनय में उनमें निवेदन किया—‘हे देव, रावण से क्रुद्ध होकर, उसमें वैर ठानकर एक राक्षस आया है । अपने बधुओं के साथ वह आकाश-मार्ग में ठहरा हुआ है और अपना मन आप पर लगाये हुए है । कहता है कि मैं रावण का भाई हूँ । वह मिष्टभाषी है और प्रार्थना कर रहा है कि, हे सूर्यवशतिलक, मुझे अभयदान दीजिए । न जाने आप की कृपा किम ओर है । मेरा विचार है कि इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए । हे राजन्, राक्षसों के समान कपटों का भांडार और कौन हो सकता है ? भला, दनुजेश्वर रावण का भाई यहाँ किसलिए आयगा ? अवश्य ही इस नीच का वध कर देना चाहिए ।’

१६. हनुमान् का विभीषण की योग्यता राम को समझाना

इतने में हनुमान् ने बड़ी नम्रता से प्रभु राम से कहा—‘हे देव, इस राक्षस ने सारी बातें प्रकट रूप से कह दी कि किस प्रकार रावण ने प्रचंड क्रोध से उस पर भरी मभा में पद-प्रहार किया । यह कथन सत्य प्रतीत होता है । हमारे लिए उचित बात कहना, और जिसने उसे देश से निर्वासित किया, उसे त्याग कर चले जाना, यह सत्य हो सकता है । इस में कपट नहीं दीखता । कपटी आदमी कितना भी बहाना करे, उसका कपट प्रकट हो जाता है । इसकी बातों में कोई भी वनावटीपन नहीं दीखता । न कोई बुराई ही दीखती है । हे राजन्, यह राक्षसों के भेदों को जानता होगा । उसका हमारे पक्ष में रहना ही उचित है । उस दिन जब रावण मुझे बाँधकर कई प्रकार के दुःख देने लगा था, तब उसने मेरे पक्ष में बहुत-सी बातें रावण को समझाई थी । इसलिए मैं इसके मन की दशा का थोड़ा-सा परिचय रखता हूँ ।’

हनुमान् की बातें रामचन्द्र के मन को प्रिय लगी । उन्होंने सुग्रीव को देखकर कहा—‘हे सूर्यपुत्र, हमें इस बात पर तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता ही क्या है कि यह

रक्षस भला है या बुरा । क्षत्रिय का धर्म यही है कि चाहे शत्रु ही क्यों न हो, यदि वह शरणार्थी होकर आये, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए । बाज के द्वारा पीछा किये जाने पर एक कपोल ने व्याकुल होकर राजा शिवि की शरण ली थी और शिवि ने अपना शरीर भी त्यागकर कबूतर की रक्षा की थी । जो व्यक्ति आर्त व्यक्ति को शरण देता है, वह अश्वमेध यज्ञ करने में प्राप्त होनेवाले पुण्य का भागी बनता है । हे सुग्रीव, विभीषण ही क्यों, यदि रावण ही स्वयं अपना गर्व तजकर मेरी शरण में आये, तो मैं उसकी भी रक्षा करूँगा । यही हमारे वश की रीति है । हे भानुपुत्र, मैं उस विभीषण को शरण दूँगा । तुम तुरंत जाकर उस भय-विह्वल विभीषण को ले आओ ।'

राम की कृपा-बुद्धि का विचार करके, सुग्रीव आँखें मुकुलित करके तथा सिर कँपाकर कहने लगा—'हे प्रभु, अपने परम शत्रु के अनुज के शरण माँगने ही, उमे अभयदान देकर उसकी रक्षा के लिए तत्पर होना इस मसाल में आपके सिवा अन्य किस राजा के वश की बात है !' इतना कहकर सुग्रीव अपनी सेना के साथ आकाश-पथ की ओर उडा और विभीषण को देखकर बोला—'हे विभीषण, श्रीराम ने तुम्हें अभयदान दिया है । यह सत्य-वचन है । अब तुम उनके पास चलो ।' यो कहकर उसने राक्षसराज विभीषण को अपने हृदय से लगा लिया और बड़े हर्ष में उसे राम के समक्ष ले आया ।

१७ विभीषण की स्तुति

विभीषण ने रामचंद्र को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा—
 "हे नित्य सत्यरक्षक, हे नित्य कल्याण-रूप, हे नित्य जगद्रक्षक, हे नित्य देव, हे जगत्कारक, हे जगत् के आदिवीर, हे सृष्टिकर्ता, हे सर्वमगातीत, हे सर्वानुभूत, हे सर्वजगत् में पवित्र, हे जगद्विधाता, हे गुरु-लघु रूप, हे गुरुज्ञान-रूप, हे मधुरभाषी, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, हे पद्म-सम-नेत्रवाले, पद्माकलित शरीरवाले, हे ममस्त जीवाधार, परम पवित्र-स्वरूप, कविजनो के लिए वेद्य, करुणासिधु, विविध शास्त्रो के आधार, वेदातवेदी, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही मोक्ष हो, तुम ही परमविद्या हो, तुम ही संसार के कर्ता हो, तुम ही ससार हो, और तुम ही ससार के हर्ता हो । तुम ही यज्ञ-भोक्ता हो, यज्ञ भी तुम ही हो, और यज्ञ-फल के प्रदाता तुम ही हो, तुम ही सूर्य-चन्द्र हो, तुम ही जलधि हो, तुम ही इद्र आदि देवता हो और पृथ्वी भी तुम ही हो । तुम ही त्रिमूर्ति हो और त्रिमूर्तियों के परे जो रूप है, वह भी तुम ही हो । क्षर तथा अक्षर तुम ही हो, क्षर तथा अक्षर के ज्ञाता भी तुम ही हो । हे शतकोटि सूर्यसम तेजस्वी, तुम्हारी जय हो ! हे ससार-सर्प-सुपर्ण (ससार-रूपी साँप के लिए गरुड पक्षी के समान दीखनेवाले) तुम्हारी जय हो ! हे ललित आगमो में प्रशसित, हे लक्ष्मीपति, हे दयासमुद्र, हे विबुध-शत्रुनाशक, श्रेष्ठ मुनिवद्य, आद्यतरहित, हे शत्रुनाशक, हे दशरथ-राम, दिनकर-शशि-नेत्रवाले, दिव्य चरित्रवान्, अनुपम शुभ गात्रवाले, अखिलाधार, सहस्र-मुख आदिशेष भी क्या, तुम्हारी महिमा का वर्णन कर सकेगा ? क्या पद्मसंभव ब्रह्मा भी तुम्हारी महिमा की स्तुति करने में समर्थ है ? फिर मेरी क्या शक्ति है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँ ? तुम्हारी महिमा को जानने की शक्ति मुझमें कहाँ है ? तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता ही मुझमें कहाँ है । मैं दानव हूँ, चंचल चित्तवाला हूँ । हे राजन्,

तुम आदि पुरुषोत्तम हो। हे प्रभु, मैं शरणागत हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। उम परम दुष्ट दैत्यनाथ का सहार करो। तुम्हें अखिल-लोक-शरण्य जानकर, तुम्हारे आश्रय में सुख से रहने की अभिलाषा से मैं आया हूँ।”

तब राम ने उस पर अपनी कृपा-वृष्टि करते हुए उससे कहा—“हे विभीषण, तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। तुम देव-वैरी रावण के भाई नहीं हो, बल्कि मेरे भाई हो। व्याकुल मत होओ। लक्ष्मण की अपेक्षा अधिक मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। इस प्रकार, आश्वसनापूर्ण वचनों से राम ने विभीषण का भय दूर किया। इसके पश्चात् राम विभीषण के स्कंध पर हाथ टेककर समुद्र के तट पर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने विभीषण से कहा—“हे विभीषण, तुम हमें सच-सच बतलाओ कि रावण की तथा उसकी मेना की शक्ति कितनी है ?”

१८ त्रिकूट पर्वत की उत्पत्ति की कथा

तब विभीषण ने रामचन्द्र को प्रणाम करके इस प्रकार निवेदन किया—“हे कमलदल-लोचन, पूर्वकाल में एक बार नारद ने वायु के समक्ष नागराज की शक्ति की प्रशंसा की और नागराज के समक्ष वायुदेव की शक्ति की प्रशंसा की और इस प्रकार उन दोनों में शत्रुता उत्पन्न कर दी। मातस्य से प्रेरित होकर वे दोनों अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की इच्छा करने लगे। वायु ने कहा—‘नागराज उज्ज्वल हेमाद्रि को घेरकर पड़ा रहे, तो भी मैं उसे उड़ा दूँगा।’ तब आदिशेष अपनी सारी शक्ति लगाकर उस पर्वत को घेरकर, अनुपम रीति से, अपने सहस्र फणों से उस पर्वत के सहस्र शिखरों को दृढ़ता के साथ पकड़कर पड़ा रहा। तब पवन अपने सप्त प्राणों को उद्विक्त करके प्रचंड गति से चलने लगा। पवन के प्रकोप से सभी पर्वत खंड-खंड होकर गिर पड़े; समस्त भुवन कपित होने लगे; सभी समुद्र आलौकित हो गये, सभी भूत आश्रय करने लगे। उम पवन ने सूर्य के रथ को भी विचलित कर दिया और समस्त दिशाओं को चूर-चूर कर दिया। लोक में व्याप्त इस सकट को देखकर सब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप इस महा विपत्ति से ससार की रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा आदि देवता हेमाद्रि के पास आये और पवन से अनुरोध किया कि वह अपनी शक्ति का उपसहार करे। किन्तु जब पवन ने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने नागराज को समझाया कि हे नागेन्द्र, तुमको तो अवश्य ही इस कार्य से विरत हो जाना चाहिए। तुम दोनों की इस स्पर्धा के कारण सूर्य डिग गया है, पृथ्वी घँस गई है, समुद्र ने मर्यादा छोड़ दी है। हमारा अनुरोध मानकर तुम पवन की विजय स्वीकार कर लो और हमारी रक्षा करने की कृपा करो।

देवताओं की प्रार्थना मान करके नागराज शान्त हुआ और पवन को विजय दिलाने के निमित्त अपना एक फण ऊपर उठाया। पवन और अधिक वेग से बहने लगा, तो उस हेमाद्रि का एक-एक शिखर टूटकर बड़े वेग से बहुत दूर तक उड़ गया और समुद्र के मध्य आ गिरा। हे राघव, वही त्रिकूट पर्वत के नाम से विख्यात है।”

१९. विभीषण का राम को रावण के वैभव का परिचय देना

“हे देव, उस द्वीप (त्रिकूट पर्वत) पर देवेन्द्र की आज्ञा से देवलोक के शिल्पी न लकापुर नामक एक नगर का निर्माण किया। उस नगर के सात दुर्ग हैं और प्रत्येक दुर्ग

के चार द्वार हैं । बाहर का दुर्ग कई कगूरो से युक्त है और ईंटों का बना हुआ है । अस्सी करोड़ सैनिक उसके पश्चिमी द्वार की रक्षा करते रहते हैं । सात सौ सतहत्तर करोड़ सैनिक उत्तर द्वार की रक्षा करते हैं । पूर्व के द्वार पर सतन एक सौ करोड़ मदमत्त सैनिक दुर्ग-रक्षण में तत्पर रहते हैं । दक्षिण द्वार पर साठ करोड़ बलवान् सैनिक रहते हैं । उस दुर्ग के भीतर के छोटे दुर्गों के कुल चौबीस द्वार हैं, जिनकी रक्षा भी उतनी ही सख्या के राक्षस-सैनिक करते रहते हैं । प्रत्येक गुप्त द्वार के पास एक-एक करोड़ शक्तिशाली राक्षस रहते हैं । नगर के मध्य में नगर की रक्षा में बीस लाख सात सौ करोड़ राक्षस तत्पर रहते हैं । कुभकर्ण की शयन-गुफा की रक्षा सात करोड़ राक्षस करते रहते हैं । रावण के महल के आगन की रक्षा करने में एक लाख करोड़ राक्षस लगे रहते हैं । उसके द्वार पर बीस करोड़ राक्षस रहते हैं । इन्द्रजीत के भवन के द्वार पर दस सहस्र करोड़ राक्षसवीर रहते हैं । विशालकाय श्रेष्ठ राक्षसवीरो के गृहों के पास दस सहस्र करोड़ सैनिक रहते हैं । हे सूर्यकुलाधीश, उस सेना की गिनती असंभव है, वह बहुत ही विशाल है । स्वयं रावण की शक्ति का वर्णन करना भी कहाँ संभव है ? उसने ईर्ष्या से कैलास पर्वत को उठाया था, ब्रह्मा ने उसे ऐसा वरदान दिया कि वह दनुज, गधर्व, अमर, तथा यक्षों से युद्ध में नहीं मरेगा । युद्ध में ही क्यों, किसी भी प्रकार से वे उम राक्षसराज को मार नहीं सकेंगे । हे राजन्, यदि वह युद्ध में मरेगा भी, तो केवल आपके हाथों, अन्य किसी के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती । कुभकर्ण तो युद्ध में इन्द्र को एक तृणवत् भी नहीं मानता । शक्ति-मद से भरा इन्द्रजीत भय का नाम भी नहीं जानता । उसने शिवजी की तपस्या करके उनकी कृपा से वज्र-कवच प्राप्त किया है । माया-रूप धारण करके वह आकाश में रहते हुए अपने शत्रुओं को जीत लेता है । रावण का सेनापति प्रहस्त बड़ा ही चतुर तथा शक्तिशाली है । उसने (शिव के मित्र) कुबेर के सामंत मणिभद्र को युद्ध में जीत लिया था । महादेव, महापार्वती तथा अतिकाय नामक राक्षस प्रचण्ड थोड़ा है । ये तीनों वीर दिक्पालों की भी परवाह नहीं करते, और युद्ध में आने पर उन्हें सहज ही जीत लेते हैं । दनुजेन्द्र रावण के एक लाख पुत्र हैं, जो महावली तथा देवों के शत्रु हैं । उसके सगे सबधियों की गिनती करना ब्रह्मा के लिए भी दुष्कर है । जब कुबेर आदि उसके सामंत हैं, तब उसके वैभव का वर्णन करना कैसे संभव है ? इनके अतिरिक्त रावण के पास दस सहस्र करोड़ ऐसे श्रेष्ठ राक्षसवीर हैं, जो सदा शत्रु-रक्त को पीकर तृप्त तथा रण-मद से भरे रहते हैं । उन्हीं के बल की सहायता से रावण ने समस्त दिशाओं को जीत लिया है ।”

विभीषण की बातें सुनकर राघव ने कहा—‘हे विभीषण, मैंने इसके पूर्व ही तुम्हारे भाई के सबध में सुन रखा है । निश्चय ही वह महान् शूर है । उसकी शक्ति भी वैसी ही है । किंतु चाहे वह कैसा ही शूर क्यों नहीं हो, उसमें इतनी शक्ति कहाँ कि वह मेरे समक्ष अपना प्रताप दिखावे । हे दानवराज, चाहे हरि, हर, ब्रह्मादि देवता भी मेरी गति रोके, तो भी मैं मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा, और तुम्हें लका के सिंहासन पर बिठाऊँगा ।’ तब विभीषण ने बड़े विनय से राम को प्रणाम किया और कहा—‘हे राम, देव, जब आपके बाणों की अग्नि-ज्वाला प्रचण्ड गति से निकलेगी, तब रावण में तथा उस लंका

के साथ कैलास पर्वत को उठानेवाले रावण क्या, कोई साधारण व्यक्ति है ? हे वानरेन्द्र, क्या देवेन्द्र आदि समस्त देवताओं को रावण ने नहीं जीता ? क्या उन्होंने हवन-कुंड में अपने शिर की आहुति देकर ब्रह्मा को प्रसन्न करके त्रिलोक-विजय का वरदान नहीं प्राप्त किया है ? एक शक्ति-हीन मानव (राम) से तुम्हारी मित्रता क्यों हुई ? तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम दानवेश्वर से मित्रता करो ।'

उसकी बातें सुनकर सभी वानर बड़े क्रुद्ध हुए । वे आकाश की ओर उड़े, बलात् उसे पकड़ा और अपनी मुष्टि के आघातों से उसको चूर चूर-कर दिया । फिर उसके पक्षों को तोड़कर, उसके नाक-कान काट लिये । तब राघव ने कहा—'दूत को इतना त्रास क्यों देते हो ? अब इसे दुःख न देकर, जाने दो ।' रघुराम की आज्ञा से प्रभावित होकर वानरों ने उसे छोड़ दिया । उसने आकाश में उड़कर सूर्य-पुत्र से कहा—'हे कपिराज, तुम रावण को क्या सदेश देने हो ?' तब मुग्ध ने क्रोध से कहा—'तुम जाकर उससे कहो कि उसने रघुराम के साथ दुर्व्यवहार किया है । ऐसे नीच को मैं सहन नहीं कर सकता । वह चाहे किसी भी लोक में छिपकर अपने प्राण बचाने की चेष्टा करे, मैं अवश्य उसका वध करूँगा, उसे कदापि नहीं छोड़ूँगा । सोमयाजी राघव देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अवश्य समर-भूमि-रूपी यज्ञ-वेदी में सग्राम-रूपी महायज्ञ सपन्न करेंगे । उसमें श्रेष्ठ धनुष, यूप-काष्ठ होगा, चटुल अस्त्र परिस्तरण (हवन-कुंड के चारों ओर के कुश) होंगे, लाल धूलि (अग्नि की) प्रभा होगी, वानर-सेना स्त्रुक वा स्त्रुवा (यज्ञपात्र विशेष) होंगे; वीरों के अगो से बहनेवाला रक्त ही घृत होगा, धनुष का टकार मंत्रघोष होगा; असख्य राक्षस, यज्ञ-पशु होंगे, वानर-वीरों का सिंहनाद देवताओं को आमंत्रित करनेवाली ध्वनि होगी; युद्ध-बाधों का सतत निनाद ही साम-गान होगा, राम-लक्ष्मण का भयकर क्रोध तथा मेरा क्रोध त्रेताग्निओं का रूप धारण करेगा; रावण के प्राण ही आहुति होंगे; उस रावण का दर्प-दलन ही सोम-पान होगा और राक्षसवीर-रूपी पशुओं का मास ही समस्त भूत-समूह की संतुष्टि का साधन बनेगा । रावण से कहना कि ऐसे सग्राम-यज्ञ के सपन्न होने के पहले ही मीताजी को राम के पास पहुँचाकर प्राण बचा लेना उसके लिए शुभप्रद होगा ।' इन बातों को सुनकर शुक वहाँ से शीघ्र रावण के पास चला गया और उसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया ।

२२. राम का दर्भ-शयन

उस समुद्र के तट पर प्रभु राम अपनी दक्षिण भुजा को तकिया बनाकर, दर्भ-शय्या पर ऐसे लेटे हुए थे, जैसे आदिदेव अमृत-सागर में, शेष-शय्या पर आनंद से पूर्ण हो विमल-चित्त से लेटे हुए हो । उन्होंने निश्चय किया कि मैं समुद्र से प्रार्थना करूँगा कि वह मुझे समुद्र पार करके जाने के लिए मार्ग दे । इस प्रकार का निश्चय करके वे तीन दिन तक निर्जल उपवास करते हुए वही लेटे रहे और बड़ी निष्ठा के साथ अपने मन में वरुण देवता से प्रार्थना करने लगे—'हे समुद्र, तुम्हारे विद्याल तथा दुर्गम हृदय के पार जाने के लिए मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ । तुम्हारे लिए मैं मान्य हूँ । स्वर्ग-विरोधी रावण का सहार करने के निमित्त तुम मुझे मार्ग दो ।'

२३ राम का समुद्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना

इस प्रकार राम के प्रार्थना करने पर समुद्र, गर्व में फूलकर, उत्तुंग तरंग-रूपी अपनी वाहों को हिलाते हुए, अपने धवल फेन-रूपी हँसी को बिखेरते हुए, विशाल मीन-रूपी जिह्वा को फैलाते हुए, अपने गभीर घोष में अट्टहास करने हुए, अपने बेला-जल में दिशाओं को यह वृत्तान्त सुनाने हुए तथा अपने मध्य भाग के भँवरों में अपनी वक्रता दिखाने हुए, राम की बातों की उपेक्षा करने लगा। यह सन्ध ही तो है कि मूर्ख, दुर्जन, क्रूर-कर्मी, तथा कुल-नायक, कभी प्रार्थना करने से नहीं भुङ्कते। प्रार्थना सुनकर वे और भी भडक उठते हैं। प्रेम में उममे मिलने जाइए, तो वे मन को अशान्त बनानेवाली विष-वृष्टि करने लगते हैं।

समुद्र को अपनी प्रार्थना अस्वीकार करने हुए, देखकर राघव को विशाल नेत्रों से अग्नि-क्षण छिटकने लगे और उनकी भौहें तन गईं। वे अत्यन्त क्रोध से बार-बार समुद्र और फिर लक्ष्मण की ओर देखकर बोले—हे लक्ष्मण, इस समुद्र का गर्व तो देखो। मैं इससे किननी बार प्रार्थना करता हूँ। फिर भी, यह मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करना। स्वीकार कराये बिना मैं थोड़े ही इसे छोड़ दूँगा? क्या, इसका बड़बानल इनना नेजसी है कि मेरी बाणाग्नि उसे निस्तेज न बना सकनी। समुद्र भी देख ले कि मेरे बाणों में कितनी शक्ति है। मैं अपने बाणों की अग्नि-ज्वालाओं से मारे समुद्र के जल को इस प्रकार ढक दूँगा कि मानो वे उम समुद्र की ढड्डियाँ हों। उन बाणों के तीक्ष्ण ताप के कारण, बड़े-बड़े मकर, सर्प, मीन, गैडा, कच्छप, कर्कट, भेड़क, जल-मानुष आदि का समूह परस्पर एक दूसरे से टकराने हुए प्राण-रक्षा के लिए भाग खड़े होंगे और तिमिगिल, बलवान् जल-राक्षस, जल-ग्रह तथा पर्वत आदि का भी सर्वनाश हो जायगा। मैं उस समुद्र की ऐसी धूल उडाऊँगा कि समस्त जलचरो का संचलन बंद हो जायगा और सीप तथा घोघे बाहर निकल आयेंगे। मैं इसको लक्ष्मी का पिता, हरि का स्वशुर समझकर ही अबतक चुप रहा। हे सौमित्र, मैं इसके लिए समुद्र से प्रार्थना ही क्यों फरूँ? अपने-आपको मैं इसके सामने शक्तिहीन क्यों समझूँ? लाओ मेरे धनुष-बाण और देखो कि यह समुद्र मेरे बाणों से कैसे मूखता है। मैं अभी समुद्र में रहनेवाले प्राणियों को चूर-चूरकर देता हूँ।

इस प्रकार कहते हुए जब राघव ने धनुष हाथ में लिया, तब तुरत इन्द्र कंपित हुआ, आकाश थरथराने लगा, समुद्र आलीडित हुए, दिग्गज स्तम्भित हो रह गये, पृथ्वी धँस गई, पर्वत-शिखर टूटकर गिरने लगे, ब्रह्मा चकित रह गया, नक्षत्र गिरने लगे और दिशाएँ चकराने लगी। सूर्यवशतिलक राम ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, प्रलय के समय प्रयुक्त करनेवाले यम के काल-दण्ड के समान, उज्ज्वल तथा प्रलयकाल की अग्नि के समान दीप्त होनेवाले बाणों का अपने धनुष पर सन्धान किया और उन्हें समुद्र पर चलाया। तब समुद्र की लहरें पर्वतों का आकार धारण करके आकाश का ऐसे स्पर्श करने लगी, मानो समुद्र यह कहते हुए बाणों से बच रहा हो कि मैंने अत्यधिक घमड दिखाया, मुझ पर कृपा करो। उन उत्तुंग लहरों पर इनना अधिक फेन दिवाई पडने लगा,

मानो राम के शक्तिशाली बाणों के लग जाने से समुद्र के मुँह से भाग निकल रहा हो । सारा समुद्र इस प्रकार आलोडित होने लगा, मानो यह सोचकर वह व्याकुल हो रहा हो, कि अब मुझे शरण कहाँ मिलेगी ? चारों दिशाओं में धुआँ इस प्रकार छा गया, मानो मेघ-समूह समुद्र के जल का आस्वादन करने के निमित्त आने के पश्चात्, राम के शस्त्रों के प्रताप से भीत होकर तुरत लौटे जा रहे हो । जलचर इस प्रकार छटपटाने लगे, मानो वे दिखा रहे हो कि (भविष्य में) राक्षस इसी प्रकार छटपटायेंगे । सभी दैत्य पाताल छोड़कर चारों ओर ऐसे भागने लगे, मानो मनुकुल-वल्लभ राम के बाणों की अग्नि से सभ्रमित समुद्र के चित्त से अहंकार आदि भाव भागे जा रहे हो । उद्धत गति से प्रज्वलित होनेवाली बाणाग्नि के साथ मिलकर समुद्र का वडवानल भी समुद्र के ऊपर ऐसे जलने लगा, मानो वडवानल यह सोचकर कि मेरे रहते हुए भी जो समुद्र सूखा नहीं, उसे सोखने के लिए यह बाणाग्नि आ रही है, उसे बड़े प्रेम से आलिंगन कर रहा हो ।

तब लक्ष्मण यम के समान क्रोधाभिभूत अपने अग्रज को देखकर, भयभीत हो, समुद्र के किनारे आया और हाथ जोड़कर बोला—‘हे मानवेन्द्र, यह कोई रूद्र का रोष-रूपी समुद्र नहीं, जिसका मथन करना असंभव हो । यह कोई यम का क्रोध-रूपी समुद्र नहीं है, जिसको मथ देना दुष्कर हो । इस जल को सोखने के लिए ऐसा प्रयत्न क्यों ? आपके बाणों की अग्नि इस समुद्र को जला देने के पश्चात् बाहर निकलकर समस्त दिशाओं के साथ सभी लोको को जला दे, तो कोई आश्चर्य नहीं । अपना चरित्र समस्त जगत् में विख्यात करते हुए आप अपने क्रोध का उपसंहार कर लीजिए । आप के क्रोध के सामने यह समुद्र क्या शक्ति रखता है ? इसका नाश मत कीजिए; वह धनुष मेरे हाथ में दीजिए, यो कहते हुए उन्होंने राम के धनुष को पकड़ लिया ।

किन्तु राम ने धनुष लक्ष्मण को नहीं दिया । उनका क्रोध द्विगुणित हुआ और सौमित्र को टालते हुए, हीठ चबाते हुए क्रोधपूर्ण दृष्टियों से समुद्र की ओर देखकर वे कहने लगे—‘रे समुद्र, तुम मेरे हाथों से परास्त नहीं होओगे ? तुम्हारे जल को अभी सोखता हूँ और तुम्हारे जल के अतर्गत रहनेवाले समस्त प्राणियों का नाश करता हूँ । तुम अब मेरा सेवक होकर खड़े रहोगे । तुमने मेरा सामना करने की दुष्टता की । लो, मैं अभी धनुष की डोरी पर बाण चढाता हूँ ।’ इस प्रकार समुद्र को त्रस्त बनाते हुए उन्होंने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढाया ।

यह देखकर इन्द्र तथा ब्रह्मा दिग्भ्रान्त हुए, सारा ब्रह्माण्ड विदीर्ण-सा हो गया । त्रिभुवनो में रहनेवाले प्राणी आर्त्तनाद करने लगे । सारा भुवन परितप्त-सा होने लगा । दिशाओं में अंधकार व्याप्त होने लगा । रवि तथा चंद्रबिंब काति-रहित हो गये । वज्र-पात होने लगा । महापवन भयभीत हुआ । आकाशवाणी वपित होने लगी । मिथ्याग्नियों प्रज्वलित होने लगी और अविरल गति से एक भयकर निनाद गूँजने लगा ।

तब समुद्र अपने मकर-समूह के साथ विचलित हुआ । उसका सारा उफान जाता रहा; उसकी उत्तुंग लहरें कहीं दब गई, उसका घोर निनाद जाने कहीं अतर्धान हो गया; उसका भयकर विष न जाने कहीं लुप्त हो गया; उसका गर्व कहीं चूर-चूर हो गया

और उसके हाव-भाव नष्ट-से हो गये । अबतक पराजय का नाम न जाननेवाला समुद्र आज पराजय के निवास के समान, सत्त्व-सपन्न होने हुए भी सत्त्वहीन के समान व्याकुल होने लगा । स्वर्य रखने हुए भी वह अस्थिर तथा अधीर हो बड़े वेग से राम के हाथ के ब्रह्मास्त्र के अग्र भाग में एक बिंदु के रूप में आकर ऐसे खड़ा रहा, मानो वरदान के प्रभाव से पल-पल बढ़नेवाले रावण के मन्तकों को एक साथ काट डालने के उद्देश्य से राम ने अपने बाण को पैना बनाने के लिए वडवानल में उसे तपाया हो और फिर समुद्र में उसे डुबाने पर साग समुद्र खिचकर उभ शर के अग्र भाग में वृंद के रूप में खड़ा हुआ हो और (इस प्रकार) कह रहा हो—‘हे देव, मेरा अस्तित्व इतना ही तो है !’

२४. समुद्र का राम से प्रार्थना करना

तब समुद्र सब देवताओं के समक्ष दीप्तिमान् रत्न-प्रभा से विलसित हो, अमल्य मंगल पुष्प-मालाओं से अलंकृत हो, उज्ज्वल तथा विशाल फणवाले कोटि सर्प तथा अमल्य जलचरो के साथ, गंगा आदि नदियों की सेवाओं को प्राप्त करने हुए, रामचंद्र के समक्ष आया, साष्टांग प्रणाम किया और कर-क्रमलो को मुकुलित करके अत्यन्त भक्तियुक्त हो निवेदन करने लगा—‘हे नगनाथ, आपके क्रोध के सम्मुख मेरी क्या शक्ति है कि मैं खड़ा भी रह सकूँ ? आप आदि पुरुषोत्तम हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आपकी आज्ञा के वशवर्ती हैं । आपमें जो प्रार्थना विलम्बित है, उनकी गणना ही नहीं हो सकती । समस्त लोक आपके अधीन हैं । मुझे अपराधी जानकर आप मुझे दंड मत दीजिए । आप जो भी कार्य कहें, आपकी आज्ञा को मिर आँखों पर धारण करके उसे सपन्न करूँगा ।

इसके पश्चात् गंगा आदि नदियों ने रामचन्द्र को सिर नवाकर प्रणाम किया और ललाट पर हाथ जोड़कर कहा—‘हे जगदभिराम राम, हम आपकी शरण में आई हैं । हे करुणानिधि, आप हम पर कृपा कीजिए । हम सब आपसे अभयदान की याचना करती हैं । अद्वितीय रीति से इस सागरेश्वर को क्षमा करके आप हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए । हे त्रिभुवनाधार, हे दीन-मन्दार, अपराधियों को क्षमा करना ही आपका लोकोत्तर गुण है । हे देववद्य, हम पर कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए । हे शिवधनुभजक, हे राम, आपकी महिमा का वर्णन श्रुति भी गा नहीं सकते । आप देव-देव हैं । रक्षा तथा पालन करने में आप ही समर्थ हैं । हे भूमीश, हे लोकेश, हे प्रकाश-सपन्न, हे सीतापति, हे पुण्य-स्वरूप, आप हमारी रक्षा कीजिए ।’

इस प्रकार की नदियों की विनती सुनकर राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा—‘तुम भय छोड़ो ।’ तब समुद्र ने राम से निवेदन किया—‘हे कमलगर्भ, हे मुनिजन-वद्य, हे शरणागतरक्षक, हे दिव्य मूर्ति, आप चाहें, तो अपनी वानर-सेना को ले जाने के लिए दीर्घकाय मकरो के सचलन से युक्त उमड़कर नहरों में फैल जाने वाले, भ्रूमावात को उत्पन्न करनेवाले, भँवरों से युक्त हो मेरे सौंदर्य की वृद्धि करनेवाले मेरे इस अगाध तथा अनंत जल पर सेतु बाँधिए या चाहें तो वैसे ही चले जाइए ।’

समुद्र के इन विनयपूर्ण वचनों को सुनकर राम सतुष्ट हुए और जलाधीश के सुभाष के अनुसार उस अमोघ अस्त्र को मरुकातार नामक प्रदेश पर चला दिया । उस बाण के

ताप से उस प्रदेश का सारा जल सूख गया । तब राम ने उस देश को सब प्रकार से समुद्र रहने का वर दिया , तब से वह प्रदेश उसी प्रकार सुशोभित रहता है । इसके पश्चात् राम का शर फिर उनके तूणींग में लौट आया और समुद्र पूर्ववत् शांत हो गया ।

तब समुद्र ने अत्यंत विनय के साथ राघव में कहा—‘हे भूपाल, पूर्वकाल में आपके वश के सगर-पुत्रों के द्वारा निर्मित होने के कारण मैं सागर नाम से विख्यात हुआ । इतना ही नहीं, मैं आपके वश के लिए मान्य रहा हूँ । देव-दानव-युद्ध के समय आपके पिता मुझे अयोध्या ले गये थे और बड़े आदर-सत्कार के साथ वहाँ से विदा किया था । इस प्रकार, मेरा और आपका सबंध (बहुत पुराना) है । इसलिए हे राघवेन्द्र, आप सेतु बाँधिए और वानर मेना को उस पार ले जाइए ।’

२५. सेतु-बंधन के लिए राम का सुग्रीव को आज्ञा देना

तब रघुराम सूर्यनदन को देखकर बोले—‘हे सुग्रीव, सेतु बनाने के लिए शीघ्र श्रेष्ठ वानरों को भेजो ।’ सुग्रीव ने बड़े उत्साह से योग्य वानरों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया । अगद, जाबवान्, नील, गज, गवाक्ष, पनम, नल, पावकनेत्र, तपन, तारु, गवय, ऋषभ, गधमादन, शरभ, द्विविद, शतबलि, हस्तिरोमवक्ष; सृषेण, केसरी, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, वेगदर्शी आदि श्रेष्ठ वानर-वीर समुद्र के निकट गये और शीघ्र गति से बड़े-बड़े वृक्षों तथा पर्वतों को ले जाकर समुद्र में डालने लगे । लेकिन, उनमें कोई भी जल पर तैरता नहीं था, सब जल में डूब जाते थे । तब सब वानर आश्चर्यचकित होकर राम के पास लौट आये और सारा वृत्तांत कह सुनाया । रामचंद्र भी आश्चर्यचकित होकर समुद्र से बोले—‘हे समुद्र, यह कैसी बात है कि इन कपि-वीरों के द्वारा फेंके गये वृक्ष तथा पर्वत पानी पर तैरते नहीं हैं ? यह सुनकर समुद्र बोला—‘हे परमेश, वानर जिन वृक्षों को जल में फेंकते हैं, उनके समुद्र-तल में पहुँचते ही जलचर उन्हें शीघ्र निगल जाते हैं । समुद्र के तल में शनयोजन विशाल आकारवाला तिमि नामक मत्स्य रहता है, जो सभी जलचरों को खा जाता है । उस मत्स्य को तिमिगिल निगल जाता है । हे देव, इस प्रकार एक दूसरे को निगल जानेवाले दीर्घ आकारवाले असह्य मत्स्य समुद्र में रहते हैं ।’

इन बातों को सुनकर राम बोले—‘हे समुद्र, ऐसी दगा में समुद्र पर सेतु बाँधने का क्या उपाय हो सकता है, बताओ ।’ तब समुद्र बोला—‘हे सूर्यवश-तिलक, आप सेतु बाँधने के लिए नल को भेजिए । यह महान् विश्वकर्मा का पुत्र है । इसका उपाय वही जानता है । अपने पिता से उसने यह कला जान ली है । उसके सिवा और किसी से यह सेतु बाँधा नहीं जा सकेगा । इसका एक और कारण भी है, सुनिए । बहुत पहले की बात है कि यह अपनी बाल्यावस्था में विंध्याचल के निकटवर्ती वन में पशुकण्व नामक मुनि के समीप खेल रहा था । मुनि स्नान आदि अनुष्ठान करने के लिए चले गये, तो इसने मुनि की सभी पूजा-मूर्तियों को अपने मुँह में धक्का देकर समुद्र में फेंक दिया । जब मुनि वहाँ लौटकर आये, तब सारा वृत्तांत उन्हें मालूम हुआ । इस पर वे बहुत ही क्रुद्ध हुए, किन्तु बालक होने के कारण उसे दण्ड नहीं देना चाहते थे । मुनि अपनी खोई हुई वस्तुओं को पुन प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे । उस तपोधन ने अच्छी तरह मोच-विचारकर, अपनी

तपस्या की महिमा से इसको एक ऐसा वर दिया कि तृण से लेकर कोई भी वस्तु, जिसे यह बालक समुद्र में फेंकेगा, वह जल के ऊपर ही तैरने लगेगी। इस वरदान के फल-स्वरूप उस मुनि की देव-भूक्तियाँ जल के ऊपर तैरने लगी। यही कारण है कि इसके हाथों से फेंके जाने पर पहाड़ भी जल पर तैरने लगेंगे। इस प्रकार मेरे जल पर सेतु बँध जायगा। हे धरणीग, आप शीघ्र ही नल को बुला भेजिए।'

२६. सेतु-बन्धन

तब रघुकुलोत्तम राम ने नल को बुलाया और बड़े आदर के साथ उसे देखकर बोले—'हे वानरवीर, हे धीर, समुद्र ने तुम्हारे पराक्रम का वृत्तान्त मुझे सुनाया है। अब तुम अपने वीर्य का प्रदर्शन करते हुए समुद्र पर सेतु बाँधने में दक्षिण हो जाओ।' राम का आदेश सुनकर उसने हाथ जोड़कर राम भूपाल से कहा—'हे देव, इस ससार में जन्म लेने का फल आज मुझे प्राप्त हुआ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने अपने पिता से सेतु बाँधने की कला जान ली है। मैं अपनी निपुणता का वर्णन आपके सामने क्या करूँ? आप मुझे आज्ञामात्र दीजिए। मैं तुरत समुद्र पर सेतु बाँधकर आपकी प्रशंसा प्राप्त करूँगा। आप मुझे अनुमति दीजिए।'

राम की आज्ञा प्राप्त करके नल सेतु बाँधने के लिए निकल पड़ा। उसके साथ ही सारी वानर-सेना पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को अपने गर्जन की ध्वनि से गूँजायमान करने हुए, पर्वत तथा वृक्ष-समूह को लाकर सेतु बाँधने का उपक्रम करने लगी। मुरीव आधा योजन लंबा एक विशाल पर्वत को, पृथ्वी को कँपाने हुए उठा लाया, तो राम ने मन ही मन गणेश का स्मरण तथा वदन करके उसे नल के हाथ में दिया। उस विशाल पर्वत को नल ने समुद्र में ऐसा प्रतिष्ठित किया मानो वह पर्वत उसके सेतु-बन्धन-शक्ति का, राम की अनुपम कीर्ति का तथा विभीषण के राज्य का कीर्ति-स्तम्भ हो।

तब वानर-समूह सभी दिशाओं में व्याप्त होकर पर्वतों तथा वृक्षों को सहज ही उखाड़कर आवश्यकता के अनुसार नल के हाथों में देने लगे। वे एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर बड़े वेग से कूद जाते, गरजते, एक साथ कई पहाड़ों को उखाड़कर नीचे गिरा देते, पहाड़ों को सिर पर रखे हुए हाव-भाव दिखाने, पहाड़ों को शीघ्र ले आने के लिए दूसरों को अपशब्द कहते, हँसते, लाये हुए पहाड़ों को एक दूसरे पर ऐसे सजाकर रखते कि वे लुढ़क न जायँ, दोनों हाथों से पहाड़ों को नारगियों के समान उछालते, परिहास के लिए दूसरों के लाये हुए पहाड़ों को नीचे गिराकर हँसते, और पहाड़ों तथा वृक्षों को दूर से ही नल के पास तक फेंकने में स्पर्धा करते। इस प्रकार, वे विविध रीतियों से पहाड़ों तथा वृक्षों को ला-लाकर नल के हाथों में मौपते थे। नल भी बड़ी तत्परता के साथ सेतु बाँधने में लगा हुआ था। एक भी पहाड़ या वृक्ष समुद्र में डूबता नहीं था। इस प्रकार, पहले दिन ही चौदह योजन लंबा पुल तैयार हो गया। समुद्र भी ऐसा क्षुब्ध हुआ, मानो वह सोच रहा हो कि हाय, मुझे यह कैसी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है।

२७. चन्द्रोदय का वर्णन

सूर्य अस्त हुआ। सेतु की रक्षा के लिए कुछ बलवान वानरों को नियुक्त करके

सभी वानर समुद्र-तट पर स्थित अपने निवासों में लौट आये। आकाश में नक्षत्र ऐसे दिखाई पड़ने लगे, मानो सफल-मनोरथ राम के कीर्ति-पुष्प ही बिखर गये हो। तब पूर्ण कलानिधि, मन्मथ का स्वशूर, विकसित कुमुदो का बधु, चक्रवाक-मिथुनो के साहचर्य को भग करनेवाला, क्षीर-सागर का मथन करने से प्राप्त नवनीत, शिवजी का शिरो-पुष्प, नक्षत्रों का निर्मल हास्य, चकोरो को आनन्द देनेवाला, विरही प्रेमियों के हृदयों को उत्तप्त करनेवाली ज्वाला, आकाश का आभूषण, चोरो के हृदय का शूल, समुद्र को उत्तेजित करनेवाला, हरि-हर-ब्रह्मा की आनन्दपूर्ण सृष्टि तथा कमलो के शत्रु चन्द्र का उदय हुआ। चारों ओर चद्रिका ऐसे व्याप्त हो गई, मानो क्षीर सागर ही उफनकर ससार में व्याप्त हो गया हो। सभी वानर निद्राहीन होकर सोचते रहे कि कब हम सेतु बाँधेंगे? कब हम लका में पहुँचेंगे? दानवेन्द्र की मृत्यु कब होगी? सीताजी राम को कब प्राप्त होगी? न जाने यह रात्रि कब बीतेगी? हाय, हम बहुत शीघ्र ही थककर अपने निवास लौट आये। हम काम से लौटे ही क्यों? हमें रात भर वही रफ़कर पुल बाँधने के कार्य में लगे रहना चाहिए था।

इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने रात्रि बिताई और प्रातःकाल ही संध्या आदि नित्य-कर्मों से निवृत्त हो, सभी वानर एक दूसरे को पुकारते तथा एक दूसरे को उत्साहित करने हुए काम में लग गये। वे बड़े वेग से बड़े-बड़े पर्वतों तथा वृक्षों को अपनी अनुपम शक्ति से उखाड़कर ले आते थे और उन्हें समुद्र में डालते थे। सुग्रीव आकाश-पथ से उड़ते हुए गया और विंध्याचल का अर्द्ध-योजन लंबा एक शिखर तोड़ लाया और मुषेण के हाथों में सुपुर्द किया। सुषेण ने उसे नल के हाथों में दिया। अगद ने अद्वितीय गति से जाकर दर्दुर नामक पर्वत को उठा लाया और उसे समुद्र में फेंका। नील ने मलय-पर्वत का शिखर, वृक्षो-सहित ले आकर नल के हाथों में दिया। द्विविद तथा मेन्द्र ने एक साथ बड़े-बड़े पर्वतों को ले आकर उस समुद्र में फेंका। गज, गवाक्ष, गधमादन, गरभ तथा गवय आदि बाहुबली वीरो ने समस्त पृथ्वी को कँपाते हुए महेन्द्र पर्वत के शिखर ले आकर समुद्र में डाले। नल अपने हाथ से उन सब पर्वतों का स्पर्श कर देता, जिससे कि वे डूब न जायें और बड़ी तत्परता से पुल बनना जाता था।

इस प्रकार, वानरों के लाये हुए वृक्षों तथा पर्वतों को नल एक हाथ से ग्रहण करके दूसरे हाथ से समुद्र में रखते हुए सेतु का निर्माण करता जाता था। यह देखकर हनुमान् को क्रोध आ गया। वह अपनी सारी शक्ति लगाकर सात योजन लंबा एक पर्वत उठा लाया। रामचन्द्र ने समझ लिया कि हनुमान् के क्रोध का कारण क्या है। उन्होंने नल को आज्ञा दी कि वह हनुमान् के लाये हुए उस पर्वत को दोनों हाथों से ग्रहण करें। नल ने वैसा ही किया। उस समय वानरों के गर्जनों की ध्वनि, उफननेवाले समुद्र का गभीर घोष, पर्वतों तथा वृक्षों के परस्पर टकराने की ध्वनि, कपियों के एक दूसरे को बुलाने का शब्द, (पर्वतों के नीचे) दबने से निकलनेवाले प्राणियों का चीत्कार और विचलित दिग्गजों की चिंघाड़, इन सब की सम्मिलित ध्वनि आकाश तथा समस्त ब्रह्माण्ड की दिशाओं तक व्याप्त हो गई। वह ध्वनि क्षीर सागर की उस गभीर ध्वनि के समान थी, जो मदर पर्वत को मथानी बनाकर देवामुरों के (क्षीर सागर) मथने के समय उत्पन्न हुई थी।

जब मध्याह्न हुआ, तब वानर अपनी थकावट मिटाने के लिए वृक्षों की छाया में गये और मीठे फल खाते तथा ठंडा जल पीने हुए थोड़ी देर वहाँ विश्राम करते रहे । उसके पश्चात् वे अत्यधिक उत्साह से काम में लग गये । वे एक दूसरे से कहते—'तुम इन पहाड़ों को ले आओ, तुम उन पर्वतों को उखाड़कर ले आओ ।' इस प्रकार, एक दूसरे को बढावा देते हुए असम्य वृक्षों, तथा पर्वतों को ला-लाकर वे नल को देने थे । कुछ वानर पर्वतों को सीधे समुद्र में ही गिरा देते थे, कुछ बीच रास्ते में ही दूसरों का बोझ अपने सिर पर ले लेते और कुछ अपना बोझ ले आकर नल के निकट रख देते थे । इस प्रकार, दूसरे दिन उन्होंने छब्बीस योजन लबा पुल बनाया । तब सूर्यास्त हुआ ।

तब सुग्रीव आदि वानर, रामचन्द्र को अपने कार्य की प्रगति का वृत्तान्त सुनाकर समुद्र-तट पर अपने निवासों में लौट आये और रात को बड़ी शान्ति के साथ सो गये । दूसरे दिन प्रातः-काल ही उठकर वे बड़े उत्साह से मेतु बाँधने चले । वे एक दूसरे से स्पर्धा करके कहते जाते थे कि हम अकेले सभी पर्वतों को उठा लायेंगे । हम ही सब वृक्षों को उखाड़कर लायेंगे । इस प्रकार, होड़ लगाकर वे चारों दिशाओं में बिखर गये । कुछ लंग वृक्षों तथा पर्वतों को ले आकर समुद्र में डालते थे, कुछ निरीक्षण करते थे, कुछ पेड़ों की छाया में बैठकर सुस्ताने थे, कुछ लोग बने हुए सेतु की लवाई नापते थे, कुछ लोग जहाँ-तहाँ बैठकर ऊँघते थे, कुछ लोग ठंडं जल से अपनी प्यास बुझाते थे । इस प्रकार, वे सब अत्यधिक क्लान्ति का अनुभव करने लगे । तब सूर्य, चन्द्र के समान शीतल प्रकाशित होने लगा । इन्द्र अमृत का फुहारा बरसाने लगा । पवन शीतल होकर चलने लगा । पुष्प-सौरभ आनंद पहुँचाने लगा । तब वानर अत्यंत उत्साह से वृक्षों तथा शैलों को लाकर समुद्र में डालने लगे । उनकी उद्वत गति से भीत होकर समुद्र के सभी जीव, अपने प्राण बचाने के लिए जहाँ-तहाँ भागते, पुनः-पुनः पानी के ऊपर सिर उठाकर देखते और मन ही मन सोचते कि कदाचित् पहले के समान ही कोई अमोघ अस्त्र हमारा सहार करने के लिए आ रहा है । फिर तुरन्त यह जानकर कि वानर समुद्र में सेतु बाँध रहे हैं, मन-ही-मन प्रसन्न होकर अपनी इच्छा से विचरण करने लगते । इस प्रकार, वानर-वीरों ने बड़ी तत्परता से उस दिन पचास योजन तक पुल बाँधा । इतने में सूर्यास्त हुआ ।

तब सभी वानर-वीर भक्तियुक्त हो, सध्या-वदन आदि कार्य से निवृत्त हो विचार करने लगे कि अब तो हमें केवल दस ही योजन लबा पुल बाँधना शेष रह गया है । कल यह भी पूरा कर लेंगे । इस प्रकार, वात्तलाप करते हुए वे समुद्र-तट पर लौट आये और रात को सुख की नीद सोये । प्रातःकाल होते ही सभी वानर-नेता रामचन्द्र के पास गये और उन्हें बड़ी भक्ति से प्रणाम करके अपने कार्य की प्रगति सुनाई । फिर, वे मोदमग्न मन से फिर वृक्षों तथा महाशैलों को बड़ी शीघ्र गति से ला-लाकर नल के हाथों में देने लगे ।

२८. गिलहरी की भक्ति

तब राम सेतु का निरीक्षण करने के उद्देश्य से सागरेश्वर, वानरेश्वर तथा दैत्य-नायक के साथ वहाँ गये और लक्ष्मण के कंधे पर अपना वाम कर टेके हुए, मद-मद

मुस्कान-रूपी चक्रिका से दीप्त होनेवाले मुँह से विलसित होते हुए पुल पर खड़े होकर सेतु के निर्माण का कार्य देखते रहे । कपि सब बड़े-बड़े वृक्षों तथा पहाड़ों को बड़े साहस के साथ उखाड़कर ले आने थे और नल के हाथ में देते थे, नल उन्हें लेकर पुल में लगा देता था । इसी समय एक गिलहरी ने सोचा—'सेतु का निर्माण शीघ्र ही पूरा होना चाहिए इसलिए मैं भी इन बलवानों की सहायता करूँगी ।' यो सोचकर उसने राम के चरण-कमलों का मन-ही-मन स्मरण करके, उनके समक्ष ही बड़ी भक्ति के साथ समुद्र में गोता लगाया, फिर वह समुद्र-तट पर बालू में लोट गई, उसके पश्चात् पुल पर आकर अपने शरीर पर लगी रेत को भटका देकर गिराने लगी । इसी प्रकार, वह बार-बार समुद्र में गोता लगाती, बालू में लोटती और तुरत आकर पुल पर, अपने शरीर पर लगी रेत को गिरा देती । राम बड़ी देर तक गिलहरी का यह कार्य देखते रहे । फिर, उन्होंने अपने अनुज को देखकर कहा—'हे लक्ष्मण, वहाँ देखो, एक गिलहरी मेरी भक्ति से प्रेरित होकर अपना शरीर जल से ढिगो रही है । फिर, तट पर पहुँचकर रेत में लोटती है और फिर अपने शरीर में लगी रेत को पुल पर गिरा देती है । जहाँ श्रेष्ठ बलशाली वानरवीर वृक्षों तथा पर्वतों को लाकर गिराते हैं, वहाँ अपनी अल्प शक्ति का विचार किये बिना ही वह बड़े प्रेम से अपनी शक्ति के अनुरूप सहायता कर रही है ।' तब लक्ष्मण ने कहा—'हे सूर्यवन्-तिलक, मैंने जान लिया कि जो आपके चरण-कमलों में अपना मन स्थापित करके एक तृण भी अर्पित करता है, आप उसे मेरे पर्वत के समान ही मान प्रदान करते हैं । इसलिए हे अनन्त, आपकी भक्ति ही प्रधान है ।' तब राम ने सुग्रीव से कहा—'उस गिलहरी को देखने के लिए मेरी बड़ी इच्छा हो रही है । उसे प्रेम से यहाँ ले आओ ।' तब सुग्रीव उस गिलहरी को पकड़कर ले आया और राम के हाथों में दे दिया । राम ने कई प्रकार से उसकी प्रशंसा की और बड़े हर्ष से अपना सुदर दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा । उसके पश्चात् उन्होंने लक्ष्मण, सागरेश्वर, विभीषण तथा सुग्रीव के समक्ष उसे छोड़ दिया । वह गिलहरी थोड़ी देर तक वहीं इधर-उधर विचरती रही । फिर, राम ने उसे चदन, मदार, चपक, पूगीफल, पुन्नाग, सहकार आदि वृक्षों में युक्त मुदर प्रदेश में छोड़ देने का आदेश दिया ।

२९. सेतु को देखकर राम का हर्षित होना

तदनंतर हनुमान्, अगद, नील, हरिरोम, आदि वानरश्रेणियों के साथ राम आश्चर्य-चकित करनेवाले उस विशाल सेतु पर खड़े होकर कहने लगे—'वाह ! नल कितना निपुण है ! उसने समुद्र के दूसरे छोर तक एक विशाल चबूतरे के समान इस पुल का निर्माण किया है । अपनी कला-निपुणता तथा अपने बाहुबल को प्रदर्शित करके उसने इस दीर्घ सेतु को बाँधा !'

नल द्वारा निर्मित वह सेतु शत योजन लंबा और दस योजन चौड़ा था और मलय पर्वत तथा सुवैलाद्रि का स्पर्श करता हुआ बहुत सुदर दीख रहा था । समुद्र में उछल-कूद करनेवाले बड़े-बड़े मत्स्य-समूह-रूपी दीप्त नक्षत्रों तथा दोनों ओर व्याप्त नील समुद्र-रूपी नील गगन के साथ वह सेतु आकाश-गंगा के समान सुशोभित हो रहा था ।

‘राम भूपाल ने दया करके मुझे अभयदान दिया है’—ऐसा सोचकर मानो फूल उठनेवाले उस विशाल समुद्र को देखकर कपि भी (अपने कार्य की सफलता देख) आनन्द से फूलने लगे। आकाश से देवता (रामचन्द्र के) पराक्रम के परिणाम को देखकर मन-ही-मन यह विचार करके हर्षित होने लगे कि, सच ही तो है, नीच व्यक्ति कभी मृदुवचनो से बात नहीं मानता। वह केवल दड के भय से, वज्र में लाया जा सकता है। रामचन्द्र ने जब समुद्र में विनय के साथ प्रार्थना की, तब समुद्र ने उनकी उपेक्षा की। फिर, सूर्यवक्ष-तिलक ऐसा क्यों नहीं वरें? जो व्यक्ति इस मेतु का स्मरण-मात्र करेगा, जो इस मेतु का दर्शन करेगा, उसे विजय, यश तथा पुण्य की प्राप्ति होगी। जबतक यह मेतु स्थिर रहेगा, जबतक यह समुद्र रहेगा, तबतक राघव की कीर्ति स्थिर रहेगी और दिन-प्रतिदिन उठनी हुई वह आनन्द प्रदान करती रहेगी।

इस प्रकार, मन-ही-मन हर्ष-गुलकित होते हुए उन्होंने फूलों की वृष्टि की और देव-दुदुभिर्या बजाई। तब रघुनाम आनन्दित होकर सेतु को देखने हुए बोले—‘यह सेतु अनन्तकाल तक नल के नाम पर विख्यात होने हुए मुण्डोभित रहेगा।’ प्रभु के वचन सुनकर सभी कपिवीरों ने नल की प्रशंसा की। तब समुद्र, सेना के साथ राम को अपने निवास स्थान ले गया और अत्यंत भक्ति के साथ उन्हें दिव्यास्त्र, दिव्य वस्त्र, दिव्य भूषण तथा वज्र-कवच प्रदान किये और निष्कलक चित्त से रामचन्द्र को देखकर कहा—‘हे राम भूपाल, आप राजपुत्र हैं। युद्ध के समय आपका गद्द मुनि-वेश क्यों? अब उचित यही है कि आप इन दिव्य-वस्त्र तथा आभरणों को धारण करें।’

३०. राघवों का सुवेलाद्रि पर पहुँचना

तब राम-लक्ष्मण ने दिव्य वस्त्राभरणों, चंदन तथा पुष्प-मालाओं को धारण किया और विचन्द्र के समान दीप्तिमान् होने लगे। समुद्र ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। तब राम-लक्ष्मण हनुमान् तथा नील के कंधो पर बैठकर (सुवेलाद्रि के लिए) रवाना हुए। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे, समस्त लोक उनकी जयजयकार करने लगा। रामचन्द्र ने समुद्र को अनुमति देकर उसको घर भेज दिया और अपने अनुज के साथ लका की ओर मुँह करके सेतु के मार्ग में ऐसे रवाना हुए, मानो रमणीय राक्षस-लक्ष्मी के सीमत पर ही चरण धरकर चल रहे हो। विभीषण गदा हाथ में लिये हुए कपि-सेना के आगे-आगे चलने लगा। निदान पराक्रमी राम अपने मन्त्रियों के साथ सुवेलाद्रि पर पहुँच गये और वहाँ शिविर डाल दिये। राम के पीछे-पीछे उनकी विशाल वानर-सेना चली। कुछ लोग सेतु के किनारे-किनारे चल रहे थे, तो कुछ सेतु के बीच-बीच जा रहे थे, कुछ वापर बड़े कौतुक के साथ आकाश-मार्ग में जा रहे थे, तो कुछ झुंड बनाकर जा रहे थे, कुछ समुद्र में तैरते हुए जा रहे थे, तो कुछ अपने समूह से विछुड़कर आगे पीछे-दौड़ रहे थे। उस सेना के हुंकार तथा गर्जनो की ध्वनि ने समुद्र-घोष को भी दबा दिया। उस ध्वनि के प्रभाव में आकाश-पाताल तथा दिशाएँ कंपायमान होने लगी। इस प्रकार, राघव ने अपनी सेना के साथ सेतु की यात्रा पूरी करके सुवेलाद्रि पर पड़ाव डाल दिया। अपने गुप्तचरों के द्वारा राम के आगमन का वृत्तान्त जानकर रावण ने समस्त दानवों को अपनी राज-सभा में बुलाया और स्वयं नवगन्त-खचित मिहामन पर आसीन हुआ।

३१ कैकसी का हितोपदेश

उस समय कैकसी सभा में आई। उसे देखकर रावण ने बड़े आदर के साथ उठकर उसे प्रणाम किया और योग्य आसन पर उसे बिठाकर स्वयं भी बैठा। फिर, अत्यंत विनय से उससे कहा—‘हे माता, आप तो कभी राज-सभा में नहीं आती। आज आपके आगमन का क्या कारण है? कृपा करके बतलाइए।’

तब उसने कहा—‘हे पुत्र, मैं जितना जानती हूँ उसे कहूँगी। ध्यान से सुनो। राम की पत्नी पर आसक्त होकर तुम उन्हें छोड़े से हरकर ले आये हो। इसीलिए, आज ऐसी भयंकर घटनाएँ घट रही हैं। स्वयं विष्णु ने आर्यों के रक्षणार्थ दशरथ का पुत्र होकर जन्म लिया, ताडका का सहार किया, कौशिक के यज्ञ की रक्षा की, अपने चरणों की धूलि से शिला को स्त्री के रूप में बदल दिया, बड़े हर्ष से शिव-धनु का भंग किया, जानकी से विवाह किया, परशुराम के गर्व को तोड़ा, अपने पिता की आज्ञा मानकर लक्ष्मण तथा जानकी के साथ वनवास के लिए आया, वनों में रहनेवाले मुनियों को अभयदान दिया, तुम्हारी बहन के नाक-कान काट दिये, खर-दूषण का सहार किया, मारीच का वध किया, अपने भयंकर अस्त्र से वालि को गिरा दिया, सूर्यनन्दन को अपना सेवक बना लिया, अपने बाण के अग्र भाग पर उपस्थित होने के लिए समुद्र को विवश किया, कपियों से समुद्र पर पुल बँधवाया और अब देवताओं की रक्षा करने तथा अमुरों को दण्ड देने के उद्देश्य से सुवेलाद्रि पर आकर ठहरा हुआ है। उस दानवातक (राम) ने इस पृथ्वी पर मत्स्य, कूर्म, वराह, सिंह, बटु, (भार्गव) राम, तथा (दशरथ-पुत्र) राम के रूप धारण किये हैं। वे स्वयं आदिनारायण हैं। उनकी महिमा का वर्णन करना किमी के लिए संभव नहीं है। उनकी आज्ञा से ही वायुपुत्र ने समुद्र पार किया, जानकी को राम का सदेश सुनाया, यक्ष आदि राक्षसवीरों का सहार किया और लका-दहन करके अपने प्रभु के पास लौट गया। तुम उस पवनपुत्र को ही जीत नहीं सके। तब उसके प्रभु को जीतना क्या, तुम्हारे वश की बात है? तुम्हारे पिता ने एक दिव्य रहस्य मुझसे कहा था। उसे मैं तुम्हें सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो।

‘एक बार ब्रह्मा तथा इन्द्र, मुनि, यक्ष तथा गधर्व-नेताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान् के दर्शनार्थ गये और उनसे निवेदन किया—‘हे प्रभो, रावण तथा कुम्भकर्ण के अत्याचार अमह्य हो गये हैं। कृपया उनसे आप हमारी रक्षा करें।’ तब उन्हें देखकर कमलनाभ ने कहा—‘मैं सूर्यवश में जन्म लेकर युद्ध में सहज ही इन राक्षसों का सहार करूँगा।’ फिर, उन्होंने सभी देवताओं को देखकर कहा—‘तुम वानरों का रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म धारण करना और युद्ध में मेरी सहायता करना।’

‘यह वृत्तान्त तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था। वह विष्णु ही ये राम हैं। लक्ष्मी ही उनकी पत्नी है। देवता ही वानर है। उन्हें तुम युद्ध में जीत नहीं सकोगे। अतः, तुम अपनी दुर्बुद्धि तज दो और उस भूसुता, जगन्माता, निगमों द्वारा प्रशंसित, निखिल-लोक-विख्यात, अमित-गुणोपेत, पवित्र सीता को राम के चरणों में सौंप दो। पापशोधक, धीर, सतत सुभाषी तथा आर्य-पक्षपाती विभीषण को लका का राज-तिलक कर दो और राम

की शरण की याचना करो । वे शरणागत शत्रु की भी उसी प्रकार रक्षा करते हैं, जैसे (उन्होंने) गजेन्द्र की रक्षा की थी ।”

कैकसी के हितोपदेश को सुनकर रावण क्रुद्ध होकर बोला—“हे माता, मैंने पचास लाख वर्ष तक अबाध-गति से राज्य किया है और सब प्रकार के सुखों का अनुभव किया है । मैं स्वप्न में भी किसी से नहीं डरता । इन नर और वानरो की शक्ति ही कितनी है ? क्या, ये देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं ? मैं अवश्य इन्हें जीत लूँगा । यदि मैं उन्हें जीत नहीं सका, तो राम के बाणों से मारा जाऊँगा । किन्तु, इन नीच मानवों के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊँगा । यह सत्य है । हे माता, आप ऐसा उपदेश मत दीजिए आप रनवास में लौट जाइए । आप लाख कहें, तो भी मैं मीता को नहीं लौटा सकता ।” कैकसी इस प्रकार कहनेवाले अपने पुत्र की निंदा करती हुई अपने अंतपुर में चली गई और विचार करने लगी, ‘होनहार बलवान् है, वह किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता ।’ यो विचार करके वह सतत धर्माचरण में लीन रहती हुई अपना समय व्यतीत करने लगी ।

रावण ने भेरियो तथा नगाडों के अत्यधिक निनाद के द्वारा सागी राक्षस-सेना को एकत्रित किया और आयुधों से सज्जित अपने प्रताप से दीप्त, मंत्रियों को देखकर अत्यंत भयंकर रूप धारण करके, आँवों में अग्नि-वर्षा करते हुए कहने लगा—“रामचन्द्र सेतु को बाँधकर अत्यधिक शौर्य के साथ मुवलाद्रि पर आकर ठहरा हुआ है । जब मेरा शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तब तुम्हारा इस प्रकार उपेक्षा करके सोते रहना, क्या उचित है ? पर तुम्हें क्यों दोष दूँ ? तुम मंत्री हो, ऐसा सोचकर तुम पर विश्वास करना मेरी ही भूल है । क्या, तुम सोचने हो कि तुम्हारे उपेक्षा करने से मेरी हानि होगी । ऐसा कभी नहीं होगा । साम, दान, भेद आदि उपायों से यदि मैं उसे अपने वश में ला नहीं सकता, तो मैं राम के साथ घोर युद्ध करूँगा ।”

रावण ने जब ऐसा कहा, तब सभी राक्षस लज्जित होकर सिर झुकाये चुप हो रहे । जब रावण ने उन्हें डाँटकर कहा कि तुम लोग चुप क्यों हो, तब इद्रजीत अपना शौर्य दिखाते हुए कहने लगा—“हे देव, समस्त देवताओं पर विजय पानेवाले आपको इन राम-लक्ष्मण जैसे अकिंचनों के द्वारा कौन-सी हानि पहुँच सकती है ? आप चिंता मत कीजिए । मैं बल, साहस तथा शौर्य में संपन्न हूँ । क्या, आप नहीं जानते कि मैंने इन्द्र को नाग-याश से बाँधकर उसकी कैसी दुर्गति कर दी थी ? भीषण रण में कालकेय आदि राक्षसवीरों को क्या मैंने परास्त नहीं किया था ? तब हे दनुजेश, साधारण मानव, क्रुश, तपस्वी तथा दुर्बल दशरथ-पुत्रों को युद्ध में मार डालना मेरे लिए कौन बड़ी बात है ? आप सदेह मत कीजिए, मैं अवश्य उन्हें युद्ध में मार डालूँगा ।”

तब अतिकाय नामक राक्षस ने राक्षसराज से कहा—“हे दानवनाथ, जो राजा नीतिवान् होकर, दूसरों की संपत्ति की अभिलाषा किये बिना समस्त सत्सारा की प्रशंसा प्राप्त करते हुए, जीवन-यापन करता है, वही मदा राज्य-पालन करेगा । हे दनुजेश्वर, सूर्य-कुल-तिलक राम ने तुम्हारा क्या अपकार किया है ? उनकी स्त्री पर आपकी आसक्ति

क्यों हुई ? आपका तथा आपकी लका का सर्वनाश करने के लिए इन राक्षसों ने निश्चय किया है । उचित यही है कि आप सीता को राघव के हाथों में सौंप दें और बुद्धिमान् होकर इस सप्सार में सम्मान प्राप्त करते रहें ।'

इस प्रकार, कई रीतियों में अतिकाय ने रावण से हित-वचन कहे, किन्तु रावण ने उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं की । उसने बड़े साहस के साथ शुक तथा मारण को देखकर अपना शौर्य दर्साते हुए कहा—'यह बड़ी विचित्र बात है कि एक मानव समुद्र पर पुल बाँधे । तुम लोग कहते हो कि राम ने ऐसे पुल का निर्माण किया है । इसलिए तुम दोनों उसकी सेना में प्रवेश करके उसकी शक्ति का पता लगाकर आओ ।'

३२. शुक तथा सारण का राम की सैन्य-शक्ति का परिचय पाना

तब उन दोनों ने वानरों का वेश धारण करके जंगलों, उपवनों तथा पर्वतों में सेतु के निकट और समुद्र के उस पार के प्रदेशों तथा गुफाओं में विचरण किया और सब स्थानों में व्याप्त वानर-सेना को देण आश्चर्य से अपने सिर कँपाने लगे । फिर, वे आश्चर्य-पुलकित गात्र से वानर-सेना के भीतर प्रवेश करने लगे । उस समय विभीषण ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें बदी बनाकर रामचन्द्र के सम्मुख उपस्थित करके कहा—'हे राजन्, ये दोनों रावण के मंत्री हैं । वानरों के वेश में यहाँ आये हैं । इनका नाम शुक तथा सारण हैं । वे हमारी सेना में प्रवेश करके हमारी सभी बातों का परिचय प्राप्त करके जाना चाहते हैं ।'

तब उन गुप्तचरों ने भय से अत्यधिक आत्रान्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा—'हे देव, हम रावण के भेजे हुए गुप्तचर हैं । विभीषण ने जो कहा, वह सत्य है । रावण ने आज्ञा दी है कि हम आपकी सेना का पता लगाकर आयें । इसलिए हम आये हैं ।'

तब राघव ने हँसते हुए कहा—'तुम रावण के मंत्री हो, इसलिए तुम्हें मार डालना ही उचित है । किन्तु मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता । तुम्हें मारने से हमारा क्या हित हो सकता है ? तुम यहाँ की सभी बातें बिना किसी अपवाद के देख लो और शीघ्र जाकर अपने प्रभु रावण से सारी बातें कहो । उसने यह भी कहना कि जिस शक्ति के भरोसे वह सीता को चुराकर लाया है, उस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आये । उससे कहना कि मैं युद्ध में लका के सभी राक्षसों का तथा गर्व से फूलनेवाले उसका भी वध करूँगा । अब तुम जाओ ।'

तब उन दोनों ने विभीषण के साथ जाकर समस्त वानर-सैन्य की शक्ति का पता लगा लिया और तुरत रावण के पास जाकर बोले—'हे देव, आपकी आज्ञा के अनुसार हम वानर-सेना के निकट जाकर उसको देखने लगे, तो आपके अनुज विभीषण ने हमें पहचान लिया और हमारा वध करने के उद्देश्य से हमें बदी बनाकर राम के सामने उपस्थित किया । लेकिन रामचन्द्र दयानिधि है, इसलिए उन्होंने हमारे वध की आज्ञा नहीं दी । हे लक्ष्मण, आपका, आपकी लका का तथा समस्त राक्षसों का नाश करने के लिए एक मौमिष ही पर्याप्त है । अब राम के शौर्य का वर्णन क्या करें ? हे देव, हमने सेतु को देखा । वह शत योजन लंबा और दस योजन चौड़ा है । ऐसे विशाल सेतु-भर में वानर

सेना ठहरी हुई है। उम सेना की गणना करना असंभव है। जहाँ देखो वहाँ वानर-सेना ही है। कुछ सेना पर्वतों पर ठहरी हुई है, कुछ सेना अभी ठहरने की व्यवस्था में ही लगी है, कुछ सेना ठहने के लिए स्थान खोज रही है, कुछ सेना समुद्र के उम पार है और कुछ सेना वहाँ से निकलकर इस पार आ रही है। हूँ प्रभो, इनती विशाल सेना को देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। एक एक स्थान पर ठहरी हुई सेना की गणना करके लिखना ब्रह्मा के लिए भी असंभव है। इसलिए हे दानवेन्द्र, आप राम के दर्शन करके उन्हें सीता को लौटा दीजिए और आनंद में रहिए।”

उनकी ऐसी बातों को सुनने की इच्छा न रखनेवाला रावण अत्यधिक रोष से बोला—‘चाहे देवता तथा गधर्व ही मेरे ऊपर आक्रमण करने आवें, तो भी मैं सीता को नहीं छोड़ूँगा। तुम ऐसे कायर क्यों बनने हो? कदाचित् वानरो ने तुम्हें पकड़कर अच्छी तरह पीटा है, इसलिए तुम भयभीत होकर भाग आये हो। डरो मत, वे कपि तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आ सकेंगे।’ इस प्रकार कहते हुए रावण शुक तथा सारण के साथ अपने ऊँचे सौध पर चढ़कर उम विशाल कपि-सेना को देखकर आश्चर्यचकित हुआ।

उमके पश्चान् उनसे शुक-सारण को देखकर पूछा—‘इस विशाल कपि-सेना का संचालन करने हुए कौन आगे-आगे चलेगा? सावधानी के साथ उसके पीछे-पीछे कौन चलेगा? इनमें कौन शूर है? कौन चतुर है? सूर्यवशी राम किसके परामर्श से काम करता है? किसके साथ राम अपने मन की बात करता है? सेना किसकी आज्ञा के अधीन है? दिन-रात इस सेना की रक्षा करनेवाला कौन है? इस सेना में सामंत कौन है? इसमें सुग्रीव कौन है? राम कौन है? लक्ष्मण कौन है? और, अगद कौन है? उन्हें दिखाने के पश्चान् उनके शौर्य के बारे में कहो। मुझे क्रोध नहीं आया।’

३३ सारण का रावण को कपियों का परिचय देना

तब सारण बड़ी कुशलता के साथ इस प्रकार कहने लगा—‘हे देव, पुनिकद नदी-तटवर्ती सूर्यपुत्र, इस पृथ्वी पर महान् बली है। उसीने इस लका को उखाड़ दिया था और यहाँ भयकर चीत्कार व्याप्त कर दिया था। वही एक लाख श्रेष्ठ कपि-वीरो के साथ वानर-सेना के अग्र भाग में रहता है। हे देव, नील एक अतिबलशाली है और वही राम का सेनाध्यक्ष है। अपनी पूँछ को बड़े गर्व से हिलाते हुए समस्त दिशाओं को कपित करने-वाला हजार पद्म तथा एक शंख उद्यम वानर-सेना के साथ, पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाला वालिपुत्र अगद है। वह वालि की अपेक्षा अधिक बलवान् है। वालि-पुत्र के उस ओर रहनेवाला नल है, जो चन्दनाद्रि का स्वामी है और दिव्यात विश्वकर्मा का पुत्र है। उसीने एक सहस्र करोड़ और अस्सी लाख वानरों की सहायता में समुद्र पर पुल का निर्माण किया है और समस्त वानर-सेना को समुद्र पार कराया है। वह अकेले ही अपनी विशाल सेना के साथ समस्त लका को जीतना चाहता है। हे राक्षसराज, रविपुत्र के सामने ही रमणीय काति से रजताद्रि की समता करनेवाले श्वेत नामक वानर को देखिए। वही समस्त सेना की व्यवस्था करता है। हे लक्ष्मण वह देखिए, सहस्र करोड़ वानर-वीरो को साथ लिये हुए वेगवान् नामक वानर हमारी ओर देख रहा है। वह सुग्रीव का मित्र है

और विंध्य, सह्य तथा सुदर्शन आदि मुख्य पर्वतों का स्वामी है। हे देव, उस रभ नामक कपिलवर्ण तथा दीर्घ केशवाले वानर को देखिए, जो मिह-शावक के समान दीख रहा है। वह गभीरता का समुद्र है और उसकी सेवा में एक सौ तीस लाख वानरों की सेना है। हे अमरवैरी, उस कुमुद नामक वानर को देखिए, जो मकोचनाचल का अधिपति है और दस करोड़ वानर-सेना की सेवा प्राप्त करते हुए अपने बल के मद में फूल रहा है। हे देव, उस शरभ नामक वानर को देखिए, जो रम्य शैल (सालेय पर्वत) का राजा है, जो विशाल वक्ष तथा उरु-प्रदेश से सुशोभित हो रहा है और जो चालीस लाख तथा चार सहस्र वानरों के साथ लका पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा कर रहा है।

“हे दानवेन्द्र, वह देखिए पारियात्राचल का अधिपति, भयकर-रण-कुशल पनस है, जिसकी सेवा में सतत पचास लाख वानर रहते हैं। सिद्ध की लालिमा को भी मात करने-वाली शरीर की काति से विलसित महा शक्तिशाली त्रौवन नामक उस वानर को देखिए, जो लका की ओर दृष्टि गड़ाये सोच रहा है कि इस लका का नाश करने के लिए मैं अकेले पर्याप्त हूँ। उसकी सेवा में साठ लाख कपि रहते हैं। हे देव, उस गवय नामक वानर को देखिए, जो विविध शौर्षों से युक्त हो अपने सत्तर लाख बलवान् वपि-श्रेष्ठों की सेना के साथ शोभा दे रहा है। ये सभी वानर कामरूपी हैं, भयंकर शक्ति से सपन्न हैं, युद्ध में निपुण हैं और देव-दानवों के लिए असाध्य हैं। ये सभी मेना के अग-भाग के वीर हैं। हे दानवनाथ, अब मेना के मध्य भाग में रहने वाले वीरों का विवरण सुनिए।

“हे दैत्यनाथ, वहाँ पर उस हर नामक वानर को देखिए। विशाल बाहु, तथा विविध वर्णवाले असह्य सहस्र वानर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। वह अकेले आपके साथ युद्ध करने की प्रतीक्षा करता है। उसके निकट ही जाबवान् के अनुज धूम्र को देखिए। अत्यंत नील मेघों के बीच में इन्द्र के समान शोभायमान होनेवाला वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित ऋक्षनग का अधिपति है। वह महान् बलशाली तथा शूर है और असह्य समर्थ भालू उसकी सेवा में रहते हैं। उस जाबवान् को देखिए। नीले पर्वत के समान शरीर धारण किये हुए एक करोड़ भालू उसकी सेवा में लगे हुए हैं। पूर्व काल में देवासुर युद्ध के समय अपने युद्ध-कौशल का परिचय देकर उसीने इन्द्र से कितने ही वर प्राप्त किये थे। युद्ध में वह धूर्जटि (शिव) से भी परास्त नहीं होता। उस धुरधर योद्धा सन्नादन को देखिए। उसका एक-एक पाठ्वं भाग एक-एक योजन लंबा है और उमका शरीर भी उनना ही दीर्घ है। हे देव-शत्रु, उसकी सेवा में एक पद्म वानर है। वह वानरों के पिता-मह-जैसा है और युद्ध में उसने इन्द्र को भी जीत लिया है। उस इद्रजालक नामक वानर को देखिए। वह नील का अनुज है। उसने अग्निदेव से एक गधर्व-युवती के गर्भ से जन्म लिया है और जबु नदी-तीर पर स्थित द्रोण पर्वत का अधिपति है। उसकी सेवा में एक सहस्र करोड़ कपि हैं और वह महान् शूर है। वहाँ देखिए, ग्रथन नामक वीर वानर अपनी एक सहस्र करोड़ वानर-सेना के साथ ठहगा हुआ है। वह अति बलशाली है और गगा नदी-तट पर विचरण करते हुए विशिराद्रि का पालन करता है। हे देव, वहाँ पर गज नामक वानर को देखिए, जो दस करोड़ कपियों की सेना के साथ दीख रहा है।

हे इन्द्रारि, यम के सदृश करोडो वानरो की सेवा प्राप्त करते हुए रहनेवाले उस गवाक्ष को देखिए, वह युद्ध करने के लिए अत्यधिक उत्साह प्रकट कर रहा है। उस केसरी नामक वानर को देखिए, जो उत्तुग काचन पर्वत का स्वामी है। उसके पास, धवल वर्णवाले, उद्वृष्ट पराक्रमी, सूर्य-सम तेजस्वी, तथा रण में भयकर रूप धारण करनेवाले विविध रूपों के दस सहस्र प्रख्यात वानर हैं। हे देवताओं के गन्तु, उस अद्वितीय पराक्रमी, महान् बलशाली, शतबली को देखिए, जो राम की कृपा प्राप्त करके उनके लिए अपने प्राण त्यागने के लिए सतत सन्नद्ध रहता है। उमङ्गी सेवा में सिद्ध-शावक को मान करनेवाले विशाल पिगल-नेत्रवाले सहस्र करोड वानर हैं। वही सुषेण है, जो अपने समान सहस्र करोड वानरो को साथ लिये हुए युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। वह उन्कामुख है, जो दस करोड वानरों के साथ ठहरा हुआ है। यहाँ देखिए, यह ऋषभ है, और इसकी वानर-सेना दस करोड की है। वह देखिए, वही विशाल भुजाधोवाला गधमादन है, जिसके अधीन सौ करोड वानर हैं। हे देव, आप ध्यान रखें कि सूर्योदय की निर्जी सेना ही इक्कीस सहस्र शख और दो हजार एक सौ सैनिकों की है। ऐसे वानर-वीरों की सेना कृष्णिका में रहती थी और ये सभी वानर देव तथा गधर्वों से उत्पन्न हुए हैं। वे कामरूपी हैं और सतत समर करने की प्रबल इच्छा से प्रेरित रहते हैं। उन्होंने ब्रह्मा से अमृत-दान प्राप्त किया है, अतः देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इनके अतिरिक्त मैन्द तथा द्विविद नामक अद्वितीय वीर दस सहस्र करोड सेना के साथ समुद्र के उस पार ठहरे हुए हैं। हे लकेन्द्र, वहाँ सुमुख तथा विमुख नामक वीरों को देखिए। ये मृत्यु के ही पुत्र हैं और मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली हैं। हे दनुजेन्द्र, उस अद्वितीय वीर वानर को देखिए, जिसकी सेवा अमन्य वानर भृत्यों के समान करते हैं। उसी ने समुद्र को लाँचकर, आपकी तथा आपकी सेना की उपेक्षा करके जानकी के दर्शन करके अशोक-वन को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था और आपके प्रिय पुत्र को मारकर लकिनी को परास्त किया था। आप जानते ही हैं कि वही वायुपुत्र हनुमान् है। एक और विचित्र बात मुनिए। बान्धावस्था में उसने एक दिन पूर्वदिशा में उदित होनेवाले सूर्योदय को देखकर, अत्यधिक भूखा रहने के कारण उसे फल समझकर, उसे पकड़ने के उद्देश्य से आकाश में तीन सहस्र योजन तक उड़ा था और बड़ी तीव्र गति के साथ उदयाद्रि पर गिर पड़ा था। उस समय उसकी हनु (दाढ़ की हड्डी) टूट गई, इसलिए उसका नाम हनुमान् पड़ गया है। हे देव, ये सभी वानर सभस्त समार को बहुत ही शीघ्र जीतने में समर्थ हैं। ऐसे श्रेष्ठ कपियों की मर्यादा की गणना ही असंभव है।”

३४. शुक का रावण को राम का पराक्रम सुनाना

इस प्रकार सारण के कहने के पश्चात् विवेक-सपन्न शुक ने रावण से कहा—
“हे असुरेन्द्र, इस विशाल सेना के प्राण स्वरूप राम के तेज का वर्णन करूँगा, आप मुनिए। रामचन्द्र नील मणियों की काति से विलसित हैं; कमलों के सदृश नयनवाले हैं, विमल कीर्त्ति से सपन्न हैं, सत्य के आकार हैं, सतत धर्माचरण करनेवाले हैं, शस्त्रास्त्र-विद्या-विशारद हैं; अखिल शास्त्रज्ञ हैं, सुकीर्त्ति-श्री से सपन्न हैं, मूर्ध उनके पितामह हैं, इसका भी विचार किये बिना उनको भी उत्तप्त करने का प्रताप रखनेवाले वीर हैं, अपने शत्रु से

आकाश को भी चूर-चूर कर देनेवाले हैं तथा पृथ्वी को भी टुकड़े-टुकड़े करने की क्षमता रखते हैं। हे दशकठ, उनका (क्रोध) शत्रुओं के लिए साक्षात् मृत्यु है। चूँकि, आप सीता को ले आये, इसलिए वे युद्ध करने के लिए आये हैं, अन्यथा वे शरणागतों के, वज्र के पिंजड़े के समान, रक्षक हैं, वे शूरो के भी शूर हैं। शरण की याचना किये बिना उनके क्रोध का अंत नहीं होता। आपके ऊपर क्रोध करने के कारण ही उनकी आँखों में लालिमा छाई हुई है। वे ही त्रिभुवनो के शासक सूर्यकुल-तिलक (राम) हैं।

“वह देखिए, उनके भाई और शुद्ध स्वर्ण-वर्णवाले राम के अनुज लक्ष्मण धनुष धारण किये खड़े हैं, अत्यंत आग्रह के साथ सप्त भुवनो को पराम्त करने की शक्ति से सपन्न हैं। वे राम के प्राणाधार के समान हैं और उद्दण्ड पराक्रमी हैं। हे असुरेन्द्र, उस राजा राम के पीछे आपके अनुज हैं, जो आपको युद्ध में परास्त करके लका पर राज्य करने के उद्देश्य से राम भूपाल के द्वारा राज्याभिषेक होकर बड़े आनंद से फूल रहे हैं। वे परम धर्मानुसरण करनेवाले तथा नीतिवान् विभीषण हैं। हे देव, लक्ष्मण तथा विभीषण के निकट ही जो खड़ा है, वह सुमीव है, जो सर्वमान्य गुणों से सपन्न हो किष्किन्धा का राज्य-भार वहन कर रहा है। वह महनीय लक्ष्मी से सपन्न होकर स्वर्ण-माला धारण किये हुए है। वह विशालबाहु तथा अत्यंत भयकर शौर्य से विलसित है। उसकी सेना के बारे में सुनिए। (कहते हैं कि) शतकोटि सहस्र सस्या का एक शख होता है। ऐसे लाख शखों का एक महावृक्ष होता है और ऐसे लाख महावृक्षों का एक पद्म होता है। एक लाख पद्मों का महापद्म होता है और लाख महापद्मों का एक खर्व होता है। लाख खर्वों का एक महाखर्व होता है, लाख महाखर्व एक समुद्र कहलाते हैं और लाख समुद्र महासमुद्र कहलाते हैं। लाख महासमुद्र, महादाख्य कहलाते हैं। वालि के अनुजके पास एक करोड़ महादाख्य सेना है। अब आप ही स्वयं विचार करके देख लें कि उसकी सेना कितनी बड़ी है। उसकी सेना का आदि तथा अंत जानना असंभव है। उसके सामर्थ्य की समता और कोई सेना नहीं कर सकती। वह सेना दुर्वार है। इसलिए हे देव, उस सेना से भिड़कर युद्ध करना असंभव है।”

शुक ने जब इस प्रकार-कहा, तब रावण ने एक बार फिर सारी वानर-सेना का पर्यवेक्षण किया और गर्भ में बड़वानल प्रज्वलित होनेवाले समुद्र की भाँति मन-ही-मन भयभीत हुआ, किन्तु अपने भय को दबाकर, निर्भीक की भाँति क्रोध प्रकट करने हुए कहा— ‘अपने स्वामी की इच्छा के विरुद्ध, कोई मंत्री मन्त्रणा देकर उसको विचलित करे, यह कैसी नीति है? तुम बिना विचार किये, मेरे सामने मेरे विरुद्ध इस प्रकार की बातें कह रहे हो। क्या, यह तुम्हारे लिए उचित है?’ रावण के इतना कहते ही शुक तथा सारण भयभीत हो, अपना सिर नीचा किये वहाँ से चले गये।

३५. राम के माया-धनुष तथा सिर दिखाकर सीता को भयभीत करना

उनके चले जाने के पश्चात् रावण अपने अतरंग सचिवों के साथ बड़ी देर तक मन्त्रणा करता रहा और फिर उन्हें विदा करके दुर्वार हो, विद्युज्जिह्व नामक एक राक्षस को बुलाकर कहा— ‘तुम अपनी माया से राम के सिर तथा धनुष का निर्माण करके शीघ्र ले आओ।’ वह तुरत गया और अपनी सारी निपुणता तथा माया से वनावटी सिर तथा

धनुष का निर्माण करके ले आया । रावण ने उसे अच्छा पुरस्कार दिया । वहाँ से गमनीय अशोकवन में जाकर दनुजेश्वर ने सीता को देखा । उस समय सीता सिर झुकाये अत्यंत चिंता में पड़ी, कानर दृष्टि से पृथ्वी को इस प्रकार देख रही थी, मानो वनुधरा को कोस रही हो कि हे माता, तुम मुझे इतना अधिक दुःख क्यों दे रही हो ? उनकी आँखों में अविचल अश्रुधारा इस प्रकार बह रही थी, मानो उनके चित्त का क्रोध भीतर न रह सकने के कारण धाराओं के रूप में बह रहा हो । उनका शरीर ऐसा धूलि-धूसरित था, मानो पृथ्वी यह कहती हुई उनसे लिपट गई हो कि हे पुत्री, यह कैसा दुर्भाग्य है कि तुम ऐसी दुरवस्था को प्राप्त हुई हो । वे इस प्रकार बैठी हुई थी, मानो रावण के क्रूर कर्म ही देवता का रूप धारण कर यह निश्चय करके बैठा हो कि हे रावण, मैं तुम्हारे तथा तुम्हारे राक्षस-कुल का सर्वनाश करके ही यहाँ से उठूँगा । वे बार-बार ऐसे दीर्घ निश्वास छोड़ रही थी, मानो राक्षस-रूपी नीरस वृक्षों को विध्वस्त करने में प्रयत्नशील प्रलय-काल की अग्नि हो ।

अपनी ओर ध्यान दिये बिना बैठी हुई सीता को देखकर, सर्वनाश के लिए उद्यत रावण ने कहा—‘हे जानकी, मूर्ख तथा अविवेकी खरदूषण आदि राक्षसों का वध करने मात्र से तुम राम के शौर्य का विश्वास करती हो और मेरे शौर्य को कभी अपने मन में भी नहीं लाती । जब राम बड़े दर्प में अपनी मेना के साथ समुद्र को पार करके, वानरो के साथ सुवेलोद्वि पर सो रहा था, तब मेरे एक प्रिय सेवक ने उसका वध करके उसके धनुष तथा सिर ले आया है । राम का प्रिय अनुज, तथा वानर परास्त होकर भाग गये हैं । इसलिए हे कमलमुखी, तुम अब राघव की आशा छोड़ दो और मेरी तथा मेरी स्त्रियों के लिए अधीश्वरी बनकर रहो ।’

इस प्रकार कहने के पश्चात् उसने विद्युज्जिह्व को बुलाकर, राम के सिर तथा धनुष को सीता के सामने लाने की आज्ञा दी । तब उसने कहा—‘हे मुदरी, यह लो, राम के सिर तथा धनुष ।’ इतना कहकर वह उन दोनों को सीता के सामने फेंककर हँसते हुए चला गया । उसी समय आकाशवाणी हुई—‘राम भूपाल युद्धभूमि में अमुर (रावण) का सिर काटेंगे, यह तुम्हारे पति का सिर नहीं है । तुम विचलित मत होवो । तुम्हारे धर्माचरण के प्रभाव से रामचंद्र अवश्य विजयी होंगे ।’ (फिर भी) उस चंचलाक्षी सीता ने उस सिर को देखा और राम की आँखें, मुँह, ललाट, मौलि-रत्न की प्रभा, दत्त-पक्ति और कर्ण-पुटों का सौंदर्य तथा अधरो की कांति का स्मरण करके उस सिर को राम का ही सिर समझकर मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी, मानो पृथ्वी माता ही उस लतांगी को अपने हृदय पर लिटाकर उन्हें सात्वता दे रही हो कि ‘यह मिथ्या है । तुम्हारे पति का कोई अहित हो नहीं सकता । हे मुदरी, यह माया है; इसकी ओर तुम्हें देखना नहीं चाहिए ।’

थोड़ी ही देर में सीता सँभल गई और शोकान्नि से मत्पत होनी हुई बोली—‘हाय, हे कैकेयी, कलह को जन्म देकर तुमने इस प्रकार इक्ष्वाकु-वंश का सर्वनाश किया है । रामचन्द्र ने तुम्हारा क्या बिगाडा था कि तुमने उन्हें अनावश्यक ही वन में जाने की आज्ञा दी ? हे पृथ्वीपति, मैंने पूर्ण विश्वास किया था कि आपने समुद्र पर सेतु बाँधा है, और आप अवश्य मुझे छुड़ाकर ले जायेंगे; किन्तु मैं यह नहीं समझती थी कि भगवान्

मेरी ऐसी गति करेंगे । हे काकुत्स्थ, आपके और मेरे प्राण एक हैं, उस कथन को आप इस प्रकार मिथ्या साबित कर रहे हैं, क्या, यह आपके लिए उचित है ? हे मूर्यकुल-तिलक, पति से पहले ही प्राण देने का मौभाग्य मुझे नहीं मिला । आप भले ही जायें, मैं भी तुरत ही अपने प्राण आपके पास भेज दूँगी । पृथ्वी मेरी माता है और आप मेरे पति हैं । क्या, आपके लिए यह उचित है कि आप मुझे पुन वसुधा की गोद में पहुँचा दें । अग्निदेव के समक्ष आपने मेरे पिता से मुझे ग्रहण किया था । अब इस प्रकार आपका मुझसे विलग हो जाना, क्या आपके लिए उचित है ? हे राम, न जाने क्यों आपको इस दशा में देखकर भी मेरा हृदय सतप्त नहीं हो रहा है । मेरा हृदय जब सतप्त नहीं होता, तो निश्चय ही आपकी यह दशा नहीं हुई होगी ।' इस प्रकार सोचती हुई सीता विलाप करने लगी ।

उसी समय द्वारपालो ने आकर दनुजेश्वर से निवेदन किया—'हे देव, किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के उपस्थित होने से आपके मंत्री सभा-स्थल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । उनका सदेश लेकर आये हुए प्रहस्त आदि राक्षसवीर द्वार पर खड़े हैं ।' यह सुनकर रावण तुरत सभास्थल के लिए रवाना हो गया । उसके जाते ही, वे माया सिर तथा धनुष भी ऐसे अदृश्य हो गये, मानो रावण की लक्ष्मी भी इसी प्रकार शीघ्र ही अदृश्य हो जायगी । सभास्थल में पहुँचकर रावण ने जब गुणचरो से सुना कि राम शीघ्र ही आक्रमण करने का यत्न कर रहा है, तब उसने बड़े धैर्य के साथ ढिंढोरे पीटकर नगर में इस समाचार को प्रकट कराने का आदेश दिया और अपनी सेना को एकत्रित करने के लिए वेत्रधरो को भेजा ।

यहाँ सरमा सीता को देखकर कहने लगी—'हे माता, तुम ऐसे क्यों प्रलाप करती हो ? रावण की बातें सत्य नहीं हैं; उन्हें मिथ्या जानो, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि तुम्हारे सामने जो सिर फेंका गया था, वह माया का सिर था । इस राक्षस के दुर्वचन सुनकर मैं सत्य समाचार जानने के लिए गई थी । मेरी बातें सुनो । राम युद्ध करने के लिए आ रहे हैं । यह समाचार सुनते ही देवताओं का शत्रु (रावण) विचलित हो उठा । वह सुनो, ढिंढोरे का शब्द हो रहा है । राक्षसों के भयकर रथों के दौड़ने की ध्वनि सुनो । जो, वहाँ सुनो, रथिकों तथा सारथियों के संभाषणों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है । इसलिए हे कुटिल-कुतले, तुम चिंता मत करो । राम पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आई है ।'

इसी समय लका को विदीर्ण करनेवाले गर्जन के साथ आनेवाली वानर-सेनाओं को देखकर रावण ने चिंताक्रांत चित्त से अपने मंत्रियों को शीघ्र बुलाकर कहा—'वह देखो, राघव युद्ध करने के लिए आ रहा है । तुम अब अपनी अमिन्न शक्ति का परिचय देते हुए शीघ्र जाओ और उन दोनों मानवों को मारकर, वानर-सेना का वध कर डालो । जाओ, शीघ्र जाओ ।'

३६ माल्यवान् का हितोपदेश

तब रावण को देखकर नीतिवान् माल्यवान् ने कहा—'हे राजन्, उचित समय में सधि कर लेना श्रेयदायक होता है और उचित समय पर बैर ठानना शुभ-प्रद होता है ।

जो नीतियुक्त कार्य करता है, उस राजा के राज्य की सतत वृद्धि होती रहती है। नीच व्यक्ति से विग्रह और बलवान् से सधि करना विवृध-जनो का उपदेश है। सूर्यवश-तिलक हमसे अधिक बलवान् है, देवताओ के कार्य के लिए उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है। देवबल भी उन्ही को प्राप्त है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे धर्मत्मा हैं। उन्हें ऋषियो के सतत आशीर्वाद प्राप्त है। तुम तो सदा देवताओ को पीडित तथा ब्राह्मणों का नाश करते हुए पाप-चिन्ता में लीन रहते हो। विजय सदा धर्म की ओर ही झुकी रहती है, अधर्म की ओर नहीं। उस दिन तुमने ब्रह्मा से अन्य सभी लोगो के हाथो से न मरने का वर प्राप्त किया था, किन्तु इस प्रकार तुम पर आक्रमण करनेवाले नर तथा वानरो पर विजय पाने का वर प्राप्त नहीं किया है। किसी भी रीति से देखा जाय, उनके हाथो से तुम्हारा नाश निश्चिन्त है। इतना ही क्यों, हीनहार को मूचना देनेवाले कितने ही शकुन दिखाई पड रहे हैं। विपुल होम-भूम त्रस्त-सा हो गया है। राक्षसो के नेत्र का अत-सा हो रहा है। हमारे गृहो में कई प्रकार की विपतियो का जन्म हुआ है। इसलिए तुम जान लो कि वे (राम) आदिनारायण है और ऐसा करने के लिए (तुम्हारा वध करने के लिए) इस ससार में जन्मे है। राम से विग्रह तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए तुम अपना हठ छोड दो। राम का शर औद्धन्य का सहन नहीं करता। अत हे दानवेन्द्र, सीता को ले जाकर राम को सौप दो और अपने वध की रक्षा करो।'

तब रावण ने माल्यवान् को रोषपूर्ण नयनो से देखकर कहा—'मैं अद्वितीय प्रनाप और दक्षता मे सपन्न तथा सतत विजयी होनेवाला हूँ। तू मेरे सामने मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है। अब मे तुम्हे क्या कहूँ ? तू कभी अपनी कायरता नहीं छोडना। भला, मैं सीता को क्यों देने लगा ? मुझे किसका भय है कि मैं सीता को दे दूँ ?' उसके उद्धत वचनो को सुनकर माल्यवान् ने कहा—'मेरी बातो का अनादर करके तुम रामचन्द्र को युद्ध में कैसे जीतते हो, यह मैं भी देखूँगा। हम जायेंगे कहाँ ? (इन्ही आँखो से) देखेंगे ही।' इस प्रकार क्रोध में आकर माल्यवान्, कुछ और पक्ष वचन कहते हुए, वहाँ से चला गया।

उसके पश्चान् असुरेन्द्र ने पहले, अनुपम पराक्रमी प्रहस्त को पूर्व के द्वार की रक्षा के लिए भेजा, अक्षीण बली महोदर तथा महापार्श्व को दक्षिण के द्वार पर भेजा; अपने पुत्र इद्रजीत को पश्चिम के द्वार पर नियुक्त किया, उत्तर द्वार की रक्षा के लिए एक तथा सारण को नियुक्त किया और नगर के मध्य भाग की रक्षा के लिए विरूपाक्ष को आज्ञा दी। इस प्रकार, लका के रक्षण की समुचित व्यवस्था करके रावण अंतपुर में चला गया।

वहाँ राम ने सुग्रीव विभीषण, अगद, जाबवान्, सुषेण, नील, नल, हनुमान्, गवाक्ष आदि वानरो को, (उनमे) परामर्श करने के लिए बुलाया और कहा—'अब हम सब प्रकार के अवगुणों का आगार, तथा देवताओ के शत्रु रावण की लका का पर्यवेक्षण करें। देखो, उस एक दुष्ट के कारण उसका सारा वण नष्ट होनेवाला है।'

३७. सुवेलाद्रि पर से राम-लक्ष्मण का लंका को देखना

इतना कहने के पश्चात् राम ने अपने अनुज तथा सुग्रीव आदि वानरो के साथ सुवेलाचल का आरोहण इस प्रकार किया, मानो कह रहे हो कि गुणवान् आदमी अपने वश में इसी प्रकार उन्नति के शिवर पर चढना है। वहाँ से उन्होंने अपने हाथों से नष्ट होने-वाली उस लका को देखा। उस नगर के गोपुरो पर जड़ी हुई मणियों की प्रभा इतनी उज्ज्वल थी, मानो हनुमान् ने जो अग्नि लगाई थी, वह उस दिन तक वैसे ही दीप्त हो रही हो। बड़े-बड़े कगुरो से युक्त उस नगर का प्राकार ऐसा दीख रहा था, मानो राम के बाणों के प्रहारों से सञ्जमित एव परितप्त होनेवाले रावण-रूपी मृग को भाग जाने में रोकने के लिए ही प्रलयकाल के यम-रूपी शिकारी ने चारों ओर से घेरा लगा दिया हो।

उम दुर्ग की मीनारों पर दीखनेवाली चित्र-विचित्र ध्वजाएँ तथा तोरण ऐसे दीख रहे थे, मानो मीनारों-रूपी स्त्रियाँ सूर्य के प्रकाश में उज्ज्वल दीखनेवाले सुदर तोरण-रूपी मंगल-सूत्रों से अलकृत हो, सुदर ध्वजाएँ-रूपी अपने हाथों को हिलानी हुई, (राम का) स्वागत कर रही हो—‘हे राम, रावण का सहार करने के लिए शीघ्र चले आओ।’ उस दुर्ग की परिखाएँ इतनी विशाल एव गहरी थी, मानो रावण-रूपी जगली भैसे को पकड़ने के लिए यम ने अनुकूल खड़े खोद रखे हो। नगर के उज्ज्वल सौध आकाश का स्पर्श करते थे और ऐसे दीख रहे थे, मानो रावण ने कैलास पर्वत को उखाड़कर और उसे यहाँ लाकर सुदर ढग से फिर से उसका निर्माण किया हो। उम नगर में तुरही की ऐसी ध्वनि निकल रही थी, मानो लक्ष्मी राम के स्वागतार्थ आ रही हो। उस नगर में कितने ही ऐसे उपवन थे, जिसके असंख्य वृक्ष शुकों की बोली से हर्षित होते, भ्रमरों के गुजन से आनन्दित होते, कोयलों के कल-कूजन से सतुष्ट होते, मुत्तर सारिकाओं के सचालन से दीप्त होने, शाखाओं और मन-रूपी पल्लवों को राग-रजित करते तथा सतत व्याप्त होनेवाले पुष्पों के सुगंध-भार से महक रहे थे। उस नगर के कमलाकर कमला (लक्ष्मी) के मन-कमल के सधान थे। ऐसे नगर को आश्चर्य से देखनेवाले राघव को अपने प्रताप का ताप प्रदान करके भगवान् सूर्य पश्चिम समुद्र में डूबने लगे। तब राम ने उन्हें प्रणाम किया और सुवेलाद्रि पर ही उन्होंने रात्रि बिताई।

प्रातःकाल होते ही सभी कपि अत्यधिक हर्ष से विनोद करते हुए उस पर्वत के जंगल में शीघ्र गति से चले गये और वहाँ अपने भयकर निनादों से सिंह तथा हाथियों को भगाने लगे। उनके निनाद राक्षसों की अस्थियों को कँपाने हुए सारी लका में व्याप्त हो गये।

इस ध्वनि को सुनकर रावण यह जानने की इच्छा से कि वह कैसी ध्वनि है, अपने सौध के कगुरों पर चढकर देखने लगा। उस समय उसके साथ उस कगुरों की शोभा अत्यन्त उज्ज्वल दीख रही थी। परिचारक-गण उसके ऊपर धवल छत्रों की छाया कर रहा था, धवल चँवर डुला रहा था। ऐरावत के दाँतों के प्रहार का सहन किये हुए उसके वक्ष पर मणिमय हार डोल रहे थे। इस प्रकार के वैभव से युक्त वह विविध राक्षसों से

परिवृत हो विशाल रत्न-मिहासन पर आरूढ था तथा आयुधो की उज्ज्वल प्रभा से दीप्ति-मान् होता हुआ, अस्ताद्रि पर विलसित होनेवाले सूर्य की समता करता था । बिजली मे युक्त नील मेघो के समान अपना हर्ष प्रकट करता हुआ वह अद्वितीय रूप से उस कगूरे पर शोभायमान हो रहा था । रावण की महिमा के कारण प्रभा-समन्वित उस कगूरे को देखकर रामचन्द्र आश्चर्य के साथ (विभीषण) से बोले—‘हे विभीषण, प्रलय-काल के सूर्य-मण्डल के समान भामगान होनेवाला यह कौन है ?’ तब विभीषण ने राम से कहा—‘हे देव, वही मेरा अग्रज रावण है, जिसने इन्द्र आदि देवताओ को परास्त करके देव-कामिनियो को बदी बनाया है और जो तीनों लोको को अपने शौर्य के प्रताप से जीतनेवाले बाहुबल से सपन्न है ।’

३८. रावण तथा सुग्रीव का द्वन्द्व-युद्ध

तब सुग्रीव ने राम से कहा—‘हे प्रभो, यह राक्षस मदान हो आपके समक्ष अपने वैभव का ऐसा प्रदर्शन कर रहा है । मे अभी इस का गर्व भग करता हूँ ।’ इतना कहकर वह अत्यधिक क्रोध से, अलघु शौर्य-मपन्न गरुड के समान, मुकुट-रूपी शृगो तथा विशाल वक्ष-रूपी सानुओ से युक्त पर्वत-रूपी रावण पर अत्यत वेग से गिरनेवाले वज्र के समान, सुवेल द्वि से उस रावण की ओर उडा । फिर, देवताओ के शत्रु उस रावण को तृणवत् मानकर कहा—‘हे रावण, सुनो, मैं राम का सेवक हूँ । क्या, तुम अपना वैभव हमें दिखाने का साहस करने हो ।’ इतना कहकर उसने बड़े दर्प के साथ उसके सभी मुकुटो को नीचे गिरा दिया । तब नीचे लुडकनेवाली उसकी मुकुट-पवित्र ऐसे दीखने लगी, जैसे पूर्वकाल में काल-रुद्र के प्रहार से नक्षत्र-पवित्र नीचे गिरने लगी थी । इससे अत्यत क्रुद्ध हो, दशकठ ने बालि के अनुज को पकडकर नीचे पटक दिया, किन्तु सूर्यपुत्र शीघ्र ही उठकर अपने प्रचंड बाहु-बल का प्रदर्शन करना हुए उस राक्षस को उसके सभी हाथो के साथ पकडकर इस प्रकार नीचे पटक दिया कि सभी दिशाएँ काँप उठी । इसके पश्चान् सुग्रीव ने उम राक्षस की कनपटियो, ललाटो और म्कधो पर अघाघुध तमाचे लगाये, उसकी पीठ को गधों से नोच दिया, और उसकी गर्दन को अपने टखनो के बीच-दबाकर उसे कगूरे से दे मारा । इस प्रकार, मल्ल-युद्ध करते हुए वे दोनों बहुत थक गये और पृथ्वी पर गिरने लगे; किन्तु दोनों फिर से संभलकर कगूरे पर ही युद्ध करने लगे । अत्यधिक शक्ति से, प्रतिक्षण पैतरा बदलते हुए, एक दूसरे को डकेलने हुए, फिर एक दूसरे के निकट आकर ताल ठोककर अलग होते हुए और शीघ्र ही एक दूसरे से भिडकर अपनी शक्ति दिखाते हुए, वे एक दूसरे के वक्षो पर पदाघात करते, लिपटकर अपनी केहुनियो से एक दूसरे के अगो को दबाते और अपने हाथो से एक दूसरे के सिरो को पकडकर इस तरह टकराते कि रक्त की धाराएँ निकल पडती, फिर लडखडाते हुए कई प्रकार से कशम-कश करने के पश्चात् एक दूसरे से हटकर अपने-अपने स्थान पर आ जाते और फूलनी हुई साँसो से थोडी देर तक चुप खडे रहते । इस प्रकार, युद्ध करते हुए दोनों के शरीरो से रक्त की धाराएँ ऐसी बहने लगी, मानो पर्वतो से लाल रग की नदियाँ बह रही हों । तब रावण अपनी माया से सुग्रीव को बाँधने का यत्न करने लगा । यह देखकर सुग्रीव आकाश की ओर उडा और

क्रूर राक्षसों के देखते-देखते राम के पास पहुँच गया और राघव को प्रणाम किया। युद्ध की धूल तथा रक्त से पकिल गात्रवाले सुग्रीव को राम ने बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाया और स्निग्ध दृष्टियों से देखते हुए कहा—'इन्द्र को परास्त करनेवाले रावण की शक्ति की अवहेलना करके, ऐसा साहस करना केवल तुम्हें ही शोभा देता है। उसका वध करके विभीषण को लका का राजा बनाने की जो प्रतिज्ञा मैंने की है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम उसका वध किये बिना ही लौट आये, यह तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम बालि के अनुज हो, तुम उस रावण को अवश्य मार सकते थे, किन्तु उसके वध का सेहरा, मेरे सिर पर बाँधने, तथा उसे मारने का श्रेय मुझे देने के लिए तुम उसे जीवित छोड़कर लौट आये।' तब सुग्रीव ने कहा—'हे देव, उस द्रोही का वैभव देखकर मैं कैसे चुप रह सकता था?' सूर्य-पुत्र के इन वचनों को सुनकर राम हर्षित होकर बोले—'तारको से विलसित तथा दीप्तिमान् रक्त तथा कृष्ण वर्ण के परिवेषण में घिरे हुए सूर्यमंडल से ज्वालाएँ निकल रही हैं, बड़े-बड़े जलद राक्षसों का रूप धारण करके रक्त-वर्षा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कदाचित् भूकंप होनेवाला है। प्रचण्ड वायु के कारण शैल-शृंग टूटकर गिर रहे हैं और सूर्य के अभिमुख होकर सिंघार रो रहे हैं। बार-बार राक्षस-कुल के नाश-मूचक शकुन दिखाई दे रहे हैं। इधर हमारे पक्ष में अगो के फड़कने आदि के श्रेष्ठ शुभसूचक शकुन दीख रहे हैं। अतः, निस्संदेह हमारी विजय होगी। अब विलंब करना अनुचित है।'

इसके पश्चात् रामचन्द्र हनुमान् के कंधे पर बैठकर, जाबवान्, अगद, सौमित्र, विभीषण नल आदि महान् पराक्रमी अनुचरों के साथ उस पर्वत से नीचे उतरे। फिर, अनुपम पराक्रमी रामचन्द्र धनुष धारण करके लका की ओर चले। वानर-श्रेष्ठ, उनको मार्ग बताते हुए आगे-आगे जा रहे थे और पीछे लक्ष्मण आदि चल रहे थे। वानर-सेना उड़ड़ वेग में उनके पीछे-पीछे एक साथ मिलकर जा रही थी। इस प्रकार, सूर्यवश-तिलक राघव घोर राक्षस-समूह से सुरक्षित लका के उत्तर द्वार पर जा पहुँचे। यह समाचार सुनते ही राक्षस सभ्रमिन-से हो गये। अद्विरल बाहुबली नील, द्विविद, गैन्द आदि वीर वानरों के साथ, विशाल वानर-सेना को लिये हुए पूर्व के द्वार पर जाकर ठहर गया। गज, गवाक्ष, गवय तथा बाहुबली के साथ बालिपुत्र ने बड़े उत्साह से दक्षिण के द्वार पर पड़ाव डाला। अपना विक्रम प्रदर्शित करने हुए, लका-दहन करनेवाले पवन-पुत्र ने सुषेण को साथ लेकर पश्चिम के द्वार पर घेरा डाला। सूर्य-पुत्र सुग्रीव छर्त्तास करोड़ विश्वास-पात्र तथा महाबलशाली कपि-वीरों के साथ राम के पश्चिम में ठहर गया। शक्तिशाली भालुओं के साथ अनुपम बली जाबवान् ने राम के पूर्व में पड़ाव डाला।

तदनंतर राम ने लक्ष्मण तथा विभीषण को देखकर कहा—'इनकी (वानर-नायकों की) सहायता के लिए प्रत्येक द्वार पर एक-एक पक्ष दुर्वार बलशाली वानर-वीरों की सेना भेज दो। अनल, नल, हर तथा सपाति के साथ हम तीनों यही से शत्रु-राक्षसों से युद्ध करेंगे। घोर संग्राम के समय में भी हमें यहाँ का और वहाँ का समाचार मिलते रहना चाहिए। इसके पश्चात् राम ने वानरों को देखकर आज्ञा दी कि तुममें से किसी को

अपना वानर-रूप छोड़कर और कोई भी कपट-रूप धारण नहीं करना चाहिए । राम की आज्ञा सिर पर धारण किये हुए सभी वानर लका के चारो ओर बड़े वेग से फैल गये । पूर्व तथा पश्चिम भागो में विकृत लागूलवाले, विकृत आननवाले, विकृत दाँतोवाले और विकृत शरीरवाले अनुपम विक्रमी वानर दस योजन तक व्याप्त हो गये और वृक्षों तथा शैलो की सहायता से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गये । उनके गर्जन, तर्जन, तथा उनको हुकार सारी लका में व्याप्त हो ऐसे भय का उत्पादन करने लगे कि दनुज-स्त्रियो के गर्भ-पात होने लगे । वानर-सेना का यह कोलाहल सुनकर राक्षस-समूह भय में काँप उठा ।

३९ अंगद का दौल्य

अपने मन्त्रियो की सम्मति प्राप्त करने के पश्चात् राम ने अगद को बुलाकर बड़े स्नेह के साथ कहा—‘हे अगद तुम हमारा दूत बनकर रावण के पास जाओ और उससे कहो कि हे रावण, तुमने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के गर्व के कारण मुनियो तथा देवताओ को दुःख दिया है । राम के ममक्ष तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा । रामचन्द्र तुम पर आक्रमण करने आये है । जिस शक्ति के मद में आकर तुम सीता को उठा लाये, अब युद्ध में उस शक्ति का प्रदर्शन करो । राम के बाणो के प्रहार से विचलित हुए बिना, शूर के समान उनका सामना करो । यदि ऐसा करने में तुम्हें भय हो, तो सीता को लाकर सौप दो और सुख में रहो । यही तुम्हारे लिए उचित है । राक्षस ने कृपा करके विभीषण को लका का राजा बना दिया । वे अवश्य तुम्हारा सहार करेंगे । उनके सहार करने के पहले ही, अपने सभी सगे-सबधियो को एक बार भली भाँति देख लो, लका की ओर निहारो, अपनी प्रिय पत्नियो का विचार करो । अपने पुत्र, अनुज तथा सगे-सबधियो को युद्ध में मारे जाने से उन्हें बचाने का उपाय सोचो । इसमें कोई सदेह नहीं है कि तुम अपने बंधु-मित्रो के साथ मारे जाओगे, तुममें से एक भी नहीं बचेगा । मरने के पश्चात् जो कार्य करने के लिए शेष रह जायेंगे, उन्हें अभी पूरा कर लो । अब यही तुम्हारी स्थिति है ।’

राम के इन वचनो को सुनकर वह श्रेष्ठ वानर, मन-ही-मन हर्षित हो दुष्ट राक्षस-रूपी वन को भस्म करने के लिए उत्पन्न प्रलय-काल की अग्नि के समान, उस इन्द्र के शत्रु रावण को मारने के लिए आये हुए मृत्यु-दूत के समान, उड़कर रावण की सभा में पहुँचा । उसे देखकर राक्षसो ने कहा—‘देखो, वह फिर आ गया ।’ यो कहते हुए वे आयुधो से युक्त हो अगद पर आक्रमण करने का उपक्रम करने लगे । तब रावण ने अपना हाथ उठाकर उनका वर्जन करने हुए कहा—‘रको’ । फिर उसने अगद को देखकर कहा—‘कहो, तुम कौन हो ?’ अगद ने कहा—‘हे रावण, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं राम का दूत हूँ ।’ तब रावण ने कहा—‘राम कौन है ?’ अगद बोला—‘अपने अनुल पराक्रम से जिमने परशुराम को जीता, वही रणकुशल (व्यक्ति) राम है ।’ रावण ने पूछा—‘परशुराम कौन है ?’ अगद ने उत्तर दिया—‘जिसने उद्धत कार्तवीर्य जैसे वीर को मारा, वह असमन पराक्रमी परशुराम है ।’ तब रावण ने पूछा—‘वह कार्तवीर्य कौन है ?’ अगद ने कहा—‘क्या तुम नहीं जानते ? जिसने तुम्हें जीतकर बंदी बनाया था, वही वीर कार्तवीर्य है ।’ फिर, रावण ने पूछा—‘तुम किसके पुत्र हो ?’ अगद ने उत्तर दिया—

‘क्या तुम इनने शीघ्र उस इन्द्र-पुत्र वालि को भूल गये, जिसने तुम्हें समुद्र में डुबो दिया था। मैं उसी वालि का पुत्र हूँ। मेरा नाम अगद है। हे असुरेश, तुम युद्ध-भूमि में मेरे बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। क्या, तुम उस काकुत्स्थ-अशज राम को नहीं जानते, जिन्होंने मोहित होकर उनके पास जानेवाली शूर्पणखा की नाक और कान काटकर उसके रक्त में भीगे हुए अपने खड्ग को खर तथा दूषण के अंगों के रक्त में घोया था। तुम क्यों प्रलाप करने हो? तुम अब जाओगे कहाँ? बचोगे कैसे? गर्वाध हो तीनों लोको को भूलसानेवाले तुम्हें राम अवश्य मारेंगे। तुम शूर होकर विना विचलित हुए उनका सामना करो, यही उचित है। सुनो, अब लका पर शासन करना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। लका का राजा अब विभीषण ही है। तुम इतनी विपत्ति क्यों भोगना चाहते हो? तुम उदार मन से सीता को रामचन्द्रजी के पास पहुँचा दो और अपने प्राण बचा लो। अपने से बलवान् राजाओं से सधि कर लेना इस पृथ्वी पर सभी राजाओं का उचित धर्म है।’

इन बातों को सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर उस महाबली अगद को पकड़ने की आज्ञा दी। कुछ बलवान् राक्षस तुरत उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। अगद भी अपनी शक्ति दिखाने के उद्देश्य से अपने-आप उनके हाथों बदी बन गया और उसके पश्चात् अपनी समस्त शक्ति के साथ आकाश की ओर उछलकर ऐसा भटका दिया कि दस सहस्र राक्षस-वीर नीचे गिरकर चूर-चूर हो गये। इससे सतुष्ट न होकर अगद ने राक्षसों के उस सभामंडप पर ऐसा पद-प्रहार किया कि वज्रपात में गिरनेवाले हिमाचल के शिखर के समान वह मंडप टुकड़े-टुकड़े होकर गिर गया। रावण ने फिर से राक्षसों को आज्ञा दी कि छोड़ो मत, अगद को अवश्य पकड़ लो। तब राक्षसों ने आकाश की ओर उड़कर अगद पर परशु, शूल, करवाल, गदा आदि कई आयुधों का प्रहार करके उसे पीड़ित करने लगे। तब अगद ने अपने मुक्कों से उन राक्षसों पर ऐसा प्रहार किया कि उनकी आँतें निकल आईं और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब खर के पुत्र सूकर ने अगद को देखकर कहा—‘ठहरो अगद, अब तुम कहाँ जा सकने हो?’ इस प्रकार, घोर गर्जन करते हुए उसने अपना धनुष उठाया और पाँच तेज बाण अगद के मस्तक पर चलाये और उसकी बाहुओं पर दस बाण चलाये। इससे क्रुद्ध होकर अगद ने उस असुर पर अपनी मुष्टि से ऐसा प्रहार किया कि उसके सिर के कई टुकड़े हो गये और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर सभी राक्षस भय से छटपटाने लगे और रावण भी बड़ी चिंता में पड़ गया।

तारा-पुत्र अंगद शीघ्र राम के पास पहुँचा, और प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा—‘हे देव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने रावण के पास जाकर उसे सारी बातें समझाई। किन्तु, उसने मेरी बातों की अवहेलना कर दी। हे राजन्, आपने नीति के अनुसार उसे समझाने की चेष्टा की है; किन्तु वह तो आपके बाणों को अपने प्राणों की आहुति देना चाहता है। वह मरने का दृढ़ निश्चय किये बैठा है। उसका अंत आसन्न है; इसलिए हे देव, आप युद्ध में उस दशकृष्ण का वध कर डालिए। हे अनघ, आप (रावण को मार कर) देवताओं को प्रसन्न कीजिए।’ इस प्रकार उसने लका में घटी हुई सभी बातों का वर्णन करके राम को सुनाया। अगद की शक्ति का परिचय प्राप्त करके राम भी हर्षित हुए।

वहाँ सभी राक्षस रावण को देखकर कहने लगे—'हे देव, आप इस प्रकार चुप बैठ रहेंगे, तो कार्य कैसे चलेगा। वह देखिए, राघव कपि-सेना के साथ लका को घेरे हुए है। अब आप अपना प्रताप कब दिखायेंगे? हमें भेजिए। हम युद्ध में राम-लक्ष्मण को जीतकर आयेंगे।'।

४०. रावण का अपना वैभव प्रदर्शित करना

इन बातों को बड़े चाव से सुनकर रावण ने सोचा कि मैं अपना वैभव रामचन्द्र को दिखाऊँगा, जिसमें सुग्रीव आदि भयभीत हो जायँ। इसके पश्चात् उसने उन सभी वस्तुओं को मँगाया, जिन्हें उसने अपने भयकर प्रताप के प्रदर्शन से इन्द्र, धनेन्द्र तथा नागेन्द्र को जीतकर प्राप्त किया था। उसने उज्ज्वल कातियुक्त पीतांबर धारण किये, चारों ओर सौरभ विकीर्ण करनेवाले मृगमद, घनसार आदि सुगन्ध-मिश्रित मनोज्ञ चदन का लेप किया; सरस, मज्जुल पाणिजात-पुष्प-रचित मालाएँ धारण की, पद्मराग आदि बहुरत्न-खचित ककण, मुद्रिका, केयूर, भुजाभरण, कठाभरण आदि धारण किये; अपनी मणियों की प्रभा से गडस्थली को दीप्त करनेवाले कुडल पहने; सूर्य-मंडल के समान उज्ज्वल तथा अपनी प्रभा से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करनेवाले मुकुट अपने दसों सिरो पर धारण किये; इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत, वरुण, मरुत्, कुबेर एवं ईशान का दर्प चूर करके, उन पर प्राप्त विजय की सूचना देनेवाला तोड़र अपने पैर में पहना, धनुष, बाण, चक्र, परशु, त्रिशूल, करवाल, पाश, मुद्गर, चक्रहास आदि बीस आयुध अपने बीसों हाथों में धारण किये, और परिचारकों के साथ लेकर उत्तर दिशा के बुर्ज की ओर रवाना हुआ। उसके आप्तजन शूलों से सज्जित हो उसके चारों ओर चलने लगे। भूषण तथा वस्त्रों से अलंकृत होकर उसके मंत्री उसके दोनों ओर चल रहे थे। कई हजार राक्षस असंख्य स्वर्ण-टोपों से विलसित अस्सी हजार धवल-छत्र लिये हुए थे। अस्सी हजार कामिनियाँ शेषनाग के फन के समान दीखनेवाले मुद्गर व्यजन (पक्षा) लिये हुए चल रही थी। चंद्रकिरणों के सदृश दीखनेवाली अस्सी हजार अप्सराएँ दोनों ओर चन्द्रिका की भाँति उज्ज्वल चामर धीरे-धीरे झुलाती हुई अपने ककणों का मूढु शिजन सुना रही थी। बदी-मागधों का समूह देवताओं पर (दानवों की) विजय का स्फूर्तिदायक स्तुति-पाठ कर रहा था। उसके आगे मंद, मध्यम, उच्च आदि स्वर-भेदों के साथ चद्रवदनी स्त्रियाँ गीत गा रही थी। ऐसी ठाट-बाट से सज्जित हो रावण दुर्ग के उत्तरी बुर्ज पर अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए मणिमय प्रभा-समन्वित सिंहासन पर आरूढ होकर ऐसा दीख रहा था, मानो पश्चिम पर्वत पर सूर्य-बिंब दिखाई पड़ रहा हो। राक्षसों के आतपत्रों ने सूर्य को ढक दिया था, इसलिए चारों ओर अंधकार फैलने लगा।

उस समय राम माया-मृग के चर्म पर, इन्द्रनील मणि के समान प्रकाशमान अपनी देह का वाम भाग टेके हुए, वाम-भुजाग्र को अपने रूपोल का आधार बनाकर, सूर्य-बिंब के समान उज्ज्वल सुग्रीव की जाँघों पर, राजसी ठाठ से, अपना अतुल सौंदर्य को प्रकट करते हुए लेटे थे और अपने प्रिय-भक्त पवन-पुत्र के जाँघों पर पैर पसारकर आराम कर रहे थे। पवन-पुत्र उनके चरण कमलों को धीरे-धीरे दबा रहा था। अंगद उनके दक्षिण-हस्त

की अँगुलियों को दोनों हाथों से दबा रहा था। बदी-मागधों की तरह उनके चारों ओर नल-नील तथा जाववान् आदि प्रमुख सेनापति उनकी स्तुति कर रहे थे—‘हे सकल लोकाराध्यचरण, हे जानकी-हृदयाबुज-षट्चरण, हे दीनार्तिहरण, हे स्तवनीयकृपाभरण, हे हर-वद्य नाम, हे सूर्यकुलाब्धिसोम, हे शत्रुनाशक, हे रघुराम आदि।’ तब रामचन्द्र पूर्णचन्द्र के समान शोभायमान होनेवाले अपने मदहास-युक्त तथा अविरल करुणामृत से परिपूर्ण मुख-मङ्गल में विलसित धवल अरविद की सुदरता को भी परास्त करनेवाले नेत्रों की काँति को, चारों ओर विकीर्ण करते हुए, अपने ललित कटाक्ष-रूपी चद्रिका की वृष्टि करते हुए, अपने दोनों हाथों के समीप ब्रैटे हुए, राक्षसों के भेदों के ज्ञाता विभीषण के साथ अत्यन्त रहस्यपूर्ण वार्त्तालाप कर रहे थे। उस समय उनका मुँह दक्षिण की ओर था। इसलिए उन्होंने रावण को देखकर कहा—‘हे विभीषण वहाँ देखो। उस दुर्ग के उन्नत शिखर पर कोई सिंहासन पर आसीन है। उस पर तने हुए शरत्काल के बादलों के सदृश दीखनेवाले छत्र-समूहों के कारण पृथ्वी पर छाया पड़ी हुई है। इस ढग से वहाँ बैठा हुआ वह व्यक्ति कौन है?’

तब राम को देखकर विभीषण ने निवेदन किया—‘हे देव, वही देवताओं का शत्रु रावण है; युद्ध में अमरों के पैर उखाड़नेवाला वही है। समस्त देवताओं से प्राप्त दिव्य-आभूषणों को धारण किये हुए, अपने आप्त दनुज-वीरों की सेवाएँ ग्रहण करते हुए, अस्सी सहस्र छत्रों, चामरों तथा व्यजनो से सुसज्जित हो, अपना वैभव तथा ठाठ-बाट आपके समक्ष प्रदर्शित करने के निमित्त वह दुर्ग के वुर्ज के ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ है।’

४१. राम का रावण के छत्र-चामरों पर अस्त्र चलाना

इन बातों को सुनकर राम हँसे और रावण का गर्व-भग करने का निश्चय करके लक्ष्मण से धनुष लाने के लिए कहा। फिर अपने पीछे बैठे हुए लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर दायें पैर तथा दायें हाथ के अगूठे से उस पर प्रत्यचा चढाई। फिर लक्ष्य साधकर, अर्द्धचन्द्र शर को चढाया और प्रत्यचा को अच्छी तरह खींचकर आघे लेटे-लेटे ही रावण के छत्र-चामर तथा व्यजनो पर बाण छोड़ दिया। राम का वह एक शर क्रमशः दसों सैकड़ों, हजारों, लाखों तथा करोड़ों की सख्या में बढ़कर रावण के निकट पहुँच गया और तालवृत्तों को धारण करनेवाली सुन्दरियों, चामरों को डुलानेवाली स्त्रियों, संगीत गाने वाली कमलमुखियों, कीर्त्तिगान करनेवाली रमणियों, धवल छत्रों को धारण करनेवाली दैत्य-बालाओं और सेवा में खड़े हुए भटों के हाथों को विना काटे ही विना उनके कटों का विच्छेद किये ही, विना उनके हृदयों में प्रवेश किये, रावण के मुकुटों को नीचे गिराये विना ही, उसका सिरो को काटे विना ही, उन छत्र, चामर, व्यजन आदि के उपरी भागों को काटता हुआ चला गया। यह देखकर सभी राक्षस सभ्रम तथा आश्चर्य से चकित रह गये। इस प्रकार, कटे हुए छत्र, चामर, तथा व्यजन उड़कर समस्त आकाश में व्याप्त हो गये; फिर वे जहाँ-तहाँ, उस सभा में, कुछ राक्षसों पर, कुछ लका में, कुछ लवण-समुद्र में, और कुछ उस लकेश्वर पर गिरने लगे। इस प्रकार, अद्वितीय ढग से अपना कार्य पूरा करके वह दिव्य शर फिर राम के सुपीर में आकर प्रविष्ट हो गया। छत्र, चामर

तथा व्यजनो से रहित हो, केवल दण्डो को अपने हाथो में थामे खड़े रहनेवाले उन असुर-पवित्तयो के मध्य रावण सभ्रमित हो, अपना समस्त गर्व खोकर बड़ी देर तक बैठा रहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था, मानो खड़े हुए राक्षस उसे ले जानें के लिए आये हुए यमदूत हो । रघुराम के धनुर्विद्या-कौशल का बार-बार विचार करके उसका सिर काँपने लगा, और मन-ही-मन वह उनके (राम के) पटुत्व को स्वीकार करने लगा । फिर, प्रकट रूप से वह रघुराम की प्रशंसा करने लगा ।

४२. रावण का राम की धनुर्विद्या की प्रशंसा करना

उसने कहा—‘हे श्यामवर्ण रघुराम, हे नयनाभिराम, हे कोदंड-दीक्षा-गुरु, हे वीरा-वतार, हे शर-सधान-कला-निपुण हे श्रेष्ठ चाप के कर्षण में कृपण, हे दृढबाहु, हे विख्यात मुष्टि-सपन्न, हे विजित शत्रुओ के भाग्य-विधाता, हे विजय-मपन्न, हे श्रेष्ठ मानव-राजकुमार, हे नव्य-दिव्य-अस्त्र-सपन्न, हे चंचल तथा घोर शरो ने पूर्ण अक्षय तूणीरधारी, हे वीराप्र-गण्य, हे विश्वशरण, हे राम भूपाल, तुम्हारे समान इस ससार में और कौन धनुर्धर हो सकता है ? त्रिपुरो का नाश करने में (निपुण) अकेले एक शिव ही है और बाणों को चलाने में निपुण तुम एक ही हो ।’ इस प्रकार, रावण अपने दमो मुँहो से रामचन्द्र की प्रशंसा करने लगा ।

यह देखकर (उसके) मत्रियो ने उस दैत्यनाथ से कहा—‘हे दैन्य-पुगव, शत्रुता का विचार किये बिना, कही शत्रु की ऐसी प्रशंसा कोई कर सकता है ? यदि आप ऐसी प्रशंसा करेंगे, तो शत्रु तथा मित्र, यह सोचकर कि आप भयभीत हो गये है, आपको उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे । यह राजनीति नहीं है ।’ तब रावण ने हँसकर उनसे कहा—‘धनुर्विद्या की निपुणता, महान् पराक्रम, सौंदर्य तथा बाहुबल आदि गुणो में श्रेष्ठ, कोदंड-दीक्षा-गुरु, राम-भूपाल की समता इन तीनों भुवनो में कौन कर सकता है ? हरिहर तथा ब्रह्मा भी उसकी समता नहीं कर सकते । क्या, श्रेष्ठ शूरो की महत्ता को स्वीकार नहीं करनी चाहिए ?’ इस प्रकार, नीति-पूर्ण वचनो को कहने के पश्चात्, दनुजेश्वर वहाँ से चला गया । तब राक्षस-नेताओ ने कटकर गिरे हुए छत्र-चामर आदि को देखकर अत्यंत भयविह्वल हो वहाँ से चले गये और कई प्रकार से राम के पराक्रम तथा शौर्य की प्रशंसा करते हुए कहने लगे—‘राघव करुणा-समुद्र है, इसलिए उनके भयकर बाण ने केवल छत्रो को ही काटा । यदि वे उसी प्रकार और एक बाण चलायें, तो हमारे सिर भी उड़ने लगेंगे ।’

४३. वानरों का लंका ध्वंस करना

यहाँ पर राघवेन्द्र ने आगे के कार्य के सबध में अच्छी तरह मन-ही-मन विचार किया और फिर अपने अनुज विभीषण तथा सूर्य-पुत्र आदि आप्त-वर्ग की सम्मति लेकर शुभ मूहूर्त्त में वानरो को लंका पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । वानर-सेना उसी क्षण, भयकर गर्जन करते हुए—‘हे देव, हमारा शौर्य देखिए । आपके लिए हम किस प्रकार प्राण देते हैं, देखिए ।’ यो कहते हुए पर्वतो तथा वृक्षो को काँपाते हुए, करोड़ो वानरों ने एक साथ मिलकर लंका के दुर्ग को चारो ओर से घेर लिया । ‘राम की अवश्य जय

होगी—ऐसा घोष करते हुए, वानर-वीर अपनी महान् शक्ति को प्रकट करते हुए पर्वतो तथा वृक्षों को जहाँ-तहाँ से जमा करके परिखा को पाटने लगे । उस समय वे ऐसे दीख रहे थे, मानो वध्य भूमि पर स्थित वधिक ही ।

तब कुमुद दस करोड़ वानरो की सेना लेकर पूर्व द्वार की ओर गया । बाहुबली शतबली अस्सी करोड़ की सहायक सेना लेकर आनेवाले राक्षसों के आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से दक्षिण के द्वार पर जाकर ठहर गया । सुषेण दस करोड़ सैनिकों को लेकर पश्चिम के द्वार पर चला गया । राम, लक्ष्मण, विभीषण तथा सुग्रीव उत्तर के द्वार पर ही रहे । गज, गवय, गधमादन तथा शरभ, दुर्ग के चारों ओर बार-बार भ्रमण करते हुए वानरो को दुर्ग पर चढ़ जाने के लिए उत्साहित कर रहे थे । तब वानर उद्वल गति से एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए, दुर्ग पर ऐसे चढ़ गये कि, मालूम नहीं होता था कि कौन बुज है, और कौन कगूरा । फिर, स्तूपों पर चढ़कर वे भयकर गर्जन करते हुए, अपनी पूँछों का फटा बनाकर पत्थरों को किले के भीतर फेंकने लगे । फिर बड़े-बड़े वृक्षों को तने में उखाड़कर बड़े वेग से उन्हें अंदर फेंककर किले के भीतर स्थित घरों को तोड़ने लगे । फिर उन्होंने भीतर के कितने ही भवनो, मण्डपों और कगूरों को अपने पदाघात से चूर-चूर कर दिया, बड़े-बड़े पहाड़ों को फेंककर दुर्ग को गिराते और उसके नीचे दबकर भरनेवाले राक्षसों को देखकर हँसने लगे । वानर, राक्षसों को ललकारते हुए बड़ी-बड़ी शिलाओं को किले के ऊपर फेंककर उसकी ऊँची दीवारों को गिरा देते । दुर्ग के बहिर्द्वारों, राक्षसों, उनके आयुधों, पताकाओं, ध्वजाओं तथा छत्रों को गिरते हुए देखकर वानर-वीर दिशाओं को कपित करनेवाले भयकर गर्जन करते और अत्यधिक मात्सर्य से पुनः पर्वतों को लाकर दुर्ग पर फेंकने लगते । उनके कठोर प्रहारों के कारण लकापुर की ऊँची अट्टालिकाएँ गिरने लगी, वीथियाँ नष्ट होने लगी, दीवारें गिरने लगी, ऊँचे सौध टूटकर गिरने लगे, घर चूर-चूर होने लगे, और असंख्य मंदिर नष्ट-भ्रष्ट हो गये । सारा दृश्य राक्षसों के नाश की सूचना देनेवाले अपशकुन के समान बड़ा भयावह दीख पड़ता था ।

४४. राक्षसों तथा वानरों का भीषण संग्राम

तब भयभीत हो राक्षस कहने लगे—‘हमने ऐसा उत्पात कभी नहीं देखा ।’ फिर, वे विकट अट्टहास करते हुए, भयकर गर्जन करने लगे । उसके पश्चात् सभी राक्षस एक साथ एकत्रित हो, बड़े क्रोध से वानरों पर शूल फेंके, खड्ग चलाये, और गदाओं से प्रहार किये । वे वानरों के समूह में घुस गये और उनपर प्रहार करने, परशुओं से उन्हें मारने और भाले चुभोकर उन्हें परिखाओं में गिराने लगे । फिर बड़ी-बड़ी शिला-यंत्रों के द्वारा गोले फेंककर दुर्ग की दीवारों के ऊपर चढ़नेवाले वानरों को आगे बढ़ने से रोकते तथा भयकर गर्जन करते । उनके गर्जनों की ध्वनि तथा कपियों के विकट गर्जनों की ध्वनियों के कारण पृथ्वी तथा सभी दिशाएँ कपित हो गईं । व्याकुल होकर दिग्गज विधाडने लगे । भय से कपित होने से पृथ्वी में दरारें पड़ गईं । अदहन के समान समुद्र का पानी खौलने लगा । सारा संसार तप्त हो गया और भूत भयभीत हो गये । कुल-पर्वत गोलियों के समान

उछल-उछलकर गिरने लगे । शेषनाग निष उगलने लगा; कूर्म और पर्वत एक दूसरे से टकरा गये ।

तब रावण ने (कपि-सेना से) धिरी हुई भयकर राक्षस-सेना को अपने पास बुलाया और उसे उत्साहित करने हुए कहने लगा—'कपि-सेना का पीछा करके उसे किले के बाहर भगा दो ।' तुरत दुर्ग के चारो द्वारो से राक्षस-सेना इम प्रकार बाहर निकली, जैसे प्रलय-काल में रुद्र के मुख से ज्वालाएँ निकलती हैं । उम समय, भेरी, डका, पटह, शख, तुरही आदि वाद्यो के भयकर निनादो, घोडो की हिनहिनाहट, वलिण्ट हाथियो की चिघाड, रथों के चक्रों की ध्वनि तथा मन को विचलित करनेवाले सैनिको के सिहनादों के कारण समस्त ब्रह्माण्ड कपित होने लगा और सभी देवता भयभीत हो गये ।

वानर-सेना तुरत राक्षस-सेना से भिड गई । द्रुह-युद्ध होने लगा । इन्द्रजीत ने अगद पर गदा का ऐसा घोर प्रहार किया, जैसे इन्द्र ने दुर्वार गति से अपने वज्रायुध को कुल-पर्वत पर चलाया था । अगद ने भी इन्द्रजीत की समता करनेवाला अपना युद्ध-कौशल प्रकट करते हुए एक विशाल पर्वत-शृंग को उठाकर फेंका और इन्द्रजीत के रथ, सारथी तथा रथ के अश्वो को चूर-चूर कर दिया । प्रजघ ने दुर्वार गति से सपाति पर तीन अस्त्र चलाये । उसके आघात को बचाकर सपाति ने अश्वकर्ण वृक्ष को उस पर फेंका । अतिकायने विनत तथा रभ नामक वानरो को घेरकर उन पर शरवृष्टि की । किन्तु उन दोनो ने बड़े-बड़े पर्वतो को फेंककर उसकी सेना का ध्वस कर दिया । महोदर ने सुषेण को घेरकर उसके विशाल वक्ष तथा प्रशस्त ललाट पर क्रमश पाँच तथा तीन बाण चलाये । तब सिंह-गर्जन करते हुए उसने एक बड़ा पहाड उठाकर उस पर ऐसा फेंका कि महोदर का रथ अश्व तथा सारथी के साथ चूर-चूर हो गया । जाबवान् ने एक विशाल वृक्ष घुमाकर मकराक्ष पर फेंका; किन्तु उसने उसको बीच में ही काटकर, जाबवान् के ललाट, वक्ष तथा कंधो पर कई बाण मारे । इससे क्रुद्ध होकर जाबवान् ने उस पर एक विशाल पर्वत फेंका । देखते-देखते मकराक्ष का रथ सारथी तथा अश्वों के साथ नष्ट-भ्रष्ट हो गया । विद्युज्जिह्व ने शतबली को घेर लिया और उसके वक्ष पर शरवृष्टि की, किन्तु शतबली ने अत्यत वेग से उस पर एक बड़ा वृक्ष फेंका । गज को कई राक्षसो का संहार करते हुए देखकर प्रमद ने क्रोध से उस बली वानर के वक्ष पर अपना शूल चलाया । तब गज ने एक साल-वृक्ष से उस राक्षस पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस वही ढेर हो गया । (उसे मरते देख) सभी वानरो ने हर्षनाद किया । कुभकर्ण का ज्येष्ठ पुत्र कुभ नामक वीर वानरो को पकड-पकडकर निगलने लगा, तो उसे देखकर धूम्र ने एक वृक्ष से भारा । क्रूर देवानक ने गवाक्ष के विशाल वक्ष पर पाँच शर चलाकर उसे अत्यत पीडित किया, तो उसने बड़े वेग से एक साल-वृक्ष उस पर फेंका । तब उस राक्षस ने सात बाणो से उम वृक्ष के खड-खंड कर दिये और गवाक्ष पर नौ अस्त्र चलाये । तब गवाक्ष ने एक पहाड उस राक्षस पर फेंकते हुए कहा—'लो, इसे सँभालो ।' सारण ने ऋषभ पर एक मूसल चलाया, तो ऋषभ ने उसके वक्ष पर एक बड़ा वृक्ष फेंका । इससे उसके धनुष-बाण टूट गये और वह मूर्च्छित हो गया । पहाड जैसे हाथी पर आसीन हो जब त्रिगिर ने शरभ के सिर पर तोमर चलाया,

तब उसने क्रोध में आकर उस राक्षस पर सप्त-पर्ण वृक्ष का ऐसा प्रहार किया, जैसे इन्द्र ने कुल-पर्वत पर (वज्र से) प्रहार किया था और उस राक्षस के हाथी को गिरा दिया । नरातक ने क्रूर गति से पनस पर तीव्र बाणों की वर्षा की, तो पनस ने भी अपनी भयकर शक्ति प्रकट करते हुए उस पर वृक्षों की वर्षा कर दी। अकपन ने एक बड़े लट्टु से कुमुद पर प्रहार किया, तो कुमुद ने भ्रुकुकर उस प्रहार से अपने को बचा लिया और उस अकपन पर मूष्टि का ऐसा प्रहार किया कि अकपन मूर्च्छित हो गया । जब धूम्राक्ष ने क्रुद्ध होकर केसरी पर बाणों की घोर वर्षा की, तब उसने धूम्राक्ष पर पर्वतों की वर्षा की और उम्मे गिरा दिया । महापार्ष्व ने बड़े रोष से महाबाहुवली गधमादन पर आक्रमण किया, तो उसने पर्वतों, वृक्षों तथा अपने दानों के प्रयोग से उस राक्षस को पीडित किया । शुक ने वेगदर्शी के वक्ष पर अस्त्र चलाये, तो वेगदर्शी ने अपने दुर्वार विक्रम से उसके रथ को अपने पैरों से कुचलकर चूर-चूर कर दिया । जब तपन ने नल का सामना किया, तब नल ने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि देखनेवाले सन्नमित हो गये और फिर विशाल पर्वत को उस राक्षस पर फेंका । तपन ने नल पर नेत्र बाण चलाये, तो नल ने एक माल-वृक्ष से उस पर प्रहार किया । जम्बुमाली ने अपनी गुह्यतर शक्ति से हनुमान् पर घोर प्रहार किया, तो हनुमान् क्रुद्ध हो उसके रथ पर कूदा और जम्बुमाली के सिर पर अपनी हथेली का ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर फूट गया । मित्रघ्न ने विभीषण पर शरवृष्टि की, तो विभीषण के शरीर से रक्त के फौव्वारे छूटने लगे । तब उग्र क्रोध से विभीषण ने उस पर गदा चलाई, तो मित्रघ्न मूर्च्छित होकर गिर पड़ा । प्रहस्त नामक राक्षस को वानरो को पकड़कर निगलते देख सुग्रीव की आँखें क्रोध में लाल हो गईं । उसने तुरत एक सप्त-पर्ण वृक्ष से उस पर प्रहार किया और उम्मे गिरा दिया । वज्रमुष्टि नामक राक्षस पर मन्द ने अपनी मुष्टि से प्रहार किया, तो वह राक्षस पृथ्वी पर ऐसा गिरा, मानो लका का बुर्ज ही गिर पड़ा हो । अशनिप्रभु नामक राक्षस को द्विविद ने एक पर्वत के प्रहार से ऐसा गिरा दिया कि स्वर्ग के देवता हर्ष-स्वनियाँ करने लगे । विशाल बाहुवली निकुभ ने अपने प्रताप का प्रदर्शन करते हुए अपने दिव्य अस्त्रों से नील को ऐसा ढक लिया, जैसे काले-काले मेघ सूर्य को आच्छादित कर लेते हैं । तब नील ने इसकी उपेक्षा करते हुए सहज ही निकुभ के रथ के चक्र को निकालकर उसे बड़े वेग से एम्मे चलाया कि सारथी का सिर भूमि पर लोटने लगा और निकुभ स्वयं भयाक्रांत होकर देखता रह गया । विरूपाक्ष सौमित्र पर शर-वृष्टि करने लगा, तो सौमित्र ने उसकी उपेक्षा करके एक ऐसा बाण उस राक्षस पर चलाया कि उसकी शक्ति जाती रही और वह मूर्च्छित हो पृथ्वी पर लुढ़क गया । उस समय सप्तघ्न, रश्मिकेतु, अग्निकेतु तथा कोपाग्निकेतु नक्षत्र चार भयकर प्रतापी राक्षस बार-बार गर्जन तथा धनुष का घोर टंकार करते हुए उमड़कर आनेवाले मेघों के समान शर-वृष्टि करने लगे । तब सूर्य-वश-तिलक राम ने सहज ही चार बाणों से उन चारों राक्षसों के सिर उड़ा दिये ।

४५. युद्ध-भूमि का वर्णन

इस प्रकार, घोर द्वंद्व-युद्ध के अविराम गति से चलने रहने से, सारी युद्ध-भूमि में दूटे हुए असंख्य धनुष, खड्गित शर, चूर-चूर हुई गदाएँ, खड्गित करवाल, दूटे हुए भाले तथा

मुद्गर, धूलि क समान बने हुए परिध तथा खड्ग, खड-खड बने हुए चक्र तथा शूल, चूर्ण के समान बने हुए लट्ट, खडित रथ-चक्र, छटपटाने हुए अश्व, गिरकर मिट्टी चाटनेवाले सारथी, सभी दिशाओं में बिखरकर पडे हुए आभूषण, टूटकर गिरे हुए रत्न, कटे हुए हाथ तथा मरकर गिरे हुए असुर भयोत्पादक ढग से स्थान-स्थान पर पडे हुए दिखाई दे रहे थे । वह युद्ध-क्षेत्र राम के वशीभूत उस कृश-समुद्र की समता करता था, जिसका गर्व राम ने अपने दुर्दमनीय शरो के प्रहार से भग कर दिया था और फलस्वरूप उसके समस्त जल के सूख जाने से जल में निवास करनेवाले वृहदाकार मीन, मकर तथा उरग छटपटाने लगे थे । उस युद्ध-भूमि में घड इस प्रकार हिल रहे थे, मानो कह रहे हो कि जो रावण गर्वाध होकर सीता को ले आया है, उसकी घड पर सिर कैसे रह सकेगा ? (कट-कटकर मरे हुए लोगो की) मज्जा रूपी कीचड, केश-समूह-रूपी मैवाग, खोपड़ी-रूपी सीप, खडित होकर गिरे हुए शिला-खड-रूपी कमठ-समूह, टूटकर गिरे हुए खड्ग-रूपी मछलियाँ, चामर-रूपी हस, श्वेत छत्र-रूपी भाग, आभूषणो का चूर्ण-रूपी वालुका, ढाल-रूपी जल-ग्रह, विशालकाय हाथियो के शव-रूपी पर्वत-खड, वानर-तथा राक्षसो के शरीर-रूपी वृक्ष, आँत-रूपी दुष्ट सर्प, मरणासन्न राक्षसो की कराह-रूपी घोष, व्याकुल अश्व-रूपी मकर, तथा गिरनेवाली पताकाएँ-रूपी लहरें, इन सब से युक्त हो सब नदियो का उपहास करती हुई रक्त की नदी युद्ध-भूमि में बहने लगी । वह सारी रण-भूमि जाह्नवी के समान ऐसी आश्चर्यजनक दीख रही थी कि मानो वह कह रही हो कि भले ही रावण पापात्मा हो, राम का द्रोही हो, लोक-कटक हो, नीच हो, तपस्वियो को मारनेवाला पापी हो, सतियो का नाश करनेवाला दुरात्मा हो, मैं उसे शरीर से मुक्ति प्रदान करूँगी, अपने में लीन कर लूँगी और उस पापी को स्वर्ग में भेजूँगी ।

उस समय लका में दैत्य-स्त्रियाँ उमडते हुए शोक-समुद्र में डूबी हुई वार-वार कह रही थी—'क्या, राघव सूर्यास्त होने से पहले इस भीषण युद्ध को स्थगित करके अपने निवास को नही लौटेंगे ? न जाने कब सूर्यास्त होगा ।' निदान सूर्य अपने दीर्घ करो को समेटकर पश्चिम समुद्र में डूबने लगा, मानो उसने निश्चय कर लिया था कि तीक्ष्ण-शर-किरण-समूह से रावण के तमोगुण को नष्ट करने के लिए भयकर-प्रताप-सपन्न राम ही पर्याप्त हैं । चारो ओर अधकार ऐसे व्याप्त होने लगा, मानो उस पापी दशकठ के नाश को सूचित करने के लिए निशा का केश-समूह चारो ओर फैल गया हो ।

सूर्यास्त होने पर भी युद्ध को विना स्थगित किये राक्षस, भयकर गर्जन करते हुए वानरो से युद्ध करते रहे । उनके अट्टहासो, ताल ठोकने की ध्वनियो, एक दूसरे को कोसने के शब्दो, दीर्घ हुकारो, एक दूसरे को बुलाने या एक दूसरे की प्रशंसा करने के शब्दो, रथ-चक्रो की ध्वनियो, रथिक तथा सारथियो के भयकर गर्जनों, धनुष के टकारो, हाथियो के घटे की ध्वनियो, उनकी चिंघाडो, तुरही-निनादो तथा अश्वो की हिनहिनाहटो से युद्ध-भूमि गूँजने लगी । उस निबिड अधकार में कई प्रकार के शब्द सुनाई पड रहे थे । कोई कह रहा था—'मारो, मारो,' तो कोई कहता था—'भागो मत, भागो मत ।' कही से सुनाई पडता था—'छोडो, छोडो', तो वही से 'मारो, मारो' की ध्वनि आ रही थी ।

कोई वह रहा था 'छोड़ो मत, मारो', तो कोई कहता था, 'सिर काट लो, सिर काट लो।' कोई पूछ रहा था—'कहाँ है ?' तो कोई कहता था—'यहाँ आने दो, यहाँ।' इस प्रकार, की विविध ध्वनियों के साथ हुकार तथा अट्टहास की ध्वनि करते हुए जब राक्षस तथा वानर युद्ध करने लगे, तब सारा आकाश धूल से व्याप्त हो गया। क्रमशः अधिकार बढ़ जाने से राक्षस-सैनिक भ्रम से अपने ही पक्ष के लोगों पर अस्त्र चलाकर मार डालते थे। वानर भी अत्यधिक क्रोध से उन पापी राक्षसों से जूझकर रथिकों को मार डालते थे, सारथियों को चीर डालते थे, रथ के अश्वों को नष्ट-भ्रष्ट कर देते थे और रथों को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऐसे पटकते थे कि उनके टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे। फिर, वे गजों पर बैठे योद्धाओं का गर्व तोड़कर, मत्त गजों को पैरों से पकड़कर उन्हें ऊपर उठाकर, नीचे पटककर मार डालते। तितर-बितर होकर दौड़नेवाले अश्वों को पकड़कर ऊपर उठाते, और उन्हें वेग से घुमाकर नीचे ऐसे पटक देते थे कि खून बहने लगता। पदचर-सैनिकों को ऐसा मारते कि उनकी रीढ़ें, वक्ष, पसलियाँ, भुजाएँ, मुँह, दाँत, सिर तथा भेजा छिन्न-भिन्न होकर चारों ओर बिखर जाते। रथों के सतत संचलन से उत्पन्न तथा अश्वों के खुरों से उठी हुई धूल आकाश की ओर इस प्रकार उड़ रही थी, मानो राक्षसों के मन की कालिमा चारों ओर व्याप्त हो गई हो। धूल के अधिकार से मिलकर आकाश भर में व्याप्त होने से वह रात्रि राक्षसों तथा वानरों के प्राणों को हरनेवाली प्रलय-काल की रात्रि के समान दीख रही थी।

अपने लिए रात्रि अनुकूल होने से सभी राक्षसों ने अपने गर्जनों से त्रिकूटाचल को गुंजायमान करते हुए युद्ध-सन्नद्ध होकर एक साथ राम को घेर लिया और उन पर बाण-वृष्टि करने लगे। तब राम ने अग्नि-बाण चलाकर अधिकार को दूर कर दिया और अपने साथ युद्ध करनेवाले महोदर, महापार्व्व, सारण, शुक, वज्रदत्त तथा महाकाय पर बड़े वेग से बाण चलाये। उनसे पीड़ित हो वे छोड़ो भय-वस्तु राक्षस भाग खड़े हुए। बचे हुए अन्य राक्षस-सैनिक राम के तीव्र शरों से नष्ट हो गये।

४६. इन्द्रजीत का माया-युद्ध

अगद के हाथों से फँके हुए गिरि-शृंग के कठोर प्रहार से रथ, सारथी तथा अश्वों को खींचकर इन्द्रजीत शीघ्र यज्ञ-शाला की ओर गया। राक्षस आवश्यक हवन-सामग्री ले आये। तब उसने, रक्तवर्ण के अधोवस्त्र, उत्तरीय तथा शिरोवस्त्र तथा पुष्प-मालाएँ पहनी। फिर, उसने अग्नि के योग्य परिस्तरण (होमकुंड के चारों ओर रखे जानेवाले कुश) के रूप में भाले, भयकर शस्त्र तथा शर रखे और क्रमशः काले बकरे के कठ के रक्त तथा ताल की समिधाओं से होम करने लगा। तब अग्नि, विना धुआँ छोड़े विजय की सूचना देनेवाली अपनी चंचल शिखाओं को व्याप्त करते हुए जलने लगी और इन्द्रजीत से प्रस्तुत आहुतियों को ग्रहण किया। इस प्रकार, इन्द्रजीत ने अत्यंत भक्ति से यथाविधि हवन पूरा किया और अग्निदेव से चार घोड़ों तथा विविध शस्त्रास्त्रों से युक्त एक स्वर्ण-रथ प्राप्त किया।

इसके पश्चात् वह उस रथ पर आरूढ़ होकर, ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करनेवाले अपने भयकर गर्जनों से इन्द्रादि देवताओं को भयभीत करते हुए राक्षस-सेनाओं के पास

आया और अदृश्य होकर, आकाश से ही, राम-लक्ष्मण पर घोर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। राम तथा लक्ष्मण ने भी असह्य शर आकाश की ओर चलाये, किन्तु उनमें से एक भी इन्द्रजीत को नहीं लगा। वह राक्षस आकाश में अदृश्य रहकर बड़े गर्व से सभी दिशाओं में घूमते हुए श्रेष्ठ वानर-वीरो का सहज ही नाश करने लगा। सूर्य-किरणों के समान आकाश से आनेवाले उसके क्रूर अस्त्र, वानरो तथा रामचन्द्र को दिखाई पड़ते थे; किन्तु उसके रथ की ध्वनि, घोड़ों के खुरों की ध्वनि, धनुष का टकार, सारथी की बातें, कोड़े की ध्वनि, रथिक (इन्द्रजीत) का गर्जन तथा उसका रूप, रथ तथा उसकी ध्वजाएँ कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। यह विचित्र युद्ध उस कपि-सेना को ऐसा लग रहा था, मानो वालि का सहार करनेवाले राम पर क्रुद्ध होकर इन्द्र अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से भयकर बाणों की वर्षा कर रहा हो। कपि-सैनिकों के अंगों को लक्षित होते हुए देखकर रामचन्द्र से लक्ष्मण बोले—‘हे देव, आकाश में छिपकर युद्ध करनेवाले इस राक्षस के प्रताप से, हमारी सहायता करनेवाले ये वानर इस प्रकार कटकर मर रहे हैं। अब मैं उस पर ब्रह्मास्त्र चलाकर, उसको तथा उसके वध को भस्म कर दूँगा।’

तब राघव अपने अनुज से बोले—‘हे लक्ष्मण, एक व्यक्ति के लिए क्या कहीं बहुतों का सहार करना उचित है? क्या, तुम युद्ध-नीति नहीं जानते? भय से छिपनेवालों को, पीठ दिखाकर भागनेवालों को, हाथ जोड़कर प्रणाम करनेवालों को, शरणार्थियों को, पराजितों को, शस्त्रहीन लोगों को तथा सोनेवालों को मारना कल्याण-कामी तथा पुण्यात्मा क्षत्रियों का धर्म नहीं है। मायावी इन्द्रजीत का वध करने में समर्थ काल-रूपी वानरो को भोजना ही अब उचित है; ब्रह्मास्त्र चलाने का यह समय नहीं है।’

इस प्रकार कहने के पश्चात् उन्होंने नील, अगद, हनुमान्, शतघ्न, गज, गवाक्ष, विक्रमी, पनस, केसरी, शरभ, ऋषभ, सन्नाथ, ग्रथन, गवय, नल, मेन्द तथा द्विविद नामक वानरो को इन्द्रजीत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तब वानर-वीर अत्यधिक वेग से आकाश में उड़ गये और वृक्षों तथा पर्वतों को फेंकने लगे; किन्तु बड़े दर्प के साथ उस राक्षस-राजकुमार ने उन पर भयकर शर-वृष्टि करके उन्हें अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे उस दैत्य को आकाश में कहीं भी न देख सकने के कारण राम-भूपाल के निकट लौट आये। प्रलय-काल के मेघ के समान काला तथा विशाल शरीर एवं क्रोध से भरी अरुण नेत्रों से युक्त अपना भयंकर रूप (दूसरों की) दृष्टि से बचाकर मेघनाद कहने लगा—‘हे राजकुमारो, युद्ध में मेरे रूप को देखना सहस्राक्ष इन्द्र के लिए भी असंभव है। तुम किस गिनती में हो?’ इस प्रकार कहते हुए उसने आकाश को कँपाते हुए धनुष का भयंकर टंकार किया, वज्रसम घोर बाणों को दाशरथियों पर चलाया और कवचों को छिन्न-भिन्न करने की शक्ति रखनेवाले कितने ही अस्त्र चलाये। इससे संतुष्ट न होकर इन्द्रजीत ने यम के समान भयंकर रूप धारण करके अत्यधिक क्रोध से वज्रपात के सदृश भयकर तथा क्रूर सर्प-बाणों को राम-लक्ष्मण पर चलाया। तब उन्होंने अपने शक्तिसंपन्न बाणों से उस राक्षस पर कई श्रेष्ठ बाण चलाये; किन्तु इन्द्रजीत ने उन्हें चूर-चूर कर दिया और फिर असंख्य बाणों की वृष्टि कर दी। तब राम-लक्ष्मण उसी ओर बाण चलाने लगे, जिस

ओर से उसके शर आते थे । यह देखकर इन्द्रजीत ने उन दोनों सूर्यवशियों को नागपाश से ऐसे बाँध दिया, मानों कह रहा हो कि सर्प के साथ रहना तुम्हारे लिए पहले से ही सहज रहा है, अब भी उनके साथ ही रहो । राम-लक्ष्मण ने भी (इन्द्रजीत को प्राप्त) ब्रह्मा के वर का सम्मान करने का निश्चय किया और वे आदिनारायण के वशज, उस राक्षस-राजकुमार के द्वारा प्रयुक्त नाग-पाश से बँध गये । 'ये आज राम का रूप धारण किये हुए हैं; किन्तु विचार कर देखा जाय, तो इन्हीं ने वामन का रूप धारण करके तीन पग भूमि माँगी थी और कृतघ्न हो बलि को बाँधा था । भला उसका फल, मनुष्य का जन्म लेने के पश्चात् मिले बिना कैसे रहेगा'—इस प्रकार के लोक-कथन के अनुकूल ही रामचन्द्र अपने द्वारा उत्पन्न माया से आप बँध गये ।

माया के बँधनो में बँधे हुए राम सुघ-बुध खोये-से पड़े रहे । यह देखकर देवता दिग्भ्रात हुए और वानर खिन्न हुए । तब दुःखी सुग्रीव को देखकर विभीषण ने कहा— 'हे सुग्रीव, ऐसे क्यों दुःखी हो रहे हो ? चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, उसके जीवन में विपत्तियाँ तो आती ही हैं । यदि सूर्यवशज नाग-पाश से बँधे हुए हैं, तो क्या हुआ ?' यो कहकर उसने अपनी माया की दृष्टि से रावण के पुत्र को आकाश-वीथी में देखा और जल को अभिमंत्रित करके उससे राम-लक्ष्मण की आँखों को पोछकर, उन्हें मेघनाद को दिखाया । उसके बाद सुग्रीव ने तुरन्त एक विशाल पर्वत को उखाड़कर इन्द्रजीत पर फेंका, किन्तु उसने उसे बीच में ही खड-खड कर दिया और तीव्र शर-वृष्टि से सुग्रीव को ऐसे त्रस्त एव व्याकुल कर दिया कि सुग्रीव को समर में पीठ दिखानी पड़ी । जो राक्षस सुग्रीव के प्रताप से भयभीत थे, वे इसे देखकर बहुत हर्षित हुए । इन्द्रजीत इस विजय से अत्यधिक मोद-मग्न हो, अपने सैनिकों के साथ लंका में वापस चला गया और रावण से कहने लगा—'मैंने सर्प-बाणों से कपियों का नाश किया और इक्ष्वाकु-वशजों को व्याकुल कर दिया है ।'

अपने पुत्र की वीरता पर मन-ही-मन हर्षित होते हुए रावण ने शीघ्र ही त्रिजटा को बुलाकर कहा—'राम को प्राप्त करने का दृढ विश्वास अपने मन में धारण किये रहने से भूमिसुता मेरा तिरस्कार कर-रही है । आज इन्द्रजीत के हाथों में राम की जो दुर्गति हुई है, उसे सीता को दिखाओ । सीता को शीघ्र पुष्पक-विमान पर बैठाकर ले जाओ और राम की दशा दिखा लाओ, जिससे वह राम की आशा छोड़कर मुझे स्वीकार करे ।'

४७. नाग-पाशबद्ध दाशरथियों को देख सीता का दुःखी होना

रावण की आज्ञा मानकर त्रिजटा दानवियों के साथ सीता को पुष्पक-विमान पर बैठाकर ले आई और युद्ध-क्षेत्र में गिरे हुए वानरो तथा राम-लक्ष्मणों को दिखाया । वह कमल-लोचनी उनकी दशा देखकर अत्यंत दुःखी होकर अविरत अश्रुधारा बहाती हुई विलाप करने लगी । वे कहने लगी—'हाय राम, आपकी धनुर्विद्या कहाँ लुप्त हो गई ? आपमें ही स्थित हरि तथा हर आदि देवों को भी भयभीत करनेवाली आपकी बाण-शक्ति आज कैसे नष्ट हो गई ? इस संसार में आप ही अकेले परशुराम की भी जगत्प्रेक्षा करने की शक्ति रखते हैं । सभी मुनि तथा नाग, आपकी सहायता के लिए सतत तत्पर रहते हैं । हाय, ऐसे नाग आज आपको बाँधनेवाले पाश बन गये हैं ! सम्पुद्रिकों ने मुझे देखकर कहा था कि

तुम्हारे शरीर में सब प्रकार के शुभ चिह्न हैं, तुम्हारे चरणतलों में रेखाएँ तथा कमल हैं; इसलिए पनि के साथ तुम्हारा राजतिलक होगा, तुम्हें योग्य पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम चिरसुहागिन रहोगी। हे सूर्यवशतिलक, उनकी सभी बातें आज मिथ्या हो गईं। उन्होंने मुझे देखकर यह भी कहा था कि 'तुम्हारे (सीता के) चिकुर भ्रमर-समूह के समान नीले तथा सुंदर हैं, कटि क्षीण है, एक दूसरे से मिलनेवाली टेढ़ी भौहें हैं, विजली की-सी कांति से युक्त दाँत हैं; विकृतिहीन स्थूल तथा वर्तुलाकार जाँघें हैं; हाथ, ललाट, नेत्र, मूँह तथा चरण सुंदर लक्षणों से समन्वित हैं, कातियुक्त तथा स्निग्ध नखों से युक्त सुंदर अंगुलियाँ हैं, वर्तुलाकार, विवर्द्धित तथा सूक्ष्म अग्रभाग से युक्त दो कुच हैं, स्निग्ध एवं विशाल वक्ष तथा पार्श्वभाग हैं, नाभि गभीर तथा सुंदर है तथा तुम्हारा शरीर दिव्य तथा कमनीय कांति से समन्वित है; अतः तुम्हारे समान भाग्यशालिनी कोई नहीं है।' हे राजन्, मेरा वह भाग्य आज ऐसा फूट गया है? आर्यों की यह उक्ति कि ऐसे षोडश लक्षणों से सपन्न रमणी अत्यंत भाग्यशालिनी होगी, आज मिथ्या साबित हुई। हे राजन्, यह सब मेरे दुर्भाग्य का फल है। आर्यों का कथन है कि जिस कन्या के, लाल कमल की-सी सुंदर हथेलियाँ हों, पल्लव के समान अरुण कातिवाले चरण हों, क्षीण कटि हो, मदहास से युक्त मुख-कमल हो, वह चिर सौभाग्यवती होती है। यह कथन भी भूठ ही साबित हुआ। हे राजन्, मेरी साधना का यही परिणाम हुआ। मुझे चुराकर ले आनेवाले भयंकर राक्षस की खोज करके मेरा पता आपने जान लिया, समुद्र को बाँधकर कपि-सेना के साथ इस पार चले भी आये, पर हाथ, एक 'गोपद' में आप डूब गये। हे राजन्, भयंकर याम्य शर, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आप भूल तो नहीं गये? कोई भी शत्रु, आपके दृष्टि-पथ में पड़ जाने मात्र से वह प्राणों से हाथ धो बैठता था; अब आपकी ऐसी दशा हो गई है। दैव-योग से ही ऐसा हुआ है, अन्यथा किसकी शक्ति है कि आपका सामना करे। यदि मेघनाद अपनी माया के बल से युद्ध में आपको ऐसे भयंकर पाशों से बाँध सका, तो स्पष्ट है कि विधि-विधान का अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं है। हे नाथ, हे वीर, हे रामचन्द्र, मैं अपने लिए नहीं रोती; आपके लिए नहीं रोती; आपके लिए अपने प्राण त्यागनेवाले काकुत्स्थ-वशज लक्ष्मण के लिए भी मैं दुःखी नहीं होती; मेरे दुःख को देख द्रवीभूत हृदय से शोक करनेवाली अपनी माँ के लिए भी दुःखी नहीं होती, किन्तु सतत केवल आपका ही ध्यान अपने मन में धारण किये रहनेवाली माता कौसल्या के लिए विलाप करती हूँ। कब चौदह वर्ष समाप्त होंगे, कब राम अयोध्या में आर्यो-ऐसी प्रतीक्षा करनेवाली आपकी माता की आशाएँ आज मिट्टी में मिल गईं।"

इस प्रकार, विलाप करनेवाली जानकी को सात्वना देते हुए अत्यंत दयाद्रं चित्त से त्रिजटा सीता से बोली—'हे कमल-लोचनी, राम पर कोई विपत्ति आ नहीं सकती। आप क्यों इस प्रकार शोक कर रही हैं? यदि वानर-सेना ऐसी निर्बल है, तो वे इतना बड़ा कार्य-भार उठाते ही कैसे? वहाँ देखिए, वानर, वड़ी सावधानी से आपके प्रभु की रक्षा कैसे कर रहे हैं? हे भूपुत्री, आप निश्चित रहिए। यदि ऐसा नहीं होता (यदि राम पर कोई विपत्ति आनेवाली है), तो वह पृष्पक-विमान पृथ्वी पर गिरे बिना कैसे रहता?

(क्योंकि, इसका गुण है कि यह विधवाओ का वाहन नहीं बनता), इसलिए आप राम के लिए विलाप मत कीजिए । मेरी बात का विश्वास कीजिए । हे कमलमुखी, सूर्य-वश-तिलक राम अवश्य ही लकेश्वर का वध करके लका पर विजय प्राप्त करेंगे और आपको ग्रहण करेंगे । हे कल्याणी, अब दुख मत कीजिए । मेरी बातों का विश्वास कीजिए ।' तब सीता ने सोचा कि कदाचित् माया-सिर के समान यह भी कोई माया होगी और त्रिजटा की बातों पर विश्वास करके शात हुई । इसके पश्चात् त्रिजटा ने उन्हें अशोक-वन में पहुँचा दिया ।

४८. लक्ष्मण के लिए राम का विलाप करना

यहाँ मनुवंशतिलक राम की चेतना लौट आई । पार्श्व में, पड़े हुए अपने अनुज को देखकर उमड़ते हुए शोक से वे कहने लगे—“हे सुग्रीव, मेरे अनुज की ओर देखो, उसकी कैसी दुर्गति हुई है । हम सीता को खो बैठे । उसे रावण के कारागार से मुक्त नहीं कर सके । अब मुझे इसे भी खोना पड़ रहा है । सौमित्र को खोने के पश्चात् अब मुझे सीता की ही क्या आवश्यकता है ? अब मेरा जीवित रहना भी किस काम का ? यत्न कहे, तो सीता के समान दूसरी पत्नी को मैं कदाचित् प्राप्त कर सकूँगा । पृथ्वी पर पत्नियाँ मिल सकती हैं, पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, वधु-बाधव मिल सकते हैं, किन्तु सहोदर भाई नहीं मिल सकता । मैं इसे केवल भाई समझकर दुःखी नहीं होता । यह महाबली सतत मेरी सेवा में तत्पर रहता है । यह कौसल्या तथा सुमित्रा, इन दोनों की एक समान भक्ति करता है । सुमित्रा, इससे भी बढकर मुझसे स्नेह करती है । ऐसी पुत्र-वत्सला, माता सुमित्रा को आज मेरे कारण दुःख भोगना पड़ रहा है । यदि मैं अयोध्या जाऊँ, तो भ्रातृ-वत्सल भरत तथा शत्रुघ्न पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है ? वे क्यों नहीं आये ? तो मैं अपने भाइयों से क्या कहूँगा ? मुझे वन से अकेले आते हुए देखकर माताएँ पूछेंगी कि, हे पुत्र, सौमित्र क्यों नहीं आया है ? हमारा मन व्याकुल हो रहा है । तो मैं उनका क्या प्रत्युत्तर दे सकूँगा ? मैं कौन-सा मुँह लेकर उनको आश्वासन दूँगा । इस शरीर के साथ मैं वहाँ जाऊँगा भी कैसे ? भले ही हिर्माचल फट जाय, सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, पानी स्थिर रह जाय, समुद्र सूख जाय, हवा की गति बद हो जाय, अग्नि शीतल हो जाय, लक्ष्मण कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता । कभी इसने मुझसे अप्रिय बातें नहीं की । इसका चित्त मुझ पर एक निष्ठा से केन्द्रित है । इसकी समता करनेवाला भाई और कहाँ मिल सकता है । यही मेरा प्राण है, और यही मेरा बधु है । इसे छोड़कर मैं अकेले नहीं रह सकता । यह जहाँ जायगा, मैं भी वही जाऊँगा । यही मेरा संसार है । मैं अन्य कोई संसार नहीं चाहता । उस दिन सौमित्र मेरे साथ आया था, आज मैं सौमित्र के साथ जाऊँगा । हे पराक्रमी सुग्रीव, तुमने मेरे हित के लिए बहुत-से कार्य किये हैं । अब तुम वालि-पुत्र को लेकर वानर-सेना के साथ किष्किषा को लौट जाओ । लक्ष्मण के साथ मेरे चले जाने के पश्चात्, रावण तुम्हें तंग करेगा । जयशील सौमित्र के विना, मेरी विजय का भी वही मूल्य होगा, जो अब के लिए चंद्रोदय का मूल्य होता है । मेरे प्रति श्रद्धा रखने के कारण वायु-पुत्र ने कई अद्भुत कार्य किये हैं; उसने समुद्र लांघकर जानकी को देखा और

सागर के उस पार द्रोण पर्वत पर मिलती है। हनुमान् को भेजो, तो वह अवश्य, उन औषधियों को ले आयगा। तुम लोग दुःख मत करो।

५०. नारद का आगमन

उसी समय परम योगीन्द्र, पर-तत्त्व-वेत्ता, परम पावन मूर्ति तथा परम-वैष्णव नारद मुनि वहाँ आये। सहस्र सूर्य-सदृश कांति से युक्त उनकी देह पर कृष्ण-मृग-चर्म था। उम पर उनका पिंगल वर्ण जटा-समूह ऐसा शोभायमान था, जैसे काले-काले बादलो पर बिजली हो। उनके ललाट पर ऊर्ध्व-मुड्ग था और वे कौपीन-विलसित दण्ड धारण किये हुए थे। उनकी बीणा से रमणीय नारायण-मन्त्र का अनुरणन हो रहा था। उन्होंने अपने साथी योगीन्द्र-समूह को आकाश में उहरा दिया और स्वयं बड़े हर्ष से राम के निकट पहुँचकर बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर उनकी प्रदक्षिणा की और अत्यंत भक्ति के साथ निवेदन किया—“हे देव, ब्रह्मादि देवताओं ने, क्षीर-सागर में शयन करनेवाले आपके समक्ष पहुँचकर रावण आदि राक्षसों के अत्याचारों के सबध में निवेदन किया, तो उन पर कृपा करके, उनकी रक्षा करने के निमित्त आप दशरथ के पुत्र होकर जन्मे। अतः आपका इस प्रकार दुःखी होना उचित नहीं है। आपके नाम-मात्र का स्मरण करने से अज्ञान दूर हो जाता है। तब आपको अज्ञान छू भी कैसे सकता है? आप स्वयं विचार करके देखें। आप स्वयं नारायण हैं, पूर्णज्ञान-निधि हैं, चारु-कौस्तुभ-रत्न विलसित वक्षवाले हैं; सतत लक्ष्मी के निवास-योग्य विशाल अंगों से विलसित हैं; आदिदेव हैं, सर्वोत्तरीामी हैं, वेद-वेद्य हैं; विश्व-रूप हैं, स्मरण करनेवाले योगीश्वरों के ध्यान में दिखाई पड़नेवाले सच्चिदानन्द-रूप हैं। यह पृथ्वी ही आपका चरण है, आकाश ही मस्तक है, ब्रह्मा आपका ललाट है, सूर्य-चन्द्र नेत्र हैं, पवन ही आपका श्वास है, अग्नि ही आपका मुँह है, सरस्वती जिह्वा है, वेद-राशि आपका दंत-समूह है, गायत्री ही शिखा है, प्रणव ही हृदय है, दिशाएँ ही कान हैं, महनीय धर्म ही मन हैं; असंख्य विजयों से संपन्न देवता ही आपकी बाहुएँ हैं, ब्राह्मण-समूह ही आपका उदर है, मित्र तथा वरुण आपकी जाँघें हैं, अश्विनी-देवता आपके जानू हैं, और समस्त विश्व आपका रोम-समूह है। हे पृथ्वी-नाथ, वह देखिए, सभी देवता, किन्नर, यक्ष, गधर्व आदि आपकी विजय की अभिलाषा करते हुए आकाश में खड़े हैं। आप अपना भ्रम छोड़ दीजिए, निष्कलक धीमान् बन जाइए और शीघ्र राक्षसों का संहार कीजिए। कदाचित् आप संसार को यह दिखाना चाहते हैं कि मानव मोहवश इच्छा-रूपी पाश से बँध जाय, तो वह इसी प्रकार संसार-सागर को पार नहीं कर सकता। अन्यथा हे श्रीराम, आप कैसे नाग-पाशों से बँधने लगे? आप आदिदेव हैं। आप अपने निज रूप का स्मरण कीजिए। आपका वाहन तथा आपके पताके का चिह्न गड़ड़ यहाँ आयगा। उसके आते ही ये सभी नाग-पाश खुल जायेंगे।” इतना कहकर नारद आशीर्वाद देकर क्षीर-सागर को चले गये।

५१. राघवों का नाग-पाश से मुक्त होना

नारद के वचनों को सुनकर राघव ने अपने आदिदेव होने की बात का विचार किया और गड़ड़ का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही, गड़ड़ क्षीर-सागर के उत्तर

तट पर से आकाश की ओर उछला । जिस वेग से वह उछला, उस वेग के कारण पृथ्वी के नीचे रहनेवाला आदिशेष चौक पड़ा । उसके पक्षों से उत्पन्न अत्यधिक वायु से आकाश आलोडित-सा हो गया और नक्षत्र गिरने लगे । पक्षों की फडफडाहट के कारण उत्पन्न ध्वनि से समस्त लोक भयाक्रांत-से हो गये और समस्त आकाश धूलि से व्याप्त हो गया । उसकी तीव्र गति के कारण शैल-शृंग लुढ़कने लगे और समुद्र आलोडित होने लगा । वह दस सहस्र सूर्यों की सयुक्त प्रभा के समान दीप्त हो रहा था और प्रभा-समन्वित पक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान दीख रहा था । इस प्रकार, आकाश-मार्ग से आनेवाले गरुड़ को देखकर राम-लक्ष्मण को आनन्द किये हुए सभी नाग उन्हें छोड़कर चले गये । यथार्थ तो यह है कि जो कोई उस गरुड़ का स्मरण करता है, वह सभी प्रकार के बधनों से मुक्त हो जाता है । फिर, राम स्वयं भी यदि चाहते, तो वे अपने बधनों को काट देने में समर्थ थे ।

सुग्रीव आदि वानर आश्चर्य-चकित हो देखते रहे । गरुड़ ने राम की परिक्रमा की और राम-लक्ष्मण को बार-बार प्रणाम किया, अपने कातियुवत पक्षों को उन दोनों के शरीरों पर फेरा, और उनके समक्ष खड़े होकर, हाथ जोड़कर निवेदन किया—‘हे देव आपके ये नाग-पाश-बधन छूट गये । अब आप इन्द्र-वैरी रावण का सहार करके सीता को साथ लेकर अयोध्या लौट जाइए । हे राजन्, असुरों को दण्ड देते समय आप उनकी मायाओं से सावधान रहिए । उनकी किसी भी माया से धोखा मत खाइए ।’ इतना कहकर उड़ने फिर उनकी प्रदक्षिणा की, उनकी प्रशंसा करके, उन्हें आशीर्वाद दिया । फिर, कश्यप-पुत्र (गरुड़) ने उन्हें हृदय से लगाया, प्रणाम किया और शीघ्र क्षीर-सागर को रवाना हो गया ।

नाग-पाशों से मुक्त होने से राम-लक्ष्मण प्रसन्नचित्त हुए । सभी वानर आनंद-सागर में निमग्न-से हो गये । वे सिंहनाद करते हुए तथा पूँछें हिलाते हुए नृत्य करने लगे । कुछ वानर हर्ष से उछल-कूद करते हुए, अट्टहास करते हुए, इधर-उधर दौड़ते हुए, पर्वतों और वृक्षों को फेंककर समस्त लका का सर्वनाश करने की कल्पना करते हुए अत्यधिक हर्ष-नाद करने लगे । उनके कोलाहल से लंका हिल-सी गई, आकाश विदीर्ण-सा हो गया । इतने में सूर्योदय हुआ और रावण ने युद्ध-भूमि का वृत्तांत जानने के लिए अपने दूतों को भेजा ।

दूतों ने दुर्ग की दीवारों पर से इक्ष्वाकु-वंशज राम-लक्ष्मण को नाग-पाश से मुक्त होकर बैठे देखा । उनकी सेवा में सुग्रीव बैठा था । विभीषण सविनय खड़ा था, और सारी कपि-सेना उनके समक्ष बड़ी भक्तियुवत हो खड़ी थी । वे दोनों राज-पुत्र युद्ध के लिए अपनी सेना को उत्साहित कर रहे थे और देखने में विश्रुखल मत्त गजों के समान लग रहे थे । जब दूतों ने यह दृश्य देखा, तब उन्होंने शीघ्र जाकर दनुजेश्वर से सारा समाचार कह सुनाया । यह सुनकर रावण खिन्न तथा आश्चर्य-चकित हुआ और मंत्रियों से कहा—‘नाग-पाशों से मुक्त होने की क्षमता रखनेवाले राम-लक्ष्मण के द्वारा लका का सर्व-नाश निश्चित ही है । भला, कहीं नाग-पाश भी छूटते हैं ? अब मेरी विजय की आशा नहीं है । राक्षस-लक्ष्मी अब इस युद्ध में नष्ट हो जायगी । कदाचित् गरुड़ ही आया हो, अन्यथा नाग-पाश कैसे छूटते ? अवश्य ही गरुड़ ने मुझ पर विजय पाई है । नहीं तो नर और वानरों में इतनी शक्ति कहाँ है ?’

५२. धूम्राक्ष का युद्ध

इस प्रकार कहने के पश्चात् उसने एक मत्त गज के हुकार की भाँति लबी साँस छोड़ी और धूम्राक्ष को आज्ञा दी कि लुम एक विशाल मेना लेकर शीघ्र राम-लक्ष्मण पर आक्रमण करो । तब दैत्यपति को प्रणाम करके धूम्राक्ष युद्ध के लिए चल पड़ा । उसकी सेना भी चारों ओर से चली । भेड़ियो तथा सिंहो के मुखवाले फुर्तीले घोडों से युक्त उसका रथ, कर्ण-पुटो को विदीर्ण करनेवाली तथा दिशाओ को कपित करनेवाली भयकर ध्वनि करता हुआ तथा अपनी अनुपम दीप्ति फैलाता हुआ निकल पड़ा । भेरी, शख, डका, आदि विविध वाद्यो का निनाद करते हुए युद्ध के लिए आनेवाले धूम्राक्ष को कई दुश्शकुन दिखाई दिये । तब रथ के आगे जानेवाले राक्षस भयकर गर्जन करके भयभीत हो निश्चेष्ट-से हो गये । इस पर भी विना रुके बड़ी तत्परता दिखाते हुए धूम्राक्ष ने समुद्र के समान विशाल वानर-सेना पर आक्रमण किया । असुर तथा वानर आकाश का स्पर्श करनेवाले निनाद करते हुए आपस में जूझ गये । दानव खड्ग फेंकते थे, तो वानर उन पर वृक्षो का प्रहार करते थे । राक्षस भाले भोकते थे, तो वानर मुष्टियो से आघात करते थे । राक्षस हठ करके (वानरो पर) घोडे दौड़ते थे, तो वानर उन घोडो को अपने नखो से चीर डालते थे । दानव उन पर रथ चलाते थे, तो वानर उनको चूर-चूर कर देते थे । दानव मत्त गजो को उनसे टकराते थे, तो वानर क्रोध से उन्हें पृथ्वी पर पटक देते थे ।

इस प्रकार, दोनों पक्षो के योद्धाओ में भयकर युद्ध होने लगा । वानर-वीर यम के सदृश भयंकर आकार धारण करके असुरो को पैरो से कुचलकर, हाथियो को पृथ्वी पर गड़गड़ कर मार डालते थे और उन्ही (मृत) हाथियो को असुरों पर फेंककर उनका दर्प-दलन कर देते थे । फिर, रथो के कूबर पकड़कर उन्हे (रथों को) आकाश में तेजी से घुमाकर पृथ्वी पर पटक देते थे और उन्ही टूटे हुए रथो को उठाकर राक्षसो पर फेंककर उनकी पृथ्वी पर गिरा देते थे । फिर, वानर घोडों के पैरो को पकड़कर ऊपर उठाते और उन्हे पृथ्वी पर पटककर मार डालते, और उन्ही मरे हुए घोडो को राक्षसो पर फेंककर उन्हे मार डालते थे । शत्रु के पदचर सैनिकों पर पद-प्रहार करके उनकी पसलियो को चूर-चूर करके मार डालते थे और उनके शवो को राक्षस-सेना पर फेंककर उन्हे नीचे गिरा देते थे । वे राक्षस-सेना में घुस जाते और अपने भयंकर दाँतो से राक्षस-समूह को काटकर उन्हे तितर-बितर कर देते, उनके अस्थों को तोड देते, कुहनियो से उनके मुखो पर प्रहार करते, नीचे गिराते और उनके गले घोट देते । फिर, उनके पैरो की दबाकर अपने टखनों से ऐसा प्रहार करते कि उनकी पसलियाँ चूर-चूर हो जाती । फिर, वे कुछ राक्षसों के कंठ में अपनी पूँछो को फंदे की तरह डाल देते और उन्हे इस प्रकार कस देते कि बेचारे राक्षसो की पुतलियाँ घूम जाती और वे जहाँ के तहाँ डेर हो जाते । इस प्रकार, सारी युद्ध-भूमि राक्षसों के शवों से ऐसी पट गई कि पता नही लगता था कि यह सिर है, यह आँख है, यह मुँह है, यह कान है, यह नाक है, यह कंधा है, ये हाथ है, यह शरीर है, यह कमर है, यह जाँघ है, यह घुटना है और यह पैर है । मज्जा, मांस, भेजा, रक्त, आँतें, हड्डियाँ, चर्म तथा खोपड़ियों के तो डेर ही लग गये थे ।

तब धूम्राक्ष ने बड़े उपेक्षा-भाव से उस कपि-सेना पर आक्रमण किया और अपने प्रताप का प्रदर्शन करते हुए मुद्गरो के प्रहारो से वानरो के सिर विदीर्ण करते हुए, क्रोध से भाले चलाते हुए, विविध अस्त्रो से भयकर युद्ध करने लगा । उसके भयकर प्रहारो से कई वानर-सैनिक रक्त उगलते हुए गिर पड़े । कुछ धैर्य खोकर, उसके प्रहारो से अपने को बचाकर भागने लगे । यह देखकर हनुमान् ने बड़े क्रोध से एक विशाल पर्वत उस राक्षस पर फेंका; लेकिन उसने अपनी गदा से उस पर्वत को रोककर अपने को बचा लिया; किन्तु वह पर्वत उसके रथ पर गिरा और रथ चूर-चूर हो गया । तब पवन-कुमार ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तरु, शैल तथा पाषाणो के प्रहारो से राक्षसो के सिर ऐसे चूर-चूर करने लगा, जैसे यम समस्त ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करके चूर-चूर करता हो । फिर, वह सिंह-सदृश पराक्रमी हनुमान् एक पर्वत-शृंग को उठाकर धूम्राक्ष की ओर बढ़ा । तब उसने 'लो, अब मरो' कहते हुए अपनी गदा हनुमान् के सिर पर चलाई । किन्तु, हनुमान् ने उस धूम्राक्ष की शक्ति, शौर्य, क्रोध तथा साहस की उपेक्षा करते हुए, भयकर गर्जन करके अपने हाथ के उस शैल-शृंग को धूम्राक्ष पर ऐसा फेंका कि उस राक्षस के सिर के दो टुकड़े हो गये और वह ढेर होकर वहीं गिर गया । उस समय चारो ओर ऐसी ध्वनि फैल गई, मानो वज्रपात होने से कई पहाड गिर रहे हो । धूम्राक्ष को इस प्रकार मरे हुए देखकर हतशेष कुटिल राक्षस पवन-पुत्र के प्रताप से भयभीत हो उठे और शीघ्र ही लका की ओर भागने लगे । उनके भागते समय पृथ्वी भी कांपने लगी ।

५३. अकंपन का युद्ध

धूम्राक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का हृदय क्रोध से जलने लगा । तब उसने देवताओ को कपित करने की क्षमता रखनेवाले, दिव्यास्त्र शस्त्रो से सपन्न तथा दिव्य रथ से विलसित अकंपन नामक राक्षस को, एक बड़ी सेना के साथ वानरो से युद्ध करने के लिए भेजा । प्रलय-काल के भेद्य के समान आकारवाला वह राक्षस अपने आभूषणों की दीप्ति तथा मणियो की काति से सूर्य-मंडल के समान देदीप्यमान होते हुए स्वर्ण-रथ पर चढकर युद्ध के लिए चल पडा । उसके रथ की पताके ऐसे फहरने लगी, मानो कह रही हो कि लो, अब अकंपन युद्ध करने आ गया है । राक्षस-वीरो के भयकर हुकारो तथा भेरी, पटह आदिके निनादो के मध्य, अपने साथ असख्य चतुरंगिणी सेना लिये हुए गगन को भी भेदनेवाले भयकर गर्जन करने हुए, उसने वानर-सेना पर आक्रमण किया । दोनो पक्षो की सेनाएँ आपस में भिड गई और बड़ी भयकर गति से युद्ध करने लगी । उस घोर संग्राम के कारण उत्पन्न लाल धूलि सभी दिशाओ तथा आकाश में व्याप्त हो गई और कपि-सेना तथा असुर-सेना के बीच अंधकार-सा छा गया ।

उस समय कुछ सैनिक तो अपने पक्ष के लोगो को पहचान कर युद्ध करते थे । कुछ उनकी बोली तथा चेष्टाओ से उन्हें परादा समझकर युद्ध करते थे और कुछ तो किसी प्रकार का विचार किये बिना, जो कोई भी सामने पड जाता, उससे भयकर गति से युद्ध करते जाते थे । वानरो के द्वारा फेंके जानेवाले वृक्ष तथा पर्वत एव दैत्यो के द्वारा चलाये जानेवाले भयकर शस्त्र चारो ओर फैलकर धूल-रूपी तिमिर समुद्र में जलचरो के

समान दीखते थे । राक्षसों तथा वानरों के बड़े उत्साह से युद्ध करते समय, सैनिकों के शरीरों से उमड़नेवाली रक्त-धाराओं के कारण सारी पृथ्वी की धूलि सिंच गई । युद्ध में वानरों का युद्ध, दुस्सह होते देखकर अकपन अग्नि के समान क्रुद्ध हुआ । तब धनुष पर प्रत्यक्षा चढाकर बड़े उत्साह से उस महाबली ने अपने सारथी से कहा—‘वानर-सेना वृक्षों तथा पर्वतों की सहायता से राक्षस-समूह को नष्ट कर रही है । शीघ्र ही मेरा रथ उनकी ओर ले चलो ।’

उसका सारथी रथ को उसी ओर ले गया । अकपन ने उस वानर-सेना पर अपने तीक्ष्ण बाणों की वृष्टि-सी कर दी, तो सभी वानर धैर्य खोकर निश्चेष्ट-से हो गये । तब हनुमान् ने बड़े साहस के साथ उस राक्षस का सामना किया । तब उसके साथ वानरों ने भी दानव-सेना पर आक्रमण किया । अकपन अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए, भयकर गर्जन-रूपी निर्घोष करते हुए, मेरु पर्वत के समान आकारवाले पवन-पुत्र पर प्रलय-काल के मेघ की भाँति शर-वृष्टि करने लगा । किन्तु हनुमान् ने उनकी उपेक्षा करके अट्टहास किया और प्रलय-काल के रुद्र के समान अपनी क्रुद्ध दृष्टियों से रौद्र रस उगलते हुए, निर्भय हो एक विशाल पर्वत को समूल उखाड़कर उसे अकपन पर ऐसा फेंका, जैसे इन्द्र ने नमुचि पर वज्र गिरा दिया था, पर उस दानव ने उस पहाड़ को अर्द्ध-चन्द्रास्त्र से चूर-चूर कर दिया । तब हनुमान् और भी उद्वत हो, अपनी महनीय शक्ति को प्रकट करते हुए तथा आँवों से स्फुलिंगों को गिराते हुए शीघ्रता से एक दूसरा पर्वत उखाड़कर ले आया और भयकर गर्जन करके उसे बड़ी क्रूरता से उस राक्षस पर फेंका । किन्तु, राक्षस ने शीघ्र ही उस पर्वत के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । इस पर मारुति और भी क्रुद्ध हो उठा और बड़े वेग से एक पर्वतकार वृक्ष को उखाड़ा और अपने पैरों के आघात से पृथ्वी को कँपाते हुए स्फुलिंगों से युक्त आँवों से उस वृक्ष को धुमाकर अन्य वृक्षों को तोड़ते हुए दैत्य-समूह पर पिल पड़ा । उसने रथिकों को मार डाला, रथों तथा उसके अश्वों को मिट्टी में मिला दिया, तथा राक्षसों का सहार कर दिया । फिर हाथियों के समूह पर आक्रमण करके, उनके दाँतों, हड्डियों, उनके कुम्भों पर बैठे महावतों, उनके अकुशों, उनकी घटियों तथा आभूषणों आदि को चूर-चूर करके एकाँ पिट-जैसा बना दिया और कुछ हाथियों को चूर-चूर करके मिट्टी में मिला दिया । उसके पश्चात् उसने घुड़सवारों के साथ घोड़ों को मार डाला और पदचर सेना को दल दिया । यम के समान अत्यधिक भयकर गति से युद्ध करनेवाले हनुमान् को देखकर अकपन मन-ही-मन बहुत क्रुद्ध हुआ । उसने एक साथ चौदह तीव्र बाणों को चलाकर (हनुमान् के) हाथ में रहनेवाले अश्वकर्ण वृक्ष के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और अत्यंत हर्ष से सिंहाद किया । हनुमान् के शरीर से रक्त-धाराएँ छूटने लगी और तब वह पुष्पित अशोक के समान दीखने लगा । फिर, हनुमान् ने सहज ही एक और वृक्ष को उखाड़ लिया और उससे अकपन के सिर पर प्रहार किया । उस राक्षस का सिर विदीर्ण हो गया और उसने एक पर्वत के समान पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राण छोड़ दिये । उसके गिरते ही वानरों के तीक्ष्ण प्रहारों को सहना असंभव जानकर तथा हनुमान् को समक्ष देखकर सभी राक्षस-वीर भयभीत हो गये और प्राण लेकर लंका की ओर भाग गये । सभी वानर-वीर हनुमान् के साहस की प्रशंसा करने लगे ।

५४ महाकाय का युद्ध

शत्रुओं के हाथ में अकपन को मरा हुआ जानकर दशकठ बहुत खिन्न हुआ और उसने महाकाय को बुलाकर कहा—‘अपने शौर्य को प्रकट करते हुए नरो तथा वानरो का सहार करो।’ तब वह पराक्रमी शीघ्र युद्ध की सज्जा से सज्जित हो, रमणीय मयूर-ध्वजा से अलंकृत, मणियों की प्रभा में विलसित शस्त्रास्त्रों से परिपूर्ण तथा पिशाच-मुखवाले गधे जुते हुए रथ पर बैठकर, दक्षिण द्वार से बड़े वेग के साथ निकला। उसके साथ ही विविध शस्त्रास्त्रों में युक्त उसकी सेना, भेरी, डका तथा तुरहियों का गभीर शब्द करती हुई चलने लगी। उस समय उनपर हृष्टियों की वर्षा हुई, बिजलियाँ गिरी, छत्र तथा ध्वजाएँ टूटकर गिर पड़ी। किन्तु, महाकाय इन अपशक्तियों की अपेक्षा करने हुए आगे बढ़ा और बड़ी क्रूरता से वानर-सेना पर आक्रमण किया। तब वानर भी उन पर तरु-शूल-समूह की वर्षा करने हुए उनसे भिड़ गये।

दानव उस वानर-सेना पर अपना पराक्रम दिखाने लगे। उन्होंने अत्यंत चंचल गति से कपि-सेना के मध्य रथ चलाये, गज-समूह को वानर-सेना से टकरा दिया, अश्वों को उनके ऊपर चलाया और पदाति-सेना उनपर टूट पड़ी। फिर, उन्होंने वानर-सैनिकों को अपने करवालों से काटते हुए गदा के प्रहारों से उन्हें व्याकुल करते हुए, भालों से बेषते हुए, शूलों से चीरते हुए, लाठियों से पीटते हुए, बरछियों से भोकते हुए, शरवृष्टि करते हुए, चक्रों को चलाते हुए, परशुओं से काटते हुए अत्यंत क्रोध के साथ अपने मुद्गरों के प्रहार से वानरों को दण्ड देने लगे। इधर वानर भी उन वीर राक्षसों पर शूल-शुशुओं की वर्षा करने लगे। उस घोर युद्ध के कारण धूलि उड़कर रवि-मंडल तक व्याप्त हो गई। उस धूलि के कारण अविरत युद्ध करनेवाली दोनों पक्षों की सेनाएँ एक दूसरे को नहीं देख पाती थीं। भयकर राक्षस लगातार अपने ऊपर गिरनेवाले तरु-शूलों को लक्ष्य करके असह्य बाण चलाकर आकाश को ढक देते थे। वानर-वीर राक्षसों के चलाये हुए शस्त्र, बाण तथा लाठियों को अपनी ओर आते देखकर उनको लक्ष्य करके, पर्वतों तथा वृक्षों को फेंकते थे। युद्ध-भूमि में उड़नेवाली धूलि उनके कर्णपुटों में भी भर गई थी और उनको इसका पता नहीं चलता था कि कौन राक्षस है, और कौन वानर है। जो कोई उनके समक्ष पड़ जाता था, वे उस पर प्रहार करके उसको मार डालते थे। दनुजों के शरीर से बहनेवाले रक्त, नदियों के समान बहकर धूलि को भिगो देता था। धूलि-जनित अधकार के व्याप्त रहने पर भी दानवों को अपने दीप्त तेज से युद्ध करने देखकर, देवता भी आश्चर्य-चकित हो गये। तब दैत्यों के प्रताप से नष्ट-भ्रष्ट हो वानर भयभीत हो गये और युद्ध-भूमि से भागने लगे।

उन्हें भागते हुए देखकर अंगद ने कहा—‘हे कपियो, भेरे रहते हुए तुम ऐसे क्यों भागे जा रहे हो?’ इस प्रकार के उत्साहपूर्ण वचनों से अंगद ने उनको धैर्य देकर फिर उन्हें युद्ध में प्रवृत्त किया। वह स्वयं एक महापर्वत को उठाकर राक्षस-सेना पर आक्रमण करने लगा। उसके पीछे भयकर गर्जन करते हुए वानर-वीर भी चल पड़े। अंगद ने क्रुद्ध होकर पर्वतों तथा वृक्षों को राक्षसों की सेना पर फेंका। वह बायें हाथ से राक्षसों को

नीचे गिराकर उन पर मुष्टियों से प्रहार करता, हाथों से पीटता, कुर्हनियों से उनके मुँह पर प्रहार करके फोड़ देता और उनके जस्त्रास्त्रों को चूर-चूर कर देता। अगद के सामने क्रूर राक्षस टिक न सके। वे विवश हो चारों दिशाओं में भागने लगे।

५५. अंगद के द्वारा महाकाय का संहार

इस प्रकार, भागनेवाले राक्षसों को मतिमान् रुधिराशन, वज्रनाभ, कालदंष्ट्र, कालकल्प, वपाश, शतमाय, धूम्र तथा दुर्धर नामक महाकाय के प्रख्यात मंत्रियों ने रोका, और अपने समस्त पराक्रम को प्रकट करते हुए वानर-सेना को पीड़ित करने लगे। यह देखकर पनस, मेघपुष्पक, गवाक्ष, ऋषभ, गज, क्रोधन, शतबली तथा तार नामक श्रेष्ठ वानर उन राक्षस-वीरों के सम्मुख आकर युद्ध करने लगे। उस समय रुधिराशन ने क्रोधोन्मत्त हो गवाक्ष पर असह्य बाण चलाये, तो गवाक्ष ने बड़े वेग से वृक्ष तथा पर्वतों को उस पर फेंका, पर रुधिराशन ने उन्हें बीच में ही चूर-चूर कर दिया और गवाक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि गवाक्ष मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। गवाक्ष को मूर्च्छित होते देखकर तार ने क्रोध से एक विशाल साल-वृक्ष को उखाड़कर रुधिराशन के रथ पर फेंका। किन्तु, रुधिराशन ने उस वृक्ष को बीच में ही चूर-चूर करके दस बाण चलाकर तार को गिरा दिया। उसके पश्चात् वह प्रलय-काल के यम के समान बड़ा ही उग्र रूप धारण करके कपि-सेना पर टूट पड़ा। इतने में गवाक्ष तथा तार सचेत हुए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा। फिर, गवाक्ष ने यम के समान भयंकर रूप धारण करके एक गदा से रुधिराशन के गिर पर प्रहार किया, तो वह राक्षस विच्छिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर को छोड़कर उड़ गये।

वज्रनाभ नामक राक्षस उद्वत होकर पृथु पर कई बाण चलाये, तो पृथु ने उस राक्षस पर एक पर्वत फेंका; किन्तु उस राक्षस ने उसके दस टुकड़े कर दिये। तब क्रोधोन्मत्त हो पृथु ने बड़े वेग से उसके रथ पर आक्रमण किया, उसके धनुष को खंडित किया, घोड़ों को मार डाला, रथ को चूर-चूर कर दिया और अपने अनुपम बाहु-बल से उसकी टाँगें पकड़कर उसे ऊपर उठाया और बड़े वेग से उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटककर सिंह-गर्जन किया।

इसके पश्चात् कालदंष्ट्र ने ऋषभ पर अपने उद्वृण्ड मत्त गज को चलाया। सामने से आनेवाले उस हाथी के मार्ग से विचलित न होकर ऋषभ आकाश की ओर उछला, और एक साथ दोनों पैरों से उस हाथी के कुभ-स्थल पर प्रहार किया, तो वह हाथी चिंघाड़ता हुआ बहुत दूर पीछे हट गया। किन्तु, ऋषभ ने इससे सतुष्ट नही होकर, उसका पीछा किया और उसके दाँतों को उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार करके उसे मार डाला। फिर, अपना शौर्य प्रकट करते हुए उसने कालदंष्ट्र की टाँगों को पकड़कर उसे नीचे पटक दिया और उसका वध कर दिया। असुरों की सेना में हाहाकार मच गया और वानर-सेना दर्प से हृकार करने लगी। तब कालकल्प ने पनस से भिडकर उस पर अग्नि-कल्प-बाण चलाया, तो पनस कालकल्प के रथ पर कूद गया और पहले उसके अश्वों को कुचल दिया, फिर पदाघात से सारथी को गिराकर रथ को चूर-चूर कर दिया। उसके पश्चात् उसने

उस राक्षस को जबड़े पर ऐसा घूसा मारा कि वह राक्षस छटपटाकर गिर पड़ा, उसके दाँत टूट गये और रक्त उगलते हुए वह मर गया। सभी राक्षस आश्चर्य-चकित हो गये।

इसके पश्चात् वपाश नामक राक्षस ने कपियो पर आक्रमण किया और उनको जर्जरित करने लगा। तब गज ने उस पर ऐसी बाण-वृष्टि की कि सारा आकाश बाणों से आच्छादित हो गया। किन्तु, वपाश ने उन सब बाणों को बीच में ही काट डाला और गज का वध करने के लिए अग्नि-सम सात बाण उस पर चलाये और इससे सतुष्ट न होकर फिर उस पर पच्चीस बाण चलाये और उसके पश्चात् एक सौ ऐसे बाण चलाये, जो उसके शरीर को पार कर गये। उन बाणों में गज अत्यधिक पीड़ित हुआ और वपाश के रथ को चूर-चूर करते हुए उस पर आक्रमण किया और गरुड पक्षी जिस प्रकार किसी कंगूरे को नीचे गिरा देता है, वैसे ही उसका सिर घड़ से नीचे गिरा दिया। इस पर क्रुद्ध होकर धूम्र तथा बुध्न नामक राक्षसों ने भयकर अस्थो के प्रयोग में वानरो को पीड़ित करते हुए उनके पैर उखाड़ दिये। तब श्लोचन तथा मेघपुष्प नामक वीर वानरों ने उनके रथों पर कूदकर अपने करतलों से उनके मस्तक पर प्रहार किया और युद्ध करके उन्हें मार डाला। उनको आहत देखकर सभी राक्षस भयभीत हो तुरत भाग खड़े हुए।

इस प्रकार राक्षसों को भागते हुए देखकर शतमाय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हुए गज से भिड गया। तब गज ने एक लट्ट लेकर उसका सामना किया। इतने में बड़े वेग से ऋषभ, शतबली, पनस, गवाक्ष तथा अगद एक साथ उस पर वृक्षों तथा पर्वतों की अविरत वृष्टि करने लगे; किन्तु शतमाय ने शर, तोमर, भाले, चक्र, गदा, खड्ग आदि श्रेष्ठ शस्त्रों की वर्षा करके वीरों को क्रूर गति से प्रस्त कर दिया। उसके हाथों से यो पीड़ित होकर वानर-नायक रोषोद्दीप्त हो शतमाय पर पिल पड़े। गवाक्ष ने उसके रथ के घोड़ों को मार डाला, अगद ने उसका भंडा काट डाला, पनस ने उसके रथ को पैरों तले कुचल डाला, ऋषभ ने सारथी को मार डाला और नल ने उसके शस्त्रास्त्रों को काट डाला और शतबली ने अपनी मुष्टियों से उस पर प्रहार किया। किन्तु, शतमाय ने उन मुष्टि के आघातों की उपेक्षा करके तलवार और ढाल लेकर गरुड के समान बड़े साधव से आकाश की ओर उछला। तब बड़ी तत्परता के साथ (युद्ध-भूमि में) पड़े हुए खड्ग, ढाल आदि लेकर शतबली भी उसके पीछे आकाश की ओर उछला। आकाश में वे दोनों भेरुड पक्षियों (दो सिरवाले पक्षी) के समान एक दूसरे पर वार करने लगे। वे कभी पैतरें बदलते, कभी निकट आते, फिर शीघ्र ही दूर हट जाते; कभी गिरते तो कभी उठते और एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते हुए लड़ने लगे। तब शतमाय ने अपने खड्ग को चमकाकर शतबली के विशाल वक्ष पर प्रहार किया; किन्तु शतबली ने अपनी ढाल को आगे करके उस वार से अपने को बचा लिया और अपने तीक्ष्ण कृपाण से शतमाय की जाँघों को काट डाला, तो वह राक्षस सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका सिर पर्वत-शिखर के समान छिन्न-भिन्न होकर छितरा गया। शतमाय की मृत्यु को देखकर शतबली के साथ सभी वानरों ने हर्ष का गंभीर निनाद किया।

तब महानाद ने अपने धनुष के टकार से पृथ्वी तथा आकाश को कँपाते हुए अपना रथ अगद की ओर दौड़ाया और अगद पर तीन पैंने वाण चलाये । तब कपिराज अगद बड़े क्रोध से उससे भिड गया और एक योजनाकार पर्वत को उसके रथ पर फेंका । किन्तु, उस राक्षस ने बड़े वेग से अपनी गदा से उस पर्वत को बीच में ही चूर-चूर कर दिया । तब बालि-पुत्र क्रुद्ध होकर सहज ही उसके रथ पर कूद गया और अपनी अनुपम शक्ति से उसका धनुष तोड़ डाला, उसे रथ पर गिराकर उसके वक्ष को ऐसे दबाया कि उसकी आँखें निकल आईं और वह हाँफने लगा । फिर, अगद ने उसके कठ को मरोड़कर उसे काट डाला और रक्त-सिक्त मुड को पृथ्वी पर गिरा दिया ।

अपने अनुज को मृत देवकर महाकाय अपार शोक से पीड़ित हो, भयकर ध्वनि से हाहाकार करने हुए, अपनी काति-किरणों को चारों ओर विकीर्ण करनेवाले अपने महान् रथ पर नैटे उद्धत सिंह के समान भूमने हुए निकला । उसने क्रूर बाण चलाते हुए वानरो पर आक्रमण किया और कई वानरो को पृथ्वी पर गिरा दिया । उसके समक्ष खड़े रहने में असमर्थ हो वानर-सेना हनुमान् की ओट में चली गई । तब महाकाय ने अपने सारथी से कहा— 'अब मेरे समक्ष खड़े होकर युद्ध करने की क्षमता रखनेवाला कोई नहीं है । तुम रथ को सीधे राम के निकट ले चलो ।' तब उसने घोड़ों के रास ढीले किये और वेग से रथ को राम की ओर चलाया । रथ की क्रूर गति के समक्ष खड़े होने में असमर्थ हो वानर-सेना भागने लगी । तब महाकाय ऊँचे स्वर में कहने लगा— 'हे वानरो, तुम क्यों भयभीत हो रहे हो ? मेरा क्रोध केवल उस राजकुमार पर है, जिसने शिव-धनुष का भग करके सीता के साथ विवाह किया है । जिसने परशुराम का गर्व-भग किया है, वही मेरे जोड़ का है, अन्य कोई नहीं । जिसने युद्ध में खर का वध किया था, उसी पर मेरा बाण चलेगा, दूसरो पर नहीं । जिसने अपने बाण के अग्र भाग के समक्ष समुद्र को आने के लिए विवश किया था, केवल उसीसे मैं युद्ध करूँगा, दूसरो से नहीं । मैं त्रिभुवन को अपने शौर्य से दीप्त करनेवाले, कैलास पर्वत को उठानेवाले रावण का पुत्र हूँ, इन्द्रजीत का भाई हूँ, मेरा नाम महाकाय है । मैं अब युद्ध करने के निमित्त आया हूँ ।'

तब अंगद ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा— 'हे महाकाय, युद्ध-भूमि में ऐसा प्रलाप क्यों कर रहे हो ? तुम्हारे पिता ने कैलास पर्वत को उठाया था, इसलिए हम दोनों में युद्ध होना उचित है । इसके लिए न राम की आवश्यकता है, न अन्य कपि-वीरो की । इतना कहकर उसने एक विशाल वृक्ष से उस पर प्रहार किया, तो महाकाय ने अपने दारुण शरो से अगद का शरीर ढक-सा दिया । इसके पश्चात् महाकाय ने बड़े क्रोध से अगद पर अपनी गदा से प्रहार किया, तो अगद विवश होकर गिर पड़ा । उसको गिरते हुए देखकर सभी दैत्यों ने समस्त पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए सिंहनाद किया और सभी वानर-वीरो ने एक साथ महाकाय पर आक्रमण किया और उस पर शिलाओं तथा वृक्षों को फेंकने लगे; किन्तु महाकाय ने अपने बाणों से उन शिलाओं तथा वृक्षों को खडित कर दिया । फिर, उसने गवाक्ष पर दस बाण, पृथु पर पाँच बाण, महाबली गज पर सौ बाण, शतबली पर तीस बाण, ऋषभ पर अस्ती बाण, क्रोधन और मेघपुष्पक पर साठ बाण चलाकर उनका दर्प-दलन किया ।

इतने में मूर्च्छित अंगद ने आँखें खोली । अपने मुँह से बहनेवाले रक्त को बार-बार पोछने हुए, एक विशाल गदा लिये हुए वह उस महाकाय के रथ पर कूद पड़ा और अपनी उद्वृण्ड शक्ति को प्रकट करते हुए उसके सारथी को मार डाला । फिर, उसके धनुष के खड-खड कर दिये, सभी अश्वों को मार गिराया और उसके पश्चात् उस राक्षस-वीर पर गदा का ऐसा प्रहार किया कि महाकाय का मुकुट पृथ्वी पर लोटने लगा । तब महाकाय भी रथ से नीचे उतरकर भयकर गदा से अंगद पर प्रहार किया; किन्तु अंगद ने प्रतिघात किया । महाकाय ने अंगद का वार बचाकर उद्धत गति से अंगद के सिर पर गदा-दंड से प्रहार किया । उस प्रहार के कारण अंगद के सिर से रक्त फूट निकला । किन्तु, अंगद ने विना धैर्य खोये, अपनी गदा से महाकाय पर ऐसा प्रकार किया कि महाकाय का सिर फूट गया । तब भी महाकाय ने भयकर आघात करके उसे रक्त की बाढ में ऐसा डुबोया, मानो उसने सोच लिया कि इसके पिता ने मेरे पिता को एक सहस्र बार समुद्र में डुबोया था और उसका प्रतिशोध मुझे लेना चाहिए । इस प्रकार, इन्द्र का पोता तथा महाकाय दोनों भयकर युद्ध करने हुए रक्त-सिक्त होकर ऐसे दीखने लगे, मानो रक्त-वर्ण की नदियों से विलसित दो महापर्वत ही । दोनों की गदाओं के आपस में टकराकर छिन्न-भिन्न होने से, वे दोनों वीर इस प्रकार मल्लयुद्ध करने लगे, जैसे पूर्वकाल में इन्द्र तथा बल नामक राक्षस ने आपस में द्वन्द्व-युद्ध किया था । उनके पदाघात से धूलि उड़-उड़कर आकाश में व्याप्त हो गई । वे वालि-मुग्धिव के द्वन्द्व-युद्ध का स्मरण दिलाते हुए परस्पर एंगे भिड गये थे कि मालूम नहीं होता था कि यह वानर है, और यह राक्षस है ।

तब सभी वानर अंगद को उत्साह देते हुए कहने लगे—‘हे वीर, इस दुष्ट राक्षस की उपेक्षा क्यों करते हो ? तुम वालि के पुत्र हो । वालि के समान तुम्हारा बाहुबल भी श्रेष्ठ है । जब वालि ने दुदुभी से युद्ध किया था, तब उसने दुदुभी को इतनी देर तक ठहरने नहीं दिया था । तुम अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके इस देवताओं के शत्रु का सहार शीघ्र कर डालो ।’ इस प्रकार, जब वानरों ने उत्साहबद्धक जय-निनाद किया, तब अंगद ने उस राक्षस पर अपनी मुष्टि से नीत्र प्रहार किया । वह उस आघात से चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । पृथ्वी पर गिरे हुए उस राक्षस के वक्ष को पैरों से दबाकर अंगद ने उसका कठ मरोड़कर सिर को घड से अलग कर दिया और उसे ऊपर उछालकर विजय-गर्जन किया । अंगद को देखकर सभी वानरों ने त्रिपुल हर्ष-नाद किया । यह देखकर सभी दानव तितर-बितर हो गये । कुछ समुद्र में कूद पड़े, कुछ लका में घुम गये और शेष राक्षस चारों दिशाओं में भाग गये । सभी वानरों ने अंगद की प्रशंसा की और उसे सीता-पति के समक्ष ले जाकर सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया । रघुपति यह समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़े हर्ष से हृदय से लगाकर और कृपा-पूर्ण दृष्टि से देखकर मदहास करने लगे ।

हृत्शेष राक्षसों ने जब यह वृत्तांत रावण को सुनाया, तब राक्षस-कुलाधीश ने बड़ी प्रीति से मृत महाकाय का स्मरण किया । वह दुःख से, आँसुओं में आँसु भरे, सिर झुकाये खड़ा रहा और फिर सन्नमन्त्रित से अंत-पुर में चला गया । रात-भर चिंता में निमग्न

रहने से वह सो भी नहीं सका । प्रातःकाल होते ही वह अपने सामंतों के साथ, अपने उज्ज्वल रथ पर बैठकर अंतपुर से निकला और दुर्ग के स्तूप पर चढ़कर अपने विशाल दुर्ग को ध्यान से देखा । फिर, वहाँ के सैनिकों के शिबिरो का निरीक्षण किया और दुर्ग की रक्षा के लिए और अधिक सैनिकों को नियुक्त किया । उसके पश्चात् रावण ने प्रहस्त से कहा—‘यह प्रसिद्ध दुर्ग अभेद्य है । यह किसी भी पराक्रमी शत्रु के वश में आनेवाला नहीं है । आज वानर-समूह ने इसे भेद डाला है, यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है । इतना ही नहीं, श्रीराम के बाहुबल का विक्रम दुर्वार प्रतीत हो रहा है । युद्ध करने योग्य या तो तुम हो, या मैं हूँ या मेरा भाई कुम्भकर्ण है । निद्रा में मग्न हो, मेरा भाई जाग नहीं रहा है । इसलिए या तो तुम युद्ध करने के लिए जाओ या मैं जाऊँ ।’

तब प्रहस्त ने राक्षसेश्वर से कहा—‘हे देव, मैं अभी जाता हूँ और उन नरों का ऐसा सहार करता हूँ कि देवता भी मेरे बाहुबल की प्रशंसा करेंगे । मैं अपने प्रताप का ऐसा प्रदर्शन करूँगा कि भूत, प्रेत तथा डाकिनी छककर रक्त-पान करेंगे और मोद-मग्न होकर कह उठेंगे, ‘लो देखो, प्रहस्त उन बन्दरों की कैसी दुर्गति कर रहा है ।’ आपने मुझे युद्ध में जाने का आदेश दिया, तो ऐसे समय में, मेरा आपको हितोपदेश देना उचित तो नहीं है । फिर भी, एक बात सुन लीजिए । मेरा विचार है यह कार्य आपके लिए उचित नहीं है । अब आप मानें या न मानें । आप स्वयं विचार करके देख लें । मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता । पहले आपने अपने बुद्धिमान् मंत्रियों के हित-वचन नहीं सुने । अब तो सुनिए और सीता को भूपाल के पास पहुँचा दीजिए । यह युद्ध अनावश्यक है ।’

५६. प्रहस्त का युद्ध

इतना कहने के पश्चात् प्रहस्त रावण की आज्ञा लेकर युद्ध के लिए रवाना हुआ । उसने अपने वेत्रधरो को भेजकर अपनी चतुरगिणी सेना को एकत्रित किया और मणिमय किंकिणी के रणन से मुखरित होनेवाले ऐसे रथ पर सवार होकर चला, जिसका मेघ-समान घोष तबतक सुनाई पड़नेवाला था, जबतक वानरों के श्रेष्ठ अगों के पवन उसका स्पर्श नहीं करे, और जिसके ऊपर की सर्प-ध्वजा तबतक लहरानेवाली थी, जबतक वानर-रूपी गरुड़ उस पर उतर नहीं आवे । उसके निकलते समय तुरहियों की जो ध्वनि हुई, उससे दिशाएँ चक्कर काटने लगी, आकाश विचलित हो गया, नक्षत्र टूटकर गिरे और वसुधरा विदीर्ण-सी हो गई । इस प्रकार, प्रहस्त पूर्व के द्वार से कालातक के समान युद्ध करने के लिए निकला ।

दैत्यों के सिंह-गर्जनो के साथ निकलनेवाले प्रहस्त की उग्र मूर्ति को देखकर राम-चन्द्र आश्चर्य करने लगे और उसे विभीषण को दिखाकर बोले,—‘हे विभीषण, तेज, बल, तथा शौर्य से विलसित होनेवाले इस राक्षस-नेता का नाम क्या है ? विपुल साहस के साथ उसका वानरो पर आक्रमण करना देखकर मुझे आश्चर्य होता है ।’

तब विभीषण ने कहा—‘हे देव, यह रावण की समस्त सेना का सेनापति है । इसकी अपनी सेना रावण की सेना की तीन चौथाई है । अपने साहस के लिए तीनों

लोको में यह प्रख्यात है । यह अत्यधिक बलवान् है तथा रावण का मामा लगता है । यह महान् पराक्रमी है और इसका नाम प्रहस्त है । (रावण के द्वारा) चन्द्रशेखर के मित्र (कुबेर) के सामंत को पराजित होते समय इसने मणिभद्र को परास्त किया था । हे रवि-कुलोत्तम, इसके साथ वानर-नायको को घोर युद्ध करना होगा ।'

इस प्रकार विभीषण के कहते समय ही वानर-वीर पर्वतो तथा वृक्षो को उठाये सिंहनाद करते हुए दानवों का सामना करने लगे । असुर-सेना ने भी भयकर गर्जन करते हुए वानरों पर आक्रमण किया । प्रलय-काल की अग्नि तथा वडवानल आपस में कभी सघर्ष नहीं करते, पृथ्वी और आकाश का एक दूसरे से टकराकर चूर-चूर होना संभव नहीं; भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डों का आपस में टकराना संभव नहीं । यदि ऐसा कभी हुआ होता, तो इन राक्षस तथा वानर-सेनाओं के युद्ध की उपमा उनमें दी जा सकती थी । राक्षस अग्नि-सम बाण-समूह को वानरों पर चलाते थे । कुछ राक्षस खड्ग, गदा, भाले, मूसल तथा भयकर चक्र आदि शस्त्रों को भी चलाते थे । तब वानर-सेना राक्षसों पर बड़े वेग से वृक्षो तथा पर्वतो को फेंकती थी । इस घोर युद्ध में पृथ्वी पर लुढ़कने-वाले सिर, विदीर्ण होनेवाले वक्ष, चूर-चूर होनेवाले कंधे, बाहर निकल पड़नेवाली आँतें, फूटनेवाले सिर, टूटनेवाली पसलियाँ, उमड़नेवाला रक्त, छितरानेवाला भेजा, छिन्न-भिन्न होनेवाले पैर, उछलकर गिरनेवाले हाथ, पिंडाकृति धारण कर सड़नेवाले शव, आधा कटकर गिरे हुए शरीर, घूम जानेवाली पुतलियाँ, ये सब अत्यंत भयकर दीखने लगे । युद्ध-भूमि में राक्षस और वानर निर्भय होकर बड़े उत्साह से लड़ते थे । सहसा कपि-वीरो ने राक्षसों पर बड़ा भयकर धावा बोल दिया । द्विविद ने नरातक पर एक पर्वत-शिखर उठाकर फेंका । तार ने एक वट-वृक्ष को वेग से चलाकर कुंभ हनु को गिरा दिया । जाबवान् ने महानद पर एक विशाल पर्वत को गिरा दिया । दुर्मुख ने समुद्रत को एक विशाल वृक्ष से मार गिराया ।

इस प्रकार, राक्षसों को वानरों के प्रहारों से बुरी तरह मरते हुए देखकर प्रहस्त ने अपने प्रमुख साथियों की मृत्यु निश्चित जान और अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने रथ को विचित्र वेग से चलाकर एक-एक प्रहार से एक साथ दस, बीस, तीस तथा चालीस वानरों का सहार किया । तब वानर भी पर्वतो तथा वृक्षो को गिराकर प्रहस्त की सेना का नाश करने लगे । रक्त की नदियाँ उमड़-उड़कर आकाश का स्पर्श करती हुई-सी बहने लगी, रक्त की उस धारा में ही जहाँ-तहाँ वानर तथा असुर घोर गर्जन करते हुए युद्ध करते थे । उनके पराक्रम को देखकर देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे ।

तब प्रहस्त कालातक के समान अपने अद्वितीय प्रताप का प्रदर्शन करते हुए वानरों के करो तथा चरणों को काटते हुए, उनके वक्ष-स्थलों को विदीर्ण करते हुए, सिर तथा बाहुओं को पृथ्वी पर गिराते हुए, हड्डियों तथा दाँतों को चूर-चूर करते हुए, चक्रों से खंड-खंड करके, अंकुशों से चीरकर, भालों से चुभोकर, विशाल पाशों से बाँधकर, परशु से काटकर, शूलों को भोंककर वरछियों से उछालकर तथा शक्तियों से पीटकर वानरों के मांस तथा भेजा के ढेर-सा लगा दिया और अपनी शर-वृष्टि से वानरों को मारकर सभी भूतों

को बलि चढाई । इस प्रकार, प्रहस्त ने अपने दुर्वार विक्रम से वानरो का सहार करने में सफल होकर सभी दिशाओं को विदीर्ण करते हुए भयकर गर्जन किया ।

५७. नील के द्वारा प्रहस्त का वध

वानर-सेना को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर, उद्भट-रण-कुशल नील भयकर हुकार करते हुए प्रहस्त पर आक्रमण करने के लिए ऐसी अद्भुत गति से चला कि सारी पृथ्वी काँप गई । उसने एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया और सहज ही उस राक्षस के रथ पर जा चढा । उसने सारथी को मार डाला, अश्वों का नाश कर दिया, और देखते-देखते प्रहस्त के धनुष को खडित कर दिया । तब भयकर गर्जन करते हुए प्रहस्त एक मूसल लेकर रथ से उतर पड़ा और नील के सामने डट गया । नील ने निर्भीक होकर उसका सामना किया, मानो वह अपनी विजय में पूरा विश्वास रखता हो । फिर, दोनों युद्ध करते हुए एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्न करने लगे, जैसे वृत्रासुर तथा कौशिक ने (पहले) किया था । प्रहस्त ने अच्छी तरह लक्ष्य करके मूसल से नील के ललाट पर ऐसा तुला हुआ प्रहार किया कि उसका ललाट फूट गया । उससे छूटनेवाली रक्त-धारा को पोंछते हुए नील ने अत्यधिक क्रोध से उस प्रहस्त पर वृक्षों से प्रबल प्रहार किया । किन्तु, उस राक्षस ने फिर से उसी मूसल से नील पर प्रहार किया । इस आघात से नील लडखडाने लगा, फिर भी उसने वृक्ष को छोड़कर उसी समय भयकर गर्जन करके एक विशाल पहाड़ उठाकर लक्ष्य करके उस राक्षस के सिर पर फेंका । नील के उस प्रहार से प्रहस्त का शरीर, सिर तथा आभूषण छिन्न-भिन्न हो गये और इन्द्र के प्रहार से सिकुडकर गिरनेवाले पर्वत के समान वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके गिरते ही सभी कपियो ने विजय-घोष किया और राक्षस-सेना लका की ओर भागने लगी ।

उस समय सारी युद्ध-भूमि, अमृत-सागर-भुजा (लक्ष्मी) के समान हरि* (विष्णु अथवा अश्व) युत अगो से, दानशील के निवास के समान मार्गणो* (पातक अथवा बाण) के समूह से, जबूद्वीप के समान नवखडो* (द्वीप अथवा खड) से, प्रेमी पति के निकट वनिता की भाँति राग-रस* (प्रेम रस अथवा रक्त) से, दुर्गम वन के सदृश पुडरीको* (व्याघ्र अथवा गज) से, सुदूर मधु-मास की भाँति आरक्त, फुल्ल, पलाशो* (पलाश वृक्ष अथवा राक्षस) से, शिव के निवास की नाई भूत-गण* (शिव के सेवक अथवा प्रेत) से, सूर्य-प्रकाश से विलसित गगन के समान अस्त-व्यस्त तारको* (नक्षत्र अथवा आँख के तारे) से, तीव्र निदाघ के समान अंबर-मणियों* (सूर्य अथवा वस्त्राभरण) से, अर्द्ध-नारीश्वर के समान अर्द्ध-शरीरो से युक्त हो, अनेक प्रकार से आश्चर्य उत्पन्न करती थी ।

तब नील शीघ्र ही राघवाधीश के समक्ष गया और उनके चरणों को प्रणाम किया । वानरो ने बार-बार नील की प्रशंसा की । हृत्शेष राक्षस भयभीत हो भागकर रावण के निकट पहुँचे और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया । तब रावण ने शोक-विह्वल हो अपने मंत्रियों से कहा—'युद्ध करने गये हुए सभी वीर लौटने का नाम तक नहीं ले रहे हैं और वानरों के हाथों मर रहे हैं । अब बैरियों का गर्व चूर करने के लिए मैं स्वयं ही जाऊँगा ।'

*इस प्रसंग में हरि, मार्गण, नवखंड आदि शब्दों में श्लेष है ।—ले०

५८ मंदोदरी के हित-वचन

रावण की सभी बातें सुनकर, मंदोदरी शीघ्र माल्यवान् के पीछे, दैत्य-स्त्रियों के साथ रावण की सभा की ओर चली। उसके पीछे-पीछे अतिकाय तथा प्रतीहारी चलने लगे। आयुधो से अलंकृत अन्य सैनिक भी उनका अनुसरण करने लगे। चामरिक-समूह चामर डुल्ला रहे थे और सभी मंत्री भी उसके साथ चल रहे थे। अपने समस्त आभूषणों की शोभा को चारों ओर विकीर्ण करती हुई उसने रावण की सभा में ऐसे प्रवेश किया, मानो नील-मेघो के मध्य विलसित होनेवाली बिजली हो।

रावण ने मंदोदरी को अपने सिंहासन के अर्द्ध भाग पर आसीन कराया और प्रिय वचन कहते हुए बुद्धिमान् मंत्रियों को उचित आसनो पर बिठाया। प्रणाम करनेवाले अतिकाय को प्रसन्नता से अपने निकट ही एक आसन पर बिठाया? उसके पश्चात् दानवेश्वर ने अपनी स्त्री से कहा—‘हे कुवलयनेत्री, तुम तो इस प्रकार कभी सभा में नहीं आती। आज तुमको कपित शरीर से इस प्रकार सभा में आते देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारे आगमन का क्या कारण है?’

तब मंदोदरी ने अपने पति को देखकर कहा—‘हे दनुजेश, आज मुझे यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैं आई हूँ। आप मेरे आगमन को बुरा न मानिए। हे देव, आपने देखा कि ब्रूमाक्ष आदि हमारे मेनापति युद्ध में कैसे मारे गये? राम ने जन्म-स्थान में चौदह सहस्र राक्षसों का सहार किया था और खर तथा त्रिशिर का वध किया था। मैं कहती हूँ कि ऐसा वीर एक साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, राम ने दण्डक-वन में महान् बलशाली कब्र का सहार किया। भारीच की मायाओं की उपेक्षा करके उन्होंने उसका वध किया। एक भयकर अस्त्र से बालि का सहार किया। राघव ने देवताओं के हित के लिए इस ससार में जन्म लिया है। वे स्वयं आदिनारायण हैं अन्यथा इस पृथ्वी पर ऐसा पराक्रमी नर कहाँ मिलेगा? उन्होंने ही तो नीलकण्ठ के घनुष को भग्न किया था? अपने पिता की आज्ञा से जिस समय वे वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे, उसी समय आप सीता को हर लाये। रामचन्द्र ने आपका क्या अहित किया था। राम-लक्ष्मण से युद्ध करने की क्षमता तीनों लोको में कौन रखता है? यदि साम, दान तथा भेद से शत्रु वध में आ जाय, तो दण्ड का उपाय अपनाना उचित नहीं। यदि आप दण्ड देना भी चाहें, तो क्या राम-लक्ष्मण आपसे दण्ड भोगेंगे? हे देव, राम परमात्मा हैं; अतः आप उनके समक्ष नतमस्तक हो, तो इसमें कोई दोष नहीं। यदि आप उनसे क्षरण माँगें, तो वे आपको अवश्य अपनायेंगे। क्षरण माँगने से आपका शुभ ही होगा, हानि नहीं। काकुत्स्थत्रयी राम के गुण, रूप, कृपा आदि गुण-गण का वर्णन करना कैसे सम्भव है? यदि वे क्रोध में आ जायें, तो इन्द्रादि देवता भी ठहर नहीं सकते, तब आपके लिए (उनका सामना करना) कैसे सम्भव है? अब आप इस प्रयत्न को छोड़ दीजिए। अर्थ ही वर्ण की अग्नि में नाश भत होइए। हठ छोड़िए और सताप त्यागकर सीता को सौदा दीजिए। इसी में आपका हित होगा। हे लकेश, आप अपने कुत्त तथा बक का की रक्षा कीजिए, ऊँचे वाहनो तथा मणि-भूषणो के साथ आप जानकी को लौटा दीजिए और इमाक्ष, अतिकाय

तथा माल्यवान् के द्वारा सधि का प्रस्ताव भेजिए। बहुत क्यों ? क्या, आपने कार्तवीर्य के साथ सधि नहीं की थी ? तब उस कार्तवीर्य को जीतनेवाले भार्गव राम को परास्त करने-वाले यशस्वी राम क्या सधि करने के योग्य नहीं है।”

५९. मंदोदरी की मंत्रणा की उपेक्षा करना

मंदोदरी के इन दोन वचनों को सुनकर रावण क्रोध से दीर्घ श्वास लेने लगा। उसकी लाल आँखों से क्रोधाग्नि की चिनगारियाँ छूटने लगी। उसने मंदोदरी को देखकर कहा—‘हे नारी, हित-बुद्धि से तुमने मुझे उपदेश दिया है; किन्तु तुम्हारी बातों में एक भी मुझे अच्छी नहीं लगती। दानव, यक्ष, गधर्व देव आदि की सेवाएँ प्राप्त करने-वाले मुझे तुम वानरो के आश्रय में जीनेवाले नर को प्रणाम करने का उपदेश देती हो। ऐसी बात तुम इस मभा में कैसे कह सकी ? क्या, तुम्हारे लिए यह उचित है ? उस इक्ष्वाकुवशी ने जान-बूझकर पहले हमारा अहित किया था, तभी तो मैं उसकी स्त्री को ले आया। खर-दूषण आदि के सहार तथा तुम्हारी नन्द के अपमान को भुलाकर मूर्ख के समान मैं कैसे राम से सधि कर लूँ ? यह असभव है। अपने भयकर बाणों से विभीषण, सुग्रीव तथा राम-लक्ष्मण के साथ सभी वानरो को मारकर मैं विजय पाऊँगा। यदि विजय नहीं प्राप्त करूँगा, तो युद्ध-भूमि में ही अपने प्राण दे दूँगा, किन्तु उस राम के साथ न सधि करूँगा, न जानकी को ही लौटाऊँगा। यही मेरा दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र, उदात्त पराक्रमी, इन्द्रजीत के रहते तुम्हें किस बात का भय है ? मेरे पुत्र भयकर आकारवाले तथा दुर्वार पराक्रमी हैं, मेरा सामना कौन कर सकता है ?’

इन बातों को सुनकर मंदोदरी चिंताक्रांत मन से सिर झुकाकर सभा से ऐसे चली गई, मानों रावण की लक्ष्मी ही यो सोचती हुई रावण से अलग हो रही हो कि यह नीच तथा निकृष्ट नीति का अनुसरण करने हुए अपना बुरा-भला आप ही नहीं पहचान पा रहा है।

६०. रावण का प्रथम युद्ध

तब रावण ने अपने गुप्तचरो से कहा—‘चिर काल से मेरे मन में जो क्रोध था, उसका आज परिहार करूँगा। मैं उस (राम) के लिए कालशूद्र हूँ और वह मेरे लिए अधकासुर है। मेरे तूणीरो से निकलनेवाले अस्त्र, कंचुली से मुक्त होनेवाले क्रूर सर्पों के समान राघव को लगेंगे। राम मृत्यु से प्रेरित होकर, कपि-सेना का विश्वास करके यहाँ आया है। तुम शीघ्र मेरे युद्ध करने के लिए दिव्य शस्त्रास्त्रों से सज्जित करके रथ ले आओ।’

उसके आदेशानुसार वे गुप्तचर सूर्य-प्रभा के समान दीप्तिमान् श्रेष्ठ रथ ले आये। फिर, अपने नीच मनोरथ पर आरूढ़ होने की भाँति रावण उस रथ पर आरूढ़ हुआ। अपने दीप्तिमान् आभूषणों से अलंकृत रावण के उस रथ पर बैठते ही, उसके आभूषणों की प्रभा दिशाओं तथा आकाश में आश्चर्यजनक ढग से व्याप्त हो गई, मानो युद्ध में राम के बाणों की अग्नि-ज्वालाओं में रथ-समेत स्वयं रावण दग्ध हो रहा हो। निसानों का विपुल निनाद, पटह, बेरी तथा बाँख का भयकर घोष, हाथियों की चिंघाड़, अश्वों की हिनहिनाहट, बन्दी

भागधों के स्तुति-गान की गंभीर ध्वनि, रथों के चलने की ध्वनि, सैनिकों के हुकार, तथा पृथ्वी को विदीर्ण करनेवाले उनके पदाघात की सम्मिलित ध्वनि भयकर गति से समस्त ब्रह्माण्ड में ऐसे व्याप्त हो गई, मानो लका के समुद्र के सभी जलचर एक साथ आर्त्त-ध्वनि कर रहे हो कि रामचंद्र जैसे पहले समुद्र पर क्रुद्ध हुए थे, वैसे ही वे आज क्रुद्ध हो गये हैं। (राक्षसों के) बृहदाकार रथ, रामचंद्र के मनोरथों के समान ऐसे चलने लगे, मानों कह रहे हो कि हे राम, हम दैत्य-समूह को ले आये हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। असख्य गज-समूह पृथ्वी को कँपाते हुए चलने लगे। उनके कर (सूँड) रामचंद्र के करो (हाथ) के लिए दुर्जय न होने पर भी भयकर दीख रहे थे और उन सूँडों के चारों ओर शिली-मुख (भ्रमर) ऐसे झुंकार कर रहे थे, मानो कह रहे हो कि इनमें रामचंद्र के शिलीमुख (बाण)-समूह लगकर इनका (गजों का) मद गिराने के पहले हम अब इनकी मद-धाराओं का पान कर लें। घोड़े ऐसे झूमते हुए चल रहे थे, मानो कह रहे हो कि सारे उपाय नष्ट हो गये हैं, हमारे द्वारा रावण को युद्ध में विजय कहाँ मिलेगी, रावण तो अवश्य ही युद्ध में गिरेगा। प्यादों की सेना ऐसे हुकार भरती हुई जा रही थी, मानो आर्त्त-ध्वनि कर रही हो कि राघव की आमन्न बाणाग्नि से सन्नमित सेना का सारा बल दग्ध हो जायगा। प्रलय-काल के घने बादलों के समान तथा पहाड़ों का भ्रम उत्पन्न करनेवाले राक्षस, प्रलय-काल के सूर्यबिंब के सदृश दीखनेवाली उभरी हुई आँखों से तथा विशाल कनपटियो, घोर दष्ट्रो एव विपुल केश-समूह से युक्त होकर, प्रलयातक को भी भय देनेवाले विकृत वेष, विविध आयुध तथा विभिन्न मायाओं से सज्जित थे। राक्षस-वीर तथा राक्षस-नेताओं ने राक्षसेश्वर के समक्ष, अपना शौर्य प्रकट करते हुए प्रतिज्ञा की कि युद्ध में हम ही राम को जीतेंगे। फिर, वे घोर गर्जन करते हुए, पटहों का विपुल निनाद करते हुए युद्ध के लिए चल पड़े। रावण भी अपने प्रताप से सूर्य को भी निस्तेज करते हुए, अपने साहस को अपने मुख की दीप्ति के द्वारा प्रकट करते हुए, शौर्य तथा विजय-लक्ष्मी से युक्त हो, भयकर ध्वनि एव ठाट-बाट के साथ, युद्ध के लिए निकल पड़ा, मानो सूर्यवशज को मार्ग देने के कारण समुद्र पर क्रुद्ध होकर उसे सुखा डालने के लिए ही जा रहा हो अथवा यह कहते हुए सूर्य को निगलने के लिए जा रहा हो कि हे सूर्य, तुम्हारा पुत्र राम से मिल गया है। राक्षस-सेना के असख्य आयुधों की काति आँखों को चकाचौंध करती थी और नगाड़ों के ताड़न से उत्पन्न वायु से ध्वजा-पताकाएँ आकाश में फडफडा रही थी। अत्यंत भयकर रूप से बार-बार गर्जन करते हुए, राम की बाणाग्नि में दग्ध हो जानेवाले प्राणों को तृणवत् मानते हुए, दुर्वार गति से आनेवाली दास्य राक्षस-सेना को देखकर रघुराम ने अपने अनुज से कहा—‘हे लक्ष्मण, पता नहीं कि यह कौन आ रहा है ? यह अत्यधिक शक्ति-संपन्न तथा महान् साहसी दीखता है।’

६१. विभीषण का राम को राक्षस-वीरों का परिचय देना

तब विभीषण ने राम से कहा—‘हे रघुराम, मैं इन दनुज-नायकों का अलग-अलग परिचय आपको सुनाता हूँ, सुनिए।’ फिर, वह इस प्रकार कहने लगा—‘वह जो मदमत्त हाथी पर चढ़कर, उज्ज्वल दीप्ति से दीप्त हो रहा है, जिसके उदयार्कबिंब के समान

समुज्ज्वल मुँह पर अत्यधिक रोष दिखाई पड़ रहा है, बार-बार अपने अंकुश की प्रेरणा से हाथी की चाल को तीव्र करने का पयत्न करते हुए बड़े वेग से आ रहा है, वही उपाक्ष है। भीषण घटा-रव करनेवाले रथ पर चढ़कर आनेवाला, महोदर है। उसने युद्ध में बहुत-से लोगो का सहार किया था। रत्न-प्रभा-सपन्न अरुण कवच धारण किये, अश्व पर आरूढ़ जो उद्धत होकर गडग के समान वेग से आ रहा है, वह पिशाचो का नायक है। युद्ध में इसका सामना करनेवाला कोई नहीं है। सिंह पर चढ़कर शूल हाथ में लिये जो आ रहा है, वह युद्ध-प्रिय त्रिशिर है। विपुल घटारव करनेवाले तथा सर्प-ध्वजा से युक्त रथ पर बैठकर धनुष का टकार करनेवाला, काले शरीर का वह राक्षस, कुभ है। स्वर्ण-मणि-खचित ध्वजा से युक्त इस चित्ररथ पर बैठकर आनेवाला, वह विशालबाहु राक्षस, निकुभ कहलाता है। अग्निसम उज्ज्वल रथ पर आरूढ़ हो, बड़े दर्प के साथ युद्ध करने की तीव्र लालसा से विष-दृष्टियो से कपि-सेना की ओर देखते हुए, धनुष पर बाण चढाते हुए आनेवाला नरातक नामक राक्षस है। जैसे भूत-गण कालनेत्र की (शिवजी) सेवा में रहते हैं, वैसे ही गज-मुख, अश्व-मुख, सिंह-मुख, व्याघ्र-मुख, सर्प-मुख तथा उष्ट्र-मुख-वाले भयकर राक्षस जिसकी सेवा में लगे हुए हैं, और जो भयकर गर्जन कर रहा है, वह उमरी हुई आँखोवाला राक्षस देवातक है। हे देव, वहाँ जो स्वर्ण-रथ पर आरूढ़ है, जो एक विशाल धनुष को एक तृण के सदृश सँभाले हुए भयकर टकार कर रहा है, जो कभी पराजय का नाम तक नहीं जानता, जो नरभोज का पुत्र है, जो अपने शरीर पर अरुण चदन का लेप किये हुए है, जो तीक्ष्ण तथा क्रुद्ध दृष्टियो से युक्त है, जिसका शरीर साध्य-मेघो के समान है, जो विध्याचल के सदृश विशालकाय है, और जो करोडो छत्र-चामरो से विलसित है, वही युद्ध का श्रेष्ठ गूर, अतिकाय है। वहाँ जो दस सहस्र श्वेत छत्रो तथा स्वर्ण-चामरो से विलसित है, जो सिंह-ध्वज से युक्त तथा बलिष्ठ अश्व जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो, विपुल शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित हो, धनुष का टकार करते हुए, हम पर दृष्टि गढाये आ रहा है, वह इन्द्रजीत है। उसने ब्रह्मा के वर से अपार बाहुबल प्राप्त करके अखिल देवताओ को युद्ध में जीत लिया था और इन्द्र को बंदी बनाकर बड़े गर्व से भूम-रहा है। हे सूर्यकुलतिलक, अब मैं उस प्रतापी लकानाथ को दिखाऊँगा, जो कनक-रत्न-प्रभा-कलित दण्डो से युक्त चामरो से विलसित है, जिसके सिर पर शोभायमान होनेवाले विचित्र रत्नो की आभा से दीप्त दस किरीट ऐसे दीख रहें हैं, मानो (वे किरीट) बारहो सूर्य-विवो को गलाकर बनाये गये हो, जिसके कर्णों को अलङ्कृत करनेवाले महनीय मणिकुडलो की प्रभा सभी दिशाओ में व्याप्त हो रही है, जो अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टियो से बहुत भयकर दीख रहा है, जिसने हर के निवास-स्थान कैलास पर्वत को उठाया था और देवागनाओ को बंदी बनाया था, जिसके वक्षःस्थल ने ऐरावत के दाँतो के प्रहारो को सहन किया था, जिसने समस्त लोकों पर विजय प्राप्त की थी और जिसने इन्द्र को भी युद्ध में परास्त किया था, वही रावण वहाँ सेना के मध्य में भूमता हुआ आ रहा है।”

त्रिभीषण के इस प्रकार सभी वीरों का परिचय देने के पश्चात् राघव ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—“हे विभीषण, यह बड़ी त्रिचित्र बात है कि यह दानवेश्वर ऐसे महान्

तेज तथा सुंदर आकार से विलसित है। भला, राक्षसों में ऐसा तेजस्वी कौन है ? यदि यह क्रूरकर्मी नहीं होता, तो वह समस्त संसार के लिए पूज्य होता। इसके सभी राक्षस-वीर सैनिक, पर्वताकारवाले, अपार शक्तिशाली, योद्धा, क्रूर-चरित्र तथा भयकर हैं। इसके पश्चात् उग्रलोचन (शिव) के पिनाक को वश में लाने में निपुण राम तथा लक्ष्मण ने धनुष तथा बाण धारण किये मानो (संसार को) बता रहे हों कि क्रुद्ध होने पर भी धर्म-मार्ग का ही अनुसरण करनेवाले इन राजकुमारों की समता कौन कर सकता है।'

तब रावण ने अपने सभी राक्षस-वीरों को देखकर कहा—'नगर के द्वारों पर तथा बड़े-बड़े आँगनों में असंख्य सैनिक लका के रक्षणार्थ रहें। जब हम और तुम युद्ध के लिए चले जायेंगे, उस समय यदि वानर लका में प्रवेश करें, तो हमारी शक्ति किस काम की होगी ? इसलिए इसका ध्यान रहें।' तब असंख्य राक्षस इस रक्षण-कार्य के लिए चले गये। इसके पश्चात् रावण ने धनुष तथा बाण धारण किये हुए बड़े वेग से वानरों की सेना पर ऐसे आक्रमण किया, जैसे दावाग्नि बनो को घेर लेती ही और पृथ्वी आकाश से भिड़ जाती हो। उसने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों की ऐसी तीव्र वर्षा की कि यह विदित नहीं होता था कि यह आकाश है, यह पृथ्वी है और ये दिशाएँ हैं। अपने उद्दण्ड बल को प्रकट करते हुए उस राक्षस ने भुङ्ग-के-भुङ्ग वानरों को सहज ही खडित करके चूर-चूर कर दिया, अस्थि, मज्जा, मांस तथा रक्त से सारी युद्ध-भूमि को भर दिया और अपने धनुष के टकारों से दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। गिरनेवाले, अमित होनेवाले, मरनेवाले, चकरानेवाले, भयभीत होनेवाले, आर्तनाद करनेवाले तथा विह्वलिता होनेवाले वानरों से रण-भूमि को पूर्ण देखकर देवता सन्नमित तथा व्याकुल हो गये।

उस समय क्रूर कालानल की दुर्गार लीला के समान भयकर दशानन को अत्यंत भयानक रूप धारण करके गरजते हुए देखकर सुग्रीव ने उसका सामना किया और एक पर्वत उठाकर उस पर फेंका, किन्तु रावण ने उसे बीच में ही अपने विपुल अस्त्रों से चूर-चूर कर दिया और अपनी दीप्ति-ज्वालाओं को आकाश में फैलाते हुए, जलनेवाले एक तीक्ष्ण शर को सुग्रीव के वक्ष पर चलाया, तो वह शर उसके शरीर के आर-पार निकलकर पृथ्वी में गड़ गया। तुरंत सुग्रीव लडखड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर दानव हर्षध्वनि करने लगे और वानर अश्रु-धाराएँ बहाने लगे। इस पर महान् बाहुबली ऋषभ, सुदष्ट, गज, गवाक्ष, गवय, नल तथा ज्योतिर्मुख नामक वानरों ने क्रोधोन्मत्त होकर रावण पर पर्वतों तथा वृक्षों से अविरत प्रहार किया। किन्तु, रावण ने उन सब को बीच में ही खडित कर दिया और उन सातों वानरों को एक ही बाण से मृत-सा कर दिया।

६२. हनुमान् का रादण से युद्ध करके मूर्च्छित होना

अपनी सेना के नायकों को इस प्रकार गिरते देखकर हनुमान् अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और बड़े दर्प से रावण के रथ पर कूदकर उससे कहने लगा—'हे रावण, कदाचित् तुम गर्व से फूलते रहें हो कि मैंने देवेन्द्र आदि देवताओं तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त की है, किन्तु मेरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गल सकती, मैं तुम्हारा तेल निकाल दूँगा। चिरकाल

से इस पृथ्वी पर उन्नत दशा में जीवित रहनेवाले तुम पर प्रहार करने के लिए मेरी दक्षिण बाहु अपने-आप आगे बढ़ रही है। अभी मैं तुम्हारा वध करके तुम्हें यमपुर भेज दूँगा। इसे निश्चय जानो।'

हनुमान् के ये वचन सुनकर रावण का मुख क्रोध से विकृत हो उठा। उसने कहा—'यदि तुममें शक्ति तथा सामर्थ्य हो, तुम अपनी समस्त शक्ति लगाकर मुझे एक घूसा मारो। उसके पश्चात् तुम्हारे शौर्य तथा शक्ति को देखकर मैं भी घूसा मारूँगा।' तब हनुमान् ने अपना अद्भुत शौर्य दिखाते हुए दशकठ से कहा—'देवाधिदेव, राम के भेजने पर तुम्हारे नगर में आकर मैंने सीता का अन्वेषण किया और अतः मैंने सीता को देखकर उनसे रामचन्द्रजी का सदेश सुनाया और लौटते समय अपना पराक्रम दिखाकर तुम्हारे वन का सर्वनाश किया, तुम्हारी लका को जलाकर तुम्हारे पुत्र का वध किया और दैत्यो के सभ्रमित होकर देखते-देखते मैं लौट पड़ा। आज तुम दर्प से फूलकर मेरी शक्ति देखने की बात कह रहे हो। हे रावण, उस दिन तुम कहीं छिप गये थे?'

इस पर क्रुद्ध होकर असुरेश्वर ने हनुमान् के वक्ष पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया। हनुमान् इस प्रहार से सिकुड़-सा गया; किन्तु फिर भी उसने अपनी समस्त शक्ति से रावण पर एक घूसा चलाया। ऋभावात से कपित होनेवाले विशाल वृक्ष की भाँति, रावण काँप गया। पीड़ित होनेवाले असुरेश्वर को देखकर इन्द्र आदि देवता हर्षित हुए; पर अल्प-काल में ही रावण सँभल गया और हनुमान् को देखकर कहने लगा—'तुम्हारी शक्ति प्रशंसनीय है। तुम्हारी मुष्टि के प्रभाव से मैं प्रेत-लोक का दर्शन कर आया।' हनुमान् ने कहा—'हे रावण, तुम अभी जीवित हो, फिर भी तुम मेरी प्रशंसा क्यों करते हो? (तुम्हारी बातें सुनकर) मुझे लज्जा हो रही है। तुम्हें तो मुझ पर प्रहार करना चाहिए।' 'तब लो, यह घूसा' कहते हुए रावण अपनी वज्र-सम मुष्टि से हनुमान् के वक्ष पर घोर प्रहार किया। तुरन्त हनुमान् मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।

६३. नील का रावण से युद्ध करना

हनुमान् के गिर जाने के पश्चात् रावण नील से भिड़ गया। इतने में हनुमान् सचेत हुआ और रावण को नील पर आक्रमण करते देखा, किन्तु वहाँ जाना अनुचित समझकर वह वहीं रह गया। अपने ऊपर उद्धत गति से आक्रमण करनेवाले रावण को देखकर नील ने बड़े क्रोध से मलय-शृंग को उठाकर फेंका। देवताओं के शत्रु ने सात बाणों से उसे बीच में ही खडित कर दिया। उसके पश्चात् भी नील रावण के विशाल वक्ष को लक्ष्य करके पर्वतों तथा वृक्षों को चलाता रहा; किन्तु रावण ने अपने पैंने बाण-समूह से उन सबको चूर-चूर कर दिया और नील के शरीर पर कई पैंने शर चलाये, जिसके कारण उसके शरीर से रक्त की धाराएँ बहने लगी। इस पर भी नील विचलित नहीं हुआ। सभी राक्षसों को भयभीत करते हुए, लघुत्व धारण करके वह दानवराज के रथ पर कूद पड़ा और अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए, उस रथ की ध्वजा पर उछलकर उसको तोड़ दिया; फिर धनुष के अग्र-भाग पर कूदकर, रावण के लक्ष्य को भग कर दिया। फिर, उसने अपने बाहुबल से सुर-सिद्ध-साध्यों को आश्चर्यचकित करते हुए रावण के

मुकुटों को पंरो से कुचलने लगा । उसने एक मुकुट को दूसरे मुकुट पर फेंका, एक मुकुट पर से दूसरे मुकुट को गिराया, एक मुकुट से दूसरे मुकुट पर पद-प्रहार करके सभी मुकुटों को मिट्टी में मिला दिया । इससे सतुष्ट न होकर, वह सूक्ष्म रूप में रहनेवाले अपने को पकड़ने में रावण को असफल होते देखकर, हँसने लगा । फिर उसने रावण के छत्र फाटकर फेंक दिये, उसके चामरों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, रथ पर प्रहार करके उसको खड़-गड कर दिया, क्रूरता के साथ दानवेश्वर की मुष्टि पर पद-प्रहार किया, उसके हारों को खींचकर फेंक दिया और उसके विशाल वक्ष पर प्रहार करने लगा । इस प्रकार, बड़े उत्साह से युद्ध करनेवाले उम नील को देखकर राक्षस तथा वानर-सेनाएँ आश्चर्यचकित हो गईं । राम तथा लक्ष्मण भी विस्मित हुए । तब रावण अत्यन्त क्रोध से महान् अग्नि-बाण को अपने धनुष पर चढाकर उम अग्नि-पुत्र (नील) से कहा—‘बलिहारी हैं तुम्हारे लाश्रव की। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ । तुम अपनी लघुता ही मुझे दिखाते रहो । अब यह जो, अग्नि-बाण अपनी ज्वालाओं का प्रकाश फैलाता हुआ चला । इससे बचने का उपाय करो।’ यो कहते हुए उसने बाण चलाया । अग्नि-बाण के प्रभाव से नील का सारा शरीर जलने लगा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । अग्नि-पुत्र होने के कारण उसकी मृत्यु तो नहीं हुई; किन्तु वह अवश ही पृथ्वी पर पड़ा रहा ।

६४. रावण का ब्रह्म-शक्ति से लक्ष्मण को गिराना

तब सौमित्र ने अपने धनुष का टकार करते हुए भयकर गति से उस देव्य पर आक्रमण किया । उस टकार तथा लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए रावण ने उनसे कहा—‘हे लक्ष्मण, छोटी अवस्था के होते हुए भी तुम साहस के साथ युद्ध करने के लिए सन्नद्ध होकर आये हो, यह प्रशंसनीय है । अब कुछ समय इसी प्रकार ठहरो; मैं तुम्हें यमपुर भेज दूँगा ।’ तब रामानुज ने कहा—‘हे अधम राक्षस, व्यर्थ इतना गर्व क्यों करते हो ? मैं तो तुम्हारे निकट आ ही गया हूँ । बाते बनाना छोड़कर कार्य करके अपनी शक्ति दिखाओ ।’ इतना कहते ही रावण ने उनपर मात-बाण चलाये । किन्तु राक्षस के बाणों को लक्ष्मण ने वीच में ही खडित कर दिया । इस पर उद्दीप्त क्रोध से रावण धनुष का घोर टकार करते हुए अविरत बाण-वर्षा करने लगा । उन असह्य बाणों को नष्ट करके लक्ष्मण ने शीघ्र (उस राक्षस पर) एक सहस्र शर चलाये । उनके बाणों का सामना करने में असमर्थ होकर रावण ने एक ब्रह्म-दत्त बाण लक्ष्मण के ललित वक्ष पर चलाया । लक्ष्मण अशक्त-से ही गये और वे धनुष को टेककर थोड़ी देर खड़े रहे । फिर, सँभलकर हुकार भरते हुए लक्ष्मण ने एक प्रबल बाण से राक्षसेश्वर के धनुष को काट दिया । इतने से संतुष्ट न होकर उन्होंने त्रेताग्नि-सदृश शक्तिशाली तीन बाण उसके वक्ष पर चलाये । उनके लगने से रावण मूर्च्छित हो गया, किन्तु शीघ्र ही वह सँभल गया । उसे अपने धनुष के तोड़े जाने पर विस्मय हुआ और अपनी समस्त शक्ति को बटोरकर बड़ी क्रूरता के साथ, लक्ष्मण पर उसने उस ब्रह्म-शक्ति का प्रयोग किया, जो सदा गंध-पुष्पों से अर्चित थी, जो समस्त दिशाओं तथा ब्रह्माण्ड में अपनी उज्ज्वल ज्वालाओं को व्याप्त करने की क्षमता रखती थी, जो बस करोड़ अशानियों की-सी भयकर ध्वनि करनेवाली थी और जो सूर्य की किरणों से भी

अधिक ताप से युक्त थी । यह देखकर सभी देवता चकित-से रह गये । प्रलय-काल के समान भयकर गति से तथा अग्नि से भी अधिक तेज से उस शक्ति को अपनी ओर आते देखकर, लक्ष्मण ने उसका निवारण करने के लिए घोर शर-वृष्टि कर दी; किन्तु उन बाणों की उपेक्षा करते हुए वह शक्ति लक्ष्मण के निकट आई और उनकी भुजाओं के मध्य में लग गई । तुरन्त लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े ।

तब दशानन ने लक्ष्मण को अपने बीस हाथों से उठाने का प्रयत्न किया, किन्तु विष्णु का अश्र होने के कारण वह उन्हें उठाने में असमर्थ हुआ । वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि मैं तो कैलास पर्वत को भी उखाड़कर उठा सका था, और मेरे तथा मदर पर्वतों को उठाने की शक्ति भी रखता हूँ । कैसा आश्चर्य है कि यह लक्ष्मण इतना भारी है । ऐसा सोचते हुए, अपने बीस हाथों का सारा बल लगाकर रावण ने फिर एक बार लक्ष्मण को उठाने का प्रयत्न किया । इतने में हनुमान् अत्यंत क्रोध से उसके निकट पहुँचा और सिंह-गर्जन करके उस क्रूर राक्षस के वक्ष पर वज्रसम अपनी मुष्टि से घोर प्रहार किया । उस प्रहार से रावण मूर्च्छित होकर घुटनों के बल गिर पड़ा । रावण की उस दशा को देखकर देवताओं ने हर्ष-ध्वनि की, कपियो ने सिंहनाद किया और राक्षस त्रस्त हो उठे । विष्णुभक्त होने के कारण हनुमान् ने, रावण के लिए दुर्वह लक्ष्मण को अपनी श्रेष्ठ शक्ति से सहज ही उठा लिया और शीघ्र ले जाकर उन्हें रामचन्द्र के समक्ष लिटा दिया । लक्ष्मण को लगी हुई शक्ति राम के तेज से निस्तेज हो उनसे छूटकर फिर रावण के रथ की ओर लौट गई । थोड़ी देर में लक्ष्मण सचेत हो गये ।

६५. राम-रावण का प्रथम युद्ध

वहाँ रावण भी मूर्च्छासे मुक्त हो अपने चंचल धनुष को लेकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ । लक्ष्मण के मूर्च्छित होने से सभी वानर भयभीत होकर भाग आये थे । रावण को उद्धत गति से आक्रमण करने के लिए आते देखकर राम स्वयं क्रुद्ध होकर उस देव-वैरी का सामना करने के लिए अपने धनुष का भयकर टंकार करते हुए आगे बढ़े । तब पवन-पुत्र ने राम से कहा—'हे सूर्यकुल-तिलक, जब यह रावण रथ पर बैठकर आप से युद्ध करेगा, तब आप पैदल ही उसका सामना करें, यह कैसे उचित होगा ?' तब ऐरावत पर आरूढ़ होनेवाले इंद्र की भ्रांति, राम हनुमान् के कंधों पर बैठे और बड़े रोष से धनुष का भयकर टंकार करने लगे । रावण ने श्रोधोन्मत्त होकर राम को देखा और उन पर अग्नि-शिखाओं के सदृश बाणों की वर्षा आरंभ की । रावण ने भी उस पर श्रेष्ठ बाण चलाये, किन्तु इंद्र के शत्रु ने उन्हें बीच में ही काट डाला । तब राम ने उद्धत गति से अर्द्धचन्द्र बाण चलाकर राक्षसेश्वर का धनुष काट डाला और पाँच तेज बाण चलाकर उसे व्यथित कर दिया । तब रावण ने हुंकार करके एक तीक्ष्ण बाण हनुमान् के ललाट पर चलाया । उस भयकर बाण को हनुमान् के ललाट पर लगते देखकर राम ने बड़े क्रोध से अपना भाला सँभाला और उससे प्रहार करके रावण के सारथी को, अश्वों को, रथ को, ध्वजा को, छत्र को और चामरो को क्षणमात्र में नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और फिर सुमंत्रक नामक शर रावण के वक्ष पर चलाया । उस शर के प्रहार से रावण अत्यंत पीड़ित हुआ

और थर-थर काँपने हुए निश्चेष्ट हो गया । फिर, राम ने उद्दीप्त क्रोध से अर्द्ध-चन्द्र बाण का प्रयोग करके उसके दसो मुकुटो को नीचे ऐसे गिराया, मानो दसो दिशाओ में व्याप्त उस राक्षस के प्रताप को ही ऋट्का देकर गिरा दिया हो । अपने उज्ज्वल मुकुटो की प्रभा से रहित हो रावण मन-ही-मन अत्यधिक दुःखी हुआ और सुध-बुध खोकर खड़ा रहा । तब राघव ने रावण से कहा—‘वानरो के साथ भयकर युद्ध करने के कारण तुम थके हुए हो । अतः, मैं तुम्हारा वध किये बिना तुम्हें छोड़ देता हूँ । तुम शीघ्र लका को लौट जाओ ।’

६६. रावण का खिन्न होकर लंका लौट जाना

तब रावण विरथ हो दुःखी मन, अकेले ही पैदल, लका की ओर चल पडा । वह उत्तप्त निश्वास छोड रहा था और उमका उद्दीप्त क्रोध बुझ गया था । उसका अत्यधिक गर्व चूर हो चुका था । उसकी शक्ति नष्ट-सी हो गई थी और उसका दर्प दलित-सा हो गया था । उसका मुख पीला पड गया था और वह बार-बार अपने सूखे हुए ओठो को आर्द्र करता हुआ जा रहा था और भय के कारण उसका कंठ सूख रहा था । इस प्रकार जानेवाले रावण को देखकर सभी भूत तालियाँ पीटते हुए ठहाका मारकर हँसने लगे । सभी वानर जहाँ-तहाँ दौडते हुए, उछल-कूद करने हुए रावण का उपहास करने लगे । निदान रावण लका में पहुँच गया और अत्यधिक चिंता में डूबकर छटपटाने लगा । सिंह के हाथो में फँसकर भी, बचकर निकल आये हुए गज की भाँति, गरुड की पकड से छूटकर गिरे हुए व्रस्त सर्प की भाँति, रावण भयभीत हुआ । विद्युत् की-सी प्रभा से समन्वित, भयकर ज्वालाओ से युक्त तथा ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली राम के बाणो से अपने संहार की चिंता करते हुए वह बार-बार लू की-सी गरम साँसें छोडने लगा । लज्जित होने के कारण उसका साहस जाता रहा । वह सभा में स्थित दैत्यो को देखकर बोला—‘हे दानववीरो, आज मेरा शौर्य और मेरी शक्ति मिट्टी में मिल गई । स्वाभाविक पराक्रम से सपन्न एक व्यक्ति राम-भूपाल, इस ससार में जन्मे है । मैं ने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था कि युद्ध में सुर, सिद्ध, साध्य, गरुड, गधर्व, राक्षस, पक्षी, यक्ष, किन्नर, उरग आदि किसी से भी मैं पराजित नहीं होऊँगा । तब मैंने नर तथा वानरो की उपेक्षा कर दी थी । मेरे दुष्कर्म ही मेरी विपत्ति का कारण बन गये है । मैं अपनी दुर्दशा का कैसे वर्णन करूँ? अब तुम लोग सावधानी से दुर्ग की रक्षा करो । द्वारो पर अधिक सख्या में रक्षको को नियुक्त करो । प्रहस्त आदि महान् वीर युद्ध करते हुए अपने प्राण खो चुके है । अब कौन ऐसा वीर है, जो राम-लक्ष्मण को जीतने की क्षमता रखता है ? विविध युद्धो को करने में प्रवीण, सहज पराक्रमी राम-भूपाल पर आक्रमण कर सकने की क्षमता अब केवल मेरे अनुज कुम्भकर्ण के सिवा और किसमें है ?’

६७. राक्षसों का कुम्भकर्ण को जगाना

इसके पश्चात् दशकठ ने सबको देखकर कहा—‘मेरा भाई छह मास तक लगातार सोने के पश्चात् जगा, सभा में आकर मेरे साथ मन्त्रणा की और फिर आज नौ दिन से सो रहा है । वह अवश्य शत्रुओ का संहार कर सकता है । उस अनुपम वीर को जगाकर किसी प्रकार यहाँ ले जाओ ।’

रावण के आदेशानुसार राक्षसों ने कई प्रकार के गध-पुष्प और विविध मिष्टान्न आदि खाद्य पदार्थ लेकर कुम्भकर्ण की उस गुफा में प्रवेश किया, जो तीन योजन लंबा था तथा सब प्रकार के सुख-सुविधाओं से पूर्ण होने के कारण भोगों का निवास, पाताल के समान महनीय, वज्रायुध की महिमा से समन्वित, इन्द्रलोक के समान सप्तर के श्रेष्ठ तंत्र में विलसित, अग्नि के निवास के समान, अत्यधिक भयकर यमलोक के समान, विविध मेदा, मांस आदि से युक्त होने के कारण (नैऋत) राक्षस के भवन के आँगन के समान, निरुपम वारुणी से युक्त होने से वरुणालय के समान, सुगन्धित वायु से युक्त पवन के निवास के समान, श्रेष्ठ निधियों से युक्त कुबेर के भवन के समान, श्रेष्ठ विभूति का आगार शिव के निवास के समान, तथा श्रेष्ठ पद्म-राग की प्रभा से समन्वित ब्रह्म-लोक के समान, सुशोभित थी । सोनेवाले कुम्भकर्ण के दीर्घ निश्वासों से राक्षस कपित हो उठे, किन्तु जैसे-तैसे उसके निकट पहुँचे और निर्मल तथा विशाल स्वर्ण-पर्यंक पर, हंस-तूलिका-तल्प पर शयन करने-वाले कुम्भकर्ण को देखा । वह अपने कंधे पर कपोल टिकाये, सतत दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए सो रहा था । उसके मुख पर श्रम-जल की बूँदें थी और उसके नेत्र किञ्चित् खुले हुए-से थे । उसके शरीर पर कर्पूर तथा चंदन का लेप था और उसके वक्ष पर उज्ज्वल मणिमय हारों का समूह था । वह आनंद में अपने आपको भूलकर निद्रा तथा कामिनियों के साथ रति-क्रोडा में सतत तल्लीन रहनेवाले के समान दीख रहा था और कदाचित् देवताओं पर कई बार विजय प्राप्त करने के सबंध में स्वप्न देख रहा था । ऐसे कुम्भकर्ण को देखकर आगतुक राक्षस दुःखी होने लगे कि हाय, ब्रह्मा ने ऐसे महान् वीर को ऐसी निद्रा क्यों दी ? उसके पश्चात् उन्होंने उसके आगे भात की राशियाँ तथा महिष एव वराह का पकाया माँस आदि सजाये, चंदन तथा पुष्पों से उसकी पूजा की, धूप जलाया, दीपों से आरती उतारी और हाथ जोड़कर उसकी स्तुति के पाठ किये । फिर, उन्होंने अशनि-घोष से भी अधिक भयकर ध्वनि की, निसानों का विपुल निनाद किया, भीषण भेरी-ध्वनि की, और सिंह के समान गर्जन किया । वह महाध्वनि पाताल-लोक में, नक्षत्र-पथ में सभी दिशाओं में तथा स्वर्ग में भी व्याप्त हो गई । इस पर भी कुम्भकर्ण नहीं जगा, इसके विपरीत वह और अधिक गभीर निद्रा में डूब गया । तब सभी राक्षसों ने गदा, मूसल, मुद्गर आदि से उसपर प्रहार किया । दस हजार भाले उसकी पसलियों में चुभोये । उस पर लगातार पहाड़ गिराये और उसकी छाती पर चढकर, हाथों तथा पैरों से ताडन किया । फिर भी कुम्भकर्ण नहीं जगा । तब उन्होंने भीषण सिंहनाद करते हुए, शंख बजाते हुए असंख्य कुम्भ, पटह, भेरी, तुरही आदि का घोर निनाद किया । दस हजार भयकर राक्षस लगातार निसानों को बजाते ही रहे । इतनी ध्वनि होने पर भी कुम्भकर्ण नीलाद्रि के समान बिना हिले-डुले ही पडा रहा । तब राक्षसों ने उसे हाथी, घोड़े, ऊँट, जंगली भैंसे आदि जानवरों से रौंदवाया और बड़े लट्ठों से उसका सारा शरीर चूर-चूर कर दिया और एक साथ सभी बाद्य बजाये । सारी लका इस ध्वनि से काँप उठी और वानर-सेना भी शंकित होने लगी । इतना सब करने पर भी कुम्भकर्ण ऐसा सो रहा था, मानो उसके कान पर जूँ तक न रेंगी हो । तब कुछ राक्षस दिशाओं को कंपायमान करते हुए भेरीनिनाद

करने लगे, कुछ पर्वत गुफाओ को प्रतिध्वनित करते हुए सिंह-सम गर्जन करने लगे, कुछ अपने हाथो में उसके केश लपेटकर नोचने लगे, कुछ उसके कर्ण-मुटो में प्रवेच करके उसके परदो को दाँतो से काटने लगे और कुछ अविराम गति से गदा, मृद्गर, खड्ग, मूसल आदि से उसके मुख तथा वक्ष पर प्रहार करने लगे । तब उस राक्षस की नीद थोड़ी उचटी । उसने एक जँभाई ली और फिर सोने लगा । तब राक्षसो ने उसे बडे-बडे रस्सो से बाँध दिया और एक सहस्र घट उबलता हुआ तेल उसके कानो में उडेल दिया, नथुनो में जलनी हुई शलाकाएँ रखी, एक साथ भयकर गति से वे भेरियो का निनाद करने लगे और लगातार हाथी तथा घोडो से उसका वक्ष रौदवाने लगे । तब कुम्भकर्ण किञ्चित् शक्ति-सा हुआ और सर्प के समान भयकर हाथो को फैलाया, थोडा-सा जगा, हुकार भरकर अँगडाई ली और अपने विशाल मुन्ध को विकृत करते हुए जँभाई ली और आँखें खोलकर भयंकर रूप धारण किये ऐसे बैठ गया, मानो उसने यह सोच लिया हो कि जब राम मुझे महान् सायुज्य पद ही देनेवाले है, तब मुझे इस निद्रा की क्या आवश्यकता है और अपनी निद्रा त्याग दी । उसका मुँह प्रलयकाल के मूर्ध-बिम्ब के समान लाल था, और विध्याचल की गुफाओ से निकलनेवाले पवन के समान उम्वी उमामें चल रही थी और उसकी आँखें प्रलय-काल के अर्क-बिम्ब के समान लाल दीम्ब रही थी ।

इस प्रकार, उसके जगकर बैठने के पश्चान् सभी राक्षस दानवेश्वर के पास जाकर बोले—‘हे देव, कई प्रकार से पीडा पहुँचाने के पश्चान् आपके अनुज जगो है, हम उनसे युद्ध में जाने की प्रार्थना करें या आपके सम्मुख उन्हें लिवा लायें ? आप जो आज्ञा दें ।’ तब रावण ने बडी प्रीति से कहा—‘उसको यही लिवा लाओ ।’

६८. राघवों की युद्ध-यात्रा पर कुम्भकर्ण का क्रुद्ध होना

रावण की आज्ञा के अनुमार राक्षस कुम्भकर्ण के पास गये । अपने समक्ष बडे हुए राक्षस-समूह को देखकर उसने कहा—‘तुम लोगो ने मुझे क्यों जगाया ? अब रावण के लिए कौन-सा कार्य आ पडा है ? कहो, बात क्या है ?’ तब उन्होंने कहा—‘आप स्वयं प्रभु रावण से ही सारी बातें जान लें ? आपको लिवा लाने के लिए उन्होंने हमें भेजा है । इससे अधिक हम और कुछ नहीं जानते ।’

तब कुम्भकर्ण उठा, जी भरकर स्नान किया, सुंदर वस्त्राभूषण पहने और प्रकाशमान किरीट धारण किया । उसके पश्चान् बडे मोद से राक्षसो ने कई प्रकार के मिष्टान्न, पकवान, मधु, महिष तथा सूकर का मास, भेजा तथा घी के बरतन लाकर उसके सामने रखे । कुम्भकर्ण ने पहले बडी प्रीति के साथ भेदा तथा मास खाया, छककर रक्त तथा मधु पिया और अत्यधिक सतुष्ट हुआ । तब सभी राक्षस प्रणाम करके उसके समक्ष खड़े हुए । तब कुम्भकर्ण ने उन्हें देखकर कहा—‘दानवेश्वर अपने पुत्र तथा बधुजनों के साथ कुशल है ? लका पर कोई विपत्ति तो नहीं आई ? यदि उस पर कोई विपत्ति आ पडी है, तो मैं उस भय को दूर कर दूँगा । अमरेन्द्र से भी सिद्धकर उसे स्वर्ग से भगा दूँगा; प्रलय-काल की अग्नि को भी बुझा दूँगा, शत्रुओ के तीव्र दर्प को भग कर दूँगा ।’

तब उपास ने हाथ जोड़कर कुम्भकर्ण से कहा—‘हे राक्षसवीर, सुनिष्ट-हमें देवदत्त,

राक्षस तथा गधवों की ओर से कोई भय कभी नहीं हुआ। अभी मानवों ने हम में भय उत्पन्न किया है। देव-शत्रु रावण के जानकी को ले आने से क्रुद्ध होकर रविकुलोत्तम राम अत्यंत पराक्रमी वानरों के साथ लका पर चढ़ आये हैं। इसके पहले अकेले एक वानर ने अक्षयकुमार का वध करने के पश्चात् लका को भस्म करके अपनी शक्ति को प्रकट किया था। अब इन महान् कपियों को जीतनेवाला कौन है? राम देवों तथा असुरों से भी अधिक पराक्रमी हैं और रावण भी उनके साथ युद्ध करके हार गये हैं और त्रस्त होकर लका में लौट आये हैं।'

इन वचनों को सुनकर उस निशाचर की आँखों से अग्नि-कण निकलने लगे। उसने भीषण क्रोध से उद्दीप्त होकर दाँत पीसते हुए कहा—'युद्ध में सभी वानरों तथा अत्यंत पराक्रमी दाशरथियों को वध किये बिना, वानरों के रक्त-मांसों से राक्षस-समूह को तृप्त किये बिना तथा स्वयं राम-लक्ष्मण के रक्त का पान किये बिना मैं कौन-सा मुँह लेकर रावण के सम्मुख आऊँ? मैं वैसा करने के पश्चात् ही वहाँ आऊँगा।'

इस पर महोदर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा—'हे वीर, दशकठ से मिलने के पश्चात्, आप ऐसा ही कीजिए। उनका आदेश लेकर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए।' तब उसने कहा—'ऐसा ही हो' और राक्षसों की ओर देखने लगा। तब उन राक्षसों ने इक्कीस मनुष्यों के मांस का ढेर उसके सामने लगा दिया। फिर वे अस्सी महिष, सात सौ बकरियाँ, एक सहस्र सूकर, चार सहस्र मोटे मोटे खरगोश तथा छह सौ मृग ले आये और उनका वध करके अलग-अलग पकाया और उस मांस को उसके सामने लाकर रखा। कुम्भकर्ण सारे मांस को खाकर तृप्त हुआ। उसके पश्चात् उसने दो सहस्र घट मद्य पीकर ऐसी डकार ली कि सभी दिशाएँ विदीर्ण-सी हो गईं। फिर अपनी मुँहों पर ताव देते हुए, आँखों को घुमाते हुए अपनी गति में सारी पृथ्वी को कँपाते हुए, अपनी गुफा से यो निकल पड़ा, मानो राहु के मुँह-गह्वर से मुक्त प्रलय-काल का सूर्य हो, या बलि-महाराज को दड देकर, सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त होनेवाले त्रिविक्रम हो।

उस प्रकार दीर्घ तथा भीषण आकारवाले राक्षसवीर को आते देखकर किले के बाहर रहनेवाले सभी वानर त्रस्त हो उठे। कुछ वानर विस्मित हुए, कुछ जहाँ-तहाँ छिपने लगे, तो कुछ वानरों के पैर लडखडाने लगे, कुछ भयभीत हो उठे, तो कुछ मूर्च्छित होकर गिर पड़े, कुछ समुद्र में कूद पड़े, तो कुछ दाँतों-जले उँगली दबाये खड़े रहे और कुछ राम की आड़ में जा खड़े हुए। तब राम ने उन्हें देखकर लक्ष्मण को धनुष-बाण लाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात् उन्होंने विभीषण को देखकर कहा—'हे विभीषण, पृथ्वी तथा आकाश का स्पर्श करनेवाले विशाल शरीर से संपन्न प्रलय-काल के मेघों के बीच चमकनेवाली बिजलियों के समान आभूषणों की काति से दीप्त तथा तीनों लोकों को एक साथ निगलने योग्य मुँह से युक्त यह कौन है, जो वहाँ नगर के मार्ग से जा रहा है? क्या, वह यमराज है, या प्रलय-काल का अनिल है, या प्रलय-काल का रुद्र है, या प्रलय-मास्त है, या प्रलय-काल का सूर्य है, या प्रलय-काल का शेष-नाग है, या प्रलय-मृत्यु है, या प्रलय-काल का वरुण है, या प्रलय-काल का यम है या प्रलय-काल का भैरव है या प्रलय-काल

कौं रुद्र के लिए प्रलय-रुद्र है ? ऐसा भीम-रूप हमने अबतक न कभी देखा, न उसके बारे में कभी सुना ही है । यह तो बताओ कि वह कौन है ? क्या वह दानव है या दैत्य है ? यह किस कुल का है ? वह कहाँ का रहनेवाला है ? इसका नाम क्या है ? इसे देखकर सभी वानर त्रस्त हैं, इसका आकार-प्रकार देखकर आश्चर्य हो रहा है ।'

६९. कुंभकर्ण का शाप-वृत्तांत

तब विभीषण ने राम को देखकर कहा—“हे देव, इस दैत्य का वृत्तांत सुनिए । यह विश्रवसु का पुत्र है और इसका नाम कुंभकर्ण है । रावण का भाई तथा महान् क्रूर है । देवताओं तथा दिक्पालों को पराजित करके उन्हें युद्धभूमि से भगा देनेवाला महान् बाहु-बली है । दीर्घशूल विविध आयुधों से युक्त तथा उद्वृत शक्ति से संपन्न है । यह समस्त ब्रह्माण्ड को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखता है । शक्ति में ब्रह्मा से कम नहीं है । जन्म के समय से ही यह अपने कुरूप मुँह से जीवधारियों को निगलने लग गया था । इस प्रकार, जीव-धारियों को निगलते देखकर इन्द्र ने अपना वज्रायुध इस पर चलाया, तब इसने क्रोध में आकर ऐरावत का दाँत उखाड़ लिया और उससे इन्द्र पर प्रहार किया । उस प्रहार से इन्द्र मूर्च्छित हो गया । उसके पश्चात् वह सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा की सेवा में पहुँचा और उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया—“हे देव, कुंभकर्ण नामक राक्षस पृथ्वी के जीवों का नाश कर रहा है और सुरों को पीड़ित कर रहा है । वह पर-स्त्रियों पर बलात्कार कर रहा है और हठ करके समस्त ससार का नाश कर रहा है । यदि वह ऐसे ही अत्याचार करता रहा, तो विश्व का सर्वनाश निश्चित है ।’

“उनकी बातें सुनकर कमलासन मन-ही-मन बहुत ही क्रुद्ध हुए और सभी राक्षसों को अपने समक्ष बुलाकर उनमें कुंभकर्ण का भयंकर रूप देखा । उसका रूप देखकर स्वयं ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा—‘ऐसा लगता है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड को निगल जायगा । इसका आकार-प्रकार देखकर स्वयं मुझे भी भय लग रहा है । जब इसका रूप इतना भयंकर है, तो क्या, यह त्रिनयन शिवजी को भी युद्ध में हरा नहीं देगा ?’ उसके पश्चात् ब्रह्मा ने ससार के प्राणियों का वध करने से उसे रोकने का विचार करके कहा—‘क्या, तुम्हारा जन्म पुलस्त्य के उत्तम वंश में इसलिए हुआ कि तुम अपना शौर्य दिखाकर सभी लोकों को त्रस्त करो और सभी प्राणियों का नाश करो ?’ फिर, उन्होंने मृत्यु के समान शाप देते हुए कहा—‘तुम निरंतर सोते रहो । बर्फ के वज्र के-से इस शाप के लगते ही कुंभकर्ण खड़ा रह नहीं सका और तुरत निद्रा के वशीभूत हो गया ।’

“तब रावण ने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा—‘हे देव, आप इस पर कृपा-दृष्टि कीजिए । स्वयं पौधा लगाकर फिर स्वयं उसको कहीं काटते । यदि अपने आकार के कारण यह दूसरों को कष्ट पहुँचाता है, तो उचित यही है कि उसे अच्छा उपदेश दिया जाय । ऐसे शाप से उसे दग्ध करना न्यायोचित नहीं है । इसके शाप का अंत कैसे होगा, इसकी भी व्यवस्था दीजिए ।’ तब ब्रह्मा ने रावण से कहा—‘यह लगातार छह मास तक सोता रहेगा (प्रत्येक छह मास के बाद) सिर्फ एक दिन यह जगा हुआ रहेगा ।’ हे देव, उसी समय से वह निश्चित होकर सोता और जागता रहता है । आपके दिव्य बाणों की भयंकर

अग्नि-ज्वालाओं के समक्ष न टिक सकने के कारण असमय ही रावण न इसे जगाने के लिए राक्षसों को भेजा । इसलिए यह युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर राजा के अंतपुर में जा रहा है । बहुत शीघ्र यह रावण की आज्ञा लेकर हम पर आक्रमण करने के लिए आयागा । उसके आने के पहले आप सारी कपि-सेना में यह घोषित करवाइए कि कोई इसके आकार को देखकर युद्ध-क्षेत्र से भाग न जाय, यह दनुज नहीं है, यह यत्र की सहायता से बना हुआ भयकर रूपवान्ना काठ का एक पुतला है । इस प्रकार घोषित कराकर आप वानरों का भय दूर कर दीजिए और उन्हें युद्ध के लिए सन्नद्ध कीजिए ।” तब राम ने नील को ऐसी घोषणा करने की आज्ञा देकर भेजा ।

कुभकर्ण को आते देखकर नगर की स्त्रियाँ उस पर फूलों की वर्षा करने लगी । निदान, कुभकर्ण चंद्रिका के निवास-सदृश सुशोभित होनेवाले उस सभा-मण्डप में ऐसे पहुँचा, जैसे उज्ज्वल किरणों से सुशोभित होनेवाला सूर्य धवल मेघ-समूह में प्रवेश करता हो । वहाँ पहुँचकर उसने अपने अग्रज को प्रणाम किया, तो रावण ने उसे बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया और उसे एक स्वर्णासन पर बिठाया । उसके पश्चात् कुभकर्ण ने अपने अग्रज को देखकर कहा—“हे असुरनाथ, आपका मुझे जगाने का क्या कारण है ? किसने आपका अपकार किया ? मैं किसें मार डालूँ ? क्या आज्ञा है ?”

तब रावण ने कुभकर्ण से कहा—“अपनी निद्रा को अधिकता के कारण यहाँ के कार्यों की गति-विधि से तुम अनभिज्ञ हो । इसलिए मैं तुम्हें सभी बातें समझाता हूँ, सुनो । दशरथ-नदन (राम) सुग्रीव को मित्र बनाकर समुद्र पर सेतु बाँधकर मुझ पर चढ़ाई करने के लिए आया है और अपनी सेना के साथ लका को घेरे हुए पडा है । उससे युद्ध करने गये हुए प्रहन्त आदि वीर राक्षसों का उसने सहार किया है, किन्तु उस युद्ध में एक भी वानर-वीर मरा नहीं है । इसलिए तुम उन राम-लक्ष्मण को जीतकर बालि-पुत्र तथा सूर्य-नदन का वध करो और लका के यश की रक्षा करो ।”

७०. कुंभकर्ण का हितोपदेश

रावण के ऐसे दीन वचनों को सुनकर कुभकर्ण ने रावण से कहा—“उस दिन एकांत में सभी मंत्रियों ने जिस विपत्ति की सभावना की थी, वही आज अचूक रूप से प्रत्यक्ष हुई है । यह किसी भी प्रकार टलनेवाली नहीं है । जो मदाध होकर, आगे-पीछे का विचार किये बिना कार्य करता है, वह सब प्रकार से हानि उठाता ही है, ऐसा व्यक्ति आपके सिवा और कौन हो सकता है ? जो राजा अपने बुद्धिमान् मंत्रियों की मन्त्रणा के अनुमार कार्य करता है, उसे अपने तथा मंत्री दोनों के उत्साह तथा शक्ति से अगणित फल प्राप्त होगा । राजा को चाहिए कि वह देश और काल का विचार करे, जन तथा धन को समृद्ध रखे, किसी कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व उसके सबध में सोच-विचार कर ले, उसमें पड़ने-वाले विघ्नो का निवारण करे और कार्य में कृत-कृत्य होकर सतत राज्य-सुख का आनन्द प्राप्त करते हुए पृथ्वी का पालन करे । उसे शत्रु के बल तथा शक्ति का मूल्यांकन करके, यदि शत्रु अपने से बलवान् हो, तो उससे सधि का प्रस्ताव करना चाहिए । यदि शत्रु अपने समान बलशाली हो, तो उसके विरुद्ध अपना बल तथा पराक्रम प्रकट करके, उसे अपने वश में

कर लेना चाहिए । यदि शत्रु अपने मे बलहीन है, तो उस पर सारी शक्ति से आक्रमण कर देना चाहिए । अवसर देखकर शत्रु-सेना पर आक्रमण करके शत्रुओं को जीतने का उपाय सोचना चाहिए । यदि शत्रु उद्वृण्ड होकर आक्रमण करे, तो उनमें फूट डालने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि वह महान् शक्तिशाली होने के कारण अजेय हो, तो उसकी शरण में जाना चाहिए । इन छोटी नीतियों को जानकर जो राजा व्यवहार करता है, वह अवश्य उन्नति करेगा । साम, दान, भेद तथा दड के चारो उपायो को जो सतत काम में लाता रहता है, उसके लिए अन्य नीति-शास्त्रो की आवश्यकता नहीं है । जो पर-धन, पर-स्त्री में अपना चित्त लगाता है, वह अपने सारे वश का नाश करता है ।”

कुभकर्ण के इन वाक्यों को सुनकर रावण क्रोध-विवश हो कहने लगा—‘मैं अग्रज हूँ, इसका विचार किये बिना तुम यहाँ आकर मुझे उपदेश दे रहे हो ? अब यह प्रलाप क्यों ? चाहे कैसे भी हो, मैंने यह कार्य किया है । अब इसे सँभालना तुम्हारा धर्म है न ? कहो ।’ तब कुभकर्ण ने कहा—‘हे दानवेन्द्र, मैं अवश्य युद्ध करने के लिए जाऊँगा । किन्तु एक और बात सुन लीजिए । एक दिन की बात है । मैं निद्रा से जगने के पश्चात् अत्यधिक प्राणियों को खाकर एकात में बैठा हुआ था । उमी समय अनघ नारद वहाँ आये । मैंने उनके निकट जाकर कहा—‘हे अनघ, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ? कृपया बतलायें ।’ तब उन्होंने कहा—‘मैं कनकाद्रि से आ रहा हूँ । मैं वहाँ की बातें तुम्हें सुनाऊँगा, सुनो । कनकाद्रि पर कमलासन (ब्रह्मा); फाल्गु-लोचन (शिव), पंकजनाभ (विष्णु); पाकशासन, अनल, यम, वरुण, अनिल, यक्षराज कुबेर, चद्र, सूर्य आदि ग्रह, सिद्ध, मुनि, किन्नर, गधर्व, गीर्वाण, गरुड, पन्नग तथा गुरु-प्रमुख आदि लोगों की एक सभा एकत्रित हुई थी । उस सभा में मुर-गुरु बृहस्पति ने कहा— ‘दशकठ हमारी उपेक्षा करके अत्यधिक उद्वृण्ड हो सारे ससार को त्रास दे रहा है । उसने अपनी प्रचंड शक्ति से युद्ध में इन्द्र को परास्त किया है, यम को भगा दिया है, वरुण को जीत लिया है, अपने बल का प्रदर्शन करके कुबेर को अपने अधीन कर लिया है, उद्धत गर्व से कई धर्मात्माओं को बदी बनाकर पीड़ित किया है, रवि-चद्र का तेज मंद करके उनको अपनी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए बाध्य किया है, ग्रहो को पीड़ित किया है, मत्र-पूत यज्ञो को नष्ट किया है; महान् उद्यान-वाटिकाओं को उजाड़ दिया है और असंख्य उत्तम स्त्रियों को कारागार में डाल दिया है । ऐसे भयकर कार्य करते हुए उसने सभी भुवनो को त्रस्त कर दिया है । अतः, आप उस दशानन का नाश करने का कोई उपाय सोचें ।’

‘बृहस्पति के वचनो को सुनकर ब्रह्मा ने सभी देवताओं से कहा—‘मैंने पहले उसे वर दिया था कि वह सुर, गरुड, उरग, असुर तथा यक्षों के हाथो से नहीं मरेगा । अब मैंने इसका प्रतीकार सोचा है, सुनो । उसने मुझसे मनुजो क. चर्चा नहीं की थी और वरदान के समय मैंने भी इसकी चर्चा नहीं की । अतः, युद्ध-क्षेत्र में केवल मानव उसे परास्त कर सकेंगे । इसलिए आप आदिबिष्णु, कमलनाभ तथा लोकवच्च मुकुद से प्रार्थना कीजिए कि वे मर्त्य-लोक में जन्म लें ।’ इसके पश्चात् देवताओं तथा मुनियो ने वैसे ही किया ।

हरि ने भी मर्त्यलोक में जन्म लिया है ।' इतना कहकर नारद चले गये । हे दैत्य-राज, सूर्य-वश-तिलक आदि देव ही हैं, वे मनुज नहीं हैं । अतः, सीता को उन्हें सौंप दीजिए । उनकी शरण लीजिए और सभी वानरो को देवता जानिए । हे दानवेन्द्र, मेरी बात सत्य मानिए ।''

७१. रावण का कुम्भकर्ण के उपदेश का तिरस्कार करना

कुम्भकर्ण के इन वचनों को सुनकर दशानन मन-ही-मन सताप की अग्नि में जल गया और थोड़ी देर तक मौन बैठा रहा । फिर, दीर्घ निश्वास छोड़कर अत्यंत चित्ताक्रान्त हुआ और साथ-ही-साथ भयभीत भी, किन्तु अपने भय को प्रकट किये बिना उसने क्रुद्ध होकर अपने अनुज को देखकर कहा--“वार-वार ‘विष्णु’, ‘विष्णु’, कहकर क्या प्रलाप कर रहे हो ? इतना भय तुम्हें कैसे होने लगा । स्वयं विष्णु से भी मैं नहीं डरता, तब मानव-वेगधारी विष्णु से मैं क्यों भयभीत होऊँगा ? मुझे वार-वार ऐसा भय क्यों दिखाते हो ? भले ही तुम भयभीत हो जाओ । चाहे रावण विष्णु ही क्यों न हो, उसका अनुज इन्द्र ही क्यों न हो, सुग्रीव हर ही क्यों न हो, उन्हें मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा । समस्त नीतिशास्त्रों के ज्ञाता होने हुए भी तुम चाहते हो कि जिस राम से मैंने विरोध ठान लिया है, उसके साथ हीन मित्रता कर लूँ ? नीति-शास्त्र का तुम्हारा सारा ज्ञान आज निष्फल हुआ । युद्ध-भूमि में हमारा सहार करके, मुनियो तथा सुरों की रक्षा करने का विचार करके, जगदेकरक्षक तथा कमलनाभ ने अपने देवत्व को त्यागकर, धोखे से मानवत्व को धारण कर लिया है और इस जगत् पर राम होकर जन्म लिया है, भला, उससे हमारी सधि कैसे संभव है ? मैं अपने गर्व को छोड़कर वानरो के आश्रय में रहने-वाले उम राम के पास कैसे जाऊँ ? यही कमलनाभ वामन का रूप धरकर बलि के यज्ञ में गया, तीन चरण पृथ्वी दान में ली और फिर उसे बदी बनाया । इसने तुरन्त उपकार करनेवाले का अपकार कर दिया । ऐसी दगा में हम विरोधियों का सहार किये बिना ब्रह्म रहेगा क्यों ? हमारे और राम के मध्य सधि हो कैसे सकती है ? जब हम दोनों ने इन्द्र-लोक पर बढाई की थी और अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए महान् पराक्रमी इन्द्र आदि देवताओं को परास्त किया था, तब यह विष्णु कहाँ था ? क्या, तुमको इसलिए मैंने जगाया कि मैं तुमसे उपदेश सुनूँ ? भला, तुम्हें यह भय क्यों हुआ ? प्राणों के भय से इतनी बातें क्यों करते हो ? यदि तुम्हें प्राण प्रिय हैं, तो तुम कुशलपूर्वक रहो । मैंने तो दीर्घ आयु पाई है, तीनों लोकों को जीता है, कई प्रकार के राज-सुखों का अनुभव किया है और अपना अनुपम तेज समस्त ससार में व्याप्त किया है । मैं और लोगो के समान हीन पराक्रमी राम को प्रणाम नहीं करूँगा । मैंने तुम्हें युद्ध में जाने का आदेश दिया, तो जाने की इच्छा नहीं रखते हुए ऐसे वचन तुम क्यों कहते हो ? अब तुम जाकर सुख से सो जाओ । शत्रु सोनेवाले को नहीं मारते । मैं स्वयं राम-लक्ष्मण का, सुग्रीव का तथा अन्य भयंकर-पराक्रमी वानरों का सहार करूँगा । सभी देवताओं का वध मैं स्वयं करूँगा । विष्णु को भी मैं ही मार डालूँगा । उस विष्णु के अनुचर-शूरो को युद्ध में जहाँ भी मिलेंगे, मैं अपनी शक्ति दिखाने हुए मारूँगा । तुम कायर की भाँति चिरकाल तक जीवित रहो ।”

इतना कहने के पश्चात् रावण ने फिर कुम्भकर्ण से कहा—‘मैं जानता हूँ कि लक्ष्मी स्वयं सीता होकर इस पृथ्वी पर जन्मी है। मैं जानता हूँ कि विष्णु स्वयं रघुराम होकर जन्मे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि युद्ध में राम के हाथों मेरी मृत्यु अवश्य होगी। अब तुमसे मैं क्या छिमाऊँ ? मैं काम-वश ही सीता को नहीं लाया, क्रोधाभिभूत होकर बलात् मैं सीता को नहीं लाया, युद्ध में रघुराम के हाथों मरकर वदनीय विष्णु का परम-धाम प्राप्त करने के निमित्त ही मैं सीता को लाया हूँ।’

इस प्रकार के वचन कहनेवाले रावण को देखकर कुम्भकर्ण ने कहा—‘हे दानवनाथ, जब मैं आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, तब आप व्याकुल क्यों होते हैं ? आप आनंद से रहिए। मैं शत्रु का नाश करूँगा।’ इसके पश्चात् उसने सारी सभा की ओर एक बार ध्यान से देखा और कहा—‘हे इन्द्र के शत्रु, इस सभा में निर्मल चरित्रवान्, विभीषण नहीं दोग्वे रहा है। वह कहाँ है ?’ तब रावण ने कहा—‘राम-लक्ष्मण के लका पर आक्रमण करने का समाचार सुनकर उस मंत्रय में परामर्श करने के लिए सभी लोग एकत्र हुए थे। निद्रा के वर्गीभूत होकर तुम तो शीघ्र यहाँ से चले गये। तब विभीषण ने राम के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करके उसकी प्रशंसा में ऐसे हृदय-विदारक शब्द मुझसे कहे कि क्रोध में आकर मैंने दृढ़ता के साथ कहा—‘यदि तुम यहाँ रहो तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। तब वह मुझे छोड़कर राम की शरण में चला गया और अब वही है।’

७२. कुम्भकर्ण की गर्वोक्तियाँ

तब कुम्भकर्ण ने सोचा कि अब परिस्थिति बड़ी विकट हो गई है, मुझे अवश्य युद्ध में जाना ही चाहिए। अब मैं (अपनी गुफा में) लौट नहीं सकता। इस प्रकार, निश्चय करके उसने रावण के सामने दृढ़ता से यह प्रतिज्ञा की—‘मैं यमराज से भी भिड़कर उसका नाश करूँगा, ब्रह्मा को भी पकड़कर उसका मर्दन करूँगा, आदिशेष को भी पकड़कर उसे चारों ओर आकाश में घुमाऊँगा, विहगेन्द्र (गण्ड) को भी त्रस्त करूँगा, प्रलयान्ति को भी निगल जाऊँगा। समुद्र का सारा जल पी जाऊँगा, विष्णु को भी युद्ध में परास्त कर दूँगा। रुद्र को भी नामावशिष्ट करूँगा, नैऋत को भी पकड़कर खड-खड कर दूँगा, मृत्यु का भी गला घोट दूँगा, वरुण का भी तेज नष्ट करूँगा, कुबेर का भी पेट चीर डालूँगा; सूर्यविभ को भी अपनी मुष्टि में कस लूँगा और ब्रह्माण्ड को भी ठुकरा दूँगा। ऐसी दशा में मेरे उद्धत रण-कौशल के समक्ष, इन वानरों को निगल जाना कौन बड़ा काम है ? हे असुरेन्द्र, मैं अवश्य इन कपियों को पहाड़ों पर भगाकर, उन मानवों का वध कर दूँगा, आप निश्चित रहिए। जब राम मेरे हाथ से मारे जायेंगे, तब सीता अनाथा बन जायगी और आपकी कामना पूरी होगी।’

इन बातों को सुनकर महोदर ने बाहुबली कुम्भकर्ण से कहा—‘हे वीर, तुमने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा यह उत्कट गर्व उचित ही है; किन्तु नीति तथा अनीति का विचार किये बिना क्या कोई वीर ऐसे शत्रु-वध की प्रतिज्ञा करना है ? भयकर सिंह की भाँति क्रोधोन्मत्त होकर प्रखर तेज से विलसित होनेवाला राम, केवल मानव नहीं है, स्वयं विष्णु इस रूप में आया हुआ है। एक ही बाण से बालि का सहार करने-

वाले उस श्रेष्ठ वीर को जीतना, क्या, तुम्हारे लिए सभव है ? उद्दण्ड पराक्रमी तथा महाबली राम पर तुम्हें अकेले आक्रमण करने की सलाह हम नहीं देते । तुम सेना के साथ जाओ और महाबली राम पर विजय प्राप्त करो ।’

इसके पश्चात् उसने दशकूट से कहा—‘हमारे रहते आप चिंता क्यों करते है ? क्या, हम आपका मनोरथ पूर्ण नहीं करेंगे ? जानकी को प्राप्त करने के लिए आप इतने व्याकुल क्यों है ? मैं, सपाति, द्विजिह्व, तथा गभीर पराक्रम-सपन्न बाहुबली कुभकर्ण, सब एक साथ मिलकर जायेंगे और राम पर विजय प्राप्त करेंगे । फिर तो, आपको वैदेही प्राप्त होगी ही । ऐसा नहीं भी हो सकता और हम राम के उग्र बाणों के आघात से क्षत-विक्षत हो जायेंगे, तो भी हम आपके पास लौटकर आयेंगे और आपके चरणों में प्रणाम करके यो ही कहेंगे कि हे देव, हम भयकर वानर-सेना के साथ राम लक्ष्मण का वध करके उन्हें खा गये है । तब आप बड़े मोद से हमें हृदय से लगाकर हमारे प्रति आदर दिखाते हुए, उस समाचार को सारे नगर में प्रकट करेंगे । उस वार्त्ता को सीता सत्य मानेगी और पति की आशा छोड़कर आपकी बात मान लेगी ।’

तब कुभकर्ण ने क्रुद्ध होकर असुरेन्द्र को देखकर कहा—‘इन सब भ्रूयी बातों से क्या प्रयोजन है ? मेरे बाहुबल को देखिए । मैं अवश्य ही राम को जीत लूँगा । आप निश्चिन्त रहिए ।’ रावण भी बड़े उत्साह से, अपने पुनर्जन्म की प्राप्ति को निकट देखकर बड़े आनन्द से बोला—‘मुझे विश्वास है कि तुम युद्ध में राम-लक्ष्मण को अवश्य जीत लोगे । अनुपम शक्ति तथा शौर्य में तुम्हारी समता कर सकनेवाला कोई वीर नहीं है । यह सत्य है । शूल आदि श्रेष्ठ आयुधों के साथ तुम युद्ध करो ।’ इस प्रकार कहते हुए बड़ी प्रीति से उसने कुभकर्ण को अनुपम रत्नाभरण आदि भेंट किये ।

७३. कुभकर्ण का युद्ध के लिए जाना

तब रावण का भाई उन आभूषणों को पहनकर उज्ज्वल आभा से दीप्त हो उठा । स्वर्ण-कवच धारण करके वह सध्या के मेघों से आवृत पर्वत की भाँति तथा बहु-रत्न-कलित मेखला धारण करके वह वासुकि से आबद्ध मदराचल के समान सुशोभित होने लगा । उस राक्षसपुंगव ने रणोत्साह से भरे, अपने हाथ में तीनों लोको में अपनी भयकर दीप्ति व्याप्त करनेवाला, विजय-प्रदायिनी शिव के शूल से भी सुदर, अपनी नोक से निकलनेवाली ज्वालाओं के द्वारा अग्निकण बिखेरनेवाला, सदा पूजित, रत्न-प्रभा से भासमान तथा शयु-वीरों के रक्त से रजित अनुपम शूल धारण किया । उसके पश्चात् उसने अपने भाई को प्रणाम किया और उसके आशीर्वाद प्राप्त करके, उस सभा-मंडप से अपने कार्य में तत्पर हो अत्यंत वेग से यो चल पड़ा, मानो उसके प्राण उससे यह कह रहे हो कि हे कुभकर्ण, इस दुःखद शरीर में हम रहना नहीं चाहते, शीघ्र इसे युद्ध-भूमि में त्याग दो, चलो, और उसे जैसे खींचे लिये जा रहे हो । तब राक्षस-वीरों का समूह भी उसके पीछे-पीछे युद्ध के लिए निकल पड़ा । वे सब घोड़ों पर, गजों पर, रथों पर, सिंहों पर चढकर काजल के पर्वतों के समान सुशोभित होते हुए, अपने विशाल दंष्ट्रों की दीप्ति चारों ओर फैलाते हुए, इस प्रकार जा रहे थे, मानो क्रूरता ने ही एक स्थान पर एकत्रित हो पिंड-रूप धारण कर लिया हो

तथा शौर्यं स्वयं रूपं धारणं करके चल रहा हो। युद्ध करना ही एकमात्र लक्ष्य बनाकर, बड़े गर्व से भूमते हुए, परिध, भाले, गदा, कोदंड, करवाल, मूसल, मुद्गर, परशु, चक्र आदि आयुधों से सज्जित होकर पदाति-सेना उद्दण्ड गति से चलने लगी।

इस प्रकार की सेना से युक्त हो, दर्प से भरे हुए कुम्भकर्ण युद्ध के लिए रवाना हुआ, तो नगर की स्त्रियों ने उस पर पुष्प-वर्षा की, उसके ऊपर चंद्र-मंडल-समान छत्र शोभायमान होने लगे और चंद्रमुखी स्त्रियाँ चामर डुलाने लगी। उस समय घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंघाड़, रथों का विपुल रव, निसानों की घोर ध्वनि, पटह, भेरी, शंख तथा नगाडों का भीषण रव एव घटा, मृदग और डकों के विपुल नाद की सम्मिलित ध्वनि से पृथ्वी विदीर्ण-सी होने लगी, समुद्र आलोकित हुए, दिशाएँ फट गईं, आकाश काँप उठा, दिग्गज घँस गये, सभी जगत् त्रस्त हुए और पर्वत टूटकर गिरने लगे। उस समय काले-काले बादल ऐसे घोर गर्जन करने हुए त्रिजलिर्माँ गिराने लगे, मानो वे राघव के अनुचर बनकर आये हों और कुम्भकर्ण को डाटकर कह रहे हों—‘हे अत्याचारी दुष्ट दानव, तुमने ससार को जो दुःख दिया था, उमका फल अब भोगो।’ तारे टूटकर पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगे, मानो कह रहे हों—‘हम इस बात के साक्षी हैं कि अत्यधिक दहाड़ते हुए इठलानेवाले इस राक्षस का अग-भग सुग्रीव ने किया था और वह राघव के हाथों से हत होनेवाला है।’ प्रतिकूल पवन ऐसा चलने लगा, मानो वह अपने पूर्ववैर का प्रतिशोध लेने के लिए राम की आज्ञा से वेग से चल रहा हो। पृथ्वी इस प्रकार कपित होने लगी, मानो वह भयभीत हो रही हो कि जब इस अधम राक्षस को राम मार डालेंगे, तब मुझ पर गिरेगा, उस समय न जाने मुझे कितनी पीडा होगी। खग ऐसे भँडराने लगे, मानो कह रहे हों—‘हे नीच राक्षस, हमें पक्षपाती (पक्षों से उडनेवाले) मत समझो, तुम राघव के खगों से (वाणों से) अवश्य मरोगे।’ किन्तु इन सबकी उपेक्षा करते हुए, दुग्ने साहस तथा उत्साह के साथ, अपनी क्रुद्ध दृष्टियों से ही वानर-समूह को भस्मीभूत कर देने का सकल्प करके आनेवाले उस अनुपम वीर ने दुर्ग के बाहर रहने-वाले कपि-समूह को देखा। कपियों ने भी उस कुम्भकर्ण को देखा और प्रचंड वायु के आघात से भागनेवाले भेड़ों के समान जहाँ-तहाँ भागने लगे। कुम्भकर्ण ने शीघ्र दुर्ग के बाहर निकलकर सिंह-गर्जन किया। उस दहाड़ को सुनकर सभी वानर मूच्छित होकर गिर पड़े, समुद्र आलोकित हुआ और भूमि काँपने लगी तथा देवताओं के मन में भय प्रवेश कर गया।

७४ वानर-कुम्भकर्ण का युद्ध

कुछ ही समय के पश्चात् वानर-वीर सचेत हो गये और यम-सदृश आकारवाले उस कुम्भकर्ण से भिड गये। वे सिंह-गर्जन करते हुए, वृक्षों, पर्वतों और श्रृंगों को फेंकने लगे। दानव-सेना भी बड़े वेग और तत्परता से उनसे जूझ गई। जैसे प्रलयकाल में समुद्र आपस में भिड जाते हैं, वैसे ही दोनों सेनाएँ आपस में भिड गईं। राक्षसों ने रथ पर आरुह्य होकर शत्रुओं के शरीरों, हड्डियों, जाँघों तथा पसलियों को चूर-चूर कर दिया; रथ के अश्वों से, उनकी आँतें कट, सिर आदि कुचलवा दिये और दिशाओं को भेदनेवाले अपने

खड्गो से वानरो के शरीरो के खड-खड कर दिये । इससे सतुष्ट न होकर उन्होने अपने तीक्ष्ण वाणो से पृथ्वी तथा आकाश को ढक दिया और इस प्रकार बड़ी भयकर रीति से वानरो का संहार किया । वानरो ने भी रथो पर कूदकर अपने पदाघातो से उनको पीछे की ओर ढकेल दिया, उनका जूआ पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया और उन्हें चूर-चूर करके दूर फेंक दिया, तीव्र वेग से सारथियो पर कूदकर, अपने पैरो से उन्हें कुचल दिया, उन्हें पृथ्वी की ओर घसीटकर उनके सिर काटकर फेंक दिये और बड़ी तीव्र गति से रथो पर कूदकर राक्षस-वीरो को विविध रीतियो से मारने लगे । यह देखकर राक्षस अत्यधिक रोष से वानरो को घेरकर अपने मदमत्त हाथियो को उन पर चलाकर, उनकी सूँडो से वानरो को नीचे पटकवाने थे और उनके कपाल तथा भेजा को हाथियो के पैरो के नीचे कुचलवाकर मिट्टी में मिला देते थे । गजो पर आरूढ राक्षस-सैनिक भयकर बाण चलाकर वानरो को खड-खड करके नीचे गिरा देते थे । तत्र कपि भी क्रोधोन्मत्त होकर हाथियो के दाँतो को पकड़कर, उनको झूझभोर कर, उनके गड-स्थलो पर पदाघात करके उन्हें फोड़ देते थे । फिर, उन हाथियो की टाँगें पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर ऐसे पटक देते कि उनका ग्वन, माथ और हड्डियाँ एक साथ मिलकर एक लोधा बन जाता । उसके उपरान्त वे गजो पर आरूढ राक्षसो पर अत्यंत रौद्र गति से आक्रमण करके, उनके धनुष, हाथ, सिर, धड, कवच आदि नीचे गिराकर उन्हें मार डालते । अश्वारोही राक्षस-सैनिक एक साथ मिलकर, डींग हाँकते हुए अश्वो को वानरो पर दौड़ाकर उन पर कई प्रकार से शर-वर्षा करते और अपने पैने खड्गो से शत्रु-सैनिको के खड्गो को काट देते थे । वानर भी क्रुद्ध होकर घोडो के पैर या पूँछ पकड़कर या तो चारो दिशाओ में उछालकर फेंक देने थे, या आकाश की ओर उछाल देते थे, या पृथ्वी पर पटक देते थे या चीग डालते थे, या पदाघातो से चूर-चूर कर डालते थे । फिर, अश्वारोहियो को बड़े साहस के साथ पृथ्वी पर पटककर मार डालते थे । तब पदचर राक्षस बड़े दर्प के साथ आँखो से अग्नि-वर्षा करते हुए उदुण्ड मति से वानरो पर बाण चलाने लगे । वे उन्हें भालो से चुभोते थे, बरछियो से भोकते थे, पैने खड्गो से काटते थे, मुद्गारो से चूर-चूर करते थे और अन्य अस्त्रो मे भयकर प्रहार करके उनका संहार करते थे । वानर भी उन पदचर सैनिको पर टूट पडते और उनके विविध अस्त्रो को तोड़ देते थे । वे राक्षसो को चरणो तथा हथेलियो से मारकर उनके कवचो को फाड़ देते थे; दोनो हाथो से दो राक्षसो को पकड़कर उन्हें एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरा देते थे, उनके शिरो तथा धडो को काट देते थे और इस प्रकार वे असह्य राक्षसो को मार डालते थे ।

इस प्रकार, दोनो सेनाओ में जब घोर युद्ध चलने लगा, तब युद्ध-भूमि राक्षसो की मृत्यु-देवता के श्रीडा-सरोवर के समान भयकर दीखने लगी । उसमें रक्त जल की भाँति, मास-पेशियो विकसित लाल कमल के समान, मुख कमल के जैसे, नेत्र कुमुदो की पक्ति की भाँति, आँतें मृणालो की भाँति, जमा हुआ भेजा फेन के समान, विपुल केश-समूह भ्रमरो के समूह की भाँति, असह्य शस्त्र लहरो की भाँति, चामर-समूह हसो की नाई और धूलि पराग की भाँति दीखने लगी । सुर तथा खेचर बहुत ही आनदित दीखने लगे । युद्ध के

समय जब कपिनैनिक राक्षसी के प्रहारों से अत्यधिक दुखी होते थे, तब उनके नायक अत्यधिक क्रोध से राक्षसी पर पर्वतों और वृक्षों की ऐसी अवरित वर्षा करते कि दानव धैर्य खोकर कुभकर्ण की आड़ में जाकर शरण लेते। तब कुभकर्ण ने उन दैत्य वीरों को आश्वस्त करके सिंह-नाद करते हुए, धैर्य बँधाया और कहा कि 'भागना मत, भागना मत।' उसके पश्चात् वह (शत्रुओं पर) आक्रमण करते हुए आनेवाले वानरों को अपनी क्रुद्ध दृष्टियों से ही मार डालनेवाले की भाँति अपना शूल लेकर, दहाड़ते हुए, उन पर टूट पडना। रावण का भाई, वह राक्षस-वीर कुभकर्ण, कपि-समूह के भाग्य-निर्णायक के समान अथवा क्रुद्ध होकर आनेवाले यम के समान उन वानरों को मारने लगा। उस क्रूर कुभकर्ण के समक्ष टिकना असंभव हो गया। कुछ वानर मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, कुछ रक्त उगलने लगे, कुछ भयभीत हो सेतु की दिशा में भागने लगे और कुछ बवडर की भाँति आकाश की ओर उड़ने लगे।

वानरों को इस प्रकार भागते हुए देखकर अगद ने क्रुद्ध होकर कहा—'हे वानरों, धैर्य तजकर इस प्रकार क्यों भाग रहे हो ? अपने प्रभु के प्रति निष्ठा एवम् अपना औन्नत्य छोड़कर भागना क्या तुम्हारे लिए उचित है ? तुम महान् वंश में जन्म लिये हुए, श्रेष्ठ वानर हो। ऐसे तुम इस प्रकार साधारण जीवों की भाँति भाग सकते हो ? रामचन्द्र के समक्ष युद्ध में यदि तुम मारे जाओगे, तो तुम्हें सुन्दर स्वर्ग का राज्य मिल जायगा या यदि तुम विजय प्राप्त करोगे, तो यश प्राप्त करोगे। इसलिए तुम लौटो, भागो नहीं।' ऐसे उपदेश देते हुए अगद ने उनमें उत्साह का संचार किया और सभी वानरों को फिर लौटा लाया। अगद के उत्साहवद्धक उपदेशों को सुनकर वे कहने लगे—'हम राम के लिए अपने प्राणों की बलि देंगे, उनके प्राणों के आगे हमारे प्राणों का मूल्य ही क्या है ?' फिर, उन्होंने पर्वतों को ले आकर, गर्जन करते हुए पर्वत के समान कुभकर्ण के विशाल वक्ष पर फेंका, तो उसने उन पर्वतों को देखते-देखते अपने शूल से चूर-चूर कर दिया। इससे सतुष्ट न होकर उसने रौद्र रूप धारण कर गदा हाथ में ली और उसे तेजी से घुमाकर वानरों पर ऐसा प्रहार किया कि दस करोड़, सतहत्तर लाख, तीस हजार छह सौ वानर हुकार करते हुए पृथ्वी पर मूर्च्छित होकर गिर पड़े। फिर, वह अपने हाथों से असंख्य वानरों को पकड़कर बड़ी क्रूरता से यो निगलने लगा, जैसे गरुड पक्षी जल्दी-जल्दी सर्पों को निगल जाता है। इस प्रकार, उसने देखते-देखते अम्सी लाख, बीस सहस्र, छह सौ वानरों को निगल लिया। इसके पश्चात् भी वह नर तथा वानर-भक्षक वहाँ से हटा नहीं, किन्तु उसी युद्ध-भूमि में बड़े दर्प के साथ भूमता रहा। उस समय उसके नथुनों तथा कर्ण-पुटों से वानर बाहर निकलने लगे ! किन्तु वह उन्हें तुरत पकड़कर मसल देता और उनका लोधा बनाकर चबा जाता। जो लोग उसके डाढ़ से छूटकर पृथ्वी पर गिर जाते, उन्हें पैरों से रौदकर चूर-चूर कर देता। इतने में उसके गदा-प्रहार में आहत हो मूर्च्छित पड़े हुए वानर सचेत हुए। वे भयकर सिंहनाद करते हुए पर्वतों तथा वृक्षों को ले आकर बड़े दर्प के साथ उस राक्षस के समक्ष खड़े हुए। क्रोध से जलते हुए द्विविद ने एक विशाल पर्वत को उस राक्षस के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने के निमित्त फेंका। उसके लगते ही कुभकर्ण उछलकर गिर पड़ा और एक बड़ी राक्षस-सेना उसके नीचे कुचलकर मर गई।

७५. कुम्भकर्ण आर हनुमान् का युद्ध

तब हनुमान् अत्यत क्रोध से आँखों से अग्नि बरसाते हुए, पर्वतो तथा वृक्षो को जो उखाड़कर उस राक्षस पर गिराने लगा, किन्तु कुम्भकर्ण अपने दारुण शूल से उनको चूर-चूर करते हुए हनुमान् पर आक्रमण करने के निमित्त आगे बढ़ा। तब हनुमान् ने एक महान् पर्वत को उठाकर उसे कुम्भकर्ण पर फेंका। यह देखकर अमुर भी उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि यह अनुपम बली है। उस पर्वत के गिरने से कुम्भकर्ण का सारा शरीर काँप उठा और उसके शरीर से रक्त की अजस्र धाराएँ बह निकली।

उससे अत्यत दुःखी होकर उस दानव-वीर ने प्रकाश एव ज्वालाओं को व्याप्त करते हुए, पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए, नभ को काँपाते हुए और देवताओं को भयभीत करते हुए भयकर शूल को हाथ में धारण करके बड़े उल्लास के साथ उसे हनुमान् पर ऐसे चलाया, जैसे कुमार ने श्रौचगिरि पर अपनी शक्ति चलाई थी। यह देखकर सभी वानर भय से व्याकुल हो गये। उसके लगते ही पवनकुमार का हृदय चरचराकर फट गया और रक्त की ऐसी धारा छूटी, मानो हनुमान् अपना समस्त क्रोध-रस उगल रहा हो। प्रलय-काल के घनघोर बादलों के गर्जन के समान हाँफते हुए कपिशेखर हनुमान् पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर कपि-सेना काँप उठी और राक्षस हर्षित हुए।

युद्धभूमि में अनिलकुमार की ऐसी दशा देखकर नील ने क्रोधाग्नि से जलते हुए उस कुम्भकर्ण पर एक महापर्वत से प्रहार किया। अत्यधिक वेग से अपने ऊपर गिरनेवाले उस पर्वत पर कुम्भकर्ण ने मुष्टि-घात करके उसे रोका। उसके मुष्टि-घात से वह पर्वत चित्तगारियाँ बिखेरते हुए चूर-चूर हो गया। प्रचंड क्रोध से क्षुब्ध हो ऋषभ, शरभ, नील, गंधमादन, गवाक्ष आदि उद्दण्ड बली वानर-वीर, एक साथ भयकर गर्जन करते हुए, उस कुम्भकर्ण पर पर्वतो तथा वृक्षो को फेंकते हुए, मुष्टियों तथा चरणों से प्रहार करते हुए, नाखूनों से चीरते हुए तथा अन्य कई प्रकार से उसे दुःख देने लगे। तब भी कुम्भकर्ण विचलित नहीं हुआ। उसने शरभ पर ऐसा प्रचण्ड मुष्टि-घात किया कि वह पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। उसके बाद उसने ऋषभ को पकड़कर अपने हाथों से उसे मसलकर एक पिंड-जैसा बना दिया। उसके पश्चात् उसने अपने घुटने से वीर नील पर ऐसा प्रहार किया कि वह काँपकर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। फिर, उसने गवाक्ष के निकट पहुँचकर अपनी हथेली से उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह तिलमिला उठा। उसके बाद उस राक्षस ने बड़े क्रोध से गंधमादन को अपने बायें हाथ से ऐसा मारा कि वह गिर पड़ा। इस प्रकार, पाँचो वानर-वीर रक्त उगलते हुए ऐसे गिर पड़े, मानो रण का राग-रस उगल रहे हों। शत्रुओं का वध करने के कारण, बड़े दर्प के साथ वह राक्षस अपना शूल घुमाते हुए भयकर वज्र से युक्त इन्द्र की भाँति, अनुपम दण्ड से युक्त उद्दण्ड यम की भाँति, युद्ध-भूमि में भीषण गर्जन करते हुए जहाँ-तहाँ घूमने लगा। तनी हुई भौंहों से युक्त उसके मुख से अग्नि-ऋण ऐसे झरने लगे, जैसे प्रलय के समय द्रु के शूल से स्फुलिंग विकीर्ण होते हैं।

७६. सुग्रीव तथा कुंभकर्ण का युद्ध

तब सुग्रीव ने मन-ही-मन सोचा कि मेरे युद्ध करने का यही अवसर है। फिर, उस अनुपम पराक्रमी ने, कुल पर्वतो के अधिपति पर आक्रमण करने के लिए आनेवाले इन्द्र की भाँति अपना शरीर बढाया, तथा प्रचण्ड क्रोध की अग्नि से दीप्त होते हुए सभी पर्वतो गें श्रेष्ठ एक महान् पर्वत को उठाकर बड़े वेग से, उस राक्षसेश्वर की ओर बढ़ा, जिसके मुँह और शरीर वानरो के रक्त से भीगकर विचित्र भद्दापन लिये हुए थे। उसके पास पहुँचकर सुग्रीव ने कहा—‘हे राक्षस वधा, तुम मुझे नहीं जानते? मैं सूर्य का पुत्र हूँ और प्रख्यात रामचंद्र का भी पुत्र हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच का ही युद्ध योग्य होगा। तुम व्यर्थ ही इन वानरो को क्यों मार रहे हो?’

सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर कुंभकर्ण ने क्रुद्ध होकर कहा—‘हे सुग्रीव, लोग तुम्हें बड़ा ही शूर कहते हैं। क्या, कोई शूर युद्ध किये बिना ही क्रोध करता है? युद्ध में अपनी शूरता प्रदर्शित करना ही उचित होगा। इस प्रकार डींग हाँकना तुम्हें शोभा नहीं देता।’ उसके इतना कहते ही मूर्य-पुत्र ने उस राक्षस पर क्रुद्ध होकर लाये हुए पर्वत को उस पर पटक दिया। वह पर्वत उस राक्षस के विशाल वक्ष से लग गया और चूर-चूर हो गया। दोनों पक्षों की सेना इस क्रूर आघात को देखकर हाहाकार करने लगी। उस महाबली के प्रहार से राक्षस-वीर अत्यन्त सन्नमित हुआ। फिर भी, बड़े साहस के साथ उसने भयकर गर्जन किया और सुग्रीव पर उस विख्यात शूल को चलाया, जो वीस सहस्र सिर की आहुति के पश्चात् चदन-अक्षत से अर्चित था तथा सुरासुरों के वहन करने के लिए अशक्य था। तब वह शूल भयकर ज्वालाओं से प्रदीप्त होते हुए पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं तक अपनी ज्वालाओं को फैलाते हुए, दम हजार अशनियों के समान ध्वनि करते हुए सूर्य-पुत्र की ओर जाने लगा। उस शूल को ऐसी भयकर गति से आते देखकर हनुमान् ने बीच में आकर उसे इस प्रकार पकड़कर खड़-खड़ कर दिया जैसे गरुड, घनी विष-ज्वालाओं को उगलनेवाले सर्पराज को पकड़कर उसको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। उसके पश्चात् हनुमान् ने उछलकर सिंह-गर्जन किया, तो सभी वानर उसेवी प्रशंसा करने लगे। शूल के टूटने से कुंभकर्ण क्रोध से जलते हुए लका के मलयाद्रि-शृंग को उठाकर सूर्य-पुत्र पर फेंका। शृंग के सुग्रीव के वक्ष पर लगते ही वह हॉफते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा।

७७. कुंभकर्ण का मूर्च्छित सुग्रीव को लंका ले जाना

सुग्रीव के गिरते ही राक्षस बड़ी हर्ष की ध्वनि करने लगे। तब कुंभकर्ण क्रूर रूप धारण किये पृथ्वी पर पड़े हुए उस महाबली सुग्रीव के निकट आया और उसे देखकर बोला—‘समस्त वानर-सेना के लिए तथा सूर्यकुल-तिलक राम के लिए एकमात्र शक्ति-पुत्र यही है। अतः, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके गिरने से सभी वानर शीघ्र गिर जायेंगे। अब मेरे भाई भी इस सुग्रीव को देख लें।’ इस प्रकार, सोचते हुए वह उसे उठाकर लका की ओर ऐसे ले चला, मानो कालानिद, घनघोर बादल को गिराकर उसे अपनी गुफा में ले जा रहा हो। सभी देवता दुःखी होने लगे—‘हाय, सुग्रीव कही

इस प्रकार वदी तो नहीं बनेगा ?' कुभकर्ण की शक्ति तथा पराक्रम की सभी दानव प्रशंसा करने लगे और रवि-सुत को छुड़ाने में असमर्थ होकर वानर हाहाकार करने लगे ।

तब हनुमान्, अगद, नील, शरभ, ऋषभ, जाबवान्, गिरिभेदी, सुतर, केसरी, पृथु, हरिरोम, पावकाक्ष, हर, द्विविद, मन्द, वेगवान्, गवय, शतबली, गज, दुर्दम, समुख, बालपाश, गवाक्ष, कुमुद, ज्योतिर्मुख, सुषेण, दधिमुख, वेगदर्शी, रभ, ऋयन, धूम्र, गधमादन, तार, क्रोधन, तपन, प्रजघ, घोराक्ष, जघाल, गोमुख, विमुख, पनस, सन्नाथ, सपाती, इन्द्रजाल, विनुत, सुदष्टक, श्वेत, दुर्मुख आदि भयकर आकारवाले उद्दृष्ट पराक्रमी एव वीर वानर पर्वतो तथा वृक्षो को उठाये हुए ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करनेवाले घोर गर्जन करते हुए किसी भी तरह से सूर्य-पुत्र को छुड़ाने का दृढ सकल्प करके उस राक्षस पर टूट पड़ने के लिए उतावले होने लगे । इतने में नीतिवान् वायुपुत्र ने अपने हस्त-सकेत से उन्हें रोककर उनसे कहा—'अद्भुत शूर सूर्य-पुत्र अभी मूर्च्छा में पड़े हुए हैं । जब उनकी चेतना लौट आयगी, तब वह महान् वीर स्वयं यहाँ चले आयेंगे । यदि हम हठ करके उन्हें राक्षस के हाथ से छुड़ा लेंगे, तो कपिराज मन-ही-मन दुःखी होंगे । अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए । थोड़ी देर प्रतीक्षा करो । यदि इस बीच में वे नहीं लौटते, तो कुटिल रावण एव कुभकर्ण को तथा प्रचंड विक्रमी सभी राक्षसों को अपने मुष्टि-घातो से हम मार डालेंगे, स्वर्ण-दीप्तियों से सुशोभित होनेवाले सातों दुर्गों के साथ लका का सर्वनाश करके प्रलय मच्चा देंगे और सूर्य-पुत्र से मिलकर उन्हें ले आयेंगे ।' हनुमान् को इन वचनों को सुनकर सभी कपि-वीर मन-ही-मन हर्षित हुए और आकाश-मार्ग में बड़े वेग से उस राक्षस के पीछे-पीछे चलने लगे । कुभकर्ण ने इस बात से अनभिज्ञ हो, अपने ढग से सूर्य-पुत्र को लेकर लका में प्रवेश किया ।

तब राजमार्गों राजातपुरों तथा ऊँची अट्टालिकाओं पर से नगर की स्त्रियाँ पुष्प-वृष्टि करने लगी । इससे सूर्य-पुत्र सचेत हुआ और नगर-मार्ग को चारों ओर आश्चर्य से देखा । फिर, मन-ही-मन आश्चर्य तथा दुःख का अनुभव करने लगा । वह सोचने लगा—'हाय, इतनी देर तक मूर्च्छित रहकर मैं इस राक्षस के हाथों में फँस गया । फिर, उसने अपने हाथों से उस राक्षस के कानों को पकड़कर एँठा और उन्हें जोर से खींचा । फिर उसके नथुनों के साथ नाक को काट डाला और तीव्र गति से आकाश की ओर उड़ गया; किन्तु राक्षस ने उसे छोड़ा नहीं । उसने सुग्रीव के पैर पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लिया और नीचे पटक दिया, किन्तु सुग्रीव फिर से आकाश की ओर उड़कर शीघ्र अपने प्रभु के पास पहुँच गया । स्वर्ग में सभी देवता आश्चर्यचकित हुए और वानर-समूह घेरकर उसे प्रणाम करने लगे । तब सभी वानरों के साथ सुग्रीव ने रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम किया । श्रीराम ने बड़े हर्ष से सुग्रीव को हृदय से लगा लिया । सभी कपि आनन्दविभोर हो गये ।

७८. कुंभकर्ण का वानर-सेना को तहस-नहस करना

वह असुरेश्वर अपने नाक तथा कान के नष्ट होने से मन-ही-मन बहुत क्षुब्ध हुआ और सोचने लगा—'अपनी बहन के अपमान से अत्यंत लज्जित होकर उसका प्रतिकार

लक्ष्मण की उपेक्षा कर दी। अनेक कपि आपादमस्नक उसके शरीर पर रंगते हुए, उमकी मूँछें पकड़कर भूजने हुए, क्रोध से अपनी पूँछें उमके शरीर पर रगड़ते हुए, उमके शरीर के विविध अंगों को पकड़कर खींचते हुए, उसे विविध रीतियों से पीड़ित करने लगे। तब वह राक्षस अत्यधिक क्रुद्ध हो गया और अपने शरीर को ऐसे झटका देकर उन वानरों को नीचे गिरा दिया, जैसे चंचल मत्तगज अपने शरीर को झटकाता है, या जल में डुबकी लगाने के पश्चात् मस्त सूकर अपने शरीर को झटकाकर (अपने शरीर पर लगे) जल-बिंदुओं को नीचे गिराता है या प्रलय-काल में ब्रह्मा नक्षत्रों को टप-टप नीचे गिरा देता है।

तब राम उस कुम्भकर्ण को देखकर विस्मित हुए। उनकी आँखों से अगारे छूटने लगे। उन्होंने शेष-नाग के आकारवाले अपने स्वर्ण-धनुष को उठाया, अनुपम तूणीरों को पीठ पर कसा और भयकर विक्रम से विलसित हो (युद्ध के लिए) चल पड़े। ऐसी सज्जा से परिपूर्ण राम को युद्ध के लिए आते देखकर, युद्धारम्भ में उत्साही तथा उद्वृण्ड पराक्रमी वानर भी अत्यधिक चंचलता से पर्वतों, चट्टानों तथा वृक्षों को धारण किये, दुर्निवार क्रोध से, अपनी उछल-कूद से, सप्त पातालों को विदीर्ण करने हुए, कूर्मों को व्याकुल करने हुए, समुद्रों को आलौडित करते हुए, दिग्गजों को विचलित करते हुए, आकाश को कँपाते हुए, उस राक्षस पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। उनके उस रणोत्साह को देखकर सुर-सिद्ध-साध्य उनकी स्तुति करने लगे। विभीषण राम के आगे-आगे क्रोधाभिभूत होकर अपनी गदा लिये हुए जाने लगा।

१९. विभीषण-कुम्भकर्ण का वात्सलाप

तब विभीषण को देखकर रावण का भाई (कुम्भकर्ण) हँसते हुए कहने लगा—
हे विभीषण, सुनो। अपने प्रभु के ममक्ष अपने पराक्रम के प्रदर्शन का यह अच्छा अवसर है। भाई के सबध का विचार करके तुम भिन्नकना मत। तुम्हारे लिए इस नरनाथ का हृदय ही आधार है। तुमने सूर्यवंशज की कृपा प्राप्त की है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। उनकी अपार दया तुम पर है ही, साथ ही तुम प्रशसनीय एव दया-परिपूर्ण चित्तवाले भी हो। तुम्हारे सिवाय और कौन ऐसा सद्गुणालङ्कृत है, जो लंकाका राज्य कर सके? इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने साहस, बल, विक्रम से मेरे साथ मत मिडो। क्या, ब्रह्मा तथा रुद्र के लिए भी यह सम्भव है कि वे आज मेरे सम्मुख खड़े रह सकें? इसलिए हे भाई, तुम मेरे सामने से हट जाओ। तुम मरो नहीं, राक्षस-वश का उद्धार करने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है।'

तब विभीषण ने अपने भाई से कहा—'मैंने इस भय से कि सारा दानव-कुल दग्ध हो जायगा, अपने भाई से, अपनी शक्ति-भर नीति-वचन कहे, किन्तु उन्होंने मेरी बातों को नहीं माना। इसीलिए मैंने अग्रज तथा तुम्हें छोड़कर श्रीराम की शरण ली।' इतना कहकर उसने मन-ही-मन दानवेश्वर की दुर्नीति का विचार करके आँखों से अश्रु बहाते हुए अत्यंत दुःख से, अपने भाई की दशा न देख सकने के कारण वहाँ से हट गया।

तब राघवेश्वर अपने अनुज लक्ष्मण के साथ रण के लिए उद्यत होकर उस कुम्भकर्ण को देखकर मन-ही-मन आश्चर्य-चकित हुए, जो सुदूर मुकुट तथा आभूषण पहने हुए था,

वीर-रसावेश से अभिभूत था, बड़े साहस के साथ कपियो का सहार कर रहा था और अत्यधिक रक्त में भीगा हुआ ऐसा दीख रहा था, मानो रौद्र रस ही मूर्त होकर राक्षस के रूप में आ गया हो ।

तब सूर्यकुलोत्तम-राम भूपाल ने अत्यंत क्रोध से अपने धनुष की प्रत्यचा का ऐसा टकार किया, मानो कह रहे हो कि नारी के कारण उद्भूत अपना सारा क्रोध इस नारी* (प्रत्यचा) के द्वारा प्रदर्शित कहेगा और दहाड़ते हुए आनेवाले इस राक्षस की क्रोधाग्नि को मैं अपनी शर-वृष्टि से बुझा दूँगा । धनुष की ध्वनि सुनकर दिग्गज ऐसे चिंथाडने लगे, मानो कह रहे हो कि गज-गामिनी (सीता) अब अपने स्वाभाविक निवास को प्राप्त होगी । (उस ध्वनि से) लका इस प्रकार गूँज उठी, मानो कह रही हो कि श्रीराम का क्रोध अब लकेश्वर को भस्म कर देगा । उस ध्वनि से सनस्त जग बहरे-से हँ गये ।

उस ध्वनि को सुनकर कुभकर्ण रोष से भरकर, बड़े गर्व से अकड़ते हुए राम के समक्ष आया । तब सूर्यवर्ण राम ने बड़े दर्प के साथ उससे कहा—‘हे राक्षस, अब तुम्हें पीछे हटना नहीं चाहिए । तुम धैर्य तथा साहस के साथ युद्ध करने के लिए ऐसे डट जाओ कि देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करें । ऐसा नहीं करके यदि तुम माया रचकर कहीं छिप भी जाओगे, तो भी मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं । यदि तुम ब्रह्मा के निकट पहुँचकर उनकी शरण माँगोगे, तो भी ब्रह्मा-लोक मेरे सामने टिक नहीं सकेगा । यदि तुम नीलकण्ठ की शरण में जाकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करोगे, तो भी रुद्र-लोक मेरे समक्ष खड़ा नहीं रह सकेगा । यदि तुम विष्णु की शरण माँगोगे, तो विष्णु-लोक भी मेरा सामना नहीं कर सकेगा ।’

राम के इन दर्प-पूर्ण वचनों को सुनकर कुभकर्ण अत्यधिक भयात्रात हुआ । फिर भी, उसने ऐसा अट्टहास किया कि वानरों के हृदय फट गये, खड़े-बड़े उनके प्राण उड़ गये और सनस्त पृथ्वी, आकाश तथा दिशाएँ विचलित हो गईं । फिर, वह अपनी युद्ध-कुशलता को प्रकट करते हुए, राम भूपाल को देखकर कहने लगा—‘हे सूर्यकुलतिलक, विविध मायाओं को रचकर अंत में तुम्हारे हाथ से भरनेवाला मारीच मैं नहीं हूँ । तुम्हारे शर-प्रहारों से गिरनेवाला विराध मैं नहीं हूँ । युद्ध-क्षेत्र में एक ही बाण से पृथ्वी पर गिरनेवाला वालि भी मैं नहीं हूँ । अपने हाथ का धनुष तुम्हारे हाथ में देकर तुम्हारे द्वारा गर्वभग करा लेनेवाला भृगु-पुत्र नहीं हूँ, मैं रावण का भाई हूँ, देवताओं का शत्रु हूँ और प्रदीप्त विक्रम में विलसित हूँ । हे राम, क्या, तुम मुझे नहीं जानते ? वानर-समूह के सद्य रक्त का पान करनेवाला मैं कुभकर्ण हूँ । तुमने अज्ञान ब्रह्मा और इन्द्र की प्रेरणा से इस ससार में जन्म लिया और न जाने क्यों इस वानर-समूह के भरोसे मेरे साथ युद्ध करने के लिए आये हो ? राक्षसों के भयकर बाण, सनक आदि योगीन्द्रों की स्तुतियाँ नहीं हैं । वेग से आनेवाले भयकर शरत्र, परिचारकों का चामर-समूह नहीं है । भीषण आकारवाले राक्षस-सैनिक सुंदर गीत गानेवाले तुबुह तथा नारद नहीं हैं । मेरी जो वायु तुम पर चल रही है, वह पखों का पवन नहीं है । यह युद्ध-क्षेत्र है, अमृत-सागर नहीं । यह युद्ध-भूमि है, तुम्हारी देव-सभा नहीं है । हे राजन्, तुमने पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया ? इस युद्ध में

* तेलुगु में ‘नारी’ शब्द के दो अर्थ हैं—स्त्री और प्रत्यंचा ।—ले०

तुम्हें स्वर्ग का वह सुख कहाँ मिलेगा ? यह सब मैं तुमसे क्यों कहूँ ? हे राम, मेरी यह गदा तो देखो । इसी से मैंने देवताओं को जीता । तुम्हारे दिव्यास्त्र कहीं इसकी समता कर सकते हैं ? यदि तुम मैं बाहुबल, शौर्य तथा पराक्रम हैं, तो मुझसे घोर युद्ध करो । हे राजन्, तुम्हारी शक्ति देखकर फिर मैं तुम्हारा वध करूँगा ।”

८०. श्रीराम के द्वारा कुंभकर्ण का संहार

तब राम ने क्रुद्ध होकर ऐसे सहस्रो भयकर बाण उस देवताओं के शत्रु पर चलाये, जैसे बाण उन्होंने बालि पर चलाये थे, किन्तु उन सब बाणों को कुंभकर्ण ऐसे पी गया, जैसे चातक पक्षी जल-बिंदुओं को पी जाता है । फिर, वह भयकर मुद्गर धुमाते हुए बड़े वे से वातर-शरीरों को भाने हुए आगे बढ़ा । उनसे सामने आने हुए देखकर राम ने निर्भीक ही सहज ही एक अनिल-बाण चलाकर भयकर गदा से युक्त उसका हाथ काट डाला । उस हाथ को गिरने देखकर वानर चारों ओर बिखर गये, जो उस हाथ के गिरने से पहले भाग नहीं पाये, वे उसके नीचे दबकर मर गये । तब वचे हुए वाम हस्त से उस राक्षस ने एक विशाल वृक्ष को सहज ही उखाड़कर उसे उठाकर राम की ओर आगे बढ़ा । यह देख इन्द्र आदि देवता कॉप उठे, किन्तु राम ने ऐन्द्र बाण से उस हाथ को भी काट डाला । वह विशाल बाहु अद्भुत गति से कटकर पृथ्वी पर ऐसे गिरी कि पृथ्वी विदीर्ण-सी हो गई और असह्य वानर उसके नीचे दबकर चूर-चूर हो गये । इस प्रकार, सूर्यवश-तिलक राम के घोर अस्त्री से दोनों हाथ कट जाने पर वह राक्षस, वज्र के द्वारा पख कटे हुए पर्वत की भाँति भयकर हाहाकार करते हुए राम की ओर आने लगा । तब हाथ-नाक-कान-विहीन विकृत आकारवाले उस कुंभकर्ण को देखकर राम ने सकल्प कर लिया कि मैं अब अवश्य इस नीच का वध करूँगा । फिर, उन्होंने शीघ्र दो अर्द्धचन्द्र बाणों का संधान किया और उस राक्षस के दोनों चरण ऐसे काट दिये कि समस्त जग उनका प्रशंसा करने लगा । चरण तथा बाहुओं के कट जाने पर भी, वह राक्षस नहीं दबा, किन्तु क्रोधोन्मत्त हो वडवानल-चक्र की भाँति अपने मुँह को विकृत बनाकर, सूर्य को ग्रसने के निमित्त आनेवाले राहु की भाँति राम से भिड गया । तब राम ने अपने तूणीर के कठोर बाण उसके मुँह में ऐसे भर दिये, मानो वे एक तूणीर के बाण दूसरे तूणीर में भरते ही । इस प्रकार जब बाण-समूह से उस राक्षस का मुँह भर गया, तब उससे सिंहनाद करते नहीं बना; इसलिए वह विविध अपस्वरों से हुकार करते हुए अपनी दृष्टियों से डराने-धमकाने लगा । तब राम ने उस दैत्यनाथ के शरीर को लक्ष्य करके ऐन्द्रास्त्र चलाया । रघुवर के छोड़ते ही वह बाण ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न-सूर्य की भाँति, ब्रह्म-दण्ड की भाँति, प्रबल प्रभजन की भाँति, समस्त लोको को अपनी लाल-लाल ज्वालाओं से भरते हुए आया और कुंभकर्ण के वक्ष-स्थल में घुसकर पार निकल गया तथा पृथ्वी में गडकर सभी दिशाओं को अपने भीषण रव से प्रतिध्वनित करने लगा । इतने में राघवेन्द्र ने अत्यंत शीघ्रता से अतक बाण का संधान करके चलाया । वह बाण अपनी भयावह ध्वनि से सभी दिशाओं को गुजायमान करते हुए, ब्रह्माण्ड को कपित करते हुए, पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए, समस्त भूत-राशि को मूच्छित करते हुए, सौ करोड़ काल-चक्रों के एक साथ चलकर आने की भाँति, वडवानल के

आगमन के समान, कालकूट विष ही बाण के रूप में आने के समान, दुर्वार गति के साथ अत्यंत वेग से आया और उस राक्षस के नीलाद्रि-सम दीखनेवाले सिर को काट दिया । वह सिर तुरंत नीचे नहीं गिरा, किन्तु वह लका में बहुत ही ऊँची अट्टालिकाओं तथा सौधों से टकराकर उन्हें चूर-चूर करके अत्यधिक ध्वनि करते हुए आगे निकल गया और समुद्र के विविध प्राणि-समूह को कुचलते हुए समुद्र में गिरकर डूब गया । उस राक्षस का अर्द्ध-शरीर पृथ्वी पर दस करोड़ वानरों को कुचलते हुए तथा दूसरा अर्द्ध-शरीर समुद्र के जल-चर समूह को चूर-चूर करते हुए गिर पड़ा । उसके गिरने से जो ध्वनि हुई, उससे सभी समुद्र आलोडित हो उठे, पृथ्वी काँप उठी, दिशाएँ विदीर्ण हुईं और लकाधीश का हृदय विदीर्ण हो गया । लका में कोलाहल होने लगा, सभी जग हर्षित हुए और वानर-वीर आनंद-सागर में डूब गये । तब देवताओं ने रविकुलाधिप रघुरामचंद्र की विविध रीतियों से स्तुति की । रामचंद्र भी कुभकर्ण की मृत्यु पर मद्दहास करते हुए मन-ही-मन हर्षित होने लगे कि यह राक्षस देवताओं तथा दिक्पालों के लिए भी दुर्जय था, अब सभी लोको के लिए कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा । राहु के प्रभाव से मुक्त होकर प्रभा से विलसित होनेवाले सूर्यबिंब की भाँति रामचंद्र विजयलक्ष्मी को प्राप्त करके भासमान होने लगे ।

इसके पश्चात् राक्षस मन-ही-मन इस पराजय के कारण परितप्त होते हुए, काति-हीन मुखों से शीघ्र रावण के समक्ष गये और निवेदन किया—‘हे देव, देवताओं का शत्रु, आपके भाई ने समस्त वानर-समूह को भयभीत करके भगा दिया और आकाश में पृथ्वी तक व्याप्त होकर कपि-समूह-रूपी समुद्र को इस प्रकार मथ डाला, जैसे मदराचल ने क्षीर सागर का मथन किया था । फिर, उन्होंने दुर्वार विक्रम से सारे रण-क्षेत्र में युद्ध करते हुए, इन्द्रादि देवताओं में ईर्ष्या उत्पन्न की और निदान श्रीराम की विपुल-बाणानि में दग्ध हो गये ।’ जब राक्षसों ने इस प्रकार रण-क्षेत्र में कुभकर्ण की मृत्यु का समाचार रावण को सुनाया, तब वह मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़ा, मानो उसका पतन निश्चित ही है । अतिकाय अत्यंत शोकाकुल हुआ, देवातक धैर्य तजकर शोक करने लगा । त्रिशिर दिङ्मूढ की भाँति पृथ्वी पर लोट गया । नरातक काठ के पुतले के समान स्तम्भित रह गया । महोदर तथा महापार्श्व आदि राक्षस-वीर शोक-विह्वल हो भूमि पर गिर गये ।

८१. कुंभकर्ण की मृत्यु पर रावण का शोक

रावण शीघ्र ही सचेत होकर बार-बार अपने भाई का नान लेकर यो प्रलाप करने लगा—‘हे वीर, अब मैं राघव-वैर-रूपी समुद्र को किस नौका से पार करूँगा ? मुझे विश्वास था कि तुम राम-लक्ष्मण का रण में सहार करोगे । ऐसे समय में तुम स्वयं राघव के प्रचण्ड शर-वह्नि की ज्वाला में भस्म हो गये ! हे निद्रालु वीर, तुम सतत निद्रा-निरत रहनेवाले हो; आज तुम दीर्घ निद्रा (मृत्यु) से क्यों अनुरक्त हुए ? अविरत अशनि-पात से भी नष्ट नहीं होनेवाला तुम्हारा शरीर आज एक साधारण मानव के प्रहार से नष्ट हुआ ! तुम तो अपनी अनुपम शक्ति के कारण अतक (यम) के लिए अतक सिद्ध हुए थे । ऐसे तुम्हारे लिए आज युद्ध-क्षेत्र में राघव अतक कैसे सिद्ध हुआ ? अद्रि, विद्रावण आदि

देवता इस भय से पीड़ित होकर सोते तक नहीं थे कि तुम नीद से जगकर रौद्र रूप धारण करके शूरता के साथ उनका सर्वनाश कर दोगे। तुम युद्ध में गिर गये; अब, भला, देवता भेरी परवाह क्यों करने लगे ? मारे वश की रक्षा करने के उद्देश्य से भाई विभीषण ने, हठ करके बार-बार मुझे हित-वचन कहे, किन्तु मैंने उसकी बातें नहीं सुनी और पद-प्रहार करके उमे नगर से निर्वासित कर दिया। क्या, वह पाप मुझे यो ही छोड़ देगा ? तुम तथा अन्य बुद्धिमान् लोगो ने सतत जो नीतिपूर्ण वचन कहे, उन्हें मैंने नहीं माना, और तुम्हें खो बैठा। अब जिस विजय की मैंने आशा की थी, वह मुझे क्यों मिलेगी ? युद्ध-क्षेत्र में तुम मेरे दाहिने कंधे की तरह रहे, किन्तु आज युद्ध में तुम अपने महान् बाहु-बल को खोकर नष्ट हो गये। अब मेरा सहारा कौन होगा ?'

इस प्रकार, रावण बार-बार कुभकर्ण का स्मरण करते हुए दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए, परिताप-रूपी वडवानल, उमडकर टपकनेवाली लार-रूपी फेन, अजस्र अश्रु-रूपी बाढ, अनत दुःख-रूपी तरंगों, रुदन-रूपी घोष, भय-रूपी मचलन से युक्त शोक-समुद्र में डूबकर व्याकुल पडा रहा। तब रावण को देखकर त्रिशिर उसने धैर्य देते हुए बोला—'हे देव, आप साधारण लोगो की भाँति अपना धैर्य खोकर ऐसे क्यों शोक करते है ? ब्रह्मा से प्राप्त वर की महान् शक्ति रखते हुए, सतत मन्त्र-गूत अस्त्र तथा वज्र-कवच से सपन्न होते हुए, श्रेष्ठतम गतिशील उज्ज्वल रथ के रहते हुए, आप क्यों ऐसे शोक करते है ? भेरी ओर देखिए। हे अमरो के शत्रु, कौन है जो आपका सामना कर सके ? आप शीघ्र चलकर अपने अनुपम पराक्रम से राघव का सहार कीजिए। अब गोक तजिए। मैं अभी जाता हूँ और घोर युद्ध-क्षेत्र में अपने अनुपम पराक्रम एव प्रताप से वानरो को ऐसे काट डालता हूँ, जैसे गड्ड साँपो को काट डालता है। जैसे इन्द्र ने वत्रासुर का सहार किया था, और जैसे शिव ने अधकामुर का नाश किया था, वैसे ही मैं भी युद्ध में राम का सहार करूँगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ।'

तब अतिकाय ने रावण को देखकर कहा—'हे दानवेन्द्र, आप इतना शोक क्यों करते है ? मैं दैत्य-सेना के साथ जाऊँगा, मुझे आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार दावानल काननो को जलाता है, वैसे ही, मैं अपने असख्य बाणो का प्रहार करके कपियो के साथ, राम-लक्ष्मण का वध करूँगा।' तब नरातक तथा महाबली देवातक दोनो ने मिलकर कहा—'हम इसी क्षण जाकर राम-लक्ष्मण तथा वानरो का वध करते है।' इनकी बातें सुनकर दैत्याधीश ने शोक छोड़ दिया और अपने पुत्रो के साथ मोदमग्न हो रहने लगा, जैसे देवताओ के साथ इन्द्र रहता है।

इसके पश्चात् रावण ने बडे हर्ष से अपने चारो पुत्रो को आदेश दिया—'राम-लक्ष्मण को तथा वानर-सेना को अपने भयकर अस्त्रो की सहायता से मारकर आओ।' फिर, उसने अपने भाई महोदर तथा महापार्व को भी युद्ध करने के लिए भेजा।

२२. अतिकाय तथा महोदर आदि राक्षसों की युद्ध-यात्रा

वे छहो राक्षस ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करनेवाले गर्जन करते हुए इस प्रकार युद्ध के लिए निकल पडे, मानो (काम-क्रोध आदि) अरि-पडवर्ग यह सोचकर राम से भिडने के लिए

आगे-आगे जा रहा हो कि हमारे कारण ही यह मनुजाशन (रावण) सीता के निमित्त श्रीराम का सामना कर रहा है । अस्ताद्रि पर आरूढ सूर्य की भाँति महोदर शरत्-काल के मेघ की समता करनेवाले तथा ऐरावत के अश से युक्त सुदर्शन नामक हाथी पर बैठकर निकला । निश्चित आयुधो से प्रकाशित होनेवाला शीघ्रगामी रथ, जिसमें बलिष्ठ तथा चंचल अश्व जुते हुए थे और जो सूर्य के समान भासमान था, उस पर, इन्द्रचाप के समान दीखनेवाले धनुष धारण किये हुए, नील मेघ के समान त्रिशिर निकला । तब धनुर्वेद का पंडित अतिकाय, अत्यंत तेजस्वी शर, चाप, खड्ग तथा विविध शस्त्रास्त्रो से युक्त तथा सूर्य-सम प्रकाश से भासमान, स्वर्ण-रथ पर आरूढ होकर रवाना हुआ । विविध आभूषणो से युक्त हो कनक पर्वत के समान दीप्त होते हुए नरानक, देवताओ के अश्व का स्मरण दिलानेवाले विविध आभूषणो से अलङ्कृत श्रेष्ठ अश्व पर आरूढ हो, प्रविमल तेज से विलसित हो, बलिष्ठ बाहुओ में शक्ति धारण किये हुए, शक्तिपाणि (कुमार) की भाँति निकल पड़ा । दीप्त गदा धारण करके देवातक, विष्णु के समान सुशोभित होते हुए रवाना हुआ । महापार्श्व विशाल गदा लिये हुए गुह्यकेश्वर (कुबेर) के समान निकला । कालचक्रो के वेग से असंख्य रथ भी साथ निकल पड़े । पर्वतो की भाँति दीखनेवाले करोड़ो श्रेष्ठ मदमत्त हाथी अपने उद्दंड दण्डो से (सूँडो से) सुशोभित होते हुए झुंडो में चलने लगे । अपनी हिनहिनाहट की गभीर ध्वनि को चारो ओर प्रतिध्वनित करते हुए अश्व चलने लगे । यम-किंकरो के सदृश दीखनेवाले पदचर-सैनिक भयकर गति से चलने लगे ।

ऐसी अनुपम चतुरगिणी सेना के मध्य भाग में प्रलय-काल के सूर्यो की भाँति, प्रकाश-मान होनेवाले छोहो दैत्य-वीर, दीखने लगे । उनके श्वेत छत्र शरत्काल के मेघ की भाँति शोभायमान होने लगे । हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में प्राण-त्याग करेंगे, किन्तु रण का उत्साह नहीं छोड़ेंगे, वे ऐसी विविध प्रतिज्ञाएँ करत हुए, एक दूसरे को पुकारते हुए युद्ध के लिए रवाना हुए । उनके विचित्र सिंहनाद, रथ-घोष, अश्वो की हिनहिनाहट, गजो की चिंघाड, सैनिको के अत्यंत भयकर पदाघात, अनुपम ध्वजाओ का किंकिनी-रव, पटह, भेरी तथा शखो की भयावह ध्वनि तथा निसान-तुरहिषो का घोर नाद आदि से समस्त दिशाएँ गूँजने लगी, आकाश हिल उठा, नक्षत्र गिरने लगे, वासुकि ने करवट ली, मेघ-पर्वत आमूल हिल गया, पृथ्वी कपित हुई और दुर्वह भार से दिग्गज विचलित हुए ।

इस प्रकार, जब राक्षस-सेना दुर्ग से बाहर निकली, तब वानर-वीर, भूमि तथा आकाश को चीरनेवाली भयकर ध्वनियाँ तथा भयकर हुकार करते हुए बड़े उत्साह से पर्वतो तथा वृक्षो को राक्षस-सेना पर फेंकने लगे । दैत्यो ने वानरो पर अविरत गति से शर-वृष्टि आरंभ कर दी । वानरो द्वारा असुरो पर आक्रमण करने के पहले ही असुर वानरो पर आक्रमण कर देते और उनका सर्वनाश करने लगते । वे एक दूसरे से जूझने, एक दूसरे को गिराते, और असुरो के हाथो के गस्त्र छीनकर उन्हें तोड़ डालते । तब क्रूर राक्षस क्रुद्ध होकर वानरो के हाथो के पर्वतो तथा वृक्षो को तोड़ डालते । राक्षस कपियो के पैर पकड़कर उन्हें भयकर गति से नीचे पटक देते, तो वानर तुरन्त उनके पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा देते । इस प्रकार, घोर युद्ध करते हुए वानरो तथा राक्षसो के

अग जर्जर हो गये और वे रक्त उगलते हुए पृथ्वी पर गिरकर मूच्छित हो गये । फिर, वानर शीघ्र ही सचेत होकर एक राक्षस को उठाकर दूसरे राक्षस पर प्रहार करके गिराने लगे । इसी प्रकार, वे एक हाथी से दूसरे हाथी को, एक घोड़े से दूसरे घोड़े को, एक रथ से दूसरे रथ को, फिर रथ से हाथी को, हाथी से घोड़े को, और घोड़े से राक्षस-सैनिक को, मार-मारकर गिराने लगे । इस प्रकार, जब वानर सिंहनाद करते हुए अपनी अनुपम शक्ति का प्रदर्शन करके भयकर गति से असुरों का सहार करने लगे, तब राक्षस-वीर भी क्रोधोन्मत्त होकर वानरों पर टूट पड़े । उन्होंने वानरों पर बाण चलाये, उन्हें चक्रों से मारा, गदाओं का प्रहार किया, खड्गों से काटा, बछियों को मास में तथा शूलों को पसलियों में चूभोया और विविध रीतियों से उनको पीड़ित किया । फिर भी, वानरों ने धैर्य नहीं छोड़ा । वे और भी क्रुद्ध होकर बड़ी भयकर गति से पर्वत-शृंगों तथा तरु-कांडों से राक्षसों पर प्रहार करने लगे । कितने ही राक्षस आहत हो गिरने लगे, कुछ भागने लगे, कुछ वही लुढ़कने लगे, कुछ रक्त उगलने लगे, कुछ भूमि पर लोटने लगे, सिर कट जाने से कुछ के धड-मात्र भूलने लगे और कुछ भरकर अपने शत्रुओं को भूलने लगे । कहीं अश्वारोही सैनिक के गिर जाने पर भी उसकी उपेक्षा करते हुए घोड़े घोर रूप से हिन-हिनाते थे, कुछ घोड़े ऐसे दौड़ते थे कि उनकी भूलें फट जाती थी, कुछ घोड़े ऐसे भागते थे कि दिशाएं भी चकराने लगती, कुछ घोड़ों के अगो की सधियाँ उम्बड जाने से गिरकर मर जाते थे, कुछ गिरकर छटपटाते थे, कुछ अग-हीन होकर मुँह खोले गिर जाते थे और कुछ तो ऐसे जर्जर हो जाते थे कि उनका आकार ही मालूम नहीं होता था । सूँडों के कट जाने से कई हाथी काँपते थे, कई हाथियों के दाँत टूट गये थे, कुछ हाथी लंका की ओर भाग रहे थे, तो कुछ वेग से चक्कर काट रहे थे । कुछ हाथी पर्वतों की भाँति गिर जाते थे, कुछ खड-खड होकर गिरते थे । कुछ हाथी मदजल बहाते हुए नष्ट हो जाते थे, तो कुछ कुचले जाने से मिट्टी में मिल जाते थे । युद्ध-भूमि में जहाँ देखो, वहाँ रथिक, सारथी, तथा अश्वों से रहित रथ, पृथ्वी पर गिरनेवाले रथ, एक ओर उलटकर गिरे हुए खंडित रथ, पूरे उलटकर गिरे हुए रथ, जोड़ चटककर टूटे हुए रथ, रस्सों के टूट जाने से अस्त-व्यस्त हुए तथा चूर-चूर बने हुए रथ, प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ रहे थे । सुर-खेचर आदि का समूह इसे अत्यंत अद्भुत दृश्य मानकर वानरों की प्रशंसा करने लगे ।

तब नरातक ने अमित क्रोध से गर्जन करते हुए अपना अश्व वेग से दौड़ाया और असुरों को धैर्य देते हुए कहने लगा—‘भागो मत, भागो मत ।’ फिर, वह बड़े दर्प के साथ वानरों पर आक्रमण करने और एक ही क्षण में एक साथ सात सौ वानरों को मारकर गिराने लगा । जिस मार्ग से वह जाता था, उस मार्ग में रहनेवाले वानर गिर जाते थे, और वह मार्ग उसी मार्ग के जैसा दीखने लगता था, जिस पर इन्द्र अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन तथा पर्वतों का खंडन करते हुए गया था । जो कोई वानर क्रोध में आकर अपने मन में उसका वध करने का सकल्प मात्र करता था, उसके पहले ही वह उसका सहार कर देता था, मानो उसने उस वानर के अतरंग में पैठकर उसके मन में उत्पन्न

होनेवाली बान जान ली हो । जो कोई कपि उसका नाग करने के निमित्त किसी पर्वत को उखाड़ने की चेष्टा करता, उसके पूर्व ही वह अत्यधिक क्रोध से उसका नाश कर देता था । जो कोई कपि उसका वध करने के लिए कोई वृक्ष उखाड़ने का प्रयत्न करता, उसके पहले ही वह उसका वध कर देता । इतना ही नहीं, वह अपने अश्वों को वानरो के समूह पर चलाकर कितने ही वानरो को कुचल दिया, जिससे उनकी आँतें, और मांस निकल पड़े । वह उन्हें एक दूसरे से ऐसा टकरा देता था कि उनका वक्ष फट जाता और हड्डियाँ चूर-चूर हो जाती । इस प्रकार, उसने भयकर क्रोध से प्रलय-कालानल की भाँति सारे युद्ध-क्षेत्र में व्याप्त होकर वानर-सेना-रूपी वन को कई बार नष्ट कर दिया । वानर उसके शौर्य तथा उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकने के कारण चकित तथा व्याकुल-से ही रहे । सभी देवता विचलित हुए । अत्यधिक त्रस्त वानर-सेना को क्लेश पहुँचानेवाले नरातक को देखकर कपिराज का पुत्र अगद क्रोध में आकर वानर-सेना से यो बाहर निकल पड़ा, जैसे बादलों के समूह को चीरकर सूर्य बाहर निकलता है ।

८३. अगद तथा नरातक का द्वन्द्व-युद्ध

उसने नरातक को देखकर कहा—‘हे नरातक, इतनी क्रूरता के साथ तुम इन वानरो का संहार क्यों कर रहे हो ? ऐसा करने से क्या तुम शूर बन जाओगे ? यदि सचमुच तुम शूर हो, तो मेरे साथ युद्ध करो ।’ तब नरातक ने हँसकर कहा—‘हे वनचर, मेरे सामने तुम्हारी हस्ती ही क्या है ? मैंने सभी दिक्पालों का दर्प-दलन किया है । समस्त देवताओं को पीड़ित किया है । मेरे जैसे पराक्रमी का सामना, क्या, तुम कर सकोगे ? मैं तुम्हारी दोनों जाँघों को चीरकर फेंक दूँगा । तुम अभी नादान दुग्धमुँहे बच्चे हो; किन्तु प्रतापी योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहते हो । अभी तुम मेरी शक्ति देख लोगे ।’ तब अगद ने हँसकर कहा—‘हे राक्षस, दशकठ का दर्प चूर करने के पश्चात् खर के पुत्र का संहार करके जब मैं जाने लगा, तब क्या, तुमने मुझे नहीं देखा था ?’

इतना कहते ही वह राक्षस काल-सर्प की भाँति फुफकारते हुए अगद के निकट आ पहुँचा और अत्यधिक स्फुलिंगों को विकीर्ण करनेवाली अपनी शक्ति से अगद पर प्रहार किया । गरुड के मुँह का स्पर्श होते ही गिरनेवाले काले नाग की भाँति वह शक्ति अगद के वज्र-सम वक्ष का स्पर्श करते-ही खड-खड हो गई । अपने वज्रायुध से पर्वतराज को दवानेवाले इन्द्र की भाँति वालि-पुत्र ने अपनी हथेली से उसके घोड़े पर ऐसा दुर्भर प्रहार किया कि उसका मस्तक फूट गया और वह अश्व मुँह खोले, जीभ बाहर किये, पृथ्वी पर गिर पड़ा और छटपटाकर मर गया । अश्व के गिरते ही नरातक क्रोधानल से आँखें लाल किये हुए अपनी मुष्टि से अगद के सिर पर प्रहार किया और उसे मूर्च्छित कर दिया, किन्तु अगद शीघ्र ही सचेत हो गया और चिल्लाया कि रे नरातक, तुम्हारा ऐसा साहस ? फिर, उसने वज्र-सम अपनी मुष्टि से श्रेष्ठ पर्वत के समान दीखनेवाले उसके वक्ष पर प्रहार किया । चोट लगते ही वह रक्त उगलते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका कपाल फूटकर चूर-चूर हो गया । इस प्रकार, नरातक ने उस घोर रण-क्षेत्र में गिरकर अपने प्राण छोड़ दिये । आकाश से देवता और पृथ्वी पर कपि हर्ष की ध्वनि करने लगे ।

८४. देवातक तथा त्रिशिर का अंगद पर आक्रमण करना

दानवेश्वर के पुत्र की यह दशा देखकर महोदर ने अपने भयकर गज को आगे बढ़ाया । देवातक ने भी अपने अनुज की मृत्यु पर दुःखी तथा वालि-पुत्र के साहस पर क्रुद्ध होकर अपना परिघ घुमाते हुए अगद पर आक्रमण किया । रवि-मडल-सदृश दीप्त हीने-वाले रथ को उद्धत गति से चलाते हुए, पृथ्वी को कँपाते हुए, त्रिशिर अग्नि के समान भासमान होते हुए बड़े क्रोध के साथ अगद से भिड़ गया । तब अगद ने, शाखाओं से युक्त एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर उसे देवातक पर फेंका, तो त्रिशिर ने उसे बीच में ही काट डाला । तब, अगद आकाश की ओर उछलकर क्रोध से पर्वतों तथा वृक्षों को उन पर गिराने लगा, किन्तु देवातक तथा त्रिशिर उन्हें ताबड़-तोड़ काटते गये । दोनों ने उस पर एक साथ असह्य तोमर चलाये । इससे सतुष्ट न होकर देवातक ने भयकर गर्जन करते हुए अगद पर बड़े वेग से अपना परिघ चलाया । त्रिशिर ने सिंह-गर्जन करते हुए शर-वृष्टि की । महोदर ने अपने मत्त गज को उत्तेजित करके आगे बढ़ाया और तोमर चलाया । इस प्रकार, जब तीनों एक साथ अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, तब अगद अपना शरीर झुकाकर वज्र के समान महोदर के हाथी से ऐसे टकराया कि वह हाथी चिंघाड़ते हुए पर्वत-श्रृंग की भाँति नीचे गिर गया । उसकी आँखें बाहर निकल आईं और वह वही ढेर हो गया । उसका कुभ-स्थल फूट गया और उससे अनुपम मोती ऐसे बिखर गये, मानो विजय-लक्ष्मी ने राघवेश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा से अपना अलकरण करने के लिए अपनी मजूषा खोल दी हो । उसके पश्चात् वालि-पुत्र ने उसी हाथी का दाँत उखाड़कर उससे देवातक पर प्रहार किया । उस प्रहार से, वह राक्षस, प्रबल वायु से भूलने-वाले घने साल-वृक्ष की भाँति कपित हो उठा और रक्त उगलने लगा । फिर भी, उसने बड़े साहस के साथ अपना सारा बल एकत्र करके अगद के पर्वतसानु-सदृश वक्ष-स्थल पर अपने परिघ से प्रहार किया । प्रहार से अगद भी पृथ्वी की ओर झुक गया, किन्तु उसने अपनी सारी शक्ति संचित करके अत्यधिक क्रोध से देवातक पर आक्रमण किया । तब त्रिशिर ने तीन प्रचण्ड शर उस वालि-पुत्र के ललाट पर छोड़े ।

८५. हनुमान् आदि वीरों के द्वारा त्रिशिर आदि राक्षसों का वध

इसी समय नील तथा हनुमान् अगद की सहायता के लिए आ पहुँचे । नील ने एक विशाल पर्वत को उठाकर दहाड़ते हुए त्रिशिर पर फका । तब, त्रिशिर ने वज्र-सम एक बाण का सधान करके उससे उस पर्वत को काट दिया । पवन-पुत्र ने देवातक को बड़े साहस के साथ एक विशाल परिघ को घुमाते हुए, प्रचण्ड विक्रम प्रदर्शित करते हुए सामने आते देखकर अपनी मुष्टि से उस पर प्रहार किया । इस प्रहार से उसके दाँत टूट गये, पुतलियाँ घूम गईं, और वह मुँह खोले पृथ्वी पर लुढ़क गया । देवातक का यह पतन देखकर स्वर्ग-लोक के देवता हर्ष-ध्वनि करने लगे ।

इस पर क्रुद्ध होकर त्रिशिर ने अशनि-वेग से एक तीव्र बाण नील पर चलाया । उसी समय महोदर भी एक हाथी पर आरूढ़ हो गर्जन करते हुए आ पहुँचा और उस पर ऐसी शर-वर्षा कर दी, जैसे घनघोर मेघ कुल-पर्वत पर वर्षा करता है । उनके अस्त्र-समूह

स अत्यंत पीड़ित होकर नील मूर्च्छित हो गया, किन्तु शीघ्र ही सँभलकर आकाश की ओर उछला और तब-सहित एक विशाल पर्वत को उठाकर उसे महोदर पर दे मारा। उस पर्वत के प्रहार से महोदर का सिर फूट गया और वह अपने अश्वों के साथ नष्ट हो गया। महोदर को पृथ्वी पर गिरते देखकर त्रिशिर ने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, साहस खोये बिना पवन-पुत्र पर असख्य बाणों की वर्षा की। तब हनुमान् ने शीघ्र ही एक पर्वत-शृंग को उखाड़कर उसे उस त्रिशिर पर फेंका। किन्तु त्रिशिर ने उसे बीच में ही ऐसे चूर-चूर कर दिया कि देवता भी देखकर चकित-से रह गये। तब हनुमान् सहज ही उसके रथ पर कूद गया और उसके अश्वों को ऐसा चीर डाला, जैसे सिंह क्रुद्ध होकर हाथियों को चीर डालता है। तब, क्रोधोन्मत्त हो त्रिशिर ने उस पर शक्ति का प्रयोग किया। प्रचंड ज्वालाओं से युक्त हो उस शक्ति को आते देखकर हनुमान् ने उसे पकड़कर तोड़ डाला। शक्ति को तोड़ने के हनुमान् के बाहु-बल का विचार करके त्रिशिर ने एक पैनी धारवाले खड्ग को लेकर बड़े वेग से हनुमान् पर आक्रमण करके उस खड्ग से हनुमान् के वक्ष पर प्रहार किया। तुरत हनुमान् ने अपनी हथेली से उस राक्षस के वक्ष पर आघात किया। तब, वह राक्षस अपने खड्ग को छोड़कर पृथ्वी पर मूर्च्छित होकर गिर पडा। तब, नीचे गिरे हुए खड्ग को हाथ में उठाकर अनिल-कुमार ने पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए सिंहनाद किया। किन्तु इतने में त्रिशिर सँभल गया और अपनी मुष्टि से हनुमान् के वक्ष पर प्रहार किया। तब हनुमान् की कनपटियाँ क्रोध से फूल उठी। उसने बड़े दर्प के साथ खड्ग को चमकाते हुए उस राक्षस के तीनों सिर ऐसे काट डाले, जैसे सुरेन्द्र ने विश्वरूप के सिर काट डाले थे, अथवा हनुमान् ने त्रिशिर के कर्म-बधनों को ही काट डाला हो। तब पृथ्वी, आकाश, तथा दिशाओं को कँपाते हुए त्रिशिर पृथ्वी पर गिर पडा।

उसके गिरते ही महापार्ष्व अत्यधिक क्रोध से तेवर बदलते हुए, दिग्गज के समान भयकर, कनक-वक्र एव मणि-प्रभा से विलसित, यम के भीषण दंड के सदृश दीप्त अरुण-पुष्प एव अरुण-चदन से अलंकृत हो उदय-सूर्य की भाँति उज्ज्वल गदा-दंड को धारण किये हुए बड़ी शीघ्र गति से हनुमान् पर आक्रमण करने चला। इतने में ऋषभ ने एक विशाल पर्वत को उठाकर उस राक्षस पर फेंका। किन्तु, उस राक्षस ने अपनी गदा से उस पर्वत को चूर-चूर कर दिया। फिर, उसने बड़े दर्प से युक्त हो तेजी से अपनी गदा को घुमाकर ऋषभ के वक्ष पर प्रहार किया। गदा के प्रहार के कारण ऋषभ तुरत मूर्च्छित हो गया, किन्तु वह शीघ्र ही सँभल गया और अपनी मुष्टि से महापार्ष्व के वक्ष पर भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वह राक्षस अपना गदा-दंड छोड़कर, शक्तिहीन हो पृथ्वी पर गिरने लगा। तुरत ऋषभ ने उस गदा-दंड को लेकर भयकर गर्जन करते हुए उससे उस राक्षस पर प्रहार किया। वज्र के गिरने से जैसे गिरि-शृंग गिर जाता है, वैसे ही उस राक्षस का सिर चूर-चूर हो गया और वह भयकर ध्वनि के साथ पृथ्वी पर गिर पडा। पवन से डरनेवाले पीले पतों की भाँति दैत्य-सैनिक चक्कर काटते हुए तितर-बितर हो गये।

८६. अतिकाय का युद्ध

इस प्रकार, उन सब राक्षसों को गिरे हुए देखकर अतिकाय ने ऐसा गर्जन किया,

मानो वह सभी लोको को निगलनेवाला हो । फिर, उसने सहस्र सूर्यों की भाँति उज्ज्वल एक विशाल रथ पर आरूढ होकर सिंहनाद करते हुए, अपने प्रताप की डींग हाँकते हुए, घनुष का टकार करते हुए, भीषण गति से कपि-सेना पर आक्रमण किया, जैसे प्रलय-काल की अग्नि घोर वन पर आक्रमण करती है । उस निशाचर का रूप देखकर सभी वानर भयभीत हो गये कि कुभकर्ण ही फिर रौद्र रूप धरकर आ गया है । उसे देखते ही कुछ वानर मूच्छिंत हो गये, तो कुछ आड में छिपकर देखने लगे । कुछ वानर भयभीत हो आर्त्तनाद करने लगे तो कुछ सन्नमित हो गये और कुछ राम की दुहाई देने लगे । इस प्रकार, भयभीत होकर भागनेवाले वानरो को देखकर श्रीराम कहने लगे—‘भागो मत, भागो मत ।’ फिर, सभी में व्याप्त प्रलय-काल की घनघोर घटा की भाँति गर्जन करते हुए अत्यधिक वेग से आनेवाले राक्षसराज के पुत्र के प्रताप, दर्प, एव गति को निकट देखकर राम स्वय आश्चर्यचकित होकर विभीषण से बोले—‘हे विभीषण, अशनिपात के समान भयकर ध्वनि करनेवाले उस रथ पर आरूढ होकर इन्द्र-घनुष की समता करनेवाला विपुल-प्रभा-समन्वित घनुष धारण किये हुए, परिध, गदा, शूल, परशु, भाला, तोमर, चक्र तथा दिव्य-शस्त्र-समूह से युक्त अद्वितीय राहु-चिह्नवाली ध्वजा से विलसित, चार सारथियो, तथा एक सहस्र अश्वो से युक्त रथ पर त्रिनेत्र की मूर्ति के समान अपनी प्रतापान्नि को चारो दिशाओ में विकीर्ण करते हुए आनेवाला वह वीर कौन है ?’

तब विभीषण ने रामचंद्र से कहा—‘हे देव, यह राक्षस, देवताओ के शत्रु (रावण) का पुत्र है । यह रावण से भी अधिक रण-कुशल है । हे राजन्, यह चतुरगिणी सेना के साथ युद्ध करने में महानिपुण है और अद्वितीय वेद-शास्त्रादि विद्याओ में निष्णात है । यह अध्यात्म-तत्त्वज्ञ है । इस वीर की शक्ति के विश्वास पर लका मतत नि शक रहती है । देवताओ से वैर ठानकर युद्ध में उनके हाथो नही मरने का वर इसने ब्रह्मा से प्राप्त किया है । यह दिव्य आयुधो, दिव्य अस्त्रो तथा मन्त्र-शक्ति से सपन्न है । इसने इन्द्र आदि देवताओ को सौ बार परास्त किया है । इन्द्र का वज्रायुध, वरुण का पाश, और यम का प्रचंड दंड तथा कुबेर की गदा सदा इसके बाण-समूह के अधीन होकर रहते हैं । रावण ने इसे धान्यमालिनी में अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था । हे राजन्, सभी वानरो को कुचल डालने के पहले ही आप अपने अनुपम पराक्रम से इसका वध कर दें, तो अच्छा हो ।’

इतने में ही उस राक्षस को, घनुष के टकार से समस्त दिशाओ को प्रतिध्वनित करते हुए निकट आते देखकर, खडनोदग्र, गवय, गोमुख, ज्योतिर्मुख, कुमुद, पवन-पुत्र, मन्द, नल, शरभ, नील, शतबली, गज आदि कपि-वीर वृक्षो तथा महान् पर्वतो को उठाये हुए उसका सामना करने लगे । तब, उस राक्षस ने हँसते हुए कहा—‘हे वानरो, तुममें रण-विक्रम-कौशल एव शक्ति नही है, अत तुम यहाँ से हट जाओ । तुम मुझे उस शूर को दिखाओ, जिसने अपने बाण के अग्रभाग से समुद्र को सोख लिया था और तीनों लोको की प्रशंसा प्राप्त की थी । मैं अपना अनुपम अस्त्र उसके सिवाय और किसी पर नही चलाऊँगा । त्रिभुवनविजयी, अनुपम शूर तथा अलघु बलवान्, कुभकर्ण का सिर काट डालनेवाला

वह कौन है, उसे दिखाओ । उसके सिवाय और किसी पर मैं अपना अतुल शक्तिसंपन्न अस्त्र नहीं चलाऊँगा । देव, दानव, यक्ष तथा अन्य देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली रावण को युद्ध में जीतने का संकल्प करके, इस प्रकार लका में आनेवाला वीर कौन है, उसे दिखाओ । उसके सिवाय और किसी पर मैं अपने अतुलित अस्त्र नहीं चलाऊँगा ।'

इस प्रकार गर्वोक्तियों को कहनेवाले उस दानवेश्वर के पुत्र पर कपि-वीर क्रोध से वृक्षो तथा पर्वतो की अविरल वर्षा करने लगे । तब अतिकाय ने अविरल बाण-वर्षा से उन सब को बीच में ही काट डाला । उसके पश्चात् तीन गुह्यतर अस्त्रों से कुमुद को, पाँच भयकर शरो से द्विविद को, सात अद्वितीय बाणों से मन्द को, नौ शरो से शरभ को, आठ घोर बाणों से गज को, चार तीव्र बाणों से गवाक्ष को, आठ बाणों से गवय को, दस बाणों से ज्योतिर्मुख को, पंद्रह बाणों से शतबली को और पच्चीस बाणों से नील को, पृथ्वी पर गिराकर मूर्च्छित कर दिया । सभी देवता आकाश से चकित होकर यह दृश्य देखने लगे । तब प्रचंड क्रोध से अतिकाय ने सभी वानरो को ऐसे भगाया, जैसे मृगराज मृगों को भगाता है । वह मन-ही-मन सोचने लगा कि विरोधी होते हुए भी यदि मैं परमेश्वर राम की भक्ति करूँ, तो मैं अवश्य मुक्ति प्राप्त करूँगा । यो सोचकर वह राम की ओर बढ़ने लगा । जो वानर उसका मार्ग नहीं रोकता, वह उस पर हाथ नहीं उठाता ! इस प्रकार, वह आगे बढ़ते हुए राम के निकट पहुँचा और उस निगमवेद्य राम से हँसते हुए बोला—“हे राम, तुम इस रणभूमि में अपनी शूरता मुझे दिखाओ । तुम अनन्त हो । कोई भी यह नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ति कितनी है । मेरे पिता के कारण तुमने मनुष्य का जन्म लिया है । उन्हीं के कारण तुम पृथ्वी के राजा हुए हो । मेरा सामना करने के लिए, अमरेन्द्र, यम, वरुण आदि देवताओं के समूह से तुम कोई नहीं हो । अपना अत कर डालने के लिए जो कोई शूर मुझसे भिड़े, उससे मैं लड़ूँगा ही । मैं तुम्हारा पराक्रम भली भाँति जानता हूँ । तुम्हें मान-अपमान का विचार ही नहीं है । तुम कदाचित् मुझे नहीं जानते । भला गुणहीनो में सत्त्वगुण कहाँ रहेगा ? तुम किस जाति के हो, मैं कैसे कहूँ ? क्या, तुम राजकुल के आचारों का पालन करनेवाले हो ? पुण्यात्मा तपस्विधो के मानस-काननो में भले ही तुम निवास करो । मेरे साथ लड़ने की क्षमता तुम नहीं रखते । वेदाग्नि-गुफाओं में तुम जाकर वास करो, युद्ध के लिए तुम मेरे जोड़ के नहीं हो । सनक आदि मुनि तथा योगियों के मानस-रूपी समुद्रों में भले ही तुम निवास करो, मेरे साथ युद्ध करने योग्य नहीं हो । गेहए रक्तके वस्त्र धारण करके, पाप-रहित तथा ससार के दुखों से मुक्त, कद-मूल-फल जैसे नीरस आहार करते हुए, विविध आचार-निष्ठाओं के कारण क्लान्त, घोर काननो में विचरण करनेवालों के साथ तुम जाकर रहो । तुममें रण-कौशल नहीं है । तुम्हारी शक्ति की कल्पना मैंने कर ली है । इस ससार में तुम अकेले थे, ऐसे तुम्हें यह कपि-सेना मिल गई है । आश्रयहीन होकर घूमनेवाले तुम्हें अब सूर्य-पुत्र एक मात्र आधार मिल गया है । हाय, कहीं भी, किसी का जो गुरु नहीं बना, ऐसा विश्वामित्र तुम्हारा गुरु हुआ । तुम्हारा अपना कोई देश नहीं था, इसलिए

अकलक अयोध्या तुम्हें प्राप्त हुई । इनके गर्व में मत इठलाओ । तुम भले ही, मत्स्य का रूप धरकर सभी समुद्रों में प्रवेश करो, कूर्म का रूप धारण कर पर्वत के नीचे चले जाओ, पर मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं । अवश्य मैं तुम्हें ढूँढ लाऊँगा । तुम अपना वेश विकृत करके भले ही कहीं भी छिप जाओ, मैं तुम्हें अवश्य पकड़ लाऊँगा, तुम्हें भूलूँगा नहीं । वामन का रूप धरकर, याचक-वृत्ति अपनाये हुए भले ही तुम कहीं चले जाओ, मैं तुम्हें ढूँढकर पकड़ लाऊँगा; तुम्हारा विचार नहीं भुलाऊँगा । भूसुर का वेश धरकर, परशु को लिये हुए राजाओं के सहारक तुम भले ही बन जाओ, मैं अवश्य तुम्हारा अन्वेषण करके तुम्हें पकड़ लूँगा । मेरा बाण अत्यंत भीषण है । वह कोई वट-पत्र नहीं कि तुम्हें वहन किये हुए अद्वितीय रण-समुद्र में तैरता रहे । अत्यधिक शक्ति के मद से भूमनेवाले मेरे सामने यद्ध-क्षेत्र में ठहरना तुम्हारे लिए असंभव है ।”

८७. लक्ष्मण तथा अतिकाय का द्वन्द्व-युद्ध

इस प्रकार, प्रलाप करनेवाले अतिकाय का दर्प देखकर लक्ष्मण हँसते हुए बोले—‘हे राक्षस, मेरे रहते, राघव के साथ युद्ध करने का प्रयत्न क्यों करते हो ? संभलकर मेरी ओर बढो, मैं तुम्हें अपने बाणों से टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा ।’ ऐसा कहकर वे अपने धनुष के टकार से दानवों के चित्त कपित करते हुए उस राक्षस पर टूट पड़े । लक्ष्मण के साहस को देख वह आश्चर्यचकित हुआ और एक क्रूर अस्त्र का सधान करके, दहाड़ते हुए कहने लगा—‘ठहरो, लक्ष्मण, ठहर जाओ । तुम अभी बालक हो; मेरे साथ मत भिड़ो । मैं यम से भी अधिक क्रूर हूँ । मेरे तीव्र बाणों को सहने की क्षमता या तो इस वसुधरा में है, या हिमाचल में है, या रावण के उठाये कैलास पर्वत में है, या देवताओं के निवासभूत पर्वत में है, या अधकरिपु शिवजी के धनुष को भग करने के गर्व से फूलनेवाले तुम्हारे भाई राघव में है । उसके अलावा दूसरे किसी में मेरे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं है ? मेरे समक्ष खड़े रहना, क्या तुम्हारे लिए संभव है ? हे सौमित्र, यह श्रेष्ठ-बाण अभी तुम्हें लगकर तुम्हारा रक्तपान कर लेगा ।’

ऐसे दुरहकार से भरे क्वचन सुनकर लक्ष्मण ने कहा—‘हे राक्षस, इस प्रकार व्यर्थ गर्जन क्यों करते हो ? युद्ध में तुम अपनी शक्ति दिखाओ । मेरे समक्ष व्यर्थ प्रलाप क्यों करते हो ? हे निशाचर, तुम भी बड़े वीर की भाँति, अपना औद्धत्य तजे विना, शस्त्र-समूह से सज्जित हो, तथा रथ पर आरूढ़ हो, मेरे समक्ष खड़े हो, यही एक महान् आश्चर्य है ।’ यह सुनकर उस राक्षस ने बड़े क्रोध से अपने हाथ का बाण लक्ष्मण पर चलाकर गर्जन किया । तब, लक्ष्मण ने उस बाण को अर्द्धचन्द्र बाण से काट डाला । फिर, उन्होंने एक तेज बाण अपने धनुष पर चढाकर उसे उस राक्षस के ललाट को लक्ष्य करके चलाया, मानो यह संकेत कर रहे हो कि ब्रह्मा का लेख भी अब मिटनेवाला है । तब, उस शर के प्रहार से अतिकाय ऐसे हिल उठा, जैसे रुद्र के प्रहार से भासुरासुर का प्रासाद कपित हो गया था । ‘मेरे साथ यह युद्ध करने का साहस रखता है’—यह विचार आते ही अतिकाय ने सिहनाद किया और अपना रथ लक्ष्मण के निकट चलाकर, शीघ्र ही रामानुज पर एक ऐसा पैना शर चलाया, मानो उसी से उनका सहार कर डालने का संकल्प कर लिया हो ।

उसके तुरंत बाद ही उसने तीन ऐसे शक्ति-सपन्न बाण चलाये, मानो कह रहा हो कि भले ही त्रिनेत्र शिव भी रक्षा करें, तो भी तुम्हारा सुख छीन लूंगा। फिर, तुरत उसने पाँच बाण चलाये, मानो कह रहा हो कि तुम्हारे पंच प्राण अवश्य खींच लूंगा। उसके पश्चात् उसने अपने बाहु-बल के गर्व से फलते हुए बड़ वेग से सात बाण चलाये, मानो कह रहा हो कि भले ही तुम सप्त समुद्रों में प्रवेश करके उन्हें पार कर जाओ, मे तुम्हें अवश्य ही मार डालूँगा। किन्तु, लक्ष्मण ने शीघ्र ही उन सभी बाणों को खड़-खड़ करके सिंह-गर्जन किया। उसके पश्चात् उन्होंने आग्नेय अस्त्र चलाया, तो अतिकाय ने सौरास्त्र चलाया। दोनों शरो ने आपस में टकराकर युद्ध किया और दोनों चूर-चूर होकर नीचे गिर गये। फिर, राक्षस ने ऐषिक बाण चलाया, तो लक्ष्मण काँप उठे। फिर, उन्होंने ऐन्द्र बाण से उसे काट डाला। यह देखकर दैत्य ने याम्यास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने वायव्यास्त्र चलाकर उसे काट डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने कई और बाण भी उस राक्षस पर चलाये, किन्तु वे सभी बाण अतिकाय का स्पर्श करते ही टूटकर पृथ्वी पर गिर गये। लक्ष्मण यह देखकर सोचने लगे कि क्या कारण है कि कोई भी शर इसके शरीर में गडता नहीं? उनका इस प्रकार व्याकुल होते समय अनिल ने आकर कहा—'यह अनुपम रहस्य तुम्हें बताऊँगा। हे लक्ष्मण, इसने ब्रह्मा से वज्र-कवच प्राप्त किया है। अतः, कोई भी शर इसके शरीर में नहीं गडता। तुम इस पर ब्रह्मास्त्र चलाकर इसके टुकड़े-टुकड़े कर डालो।'।

तब बड़े हर्ष से लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र को मंत्र-पूत करके धनुष पर चढाया और उसे रावण के पुत्र पर चलाया। तुरत समस्त ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करते हुए, इन्द्र को भयभीत करते तथा देवताओं को काँपाते हुए, दिशाओं को हिलाते हुए, समुद्रों को आलोकित करते हुए, पर्वतों को भ्रूणभरते हुए, सूर्य-चंद्र को पथ-भ्रष्ट करते हुए, नक्षत्रों को गिराते हुए, वह ब्रह्मास्त्र, रत्न-समूह की भाँति उज्ज्वल काँति से युक्त हो, प्रलय-काल की अग्नि के समान सभी लोको में व्याप्त होकर जलते हुए, पवन के वेग से यम-दंड के समान, अतिकाय की ओर आने लगा। तब अतिकाय ने उस पर तीव्र शर चलाये, किन्तु उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल नहीं कर सका। फिर, राक्षस ने शक्ति चलाई, किन्तु ब्रह्मास्त्र ने उसकी भी उपेक्षा कर दी। फिर, अतिकाय ने उस पर शूल चलाया, किन्तु ब्रह्मास्त्र ने उसकी भी अवहेलना कर दी। उसके पश्चात् राक्षस ने गदा चलाई। उसे व्यर्थ होते देखकर, उसने खड्ग चलाया। किन्तु, उसकी भी परवाह किये बिना उसको अपनी ओर आते देखकर अतिकाय ने परशु चलाया। किन्तु, परशु की भी उपेक्षा करके उसे आते देखकर राक्षस ने भाला चलाया। इस पर भी ब्रह्मास्त्र की गति नहीं रुकी, तो उसने अपनी कमर से बरछी निकालकर उससे प्रहार किया।

८८. अतिकाय का वध

उसपर भी ब्रह्मास्त्र अप्रतिहत गति से अतिकाय की ओर बढ़ता रहा। तब अतिकाय ने उस पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया। पर, उस अस्त्र ने मुकुट तथा कुडलो में अलंकृत उस राक्षस का सिर काट डाला। वज्र के आघात से रोहणाद्रि का शृंग जैसे गिरा था

वैसे जब उसका सिर पृथ्वी पर गिरा, तब उसके सिर को देखकर हतशेष राक्षस भयभीत होकर लका की ओर भागने लगे। सभी वानर लक्ष्मण की प्रशंसा करने लगे। रामानुज ने तब रामचन्द्र के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, तो उन्होंने बड़े आनन्द से लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और वानरों के साथ अत्यधिक हर्ष प्रकट किया।

अतिकाय आदि छह वीरों की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूच्छित हो गया। फिर सचेत होकर अविरल अश्रु बहाते हुए वह अत्यधिक शोक से सतप्त होने लगा। इस प्रकार दुःख से पीड़ित होनेवाले पति की सेवा में पहुँचकर मय-पुत्री मदोदरी कहने लगी— 'हे असुरेन्द्र, सभी लोको में अद्वितीय शक्ति से सपन्न आपका ऐसा दुःखी होना उचित नहीं है। उस दिन वीर की तरह आप राम की देवी को क्यों ले आये? उन्हें फिर राम के पास पहुँचाना आप नहीं चाहते थे। अब उचित समय बीत गया। उस राम पर आक्रमण करने के लिए गये हुए राक्षस-वीर फिर लौटकर आयेंगे, यह आशा आप छोड़ दीजिए। हे नाथ, युद्ध में आप अपनी शक्ति दिखाइए।'

इन बातों पर रावण ने मन-ही-मन विचार किया। उसने अपनी स्त्री को अतःपुर में भेज दिया और दुःख की लबी साँस खीचकर अपने मंत्रियों से कहा— 'हाय, मेरे भाई तथा मेरे प्रिय पुत्र इस प्रकार मारे गये? अब क्या कहा जाय? श्रेष्ठ योद्धाओं के लिए भी अक्राट्य नाग-पाशों को इन मानव-वीरों ने न जाने, माया से या शक्ति से, काट दिया है। अब मैं विजय की आशा कलूँ, तो भी वह मेरे लिए असंभव है। उस राम को युद्ध में जीतनेवाला अब ढूँढने पर भी मुझे नहीं मिलेगा। अबतक जो लका, विना किसी भय के शोभायमान थी, वह आज इन शक्तिशाली लोगों के कारण त्रस्त हो रही है। उस राम के पराक्रम की सीमा ही नहीं है। इसलिए तुम लोग अब लका की रक्षा के लिए आवश्यक सेना प्रतिदिन भेजते रहो।' ऐसा आदेश देकर वह अतःपुर में चला गया और एकांत में मन-ही-मन चिन्ता से पीड़ित रहने लगा।

८९. इंद्रजीत का द्वितीय युद्ध

उस समय मेघनाद वहाँ पहुँचकर दशकठ से कहने लगा— 'हे दानवेन्द्र, मेरे रहते हुए आपका इस प्रकार चिन्तित होना उचित नहीं है। शक्ति से सपन्न मेरे बाणों का आघात क्या ईश्वर भी सह सकता है? लीजिए, मैं अभी जाता हूँ। उस राम के भाई को अपने उद्धत बाणों से अवश्य जर्जर करके उसे मार डालता हूँ और उस वानर-सेना को अपने पराक्रम से पृथ्वी पर सुलाकर आता हूँ। हे देवताओं के शत्रु, मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए। जैसे महाराज बलि की यज्ञ-भूमि में त्रिविक्रम के बढ़ते हुए रूप को त्रस्त होकर इन्द्र, विष्णु, यम, अग्नि, रुद्र, सूर्य, चन्द्र तथा साध्य देखते रहे, वैसे ही आज वे मेरे प्रताप को देखते रह जायेंगे।'

इतना कहने के पश्चात् वह राक्षस-राजकुमार वायुसम शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके चलते ही सब दिशाओं से एक साथ बड़े वेग से असंख्य रथ निकल पड़े। अनगिनत गज निकल पड़े, विपुल अश्व-सेना तथा पदाति-सेना निकल पड़ी। उस चतुरगिणी सेना पडरीको (श्वेत छत्रों) से प्रकाशित होनेवाले, पडरीक (बाघ)

की-सी आँखोवाले, पुडरीक (श्वेत कमल) की कातिसम शरीरवाले, पुडरीक के (आग्नेय दिशा का दिग्गज) के औन्नत्य से विलसित होनेवाले, पुडरीक (बाघ) के समान भयकर लगनेवाले और पुडरीक (बाघ) की शक्ति से सपन्न वीरो से पूर्ण थी । सिंहनादो, दहाडो, हुकारो, गर्वोक्तियो, रथ की नेमियो तथा निसानो की भयकर ध्वनि चारो ओर व्याप्त हो रही थी । धवल छत्र से युक्त वह राक्षस-कुमार सुधाकर से युक्त आकाश के समान दीख रहा था । सुंदर कामिनियो अपने कमल-नेत्रो की दीप्ति को चारो ओर विकीर्ण करती हुई चामर डुला रही थी । ऐसी रण-सज्जा से युक्त हो, अपने आभूषणो की प्रभा से दीप्त होते हुए, सहज वैभव से उज्ज्वल इद्रजीत रण-स्थल के मध्य आकर खडा हुआ । उसके पश्चात् उसने रक्त-वर्ण के वस्त्र, चदन तथा पुष्प-मालाएँ धारण करके अग्निदेव का प्रतिष्ठापन किया, शर तथा तोमरो से उसकी परिधि बनाई और लोहे के स्रुक् तथा सुवा एकत्र किये । फिर, राक्षसेश्वर के पुत्र ने अथर्ववेद के उच्चारण के साथ धी, खील तथा ताल-समिधाओ का हवन किया । होम की समाप्ति के पहले, उसने कृष्ण-छाग (काला बकरा) के रक्त की पूर्णाहुति दी । तब अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर हृद्य ग्रहण किया । उनकी कृपा से मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र, रथ, धनुष तथा कवच प्राप्त किये ।

उसके पश्चात् वह राक्षस अपने सिंहनाद से दिशाओ को कँपाते हुए अपने रथ, अश्व, केतु तथा सारथियो के साथ, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रो को अपदस्थ करते हुए शीघ्रगति से आकाश-बीधी में जाकर छिप गया । फिर, अपनी सेना से अपने पराक्रम के अनुरूप वचन कहने लगा—'तुम विना विचलित हुए युद्ध करते जाओ । मैं आकाश से घोर युद्ध करते हुए राम और लक्ष्मण का शीघ्र ही सहार कर दूँगा ।'

इन उत्साहवर्द्धक वचनो को सुनकर दानव अत्यंत हर्षित हुए और सेना के साथ वानरो पर टूट पडे तथा विविध रीतियो से उनसे युद्ध करने लगे । उमी समय इद्रजीत अपनी छाया तक प्रकट किये विना आकाश से दिव्य बाण चलाने लगा । तब वानर उठकर पर्वतो को उठा-उठाकर उस राक्षस की ओर फेंकने लगे । किन्तु इद्रजीत के शरो ने उन्हें तोडकर उन वानरो की छाती को विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया । इसके पश्चात् उसने एक घोर अस्त्र चलाकर पाँच वानरो को तथा नौ अस्त्रो से सात वानरो को नीचे गिरा दिया । तब क्रुद्ध होकर कपि-वीरो ने पर्वतो तथा वृक्षो को उठाकर उस इद्रजीत पर फेंका । किन्तु, उसने बडी निपुणता से उन्हें अपने तीव्र बाणो से काटकर गधमादन पर अठारह बाण चलाकर उसका मद चूर-चूर कर दिया । उसके पश्चात् उसने नौ बाणो से नल के नाम-रूप मिटा दिये; सात बाणो से मैन्द को झुका दिया, पाँच बाणो से गज का सहार किया, दस बाणो से जाबवान् का शरीर चीर डाला, सौ बाणो से हनुमान् को अत्यधिक दुख पहुँचाया, तीन बाण गवाक्ष पर चलाये, तेरह बाणो से हरिरोम के प्राण हर लिये, छह बाणो से रभ को गिरा दिया, दस बाणो से सूर्यप्रभ को परास्त किया, तेरह बाणो से पनस के अगो को छेद डाला, आठ क्रूर बाणो से कुमुद को तथा पैतीस बाणो से नील को छिन्न-भिन्न दिया । तत्पश्चात् विना विश्राम लिये ही उसने कई बाणो से अगद को, तीन पैंने बाणो से सूर्य-नदन (सुग्रीव) को, पाँच बाणो से इन्द्रजाल को, दो शरो से गिरि-

भेदी को तथा बीस शरो से ऋषभ को मूर्च्छित कर पृथ्वी पर गिरा दिया । फिर, चौदह बाणो से केसरी को, पाँच भास्वर बाणो से दधिमुख को, छह-छह बाणो से सुमुख तथा ग्रथन को, छह शरो से विमुख को, सात बाणो से द्विविद को, उतने ही बाणो से शरभ को, दस शरो से शतबली को, आठ बाणो से हर को, तीन बाणो से सन्नाद को और श्रेष्ठ तथा दिव्य अस्त्रो की वर्षा से अन्य समस्त वानर-नायको को छिन्नगात्र तथा विगतप्राण करके पृथ्वी पर गिरा दिया ।

९०. ब्रह्मास्त्र से इन्द्रजीत का राम-लक्ष्मण आदि को मूर्च्छित करना

इन्द्रजीत ने कुछ वानरो पर बाण चलाये, कुछ कपियो को गदा से मार गिराया, कुछ को शूल से हत किया, कुछ पर शक्ति का प्रहार किया । इस प्रकार, सभी वानर-वीरो को पृथ्वी पर गिराकर, अपना अनुपम पराक्रम प्रदर्शित करता रहा । इन्द्रजीत के भयकर बाण सह नहीं सकने के कारण कुछ कपि तितर-बितर होकर भाग रहे थे, कुछ थर-थर काँप रहे थे, कुछ त्रस्त हो रहे थे, कुछ छिप रहे थे और कुछ को ऐसा लग रहा था, मानो कपि-सेना के लिए प्रलय-काल आसन्न हो गया हो । वानवेन्द्र के पुत्र ने तब अपने ब्रह्मास्त्र के मन्त्र-प्रभाव से हत-शेष वानर-सेना का सहार करके विजय-गर्व से सिंह-गर्जन किया ।

कपि-समूह को इस प्रकार पीड़ित होते देखकर लक्ष्मण क्रुद्ध हुए और अपने अग्रज से कहने लगे—‘हे देव, आप चिंता क्यों करते हैं, आप मुझे आज्ञा दें, तो मैं ब्रह्मास्त्र चलाकर रावण के साथ-साथ राक्षस-समूह को नष्ट कर दूँ ।’ तब राम ने कहा—‘जब यह राक्षस अपनी माया के कारण दिखाई नहीं देगा, तब ब्रह्मास्त्र अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सभी लोको को भस्म करता हुआ चला जायगा । एक के कारण तुम निष्ठुर होकर सभी लोको को भस्म क्यों करना चाहते हो ? ब्रह्मा के दिये वर की शक्ति से इस राक्षस ने कपि-सेना को मार डाला है । हमें तो ब्रह्मा के वर का आदर करना चाहिए ।’

उनका वार्त्तलाप चल ही रहा था कि इन्द्रजीत ने उन दोनों रघुवशियो पर ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रहार किया कि वे दोनों मूर्च्छित हो गये । तब गर्वित रावणपुत्र-रूपी व्याप्त नील-मेघ, धनुष की प्रत्यचा के टकार-रूपी मेघ-गर्जन, वेग के साथ राक्षस के द्वारा गिराई जानेवाली कालि-रूपी बिजली, बार-बार चलाये जानेवाले असह्य बाण-रूपी वर्षा, पखो से युक्त बाण-रूपी चातक, कनक रत्न-प्रभा-कलित धनुष-रूपी इद्रधनुष, अनुपम रीति से वानरो के शरीर से फूटकर निकलनेवाली रक्त-धारा-रूपी बाढ, हारो से छूटकर गिरे हुए मौती-रूपी ओले, टूटकर छितराये हुए मुकुटो की उज्ज्वल मणियाँ-रूपी इद्रगोप, काहल (चर्मवाद्य) का निनाद-रूपी केका तथा अत्यधिक भीषण पटह-नाद-रूपी मेंढको की टर-टर से युक्त हो, वह समय आषाढ की पहली वर्षा के समय के समान दीख रहा था, जब कि रघुपति-रूपी किसान, राक्षसों की विपुल देह-रूपी क्षेत्रों में बाण-रूपी बीजो को रोपने के लिए आया हो और अपने बाहु-बल का प्रदर्शन करके खलिहान में उस दशकधर को लाकर, उसके सिर-रूपी बालो को काटकर दँवरी कराना चाहता हो । इसी समय इन्द्रजीत ने बहूतर वानर-सेना-समूह को तथा राघवो को जीतकर, अपने धनुष का धोर टंकार करते हुए, युद्ध को स्थगित किया और हर्ष से हँसते हुए लका को लौट गया ।

उसी समय सूर्यास्त हुआ, मानो राघव की दुर्दशा के कारण मन-ही-मन दुःखी हो, उन्हें उस दशा में देख नहीं सकने के कारण सूर्य ने आँखें बंद कर ली हो। वानरो के मुख-कमल मुरझा गये। अधकार चारों ओर ऐसा व्याप्त हो गया, मानो बता रहा हो कि वानरो के द्वारा लका का दहन होते समय, धुआँ इसी प्रकार व्याप्त होगा। वह ब्रह्मास्त्र का सधान करने के लिए आवश्यक मन्त्र-पठन का उचित अवसर नहीं था, इसलिए विभीषण ने पृथ्वी पर गिरे हुए सुग्रीव आदि योद्धाओं को देखकर कहा—‘हे वानर-वीरो, रावण के पुत्र ने ब्रह्मा के वर की शक्ति से अस्त्र चलाया था, और राघव ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति का आदर करने के विचार से उसे सह लिया है। इतना ही है और कुछ नहीं।’ ब्रह्मा के वर से आरक्षित होने के कारण वायु-पुत्र, इन्द्रजीत के दिव्य-अस्त्रों के प्रहार से मरा नहीं था। इसलिए उसने कहा—‘अब हम देखें कि बाणों से आहत हो युद्ध-भूमि में गिरे हुए वीरों में से कितने अभी जीवित है।’ यो कहकर वे दोनों जलती हुई मशालें लेकर उस अधकार में युद्ध-भूमि में घूमने लगे। तब उस युद्ध-भूमि में लगातार नृत्य करनेवाले घड, छककर मास खानेवाले भूत, भयकर रूप से गरजनेवाले बैताल, बहनेवाले रक्त का पान करनेवाली डाकिनियाँ, मास-पेशियों को निगलनेवाले गृद्ध, उच्च स्वर में रव करनेवाले शृगाल, रक्त उगलनेवाले भालू, पृथ्वी पर लोटने, छटपटाने तथा दाँत पीसनेवाले वानर, शक्तिहीन होकर गिरे हुए, रूप-विकृत, रक्त में भीगे हुए तथा धूलि से सने हुए कपि, एक ही बाण के आघात से एक साथ एक ही स्थान पर सटकर गिरे हुए कपि, खड-खड होकर गिरे हुए पर्वत, छिन्न-भिन्न होकर गिरे हुए वृक्ष, खडित होकर फैले हुए राक्षसों के शूल, असंख्य खडों में टूटकर गिरी हुई गदाएँ, मरकर गिरे हुए असंख्य हाथी आदि जहाँ-तहाँ दिखाई पड़ने लगे। इस दृश्य को देखकर विभीषण तथा हनुमान्, दोनों विस्मित तथा दुःखी हुए, किन्तु तुरन्त उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें भविष्य के कार्य के सबध में जाबवान् से परामर्श लेना चाहिए। वही जानता है कि अब क्या करना चाहिए। हम उसे पहले ढूँढें और उसके कथन के अनुसार कार्य करें।

यो सोचकर वे युद्ध-भूमि में जाबवान् को ढूँढते हुए गये और निदान एक विशाल शर-शय्या पर पड़े हुए उसे देखा। तब विभीषण ने कातर-भाव से जाबवान् को देखकर कहा—‘हे ऋक्षराज, तुम अभी जीवित हो? क्या, तुम बोल सकते हो? तुम हमें पहचानते हो?’ राक्षस के शर-प्रहार से शक्तिहीन होने के कारण जाबवान् ने क्षीण स्वर में कहा—‘हे विभीषण, तुम्हारे कठ-स्वर को पहचानकर मैं तुम से बात कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी आँखों में बाण चुभ गये हैं। अतः, मेरी आँखें देख नहीं पाती। क्या पवन-पुत्र जीवित है? उसके जीवित रहने की वार्ता सुनकर मेरे कानों को आनंद पहुँचाओ।’ यह सुनकर विभीषण ने अत्यंत आश्चर्य-चकित होकर जाबवान् से पूछा—‘हे ऋक्षराज, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि तुम महात्मा रामचन्द्र के बारे में नहीं पूछते, लक्ष्मण के सबध में नहीं पूछते, सूर्य-पुत्र के सबध में जानने की इच्छा प्रकट नहीं करते, और अगद के बारे में भी पूछना नहीं चाहते, किन्तु पवन-पुत्र के सबध में ही पहले जानना चाहते हो? यह तुम्हारा कैसा विचार है?’ तब जाबवान् ने कहा—‘हे विभीषण, यदि अकेले

हनुमान् अपने प्राणो से जीवित है, तो सभी वानर जीवित हो जायेंगे । यदि वह जीवित नहीं है, तो जीवित रहकर भी, वानर जीवित नहीं रह पायेंगे ।'

इन बातों को सुनकर वायु-पुत्र को अधिक हर्ष हुआ । उसने अपना नाम लेकर जाबवान् के चरणों में प्रणाम किया । ऋक्षराज अत्यंत हर्षित हुआ और अपने को पुनर्जीवित-सा अनुभव करके कहा—'हे वायुनन्दन, अब इन वानरों के लिए तुम्हारे सिवाय और कौन आश्रय है, इसलिए तुम शीघ्र ही समुद्र को पार करके जाओ । हिमाचल को पार करके हेमकूट, ऋषभ-पर्वत, मेरु-पर्वत, रजताद्रि तथा श्वेताचल से आगे निकल जाओ । वहाँ (तुम्हें) लवण-समुद्र मिलेगा । उसे भी पार करो, तो शाक-द्वीप पहुँचोगे । उसको भी पार करो, तो तरंगायमान अमृताब्धि को देखोगे । उसे पार करो, तो चन्द्र-शैल तथा द्रोण-शैल के मध्य भाग में उज्ज्वल प्रकाश से दीप्त ओषधी-शैल को देखोगे । उस पर्वत पर सजीवकरणी, विशाल्यकरणी, सधानकरणी तथा सौवर्णकरणी नामक चार ओषधियाँ हैं । तुम उस पर्वत पर चढ़कर उन ओषधियों को ले आओ और इस वानर-समूह को प्राण-दान देकर राम-लक्ष्मण को आनन्द पहुँचाओ ।'

९१. हनुमान् का ओषधी-शैल लाकर वानरों को मूर्च्छा दूर करना

वायुपुत्र, जाबवान् से आज्ञा लेकर सुवेलाचल पर चढ़ गया । अपने चरणों को समान रूप से पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करके, अपनी दीप्तिमान् लागूल को ऊपर उठाये, कंधों को उचकाकर, अपने शरीर को फुलाकर, राम का स्मरण करते हुए वह आकाश की ओर उछला । उस अनुपम वेग के कारण वह विशाल पर्वत भी पृथ्वी में धँस गया, दिशाएँ काँप गईं और पृथ्वी चकराने लगी । इस प्रकार, आकाश मार्ग में उड़कर हनुमान् ने अत्यंत भयंकर समुद्र को पार किया और विष्णु के चक्र के समान आकाश में जाते हुए, मार्ग में कई विचित्र दृश्यों को देखते हुए, घने फेन से युक्त अमृत-समुद्र को पार किया और चन्द्र-शैल तथा द्रोण-शैल के मध्य भाग में स्थित ओषधी-शैल पर चढ़ गया और ओषधियों का अन्वेषण करने लगा । किन्तु, वे ओषधियाँ काम-रूपिणी थी, इसलिए अपने-आपको उस कपिशेखर की दृष्टि से छिपा लिया । ओषधियों के नहीं देखने से अनिलकुमार मन-ही-मन विचार करने के पश्चात्, विनीत हो उस पर्वत से प्रार्थना करने लगा—'हे पर्वतराज, मैं प्रालेय, पर्जन्य तथा कैलास-पर्वतों की उपेक्षा करते हुए शीघ्रगति से तुम्हारी सेवा में आया हूँ । मैं कार्यातुर हूँ । देवताओं ने यहाँ जिन ओषधियों को छिपा रखा है, उन्हें कृपया मुझे दिखा दो । हमारे राघव को इनकी आवश्यकता पड़ गई है । किसी भी तरह उन्हें दे दो, तो अच्छा होगा ।'

तब पर्वत ने अट्टहास करके गर्व से फूलते हुए, हनुमान् से कहा—'तुम्हारा कितना साहस है कि तुम मुझसे ऐसे वचन कह रहे हो ? इन ओषधियों को मुझसे माँगने का तुम्हारा अधिकार ही क्या है ? इन्हें लाने का आदेश देनेवाले तुम्हारे राम की शक्ति कितनी है ? जिन ओषधियों को देवताओं ने यहाँ छिपा रखा है, उन्हें तुम्हें देने से अधिक कोई और अपराध हो सकता है ?'

इन गर्वविकृतियों को सुनकर अनिल-कुमार ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उस पर्वत से कहा—

‘मैं जब तुमसे ऐसी विनम्र प्रार्थना करता हूँ, तब क्या यह उचित नहीं कि तुम मेरी प्रार्थना पर विचार करो ? हे पर्वत, मैं अपनी विशाल भुज-शक्ति से समूल तुम्हें उखाड़कर अभी यहाँ से ले जाता हूँ, अबतक जिन रामचन्द्र को तुम नहीं जानते हो, उन्हें तब तुम जानोगे ।’ इतना कहकर हनुमान् ने भयकर गति से गर्जन करते हुए उस पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया, (पर्वत पर रहनेवाले) गधवों को भगा दिया और उसे उठाकर इतने वेग से जाने लगा कि कोई भी उसे पहचान न सके ।

सहस्र धाराओं से अत्यधिक दीप्त होनेवाले चक्र से युक्त विष्णु की भाँति जब हनुमान् उस पर्वत को लिये हुए चलने लगा, तब राक्षस-वीरो के शर-प्रहार से घायल हो, मूर्च्छित पड़े हुए कपियो ने श्रेष्ठ महौषधियों की वायु के स्पर्श-मात्र से ही अपनी आँखें खोल दी । उन्होंने अत्यधिक उत्साह से सिंहानाद करते हुए युद्ध-भूमि में पड़े हुए दैत्य-सैनिकों को उठा-उठाकर समुद्र में फेंक दिया । सुवेलाद्रि को पारकर हनुमान् ने उस महनीय ओषधिशैल को कपि-सेना के मध्य भाग में उतार दिया और अपने कुल के लोगों को तथा सूर्य-पुत्र आदि वानर-नायकों पर उन ओषधियों का प्रयोग किया । उन ओषधियों की शक्ति में वे सब मूर्च्छा से मुक्त हो गये । फिर, उसने खडित देहो को सधानकरणी की सहायता से जोड़ दिया । विशल्यकरणी के प्रयोग से शर तथा शस्त्र-समूह घायलों के शरीर से निकल गये और उनके घाव भर गये । सौवर्णकरणी से उनके सभी अंग सुवर्ण की क्रांति के समान उज्ज्वल हो गये । सर्जीवकरणी की सहायता से उनके खोये हुए प्राण लौट आये और पूर्व की अपेक्षा अत्यधिक बल तथा उत्साह से सपन्न हो गये, मानो वे अभी सुख-निद्रा में जाग पड़े हो । तब, सभी कपि-वीरो ने बड़े उत्साह से अनिलकुमार के प्रति आभार प्रकट किया । युद्ध-भूमि में मरे हुए राक्षसों को कपियो ने पहले ही समुद्र में फेंक दिया था, इसलिए उनमें से एक भी राक्षस उन ओषधियों के प्रभाव से जीवित नहीं हो सका ।

तब सुग्रीव आदि वानरो ने बड़े हर्ष से सूर्य-चन्द्र की भाँति सुशोभित होनेवाले राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया और बड़ी प्रीति के साथ अनिल-कुमार की प्रशंसा की । हनुमान् ने अत्यंत हर्ष से गद्गद होकर बड़ी भक्ति के साथ राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया । तब राम ने हनुमान् को देखकर बड़े आदर के साथ कहा—‘हे वायुपुत्र, हमें इन्द्र की आज्ञा मान्य होनी चाहिए । अतः, इस ओषधी-शैल को यथास्थान प्रतिष्ठित करके लौट आओ ।’

राघव का आदेश मानकर मारुतिनदन अनुपम वेग से उस पर्वत को यथास्थान प्रतिष्ठित करके शीघ्र युद्ध-क्षेत्र में लौट आया । इतने में सूर्योदय हुआ और राघव की चिंता के साथ-ही-साथ अधकार भी दूर हो गया । तब सुग्रीव ने रामचन्द्र को देखकर बड़े उल्लास के साथ कहा—‘हे वसुधेश, रावण की सारी सेना, अपने अद्वितीय साहस तथा बल को खोकर नष्ट हो गई है । कुभकर्ण आदि मुख्य राक्षस एक साथ मारे जा चुके हैं, इसलिए रावण की शक्ति समाप्त हो चुकी है । अब वह युद्ध करने की इच्छा भी नहीं करेगा, इसलिए हे देव, आज रात को आप लका को जलाने के लिए वानरो को भेजिए ।’

१२. वानरों का लंका जलाना

इस बात को सुनकर सभी वानर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे । शनैः शनैः सूर्यास्त हुआ और अधकार क्रमशः घना होता हुआ चारों ओर व्याप्त होने लगा । तब कपि-वीरो ने अत्यधिक रोष से भरे हुए बड़े साहस के साथ लूकाओ को हाथ में लिये हुए बड़े वेग से उछलते-कूदते लका को घेर लिया । द्वाररक्षक उन्हें देख भयभीत होकर भाग गये । तब वानरो ने लका में प्रवेश किया और लका को जलाने लगे । अग्नि क्रमशः प्रचंड होकर दिशाओ तथा आकाश में व्याप्त हो गई । वह प्रचंड अग्नि ऐसी लग रही थी कि रावण की लकापुरी को जलाने के लिए अब राम की क्रोधाग्नि की कोई आवश्यकता नहीं, यही अग्नि उसको जलाने के लिए पर्याप्त होगी ।

बडवानल जैसे अपने धुएँ के साथ समुद्र-भर में व्याप्त होता है, वैसे ही यह अग्नि विपुल धुएँ के साथ आकाश तक पहुँच गई । इससे प्रासादों की पक्तियाँ अपनी मणिराजियों को बिखेरती हुई भस्मसात् हो गई, ऊँचे-ऊँचे गोपुर पृथ्वी को कँपाते हुए जलकर पृथ्वी पर गिर पड़े और चूर-चूर हो गये । बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ आश्चर्यजनक रीति से जलकर गिरने लगी और अग्नि-ज्वालाएँ लपलपाती हुई आकाश की ओर बढ़ने लगी । महान् स्वर्ण-मंडप, तथा रत्न-निर्मित गृह-पक्तियाँ जलकर राख हो गई । आभरणों से भरे भंडार-घर जैसे थे, वैसे ही भस्म हो गये । विविध अमूल्य वस्त्र, सुगंध-द्रव्य, कालीन, मोती, तथा मरकत, अगर-चदन, कर्पूर, कस्तूरी आदि वस्तुएँ, विविध धान्यो की अक्षय राशियाँ तथा अन्य मूल्यवान् वस्तुएँ, हाथियों तथा घोडों की झुल्लें, स्थान-स्थान पर रखे हुए कवच-समूह आदि जलकर भस्म हो गये, जिससे राक्षसों के हृदय में पीडा उत्पन्न होने लगी । उस समय कुछ राक्षस सुवर्ण-कवच पहने हुए आयुषो से युक्त हो दुर्वार गति से वानरो का सहार करने का निश्चय करके घरों से निकल रहे थे, कुछ राक्षस विपुल रति-क्रीडा के आवेश से मस्त हो कामिनियों के सग-सुख की घडियाँ बिता रहे थे, शय्या को छोड़ने की अनिच्छा से कुछ लोग ऊँच रहे थे, कुछ लोग अभी सुख की निद्रा में निमग्न थे; कुछ राक्षस अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे, कुछ भौचक होकर चारों दिशाओ में दौड़ रहे थे, कुछ रुदन कर रहे थे, कुछ अपनी संपत्ति को घर के बाहर निकालकर उसे छोड़कर जाने की इच्छा न होने से, वही चकित हो यह दृश्य देख रहे थे; धुएँ के कारण मार्ग न पाकर कुछ लोग जँभाइयाँ लेते हुए खड़े थे, कुछ राक्षस अग्नि को बुझाने के लिए घर की छतों पर चढ़ गये, किन्तु वहाँ से नीचे उतरने में अपने को असमर्थ पा रहे थे, और जहाँ-तहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर घबराहट से यह दृश्य देखकर दुःखी हो रहे थे । अग्नि प्रलयानल के समान, अपनी लपलपाती शिखाओ को व्याप्त करती हुई, कई भवनो तथा कई राक्षसों को भस्मसात् करने लगी । रत्न-नूपुरों का मधुर शिजन, वीणा की मृदु झंकार, सुदर तथा मीठे वचनों की ध्वनि, अद्वितीय नृत्य-गीतों की ध्वनि, श्रुति-मधुर केका-रव, हंसों का कल-कूजन तथा सुदर शुक-शारिकाओ की मधुर ध्वनि आदि मिट्टी में मिल गई । चंद्रिका से भी धवल काति से युक्त तथा पद्मराग-मणियों की काति से उज्ज्वल, उम लका के सभी हर्म्य, जलने की ध्वनि, चारों ओर व्याप्त होनेवाले धुएँ

तथा छिनरानेवाले स्फुलिंगो से युक्त हो भयकर रूप से भस्म होकर मिट्टी में मिल गये। सभी युवतियों का अभिमान चूर-चूर हो गया और वे कठपुतलियों की भाँति सन्न-सी खड़ी रह गईं। प्रचंड ध्वनि में, जलती हुई अग्नि-ज्वालाओं से युक्त बहिर्द्वार-समूह ऐसा दीख रहा था, मानो बिजलियों से युक्त मेघ हो। नगर की वधुओं की विपुल रोदन-ध्वनि श्रोताओं के हृदय तथा कानों को विदीर्ण करती हुई फैल रही थी। जले हुए तथा विना जले अपने वधनों को तोड़ने के प्रयत्न में विफल हो क्रन्दन करनेवाले हाथियों तथा घोड़ों की आर्त्त-ध्वनि से भरी लका ऐसी लग रही थी, जैसे इसके पूर्व राम की बाणाग्नि से जलनेवाले जलचर-ममूह के आक्रन्दन से उद्वेलित समुद्र दीख पड़ा था। भागनेवाले, दौड़कर आनेवाले, दुख से रोनेवाले, छिपनेवाले, धुएँ से व्याकुल होकर भागनेवाले, लॉंघकर जानेवाले, विलाप करनेवाले, आग बुझाने के निमित्त पानी लानेवाले राक्षसों को पकड़-पकड़कर वानर उम भयकर अग्नि-ज्वालाओं में फेंककर भयकर गर्जन करने लगे।

तब राघव अपने श्रेष्ठ कोदंड को हाथ में लिये हुए इस प्रकार उस धनुष का टकार करने लगे, जैसे त्रिनयन ने क्रुद्ध होकर त्रिपुरो की जीतने के लिए अपने पिनाक का टकार किया था। उस धनुष का टकार करते ही नक्षत्र पृथ्वी पर गिरने लगे, पृथ्वी काँपने लगी, समुद्र आलौडित होने लगे, रवि-शशि पथ-भ्रष्ट हो गये, स्वर्ग हिल उठा, दिशाओं की सधियाँ चटक गईं, दिग्गज डोल उठे, विरूपाक्ष विस्मित हुए, भूत-समूह चकरा गया, ब्रह्मा त्रस्त हो उठे, भूमि तथा आकाश उस ध्वनि से गूँज उठे और पौलस्त्य (पुलस्त्य के वंशज रावण आदि) भयभीत हो गये। कोदंड की ध्वनि, वीर वानरो का सिंहनाद तथा सैनिकों के गर्जनों से एक साथ सभी दिशाएँ गूँजने लगी। तब राम ने कैलास-शिखर के समान विलसित होनेवाले लका के सिंहद्वार पर पाँच बाण ऐसे चलाये कि वह खड-खड होकर गिर पड़ा। फिर, उन्होंने लका के सौधों पर, अट्टालिकाओं पर, तथा रथों पर कई बाण चलाकर उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर सभी राक्षस युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। इस प्रकार, वह रात्रि घोर-रूप से व्यतीत हुई।

राक्षसों की रण-सज्जा देखकर सुग्रीव ने सभी वानरो से कहा—'लका के सभी द्वारों की तुम जागरूक होकर रक्षा करने रहो। यदि कोई राक्षस बाहर निकले, तो उसका वध कर डालो। यदि तुमने किसी को छोड़ा, तो उस अपराध को मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा।' यह सुनकर सभी वानर भयकर गर्जन करने हुए विशाल पर्वतों तथा वृक्षों को लिये हुए अत्यधिक रणोत्साह से भरे दुर्ग के द्वारों की रक्षा करने लगे।

९३. कुंभ-निकुंभ का युद्ध के लिए प्रस्थान

वानरो का भयकर गर्जन असुरेन्द्र के लिए असह्य हो गया। उसने तुरत भयकर पराक्रमी, कुभकर्ण के पुत्र कुभ तथा निकुभ को युद्ध करने के लिए भेजा। उनकी सहायता के लिए रावण ने कपन, प्रजघ, शोणिताक्ष तथा उपाक्ष नामक राक्षसों को भी उनके साथ भेजा। वे राक्षस-वीर गज, अश्व तथा रथों पर आरूढ हो, परिघ, गदा, शूल, करवाल, कुत, मुद्गर, धनुष, बाण आदि आयुधों से सज्जित होकर चले। उनके पीछे अत्यंत

शक्तिशाली दानव-सेना भी चली । उनकी सुदूर पताकाएँ फहराने लगी और उनके आभूषणों की कात्ति दीप्त हो उठी । तुरहियों की ध्वनि तथा भीषण सिंहनाद से पृथ्वी को कंपाते हुए लका को जलाकर गर्व से भूमनेवाले वानरो पर राक्षसों ने ऐसा आक्रमण किया, जैसे प्रलय-काल का पवन-समूह प्रलय-काल के बादलो पर आक्रमण करता हो । पहले उन प्रचंड पराक्रमी वीरों ने दुर्ग के द्वार पर दुर्वार गति से रहनेवाले कपि-सैनिकों पर आक्रमण करके उन्हें भगा दिया । उन वानरों को भागते देखकर हरिरोम, केसरी आदि बाहु-बली योद्धाओं ने उन्हें रोकना और रोष से भरे हुए दैत्य-वीरों से स्वयं भिड़ गये और उन पर पर्वतों तथा वृक्षों को फेंकने लगे । किन्तु, राक्षसों ने अपने करवाल, गदा, शूल, परिध, चक्र आदि श्रेष्ठ अस्त्रों से उन्हें रोक दिया । तब वानरों ने अपने नखों से उनका वक्षस्थल चीर डाला, उनके कानों तथा नाकों को खडित किया, दाँतों से काटा और सिरो पर मुष्टियों से प्रहार किया । एक वानर एक दैत्य पर मुष्टि से प्रहार करता था, तो दूसरा राक्षस उस वानर पर मुष्टि से प्रहार करता था । एक राक्षस किसी कपि को मार डालता, तो दूसरा कपि उस राक्षस का वध कर डालता था । एक दैत्य किसी कपि को पकड़ लेता, तो दूसरा दैत्य शीघ्र उस कपि को पकड़ लेता था । एक कपि किसी राक्षस को घेर लेता तो दूसरा दैत्य शीघ्र उस कपि को घेर लेता । एक राक्षस किसी कपि को युद्ध करने के लिए ललकारता, तो दूसरा कपि उससे युद्ध करने लगता । कहीं-कहीं सात-आठ योद्धा एक साथ अपने शत्रु को अकेले घेरकर उसको मुष्टि के प्रहारों से मार डालते, तब उसके फलस्वरूप दोनों पक्षों के कितने ही कपि तथा राक्षस लडकर मर जाते । इस प्रकार, दोनों पक्ष के योद्धा भयकर सिंहनाद करते हुए घोर युद्ध करने लगे । तब रण-भूमि पर्वत-शृंगों, गज, हय तथा राक्षसों के विशाल शरीरों एवं शस्त्रों से भरकर भयकर दीखने लगी ।

युद्ध इस प्रकार चल ही रहा था कि कपन ने एक विशाल गदा उठाकर अगद पर प्रहार किया । इस प्रहार से अगद बहुत ही व्याकुल हुआ, किन्तु शीघ्र ही संभलकर एक विंगल पर्वत से उस दैत्य पर प्रहार किया । तब वह राक्षस चूर-चूर होकर मिट्टी में मिल गया । यह देख कपिनायक अगद बड़े दर्प से सिंहनाद करने लगा । कपन की मृत्यु को देख, शोणिताक्ष ने अत्यधिक क्रुद्ध होकर अपना रथ अगद के निकट ले जाकर अगद पर अक्षतास्त्र चलाने लगा । अगद उसकी बाण-वर्षा से विचलित हो उठा । वह तुरत उस राक्षस के रथ पर कूद गया और उसका धनुष तोड़ दिया, तो वह राक्षस शीघ्र ही खड्ग लेकर आकाश की ओर उछला । तब कपि-वीर भी उसके साथ ही आकाश की ओर उछला और उस राक्षस के हाथ का खड्ग छीनकर उसीसे उस राक्षस पर प्रहार किया । तब वह राक्षस मूर्च्छित हो गया । तब अगद यम के समान राक्षस-समूह का सहार करने लगा । इतने में शोणिताक्ष सचेत हुआ और गदा लेकर अगद पर आक्रमण किया । प्रजघ भी उसकी सहायता के लिए आ गया और गवाक्ष भी उसकी सहायता के लिए आ पहुँचा । यह देखकर द्विविद तथा मैनद अगद की सहायता के लिए आये । तब उन दोनों दलों में घोर युद्ध छिड़ गया । जब वानर राक्षसों पर पर्वतों की वर्षा-सी करने लगे, तब प्रजघ ने देखते-

देखते उन पर्वतों को तोड़ डाला । उसके बाद तीनों वानर-नेताओं ने गज, तुरग तथा रथों पर लगातार पर्वतों तथा वृक्षों की वर्षा की, तो उपाक्ष ने अद्वितीय ढंग से उन्हें बीच ही में काट डाला । उसके पश्चात् द्विविद तथा मैन्द आश्चर्यजनक रीति से वृक्षों को उखाड़कर राक्षसों पर फेंकने लगे तो शोणिताक्ष ने अपनी गदा से उन्हें बीच में ही चूर-चूर कर दिया । तब प्रजघ ने अपनी तेज तलवार को चमकाते हुए वानरों से भिड गया, तो मैन्द ने एक काले साल-वृक्ष से उस पर प्रहार किया । इससे सतुष्ट न होकर मैन्द ने अपनी मुष्टि से उस राक्षस के वक्ष पर प्रहार किया, तो खड्ग को नीचे फेंककर उस राक्षस ने क्रोध से अपनी वज्र-सम मुष्टि से मैन्द पर प्रहार किया । इस प्रहार से मैन्द मूर्च्छित हो गया, किन्तु शीघ्र ही संभलकर अपनी प्रबल मुष्टि से प्रजघ पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा । अपने चाचा को इस प्रकार गिरते देखकर उपाक्ष रथ से उतर पड़ा और तलवार लेकर युद्ध करने के लिए निकला । तब द्विविद ने अत्यंत क्रोध से उस पर आक्रमण किया, अपनी प्रबल मुष्टि से उस पर प्रहार करके अपने समस्त बल से उसे पकड़ लिया । तुरत उपाक्ष का अनुज शोणिताक्ष वहाँ पहुँच गया और द्विविद के वक्ष स्थल पर मुष्टि का प्रबल प्रहार करके उसे मूर्च्छित कर दिया और अपने भाई को छुड़ाकर ले गया । द्विविद शीघ्र ही सचेत हो उठा और मैन्द को साथ लेकर उपाक्ष तथा शोणिताक्ष पर आक्रमण करके युद्ध करने लगा । युद्ध करते समय द्विविद ने आश्चर्यजनक ढंग से शोणिताक्ष को पकड़कर उसे अपने पैरों से ऐसा रौद दिया कि उसका रूप पहचानना भी कठिन हो गया । तभी मैन्द ने अपनी भीषण मुष्टियों के प्रहार से उपाक्ष को, उसके शरीर तथा हड्डियों को चूर-चूर करके, मार डाला ।

इस प्रकार, चारों राक्षस-नेताओं को मरे देखकर राक्षस-सेना प्राण लेकर भागने लगी । यह देखकर कुभ अत्यंत क्रुद्ध हुआ और भागनेवालों को आश्वासन देकर सुरधनु-सदृश प्रकाशित होनेवाले अपने धनुष तथा चमकनेवाले बाण धारण करके एक पैर आगे करके धनुष चलाने की मुद्रा में खड़े होकर क्रूर गति से वानरों पर बाण चलाने लगा । उसके बाणों के प्रहार से द्विविद एक पहाड़ की भाँति पृथ्वी पर भयकर गति से गिर पड़ा । अपने सामने अपने प्रिय अनुज की यह दशा देखकर मैन्द ने अत्यंत वेग से एक पर्वत कुभ पर फेंका, तो उसने सात बाणों से उस पर्वत को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । फिर, उसने मैन्द पर एक ऐसा अस्त्र चलाया कि वह वीर पृथ्वी पर लुढ़क गया । अपने दोनों मातुलों को इस प्रकार धराशायी होते देख, अगद ने एक विशाल पर्वत को उठाकर कुभ पर फेंका । किन्तु, उसने पाँच बाणों से उस पर्वत को तोड़ दिया और फिर लगातार अगद पर असह्य शर चलाये । क्रोध से जलते हुए अगद ने भयकर गति से कुभ पर कई विशाल पर्वत फेंके, किन्तु कुभ ने उन सब पर्वतों को सहज ही काट डाला । उसके पश्चात् उसने दो पैने शर अगद के ललाट के मध्य भाग को लक्ष्य करके चलाये । इन शरों के प्रहार के कारण फूटनेवाली रक्त-धाराओं को पीछते हुए अगद ने एक पेड़ को उखाड़कर उससे कुभ पर प्रहार किया, किन्तु उस राक्षस ने उस पेड़ को भी तोड़कर अगद को बहुत भीषण बाणों से पीड़ित किया । इससे अगद मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके गिरते ही

सभी वानर-सैनिक राम के पास भागे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया । राम ने जाववान् आदि श्रेष्ठ वानर-वीरो को कुभ के साथ युद्ध करने के लिए भेजा । वे वृक्षों तथा शिलाओं को फेंकते हुए राक्षस-सेना को भगाने लगे । तब कुभ ने अनेक पौने शरों को चलाकर वानर-वीरो के आक्रमण को रोका और अपनी सेना को आश्वस्त किया । कपि-वीरो तथा अगद को युद्ध-भूमि में मूर्च्छित गिरे देखकर सुग्रीव क्रोधोन्मत्त होकर असह्य विशाल पर्वत तथा अश्व-कर्ण वृक्षों को उखाड़कर उनमें दानवों पर प्रहार करने लगा । किन्तु, देखते-ही-देखते कुभ ने उन सब को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और रवि-पुत्र पर कई बाण चलाकर उसे अत्यधिक पीडा पहुँचाई । फिर भी, विचलित न होकर सुग्रीव ने उस राक्षस के धनुष को छीनकर उसे खड-खड कर दिया । दौत तोड़ने से जैसे हाथी क्रोध से अपने शत्रु पर भपटता है, वैसे ही कुभ क्रोधावेश से सुग्रीव को मार डालने का निश्चय करके, उसकी ओर लपककर उससे जूझ गया । उस समय वे दोनों ऐसे लगते थे, मानो दो हाथी आपस में भिड़कर लड़ रहे हों । इस प्रकार, दोनों उद्धत हो, अपनी श्रेष्ठ भुज-शक्ति को प्रदर्शित करते हुए, अपने चरण-ताड़नों से पृथ्वी को कंपाते हुए धुएँ के समान लवी साँस छोड़ते हुए, परस्पर ऐसे टकराते थे कि उनके आघातों से सारा आकाश विदीर्ण हो जाता था ।

१४. सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध

निदान, सुग्रीव ने उस कुभ को उठाकर चारों ओर वेग से घुमाया और उसे समुद्र में फेंक दिया, तो सभी देवता हर्ष की ध्वनि करने लगे । वह राक्षस समुद्र में ऐसे जा गिरा, मानो मदराचल ही समुद्र-तल में गिर गया हो । किन्तु, वह राक्षस फिर अत्यधिक वेग से सूर्य-पुत्र के समक्ष पहुँच गया और अत्यंत क्रोध से सुग्रीव के वक्षस्थल पर अपनी-मुष्टि से ऐसा प्रहार किया कि उसका प्रभाव सुग्रीव की हड्डियों पर भी पडा और अग्नि-कण ऐसे छितरा गये, जैसे वज्रपात होने से कनकाद्रि से अग्नि-कण निकलते हो । इससे क्रोधाग्नि से जलते हुए सूर्य-पुत्र ने उस नीच राक्षस के वक्षस्थल को लक्ष्य करके अपनी मुष्टि से ऐसा तुला हुआ प्रहार किया कि राक्षस अपनी शक्ति खोकर पृथ्वी पर लुढ़ककर मर गया । शांत अग्नि के समान, प्रताप से हीन हो जब वह गिर गया, तब सभी राक्षस भयभीत हो, ऐसे भागने लगे कि सारी पृथ्वी हिल उठी और सभी समुद्र आलोडित हो उठे ।

अपने अग्रज को इस प्रकार गिरते हुए देखकर निकुंभ की आँखोंसे अग्नि-कण निकलने लगे । वह क्रोधावेश से सिंहाद करके, कनक-रत्न-प्रभा से युक्त तथा सतत पुष्प-चदन से अर्चित अपने परिघ को ऐसे घुमाने लगा कि समस्त ब्रह्माण्ड टूटता हुआ-सा दीखने लगा, सभी दिशाएँ चटकती-सी दिखाई पडने लगी और वायु-पाश टूटते-से दीखने लगे । तब हनुमान् सुग्रीव की सहायता के लिए आ पहुँचा और गर्जन करते हुए स्वयं उस राक्षस का सामना किया । तब राक्षस ने क्रोधोन्मत्त ही अपना परिघ मारुति के वक्षस्थल पर चलाया । उस प्रहार से चारों ओर अग्नि-कण छिटक पडे और परिघ आश्चर्यजनक ढग से चूर-चूर होकर हनुमान् के वक्ष की कठोरता को प्रकट करने लगा । उस आघात के कारण

हनुमान् स्वयं ऐसा हिल गया, जैसे प्रचंड वायु के कारण कोई विशाल वृक्ष डोलने लगता है । फिर भी, अत्यंत धैर्य के साथ हनुमान् ने निकुभ के वक्ष पर अपनी मुट्टि का ऐसा प्रबल प्रहार किया कि उसका वक्ष विदीर्ण हो गया और रक्त की धारा फूट निकली । निकुभ भी प्रचण्ड वायु-वेग से आहत वृक्ष की भाँति काँप गया और शीघ्र ही सँभलकर उद्धत गति से हनुमान् को ऊपर उठा लिया । यह देखकर सभी दानव हर्ष की ऐसी ध्वनि करने लगे कि सारा आकाश काँप उठा । किन्तु, कपि-पुंगव हनुमान् ने अपने-आपको शीघ्र ही उसके हाथों से हट्टा लिया और युद्ध-भूमि पर कूद गया । उसने अपनी मुट्टि से निकुभ पर प्रबल प्रहार किया और उसे उठाकर पृथ्वी पर ऐसे पटक़ा कि उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गईं । फिर, उसने उस राक्षस की छाती पर चढ़कर उसका सिर काट डाला और ऐसा भयकर गर्जन किया कि सभी दिशाएँ हिल उठीं और पृथ्वी, आकाश, समुद्र एवं सारा दिग्मण्डल उस ध्वनि से गँजने लगा ।

हतशेष राक्षस शीघ्र लका में रावण के निकट पहुँच गये और कुभ-निकुभ आदि छह शक्तिशाली वीरों की मृत्यु का समाचार कह सुनाया । तब रावण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर खर के योग्य पुत्र मकराक्ष को बुलाकर कहा—‘तुम अपनी विशाल सेना को साथ लेकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए राम-लक्ष्मण तथा उन वानरों का सहार करके आओ ।’

९५. मकराक्ष का युद्ध

रावण का आदेश पाकर मकराक्ष अत्यधिक उत्साह से भर गया कि मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया । हर्ष से उसकी छाती फूल गई । उसने रावण को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा लेकर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा । उसने रणोत्साह से फूलते हुए अपने निकट उपस्थित वीरों को देखकर कहा—‘तुम उग्र रूप से कपियों से युद्ध करो । मैं अपने भीषण शरो की अग्नि से राम-लक्ष्मण को तथा वानरों को छिन्न-भिन्न करके उनका नाश करूँगा ।’

उसके आदेश को स्वीकार करके सभी दानव उसके पीछे-पीछे चलने लगे । चलते समय उन्हें कई दुःशकुन दिखाई पड़े । किन्तु, उन सबको उपेक्षा करके तुरही-नाद तथा सिंहनाद करते हुए राक्षस-सेना कपि-सेना पर ऐसे दूट पड़ी कि पृथ्वी तथा आकाश विचलित हो गये । वानरों ने दैत्यों पर पर्वतों तथा वृक्षों की वर्षा की, तो दानवों ने गदा, दंड, कोदंड, खड्ग आदि महान् शस्त्रों की सहायता से उन सबको शीघ्र ही खडित कर दिया और अपने शस्त्रों के प्रहार से वानरों को व्याकुल करके सिंह-गर्जन किया । उस समय मकराक्ष ने सभी वानरों पर अपना रथ वेग से चलाते हुए उन पर कभी तीस, कभी सौ, कभी साठ, कभी पैंसठ, कभी बीस, कभी छब्बीस, कभी छह, कभी बारह, कभी दस, कभी पन्द्रह, कभी अठारह, कभी तेरह, कभी चार, कभी चौदह, कभी तीन, कभी पाँच, कभी सात और कभी नौ बाण चलाकर उन्हें पीडित कर दिया ।

उन अस्त्रों को महं न मकने के कारण सभी वानर इस वेग से भागने लगे कि पृथ्वी भी काँप उठी । तब राम ने धनुष उठाकर वानरों को आश्वासन देते हुए कहा—‘भयभीत होकर भागो मत, मैं अभी आता हूँ’, यो कहते हुए राम राक्षसों की चतुरगिणी

सेना का सहार करने लगे । यह देखकर मकराक्ष क्रोध से दहाडते हुए अपना रथ राम के पास ले गया और उनसे कहने लगा—‘हे राघव, मैं खर का पुत्र हूँ । तुमने पहले मेरे पिता का वध किया है । इसी कारण मेरा हृदय इतने दिनों से जल रहा है । मैं सतत तुम्हारे साथ युद्ध करने के अवसर की प्रतीक्षा में था । आज वह अवसर मुझे मिल गया । तुम यहाँ से हटो मत । अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए आज मैंने तुम्हें प्राप्त किया है । तुम गदा, धनुष या खड्ग इन तीनों में से किसी को लेकर मेरे साथ युद्ध कर सकते हो ।’

तब राघव ने क्रुद्ध होकर उससे कहा—‘हे नीच दानव, व्यर्थ का गर्व क्यों करते हो ? मैं अपने भुज-त्रल का प्रदर्शन करके युद्ध में तुम्हारा वध करूँगा । इन बातों को सुनकर मकराक्ष ने राम पर कई पौने बाण चलाये । किंतु, बीच में ही राम ने उन्हें काट डाला । उन दोनों के कठोर धनुष के टकारों से समस्त ब्रह्माण्ड तथा दिशाएँ कपायमान होने लगी । मकराक्ष, राम के चलाये सभी अस्त्रों को शीघ्र ही काट डालने और उन पर अनुपम बाणों का प्रहार करने लगा । किंतु, राघव ने उसके बाणों को काटकर विविध भीषण शरो से उसे आहत करने की चेष्टा की । लेकिन, उस राक्षस ने शीघ्र ही सब अस्त्रों को खड-खड करके भयकर सिहनाद किया । तब काकुत्स्थ-वशज ने एक बाण से उस राक्षस का धनुष काट डाला । आठ शरो से उसके सारथी का सहार किया और उतने ही बाणों से उसके रथ को छिन्न-भिन्न कर दिया ।

रथ से रहित होकर मकराक्ष ने एक शूल राम पर चलाया । किंतु, राम ने तीन बाणों से उसको चूर-चूर कर दिया । यह देखकर देवता राम की प्रशंसा करने लगे । वह राक्षस क्रोधोन्मत्त दाशरथि पर मुष्टि से प्रहार करने के लिए वेग से उनकी ओर आने लगा । किंतु, राम ने इसी बीच उसके वक्ष पर अनलास्त्र का प्रहार किया, तो मकराक्ष तुरत पृथ्वी पर गिर पडा । उसी समय पश्चिम पर्वत पर कमल-बाधव (सूर्य) अपनी अरुण प्रभा से भासमान होने लगा । हतशेष राक्षस लका में भाग गये और रावण से मकराक्ष की मृत्यु का समाचार कह सुनाया । तब क्रोध एव चिंता से अभिभूत होकर रावण ने इन्द्रजीत से कहा—‘हे तात, युद्ध में कपियो तथा राम-लक्ष्मण को क्षणमात्र में मार डालने की क्षमता रखनेवाला तुम्हारे सिवाय और कौन शूर रह गया है ? तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उन दोनों का सहार करके लौट आओ, जैसे तुम देवताओं का सहार करके लौट आये थे ।’

१६. इन्द्रजीत का तृतीय युद्ध

तब इन्द्रजीत ने विनय से रावण को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा लेकर युद्ध के लिए चल पडा । वायुवेग से जानेवाले अश्वों से जुते हुए विशाल रथ पर आरूढ होकर शरत्काल के बादलो से आच्छादित शैल की भाँति वह श्वेत छत्रों की छाया में बैठे हुए जाने लगा । उसके दोनों पाश्वों में सुन्दरियाँ अपने रमणीय ककणों की मधुर ध्वनि करती हुई चामर डुला रही थी । अपने मुख पर रणोत्साह की दीप्ति को लिये हुए उसने अपनी माता को प्रणाम किया और माता से आशीर्वाद प्राप्त करके पत्नी तथा पुत्रों से

विदा लेकर अपने भाइयों की मृत्यु का स्मरण करके, अत्यंत क्रुद्ध हो, बड़े दर्प के साथ वह आगे बढ़ा। उसके पीछे असंख्य दानव-सेना तथा काम-रूप मंत्री उसकी सेवा करते हुए चले। उसी समय साठ करोड़, चार दाँतवाले विशालकाय गज तथा भेरुण्ड पक्षी के समान बृहदाकार, तोते के रंगवाले चार करोड़ घोड़े उत्तर द्वार से निकले। ऐसी घोर युद्ध-सज्जा से युक्त ही इन्द्रजीत निसानों की भयावह ध्वनि के बीच लकापुर से निकला और वानर-वीरों के दुर्वार गर्जनों की ध्वनि से गुंजायमान होनेवाली युद्ध-भूमि में जा पहुँचा।

१७. इन्द्रजीत का होम करना तथा कृत्ति नामक शक्ति प्राप्त करना

युद्ध-भूमि में पहुँचकर इन्द्रजीत रथ से उतरा और चारों ओर दैत्यों को खड़ा किया। एक त्रिकोणाकार वेदी बनाई और दक्षिण दिशा से श्मशान की मिट्टी-अग्नि ले आकर उसे वेदी पर प्रतिष्ठित किया। उसके पश्चात् उसने बड़ी भक्ति से रक्त वर्ण के वस्त्र, माला तथा चदन धारण किये, दण्ड, उपवीत तथा मौजू (मूँज की करधनी) धारण की और संपूर्ण मन से खट्वाग का ध्वज स्थापित किया, महान् निष्ठा से कपाल पर आसीन होकर ककाल की परिधि बनाई और दक्षिण दिशा में लोहे के झुक् तथा झुवा सजाये। फिर, उसने कृष्ण वर्ण के यज्ञ-पशुओं के रक्त तथा मांस अग्नि-कुंड में डालकर मीन धारण किया। तत्पश्चात् अथर्ववेद की विधि के अनुसार अविराम मंत्रोच्चारण करते हुए झुक्-झुवाओं को अपने हाथ में लेकर उस प्रज्वलित अग्नि में विधिवत् ताड़ की समिधाओं, तिल तथा सरसों का हवन किया और उस होम के धूम से समस्त ब्रह्माण्ड को भर दिया। उस समय उस अग्नि-कुंड से एक विशाल रथ निकला। फिर, भयकर केश, भयावह रूप तथा कपाल, चमकनेवाली डारें, अस्थि की मालाएँ तथा अग्नि-ज्वालाओं को उगलनेवाली आँखों से युक्त हो, निरंतर अट्टहास करती हुई दहाड़नेवाली एक (कृत्ति) देवी निकली। उस देवी ने कहा—'हे देव-वैरी, जो भी कार्य हो, मुझे सौंपो। मैं उसे सफल करूँगी। उस देवी को पहचानकर, इन्द्रजीत अस्त्रों को तथा उसको लिये हुए, रथ पर बैठे, आकाश में चला गया और वानरों पर आक्रमण करने के लिए छिपा रहा। उसकी सारी सेना लका को लौट गई।

इन्द्रजीत कपि-सेना पर घोर शर-वृष्टि करके उन्हें विवश कर दिया। शिलाओं की वर्षा के कारण चारों ओर उड़नेवाले पक्षियों की भाँति कुछ वानर तितर-बितर होकर भाग गये। कुछ वानर अपना प्रताप खोये हुए रहे। कुछ घायल होकर लाल रंग की नदियों से युक्त पर्वतों के ढहने की भाँति रक्त-धाराएँ बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। उस राक्षस-कुमार के बाणों के कारण चारों ओर अधिकार व्याप्त हो गया। वानर-वीर अतिरक्षि में छिपे हुए इन्द्रजीत को देख नहीं सकते थे। इसलिए, वे उन बाणों को रोकने का कोई उपाय भी नहीं कर सकते थे। किन्तु, इन्द्रजीत अविराम गति से भूमि तथा आकाश को अपने बाणों से भरने लगा। उन पौने बाणों से कुछ वानरों की कमरें कट गईं, कुछ चूर-चूर हो गये, कुछ खड-खड होकर मिट्टी में मिल गये। कुछ इन्द्रजीत के बाण लगते ही, युद्ध करने के लिए लाये हुए वृक्षों को, पृथ्वी पर छोड़कर भूमि पर लोट गये।

कुछ लोगो के सिर पर बाण ऐसे लगते कि वे पृथ्वी से सट जाते और खड़े-ही-खड़े मर जाते थे, कुछ समस्त अंगो में बाणो के लगने ने, भूमि पर लोट जाते । कुछ गजो के शरीरों की आड़ में छिप जाते और कुछ अपने हाथों में पर्वत उठाये हुए राक्षस के बाणो को रोकते । कुछ वानर इन्द्रजीत के दृष्टिगोचर न होने से पुन-पुन आकाश की ओर देखते हुए दाँत पीसते थे । अवरल अस्त्र के प्रवाह के ऊपर से गिरते रहने से कुछ वानर उससे अपने मुखों की रक्षा करने के लिए अपनी हथेलियों को सेतु के समान बनाकर उभे रोकते थे । कुछ वानर अशनि-पिंडो की भाँति गिरनेवाले उन बाणो को शीघ्र ही अपने हाथों से तोड़ डालते थे और कुछ पूँछों से उन पर प्रहार करके उन्हें तोड़ डालते थे, कुछ वानर बाणो के आघात से रक्त में सन गये थे और कुछ बाणो के प्रहार के वावजूद अचल खड़े रहते थे । कुछ वानर आँतों के बाहर निकलने से पृथ्वी पर लोटते हुए और जँभाइयाँ लेते हुए अपनी आँखें बंद कर लेते थे, कुछ कहते थे कि अत में हम श्रीराम के लिए युद्ध में अपने प्राण दे पाये और कुछ ब्रह्मा को कोसते हुए कहते थे कि यह दुर्जय है, आज इसको जीतना असंभव है । कुछ वानर कहते थे कि यह ब्रह्मा की दी हुई शक्ति है, इसलिए यह ब्रह्माण्ड में कही भी दीख नहीं रहा है, किन्तु राम के आगे ब्रह्मा का वर ही क्या है और स्वयं ब्रह्मा की ही क्या हस्ती है ? पता नहीं कि रामचन्द्रजी अवतक क्रुद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं ?

इस प्रकार, सभी वानर जितने मुँह उतनी बातें कर रहे थे । इन्द्रजीत अपने अनुपम पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए एक स्थान पर धनुष का टकार करता, तो दूसरे स्थान पर शर-वृष्टि करता । एक स्थान पर अपना नाम कहता, तो दूसरे स्थान पर गर्जन करता, एक स्थान पर डाँट बताता, तो दूसरे स्थान पर हँसता और कही हुकार भरता । इस प्रकार, जब वह भयंकर गति से विचरण करने लगा, तब श्रेष्ठ बलवान् हनुमान्, अगद, शरभ, ऋषभ, जाबवान्, गज, गवाक्ष, गधमादन, विजय, नील, सुषेण, पनस आदि योद्धा शीघ्र ही पर्वतों तथा वृक्षों को उठा-उठाकर समस्त आकाश में फेंकने लगे, किन्तु वे इन्द्रजीत के चलाये हुए बाणों से टकराकर खड़-खड़ हो गये और वायु-वेग से तथा भयंकर ध्वनि के साथ, जहाँ-तहाँ पृथ्वी पर गिर गये और उनकी चोट से कई वानर मृत्यु को प्राप्त हो गये । फिर, मेघनाद अत्यंत क्रूरता से बाणों की अविशेष वर्षा करने लगा, तो कुछ वानर खडित होकर गिर पड़े और कुछ भयभीत होकर चारों दिशाओं में जाकर छिप गये । इस प्रकार, इन्द्रजीत ने बाणों के प्रहार से दस करोड़ वानर-वीरों को मिट्टी में मिला दिया । उसके पश्चात् भी उसका सामना करनेवाले कितने ही वानरों को अपने प्रचण्ड बाणों के प्रहार से खड़-खड़ कर दिया । महान् पराक्रमी हनुमान्, अगद, शतबली गवाक्ष, नील, नल, पनस, कुमुद, गधमादन तथा ऋक्ष एव असंख्य वानरनायकों को अपने उग्र बाणों से निश्चेष्ट कर दिया और ऐसा सिंहनाद किया कि देवताओं के हृदय भी दहल उठे ।

९८. राम का आग्नेय अस्त्र से इन्द्रजीत की माया को दूर करना

इन्द्रजीत के दुर्वार विक्रम से मन-ही-मन भयभीत हो, गर्व त्यागकर कपि-सैनिक लक्ष्मण के पीछे आ-आकर शरण लेने लगे । तब सौमित्र ने रामचन्द्र को देखकर कहा—

‘हे देव, अपनी माया के कारण गर्वांध होकर यह इस प्रकार कपि-सेना का सहार करने पर तुला हुआ है। हमें अब शीघ्र इसका वध कर डालना चाहिए।’ तब राम ने अनुज को देखकर कहा—‘हे लक्ष्मण, ब्रह्मा के वर के प्रभाव से यह आकाश में दूसरी की दृष्टि में आये बिना गर्व से बहुत फूल रहा है। हम कितना भी क्रुद्ध होकर युद्ध करें, यह हमारे वश में नहीं आ सकेगा। आज यह हमारे लिए असाध्य है। इसके ऊपर कोई भी अस्त्र सफल सिद्ध नहीं होगा, केवल हमारे अस्त्र व्यर्थ जायेंगे।’ उसी समय अग्निदेव ने आकर मृदु वचनो में कहा—‘हे नर-नाथ, इसकी माया को देखकर आप भयभीत मत होइए। यदि आप आग्नेय मंत्र को जपकर बाण चलावें, तो उस देवी की शक्ति नष्ट हो जायगी और वह उस राक्षस को छोड़कर चली जायगी।’

इतना कहकर जब अग्निदेव चले गये, तब राम ने विधिवत् अग्नि-मंत्र का जप करके बाण चलाया। तुरत वह माया-मूर्ति अद्भुत रीति से इन्द्रजीत को छोड़कर कहीं चली गई। तब इन्द्रजीत पृथ्वी पर उतर आया और धनुष का भीषण टकार करने लगा। इतने में सभी वानरनायक मूर्च्छा से मुक्त हो शीघ्र एकत्र हुए और इन्द्रजीत से भिड गये। हनुमान् ने शैल-शृंग से, अगद तथा मैन्द ने विशाल पर्वतो से, गज ने बड़े पर्वत से, नील ने एक विशाल वृक्ष से, नल ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से, सूर्य-पुत्र ने एक विशाल वृक्ष से, पनस ने असख्य शाखाओवाले वृक्ष से, विभीषण ने भयकर गदा से, सपाति ने ताल-वृक्ष से, अन्य वानर तथा जाबवान् आदि वीरो ने असख्य वृक्षो तथा महाशैलो से इन्द्रजीत पर प्रहार किया। लक्ष्मण ने तीन बाण चलाये और राघव ने एक सौ तीर चलाये। किन्तु, उस राक्षस ने उन सब को अपने विविध शरो से चूर-चूर कर दिया और अपने घोर बाणो की वृष्टि से वानरो को विफल कर दिया। उसने अठारह पुरुष तथा उग्र बाणो से गध-मादन को, पाँच शरो से मैन्द को, सात तीरो से द्विविद को, सात बाणो से हनुमान् को, सात ही बाणो से कुमुद को, नौ बाणो से अगद को, उतने ही शरो से नल को, पाँच तीरो से नील को, सात बाणो से गवाक्ष को, पैसठ बाणो से सुग्रीव को, बीस बाणो से पनस को, सात बाणो से दधिमुख को, सौ बाणो से राघव को, पचहत्तर बाणो से लक्ष्मण को, तीन ही बाणो से शतबली को, तथा सौ बाणो से विभीषण को व्याकुल कर दिया और अन्य वानर तथा ऋक्ष-वीरो को अपने शराघात से मरणासन्न कर दिया। तब हनुमान् ने पर्वत-शृंग को, अगद ने बृहदाकार शिलाओ को, पनस तथा विभीषण ने विशाल गदाओ को, सपाति ने उत्ताल ताल को, नल ने साल तथा अश्वकर्ण नामक वृक्षो को, सूर्य-पुत्र ने पर्वत-पकितयो को, शक्ति-विक्रम-सपन्न नील ने शक्ति को, अनल ने सप्तपर्ण को, अन्य वानरो ने खदिर-वृक्षो को तथा शतबली ने बेर-वृक्ष को उस इन्द्रजीत पर फेंका। लक्ष्मण ने तीन उग्र बाण चलाये और राम ने एक सौ श्रेष्ठ शरो को चलाया। शरभ, ऋषभ, जाबवान्, गवय, सुषेण, गवाक्ष, गज, द्विविद, मैन्द तथा अन्य अनुपम शूर वानरो ने विशाल पर्वतो तथा वृक्षो को उस राक्षस-राजकुमार पर फेंका। किन्तु, इन्द्रजीत ने आश्चर्य-जनक ढंग से उन सबको अपने बाणो से चूर-चूर कर दिया और सूर्य-पुत्र के वक्ष पर एक शूल ऐसा चलाया कि वह प्रचण्ड वायु के आघात से कपित होनेवाले वृक्ष की भाँति

काँप गया । तुरत उसने ऋषभ, गवाक्ष, सुषेण, अगद, जाबवान्, कुमुद, हनुमान्, गधमादन, नल आदि वीर वानरो को अपने अनुपम युद्ध-कौशल से विवश कर दिया । फिर, उसने राघव पर विविध बाण चलाये और लक्ष्मण के धनुष को खडित कर दिया और विभीषण को बाणो के प्रहार से भ्रूणभोर दिया । तब उसने प्रलय-काल के बादल की भाँति बार-बार गर्जन करते हुए राम से कहा—‘हे रघुराम, देखा तुमने, मेरे क्रोध में आते ही सुग्रीव आदि वानर-वीर कैसे गिर गये ? हे राजकुमार, तुम पर विश्वास करनेवाले इन वानरो की धज्जियाँ उड़ गईं ।’ इस प्रकार कहने के पश्चात् भी उस राक्षस ने अनेक बाण उस कपि-सेना पर चलाये और तदनतर ‘मै विजयी हुआ’, यो चिल्लाते हुए लका को लौट गया और अपने पिता से अपने युद्ध-कौशल का वृत्तात कह सुनाया ।

अपने पुत्र के पराक्रम का वृत्तात सुनकर रावण अत्यंत हर्षित हुआ और उसे निकट बुलाकर हृदय से लगा लिया और कहा—‘हे वत्स, तुम्हारे जैसे पुत्र के रहने से ही तो मैं शत्रुओ के द्वारा मारे गये अपने बधु-बाधवों की मृत्यु का प्रतिशोध ले सका । आज मेरा दुःख दूर हुआ । महान् वीर कुभकर्ण मारा गया, महाबली प्रहस्त मृत्यु को प्राप्त हुआ, अनुपम वीर त्रिशिर का अंत हुआ, अतिकाय युद्ध में आहत हुआ, महापार्श्व तथा महोदर युद्ध में गिरे, नरातक तथा देवातक कट मरे, कुभकर्ण के पुत्र, घोर पराक्रमी कुभ तथा निकुभ नष्ट हुए, साथ-ही-साथ मकराक्ष भी युद्ध में काम आया और समस्त राक्षस-सेना का नाश हो गया । कपियो ने अपने प्रताप का प्रदर्शन करके लका को जला दिया । हे पुत्र, तुम इन बातों का स्मरण करके शीघ्र ही जाओ और अपने भयकर बाणों के प्रयोग से राम-लक्ष्मण का वध कर डालो । तुम रण-विद्या में दक्ष हो । पहले तुमने सहज ही देवेन्द्र को युद्ध में जीत लिया था । यदि तुम क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करोगे, तो निखिल लोक उसी समय भस्म हो जायेंगे । तुम्हारे समक्ष इन नर तथा वानरो की शक्ति ही कितनी है ?’

९९. इन्द्रजीत का यज्ञ करके रथ प्राप्त करना

इस प्रकार के उत्साहवर्द्धक वचन कहकर रावण ने अपने पुत्र को विदा किया । तब वह अपने पुरोहित को भी साथ लेकर युद्ध-भूमि में पहुँचा और वही यज्ञ करने का उपक्रम करने लगा । परिचारक लोग शीघ्र ही अस्थि, कपाल, आवश्यक पात्र, लोहे के स्रुक्-स्रुवा, शस्त्र, ताल, समिधाएँ, रक्त-वस्त्र, रक्त-चदन आदि ले आये । तब उसने रक्त-वस्त्र, रक्त-माला तथा रक्त-चदन धारण किया, मारण-तत्र-विधि से तोमर, प्रास तथा खड्गों को हवन-कुंड की परिधि के रूप में सजाया और सजीव कृष्ण-हरिण का कठ काटकर उसका सिर ले लिया और भक्ति के साथ विधिवत् होम किया । अग्निदेव ने अपने धूम तथा शिखाओं को चारों ओर व्याप्त करते हुए प्रज्वलित होकर हृद्यों को ग्रहण किया । उस जयशील निशाचर वीर ने विजय के कई शकुन देखने के कारण अत्यंत हर्ष से नियमपूर्वक होम समाप्त किया । उसके पश्चात् उसने चार अश्व जुते हुए, भयकर तथा श्रेष्ठ बाणों से दीप्तिमान् होनेवाले, सुंदर ढग से अलंकृत सिंह तथा अर्द्ध-चन्द्र के चिह्नो से अंकित, मणियों की उज्ज्वल कांति से भास्वर पताका से युक्त,

ब्रह्मास्त्र-से रक्षित, तथा युद्ध-भूमि में अदृश्य रूप से विचरण करनेवाले एक रथ को प्राप्त किया। उस रथ पर आरूढ़ होकर वह युद्ध के लिए रवाना हुआ। जाते समय उसने राक्षस-सैनिकों से कहा—'अब मैं तुम्हारे समक्ष ही उन दशरथियों को युद्ध-क्षेत्र में गिराकर उनसे प्रतिशोध लूँगा और अपने पिता दशकधर के दुःख को दूर करके उन्हें विजयी बना दूँगा। मैं एक निमिष मात्र में सूर्य-पुत्र तथा अन्य वानर-पुंगवों का सहार कर डालूँगा और देखते-देखते ही युद्ध-क्षेत्र में, मैं अन्य वानर-वीरों का भी नाश कर दूँगा।'

इस प्रकार कहने के पश्चात् वह अदृश्य हो गया। राक्षसों से युद्ध करनेवाले राघवों को देखते ही उसकी भौहें तन गईं। तुरत धनुष का सधान करके उसने दुर्वार गति से उन पर ऐसी शर-वृष्टि की, जैसे प्रलय-काल में बादल जल-वृष्टि करते हैं। यह देखकर राघवों ने क्रोध से समस्त आकाश को उग्र बाणों से भर दिया। इन्द्रजीत ने तब उन सबको खडित करके ऐसी शर-वृष्टि कर दी कि सभी दिशाओं में अधकार-सा छा गया। केवल उसके विशाल एव प्रचंड कोदंड की भयकर ध्वनि, रथ की नेमियों की ध्वनि, रथ के अश्वों की टापों की ध्वनि तथा प्रत्यचा का टकार-मात्र सुनाई पड़ता था, किन्तु उस राक्षस का रूप कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। इससे दोनों राजकुमार आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। किन्तु, वह राक्षस शीघ्र उनके शरीरों के सभी अंगों में पैने बाणों से प्रहार करने लगा। तब राघवेंद्र ने क्रुद्ध होकर उसी दिशा में अपने बाण चलाकर उसके बाणों को जहाँ-कहाँ काट दिया। तब भुजबली इन्द्रजीत अपने रथ को भिन्न-भिन्न दिशाओं में चलाते हुए असख्य शर चलाने लगा। तब उसके बाणों से क्षत-विक्षत अंगों से राम-लक्ष्मण पुष्पित किंशुक-वृक्षों के सदृश दीखने लगे। प्रलय-काल के बादल के सदृश अपने विशाल शरीर को छिपाये हुए दक्षिण-दिशा से इन्द्रजीत ने राघवों को देखकर कहा—'अब तुम कहाँ जाओगे और कहाँ छिपोगे? तुम मेरे हाथों में फँस गये हो। अब तुम्हारी रक्षा करनेवाला कौन है? देवता तो अब इस ओर अपना मुँह भी नहीं दिखा सकेंगे। दुबले-पतले बदरों पर भरोसा करके बड़े साहस के साथ तुम युद्ध में आकर धोखा खा गये। मेरे तीक्ष्ण बाणों की अग्नि-शिखाओं से बचकर तुम अब कहाँ जाओगे? उस विभीषण के वचनों पर अधिक विश्वास करके मेरी शक्ति को तुम पहचान नहीं सके। मैं अभी तुम्हारा वध करता हूँ और आज ही जाकर अयोध्या में रहनेवाले उन भरत-शत्रुघ्न का भी अंत करता हूँ।'

यह सुनकर सभी वानर तथा देवता सन्नमित-से हो गये। इन्द्रजीत क्रुद्ध होकर कभी पश्चिम दिशा से गर्व का प्रलाप करता, तो कभी उत्तर दिशा से धनुष का टकार करता। फिर, पूर्व दिशा से घोर शर-वृष्टि करता और तुरत दक्षिण दिशा से ऐसा घोर गर्जन करता कि पृथ्वी हिल उठती। इस प्रकार, वह भिन्न-भिन्न दिशाओं में संचार करते हुए वानरों पर बाण चलाने लगा। तब राम-लक्ष्मण धनुष पर बाण चढाये हुए शीघ्र ही, उस राक्षस के चलाये हुए बाणों को बीच में ही तोड़ देते। उसके इस युद्ध-कौशल को देखकर देवता तथा सूर्य-पुत्र आदि वानर-वीर आश्चर्य-चकित हो गये।

इन्द्रजीत के बाणों से सैकड़ों कपियों को मरकर ढेर होते देखकर, सौमित्र ने क्रोध से अपने भाई से कहा—‘हे देव, इस राक्षस के हाथों से वानरों का सर्वनाश हो गया है। तब भी आप ऐसे चुप साधे क्यों हैं? वहाँ देखिए, भालुओं के नेता सभी दिशाओं में गिरकर लोट रहे हैं और अनेक वानरनायक नष्ट हो गये हैं। हे प्रभु, सभी वानर आपका भरोसा करके बड़ी भक्ति के साथ युद्ध में आये और इन्द्रजीत के दारुण अस्त्रों से आहत होकर गिरते हुए आपका ही नाम ले रहे हैं। शत्रु ने आपकी सारी सेना को समाप्त कर दिया है। अब आप यदि इसे नहीं रोकें, तो अनर्थ हो जायगा। हे सूर्यवशतिलक, शत्रुओं का सर्वनाश करने की क्षमता रखनेवाले आपके बाण चारों दिशाओं में व्याप्त होकर अपने दिव्य शरीर धारण किये हुए रहते हैं। आप उन्हें ग्रहण करके शत्रु का वध कर डालिए। इन शत्रुओं की शक्ति ही क्या है कि आपका सामना करके युद्ध कर सकें? ऐसे शात रहना क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। आप ऐसी चिंता में क्यों पड़े हैं? हे सूर्य-सम तेजस्वी प्रभु, आप अपने भुज-बल तथा पराक्रम का विचार ही नहीं करते। हे नाथ, आपकी भक्ति करनेवाले मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी कृपा से मैं स्वयं इस नीच दानव का वध करने में समर्थ हूँ। मैं अभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इस कुटिल राक्षस-वश का नाश करता हूँ।’

तब राघव ने अपने अनुज से कहा—‘हे लक्ष्मण, केवल इस एक के कारण अनेक का सहार करना क्या उचित है? जो लोग युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, क्या, उनका भी सहार करना ठीक है? उसे ब्रह्मा का यह वर प्राप्त है कि यह देव-दनुज तथा रुद्रादि देवों के द्वारा नहीं मरेगा, उस वर के गौरव की रक्षा करने के लिए ही मैं अबतक इसके औद्धत्य का सहन कर रहा हूँ। अब भी यदि यह युद्ध-भूमि में रहा, तो मैं स्वयं इसका सहार करने की क्षमता रखनेवाले वीर-वानरों को भेजूँगा। वे ही बुरी तरह इसे पीड़ित कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं हो सका, तो भले ही यह मेघनाद, इन्द्रलोक में आश्रय ले, ब्रह्मलोक में शरण ले, रुद्र-लोक में छिप जाय, पृथ्वी में प्रवेश कर रसातल में पहुँच जाय, समुद्र में डूब जाय या चाहे यम ही इसकी रक्षा करे, अथवा इसका दादा पुलस्त्य स्वयं इसे अपनी आड़ में छिपा ले, फिर भी मैं इसका वध अवश्य करूँगा, मैं इसे छोड़ूँगा नहीं।’

राम को इस प्रकार कहते ही उनके क्रोध की कल्पना करके इन्द्रजीत युद्ध करने की इच्छा छोड़कर अपनी भयकर सेना को साथ लिये हुए लका को लौट गया और अपने पिता से कहने लगा—‘हे दानवेन्द्र, मैंने युद्ध में वानर-सेना का सर्वनाश और राम-लक्ष्मण का मान-हरण किया है।’ उसकी बातें सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर कहा—‘युद्ध के लिए तुम्हारा इस प्रकार जाना और फिर लौट आना किस प्रयोजन का है? तुम ने कौन बड़ा कार्य किया है कि मेरे सामने डींग हाँक रहे हो? राम-लक्ष्मण का वध किये बिना तुम लौट आये और कहते हो कि सब मर गये। यदि तुम अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए युद्ध करते, तो समस्त लोक भस्म हो जाते। अबतक जो सफलता तुम्हें मिली है, उसे बहुत बड़ा मानकर तुम सतुष्ट मत होओ। अपने पराक्रम से राम लक्ष्मण को तथा वानरों को मारकर, फिर मुझे अपना मुख दिखाओ।’

१००. इन्द्रजीत का माया-सीता का सिर काटना

रावण के इन वचनों को सुनकर इन्द्रजीत ने कहा—‘ऐसा ही होगा’, और अपने पिता की आज्ञा लेकर वहाँ से चल पड़ा। उसने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि इस भयकर युद्ध में अतिकाय, कुभकर्ण आदि दैत्य-वीर अपने प्राण खो बैठे हैं, इसलिए मैं किसी-न-किसी प्रकार से राम-लक्ष्मण को अवश्य परास्त करूँगा। यो सोचकर उसने अपनी माया से एक माया-सीता की सृष्टि की और उसे साथ लिये हुए अपनी सेना के साथ पश्चिम दिशा की ओर रवाना हुआ। उस राक्षस के प्रताप से भयभीत हो सभी वानर भिन्न-भिन्न दिशाओं में भागने लगे। तब हनुमान् एक महान् शैल-शृंग को उठाकर उस राक्षस का सामना करने के लिए आया। वहाँ उसने इन्द्रजीत के रथ पर माया-सीता को देखा। वह (माया) सीता राम की अत्यधिक विरहाग्नि से पीड़ित आहार तथा निद्रा से रहित अत्यंत दुःख से अभिभूत दिखाई पड़ रही थी। निश्वास छोड़नेवाली उस माया-सीता का शरीर नितान्त दुर्बल था, मुख पीला पड़ गया था और उसके कमल-दल-जैसे नेत्रों से आँसू बह रहे थे। उसके केश उलझे तथा मलिन थे। उसके सभी अंग पृथ्वी पर लोटने के कारण धूलि-धूसरित थे। वह अपना कातिहीन मुख, कर-पल्लव पर टंके हुए इस प्रकार काँपती हुई बैठी थी, जैसे प्रचंड वायु से लता कपित होती है। उस सीता को देखकर हनुमान् दुःखी होने लगा, ‘हाय भगवन्, यह राक्षस राम की पत्नी की न जाने और क्या दुर्गति करेगा। उनकी यह दीन दशा मुझे देखना पड़ रहा है।’ फिर भी वायु-पुत्र घोर वानर-सेना के साथ दारुण रूप से उस राक्षस पर आक्रमण करने का उपक्रम करने लगा। यह देखकर दशकंठ के पुत्र ने बड़ी क्रूरता से हनुमान् को देखकर कहा—‘रे वानर, अब क्यों आगे बढ़ रहा है? ले, सीता को यहाँ देख। इसी सीता के लिए तो तू इस प्रकार उतावला हो रहा है? मैं अभी इसका सिर काट डालता हूँ।’

तब बाघ के सम्मुख पड़ी हुई हिरणी के समान दीखनेवाली सीता अपनी आँखों से अश्रु बहाते हुए, ‘हाय राम, हाय राम’ कहकर आर्त्तनाद करने लगी। वह क्रूर राक्षस सीता के केश पकड़कर खींचने लगा। तब वायुपुत्र ने उस राक्षस से कहा—‘रे दुरात्मा, क्या, यह तुम्हारे लिए उचित है? तुम राक्षस हो तो क्या हुआ? तुम विश्ववसु के पोते हो, क्या तुम्हारे लिए यह शोभा देता है कि तुम मनुकुलेस्वर राम की पत्नी को इस प्रकार केश पकड़कर खींचो?’

हनुमान् के इतना कहते ही इन्द्रजीत ने अपने खड्ग को उठाकर उस माया-सीता का सिर काट डाला और कहा—‘अब तुम जाकर यह समाचार राम-लक्ष्मण से कहो।’ यह देखकर अनिलकुमार अत्यंत शोक-सतप्त हुआ। खड्ग से कटकर, रक्त से लथपथ माया-सीता को दिखाकर इन्द्रजीत ने हनुमान् से कहा—‘हे वानरोत्तम, राम की पत्नी इस सीता का वध मैंने अपने खड्ग से कर डाला। अब तुम्हारा रणोत्साह शिथिल पड़ जायगा।’ इतना कहकर इन्द्रजीत युगात् के घनघोर मेघ के गर्जन की भाँति सिंहनाद करके दिग्गजों के कर्ण-पुटों तथा दिशाओं को विदीर्ण करते हुए, शत्रु-सैनिकों के मन में भय उत्पन्न करते हुए, युद्ध-भूमि में आगे बढ़ा। उस राक्षस को देखते ही सभी वानर भागने लगे। तब

हनुमान् ने उन्हें देखकर कहा—‘हे कपि-वीरो, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना छोड़कर भाग जाने का क्या यही समय है ? क्या, तुम युद्ध-धर्म को नहीं जानते ? क्या, युद्ध-क्षेत्र से भागना, अपने वश के लोगो को कलकित करना नहीं है ? मैं आगे-आगे चलता हूँ, तुम मेरा अनुगमन करो ।’

हनुमान् के वचन सुनकर सभी वानर पर्वत-शृंग तथा वृक्षो को उठाये हुए, गर्जन करते हुए हनुमान् के पीछे-पीछे चले और राक्षसो पर उन पर्वतो तथा वृक्ष को फेंकने लगे । पवन-कुमार ने भी क्रोध से एक महान् पर्वत को उखाड़कर उस राक्षस पर फेंका । तब इन्द्रजीत के सारथी ने रथ को तुरत दूसरी ओर फिरा लिया, तो वह पर्वत भयकर ध्वनि के साथ पृथ्वी पर आ गिरा । इतने में वानर फिर से पर्वतो तथा वृक्षो को ला-लाकर राक्षस-सेना पर फेंकने लगे । वानरो के प्रहारो से अपनी सेना को नष्ट होते देख रावण का पुत्र ऋद्ध होकर शूल, मुद्गर तथा खड्गो के प्रहार से वानरो का सहार करने लगा । तब मारुति ने अत्यत क्रोधोन्मत्त हो अपने भयकर रण-कौशल का प्रदर्शन करते हुए राक्षसो पर शिलाओ तथा वृक्षो की वर्षा करके राक्षसो को भगा दिया । इसके पश्चात् उसने वानरो को देखकर कहा—‘हे वानरो, इस अधम राक्षस ने राम की पत्नी सीता का वध कर दिया है । हमारा कार्य बिगड गया है । अब हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है ? मैं यह समाचार राघव को सुनाने के लिए जा रहा हूँ । उसके पश्चात् राम जो आज्ञा देंगे, वही हम करेंगे । अब तुम सावधान होकर रहो । यह राक्षस महान् क्रूर है ।’

१०१ इन्द्रजीत का निकुंभिल-यज्ञ करना

इस प्रकार कहने के पश्चात् हनुमान् को जाते हुए देखकर रावण का पुत्र मन-ही-मन सोचने लगा—‘यह बली यहाँ से चला गया, अब मेरे यज्ञ में विघ्न डालने की शक्ति किसी में नहीं है ।’ यो सोचकर वह राक्षस रक्त-मासो से अनल को तृप्त करते हुए निकुंभिल-यज्ञ करने का प्रयत्न करने लगा । इधर राम ने पश्चिम दिशा में अत्यधिक कोलाहल सुना, तो शीघ्र जाबवान् को बुलाकर कहा—‘पश्चिम दिशा में विपुल घोष सुनाई पड़ रहा है । न जाने, हनुमान् षर कोई विपत्ति आ पडी हो । तुम शीघ्र ही सेना के साथ जाओ और वहाँ के विपुल घोष के सबध में पता लगाकर आओ ।’

राम का आदेश पाकर ऋक्षेश (भालुओ का राजा) शीघ्र ही अपने एक करोड रीछ-सैनिको के साथ पश्चिम द्वार की ओर चल पडा । मार्ग-मध्य में ही वायु-पुत्र उससे मिला । वायु-पुत्र ने जाबवान् को देखकर इन्द्रजीत के कार्य के सबध में बताया और कहा—‘मैं यह समाचार रामचन्द्रजी को सुनाकर अभी आता हूँ, मेरे आते तक तुम इसी स्थान पर डटे रहो । शक्तिशाली शत्रु के सबध में असावधान नहीं रहना चाहिए ।’ यो समझाकर पवन-पुत्र ने जाबवान् को भेज दिया और स्वयं राघव के पास चला । राघव हनुमान् को दूर से ही देखकर सोचने लगे, ‘क्या कारण है कि हनुमान् का मुखमण्डल अग्निवत् (तमतमाया हुआ) दीख रहा है ? न जाने क्या बात है ?’ इतने में वायु-पुत्र राम के निकट आ पहुँचा और उन्हें प्रणाम करके कहा—‘हे देव, मैं आपसे क्या विनती करूँ ? हम सब अपने प्राण हथेली पर लिये राक्षसो से युद्ध कर रहे थे कि इन्द्रजीत भूमि-सुता

सीता को युद्ध-भूमि में लेकर आया और निर्दय होकर हमारे समक्ष ही उनका सिर काट डाला। इसलिए मैं जाबवान् को द्वार पर रक्षा करने के लिए नियुक्त करके आप से यह समाचार कहने को आया हूँ।'

यह समाचार कानो तक पहुँचने के पूर्व ही प्रचण्ड वात से आहत वृक्ष की भाँति अतुलित शोकाग्नि से जलते हुए, धैर्य खोकर रघुकुलेश्वर मूच्छित हो गये। पृथ्वी पर गिरे हुए राम को देखकर सभी वानरनायक विलाप करने लगे।

१०२ लक्ष्मण का शोक

तब लक्ष्मण ने अपने अग्रज के सिर को अपनी गोद में रखकर सभ्रमित चित्त से इस प्रकार आर्त्तनाद करने लगे—“हाय राम, आप जैसे पुरुषोत्तम को आज यहाँ ऐसा कलक लग गया। ‘धर्ममेव जयते’, यह कथन सत्य सिद्ध नहीं हुआ। यदि वह उक्ति सत्य होती, तो आप जैसे दयावान् के लिए ऐसा सताप क्यों कर होता? आपके हाथों से रावण की मृत्यु क्यों प्राप्त नहीं होती? इससे तो यही सिद्ध होता है कि धर्म से अधर्म ही श्रेष्ठ है। अयोध्या का राज्य त्याज्य नहीं है, ऐसा विचार किये बिना हम उस राज्य को छोड़कर जगलो में भटकने आये। जगलो में भटकनेवाले हमें पुरुषार्थ कैसे सिद्ध होगा?

“क्या हमने बुद्धिमानों का यह वचन नहीं सुना कि निर्धनों के सभी प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल हो जाते हैं, जैसे निदाघ में भरने नष्ट हो जाते हैं। हे राजन्, धन का अर्जन करने से धर्म तथा काम आदि अपने-आप सिद्ध हो जाते हैं। जिसके पास धन होता है, सभी उसके सगे-सबधी बन जाते हैं। अर्थ-संपन्न व्यक्ति ही पुरुषोत्तम होता है, धन ही विद्या है, धन ही कौशल है, धन ही कीर्ति है, वही महत्ता है, वही उच्चकुल तथा सद्गुण है। धन ही शील और बल है, वही पुण्य है, वही राज्य है। धन ही प्राण है, सौंदर्य है, ख्याति है, नीति है, सपत्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, सुख है और शुचित्व है। अर्थ से संपन्न व्यक्ति की सभी इच्छाएँ बात-की-बात में पूरी हो जाती हैं। महान् व्यक्ति, वेद-वेदांग-पारगत तथा विबुध-जन पुष्पाक्षतो से धनी व्यक्ति की बड़ी प्रीति से पूजा करते हैं। जगलो में रहनेवाले मोक्षार्थ मुनि-गुणव भी कद, मूल तथा फल की भेंट करते हुए धन-संपन्न व्यक्ति के दर्शन करते हैं। बदीजन तथा सगीतज्ञों का समाज धनवान् व्यक्ति की सतत प्रशंसा करते रहते हैं। उन्नतकुच, गुरु नितम्ब, क्षीण कटि, मदगमन, बिंबा-धर, चन्द्रमुख, कमल-नेत्र, भ्रमर के समान नीला जूड़ा, सुदर केश, नवोदित लज्जा, हाव-भाव, मधुर कटाक्ष, मीठे वचन, नव यौवन आदि से संपन्न रमणियाँ भोग-लालसा से प्रेरित होकर धनी-वृद्ध से भी प्रेम करेंगी, पर धन-हीन तरुण का अनादर करेंगी। धन का अभाव ही नरक है, वही श्मशान है, वही महान् शोक है। दरिद्रता ही रोग है, मृत्यु है, पाप है और कारावास है। धन का अभाव ही सकट है, अकाल है, दैन्य है और दुःख है। निर्धनता ही सब प्रकार की क्लृप्तता है। धनाभाव से सभी का अभाव होता है। अतः, जिस दिन हम राज-पाट छोड़कर आये, उसी दिन विपत्तियाँ भी हमारे साथ आईं। मैं जानकी की मृत्यु का दुःख सहन नहीं कर सकता। हे राजन्,

मैं अपने भयकर बाणों की अग्नि से राक्षसों के साथ सारी लका को शीघ्र ही भस्म कर दूँगा ।”

१०३. इन्द्रजीत की माया की विभीषण का राघवों को समझाना

लक्ष्मण के इन वचनों को सुनते ही विभीषण ने राम की मूर्च्छा दूर करने का सफल प्रयत्न किया । जब उनकी चेतना लौट आई, तब वह कहने लगा—‘हे देव, यह सब इन्द्रजीत की माया है । सीता पर कोई विपत्ति नहीं आई है । मेरी बातों पर विश्वास कीजिए । उस पापात्मा दशकठ के मन का भेद मैं भली भाँति जानता हूँ । मैंने उसे कितना समझाया कि तुम सीता को राम के चरणों में सौंप दो । किन्तु, उसने मेरे हित-वचनों पर कान नहीं दिया । ऐसा रावण, भला, सीता का वध क्यों करायेगा ? हे राजन्, संभव है कि यह उसकी माया हो । यदि सीता का वध सत्य होता, तो क्या अबतक सभी लोक नष्ट-भ्रष्ट नहीं हो जाते ? यह असत्य ही है । आप चिंता क्यों करते हैं ? मैं अभी जाता हूँ और सीता का कुशल जानकर आता हूँ ।’

उसके पश्चात् विभीषण ने राम की अनुमति पाकर, अपना विशाल रूप छोड़कर सूक्ष्म रूप ग्रहण किया और राक्षसेश्वर के वन में निर्विघ्न चला गया, वहाँ सीता को देखकर तुरत लौटा और रामचंद्र को प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ सारा समाचार कह सुनाया । उसकी बातें सुनकर राम ने कहा—‘हे विभीषण, इन्द्रजीत ने युद्ध-भूमि में ऐसा क्यों किया ?’ तब विभीषण ने कहा—‘हे देव, उसने आसुर होम करने का सकल्प किया है । हनुमान् आदि वानर-वीरों को निरुत्साह करके उन्हें आपकी सेवा में भेजने के निमित्त ही उसने यह उपाय किया है । उसकी योजना सफल हुई और उसके यज्ञ में विघ्न डालनेवाला वहाँ कोई नहीं रह गया । यह देखकर उसने निकुभिल में यज्ञ प्रारंभ कर दिया है । हे देव, यदि वह निष्ठा तथा भक्ति-युक्त मन से विधिवत् यज्ञ को पूरा कर लेगा, तो देव तथा दानव कोई भी उस वीर को जीत नहीं सकेंगे । अतः हमें उस राक्षस के यज्ञ में विघ्न डालना चाहिए । हे राजन्, हम अभी अपनी सेना के साथ उसके यज्ञ में विघ्न डालने के निमित्त जायेंगे, आप लक्ष्मण को हमारे साथ भेजिए । दशकठ के पुत्र इन्द्रजीत आज निकुभिल वन में यज्ञ के अनुष्ठान में लगा हुआ है । लक्ष्मण आज अपने प्रचंड बाणों से उसे वध कर डालेंगे । यज्ञ का अनुष्ठान पूरा होने के पहले ही यदि उसको हम दण्ड नहीं देंगे, तो यज्ञ की समाप्ति पर वह ब्रह्मा से ब्रह्मशिर नामक शर, धनुष, कवच, खड्ग, दो तूणार, कई मंत्र-पूत अस्त्र और देवताश्वों से तथा सुंदर ध्वजा से युक्त, वायु-वेग से चलनेवाला रथ, उस होम-कुंड से निकलेंगे । यदि इन्द्रजीत उस रथ पर आरूढ़ होकर अपने हाथ में वह धनुष सँभाले, तो देवासुर भी उसके समक्ष खड़े नहीं रह सकेंगे । इसके पहले, ब्रह्मा ने उसे वर-प्रदान करते समय उससे कहा था कि यदि तुम निकुभिल-यज्ञ करोगे तो सब प्रकार से अजेय हो जाओगे । यदि यज्ञ के बीच में विघ्न उपस्थित हो और यज्ञ अधूरा रह जाय, तो तुम युद्ध में शत्रुओं के द्वारा मारे जाओगे । इसलिए हे राजन्, आप युद्ध का आवश्यक प्रयत्न कीजिए और इन्द्रजीत का वध करवाइए । यदि यह मायावी मारा जाय, तो निश्चय समझिए कि देवताओं का शत्रु दशकठ भी मर गया ।

लगी। तब वानर-सेना भी क्रुद्ध होकर राक्षसों पर ऐसे प्रहार करने लगी कि राक्षस-सेना अपना दर्प खोकर इन्द्रजीत की आड में शरण लेने लगी।

तबतक इन्द्रजीत यज्ञ की सफल समाप्ति के लिए आवश्यक दो सौ दस आहुतियों में से, एक-एक करके एक सौ नौ आहुतियाँ महावह्नि की ज्वालाओं में दे चुका था। उसी समय वानर-सेना अपने भयकर गर्जनो से पृथ्वी को कँपाती हुई वहाँ आ पहुँची। यह देखकर क्रोधोन्मत्त हो इन्द्रजीत ने अपने हाथ की आहुति नीचे फेंक दी, अपनी आँखों से चिनगारियाँ बिखेरते हुए वह युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ। अपने रथ पर आरूढ हो, हाथ में अपना भयकर धनुष लिये हुए, वह वानर-सेना पर टूट पड़ा और उन्हें अपने तीव्र शरो के आघात से भागने के लिए विवश कर दिया। इसी बीच सौमित्र को साथ लिये हुए विभीषण ने निकुञ्ज-वन में प्रवेश किया और घने नील मेघ की भाँति दीखनेवाले वटवृक्ष के नीचे स्थित इन्द्रजीत का हवन-कुंड दिखाकर कहने लगा—'हे सौमित्र, देखा आपने? युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस राक्षस ने यहाँ यह हवन प्रारंभ किया है और भूतो की बलि देकर अग्नि से अद्वितीय शक्ति को प्राप्त कर शत्रुओं को जीतने का सकल्प किया है। इसके पहले भी इसने इसी प्रकार हवन करके दुर्वार शक्ति प्राप्त की थी और इन्द्र को जीत लिया था। वहाँ देखिए, हवनकुंड से अरुण नेत्र, अरुण केश, अरुण वस्त्र तथा अरुणवर्ण माला धारण किये हुए काले रंग का सारथी तथा अरुण अश्वों से युक्त रथ उभर-उभरकर निकलनेवाले है। इन्द्रजीत शीघ्र ही लौट आयगा और हवन से प्राप्त शक्ति से इस रथ पर आरूढ होगा। उसके पश्चात् उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा। अतः, हे सौमित्र, आप अपने भयकर बाणों के प्रहार से इन्द्रजीत का सहार कीजिए।' तुरत लक्ष्मण धनुष का भयकर टकार करने लगे।

१०६. लक्ष्मण तथा इन्द्रजीत का परस्पर तिरस्कार के वचन कहना

तब करवाल हाथ में लिये हुए, कवच धारण किये, अग्निवर्ण रथ पर सवार हो इन्द्रजीत लक्ष्मण के समक्ष उपस्थित हुआ। उसे देखकर सौमित्र ने क्रोध से कहा—'हे मायावी राक्षस, अब तुम्हारी माया से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि तुम वीर हो, तो मेरा सामना करो और अपनी सच्ची वीरता को प्रकट करते हुए मेरे साथ युद्ध करो। मे अवश्य तुम्हें यमपुरी को भेजूँगा। तुम भले ही कपट-रूप धारण करो या अपने निज रूप में रहो, मैं शीघ्र तुम्हें समाप्त कर दूँगा।'

यह सुनकर इन्द्रजीत ने रोषपूर्ण आँखों से लक्ष्मण को देखकर कहा—'हे लक्ष्मण, बालक होकर तुम ऐसा हठ क्यों करते हो? किंचित् काल ठहरो, मैं अपने बाणों से विजय-लक्ष्मी से तुम्हें दूर करके, तुम्हारे शौर्य का नाश करूँगा और तुम्हारे प्राण लेकर पृथ्वी पर गिरा दूँगा और तुम्हारे शरीर को काटकर उस मास से कौओं तथा गीधों को तृप्त करूँगा। क्या, इतने शीघ्र तुम भूल गये कि मैंने तुम्हें नाग-पाशों से बाँधा था।'

इसके पश्चात् उसने विभीषण को देखकर क्रोध से कहा—'हे धर्म-घातक, तुम मेरे चाचा हो, और मैं तुम्हारा प्रिय पुत्र हूँ। क्या, तुम्हें यह उचित है कि तुम मेरा अहित करो। दुर्मति होकर कुल-त्रोह करनेवाले तुम, भला औचित्य का विचार ही कैसे करोगे?

क्या, कोई ऐसा नीच होगा, जो विपत्ति में पड़े हुए बधुओं को छोड़कर शत्रुओं की शरण ले ? औचित्य की बात रहने दो। अपने लोगों को छोड़कर शत्रुओं की सेवा में जीवन बितानेवाले व्यक्ति का जीवन भी कोई जीवन है ? राक्षसेश्वर महा तेजस्वी है। ऐसे व्यक्ति तुम्हारे निष्ठुर वचनों को हित-वचन कैसे मान लेंगे ? भाई के क्रोध करने से यदि तुम घर के किसी कोने में पड़े रहते, तो क्या होता ? वहाँ से भागकर भी तुमने कौन-सा महान् कार्य सिद्ध कर लिया ? क्या, तुम्हारे प्रताप की सहायता से ही दशकठ ने समस्त देवताओं को जीत था ? हमारे अपने होते हुए तुम अपना रहस्य अपने शत्रु को बताकर उसके हाथों में स्वयं भी नष्ट हो जाओ।'

तब विभीषण ने कहा—'हे मेघनाद, तुम मेरे आचरण से भली भाँति परिचित हो। फिर भी, ऐसा प्रलाप क्यों करते हो ? तुम उस अविनीत पिता के अविनीत पुत्र ही तो हो। भला, तुम्हें धर्म और नीति का विचार ही क्यों होगा ? क्रूर बधु का उसी प्रकार त्याग करना चाहिए, जैसे पाले हुए सर्प का त्याग करते हैं। यदि वह पापी दशकठ मेरी बात उस दिन मानता, तो इतना अनर्थ ही क्यों होता ? परधन तथा परस्त्रियों के लोभ में पड़नेवाले पापियों को औचित्य, शुभ, धर्म, लोक-संग्रह आदि से सबध ही क्या हो सकता है ? तुम्हारे मन का गर्व तथा अहंकार तुम्हें अग्नि में जलाये बिना नष्ट भी कैसे होंगे ? तुम लोग मदाध होकर सतत अधर्म के आचरण में प्रवृत्त रहते हो। तुम देवताओं को पीड़ित करते हो और सुव्रती परम मुनीन्द्रो का वध करते हो। अतः, उस दशकठ के साथ-साथ तुम, सारी लका, तुम्हारे सभी बधु-बाधव, भूठी प्रशसा करनेवाले तुम्हारे मंत्री तथा सेना, सब राम के द्वारा नष्ट होंगे, यह सत्य है। तुम मति-भ्रष्ट हो गये हो, आसन्न मृत्यु के पाश में बँधे हुए हो। अतः, तुम जैसे चाहो, बको। अब तुम्हारी कोई माया काम नहीं देगी। हवन करने के निमित्त तुम अब वटवृक्ष के नीचे नहीं जा सकते। न लक्ष्मण ही लका की ओर जा सकते हैं। तुम शीघ्र यम-पुर को जा सकते हो।'

इतने में उदयाद्रि पर उदित होनेवाले सूर्य की भाँति, हनुमान् के विशाल कंधों पर आरूढ़ लक्ष्मण को, विभीषण को, तथा युद्ध के लिए उन्मुख वानरों को दुर्वार क्रोध से देखकर कहा—'आज तुम लोग युद्ध-भूमि में वीर होकर मेरी बाण-वृष्टि का सहन करो। मेरे धनुष से अविराम निकलनेवाले बाणों की अग्नि तुम्हें आहुति के रूप में ग्रहण करेगी। मैं आज करवाल, भाला आदि शस्त्रों से तुम्हारा सहार करूँगा।'

१०७. इंद्रजीत तथा लक्ष्मण का युद्ध

इस प्रकार कहकर पृथ्वी तथा आकाश को प्रतिध्वनित करते हुए उसने सिंहनाद किया और विविध बाण अत्यंत वेग से चलाते हुए कहने लगा—'देखता हूँ कि कौन भुज-बल से सपन्न व्यक्ति मेरे समक्ष आज खड़ा रह सकता है। यह सुनकर लक्ष्मण ने उस दैत्य से कहा—'हे अधम दनुज, व्यर्थ का गर्व क्यों करते हो ? समक्ष भिडना छोड़कर, छिपकर धोखे से चोट करना कैसा न्याय है ? यह भी कोई शौर्य है ? अपनी सब प्रकार की मायाओं को तजकर तुम आज मेरे समक्ष खड़े रहो। मैं अपने शरों से तुम्हारे प्राण हरण करूँगा।'

यह सुनकर इन्द्रजीत ने बड़े क्रोध से कालसर्प-सदृश बाणों को लक्ष्मण पर चलाया, जो लक्ष्मण के शरीर को पार करके पृथ्वी में धँस गये। फिर, उसने लक्ष्मण के शरीर पर कई शर चबाये, जो उनके शरीर को छेदकर दूसरी ओर निकल गये। लक्ष्मण के शरीर से, रौद्र रस की बाढ़ की तरह रक्त की धारा फूट निकली। यह देखकर राक्षस हर्ष का भीषण निनाद करने लगे। तब इन्द्रजीत ने अट्टहास करते हुए लक्ष्मण के निकट पहुँचकर कहा—‘हे राजकुमार, बड़े शूर की भाँति तुमने मुझसे युद्ध ठाना है। पहले मैं तुम्हारा कवच खड-खड कर दूँगा और उसके पश्चात् अपने दारुण अस्त्रों से तुम्हारा सिर काट लूँगा। आज राम अवश्य ही अपने भाई को युद्ध-भूमि में पड़े हुए देखेगा।’

तब लक्ष्मण ने उस निशाचर को देखकर कहा—‘हे राक्षस, व्यर्थ ही गर्व क्यों करते हो? युद्ध-भूमि में प्रलाप करने से क्या प्रयोजन? यहाँ से बिना हटे, मेरे साथ युद्ध करो। जिस प्रकार अग्नि बिना कुछ कहे, जला डालती है, वैसे ही मैं बिना बातें किये ही अभी तुम्हारा वध कर डालता हूँ। व्यर्थ डींग मारने से क्या लाभ?’ इस प्रकार कहकर लक्ष्मण क्रोध से आँखें लाल किये हुए, अपने धनुष की प्रत्यचा पर ऐसे दारुण अस्त्रों का सधान किया, जिनका प्रकाश दिशाओं में व्याप्त हो रहा था और जिनसे अग्नि-ज्वालाएँ तथा स्फुलिंग निकल रहे थे। लक्ष्मण ने ऐसे अस्त्रों को उस क्रूर राक्षस के वक्षस्थल को लक्ष्य करके चलाया। उन बाणों के लगते ही वह राक्षस रक्त-वमन करते हुए मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। किन्तु, तुरत सँभलकर उसने सिहनाद करके तीन पैंने बाण रामानुज के वक्ष पर चलाये। वे दोनो रौद्र रूप धारण किये हुए, आँखों से अगारों की वर्षा करते हुए, एक साथ सिंह-गर्जन करते, धनुष का टकार करते तथा बाणों का सचालन करते थे, मानो यम का ही अट्टहास हो। अपनी शक्ति तथा विक्रम से दीप्त होते हुए वे सतत दीप्तिमान् चंद्र-सूर्य की भाँति, चार दाँतोवाले गजों के समान, सिंह-शावको के समान, कुमार-तारको के समान, वृत्रासुर तथा इद्र के समान तथा काल-रुद्रों की भाँति शोभायमान होते हुए जय की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित हो युद्ध कर रहे थे। अत्यधिक क्रोध से लक्ष्मण धनुष के टकार से युक्त धनुष, रथ, ध्वजा आदि के साथ इन्द्रजीत को अपने शरो की वृष्टि से ढक-से देते थे। जब वह प्रतिवाण चलाता था, तब लक्ष्मण उसके बाणों को बीच में ही काटकर उस राक्षस को अपनी बाण-वर्षा से आवृत कर देते थे। तब मेघनाद शक्तिहीन हो, उनके अस्त्रों के प्रति-अस्त्र चलाने में असमर्थ हो, दीर्घश्वास लेते हुए खड़ा रहा। यह देखकर विभीषण ने लक्ष्मण से कहा—‘हे राजकुमार, वह देखिए, आपके बाणों का सामना करने की क्षमता नहीं रखने के कारण रावण का पुत्र निर्वेद से अभिभूत हो चुपचाप खड़ा है। अभी आप विजय प्राप्त कीजिए।’ तुरत लक्ष्मण ने उस राक्षस के शरीर पर भयकर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। इन्द्रजीत एक मुहूर्त काल तक मूर्च्छित पड़ा रहा, और उसके पश्चात् सचेत हो सोचने लगा—‘हाय, मैंने पहले देव तथा असुरेन्द्र को जीत लिया था। आज देव मेरे प्रतिकूल हैं, इसलिए मुझे एक मानव से पराजित होना पड़ रहा है। इन सूर्यवशियों के द्वारा सभी राक्षस युद्ध में मारे जा चुके। अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है।’

इस प्रकार सोचकर मेघनाद ने लक्ष्मण को देखकर कहा—‘हे राजकुमार, अब तुम वीर की तरह खड़े होकर मेरे पराक्रम को देखो ।’ यो कहते हुए उसने सात बाण लक्ष्मण पर, दस बाण हनुमान् पर तथा एक सौ बाण विभीषण पर चलाकर उन्हें व्याकुल कर दिया । उन बाणों की उपेक्षा करते हुए लक्ष्मण ने इन्द्रजीत को देखकर हँसते हुए कहा—‘हे राक्षस, शूर बड़ी-बड़ी बातें कहे बिना ही युद्ध जीत लेते हैं और अधम डींग हाँकते हुए भी हार जाते हैं । सच्चा वीर युद्ध में कभी छिपता नहीं । युद्ध में धोखा देना भी क्या, कोई वीरता है ? हे क्रूरात्मा, तुम कुटिल युद्ध करनेवाले हो ? तुम्हारे इह-लोक और पर-लोक दोनों नष्ट हो जायेंगे ।’

इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण ने सूर्य-किरणों की भाँति प्रकाशमान होनेवाले, स्वर्ण की अनी से युक्त बाणों को उस राक्षस पर चलाया, तो वे उसके कवच को भी छेदकर उसके शरीर के पार निकल गये । तब उसका कवच भयकर सर्प की कँचुली की भाँति पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब इन्द्रजीत दूसरा वज्र-कवच पहनकर लक्ष्मण पर पौने बाण चलाने लगा । परस्पर के गराघातों के कारण शरीरों से निकलनेवाले शोणित के प्रवाह से युक्त होकर, वे दोनों गेहए रंग के निर्भरो से युक्त पर्वतों की भाँति दीखने लगे । वे अपनी-अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाते हुए तीव्र गति से युद्ध करने लगे । अस्त्र के आघातों से युक्त हो युद्ध करते समय, वे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, मानो पतझड़ के उपरान्त पुष्पित किशुक वृक्ष हों । अमर, गधर्व आदि आश्चर्य के साथ इस युद्ध को देखने लगे ।

उसी समय कलभो से घिरे हुए मत्त गज के सदृश, मन्त्रियों से घिरे विभीषण ने भयकर रीति से अपने धनुष का टकार किया और क्रोधोन्मत्त हो राक्षस-सेना पर ज्वालाओं को उगलनेवाले तीक्ष्ण बाण चलाये । उन बाणों के लगते ही राक्षस-सेना इस प्रकार पृथ्वी पर गिरने लगी, जैसे वज्रपात से विशाल वृक्ष गिरने हैं । अनल आदि उसके मन्त्री शूल, बरछे, खड्ग आदि शस्त्रों से राक्षसों पर आक्रमण करके उन्हें धराशायी करने लगे । तब विभीषण वानर-सेना को देखकर कहने लगा —‘अब तुम सब लोग एक साथ मिलकर इस इन्द्रजीत का वध करो । लकेश्वर की सारी शक्ति यही है । यदि यह मारा गया, तो समझो कि दशकठ अपनी सेना के साथ परास्त हो गया । इसके पहले तुम लोगो ने अपने असमान विक्रम से, प्रहस्त, वज्रमुष्टि, प्रजघ, सुप्तघ्न, भयकर प्रतापी कुभ-निकुभ, कुभकर्ण, अतिकाय, महापादर्व, धूम्राक्ष, मकराक्ष, क्रोधन, शोणिताक्ष, उपाक्ष, त्रिशिर, महोदर, अग्निकोप, देवातक, नरातक, जबुमाली, अकपन आदि महान् पराक्रमी योद्धाओं को मारकर युद्ध-सागर को सहज ही पार किया था और अपने बाहुबल को प्रदर्शित किया था । अब तुम्हारे तथा लक्ष्मण के लिए यह इन्द्रजीत एक गोपद के समान है । मुझे अपने पुत्र का वध नहीं करना चाहिए । इसके नष्ट होने का उपाय मैं तुम्हें बताऊँगा । सुनो, स्वयं हिंसा करना या दूसरों को भेजकर हिंसा कराना, दोनों समान है । किंतु यह राम का कार्य है, इसमें लोकहित निहित है । इसलिए यह पाप नहीं है । अब मैं सौमित्र के हाथों इसका वध कराऊँगा । आगे इसकी एक भी माया नहीं चलेगी ।’

इसके पश्चात् जाम्बवान् ने अपनी रीछों की सेना लिये हुए आकाश को विदीर्ण

करनेवाला गर्जन करके राक्षसों पर टूट पड़ा और पर्वत-शृंगों, वृक्षों तथा नखों और दाँतों से शत्रुओं के ऊपर आघात करते हुए उन्हें व्याकुल कर दिया। तब राक्षस भयकर परशु, मुद्गर, शूल, परिघ तथा धनुष लिये हुए भयकर गति से उनसे भिड़ गये। वानर तथा निशाचरों का वह सन्नाम ऐसा दीख पड़ा, मानो सुरासुरों का सन्नाम हो। तब हनुमान् ने क्रुद्ध होकर लक्ष्मण को नीचे उतार दिया और यम के समान एक-एक प्रहार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसने शैल-शृंगों तथा शाल-वृक्षों का प्रचुर प्रयोग किया और असंख्य राक्षसों का सहार करके भयकर सिंहनाद किया। तब विभीषण ने क्रोध से अपने धनुष का टकार और अपने मन्त्रियों के साथ राक्षस-सेना पर टूटकर अनेक राक्षसों का सहार किया। फिर, उसने स्वर्ण अनी से युक्त तीव्र शर इद्रजीत के शरीर पर चलाया। तब उसने भी क्रुद्ध होकर अद्वितीय शर यो चलाये कि वे विभीषण के वक्ष को पार करके पृथ्वी में ऐसे गड़ गये कि पृथ्वी भी डोल गई।

इस प्रकार, विभीषण से भयकर युद्ध करनेवाले इद्रजीत को देखकर लक्ष्मण क्रुद्ध हुए और हनुमान् के कंधे पर बैठकर असंख्य तीव्र शर उस राक्षस पर चलाये। इद्रजीत ने भी भयकर बाण-समूह चलाकर लक्ष्मण के बाणों को काट दिया। इस प्रकार, जब वे दोनों एक दूसरे पर क्रूर बाण चलाने लगे, तब उन अस्त्रों से ढके हुए शरीर से युक्त वे, वर्षा की धारा से युक्त बादलों के समान और बादलों से युक्त सूर्य-चन्द्र के समान दिखाई पड़ने लगे। उनके बाणों की तीव्र गति का वर्णन कैसे किया जाय ? ऐसा लगता था, मानो धनुष की प्रत्येक पर चढाये हुए बाण जैसे-कैसे रहते ही और वे उन्हें छोड़ते ही न हो। दोनों ओर के बाण समस्त आकाश में ऐसे व्याप्त हो गये कि अधकार छा गया। वीर रस के आवेश से अभिभूत वे दोनों उस युद्ध-क्षेत्र में अपने-आपको भूल-से गये। आश्चर्य था कि उस समय उस युद्ध-भूमि में वायु का संचलन भी नहीं होता था और अग्नि दीप्त नहीं होती थी। यह देखकर दिक्पाल, देवता, गधर्व, यक्ष, किन्नर आदि चकित-से होकर लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए उनकी शरण में आये। उन्होंने लक्ष्मण की विजय की कामना करते हुए उन्हें कई आशीर्वाद दिये और कहने लगे—‘हे सौमित्र, इस लोक-कटक राक्षस का आप अवश्य वध कीजिए।’

१०८. इन्द्रजीत का वध

देवताओं के इस प्रकार कहते ही भानु-वशज लक्ष्मण ने भयकर सिंहनाद करके अपने धनुष का टकार करते हुए इद्रजीत पर आक्रमण किया और असंख्य बाण उस पर चलाये। उस राक्षस ने भी उन बाणों को काटकर फिर कई भीषण शर लक्ष्मण पर चलाये। तब, लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर एक अर्द्धचन्द्र बाण से उसका धनुष काट डाला, सात बाणों से उसकी ध्वजा को गिरा दिया, एक बाण से सारथी का सिर काट डाला, दस बाणों से उसका वक्ष विदीर्ण करके चार बाणों से रथ के अश्वों को मार गिराया। तब रावण का पुत्र स्वयं सारथी तथा रथिक बनकर सौमित्र पर भयकर शरवर्षा करके अट्टहास करने लगा। तब सौमित्र ने स्वयं रथ चलाते हुए युद्ध करनेवाले इद्रजीत को लक्ष्य करके तीक्ष्ण बाण चलाये, जिनके लगने से रावण का पुत्र मूर्च्छित हो गया।

कुछ ही समय के पश्चात् इन्द्रजीत की चेतना लौट आई । वह चिंतित होकर सोचने लगा—‘यह कैसी विचित्र बात है कि एक मानव ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया । इसके पहले के युद्धों में मैंने कभी ऐसी व्याकुलता का अनुभव नहीं किया था । समय की गति प्रबल है, कोई उसके प्रतिकूल जा नहीं सकता ।’ इस प्रकार चिंता से पीड़ित हो वह दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए धनुष पर बाण का सधान करने की इच्छा नहीं रहने के कारण चुपचाप शत्रु को देखता रहा । तब सभी देवता रामानुज की प्रशंसा करने लगे ।

इन्द्रजीत के कातिहीन तथा विवर्ण मुख को देखकर वानर हर्ष-ध्वनि करने लगे । तब वीराग्रणी प्रमाथी, मेरु-सदृश विशालकाय एव मेघनिस्वन शरभ तथा ऋषभ ने पर्वत-शृंगो को, इन्द्रजीत के रथ पर फेंककर अश्वों के साथ रथ को भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । इस पर विपुल क्रोध से इन्द्रजीत ने मिहनाद करके विभीषण के ललाट को तथा लक्ष्मण के वक्ष को लक्ष्य करके तीन-तीन पौने बाण चलाये और धनुष का टकार करते हुए सिंह-गर्जन किया । तब विभीषण ने क्रोधोन्मत्त हो, आँखों से अग्नि-कणों की वर्षा करते हुए पाँच बाण ऐसे चलाये कि वे उस राक्षस के वक्ष को पार कर निकल गये । तब इन्द्रजीत ने क्रोध से अपने पिता (विभीषण) पर आग्नेय बाण चलाया । उसको आते देखकर लक्ष्मण ने वाहणास्त्र का प्रयोग किया । दोनों शर आपस में टकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े । उसके पश्चात् उस राक्षस-कुमार ने उरगास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने गरुडास्त्र के प्रयोग से उसको विफल कर दिया । फिर, उसने कुबेरास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने ऐन्द्रास्त्र से उसे खडित कर डाला । तब दानव ने गधर्वास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने उसे रौद्रास्त्र से काट डाला । उन दोनों का युद्ध प्रलय-काल में पृथ्वी की दशा का स्मरण दिला रहा था । उस समय सौमित्र की रण-क्लान्ति को मिटाने के लिए मानो, मद-मद पवन चलने लगा ।

तब लक्ष्मण ने यम की भाँति क्रूर हो इन्द्रजीत को देखकर अपने धनुष की ऐसी ध्वनि की कि दिशाएँ विदीर्ण-सी हो गईं । और, उसके पश्चात् उन्होंने भयकर सिंहनाद करके, देवेन्द्र से प्राप्त ऐन्द्रास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया और कहा—‘यदि रामचन्द्र धर्मात्मा है, यदि देवी सीता पतिव्रता है, यदि देवताओं की कृपा मुझ पर है, यदि इन्द्र आदि देवताओं का हित (इन्द्रजीत के अंत से) होनेवाला है, तो यह महान् शर इन्द्रजीत का सिर काट देगा ।’ इस प्रकार कहते हुए उन्होंने लक्ष्य साधकर इन्द्रजीत पर वह बाण चलाया । रत्न की नोक से सुशोभित वह बाण, समस्त आकाश में व्याप्त हो, घोर वज्र के समान भीषण रूप धारण किये हुए, क्रूर गति से चल पड़ा । उस शर ने विहगेन्द्र के सदृश वेग के साथ, सर्प के मुख से निकलनेवाले अग्नि-कणों की चंचलता लिये हुए, सूर्य-बिंब की-सी भयकर दीप्ति से प्रज्वलित होते हुए, अपनी काति से पृथ्वी तथा आकाश को भरते हुए उग्र दड देने के उद्देश्य से भयकर बनकर उस राक्षसेन्द्र के पुत्र पर आक्रमण किया । उस महान् उद्दण्ड अस्त्र ने अनुपम मणिकुडलो तथा ललित अरुण अक्षतो से अलंकृत इन्द्रजीत के सिर को मुकुट के साथ पृथ्वी पर गिरा दिया, मानो (लक्ष्मण ने) लका की निधि सिद्ध करने की इच्छा से प्रेरित हो, उसके पहले बलि देने के लिए, एक जगली भैसे का सिर काट लिया हो । यद्ध-क्षेत्र में गिरे हुए इन्द्रजीत को देखकर, लक्ष्मण विजय-लक्ष्मी से

सपन्न हो, अत्यंत हर्ष से दिशाओ को कँपाते हुए शख बजाया, धनुष का भीषण टंकार और सिंहनाद किया। उस समय अप्सराएँ नृत्य करने लगी और गधर्वों ने अपने मधुर सगीत से लोगों को आनंद पहुँचाया।

तब विभीषण ने अत्यधिक हर्ष से लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और सभी वानर हर्ष मानने लगे। हतशेष निशाचर व्रस्त हो, वानरो के आक्रमण के समक्ष खड़े रहने का साहस न कर सके और अपने चरणों के आघातों से पृथ्वी को कँपाते हुए, अपने आयुधों को जहाँ-तहाँ फेंककर, प्राण लेकर भागने लगे। कुछ राक्षस लका की ओर भागे, कुछ पर्वत-शृंगों पर चढ़ गये, कुछ समुद्र में कूद गये और कुछ गुफाओं में जाकर छिप गये। तब अग्निदेव अपनी स्वाभाविक दीप्ति से जलने लगे, सूर्य प्रखर तेज से भासमान होने लगा, सातो समुद्र अत्यंत स्वच्छ हो गये, दिशाओं में आच्छादित कुहरा हट गया, गगन प्रसन्न दीखने लगा, और पृथ्वी निष्कप दिखाई पड़ने लगी। तब हनुमान्, शतबली, नल, पनस, शरभ, ऋषभ, अतुल पराक्रमी अगद, अतिबली सुग्रीव, दधिमुख, गज, गवय, गधमादन, द्विविद, मैन्द आदि वानर-नेताओं ने आकर लक्ष्मण को प्रणाम किया और बड़े हर्ष से उनकी प्रशंसा करने लगे। समस्त देवताओं ने भी लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए पुष्प-वृष्टि की। वानरो ने विजय-गर्व से सिंहनाद किया। परिमल से युक्त मद पवन धीरे-धीरे चलने लगा। चूँकि, लक्ष्मण विष्णु के अश से सभूत थे, उनके हाथों युद्ध में मरे कपटी राक्षस, शरीर तजकर, पश्चिम सागर में डूबनेवाले सूर्य की भाँति विष्णु-सायुज्य को प्राप्त हो गये। सूर्यवश की कीर्ति को सब दिशाओं में व्याप्त करते हुए लक्ष्मण ने वहाँ एक विजय-स्तंभ प्रतिष्ठित किया और वानरो, विभीषण तथा हनुमान् के साथ शीघ्र रामचन्द्र की सेवा में पहुँच गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राम के चरण-कमलों में झुककर प्रणाम किया। तब, राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और आनदाश्रुओं से अभिषिक्त करते हुए, उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। लक्ष्मण के शरीर पर वीर-पुलक के सदृश लगे हुए बाणों को देखकर उमड़नेवाले अपार दुःख तथा मेघनाद की मृत्यु के अत्यधिक हर्ष से राम मूर्च्छित-से हो गये। किन्तु, वे शीघ्र ही सँभल गये और सूर्य-पुत्र को तथा विभीषण को अपने भाई लक्ष्मण को दिखाकर यो कहने लगे— 'युद्ध में अजेय होकर आज इसने कैसी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया है। असंख्य दिव्य शस्त्रास्त्रों से सपन्न इन्द्रजीत का इसने वध किया है। अतः अब यह निश्चित ही है कि महान् शक्ति-सपन्न रावण मेरे हाथों मरेगा। उसका वैभव और उसका बल, आज उसके पुत्र की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गये। असंख्य शस्त्रों से सपन्न तथा समस्त राक्षसों का आधार अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से रावण मेरे साथ युद्ध करने के लिए समस्त आयुधों से सुसज्जित होकर, दुर्वार गति से आवे, तो भी मैं अपने पैने बाणों से, चतुरगिणी सेना के साथ दशकठ का खड-खड करके भूतों को बलि चढ़ा दूँगा।'

इसके पश्चात् राम ने सुषेण को देखकर कहा— 'हे वानरोत्तम, तुम ओषधी-शैल सश्रेष्ठ प्रभा-विलसित विशाल्यकरणी ले आओ और लक्ष्मण, विभीषण तथा अन्य वानरो के शरीर पर लगे बाणों के घावों की पीड़ा को दूर कर दो। सुषेण ने राम के आदेश का पालन किया और वे सब स्वस्थ-गात्र हो गये। सूर्य-पुत्र की आज्ञा से, सभी वानरो ने

चंद्र तथा सूर्य-सम विलसित राम-लक्ष्मण को अलकृत किया । राम-लक्ष्मण, रवि-पुत्र, राक्षस-राज विभीषण, हनुमान्, सुषेण, शतमन्यु का पोता जाबवान्, नील आदि वानरनायक, पौलस्त्य-वशजो का एकमात्र आधार उस वीरवर इन्द्रजीत की मृत्यु पर हर्ष मनाने लगे ।

१०९ इन्द्रजीत की मृत्यु पर रावण का शोक

युद्ध-भूमि से भागे हुए हतशेष राक्षस लका में पहुँचे और लोक-कटक रावण को देख, शोकार्त हो यो कहने लगे—‘हे देव, इन्द्र के वैरी आपके पुत्र ने अपने अनुपम भुज-बल से असह्य वानरो का सहार किया । उन्होंने देवताओ को आश्चर्य-चकित करते हुए अपने दिव्य अस्त्रो के प्रयोग से लक्ष्मण को भी व्याकुल कर दिया और युद्ध करते हुए निदान लक्ष्मण के हाथो से मृत्यु को प्राप्त हुए ।’ यह समाचार सुनते ही रावण अत्यधिक शोक से व्याकुल होकर बहुत समय तक मूर्च्छित होकर पडा रहा । फिर, वह सचेत होकर शोक-सागर में डूबे हुए कहने लगा—‘हाय, वशवर्द्धन, हे महावीर, हाय दानशील, हे शूर-वीर, शतमन्यु को सहज ही जीतनेवाला तुम्हारा शौर्य आज किसने दबा दिया ? इन्द्र आदि दिक्पाल और गगनचारी जीव तुम्हारा नाम लेते ही भयभीत होकर भागते थे । ऐसी तुम्हारी भयकर शक्ति के समक्ष खड़े होकर एक साधारण मानव ने तुम्हारा दर्प-दलन किया । प्रचंड क्रोध से तुम अपने भयकर कोदड को सँभाले हुए युद्ध-क्षेत्र में खड़े हो जाते, तो यम भी तुमसे परास्त हो जाता था । ऐसी तुम्हारी वह शक्ति कहाँ नष्ट हो गई ? क्या दैव-गति वाम हो गई है ? अन्यथा, हे इन्द्रजीत, आज यम तुमसे भी अधिक प्रबल कैसे हो गया ? तुम्हारे पैने शर आश्चर्यजनक ढग से मदराचल को खड-खड कर देने में समर्थ थे । तुमने युद्ध-भूमि में कई बार सहज ही राम-लक्ष्मण को परास्त किया था । हे पुत्र, आज उस शक्ति को खोकर तुम सौमित्र के हाथो मारे गये । हे देवशत्रु, तुम्हारी मृत्यु से देवता तथा मुनि अत्यंत हर्षित होंगे । प्रलय-काल के घन-गर्जन-सदृश तुम्हारे सिंहाद करते ही समस्त लोक भयभीत हो जायेंगे । तुम सभी देवताओ के लिए अजेय थे । ऐसे तुम एक क्षुद्र जीव की भाँति मारे गये । हाय, ब्रह्मा का लेख मिटाने में तुम असमर्थ ही रहे । आज समस्त चराचर जगत् विक्रम तथा वीरो से शून्य दीख रहा है । हाय पुत्र, मैं तुम्हारी शक्ति का भरोसा किये हुए था, आज तुमने मुझसे अलग होकर मुझे देवताओ के उपहास का पात्र बना दिया । क्या, तुम्हारे लिए यह उचित था ? आज राक्षस-स्त्रियो का विलाप मुझे अपने कानो से सुनना पड रहा है । तुम अपना युवराजत्व, अपनी लका, अपने इष्ट बन्धुओ, अपनी माता, स्त्रियो तथा पुत्रो को त्याग कर कैसे चले गये ? हाय पुत्र, तुम कहाँ चले गये ? उस दिन तुमने यम को जीत लिया था, ऐसे बलशाली तुम आज उसी के नगर को कैसे गये ? पुत्र बड़ी भक्ति से अपने पिता के क्रिया-कर्म करता है । आज वह कर्म नहीं रहा, आज मुझे ही तुम्हारा क्रिया-कर्म करना पड रहा है । अब मैं क्या करूँ और क्या करूँ ? राम-लक्ष्मण, रवि-पुत्र, राक्षस-पालक विभीषण तथा भयकर पराक्रमी वानर, शूलो के समान मेरे हृदय में गडे हुए हैं । हे पुत्र, उन हृदय-शूलो को निकाले विना ही तुम कहाँ चले गये ? तुम मेरी विजय थे, मेरे तेज थे, मेरे पुण्य-फल थे, मेरे भाग्य थे, मेरे शौर्य थे, मेरी गति थे, मेरी कीर्ति थे और मेरा सर्वस्व तुम ही थे, तुम्हारे जैसे पुत्र की

मृत्यु मैंने देखी । अब मेरा जन्म किस प्रयोजन का ? इस विपत्ति-रूपी समुद्र को पार करने का साधन ही क्या है ? मैं अबतक यही विश्वास किये रहा कि तुम्हारी सहायता से मैं राम को जीत लूँगा । वह विश्वास अब नष्ट हो गया है । मेरी सभी आशाएँ समाप्त हो गईं । अब मैं इस शोक-दावानल में जल नहीं सकता ।” इस प्रकार, आर्त्तनाद करते तथा बार-बार शोक करते हुए, अस्थिरमति हो, रावण कितनी ही बार मूर्च्छित होता रहा । दशकठ के विवेकी मन्त्री उसे सात्वना देने तथा समझाने लगे । रावण बार-बार सँभलकर रोष तथा शोक से, भौँहें तानता, और चारो दिशाओ में क्रमशः अपनी क्रुद्ध दृष्टि केन्द्रित करता । जिस दिशा में उसकी क्रुद्ध दृष्टि पड जाती, उस दिशा में स्थित राक्षस भय से सिकुड जाते । निदान, राक्षसेश्वर ने अपने उग्र दाँतो को पीसते हुए, अपने दसो मुखो के नेत्रो से अग्नि-कणो की वर्षा करते हुए अपने मन्त्रियो को देखकर कहा—‘मैंने अविरत तप से ब्रह्मा को सतुष्ट किया और असंख्य शस्त्रास्त्रो को प्राप्त किया । मैंने युद्ध में न कभी अपजय प्राप्त की, न कभी अपने मन में शोक का ही अनुभव किया । शिवजी को सतुष्ट करके नील मेघ के सदृश जो कवच मैंने प्राप्त किया है, उसे धारण करके यदि मैं अपने रथ पर युद्ध के लिए जाऊँ, तो क्या, स्वर्ग के अधिपति भी मुझे जीत सकते हैं ? उस दिन मैं ब्रह्मा से जो धनुष-बाण प्राप्त किये थे, उन्हें शीघ्र ले आओ । आज मैं अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए शीघ्र शत्रुओ पर आक्रमण करूँगा और राम और लक्ष्मण तथा वानरो को जीतूँगा ।’ इतना कहकर वह मन-ही-मन प्रलय-काल की अग्नि की भाँति जलते हुए ताल ठोककर सभी दिशाओ को प्रतिध्वनित करते हुए विविध वाद्यो के निनाद के बीच युद्ध के लिए चल पडा । अत्यंत क्रोध से वह गरजकर कहने लगा—‘राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए मेरे भाइयो, पुत्रो, बधुओ तथा सैनिको का नाश किया है । इन्द्रजीत ने माया सीता का भी वध किया । मेरे सभी उपाय निरर्थक हो गये । मैं अभी जाऊँगा और असली सीता का ही वध करके अपना प्रतिशोध लूँगा ।’

११० रावण का सीता का वध करने के लिए जाना

इस प्रकार कहने के पश्चात् वह चद्रहास को अपने हाथ में लेकर अपने पदाघात से पृथ्वी को कँपाते हुए अशोक-वन की ओर चल पडा । तब वृद्ध राक्षस-मन्त्री आपस में परामर्श करने लगे—‘क्या दशकठ उन दाशरथियो को अपने पैने बाणो से जीत नहीं सकता । इसने लोक-पालको की परवाह न करके युद्ध में उन्हें जीत लिया था, मरुतो को भयकर युद्ध में परास्त किया, नौ ब्रह्माओ को जीत लिया, आठ वसुओ का दर्प चूर कर दिया, अपने प्रताप से नवग्रहो को दबा दिया, बारह आदित्यो को झुका दिया, ग्यारह रुद्रो को जीत लिया, गधर्व, यक्ष, राक्षस, उरग, गरुड तथा भयकर दानवो को भयभीत करके अपने वश में कर लिया । ऐसी दशा में इसके सामने मनुष्यो की शक्ति ही कितनी है ? क्रोध में आकर पतिव्रता स्त्री को मारना उचित नहीं है ।’

उसी समय रावण यम की भाँति लोक-भयकर रूप धारण किये हुए जानकी का वध करने के उद्देश्य से अशोक-वन में पहुँच गया । उस पापात्मा की क्रुद्ध दृष्टि को देखते ही वह साध्वी भय से सिकुड-सी गई । भयकर ग्रह के समक्ष भयाक्रांत हो पडी हुई रोहिणी

की भाँति वह सीता रावण को देख सोचने लगी—‘हाय भगवन्, इस दुरात्मा के हाथो से मुझे इस प्रकार मरना पड रहा है । कदाचित् इन्द्रजीत की मृत्यु का समाचार जानकर मुझे मारने के लिए यह आ रहा है अथवा उन राम-लक्ष्मण को जीतकर मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ रहा है, मुझे जान नहीं पडता । क्या, इसी के हाथ मरना विधि ने मेरे भाग्य में लिखा है ? हाय, अब मैं क्या करूँ ? हाय भगवन्, तुमने अत्यंत पुण्यात्मा राम-लक्ष्मण को अनेक सकटों में डाल दिया है ।’ इस प्रकार, वह कमललोचनी विलाप करती हुई, अपने मन में रघुराम की मूर्ति प्रतिष्ठित करके दुःख-विवश होकर मूर्च्छित हो गई । पृथ्वी पर पडी हुई सीता को देख दशकठ उनकी तरफ आगे बढ़ा । तब सभी राक्षस हाहाकार करते हुए चिल्लाने लगे—‘यह भयकर कृत्य अनुचित है ?’ उसी समय महान् मतिमान् तथा नीतिवान् सुपास्वर् नामक राक्षस रावण के निकट पहुँचकर निर्भय हो रावण को उपदेश देने लगा कि हे दानवेंद्र, तुम्हारे पितामह पुलस्त्य है, तुम्हारे पिता धर्मात्मा, नीतिज्ञ तथा यशस्वी विश्रवसु है, तुम स्वयं वेद तथा आगमो के ज्ञाता हो, अपने महत्त्व का विचार किये विना तुम ऐसे दुष्कर्म करने पर क्यों उतारू हुए हो ? उत्तम स्त्रियो का स्पर्श करके उनका वध करना महापाप है । इसलिए, तुम यह विचार छोड दो । तुम अपना सारा क्रोध कल युद्ध में राम-लक्ष्मण पर दिखाना । इस प्रकार कहकर सुपास्वर् ने रावण के हाथ से चंद्रहास छीन लिया और रावण को अपने साथ वहाँ से ले आया । वहाँ से लौटकर दशकठ मन-ही-मन शोक से पीडित होते हुए अपने मंत्रियो तथा बधुमित्रो को सभा-मंडप में बुलाया और अपने पुत्र के गुणो की बार-बार प्रशंसा करते हुए शोक प्रकट करने लगा ।

१११ इन्द्रजीत की स्त्री सुलोचना का शोक

अतपुर की स्त्रियाँ इन्द्रजीत की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक प्रकट करने लगीं तो उसे सुनकर आदिशेष की पुत्री सुलोचना को अपने प्राणनाथ की मृत्यु का समाचार ज्ञात हो गया । वह तुरंत शोक से अभिभूत होकर, मूर्च्छित गिर पडी । बडी देर तक सहेलियो की परिचर्या के उपरान्त, वह किंचित् सचेत हुई और अपने प्राणेश्वर का स्मरण करती हुई विविध रीतियो से यो प्रलाप करने लगी—‘हाय प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, क्या, एक साधारण मनुष्य ने तुम्हें परास्त किया है ? हाय, वह पापी ब्रह्मा हमारे प्रेम को नहीं देख सका । इसीलिए उसने हम दोनो को अलग कर दिया है । जब कभी तुम बाहर जाते थे, तब मुझसे कहकर जाते थे । इस बार भी तुम मुझसे कहकर जाते, तो शत्रु के हाथो तुम्हारी ऐसी मृत्यु नहीं होती । मेरे पिता ने जब तुम्हारे साथ बडी प्रीति से मेरा विवाह किया था, तब उन्होंने तुमसे कहा था, ‘यदि तुम विजय की आकांक्षा करते हो, तो जाने से पहले सभी कार्यों की सूचना अपनी स्त्री को देकर जाना । तब तुम ब्रह्मा तथा शिव के लिए भी अजेय बनोगे । नरो की तो बात ही क्या ?’ उसके पश्चात् उन्होंने मुझे एक शिरोरत्न देकर कहा था, ‘हे पुत्री, जब तुम्हारे पति शत्रुओ पर आक्रमण करने जायँ, तब तुम इस मणि से उनकी आरती उतारकर उन्हें भोजना । ऐसा करो, तो वे शत्रुओ पर विजय प्राप्त करके अवश्य लौट आयेंगे ।’ उनके इन प्रिय वचनो को भूलकर

तुम शत्रुओं के दिव्य शरो से युद्ध-भूमि में निहत हुए ।” इस प्रकार, प्रलाप करती हुई उसने मन-ही-मन अपने प्राण, अपने प्राणेश्वर के चरणों पर समर्पित कर लिये । उसके पश्चात् अपने पुत्रों को देखकर उस सुदरी ने कहा—‘हे पुत्रों, शोक-रूपी गम्भीर समुद्र में डूबने के पश्चात् भी किस बात का भय हो सकता है ? विभीषण तो है ही । वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे । अतः, तुम श्रेष्ठ गुणों से सपन्न होते हुए उन्नति करो । अब मेरा जीना उचित नहीं है । मैं अवश्य अपने प्राणेश्वर की सेवा में जाऊँगी ।’

इस विचार से मन-ही-मन हर्षित होती हुई, वह अपने मन की इच्छा को दृढ़ बनाती हुई, अत्यधिक क्लान्ति से चीत्कार करती हुई अपने पैरों को घसीटती हुई किसी प्रकार रावण के सभा-मण्डप में पहुँची । वहाँ पहुँचकर वह सुदरी आँखों से अश्रुधारा बहाती हुई बड़ी नम्रता से अपने ससुर से कहने लगी—‘हे दानवेन्द्र, पति से वचित हुई पत्नी का यही धर्म है कि वह पति के साथ ही इस ससार को त्याग दे । अतः, मुझे अभी पति के साथ जाना चाहिए । आप अपने सैनिकों तथा मित्रों के द्वारा मेरे पति का शव मँगवा दीजिए ।’

उस साध्वी के वचन सुनकर राक्षसराज बड़ी देर तक चिन्ता में घुलते हुए चुप रहा, फिर कहने लगा—‘हे साध्वी, तुम्हारे पति का शरीर युद्ध-क्षेत्र में शत्रुओं के बीच में पड़ा हुआ है । यदि मैं जाकर माँगूँ भी, तो क्या, वे मुझे वह शरीर देंगे ? अतः, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा । अब आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसे करो । मैं क्या कहूँ ? हे पुत्री, कोई ऐसा कार्य नहीं है, जिसका ज्ञान तुम्हें न हो । अपनी बुद्धि के अनुरूप मैंने तुम्हें यह परामर्श दिया है ।’

तब उस पद्मलोचनी ने उससे कहा—‘हे दानवेन्द्र, आपने अपने हाथ से कैलास पर्वत को उठाकर शिवजी को भी भयभीत किया था । आप तीनों लोकों को जीते हुए महान् वीर हैं । देवेन्द्र को भी परास्त किये हुए महावीर के सम्मुख नर और वानरों की शक्ति कितनी है ? नरों तथा वानरों के मध्य पड़े हुए आपके वीर-पुत्र का शरीर लाने में आप अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं । कदाचित् यह कुसमय का ही प्रभाव है कि आप इस प्रकार कह रहे हैं । पति-हीना तरुणियों को यदि घर के बाहर कार्यवश जाना पड़े, तो धर्म यही बताता है कि वे अग्नि को साथ लेकर जायँ । आप मेरे निवेदन को बुरा मत मानिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए । मैं स्वयं जाकर अपने पति का शरीर ले आऊँगी ।’

दशकठ ने उस रमणी को जाने की अनुमति दी, तो उसने अपने श्वशुर को प्रणाम किया और आषाढ मास की बिजली के सदृश दीखनेवाली अपनी देह की काति की किरणें भूमि तथा आकाश में व्याप्त करती हुई, निश्चल बुद्धि से वह सुदरी आकाश-मार्ग से चल पड़ी । सभी वानर-वीर आश्चर्य-चकित हो उस कमललोचनी को देखकर सोचने लगे—‘कदाचित्, देवताओं ने स्वर्ग-लोक से इस श्रेष्ठ सुदरी को राम देव के पास भेजा होगा, अथवा अपने पुत्र की मृत्यु के दुःख से पीड़ित हो रावण ने अपना दर्प त्यागकर सीता को रथ पर बिठाकर भेज दिया होगा, अन्यथा किसी देवकाता को इतने वेग से यहाँ आने

की आवश्यकता ही क्या थी ?' अगद, सुग्रीव, हनुमान् तथा युद्ध-भूमि में रहनेवाले सभी वानर-नेता राम-लक्ष्मण के निकट पहुँचकर आश्चर्य प्रकट करने लगे । उस समय परम पावन, पवन-पुत्र ने आकाश-मार्ग से आनेवाली उस रमणी को देखकर रामचंद्र से कहा— 'हे देव, यह मानिनी, देवकाता नहीं है और राम की पत्नी भी नहीं है । यह कोई पति-हीना स्त्री है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है । वहाँ उस रमणी के रथ पर देखिए, भस्म से आवृत अग्नि दिखाई दे रही है ।'

११२. सुलोचना का राम की स्तुति करना

इतने में वह रमणी शीघ्रगति से उस स्थान पर पहुँचकर रथ से उतर आई । क्षीण कटि से विलसित वह रमणी ऐसी दीखती थी, मानो स्वर्ण-प्रतिमा हो या नवजात मोती हो, अथवा नव-यौवना राजहसिनी हो । वह अपनी आँखों से अश्रु बहाती हुई, चकराती हुई, चीत्कार करती हुई, मद-गति से राघव के सम्मुख पहुँच गई और उन्हें साष्टांग दण्ड-प्रणाम करके, हाथ जोड़कर कहने लगी— 'हे रवि-कुलाबुधि सोम, हे रामाभिराम, हे विमल गुणधाम, हे शत्रुविनाशी, हे मेघश्याम, हे कमलनेत्र, हे विमल चरित्रवान्, हे हिमगिरि-सम धीर, हे ललित-मधुर-वचन-कुशल, हे लावण्य-निधि, हे जन-नायक, आपके चरणों की सेवा से मेरे सभी पाप दूर हो गये ।'

इस प्रकार, राम के समक्ष स्तुति करती हुई, विनय के साथ वह खड़ी हुई । तब राम की आज्ञा से सूर्यपुत्र ने कहा— 'हे सुदरी, तुम कौन हो ? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है ? तुम्हारा नाम क्या है ? तुम्हारे पति कौन हैं ? तुम किसकी पुत्री हो ? तुम अपना वृत्तांत सुनाओ ।' तब वह आँसू बहाती हुई कहने लगी— 'हे भानु-पुत्र, मेरे पिता आदिशेष है, मेरा नाम सुलोचना है, मेरे पति वह पुण्यवान्, बहुभोग-भाग्य-सपन्न, बाहुबली, महा तेजस्वी, युद्ध में भयकर, इन्द्र-विजयी, महान् शूर, दशकठ तथा मदोदरी के पुत्र मेघनाद है ।'

इतना कहने के पश्चात् उस रमणी ने राम को देखकर शोकाभिभूत होकर कहा— 'हे राघवेन्द्र, आपने युद्ध-भूमि में ऐसे महान् शूर का वध किया है । कृपालु होते हुए भी आपने कैसे उनका सहार किया ? हे सूर्यकुलतिलक, ऐसा महान् विक्रमी अब आगे कहीं जन्म लेगा ? आप जानते ही हैं कि पति की वियोगाग्नि से सती स्त्री अत्यधिक परितप्त होती है । मैं अपने पति को खोकर वैधव्य-दुख का कैसे सहन कर सकूँगी ? हे शरणाधी-न्त्राण, हे दयामय, हे परिपूर्णहृदय, हे शुभ-गुण-सपन्न, मैं आपकी शरण में आई हूँ । शरणागत की रक्षा करने की आपकी टेक है । मेरे पति को प्राण-दान देकर आप अपने प्रण की रक्षा कीजिए । पति-भिक्षा देकर मुझे जीवन प्रदान कीजिए ।'

सुलोचना की कातर प्रार्थना सुनकर, दया-मूर्ति राम का हृदय पिघल गया और वे उस रमणी के पति को पुनर्जीवित करने की बात सोचने लगे । यह समझकर हनुमान् ने राम से निवेदन किया— 'हे राघव, आप तो सर्वज्ञ हैं । उस ब्रह्मा का वचन टाल देना आपको उचित नहीं है । हे राजन्, आपको ब्रह्मा की मर्यादा रखनी चाहिए ।' तब राघव ने पवन-पुत्र की बातों पर विचार करके कहा— 'हे कमलाक्षी, तुम अगले जन्म में अपने

पति के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अगणित सपत्ति के साथ चिर काल तक सुख-भोग करोगी और उसके पश्चात् तुम दोनों वैकुण्ठ में अपना इच्छित सुख प्राप्त करोगे ।’

राम के वचन सुनकर वह स्त्री हर्षित हुई और विनयपूर्वक उस दयामय राम की स्तुति यो करने लगी—‘हे दया-समुद्र, हे अमल-गुण-धीर, हे साधुजन-आश्रित, हे सेतु-बधक, आप कृपा करके मेरे पति का शव मँगा दीजिए । मुझे अब शीघ्र नगर को लौट जाना चाहिए ।’ तब सुग्रीव ने उस स्त्री से कहा—‘हे कमलनयनी, यदि तुम पतिव्रता हो, तो बिना विलंब जाकर अपने प्रिय पति से अपना सारा वृत्तांत कहो ।’ यह सुनकर वह साध्वी शीघ्र युद्ध-क्षेत्र में पहुँच गई । वहाँ उस चंचलाक्षी ने अपने पति के कटे हुए सिर को देखकर कई प्रकार से रदन करने लगी । फिर, अपने पति के शरीर के पास पहुँचते ही उमड़ते हुए दुख से वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी । कुछ समय के उपरान्त वह सचेत हुई और अपने प्राणेश्वर के शरीर पर गिरकर ऊँचे स्वर में हाहाकार करती हुई विलाप करने लगी । फिर वह धैर्य धारण किये हुए स्थिर हो खड़ी हुई और सत्य की प्रभा से दीप्त होती हुई यो बोली—‘यदि मैंने मन-वचन-कर्म से पति की भक्ति की हो, यदि मैंने धर्माचरण में पति को ही दैव मानकर पातिव्रत्य धर्म का पालन किया हो, तो मेरे पति पुनर्जीवित होकर मुझसे सभाषण करें ।’

सुलोचना ने आत्मविश्वास के साथ जब ऐसे वचन कहे, तो दशकण्ठ के पुत्र ने आँखें खोलकर कहा—‘हे रमणी, मेरा बध करानेवाले तुम्हारे पिता ही तो हैं ? मुझे जीतने की शक्ति दूसरों में कहाँ है ? तुम को दुःखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है । अपने ऋणानुबध के अनुसार ही पति अपने पत्नी के साथ रहता है । सयोग तथा वियोग, दोनों, जीवों के लिए ब्रह्मा के द्वारा विधान किये जाते हैं । समय की गति प्रबल है, इसलिए मेरी मृत्यु हुई है । अब तुम जाओ ।’ इतना कहकर उसने अपनी आँखें बंद कर ली । सुलोचना मन-ही-मन अत्यंत दुःखी हो, वहाँ से चलकर राम के पास आई और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता से उनकी प्रशंसा करने लगी । तब रघुराम ने अगद को बुलाकर कहा—‘इस रमणी को उसके पति का शरीर दिला दो ।’

अगद ने राम की आज्ञा मानकर सुलोचना को उसके पति का शरीर दिला दिया । सुलोचना उस शव को लिये हुए बड़ी भक्ति से राम की आज्ञा प्राप्त कर वहाँ से शीघ्र लकानगर को रवाना हुई । वह सीधे अपने अंतपुर में नहीं गई, किन्तु अपने पति के शरीर को एक योग्य स्थान में रखकर, उसकी रक्षा के लिए सैनिकों को नियुक्त करके, उसके पश्चात् अंतपुर में गई । वह बहुत समय तक अत्यधिक चिंता में निमग्न रही और उसके पश्चात् अपने प्रिय पुत्रों को पास बुलाकर आँखों से अश्रुधारा बहाती हुई, उनके शिरो को सूँधा, गालों का बड़े स्नेह से स्पर्श किया और फिर उन्हें हृदय से लगाकर कहा—‘हे पुत्रों, तुम्हारे मुँह देखते रहने का सौभाग्य मुझे भगवान् ने नहीं दिया है । अब इस पृथ्वी पर जीना मेरा धर्म नहीं है, इसलिए अवश्य मैं सहगमन करूँगी । अब तुम्हारा यहाँ रहना भी

उचित नहीं है। इसलिए तुम पाताल-लोक में चले जाओ। अपने नाना आदिशेष के घर में तुम बिना सकोच के स्थिरबुद्धि से युक्त हो रहो।' यो कहकर सुलोचना ने उन्हें शीघ्र वहाँ से भेज दिया।

उसके पश्चात् वह थर-थर काँपती हुई दशकठ के सम्मुख गई और मुरझाये हुए अपना मुख भुकाये आँसू बहाती हुई, गद्गद कठ से, हाथ जोड़कर भक्ति से प्रणाम किया और अपने राम के पास जाने तथा शव लाने का वृत्त उसे सुनाया और अंत में कहा—'राम की दयालुता, लक्ष्मण का अतिशय स्नेह, विभीषण की सद्दृढयता तथा वानर-वीरो का पराक्रम आदि अद्भुत है।' यह सुनते ही रावण का मुख कातिहीन हो गया। उस रमणी के साहस, विवेक, न्याय, विचक्षण महिमा, पति-भक्ति तथा (शव के लाने में) उसकी कुशलता आदि के सबंध में सोचकर उससे कुछ कहते नहीं बना। प्रत्युत्तर देने में हिचकनेवाले अपने इश्वर को देखकर सुलोचना ने कहा—'हे असुरार्धीश, विधि-विधान को लेकर अब मन-ही-मन चिंतित क्यों होते है? मैं अब एकनिष्ठ होकर सती हो जाऊँगी। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए।'।

तब व्याकुल चित्त से रावण ने अपनी पुत्र-वधू को देखा, और ऐसी साहसवती तथा बुद्धिमती नारी को सहगमन करने से रोकना असंभव समझकर कहने लगा—'हे कमलाक्षी, अब मैं तुम से क्या कह सकता हूँ? तुम्हारे मन की इच्छा क्या है, कौन जाने? अपने प्रिय ज्येष्ठ पुत्र का वध कराकर, मैं भय तथा शोक के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मुझे कुछ सूझना नहीं है। अतः, तुम जैसा चाहती हो, वैसा करो।'

११३. सुलोचना का सहगमन

तब उस चंचलाक्षी ने 'अहोभाग्य' कहकर मन-ही-मन हर्षित होती हुई रावण को प्रणाम किया और वहाँ से अपने अंत पुर में पहुँच गई। स्नान से निवृत्त होकर उसने पीतांबर तथा रत्नाभरण धारण किये, ललाट पर चदन का लेप किया और पुष्प-मालाएँ पहनी। उसके पश्चात् सहेलियों तथा दशकठ की आज्ञा से आये हुए बधुमित्रों के साथ वह सुदरी अंत पुर से बाहर चली। उस समय मृदग, निसान, पटह, भेरी, शंख, काहल आदि वाद्यों की ध्वनि से दसो दिशाएँ प्रतिध्वनित होने लगी। वहाँ से वह शीघ्र इन्द्रजीत के शरीर के पास पहुँची और सुदर वस्त्र तथा आभूषणों से उस मृत शरीर का अलकरण किया। तत्पश्चात् उसने उस देह को अरथी पर रखवाया। तुरही आदि श्रेष्ठ वाद्यों की ध्वनि के बीच त्रेताग्नि्यों को लिये हुए स्वयं अरथी के आगे-आगे चली। उसके पीछे-पीछे दैत्य-समूह चला। इस प्रकार, नगर की उत्तर दिशा में पहुँचकर वहाँ उसने चिता सजाई। फिर, अपने साथ आई हुई सौभाग्यवती स्त्रियों को स्वर्णाभरण, वस्त्र आदि विविध दान दिये और निश्चल भक्ति के साथ चिता में प्रवेश करके अपने प्राणेश्वर का शरीर अपने हृदय से लगाकर बैठ गई। जब अग्नि प्रज्वलित हुई, तब उसने अपना शरीर अपने पति को समर्पित किया। देवता उसकी पति-भक्ति की प्रशंसा करने लगे। उस समय सब के समक्ष वह अपने पति के साथ देवताओं के विमान पर बैठकर, देव-मंडली के बीच देदीप्यमान होती हुई पुण्य-लोक में पहुँची और वहाँ अपने पति के सग रहने लगी।

११४. रावण का अपनी प्रधान सेना को युद्ध के लिए भेजना

रावण अत्यधिक क्रोध तथा शोक से जलते हुए, बार-बार उमडनेवाले पुत्र-शोक में धुलते हुए अपने सभा-मंडप में पहुँचा । क्रोधोदीप्त सिंह की भाँति उष्ण निःश्वासो को छोड़ने हुए, बल, साहस तथा युद्ध-कुशलता से सपन्न अपने सैनिकों को देखकर उसने आदेश दिया कि तुम शीघ्र जाकर वानरो तथा राम-लक्ष्मण को जीतकर आओ ।

रावण का आदेश शिरोधार्य करके राक्षस-सैनिकों ने बड़े उत्साह के साथ, रथ, गज, तुरग, पदाति आदि चतुरगिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आवश्यक शस्त्रास्त्रों का संगठन किया । फिर, वे वज्र-कवच तथा वज्र-सम आयुधों से सज्जित हो भीषण गति से चल पड़े । उस समय उनके गज-समूह के चिंघाड़ों तथा घटिकाओं एव अश्वों की हिनहिनाहटों का भीषण रव, दुदुभि, शख, पटह, डमरू, पणव आदि वाद्यों का तुमुल नाद, सेना का कलकल, ध्वजाओं की फडफडाहट, रथ के पहियों की घडघडाहट तथा धनुष का टकार आदि विविध ध्वनियों से मथित समुद्र की भाँति दिशाएँ गूँजने लगी । सेना के चलने से अत्यधिक धूलि ऐसे उड़ने लगी, मानो वह समुद्र से युद्ध करने जा रही हो । सभी राक्षस ऐसे गर्जन करने लगे कि उनके गर्जनों की ध्वनि आकाश का स्पर्श करने लगी और सारी पृथ्वी काँपने लगी । वे अपनी गर्वोक्तियों, धमकियों, हुकारों तथा चिल्लाहटों की ध्वनियों के साथ, अपने मणिमय कुडलो, हारों, कंकणों तथा किराटों की दीप्ति को विकीर्ण करते हुए लका से बाहर निकले, मानो महान् शक्ति-सपन्न कपि-समुद्र को देखकर, बड़े उत्साह से लका-समुद्र से निकलनेवाला वडवाग्नि का समूह हो ।

तब कपि-वीरों ने बड़े उत्साह से गर्जन करते हुए, अपने पदाघातों से दिग्गजों को बैठ जाने के लिए विवश करते हुए, आकाश की ओर उछलते हुए तथा ताल ठोककर ब्रह्माण्ड को भी विदीर्ण करते हुए, काजल के पर्वतों के समान दीखनेवाले राक्षसों को देखकर करोड़ों वृक्षों, पर्वतों तथा बड़ी-बड़ी शिलाओं को लिये हुए, उन पर आक्रमण किया । इतने में उदयाद्रि पर सूर्य भगवान् चढ आये, मानो वे रघुराम की धनुर्विद्या की निपुणता देखने की उत्कट अभिलाषा लिये हुए आये हो । राक्षस तथा वानर-सेनाएँ ऐसी भयकर रीति से परस्पर भिड गईं, मानो एक समुद्र दूसरे समुद्र से भिड गया हो । कपियों की विशाल सेना को देखकर राक्षस अपने रथ, गज तथा अश्वों को उनकी ओर बढ़ाते हुए वानरो पर टूट पड़े और उन्हें अनेक रीतियों से दुःख पहुँचाने लगे । किन्तु, वानरो ने अत्यंत साहस के साथ पर्वतों को उठाकर उन पर फेंका । उनके प्रहार से कई राक्षस-सैनिक गिर पड़े । राक्षस, करवालों से वानरो की पूँछों को काट डालते थे, तो वानर अपने बाहु-दण्डों से राक्षसों के गदा-दण्डों को तोड़ देते थे । राक्षस, वानरो पर परशुओं, परिधों तथा खड्गों को फेंकते थे, तो वानर पर्वतों, वृक्षों तथा पर्वत-शृंगों को फेंककर उन्हें नष्ट कर देते थे । युद्ध-भूमि में रक्त की धाराएँ बहने लगी । वानर अपनी पूँछों से पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, तो राक्षस उनके नीचे चूर-चूर हो जाते थे और फिर चक्रों तथा गदाओं से वानरो पर प्रहार करते थे । इस प्रकार, वे समान पराक्रम दिखाते हुए परस्पर युद्ध करते थे । राक्षस जब गजों, अश्वों तथा रथों को कपियों पर चलाकर उन्हें

व्याकुल करने लगे, तब सुग्रीव, अगद, पवनपुत्र तथा नील आदि वानर-वीर अत्यंत क्रोध से उनपर पर्वतो तथा वृक्षो की वर्षा करने लगे । इससे असह्य रथ खड-खड होकर गिर गये, हाथी भुड-के-भुड गिरकर मर गये और अश्व तथा पदचर सेना पृथ्वी पर लोटने लगी । जब रथारूढ कुछ राक्षस क्रुद्ध हो पृथ्वी को कँपाते हुए, अपने मनोरथो की भाँति, अपने रथो को बड़े वेग से वानरो पर चलाया, तब वानरो ने उन रथो के जुए पकडकर सहज ही उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया । जब अश्वारोही राक्षसो ने कपियो पर अपने अश्व चलाये, तब कपि उनके सम्मुख धैर्य के साथ खडे होकर एक अश्व को उठाकर उससे दूसरे अश्व पर प्रहार करने लगे । जब गजारोही सैनिक वानरो पर गजो को चलाते, तब वानर गजो पर आक्रमण करके एक गज से दूसरे गज को टकरा देते । फिर, वे गज-सेना पर टूट पडते और गजो पर आरूढ राक्षसो को नीचे खींच लेते या उन पर पदाघात करके गिरा देते या उन्हें नीचे गिराकर अपने पैरो से कुचल देते या उन्हें ऊपर उठाकर पृथ्वी पर पटक देते और विविध रीतियो से उन्हें छिन्न-भिन्न कर देते थे । इस समय अश्वो के खुरो से उठी हुई धूलि के आकाश में व्याप्त होने से युद्ध-भूमि में अंधकार-सा छा गया । उस अंधकार में करवालो की दीप्ति उन्हें मार्ग दिखाने लगी, तो उस दीप्ति की सहायता से वानर तथा राक्षस परस्पर घोर युद्ध करने लगे । इस युद्ध के कारण बहनेवाले रक्त की धारा-रूपी किरणों, धूलि-रूपी अंधकार को दूर करने लगी । घोर युद्ध में हाथी तथा रथ-रूपी तटो के बीच अश्व-रूपी मगर, ध्वजाओ, पेडो तथा सैनिको-रूपी तटवर्ती वृक्षो, खड्ग-रूपी मछलियो, हाथी की सूँड-रूपी सर्पो, ढाल-रूपी कच्छपो, चूर-चूर बने हुए असह्य रत्नाभूषणो के कण-रूपी रेत, केशजाल-रूपी शैवाल तथा चामर-रूपी फेन से युक्त रक्त की नदियाँ बहने लगी । उन नदियो को शीघ्र पार करते हुए वानर तथा राक्षस परस्पर भिड जाते । इतने में वानर राक्षसो पर उद्वत गति से टूट पडते, उनकी रीठों को तोड देते, अपनी मृष्टियो तथा कुहनियो से प्रहार करके, उन्हें नीचे गिरा देते, सिरो को कुचल देते, उनके पेट चीर देते, और इनसे भी सतुष्ट न होकर उन्हें दाँतो से काटते, अगो को तोडते, ँँडी पकडकर उन्हें घुमाकर पृथ्वी पर पटक देते, उनके केश पकडकर क्रूर गति से खींचते, दोनो हाथो से दो राक्षसों को पकडकर उन्हें एक दूसरे से टकराकर चूर-चूर कर देते, उन्हें गिराकर उनके वक्षो पर ऐसा प्रहार करते कि उनकी छातियाँ फट जाती उनसे रक्त बह निकलता और अपने नाखूनो तथा दाँतो से उनकी नाक, कान, मुख, ललाट आदि चीर डालते । कभी एक सौ वानर एक ही दानव पर टूट पडते और कभी एक ही वानर एक सौ दानवो का नाश कर देता । इस प्रकार, वानरो ने बडी तत्परता से लड़ते हुए दानवो को तितर-बितर कर दिया ।

तब राक्षस-सैनिक बड़े रोष के साथ, अपने दहाड, भेरी, मृदग आदि युद्ध-वाद्यो के निनाद से पृथ्वी को कँपाते तथा दिशाओ को विदीर्ण करते हुए, वानर-सेना पर टूट पडे । यह देखकर इन्द्र आदि दिक्पाल भयभीत हो उठे । विकृत सिर विकृत प्रकोष्ठ, विकृत ओष्ठ, विकृत नख, विकृत मुख, विकृत गात्र, विकृत नेत्र, विकृत हास, विकृत नाक, विकृत वक्ष, विकृत वर्ण, विकृत कर, विकृत पाद तथा विकृत नादवाले राक्षस-वीर उमड-धुमडकर अलग-अलग-आनेवाले

प्रलय-काल के बादलो की पंक्ति के समान परिध, गदा, चक्र, परशु, तोमर, त्रिशूल, खड्ग, मुद्गार, करवाल, ढाल, नागमुख, शिलीमुख, धनुष, मूसल आदि समस्त आयुधो से सज्जित हो वानर-सेना पर भयकर गति से टूट पड़े और उन्हें काटते, पीटते, मारते, ज्जालते तथा विविध रीतियों से उनपर प्रहार करते हुए उनका सहार करने लगे । इन क्रूर प्रहारी से भीत होकर वानर अपने हाथ के पर्वतो तथा वृक्षो को नीचे गिराकर विवश हो सोचने लगे, भला, हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है ? हमें राक्षसो से शत्रुता ही क्या है ? हमें न सूर्यवश राम ही चाहिए, न सूर्यपुत्र सुग्रीव । जगलो में कच्चे फल और पीले पत्तो को खाते हुए सुख से जीवन-यापन करना छोडकर, यहाँ इन राक्षसो के हाथो में व्यर्थ ही हम क्यों मरें ? चलो, हम यहाँ से भाग चलें । यो सोचकर वानर-वीर धैर्य खोकर सेतु की दिशा में भागने लगे । राक्षस-सेना उनका पीछा करके उन्हें खदेडने लगी ।

११५. वानर-सेना को हनुमान् आदि का प्रोत्साहन देना

हनुमान्, नील तथा अगद ने वानरो को इस प्रकार भागते हुए देखा, तो वे शीघ्र सेतु के उस पार गये और वानरो को सेतु के पार जाने से रोककर उन्हें लौटाया । तब सभी वानर भय से पीडित हो राम के पीछे जाकर शरण लेने लगे । राम ने वानरो की यह दीनता देखी, तो क्रोध से धनुष हाथ में लेकर उसका टकार करते हुए ऐसा सिंहनाद क्रिया कि राक्षसो के हृदय भय से काँप उठे । तदनतर क्रोधोन्मत्त हो अपना हस्त-कौशल दिखाते हुए, निशाचरो पर तीव्र बाणो की ऐसी वर्षा करने लगे कि उन बाणो की अधिकता के कारण स्वयं राम भी युद्ध-भूमि में दीखते नहीं थे । राम के चलाये हुए असंख्य शरो के प्रहार से राक्षसो की कमरें टूट गईं, जाँघें कट गईं, शरीर के खड-खड हो गये, वक्ष-स्थल विदीर्ण हो गये, मुख विकृत हो गये, पैर कट गये, हाथ टूट गये, कठ कट गये और सिर फट गये । कवचो को पार करके बाणो के शरीर में चुभ जाने से रक्त की नदियाँ बहने लगी । राम के बाणो के प्रहार से कुछ राक्षस मरते थे, कुछ भयभीत होते थे, कुछ मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिर पडते थे, कुछ व्याकुल हो जाते थे तथा कुछ भय से मुँह बाये खडे रह जाते थे । गज, अश्व तथा रथ पर आरूढ राक्षस सभ्रमित रह जाते थे । त्रस्त राक्षस चिल्लाने लगे—'वह देखो, राघव बाण चला रहे हैं । लो, वे हमारे निकट पहुँच हीं गये ।' ऐसा आर्त्तनाद करते हुए वे बडे वेग से युद्ध-क्षेत्र से भागने लगे । इतने में राघव ने अत्यधिक रोष से उन पर सम्मोहन-अस्त्र चलाया । उस अस्त्र के लगने से राक्षस अपने-आपको भूल-से गये और यह न जानकर कि कौन राक्षस है, और कौन वानर, एक राक्षस दूसरे राक्षस पर ही आक्रमण करने लगा । उस गाधर्व शर का ऐसा प्रभाव था कि किसी-किसी राक्षस को एक ही राम दीखता था, किसी को एक राम के स्थान में दस राम दीखते थे, किसी को सौ राम दीखते थे, किसी को सहस्र राम दीखते थे, किसी को एक लाख राम दीखते थे, किसी को करोड राम दीखते थे, किसी को सौ करोड राम दीखते थे, इस प्रकार उनको सारा युद्ध-क्षेत्र ही राममय दीखने लगा । अविराम बाण चलाते रहने से राम का स्वर्ण-धनुष वृत्ताकार में दीखने लगा । उसे देखकर राक्षस

मन-ही-मन सोचने लगे कि यह कदाचित् वही चक्र है, जिसे विष्णु ने भयकर युद्ध करते हुए 'नमुचि' पर चलाया था, अथवा किरण-समूह से घिरा हुआ सूर्यबिम्ब है। यो सोचते हुए, राम के शर-समूह के प्रहार का सहन न कर सकने के कारण वे प्राण लेकर भागने लगे। उस समय राक्षस-सेना में क्षण-भर की रक्त-वर्षा में भीगे हुए, चौदह सहस्र अश्व, अठारह सहस्र हाथी, एक लाख रथ, दो लाख वीर राक्षस नष्ट हुए। शर-रूपी अर, धनुष-रूपी नेमि (पहिये का घेरा), टकार-रूपी रव, किरण-रूपी स्फुल्लिंगो से युक्त राम का धनुष-रूपी चक्र काल-चक्र की भाँति विलसित होते देखकर हतशेष दैत्य अत्यंत त्रस्त हो उस घोर युद्ध-भूमि को छोड़कर भागे और लका में जा पहुँचे। यह देखकर वानर उत्साह से सिंह-नाद करने लगे। प्रलय-काल के यम की भयकर नाश-लीला की भाँति उस समय का युद्ध-क्षेत्र दीखने लगा। जब रघुवीर रावण की प्रधान सेना के दस सहस्र हाथी, बीस सहस्र अश्व, एक सौ रथ तथा एक पद्म सेना का सहार कर देते थे, तब एक धड़ उठकर नाचने लगता था, ऐसे करोड़ धड जब नाचते थे, तब एक कटा हुआ सिर आकाश की ओर उछलकर एक भयकर चीत्कार करता था, ऐसे एक करोड़ सिर जब उछलते थे, तब राम के धनुष की एक घटी बजती थी। इस भयकर युद्ध में राम के धनुष में लगी हुई ऐसी चौदह घटियाँ अविराम बजती रही। रघुवीर की ऐसी धनुर्विद्या का कल्पनातीत कौशल लगातार सत्रह घड़ियों तक चलते देखकर किन्नर, गधर्व, खेचर, यक्ष, उरग तथा अमर उनकी स्तुति करने लगे।

उसके उपरान्त, रामचंद्र ने शूर-पुंगव सुग्रीव को देखकर कहा—'यह सम्मोहनास्त्र जगद्भयकर है। इसका प्रयोग करने तथा इसका उपसंहार करने की शक्ति या तो मुझ में है, या ईश्वर में, अन्यो में ऐसी क्षमता नहीं है। कौशिक ने जिस महान् शस्त्र को मुझे प्रदान किया था, उसकी महिमा से स्वयं कौशिक भी अनभिन्न थे।' तब विभीषण ने राम को देखकर विनय तथा सभ्रम से कहा—'हे देव, रावण की यह सेना देवेन्द्र आदि देवताओं के लिए भी अजेय थी। यही रावण की मूल-सेना थी, आज यह भी मिट्टी में मिल गई। अब रावण का अंत निश्चित है। आप तो स्वयं अपने महत्त्व का ज्ञान नहीं रखते। सच तो यह है कि कोई भी आपकी समानता नहीं कर सकता।' विभीषण के वचन सुनकर रामचंद्र प्रसन्न हुए।

११६. राक्षस-स्त्रियों का रावण की निन्दा करना

लका में दानव-स्त्रियों ने झुंडो में एकत्र होकर उमड़ते हुए शोक से पीड़ित होती हुई कहने लगी—'हाय, कैसा दुर्भाग्य है कि निन्दनीय चरित्र, भाग्यहीन मुखड़ा, पलित केशों से युक्त सिर, विशाल उदर, विकृत वेश, विकृत यौवन, उग्र केश तथा उग्र वंश्रु-वाली शूर्पणखा सकल गुणोद्भव, सत्त्व-सपन्न, सुकुमार, तेजस्वी, सुमुख तथा कामदेव के समान सुंदर रामचंद्र पर आसक्त हुई। कहीं राजा भोज, और कहीं गगू तेली। इस लका के सभी राक्षसों पर मृत्यु की छाया पड़ी हुई थी, इसी कारण से उस राक्षसी ने दशकंठ तथा उस सूर्यवंशज में शत्रुता उत्पन्न कर दी। उस शूर्पणखा की बातें सुनकर उचित तथा अनुचित का विचार किये बिना, शत्रुत्व ठानकर, दशकंठ अपना ही नाश कराने के लिए नहीं,

अपितु राक्षस-वश का भी सर्वनाश करने के लिए उस राम की पत्नी को ले आया । इतना करने पर भी क्या, सीता उसे मिल गई ? ऐसा दुस्साहस उसने किया ही क्यों ? राम ने तो एक ही बाण से मारीच का वध कर डाला तथा दण्डक-वन में विराध पर क्रुद्ध होकर उसका सहार किया । इन बातों को जानकर भी मदाध हो रावण ने उनको नहीं पहचाना । जनस्थान में राम ने अपने अनल के समान शरो से चौदह सहस्र राक्षसों का सहार किया और अपने भयकर बाणों से, त्रिशिर, दूषण तथा खर को सहज ही मार डाला । दशकठ ने उसका भी विचार नहीं किया । क्रौचवन में दाशरथियों ने अपने अनुपम शौर्य से श्विराशन को, क्रूर विक्रम को तथा योजनबाहु कबध को मार डाला । ऐसे विक्रमी राक्षसों के (वध का) वृत्तांत जानकर भी रावण ने राम पर विजय प्राप्त करने की ठानी । क्या, यह उसके लिए संभव है ? क्या हमारे रावण में इतना साहस है, कि वह जगदीश्वर राम से युद्ध कर सके ? राम ने तो एक ही बाण से सहज ही बालि का वध करके सूर्य-पुत्र को किष्किंधा का राजा बना दिया । सहस्रो हाथी, लाखों अश्व, करोड़ों रथ और असंख्य पदचर सेना को राम ने एक क्षण-मात्र में ही युद्ध में मार डाला । उन्होंने अकेले महान् पराक्रमी कुभकर्ण का सहार किया । ऐसी वीरता देखकर भी रावण राम की शक्ति पहचान नहीं सका । महाशूर अतिकाय तथा इन्द्रजात को अकेले लक्ष्मण ने युद्ध में समाप्त कर दिया । इतना सब होने के उपरान्त भी रावण राम की शरण में नहीं जाना चाहता । आज लका के घर-घर में विलाप सुनाई पड़ रहा है । सभी लोग 'युद्ध में हमारे बंधु मरे, हमारे पुत्र मरे, हमारे पति मरे, हमारे सहोदर मरे', इस प्रकार का आर्त्तनाद करते हुए शोक-समुद्र में डूब रहे हैं । जिस दिन से दुर्मति तथा नीति-बाह्य हो रावण अपनी माया से सीता को इस नगर में ले आया, उसी दिन से दुःशकुन दिखाई पड़ रहे हैं । अब शीघ्र ही दशरथ के पुत्र के हाथों में दशकठ का अंत होना निश्चित ही है । हाय, नीतिज्ञ विभीषण ने विविध रीतियों से इसको धर्म-मार्ग समझाया था । यदि यह उनके हित वचनों का आदर करता, तो क्या लका की ऐसी दुर्दशा होती ? या तो कुल-पर्वतों के पंखों को अपने वज्राघात से काटनेवाले पुरंदर ने या मधु-कैटभ आदि राक्षसों का सहार करनेवाले विष्णु ने या क्रूर यम ने या प्रलय-काल के रुद्र ने इस पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया है और राक्षसों का वध करने लगा है । जिस समय दशरथ-पुत्र राम, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, युद्ध में दशकठ का वध करने लगेंगे, उस समय, क्या, महान् देवता या गधर्व या मुनि या रावण को वर प्रदान करनेवाले ब्रह्मा या शिव या राक्षस उन्हें राम के हाथों से बचा सकेंगे ? वर देते समय ब्रह्मा ने यह वर नहीं दिया था कि यह नर के हाथों से नहीं मरेगा । इसलिए यह स्पष्ट हो रहा है कि दशकठ अपने बंधुओं के साथ राम के हाथों से मरेगा । यह सत्य है, क्योंकि जब इस रावण ने इन्द्र आदि देवताओं को बड़ी क्रूरता से दुःख पहुँचाया, तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा से अभय-दान की प्रार्थना की । तब चतुर्मुख ने उन्हें देखकर कहा था—'भविष्य में तुम्हें किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा । अब तुम निश्चित रहो ।' इसके पश्चात् ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर महादेव के पास गये और उनसे प्रार्थना की । तब प्रसन्न होकर शिव ने ब्रह्मा को

कश्यापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा—‘देवो की रक्षा करने तथा समस्त राक्षसों का वध करने के लिए पृथ्वी पर इंदिरा का जन्म होगा । उस सती के पति बनकर विपत्तियों से प्रजा की सतत रक्षा करने तथा दुर्जन राक्षसों का सहार करने के लिए विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे । राम ही वह विष्णु है और भूमि-सुता ही वह इंदिरा है ।’ शिव का वचन कभी नहीं टलेगा । अतः, समझ लो कि हमें अब अघट दुःख प्राप्त होनेवाला है । अब हमारा रक्षक कौन है ? हमारा रावण अब बचेगा नहीं । अब हमारे सतप्त होने से कोई प्रयोजन नहीं है । हमारे एकमात्र त्राता विभीषण भी रामचंद्र की शरण में गये हुए हैं ।”

११७ रावण का द्वितीय युद्ध

इस प्रकार, विविध रीतियों से असुर-स्त्रियों के दीन विलाप सुनकर रावण थोड़ी देर तक चिंता की अग्नि में परितप्त होते हुए मौन हो रहा । फिर, प्रचण्ड काल-नाग के फुफकार की भाँति दीर्घ निश्वास छोड़कर ओठ चबाते तथा आँखों से अग्नि-कणों की वर्षा करते हुए अत्यंत क्रोध से युद्धोन्मत्त तथा विरूपाक्ष नामक राक्षसों को देखकर बोला—‘तुम शीघ्र तुरहियों की भयकर ध्वनि करते हुए सिंह-गर्जनों के साथ युद्ध के लिए निकल पडो ।’ उसकी बातें सुनकर भी भयाक्रान्त निशाचरो को मौन देखकर, उसने फिर कहा—‘शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करो । इस प्रकार हतोत्साह हो क्यों बैठे हो ?’ तब उन्होंने जाकर पुण्याह कर्म आदि करने के पश्चात् युद्ध की तैयारी की और राक्षसेन्द्र के समक्ष आकर उस बात की सूचना दी । तब रावण ने उनको देखकर कहा—‘दिन-दिन मेरी सेना घटती जा रही है । मेरे सभी अनुचर मारे जा चुके । अमरेन्द्र के समान पराक्रमी खर, अमित बलशाली इन्द्रजीत, कुभकर्ण, प्रहस्त, कुभ-निकुभ, भयकर पराक्रमी अति-काय, महाकाय, महोदर, असुरातक, नरातक, यशस्वी अकपन, कपन आदि महान् योद्धा, जो युद्ध में इद्र का भी सामना कर सकते थे, मेरे निमित्त प्राण खो बैठे । मेरा दण्ड चूर-चूर हो गया । इसलिए, मैं अपने सभी शत्रुओं का नाश करूँगा और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके उनसे प्रतिशोध लूँगा । मेरे शर समस्त आकाश तथा समुद्र को ढक लेंगे । मैं आज सभी वानरो का सहार करूँगा । मेरे चलाये बाण मृणालयुक्त कमलों की भाँति वानरो के कठनाल-युक्त मुख-कमलों को काटेंगे और मैं उनसे युद्ध-भूमि का अलंकार करूँगा । आज लका नगर की स्त्रियाँ यह सोचकर कि हमारे पति, पुत्र और सहोदर युद्ध में कटक मरे पडे हैं, अब हमारी रक्षा कौन करेगा । वे शोक-सागर में डूबी हुई हैं । मैं शत्रुओं का वध करके उनका शोक दूर करूँगा । मैं शत्रु-पक्ष की सेनाओं को अपने पैने बाणों से काटकर उनके रक्त-मास से, सियारों, गीधों उकाबों, पिशाचों, प्रेतों एवं भूतों को तृप्त करूँगा ।’

इसके पश्चात् उसने युद्धोन्मत्त, मदमत्त एवं अक्षीण बलवान् विरूपाक्ष को देखकर कहा—‘तुरत तुम सभी राक्षसों को युद्ध-भूमि में ले आओ । मेरे लिए रथ सजाकर भेजो । आज मेरे तीक्ष्ण बाण, प्रतापी राम-लक्ष्मण के प्राण लेकर उनके रक्त का पान करना चाहते हैं । मैं वानर-सेना पर बाण ऐसे चलाऊँगा कि एक-एक बाण से सैकड़ों वानर मारे जायेंगे । तुम बलवान् राक्षसों को चुन-चुनकर सेना का सगठन करके शीघ्र लाओ ।’

तब विरूपाक्ष आदि राक्षसों ने सेना को एकत्र होने की घोषणा की । तुरत सभी राक्षस अपने गर्जनो से आकाश को कँपाते हुए, करवाल, चक्र, खड्ग, परशु, शूल, गदा, मूसल, मुद्गर, शक्ति आदि विविध एव विचित्र आयुधो से युक्त हो अत्यधिक-उत्साह से आ गये । राक्षस रावण के लिए विविध अस्त्रो से सज्जित, सूर्य-प्रभा से विलसित रथ ले आये । तब रमणीय रत्नो की काति से प्रकाशमान कर्ण-भूषण धारण किये हुए, दसो कठो में रत्न-पदक पहने हुए, दसो मुखो से नाना प्रण करते हुए; केयूर, मणिककण आदि भूषणो से बाहुओ को अलङ्कृत किये हुए; धनुष, शर, खड्ग, चक्र, करवाल, परशु आदि विविध आयुधो को धारण किये हुए दशकठ रथ पर आरूढ हुआ । उसके दसो मुकुट ऐसे प्रतीत होते थे, मानो बारह आदित्यो में एक को तो रावण ने बद्ध बनाया, दूसरा आकाश में दीख रहा है, अत बचे हुए दसों आदित्य यहाँ विराज रहे हैं । रावण के रथ के पीछे रथ, गज, तुरग, पदाति चतुरगिणी सेना भी चलने लगी । उस समय सेना के निसान, तुरही आदि की ध्वनि तथा सैनिको के सिंहनाद आदि से गूँजनेवाली लका प्रलय के समय भयकर गर्जन करनेवाले समुद्र के समान दीख रही थी । बदीजनो की स्तुतियों के साथ रावण उत्तर द्वार से लका से बाहर निकला और युद्धोन्मत्त विरूपाक्ष को देखकर ऐसा सिंहनाद किया कि पृथ्वी विदीर्ण-सी हो गई । उस समय सूर्य-बिंब की दीप्ति भी क्षीण हो गई, दिशाएँ अधकार से व्याप्त हो गई, पृथ्वी डोल गई, रथ चूर-चूर हो गये, अश्व गिर पडे और रक्त की वर्षा होने लगी । ऐसे दुःशकुनो को देखकर भी दशकंठ किञ्चित्-मात्र विचलित नहीं हुआ ।

लकेश की विशाल सेना को देखकर ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करते हुए वानरो ने सिंहनाद किया और उद्धत गति से, भयकर राक्षसो पर टूट पडे । इससे क्रुद्ध होकर राक्षस-वीरो ने अपने पराक्रम को प्रकट करते हुए, वानरो के हृदयो को छेदकर पार निकल जानेवाले पाने बाण चलाये; मूसल, तोमर, शक्ति, मुद्गर, चक्र आदि फेंके, अकुश, कुत तथा शूल चुभोये; भयकर गदाओ से प्रहार किया और तलवारो को चमकाकर उनसे वानरो के अंगो को खड्बित किया । तब कधि-वीरो ने भी क्रोधोन्मत्त हो, विशाल पर्वतो तथा वृक्षो को उन राक्षसो पर फेंका, अपने चरण, हाथ, दाँत, नख तथा पूँछो की सहायता से उनके सिरो तथा शिराओ को, हाथों तथा मुखो को, वक्षो तथा बाहुओ को, ओठो तथा कंठो को काटते, चीरते तथा कुचलते हुए, उन्हें कई प्रकार से पीडित किया । यह देखकर दनुजेश्वर ने ब्रह्मदंत, अश्वकर्ण, नाराच, भल्ल आदि नाना अस्त्रों को वानरो पर चलाकर रक्त की धाराएँ बहा दी । वह एक-एक बाण से पाँच-पाँच, सात-सात, नौ-नौ कपियो को एक साथ जहाँ-कहाँ गिरा देता था । इसके पश्चात् उसने पाँच बाणो से गधमादन को, अठारह बाणो से पनस को, दस बाणो से नील को, पचास बाणो से नल को, छह बाणों से द्विविद को, सात बाणो से विनत को, सत्तर बाणो से पवनपुत्र को, पच्चीस बाणो से कुमुद को, पाँच बाणो से गोमुख को, सात बाणो से ऋषभ को, सत्रह बाणो से गज को, सात बाणो से शरभ को, सात बाणो से गवय को, तीन-तीन बाणो से तार तथा ऋथन को, अस्सी बाणो से अगद को तथा कई बाणो से अन्य वानरो को पृथ्वी पर शीघ्र

गिराकर गर्व से इतराने लगा । असुरेश्वर के बाणों से आहत कुछ कपि कमर के टूटने से गिर पड़ते थे, कुछ चकराकर लुढ़क जाते थे, कुछ लोगों के वक्षस्थलो के विदीर्ण होने से गिर पड़ते थे, चरणों के कट जाने के कुछ वानर गिर जाते थे, कुछ लोगों के हाथ कट जाते थे, कुछ वानरों के सिर फट जाने से वे भूमि पर लौट जाते थे; कुछ कपियों के कठ कट गये और कुछ की जाँघें कट गईं, इसलिए वे कराहते हुए पृथ्वी पर लोट गये । युद्ध-भूमि में कई ऐसे भी कपि थे, जिनके अग ऐसे कुचल गये थे कि उनके अगों को पहचानना कठिन हो गया था । बाणों के लगते ही कुछ वानर भागने लगते, किन्तु बीच में ही प्राणों के निकल जाने से वही पृथ्वी पर गिर जाते थे । इस प्रकार, दनुजेंद्र के बाणों के आघात को सह नहीं सकने के कारण वे सभी वानर प्राण लेकर भागने लगे । रावण ने उनका पीछा किया । तब सुग्रीव वानर-सेना को देखकर कहने लगा—‘भागते क्यों हो, रुक जाओ, ठहर जाओ ।’ फिर भी, वानर-सेना भागती ही रही । तब उनको रोकने के लिए सुषेण को भेजकर, सुग्रीव ने स्वयं एक वृक्ष को लिये हुए राक्षस-सेना का सामना किया । उसके पीछे-पीछे पर्वतों को लिये हुए वानर-वीर भी चलने लगे । तब सिंहनाद करके वह प्रलय-काल के रुद्र की भाँति वृक्ष से प्रहार करते हुए शीघ्र गति से राक्षसों का सहार करने लगा । अन्य वानर-वीर भी उसीके साथ राक्षस-सेना पर वृक्षों तथा पर्वतों की घोर वृष्टि करने लगे । इससे राक्षसों के सिर फूट गये और कई राक्षस कुलिश से आहत भग्न-शिखर कुल-पर्वतों की भाँति गिर पड़े ।

११८. सुग्रीव के द्वारा विरूपाक्ष आदि राक्षसों का वध

तब रविपुत्र क्रोध से अपने नेत्र लाल किये हुए एक पर्वत को हाथ में लिये हुए आगे बढ़ा । तब विरूपाक्ष ने अत्यधिक रोष से रथ को आगे बढ़ाते हुए धनुष का टकार करके सुग्रीव पर वज्र-सम पौने बाण चलाये । किन्तु, रविपुत्र उनकी उपेक्षा करके उसके रथ पर क्रुद्ध पड़ा और रथ, सारथी तथा घोड़ों को एक पर्वत के प्रबल प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया । रथ से वचित किर्ये जाने पर भी वह राक्षस-वीर पृथ्वी पर उतरकर सुग्रीव पर विविध शरो को चलाने लगा । इतने में राक्षसेन्द्र की आज्ञा से, सभी आयुधों से सज्जित करके, महावत एक मत्त गज को ले आया, तो विरूपाक्ष तुरत उस पर चढ़ गया और कपियों पर भयकर प्रहार करके उनका सहार करने लगा और साथ-ही-साथ सूर्य-पुत्र पर भी भयकर बाण चलाये । इससे संतुष्ट न होकर विरूपाक्ष कई शस्त्र और विविध बाण कपियों पर चलाने लगा । इनको न सह सकने के कारण जब वानर युद्ध-क्षेत्र से भागने लगे, तब सुग्रीव ने उन्हें रोककर, किसी भी तरह विरूपाक्ष को जीतने का सकल्प कर लिया । इतने में ऋथन नामक एक वीर वानर ने विपुल पराक्रम से एक वृक्ष को उखाड़कर क्रोध से उस वृक्ष से हाथी के कुम्भ-स्थल पर प्रहार किया । तब प्रचुर रक्त-धारा बहाते हुए वह गज उतनी दूर पीछे हट गया, जितनी दूर धनुष से निकलकर बाण जा सकता है और वहाँ जाकर वह झुक गया । तुरत वह राक्षस पृथ्वी पर क्रुद्ध पड़ा और खड्ग तथा ढाल लिये हुए उसने सुग्रीव पर आक्रमण किया । तब सुग्रीव ने उस पर एक विशाल शैल से प्रहार किया, पर उस राक्षस ने उसे काट डाला- । तब रविपुत्र ने

उस पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया, तो विरूपाक्ष ने अपने करवाल लेकर उससे सुग्रीव पर प्रहार किया। मुष्टि के प्रहार से विरूपाक्ष तथा करवाल के प्रहार से सुग्रीव दोनों मूर्च्छित हो गये। किन्तु, शीघ्र ही वे दोनों सँभलकर एक दूसरे से भिड़ गये। सुग्रीव ने अपनी हथेली से विरूपाक्ष पर प्रहार किया, तो उसने उसे बचाकर अपने करवाल से सुग्रीव पर वार किया। करवाल का वार बचाने के लिए सुग्रीव दौड़ा और तुरत उस राक्षस पर ऐसा आघात किया कि विरूपाक्ष के हाथ का आयुध गिर पड़ा। फिर, दोनों वीर, दो सूर्यों की भाँति प्रकाशमान होते हुए, प्रलय-काल की अग्नियो के समान प्रज्वलित होते हुए, इद्री की भाँति अपने भुजबल के गर्व से फूलते हुए, विजय की आकाक्षा से मल्ल-युद्ध करने लगे। तब विरूपाक्ष ने आश्चर्यजनक शक्ति से सुग्रीव पर अपनी हथेली से ऐसा क्रूर प्रहार किया कि सुग्रीव मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। तुरन्त वह तलवार हाथ में लिये हुए वानरो पर दूट पड़ा। इतने में सुग्रीव की चेतना लौट आई और उसने कुलिश के समान कठोर अपनी हथेली से विरूपाक्ष के वक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि वह भयकर राक्षस रक्त उगलते हुए पृथ्वी पर लोट गया। यह देखकर वानर हर्ष से फूल गये और दानव अत्यत दीन हो भागने लगे।

तब रावण ने विरूपाक्ष की मृत्यु से किञ्चित् भी विचलित हुए बिना उसके अनुज युद्धोन्मत्त को देखकर कहा—‘देखा तुमने सुग्रीव का पराक्रम ? युद्ध-क्षेत्र में अपने भाई विरूपाक्ष की दशा देखी ? इस युद्ध में अनेक राक्षस-सैनिक मारे गये, कितने ही हाथी नष्ट हुए, अश्व दब गये, रथ दूट गये और सेना छिन्न-भिन्न हो गई। वह देखो, वानर हर्षोन्मत्त होकर आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे लिए युद्ध करने का यही उचित अवसर है। अब तुम युद्ध-भूमि में शत्रुओं का सहार करो।’ तब विरूपाक्ष का अनुज श्रीराम को व्याकुल करने का सकल्प करके वानर-सेना के निकट पहुँचा और बाण, गदा, खड्ग आदि सभी आयुधों से कपियो पर प्रहार करते हुए उन्हें दुःख देने लगा। यह देखकर सुग्रीव ने एक विशाल पर्वत को उठाकर उस पर फेंका, किन्तु उस राक्षस ने उसे बीच में ही काट डाला। तब सूर्यपुत्र ने और एक पहाड़ उठाकर फेंका, तो उस राक्षस ने तीन बाण चलाकर उसके तीन खड्ग कर दिये। उसके पश्चात् भी उस राक्षस को शर-वृष्टि करते हुए देखकर सुग्रीव उसके रथ पर कूद पड़ा और उसके परिघ से ही उसके धनुष तथा कету को तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और रथ के अश्वों को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब वह राक्षस बड़े वेग से पृथ्वी पर कूदकर एक विशाल गदा लिये हुए सुग्रीव पर दूट पड़ा। तब दोनों परिघ एव गदा से युक्त अपनी बाहुओं को चमकाते हुए सिंहों के समान गरजते हुए एक दूसरे के कठ, मुख, हाथ, स्कंध, चरण, नख, जानु, जघा, छाती, पीठ, उँगलियाँ, नितब, कमर, शिर, कान, नाक तथा ओठों पर क्रमशः प्रहार करते हुए आश्चर्यजनक रीति से अत्यत साहस के साथ युद्ध करने लगे। कभी वे दोनों परिघ एव गदाओं से आहत होकर गिर पड़ते, फिर इतने में एक दूसरे से पहले सचेत होकर पृथ्वी को कँपाते हुए गर्जन करते। इस प्रकार, युद्ध करते समय उस राक्षस ने अपनी गदा को दोनों पक्षों की सेनाओं को आश्चर्यचकित करते हुए घुमाकर सूर्यपुत्र पर ऐसा फेंका कि सुग्रीव पृथ्वी पर गिर पड़ा,

किंतु शीघ्र ही उठकर सुभीव ने अपना परिघ घुमाकर उस राक्षस पर ऐसा फेंका कि वह उसके अगो से लगकर चूर-चूर हो गया। तब क्रोध से जलते हुए उस राक्षस ने अपने करवाल को सुभीव पर फेंका, तो सुभीव ने उस कृपाण को लेकर उसे चमकाते हुए उस राक्षस के मकर-कुण्डलो से दीप्त मस्तक पर ऐसा प्रहार किया कि वह पृथ्वी पर लोट गया। यह देखकर राक्षस लका की ओर भागने लगे।

तब सुपाश्व ने अपने बल के गर्व से फूलते हुए अगद की सेना पर आक्रमण किया और तीक्ष्ण शरो के प्रहार से कुछ वानरो के सिर काट डाले, कुछ लोगो के हाथ काटे और कुछ लोगो का सहार किया। तब वानर भयभीत होकर भागने लगे। यह देख अगद उस राक्षस के रथ पर कूदा और उसी का परिघ छीनकर उससे उस राक्षस पर ऐसा प्रहार किया कि वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर लुढ़क गया। इतने में जाबवान् ने एक विशाल चट्टान उठाकर उस पर ऐसा फेंका कि उसका रथ टूट गया और अश्व तथा सारथी मर गये। इतने में सुपाश्व सचेत हुआ और क्रोध से जलते हुए, अगद के कंधे पर दस बाण चलाये, जाबवान् पर तीन बाण चलाये और गवाक्ष पर पाँच बाण चलाये। अगद बड़े रोष से परिघ घुमाकर उस राक्षस पर फेंका, तो वह पृथ्वी पर मूर्च्छित होकर गिर पडा। इसी समय अगद उस राक्षस का धनुष तोड़ने लगा, तो वह राक्षस सँभलकर उठ बैठा और परशु उठाकर उससे अगद पर ऐसा आघात किया कि अगद मूर्च्छित होकर गिर पडा। फिर, शीघ्र ही सँभलकर अगद ने अपनी वज्र-सम मुष्टि से उस राक्षस को ऐसा मारा कि वह कुलिश के आघात से गिरनेवाले कुलपर्वत की भाँति युद्ध-भूमि में गिर पडा। यह देखकर देवता हर्ष से निनाद करने लगे और राक्षस-सेना के पैर उखड गये। तब दशानन कहने लगा—'महा पराक्रमी सुपाश्व नष्ट हुआ, बाहुबली युद्धोन्मत्त की मृत्यु हो गई, विरूपाक्ष का वध हुआ और श्रेष्ठ राक्षस-वीर युद्ध में काम आये। अब बल-समन्वित इन राज-कुमारो को मैं स्वयं जीतूँगा और अपने बधुओ की मृत्यु की शोकाग्नि से जलनेवाली लका के रहनेवालो के दुख को दूर करूँगा। अविरल क्षात्र धर्म-रूपी जड, नव-विजय से उन्नत लक्ष्मण-रूपी प्रकाड (तना), सूर्यपुत्र तथा अन्य वानर-वीर-रूप शाखाएँ, राम की अखड कीर्ति-रूपी मजरी, सीता-रूपी फल से युक्त हो, देवताओ के लिए आश्रय-रूपी छाया प्रदान करनेवाले राम-रूपी वृक्ष को मैं उखाड दूँगा और उसे अपने मन के दुख को दूर करने-वाली औषधि बनाकर, इस ससार में जीवन-यापन करूँगा।'

११९. रावण का राघवों पर आक्रमण करना

इस प्रकार कहते हुए असुरेश्वर ने क्रोधोद्दीप्त मन से अपने सारथी से कहा—'तुम अपनी चतुरता का प्रदर्शन करते हुए रथ को राघवो पर चलाओ, मैं आज उनका संहार करूँगा। यदि वे युद्ध में मरेंगे, तो सभी वानर तितर-बितर होकर भाग जायेंगे।' रावण के आदेशानुसार सारथी ने रथ की नेमियो का भयावह रव करते हुए उसे राघवो के निकट चलाया। बदी, मागध तथा सूत रावण की विपुल कीर्ति का गान करने लगे, राक्षस-सेना भीषण गर्जन करने लगी और निसान घोर रव करते हुए बजने लगे। तब दशकठ धनुष का भयकर टकार करते हुए वानर-सेना पर दारुण अस्त्र चलाने लगा। ब्रह्मा से

निर्मित उन बाणों के लगते ही समस्त वानर, अपना भुजबल खोकर पृथ्वी पर गिरने लगे। इतने में रघुराम ने अपने अनुज के साथ क्रोध से धनुष धारण किये हुए रावण का सामना किया। राम के धनुष का निनाद सुनते ही आकाश विदीर्ण-सा हो गया, समुद्र आलौडित हो गये, दिग्गजों के कान के परदे फट गये और राक्षसों के चित्त डोल उठे। क्रुद्ध दशकठ के धनुष से निकलनेवाले भयकर बाणों की ध्वनि सुनकर ही कितने वानर भयाक्रान्त हो पृथ्वी पर गिरने लगे। तब राम-लक्ष्मण सूर्य-चन्द्र की भाँति भासमान होते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े, तो देवताओं का शत्रु रावण राहु की भाँति शोभायमान होते हुए उनसे जूझ गया। जब लक्ष्मण ने दशकठ पर अत्यंत तीव्र शर चलाये, तब दशकठ ने उन्हें कठोर बाणों से बीच में ही काट डाला और उनपर उग्र बाण चलाये। लक्ष्मण ने भी उसके एक-एक बाण को खडित करके उस पर तीन बाण एक साथ चलाये। तब रावण ने अपने तीन बाणों से उनके बाण खडित कर दिये। इसी प्रकार, जब लक्ष्मण दस बाण एक साथ चलाते, तब वह उन्हें अपने दस बाणों से छिन्न-भिन्न कर देता, सौ बाण चलाते तो वह अपने सौ बाणों से उन्हें चूर-चूर कर देता। इस प्रकार, सौमित्र को युद्ध-भूमि में तग करके उसके उपरांत दनुजेश्वर राम से युद्ध करने चला। उसे देखकर सभी वानर इस प्रकार भागने लगे, मानो वे यम को देखकर भाग रहे हों। तब राम ने क्रोध से आँखें लाल किये हुए धनुष सँभालकर रावण का सामना किया। तब सभी देवता राम की प्रशंसा करने लगे और पृथ्वी हिल उठी। तब रावण भी क्रोध से तेवर बदलकर राम से भिड़ गया। राम तथा रावण भयकर अट्टहास करते हुए धनुष की टकार-ध्वनि से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए, परस्पर ऐसे बाण चलाने लगे कि उनके चलाये बाण सारे आकाश में व्याप्त हो गये। उन बाणों के आपस में टकराने से भयकर ध्वनि के साथ निकलनेवाली अग्नि-ज्वालाओं से नभोमंडल व्याप्त हो गया। वे एक दूसरे के धनुर्विद्या-कौशल की मन-ही-मन प्रशंसा करते हुए, एक दूसरे की रण-कुशलता पर आश्चर्य करते हुए युद्ध करने लगे। इसी समय रावण ने भयकर तमिस्र-बाण चलाया, जिसके प्रभाव से सभी वानर अधकार से आच्छादित हो निश्चेष्ट हो गये। तब राम ने रोष-पूरित अरुण नेत्रों से एक सौ भयकर बाण चलाये, तो दशानन ने शक्तिशाली भालों से उन्हें काट दिया और राम पर पैंने बाण चलाये। तब राम ने उसके बाणों को एक अर्द्धचन्द्र बाण का प्रयोग करके काट डाला और अनेक बाण ऐसी अनुपम गति से चलाये कि वे रावण के अगो को छेदकर दूसरी ओर निकल गये। तब रावण ने रौद्र बाण चलाया, तो राम ने भी रौद्र बाण छोड़ा। वे दोनों बाण अन्योन्य सघर्षण के पश्चात् पृथ्वी पर गिर पड़े। तब दोनों ने क्रोध से परस्पर अनेक पैंने बाण चलाये, जिनके आकाश में व्याप्त होने से अधकार-सा छा गया। टकार-रूपी गर्जनों से युक्त दोनों के धनुष-रूपी समुद्रों से निकलनेवाले शर-रूपी लहरें परस्पर टकराकर एक दूसरी को दबा देती थी। जब राक्षस ने भयकर क्रोध से राम के वक्ष पर बाण-समूह चलाया, तब वे बाण नीलोत्पलो की पक्ति के समान राम के शरीर पर भासमान होने लगे। तब राम ने प्रचंड बाणों का सघन करके उन्हें रावण पर ऐसे चलाया कि वे उसके कवच को पार करके वक्ष में चुभ गये।

रावण इससे अत्यंत व्याकुल हुआ और राम पर सर्प-बाण चलाये, तो राम ने उन्हें बीच में ही काट डाला। तब रावण ने शार्दूलमुख, उष्ट्रमुख, सूकरमुख, सर्पमुख, गजमुख, गृध्रमुख तथा सिंहमुखवाले कितने ही भयकर बाण राम पर चलाये, पर राम ने उनके टुकड़े कर दिये। उसके पश्चात् रामने आग्नेयास्त्र चलाया, तो उसमें से उल्कामुख, विद्युन्मुख, ग्रहमुख, सूर्यमुख तथा अग्निमुख से युक्त बाण निकलकर रावण पर आघात करने के लिए पहुँचे। तब रावण ने आश्चर्य-चकित रीति से उन सबको काट डाला और मय से प्राप्त माया-शर का संधान करके उसे राम पर चलाया। उससे असंख्य भाले, तोमर, गदा, परिघ आदि शस्त्र निकल पड़े। यह देखकर राघव ने अपने महान् धनुष पर गाधर्व शर का संधान करके चलाया, तो उसमें से अनेक सूर्यबिंब-सदृश चक्र तथा दिव्य बाण ससार को त्रस्त करते हुए निकले और उन्होंने रावण के माया-शर से निकले हुए परिघ आदि शस्त्रों को चूर-चूर कर दिया। तब दशकठ ने क्रोध करके राम पर अनेक प्रखर बाण चलाये, तो राम ने भी शीघ्र गति से उस राक्षस पर असंख्य प्रतिशर चलाये। राम-रावण के शर-जाल से सारा आकाश ढक गया। तब लक्ष्मण ने सात बाणों से रावण की पताका को काट डाला, एक बाण से धनुष को तोड़ दिया एक और बाण से सारथी का वध किया और फिर रावण के वक्ष पर पाँच बाणों से प्रहार किया। इसी समय विभीषण ने इन्द्रनील पर्वत की भाँति दीखनेवाले रावण के अश्वों को मार गिराया। रथ से वंचित होने से रावण पृथ्वी पर कूद पड़ा और अपने दसों मुखों की भाँहों को तानकर क्रुद्ध दृष्टि से विभीषण पर भयकर शक्ति-बाण चलाया। किन्तु, रामानुज ने तीन बाणों से उसे बीच में ही गिरा दिया। उससे स्फूर्ति तथा ज्वालाएँ निकलकर आकाश तक व्याप्त हो गईं। तब दशकठ अत्यंत क्रोध करके, भय से प्राप्त शक्ति-बाण को विभीषण पर चलाने का यत्न कर ही रहा था कि लक्ष्मण ने कहा—'शरणागत की रक्षा करनेवाले धर्मात्मा क्या कभी शरणागत की मृत्यु सह सकते हैं? यो कहते हुए उन्होंने रावण के अनुज को अपने पीछे कर लिया और स्वयं रावण पर क्रूर बाण चलाने लगे।

१२०. रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्च्छित होना

तब रावण ने कहा—'हे लक्ष्मण, बड़े शूर की भाँति तुमने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया है। तब तुम स्वयं ही इस शक्ति के प्रहार का सहन करो।' इस प्रकार कहते हुए उसने प्रलय-काल के आदित्य के परिवेश के सदृश, उस शक्ति को घोर वलय के रूप में घुमाकर, उसे लक्ष्मण पर चलाया। तब वह शक्ति अपनी किकिणी तथा घटिकाओं का निनाद करते हुए, समुद्रों को आलोकित करते हुए, कुल-पर्वतों को हिलाते हुए, दिशाओं को कँपाते हुए, सूर्यबिंब को विचलित करते हुए, वज्रों को गिराते हुए, पृथ्वी को कपित करते हुए, आकाश को भ्रूणभोरते हुए, नक्षत्रों को तितर-बितर करते हुए, अग्नि-कणों को विकीर्ण करते हुए, ज्वालाओं को व्याप्त करते हुए, आदिशेष की जिह्वा का आकार धारण किये हुए, लक्ष्मण के द्वारा चलाये जानेवाले बाण-समूह को चूर-चूर करते हुए, लक्ष्मण के वक्ष पर भयकर गति से गड़ गईं। राम कहने लगे कि इस भयकर अस्त्र से लक्ष्मण के प्राणों पर कोई विपत्ति नहीं आये। समस्त देवता यह देखकर आकाश में हाहाकार

करने लगे । शक्ति-बाण के लगते ही लक्ष्मण चकराकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, जैसे प्रलय-काल में महामेरु पर्वत ढह जाता है ।

धरती पर पड़े हुए अपने अनुज को देखकर, राम का हृदय शोकाग्नि से जलने लगा और आँखों से अश्रुपात होने लगा । लक्ष्मण के विशाल वक्ष में अच्छी तरह गड़े हुए उस शक्ति-बाण को निकालने के लिए सभी वानर-वीर यत्न करने लगे, किन्तु उनसे वह निकल नहीं सका । तब राम ने रावण के द्वारा चलाये जानेवाले बाण-समूह की उपेक्षा करते हुए, उस शक्ति बाण को लक्ष्मण के वक्ष से निकालकर फेंक दिया । उसके पश्चात् उन्होंने सभी वानर-वीरों को देखकर कहा—“हे वीरों, अपना शौर्य प्रदर्शित करने का यही समय है, शोक में पडकर युद्ध से विमुख होने का समय नहीं है । अब तुम लोग लक्ष्मण की रक्षा करते रहो और मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लो । मैं आज इस दुष्कर्मी दशकठ का सहार करके, उन सभी दुखों को दूर करूँगा, जिन्हें मैंने, राज्य छोड़ने, बधुजनो से अलग होने, वनो में भटकने, धनुष-बाण लिये हुए भी, अपनी प्राण-प्रिय धर्म-पत्नी को खोने तथा मायावी राक्षसों से युद्ध करने से प्राप्त किया था । समर-भूमि में इसका वध करने के लिए मैंने असमान विक्रमी वालि का सहार किया और कपिराज के रूप में सुग्रीव का अभिषेक किया । प्रचंड ग्राह-सकुल तथा आकाश का स्पर्श करनेवाली तरंगों से युक्त अनंत सागर पर सेतु बाँधकर मैं कपि-सेना के साथ समुद्र को पार करके आया और लका को घेर लिया । यहाँ अब मैं अपने सौमित्र को खो बैठा हूँ । यदि युद्ध में रावण मेरे दृष्टि-पथ में आये, तो अपनी दृष्टि के विष से ही उसका अंत कर दूँगा, जैसे क्रूर सर्प दुष्ट जंतुओं को मार डालता है । अब मैं दशकठ को जीवित लौटने नहीं दूँगा, उसे मैं अपने बाण-समूह का लक्ष्य बना दूँगा । आज सभी वानर पर्वतों पर चढ़कर हमारे युद्ध का कौशल देखते रहें । आज सभी दिक्पाल तथा समस्त लोक मेरे धनुर्विद्या-कौशल को भली भाँति देख लें और युद्ध में मेरे पराक्रम को देखकर, मुझ रघुराम के विक्रम को जान लें । आज रावण भले ही देवलोक में छिप जाय, समुद्र के गर्भ में डूब जाय, पृथ्वी में समा जाय, और रसातल में प्रवेश कर जाय, तब भी मैं उसका सहार किये बिना नहीं छोड़ूँगा । यदि निश्चय ही मैंने रवि-कुल में जन्म लिया है, यदि मैं रवि-समान तेजस्वी दशरथ का पुत्र हूँ, यदि मैं राम हूँ, यदि रावण युद्ध-क्षेत्र में डटा रहा, तो मैं किसी भी प्रकार उसका वध करूँगा । इस युद्ध-क्षेत्र में या तो रावण रहेगा या राम रहेगा । राम तथा रावण दोनों का यहाँ रहना अब असंभव है ।”

ऐसी प्रतिज्ञा करके राम ने दशकठ पर भीषण बाण चलाने लगे । दशकठ ने भी उनके बाणों के प्रतिबाण चलाये, तो उन बाणों के परस्पर टकराने से निकलनेवाली अग्नि-ज्वालालाएँ आकाश तक व्याप्त हो गईं और घोर ध्वनि होने लगी । इस ध्वनि के साथ धनुषों के टकारों की ध्वनि मिलकर समस्त लोकों को भयभीत करने लगी ।

१२१. रावण का चिंतित होना

राम के बाणों के प्रहार से रावण जर्जर हो गया और उनके बाणों के वेग का सहन न कर सकने के कारण राक्षसेन्द्र, सिंह को देखकर भागनेवाले गजराज की भाँति,

युद्ध-भूमि को छोड़कर भागने लगा। तब उसके केश खुल गये, सुंदर रत्न-खचित आभूषण बिखरने लगे, समस्त भूत तालियाँ बजाकर अट्टहास करने लगे, और वानर हर्ष के निनाद प्रकट करने लगे। भागते समय उसके चरण-घात से पृथ्वी भी काँपने लगी।

इस प्रकार, लका में प्रविष्ट होकर वह अपने सभा-मंडप में आसीन हुआ। फिर, वह विभीषण के हितवचनो, राम के प्रहारो का तथा कुभकर्ण, अतिकाय, महान् इन्द्रजीत आदि वीरो की मृत्यु का स्मरण करके मन-ही-मन शोक-सतप्त हो निश्चेष्ट बैठा रहा। कुछ समय के उपरान्त वह सँभलकर अतपुर में पहुँचा और उद्विग्न हो, अपनी पत्नी को बुलाकर सिर झुकाये हुए कहने लगा—‘हे प्रिये, राम के अद्वितीय विक्रम का वृत्तांत सुनो। मैं कैसे कहूँ ? वह देखो, मेरे समक्ष सहस्रो राम दीख रहे हैं। मैं इस लका में जहाँ भी देखता हूँ, वहाँ राम-ही-राम मुझे दिखाई पड़ता है। अब विजय की कोई आशा नहीं है। अब शंकर के चरण ही मेरे लिए शरण हैं। जिस देव के दिव्य तथा भयकर बाण के आघात से त्रिपुर भस्मीभूत हुए, जिनके मुकुट पर चन्द्रकला रमणीय गति से सुशोभित हो रही है, जिनके हाथों में पिनाक, खड्ग, त्रिशूल आदि विलसित हैं, जो अखिल लोक के ईश हैं, जिन्होंने दक्ष-यज्ञ का विध्वंस किया था, क्रुद्ध होकर जिन्होंने अधकासुर का संहार किया था, वेद जिस देव की स्तुति करते हैं, तथा जो देवादिदेव हैं, उस शिवजी की अब मैं उपासना करूँगा।’

इस प्रकार निश्चय करके वह स्नान आदि से निवृत्त हुआ, ब्राह्मणों को विविध दान देकर उन्हें तृप्त किया तथा मद, दर्प आदि (राजस भावों का) त्याग कर सात्त्विक भाव ग्रहण किया। उसके पश्चात् उसने, रक्तांबर, रक्त माल्य, रक्त उपवीत, रक्त चदन तथा रक्तवर्ण की जपमाला आदि धारण कीं और फिर बड़ी भक्ति के साथ मंत्र का जप करते हुए, शिव के मंदिर में पहुँचा। वहाँ एकनिष्ठ हो उसने एक वेदी बनाई, दर्भाकुर आदि एकत्र किये। फिर सभी, दिशाओं में यज्ञ के रक्षणार्थ भयकर राक्षसों को नियुक्त किया और यज्ञ करने के लिए उद्यत हुआ। इसकी सूचना मिलते ही मदीदरी वहाँ आ पहुँची और दशकठ को देखकर कहने लगी—‘हे दानवेन्द्र, क्या, आपको उचित है कि इस प्रकार दान होकर अपना शौर्य खो बैठें। आपके क्रोध करने से सभी समुद्र गर्जन करने से डरते हैं, पवन चलने से डरता है, अग्निदेव तीव्र ज्वालाओं के साथ जलने से डरता है और आकाश में सूर्य प्रचंड तेज से दीप्त होने से डरता है। आपके नाम से सारे जग विचलित होते हैं। ऐसे आप, अपना साहस खोकर ऐसी दशा को क्यों प्राप्त हुए ? यदि आपमें इतना साहस नहीं था, तो उस दिन राम की पत्नी को क्यों ले आये ? उस दिन मारीच ने जो हित-वचन आपसे कहे थे, उन्हें आपने बुरा मान लिया और नीति-विरुद्ध वचन कहे थे। नीति का विचार करके तथा आपके अहित की संभावना देखकर धर्मात्मा विभीषण ने बार-बार आपसे कहा था कि हे राक्षसेन्द्र, आप अनुचित मार्ग पर क्यों जा रहे हैं ? सीता को छोड़ देने में ही आपका हित है। किंतु आपने उनके वचनों पर ध्यान नहीं दिया। मातामह माल्यवान् ने आपको नीति सुझाई, तो क्या आपने उसको स्वीकार किया ? आपकी माता ने स्वयं उचित कर्तव्य का आदेश दिया, तो क्या आपने उस पर

ध्यान दिया ? कुभकर्ण ने जब कहा था कि राम से आप क्यों विरोध ठानते हैं, तो क्या आप क्रुद्ध नहीं हुए ? इस कार्य से विमुख होने का उपदेश जिन लोगों ने दिया था, उनके ही वचन आज सिद्ध हुए हैं न ? अपने भुजबल तथा पराक्रम को छोड़कर आज आपने मुनि-वृत्ति क्यों स्वीकार की है ? इन्द्र से युद्ध करके भी आप परास्त नहीं हुए, अब आप रामचंद्र को परास्त नहीं करेंगे, तो क्या लोग आपका उपहास नहीं करेंगे ? हे असुरेश्वर, आप युद्ध करके शत्रु पर विजय पाइए । दीन होकर आप यह सब क्या कर रहे हैं ?”

इस प्रकार जब मदोदरी ने रावण को उत्तेजित किया, तब रावण ने लज्जा से एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और कहा—‘हे सुदरी, तुम्हारी बातें सत्य हैं । अब मैं रामचन्द्र से नहीं डरूँगा । अब तुम जाओ ।’ तब प्राणेश्वर को प्रणाम करके आँखों से अश्रु-वर्षा करती हुई वह चली गई । उसके कहे हुए दुःखपूर्ण वचनों का स्मरण करके रावण ने हवन करना छोड़ दिया और युद्ध की तैयारी करने के लिए चला गया ।

१२२. लक्ष्मण की मूर्च्छा पर राम का शोक

युद्ध-भूमि में रक्त में भीगे, निश्चेष्ट पड़े हुए शेषनाग के सदृश दीखनेवाले अपने प्रिय अनुज को देखकर रामचंद्र अधीर होकर शोक करने लगे । वे कहने लगे—“सौमित्र को इस प्रकार पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर मैं किस प्रकार अपने प्राणों को रोक सकता हूँ ? युद्ध करने की शक्ति मुझमें कैसे आयगी ? अपनी मुष्टि में धनुष कैसे धारण कर सकूँगा ? आँखों में आँसू उमड़-उमड़कर आते समय, बढ़-बढ़कर आनेवाले शत्रुओं को मैं कैसे देख सकूँगा ? मेरी आँखों के सामने मेरा सहोदर, मेरा प्रिय बधु, मेरा प्रिय सखा मेरे लिए प्राणों की बलि देकर मुझे छोड़कर चला गया है । धिक्कार है, मेरे शौर्य को । मुझे अब इस युद्ध की आवश्यकता ही क्या है ? मुझे विजय ही किसलिए चाहिए ? मुझे अब राज्य की क्या आवश्यकता है ? मुझे अब सीता ही क्यों चाहिए ? मेरा यह शौर्य किस काम का ? मैं अब जीवित ही क्यों रहूँ ? हे लक्ष्मण, तुम्हारे साथ मैं भी स्वर्ग चलूँगा । हे बधु, विजयी होकर तुमने पहले शरभ-शार्दूलों से भरे हुद्द भयकर वनों में मेरी रक्षा करते रहे, अब यहाँ तुच्छ दैत्यों के वन के बीच मुझे पराया समझकर छोड़ दिया है । हे तात, अपनी उन्नत शक्ति से मेरी रक्षा करने के निमित्त वन में तुम एक क्षण भी नहीं सोये ? आज इस प्रकार दीर्घ निद्रा में सो जाना क्या तुम्हें उचित है ? मैं बार-बार दुःख के आवेश से ऊँचे स्वर में तुम्हें पुकारता हूँ, फिर भी तुम बोलते क्यों नहीं हो ? अब मेरे लिए कौन है ? मैं कहाँ जाऊँ । मैं अत में शोकाग्नि के हाथों में पड़ गया हूँ । शुभलक्षण-सपन्न, सुन्दराकार, अद्वितीय बलवान्, परम भक्त तथा प्रिय सहोदर, गभीरचेता, युद्धविजयी मेरा प्राण-सखा लक्ष्मण मेरे साथ वनवास के लिए आया । अब मैं इसी के साथ स्वर्ग जाऊँगा । कितने ही बधु हैं और कितनी ही पत्नियाँ हैं, किन्तु ऐसा सहोदर पृथ्वी में कहाँ मिलेगा ? यत्न करूँ, तो सीता की समता करनेवाली पत्नी को मैं कही-न-कही प्राप्त कर सकता हूँ, पर ऐसे सद्गुणशील, दयालु तथा महाबली अनुज को मैं कहाँ पाऊँगा । क्या, यह केवल मेरा अनुज था ? यह महाबली सतत मेरी सेवा करने-वाला भक्त भी था । यही मेरा पौरुष था, यही मेरी शक्ति था, यही मेरी कीर्ति था,

यही मेरी प्रेरणा था, यही मेरा शौर्य था, यही मेरा धैर्य तथा विनय था और यही मेरी विजय था । इतना ही क्यों, मेरे लिए भाग्य-देवता तथा मेरा पावन राज्य-पद भी यही था ।”

इस प्रकार, जब राम शोक से अभिभूत हो प्रलाप कर रहे थे, तब सुषेण ने राम को देखकर कहा—‘हे देव, आप इस प्रकार शोक क्यों करते हैं ? आप धैर्य धरकर इनकी ओर देखिए । यदि इनके शरीर में प्राण नहीं रहते, तो क्या, उनके मुख पर ऐसी आभा दिखाई देती ? या उनकी आँखें कमलो की सुदरता लिये रहती ? या उनकी सुंदर हथेलियाँ लाल कमल की भाँति सुशोभित रहती ?’

इस प्रकार राम को आश्वासन देकर उसने उन्हें शांत किया और हनुमान् को देखकर कहा—‘इसके पहले जाबवान् के कहने से तुम ओषधियों का पता जानते ही हो । महाद्रोण पर्वत के, दक्षिण शिखर पर विशल्यकरणी, सौवर्णकरणी, सधानकरणी तथा सजीवकरणी ओषधियाँ अपनी काति से प्रकाशित रहती हैं । तुम शीघ्र इन चारों ओषधियों को ले आओ । उनकी सहायता से लक्ष्मण के प्राण लौट आयेंगे । पूर्वकाल में देवासुरो ने क्षीर-सागर का मथन करके जो अमृत प्राप्त किया था, उसे वही छिपा रखा है । उसी अमृत से इन ओषधी-लताओं ने जन्म लिया है । लवण-समुद्र को पार करके जाने के बाद कुशद्वीप मिलेगा, उसे पार करके आगे बढ़ो, तो क्षीर-सागर मिलेगा । उसे भी पार कर जाओ, तो चद्र तथा द्रोण पर्वतों को देखोगे । वहाँ देवेन्द्र की आज्ञा से मदराचल की भाँति विशालकाय गधर्व उन ओषधियों की रक्षा करते रहते हैं । गधर्वों से तुम्हारा युद्ध होगा । वही राक्षस भी घूमते रहते हैं । वे बड़े मायावी हैं, उनसे सावधान रहना । द्रोणाद्रि से उन ओषधियों को लाकर, लक्ष्मण के प्राणों को लौटाओ, जिससे रघुपति प्रसन्न हो । यहाँ से वह पर्वत तेईस लाख, बीस हजार दो सौ दस योजन दूर है । तुम वायु-वेग से जाकर सूर्योदय के पहले ही यहाँ लौट आओ । सूर्योदय हुआ, तो वे ओषधियाँ अपनी काति खोकर शक्तिहीन हो जायँगी । उसके पश्चात् लक्ष्मण को मूर्च्छा से जगाना असभव होगा । इसलिए हे वानरोत्तम, तुम शीघ्र जाकर वापस आओ । उन ओषधियों के लक्षण भी तुम्हें जान लेना चाहिए । उनके फल हरे होंगे, फूल लाल होंगे और पत्ते सफेद होंगे । तुम शीघ्र विभीषण, जाबवान्, सुग्रीव तथा अगद की अनुमति लेकर जाओ ।’

सुषेण के इन वचनों को सुनकर हनुमान् ने कहा—‘ऐसा ही हो ।’ तब पवनपुत्र को देखकर राम ने कहा—‘मूर्च्छित पड़े हुए लक्ष्मण को प्राण-दान करके तुम त्रिभुवनों में अचल कीर्ति प्राप्त करो । मेरे तीन भाई हैं । हे अनिलकुमार, आज से तुम्हारे साथ मेरे चार भाई होंगे ।’

१२३. स जीवनी लाने के लिए हनुमान् का द्रोणाद्रि को जाना

राम की बातें सुनकर हनुमान् ने कहा—‘हे सूर्यकुलतिलक, सेवक हनुमान् के रहते हुए आप चिंता क्यों करते हैं ? हे राजन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्र ही सप्त द्वीपों के उस पार रहने पर भी ओषधियों के उस पर्वत को सूर्य के उदयाचल पर आने के पहले ही ले आऊँगा ।’ इस प्रकार कहते हुए उसने राम के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया । तब राम ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा—‘हे अजनि-

पुत्र, इन्द्र तुम्हारे सिर की, सूर्य तुम्हारे मुख की, चन्द्र तुम्हारे मन की, आदिशक्ति तुम्हारे नितब की, पवन तुम्हारी पीठ की, शिव तुम्हारी पूँछ की, अग्नि तुम्हारे चरणों की, ब्रह्मा तुम्हारी बुद्धि की, वरुण तुम्हारी शक्ति की, सरस्वती तुम्हारी वाणी की, विष्णु तुम्हारे बाहुद्वय की तथा गणेश तुम्हारे उदर की रक्षा करते रहेंगे । तुम शीघ्र जाकर आओ ।' उसके पश्चात् क्रमशः सुग्रीव, विभीषण, जाबवान् तथा अगद आदि वानर-वीरों ने उसे विदा दी । तब हनुमान् आकाश की ओर ऐसे उछला कि जिस पर्वत पर चढ़कर वह उछला था, वह घँस गया और पृथ्वी विदीर्ण हो गई, पवन, समुद्र तथा आकाश-गंगा व्याकुल-सी हो गई और लका नगर की ऊँची अट्टालिकाएँ गिर गई । उसके पश्चात् वह विद्युत्-प्रकाश के समान उज्ज्वल काँति से युक्त अपनी पूँछ को तथा अपने दोनों विशाल हाथों को ऊपर उठाये, सूर्य-मंडल की भाँति प्रकाशमान होनेवाले अपने मुख से प्रचंड दीप्ति विकीर्ण करते हुए, चरणों तथा कर्णों को कुचित करके उड़ने लगा । देखते-देखते वह अनेक पर्वतों, कई देशों, कई नद-नदियों, कई वनों, नगरों तथा समुद्रों को देखते हुए हिमाचल के पार निकल गया । दिशाओं तथा आकाश को कँपाते हुए वह एकाकी शूर आगे बढ़ने लगा ।

१२४. कालनेमि का वृत्तांत

गुप्तचरो के द्वारा रावण ने यह समाचार सुना, तो वह हनुमान् के मार्ग में विघ्न डालने का सक्त्प करके स्वयं अर्द्धरात्रि के समय कालनेमि के घर पहुँचा । कालनेमि ने अत्यंत श्रद्धा से रावण को अर्घ्य, पाद्य आदि देकर उसका सत्कार किया और पूछा—'हे राजन्, अर्द्धरात्रि के समय आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है, कृपया बताइए ।' तब रावण ने कहा—'आज मेरे शक्ति-बाण से आहत लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राम की आज्ञा से हनुमान् सजीवकरणी लाने के लिए जा रहा है । तुम शीघ्र जाकर उस हनुमान् का वध कर डालो, या उसके मार्ग में कोई ऐसा विघ्न उपस्थित करो कि वह सूर्योदय के पूर्व यहाँ पहुँच नहीं सके । द्रोण पर्वत के पास ही देवासुरों से निर्मित एक सरोवर है । उसमें एक महान् मकरी बड़े आनंद से रहती है । वह देवताओं को भी निगल जाने की क्षमता रखती है, तब इस वानर की गिनती ही क्या है ? तुम कोई ऐसी माया रचो कि हनुमान् उस सरोवर में पहुँच जाय । तुम शीघ्र जाओ ।'

रावण की बातें सुनकर, मन-ही-मन नीति-मार्ग का विचार करके, उसने कहा—'हे दनुजेश, माया-मृग का रूप लेकर मारीच गया था और उसकी मृत्यु हुई । आप इस अनुचित मार्ग को त्याग दीजिए । घोर युद्ध में कुभकर्ण आदि दानव-वीर नष्ट हो चुके हैं । अब तो आप बात मानिए । राम के पास सीता को पहुँचा दीजिए और अपनी लका विभीषण को देकर आप शिवजी के निवास कैलास पर्वत पर तपस्वी बनकर जीवन व्यतीत कीजिए या योद्धा के समान, युद्ध-भूमि में राम से युद्ध कीजिए और उनके हाथों से प्राण त्यागकर विष्णु-सायुज्य प्राप्त कीजिए ।'

कालनेमि के इस प्रकार कहते ही रावण की आँखें क्रोध से लाल हो गईं और वह अपने चंद्रहास को निकालकर उसका वध कर डालने के लिए उद्यत हुआ । यह देखकर, कालनेमि ने कहा—'हे देव, आपकी आज्ञा का पालन करने में अभी जाता हूँ ।'

इसके बाद वह मनोवेग से द्रोण गिरि के निकट पहुँच गया और वहाँ अपनी माया से एक आश्रम का निर्माण किया। उस आश्रम में आम, पुन्नाग, चपक, पूगीफल, कटहल, चदन, जामुन, पाटली, बकुल, कदली, खर्जूर, कर्पूर आदि के सुंदर वृक्ष थे। जहाँ-तहाँ ब्रह्मचारियों का वेद-पाठ हो रहा था और महनीय मणिदीप-मालिकाएँ जल रही थी। फल-फूल तथा लताएँ, होम-धूम से धूमिल हो रही थी। कलकठ शुक, नीलकठ शारिका तथा कलहसी के मधुर कूजन सर्वत्र सुनाई पड़ रहे थे। स्थान-स्थान पर हवन तथा स्वरयुक्त मंत्रों का पठन हो रहा था। ऐसे माया-आश्रम में कालनेमि एक मुनि के समान कपट वेश धारण किये मन्द प्रकाश में आँखें बन्द करके जप-माला फिराते हुए बैठा था। आकाश-मार्ग से जाते हुए हनुमान् ने इस आश्रम को देखा और सोचने लगा कि मुनि का यह आश्रम कितना भव्य दीख रहा है! उस दिन (जब मैं यहाँ आया था) यह यहाँ नहीं था, आज यह कहाँ से आया? कहाँ वह क्षीर-सागर, कहाँ वह मेरु पर्वत और कहाँ मुनियों का यह आश्रम? कदाचित् मैं मार्ग खो गया हूँ। मैं इस मुनि से मार्ग जान लूँगा। यो सोचकर वह आकाश से पृथ्वी पर उतर आया। वन के पके हुए फल देखकर उसके मुँह में पानी भर आया, किन्तु मुनि-शाप के भय से विना उनको छुए ही मुनि के समक्ष पहुँच गया और हाथ जोड़कर बोला—'हे मुनिनाथ, महाराज राम के आदेश से मैं क्षीर-सागर के पास जा रहा हूँ। मेरा नाम हनुमान् है। मुझे अत्यधिक प्यास लग रही है, क्या यहाँ कहीं जल मिल सकता है?' तब उस कपटमुनि ने मदहास करते हुए कहा—'हमारे कमंडलु का जल पीकर तुम अपनी प्यास बुझा लो। ये फल लो, इन्हें खाकर इस रात को यही आराम करो। हे वानरोत्तम, मैं अपने मन में भूत तथा भविष्य की सभी बातें जानता हूँ। राम को धोखा देकर रावण उनकी पत्नी सीता को ले गया है। राम ने सहज ही वालि का वध करके लवण-समुद्र में सेतु को बाँधा और वानर-सेना के साथ लंका की घेरे हुए हैं। उन्होंने कुम्भकर्ण आदि राक्षसों तथा इन्द्रजीत का सहार किया है। पुत्र-शोक से क्रुद्ध रावण ने भय से प्राप्त शक्ति-बाण सुमित्रा के पुत्र पर चलाया, तो लक्ष्मण मूर्च्छित हो गिर पड़े। उस लक्ष्मण को जीवित करने के निमित्त ओषधियाँ ले जाने को तुम आये हो। अबतक तुम वायु-वेग से एक सहस्र योजन का मार्ग तय करके आये हो। कोई अधर्मी मुझे देख नहीं सकता। तुम मुझे देख पाये, इससे मुझे निश्चय हो गया है कि तुम उत्तम व्यक्ति हो। जगत् के कल्याण के लिए राम ने जन्म लिया है, इसलिए हमें भी राम का कार्य सपन्न करना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे दिव्य मंत्र दूँगा, जिनसे तुम्हें दिव्य ओषधि दिखाई पड़े। प्रातःकाल के सूर्य का दर्शन करते ही शक्ति से सपन्न होनेवाली सजीवनी आदि कितनी ही ओषधियाँ हमारे इस वन में हैं। उनमें से जो ओषधि चाहिए, उसे तुम लका ले जाओ। मेरे मंत्रों की शक्ति से तुम पलक मारने की देर में (लका) पहुँच जाओगे।'

तब उस कपटमुनि को देखकर हनुमान् ने कहा—'हे तपस्वी। जब लक्ष्मण बुरी दशा में वहाँ पड़े हुए हैं, तब क्या मुझे उचित है कि मैं यहाँ सुख से सो जाऊँ? हे स्वामिन, अपने प्रभु की कार्य-सिद्धि के रूप में लक्ष्मण को प्राप्त करने के पहले मैं इन फलों

का ग्रहण कैसे कर सकता हूँ ? मेरी प्यास थोड़े-से जल से नहीं बुझेगी । क्या यहाँ कोई सरोवर नहीं है ?' तब उस कपट-मुनि ने कहा—'यहाँ से समीप में ही एक दिव्य सरोवर है । यदि तुम उस सरोवर में आँखें बन्द करके उसके अमृत-सम निर्मल जल का पान करोगे, तो तुम्हारा शरीर दिव्य हो जायगा और दिव्य ओषधि तुम्हें तुरन्त दिखाई पड़ेगी ।' इतना कहकर हनुमान् को मार्ग बताने के लिए उस कपटमुनि ने शिष्यो को भेजा ।

हनुमान् कपटमुनि के शिष्यो की सहायता से उस सरोवर के पास पहुँचा । उस सरोवर के तट पर आम, मदार, माधवी, बकुल, सागवान, कुटज, चन्दन, साल, नीम, अर्जुन, अशोक, निंबु, कदम्ब, तमाल आदि के वृक्ष सुशोभित थे । सरोवर में सुन्दर तथा कोमल कमल, कलहार तथा विमल कैरव विलसित थे । कहीं कलहस कल-कूजन करते हुए विलासपूर्ण गति से परस्पर कौतुक करते हुए विहार कर रहे थे, कहीं हस की चोचो का स्पर्श करनेवाले बक, कौच तथा कारण्डव पक्षियो का समूह विचरण कर रहा था । किसी स्थान पर कैरव-मुकुलो के अग्र-भाग पर भ्रमर झुड-के-झुड अचल बैठे हुए मधुपान कर रहे थे और किसी स्थान पर भ्रमर-समूह मकरन्द-पान करने के निमित्त आया हुआ था, किन्तु कमलिनियो के विकसित न होने के कारण गायको की तरह उसके चारो ओर मँडराते हुए फिर रहे थे । तोते की चोचो से चीरे जाने से फलो का रस, पत्तो से होकर लाल कमलिनियो पर ऐसे भर रहा था, मानो सरोवर के तट पर स्थित आम के वृक्ष शिव से (वसन्त के मित्र) कामदेव को फिर प्राप्त करने के उद्देश्य से अग्नियो में घी की आहुति दे रहे हो । दूसरे स्थान में लाल कमलिनियो में भरनेवाला फलो का रस पान करके मधुप आकाश की ओर ऐसे उड़ रहे थे, मानो होमकुड से धुआँ उड़ रहा हो । वह सरोवर ऐसा दीख रहा था कि मानो कमलपत्र-रूपी थालियो में हिम-शीकर-रूपी अक्षत रखे हुए, उत्फुल्ल कुवलयो के लोचनो से, हनुमान् के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो । उस सरोवर को देखकर हनुमान् अत्यधिक हर्षित हुआ और आँखें बन्द करके उस सरोवर में उतर गया और अत्यधिक प्यास के कारण जल का पान करने लगा ।

१२५. मकरी का हनुमान् को निगल जाना

ससार-रूपी सागर में विषय-रस को बड़े चाव से पीनेवाले तृषित व्यक्ति को ससार की माया जसे निगल जाती है, वैसे ही उस सरोवर से उस समय एक विशालकाय मकरी निकली और उसने हनुमान् के चरणो को कसकर पकड़ लिया । हनुमान् ने अपने चरणो को खींच लेने का उद्धत शक्ति से प्रयत्न किया, किन्तु छुड़ा न सका । तब वह बड़े धैर्य के साथ खड़े होकर देखने लगा कि वह क्या है ? ध्यान से देखने पर उसे मालूम हुआ कि वह एक विशालकाय मकरी है । तब उसका क्रोध दुगुना हो गया और उसने भयंकर रूप धारण करके रघुराम की विजय का आधारभूत अपनी पूँछ उठाकर दुवार गति से उस मकरी के दाँतो पर प्रहार करके उन्हें गिरा दिया, मानो रावण की भोग-लालसा से सचित पापो को ही झटका देकर गिरा दिया हो, किन्तु वह मकरी हनुमान् को निगल जाने का उपक्रम करने लगी, मानो वह ससत् मुनि के शाप-रूप रोग से मुक्त होने के लिए (हनुमान्-रूपी) ओषधि को खाना चाहती हो । तब वायुपुत्र सोचने लगा—'हाय, राम के कार्य में

विघ्न पड गया । कदाचित् मैं यहाँ इस प्रकार मर जाऊँगा । हाय, अब क्या उपाय है ?' फिर, हनुमान् ने यह निश्चय करके कि इसके पेट में पहुँचकर मैं इसका वध कर डालूँगा, मकरी को अपना शरीर निगलने दिया । निदान वह भुजबली अधकूप के सदृश दीखनेवाले उस मकरी के उदर में पहुँच गया । वह मकरी बड़ी प्रसन्नता से जल के मध्य-भाग में चली गई । तब हनुमान् भयकर क्रोध से उस मकरी की आँतों तथा नसों को ऐंठने और तोड़ने लगा और विषग्रास की भाँति उस महा मकरी के उदर में अविराम गति से जहाँ-तहाँ घूमते हुए अग्नि की भाँति उसका उदर जलाने लगा । तब वह मकरी धैर्य खोकर प्यास की तीव्रता का सहन नहीं कर सकने के कारण अपने सूखे हुए मुख-गङ्गार को खोलकर पड रही । तब ऋर नक्र, ग्राह आदि से युक्त जल-प्रवाह हनुमान् पर गिरने लगा ।* तब वायुपुत्र काटी हुई आँतों का पिंड बनाकर बाहर ले आया और शीघ्र उसका गला घोट दिया । मकरी ने भी यह सोचकर कि यह आहार पचाने-योग्य नहीं है, अवश हो पडी रही । तब हनुमान् ने उसे तट पर घसीटकर उसको चीर डाला । उस समय उस मकरी के रक्त से युक्त वह सरोवर प्रलय-काल में भयकर वडवानल की ज्वालाओं से युक्त समुद्र के समान लाल दीखने लगा ।

तब वह मकरी देव-स्त्री का रूप धरकर अपनी चंचलता छोडकर, स्थिरता के साथ बादलो में प्रकाशित होनेवाली बिजली की भाँति विमान में बैठी आकाश-मार्ग में दिखाई पडी । पवन-पुत्र के पुण्य प्रताप से शापमुक्त हो वह अत्यन्त हर्षित हुई और वह देव-स्त्री हनुमान् को देख कर बोली—'हे कपिकुजर, हे वानरेन्द्र, मैं तुम्हारे कारण आज शापमुक्त हुई । मैं अभी इन्द्रलोक में जा रही हूँ । जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बतलाना चाहती हूँ ।' इतना कहकर हनुमान् को सरोवर के निकट भेजनेवाले उस कपट-तपस्वी को दिखाकर बोली—'हे कपिश्रेष्ठ, यह कोई मुनि नहीं है । इस पर विश्वास मत करो । यह एक राक्षस है और दानवेन्द्र के आदेश से तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया है । मेरे इस सरोवर में रहने की बात जानकर मुझसे तुम्हें मरवाने के लिए ही यहाँ भेजा । यह वध्य है । इस पर विश्वास मत करो । वह यहाँ रहने योग्य नहीं है । अतः, तुम शीघ्र इसका सहार करके ओषधियों को प्राप्त करने के लिए जाओ । द्रोणाद्रि पहुँचने का मार्ग यही है ।'

१२६. धान्यमालिनी का वृत्तांत

देव-रमणी की बातें सुनकर हनुमान् को आश्चर्य हुआ । उसने उस रमणी को देखकर कहा—'हे सुन्दरी, पहले तुम मकरी कैसे हुई और फिर अब देव-काता कैसे बनी ?' तब वह कहने लगी—'हे वीरवर, हे पावनचरित, हे कनकाद्रिसम धीर, मैं धान्यमालिनी नामक गधर्व-कन्या हूँ । मैं अपना पूर्व-वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनो । अखिल लोक के आराध्य सदाशिव जब रजताद्रि पर गोष्ठी में बैठे थे, तब मैंने अपनी नृत्य तथा संगीत-कला का प्रदर्शन करके उनको प्रसन्न किया और उनसे एक अनुपम विमान प्राप्त किया । उस विमान में बैठकर मैं प्रतिदिन इस सरोवर में जलक्रीडा करने आने लगी । एक दिन की बात है कि शाण्डिल्य

*विशाल मकरी के मुँह खोलने से उसके मुख से होकर मीन, ग्राह आदि के साथ सरोवर का जल उसके शरीर के अन्दर बहने लगा ।—ले०

नामक मुनि यहाँ आये और बड़ी आसक्ति से मुझे देखते हुए मन-ही-मन महान् आनन्द का अनुभव करने लगे । फिर भोग की लालसा से प्रेरित तथा काम-पीडा से अभिभक्त हो, इसका भी विचार किये बिना कि कहाँ मेरे जैसा तपोधन तथा पुण्यात्मा मुनि और कहाँ यह सुन्दरी, मुझ पर अनुरक्त हो गये और निर्लज्ज हो, लोलुप दृष्टि से मुझे देखने लगे । यह देखकर मैं उनसे कहा—‘हे मुनीन्द्र, कहाँ आप, कहाँ मैं और कहाँ आपकी यह लोलुप दृष्टि ? आप तपस्वी तथा पुण्यात्मा हैं, आपका यह कार्य आपके तप में विघ्न डालनेवाला है’ तब मुनि कामातुर हो, तपस्या का पवित्र सकल्प त्याग कर कहने लगे—‘हे सुन्दरी, यही मेरी तपस्या और पुण्य का फल है, यही मेरे लिए स्वर्ग का सोपान है, यही मेरे लिए मोक्ष का साधन है !’ तब मैंने उनसे कहा—‘हे मुनि, मैं अभी रजस्वला हूँ, अतः आपको मेरा स्पर्श नहीं करना चाहिए । इन दिनों मैं आपके ही घर में रहूँगी । स्नान तथा शुद्धि के पश्चात् आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं ।’ इस प्रकार, मुनि को समझाकर मैं उस मुनि के साथ गधमादन को गई और मुनि के घर में ही निष्ठा से रहने लगी । उस दिन रात को रावण सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके अपनी सेना के साथ उस पर्वत पर ठहरा । जब मैं पर्वत-शिखर पर गाने लगी, तब मेरा गाना सुनकर रावण मेरे पास आया और अपना प्रताप, अपना सौन्दर्य, अपनी महत्ता तथा अपना नाम बताकर मुझे प्रलोभन देने लगा कि ‘हे सुन्दरी, तुम अपने रूप-यौवन तथा विलास के साथ मेरा आलिगन करो ।’ मैंने कहा—‘मैं विवश हूँ, अतः तुमको मेरा स्पर्श नहीं करना चाहिए ।’ तब उस राक्षस ने कहा—‘हे सुन्दरी, मेरे लिए रजस्वला स्त्रियाँ तथा परस्त्रियाँ अधिक प्रिय हैं, अतः तुम मुझे मत ठुकराओ ।’ इस प्रकार मुझे अपने प्रिय वचनों से प्रसन्न करके उसने मेरे साथ रति-क्रीड़ा की । इससे अतिकाय का जन्म हुआ । मैंने उस पुत्र को दानवेन्द्र को सौंप दिया । तीन दिन के पश्चात् शुद्धि-स्नान आदि से निवृत्त होकर मैं मुनीश्वर के समक्ष जाकर खड़ी हो गई । तब उस मुनि ने मुझे देखकर कहा—‘मेरे घर में रहती हुई, तुम मुझे धोखा देकर किसके साथ प्रीति से रति क्रीड़ा में प्रवृत्त हुई थी ? हे तन्वी, तुम्हारे यौवन का उपभोग किसने किया ? तुमने बिना सोचे-समझे ऐसा क्यों किया ? यदि विवेक के साथ विचार किया जाय, तो तुम्हारी यह करतूत स्त्री-सुलभ ही प्रतीत होती है । परहित कहाँ और युवतियाँ कहाँ ? शीलाचरण कहाँ और सुदरियाँ कहाँ ? कमललोचनियाँ कहाँ और सत्य कहाँ ? कामिनियाँ कहाँ और कण्ठा कहाँ ? (काश,—दोनों बातें एक साथ ही देखी जाती ?) इस प्रकार कहते हुए उस मुनि ने अत्यधिक क्रोध से निर्दय हो मुझे घोर शाप दिया—‘तुम अपने विलास को खोकर इस सरोवर में मकरी बनकर रहो । जिसने तुम्हारे साथ रति-क्रीड़ा की, वह तुम्हारे इस पाप से अपने पुत्र, मित्र तथा सेना के साथ भस्म हो जायगा ।’

“मुनि का यह घोर शाप सुनकर मैं विचलित हो उठी और उस पुण्यात्मा के समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगी—‘हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस शाप-रूपी समुद्र को किस नौका की सहायता से पार कर सकूँगी ? इस शाप-रूपी दावानल को मैं किस जल से बुझा सकूँगी ? हे दयालु, मुझ पर दया दिखाइए ।’ भयाक्रान्त हो, इस प्रकार आर्त्तनाद करनेवाली मुझे देखकर

ज्ञान-दृष्टि से अनुमान करके, उस कृपानिधान ने कहा—‘हे सुन्दरी कुछ समय के पश्चात् हनुमान् राम के कार्यार्थ यहाँ आनेवाला है । उसके द्वारा तुम्हारे शाप की मुक्ति होगी ।’ इतना कहकर वह मुनि गंगा नदी के तट पर चले गये । आज मैं शाप-मुक्त हो गई हूँ । अतः मैं जा रही हूँ ।’ यों कहती हुई वह कमलाक्षी हनुमान् को आशीर्वाद देकर वहाँ से स्वर्ग चली गई ।

१२७. कालनेमि का वध

हनुमान् वहाँ से सीधे कालनेमि के सामने उपस्थित हुआ । उस समय वह पापी, अचल समाधि में निमग्न रहनेवाले (मुनि) की भाँति कुंभक-क्रिया के द्वारा अपने वक्षस्थल को फुलाकर मुख को किंचित् भुकाकर, ध्यान-मग्न रहनेवाले की भाँति आँखें बंद किये हुए जप-माला को फेरते हुए जप करनेवाले की भाँति ओठ हिलाते हुए बैठा था । हनुमान् के आते ही उसने आँखें खोलकर, हनुमान् से कहा—‘सरोवर निकट ही तो है ? तुमने इतना विलंब क्यों किया ? देखो कितनी रात बीत गई है । यदि तुम मन्त्रोपदेश ग्रहण करने की इच्छा रखते हो, तो क्या गुरु-पूजा की व्यवस्था कुछ करोगे ?’

तब पवनपुत्र ने कहा—‘लो, अब तुम्हारे लिए यही गुरु-पूजा है ।’ यों कहकर उसने अपनी कठोर मुष्टि से उस राक्षस के बाहुमध्य में प्रहार किया । तुरन्त उस दैत्य ने अपना वह रूप छोड़कर एक पक्षी का रूप ले लिया और हनुमान् पर आक्रमण किया । उसके आक्रमण करते ही हनुमान् ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके दोनों पखों को तोड़कर फेंक दिया । तुरन्त उस राक्षस ने वह रूप भी त्याग दिया और अपनी माया से एक गभीर सिंह का रूप धारण किया और आकाश की ओर भयकर दृष्टि को दिखाते हुए गर्जन करके हनुमान् को धमकाने लगा । किन्तु, हनुमान् निर्भीक हो अपनी मुष्टि से उस कालनेमि के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर फट गया । तुरन्त वह राक्षस सिंह का रूप भी छोड़कर सुग्रीव के रूप में आया और कहने लगा—‘हे पवनपुत्र, यहाँ क्या कर रहे हो ? चलो, लक्ष्मण के प्राण लौट आये हैं । अब तुम्हें द्रोणाचल जाने की आवश्यकता नहीं है । अब हमें ओषधि नहीं चाहिए ।’ पहले हनुमान् को भ्रम हुआ कि वह सुग्रीव ही है, किन्तु ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात् निश्चय कर लिया कि वह सुग्रीव नहीं है । तब अत्यन्त क्रोध से उसके वक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस मूर्च्छित होकर गिर पड़ा, किन्तु शीघ्र ही वह दानव सँभल गया और शतश्रुगी होकर धनुष से पौने शर चलाकर हनुमान् को कष्ट पहुँचाने लगा । तब हनुमान् ने भी अपनी मुष्टियों तथा चरणों के आघात से उसकी सारी शक्ति शिथिल कर दी और उसे आकाश से पृथ्वी की ओर खींच लिया । उसके पश्चात् उसने राक्षस का सिर एँठकर उसे धड़ से अलग करके पृथ्वी पर ऐसा फेंक दिया, जैसे मत्त गज मृणाल को तोड़कर फेंक देता है । उसके बाद विजय-गर्व से सिंहनाद करते हुए हनुमान् तुरन्त द्रोणाचल पर पहुँच गया ।

द्रोणाचल पर पहुँचकर हनुमान् अनेक दिव्य लताओं की आभा से तथा निर्मल मणिसमूह की कातिवाले दीप-वृक्षों की दीप्ति से भासमान उस पर्वत पर धूम-धूमकर दिव्य ओषधियों का अन्वेषण करने लगा । वह किसी लता को देखकर ‘यही वह सुगंधि है, यही

वह लता है, ऐसा विचार करके उसके पास पहुँचता, तो वह लता छिप जाती। यह देखकर हनुमान् मन-ही-मन दुखी हो कहने लगा—‘हे पर्वतेश्वर, हे पर्वतराज, हे पुण्यात्मा, अनघ रघुराम की आज्ञा से दिव्य ओषधि ले जाने के निमित्त मैं आया हूँ। हे नगराज, जो कार्य समस्त लोको के हित में है, उसको सपन्न करने के लिए आये हुए मुझे आप क्यों इस प्रकार धोखा दे रहे हैं ? आप शीघ्र अपने पास रहनेवाली ओषधि-लताओ को प्रकट कीजिए। मुझे शीघ्र जाना है। हे ओषधि-लताओ, यह कार्य लोक-हितार्थ है। अतः, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी सुन्दर आकृति दिखाइए।’ इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी वे लताएँ अपने रूप छिपाये रही। तब हनुमान् ने फिर कहा—‘हे नगकुलतिलक, मेरे आगमन को देखकर आपने मेरा उचित सत्कार नहीं किया, यह उचित नहीं है।’

कई बार विनम्र प्रार्थना करने पर भी जब उस पर्वत ने दिव्य ओषधि-लताओ को नहीं दिखाया, तब हनुमान् अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और कहने लगा—‘हे नगकुलाधम, मेरे इतनी प्रार्थना करने भी तुम्हारा मन मेरी ओर द्रवीभूत नहीं हुआ। भला, गुणहीन तथा कठोर पत्थर में दया कैसे उत्पन्न होगी ?’

इतना कहते-कहते हनुमान् की क्रोधाग्नि की ज्वालाएँ उनके रोम-रोम में व्याप्त हो गईं। तुरन्त उसने दस योजन विशाल तथा दस योजन ऊँचा रहनेवाले उस भयकर पर्वत को सहज ही उखाड़ लिया, मानो यह बता रहा हो कि मैं राम का सामना करनेवाले रावण-रूपी पर्वत को भी इसी प्रकार उखाड़ डालूँगा। उस समय सारी पृथ्वी हिल उठी और आकाश काँपने लगा।

इन्द्र के आदेश से उस पर्वत की रक्षा करनेवाले अग्नि-सम तेजस्वी चित्रसेन आदि तेरह करोड़ गधर्व अपने बल तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हनुमान् से कहने लगे—‘यह देवगण का निवास है। यह मेरु-तुल्य पर्वत है और यह जगत् का जीवन है। इसे तुम मत ले जाओ। तुम इसे नहीं ले जा सकोगे। इसलिए इसे यहीं छोड़ जाओ। यदि नहीं मानोगे, तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे।’ तब युद्ध में यम की भाँति भयकर दीखनेवाले हनुमान् ने क्रुद्ध होकर उनकी ओर देखा और उन्हें अपनी पूँछ-रूपी पाश से बाँधकर, तेजी से घुमाया और कुछ लोगो को समुद्र में फेंक दिया, कुछ लोगो को मार डाला और कुछ लोगो को पृथ्वी पर पटककर नष्ट कर दिया। उस महावीर की उद्धत शक्ति देखकर गंधर्वों ने सोचा कि उसको पराजित करना असंभव है। अतः, दीन होकर उन्होंने हनुमान् के समक्ष बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर कहा—‘हे कपिकुंजर, हे वानरेन्द्र, आप इस पर्वत को ले जाइए।’ इस प्रकार कहते हुए गधर्व-वीर आशीर्वाद देकर चले गये, तब पवनपुत्र उस पर्वत को उठाकर आकाश की ओर उड़ा और अपने भयकर वेग से भूचर तथा खेचर को आश्चर्य-चकित करते हुए जाने लगा।

१२८. भरत का स्वप्न

उसी दिन अर्द्धरात्रि के समय भरत ने स्वप्न में देखा कि राम तथा लक्ष्मण रण-भूमि में सिर पर तैल लगाये हुए, क्लान्त शरीर तथा बलहीन हो, पक के मध्य में पड़े छटपटाते हुए रुदन कर रहे हैं। यह देखकर भरत चौककर जाग पड़े और अपने

वीरों को बाँधकर समुद्र में फेंक दिया, उसने कुछ राक्षसों को पद-प्रहार से मार डाला, कुछ वीरों को अपने भयकर गर्जन से मार डाला, कुछ राक्षसों का अपनी पूँछ से सहारा किया और अपनी दृष्टि-मात्र से कुछ राक्षसों का वध कर दिया। कुछ राक्षसों को उसने नीचे गिरा दिया, कुछ राक्षसों को दबा दिया और कुछ को चीर डाला।

तब माल्यवान् क्रोधोन्मत्त होकर यम के समान भयकर रूप धारण किये हुए हनुमान् पर शर-वृष्टि करने लगा। किन्तु, हनुमान् ने उन बाणों को अपनी पूँछ से ही तोड़ डाला और क्रोध से उसके धनुष को खड़-खड़ कर दिया। फिर, उसने अपनी पूँछ से माल्यवान् के पैरों को बाँधकर ऊपर उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। तब माल्यवान् ने हनुमान् पर अपना शूल चलाया। उसकी भी उपेक्षा करके खड़े हुए हनुमान् को देखकर उस राक्षस ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर भयकर प्रहार किया। इस आघात से हनुमान् के वक्ष से रक्त की धारा बहने लगी। हनुमान् थोड़ी देर तक मौन खड़ा रहा, और फिर अत्यधिक रोष से उस राक्षस के सिर पर भयकर पद-प्रहार करके आकाश में जाकर उड़ गया। इससे राक्षस का सिर फूट गया और उससे रक्त की धारा बहने लगी। माल्यवान् इस भयकर प्रहार से थोड़ी देर तक मूर्च्छित पड़ा रहा, किन्तु शीघ्र ही सचेत होकर उसने हनुमान् पर अपनी गदा फेंकते हुए कहा—'युद्ध में यही गदा तुम्हारा अन्त कर देगी।' उस गदा के लगने से भयकर ज्वालामय निकल पड़ी। यह देखकर माल्यवान् ने कहा—'हे वानर, इस पर्वत को समुद्र में फेंककर जाओ, तो मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा। पूर्वकाल में समुद्र के मध्य में गरुड पर आरूढ़ हो विष्णु स्वयं मुझसे युद्ध करने आया था और मुझे अजेय जानकर लौट गया था। मेरा प्रताप सारा ससार जानता है, तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते।'।

तब हनुमान् ने माल्यवान् को देखकर क्रोध से कहा—'हे वृद्ध राक्षस, मेरे प्रताप से भीत हुए बिना तुम मुझसे युद्ध करने चले हो? तुम्हारी शक्ति ही कितनी है?' हनुमान् के इन दर्प-पूर्ण वचनों को सुनकर माल्यवान् का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने अपने भयकर खड्ग चन्द्रहास को निकालकर उद्धत शक्ति से उसे हनुमान् पर चलाया। हनुमान् के वज्रसम शरीर पर लुगते ही वह चन्द्रहास चूर-चूर हो गया। उस खड्ग के प्रहार से हनुमान् ने थोड़ी देर तक पीडा का अनुभव किया, किन्तु शीघ्र ही संभलकर अपनी भयकर पूँछ को उस राक्षस के कण्ठ में लपेटकर आकाश में बड़े वेग से घुमाकर फिर समुद्र में फेंक दिया। माल्यवान् समुद्र में गिरकर उसी मार्ग से पाताल में पहुँच गया। हतशेष राक्षस धैर्य खोकर भाग गये। पर्वत जैसी विशाल विजय को तथा पर्वत को लिये हुए हनुमान् आगे बढ़ा, तो सभी देवता उसकी प्रशंसा करने लगे।

१३०. लक्ष्मण के लिए राघव का शोक

द्रोण पर्वत की दीप्ति को दूर से देखकर सूर्यवशज राम को भ्रम हुआ कि प्रभात होनेवाला है। तब अत्यन्त भय-विह्वल हो, समरलक्ष्मी-रतिश्रात लक्ष्मण को रण-शय्या पर सोते देखकर राम कहने लगे—'हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे अनुज के रहने से ही मैं वन-गमन की तपस्या का भार वहन कर सका। वह देखो, ससार के समस्त जीवों के लिए दिन निकल रहा है, किन्तु मेरे लिए दिन डूब रहा है। मैं वन में पत्नी को खो बैठा

और युद्ध में तुमको खो दिया । हे सौमित्र, अब मुझे संप्राप्त अपयश-रूपी पक को कौन धो सकेगा ? यदि माता सुमित्रा मुझे देखकर कहें कि हे तात, बड़ी तपस्या के उपरान्त प्राप्त, उन्नत, पुण्यशील, महनीय चरित्रवान्, मानधन अपने पुत्र को मैंने तुम्हारा विश्वास करके तुम्हें सौपा था । ऐसे पुत्र को वन में ले जाकर तुमने उसका अन्त कर दिया, अब मैं क्या कहूँ ? तब मैं उनसे क्या कहूँगा ? मुझसे मिलने के लिए जब भरत तथा शत्रुघ्न आयेंगे और पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूँगा ? दीन होकर मैं वहाँ जाऊँगा भी कैसे ? मैं इसके कारण चिन्तित तथा दुःखी नहीं हूँ । मेरी चिन्ता का कारण दूसरा है । पापी रावण के दुष्कर्मों को देखकर मन-ही-मन दुःखी हो, अपने भाई का त्याग कर मेरा मित्र तथा सेवक बनकर विभीषण ने मेरी शरण ली । ऐसे शरणार्थी विभीषण को आश्वासन देते हुए मैंने कहा था—'मैं तुम्हें राक्षसों का राज्य देता हूँ ।' मैंने उसका राज्यतिलक भी कर दिया । किन्तु, उस प्रण को पूरा करने की क्षमता मुझमें नहीं रही । लो, सूर्योदय भी होने लगा है, अब लक्ष्मण के बचने की आशा नहीं है । मुझे भी अब जीवित नहीं रहना चाहिए । पापरहित लक्ष्मण के जीवन के साथ ही मेरा जीवन है । अब यह शोक मेरे लिए असह्य हो गया है । किन्तु, शरणार्थी को त्यागना नहीं चाहिए, इस पृथ्वी पर यह क्षत्रियो का धर्म नहीं है । राजाओं को चाहिए कि स्वयं दुःख भोगते हुए भी, अपने आश्रितों की रक्षा करें । इसलिए हे सुग्रीव, तुम इस विभीषण को साथ लेकर अयोध्या जाओ और पुण्यात्मा भरत को यहाँ का सारा समाचार समझाकर कहो और उन्हें मेरा यह आदेश सुनाओ कि वह इस विभीषण को लका के बदले अयोध्या का राज्य देकर पुण्य-लग्न में इसका राजतिलक कर दे । उसके पश्चात् तुम तथा वालिपुत्र दोनों अपनी सेनाओं को लेकर किष्किन्धा को लौट जाना ।"

राम को ऐसे दीन वचन कहते सुनकर सुग्रीव अत्यंत सन्नमित हुआ । वह सान्त्वना देते हुए कहने लगा—'हे देव । ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि अभी प्रभात नहीं होगा । अभी तो रात का चौथा पहर प्रारंभ हुआ है । वायुपुत्र शीघ्र आ जायगा । आप सताप त्यागिए ।' फिर भी, राम अत्यधिक शोकाग्नि में जलते हुए पृथ्वी पर लोट-लोटकर कहने लगे—'हे तात, मैं जब पिता की आज्ञा से अकेले वन के लिए चला, तो तुम विना पिता के आदेश लिये ही अपने-आप मरे साथ चले आये और असह्य दुःख भोगते रहे । इसे देखकर मैं बहुत दुःखी होता था । आज तुम शत्रु के हाथों में अपनी शक्ति खोकर इस प्रकार पृथ्वी पर पड़े हुए हो । अब मैं कैसे जीवित रह सकूँगा ? कैसे यह दुःख सह सकूँगा ? कौन-सा मुँह लेकर अयोध्या को लौटूँगा ? अब मुझे सीता किसलिए चाहिए ? अब मेरा जीवन ही किस काम का है ? मुझे अब राज्य किसलिए चाहिए ? जिस दिन पिता ने मुझे यहाँ भेजा, उसी दिन से तुम मुझे पितृवत् मानते आ रहे हो । मेरे भाग्य ने आज रूढ़ होकर रावण के द्वारा तुम्हारी ऐसी गति करा दी । भिन्न-भिन्न देशों में खोजने के पश्चात् योग्य पत्नियों को प्राप्त किया जा सकता है, देश-देशान्तरो में भ्रमण करके बधु-जनो को भी प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु अनुज को प्राप्त करना असम्भव है ।' इस प्रकार, विलाप करते हुए राम अनुज के चेतना-हीन शरीर पर

गिर पड़े। फिर अधीर होकर कहने लगे—“हे लक्ष्मण, तुम मुझे भाई कहकर कब पुकारोगे ? तुम सीता को सुमित्रा की भाँति, मुझे महाराज दशरथ की भाँति और इस घनघोर कानन को अयोध्या के समान मानते थे। पुष्प-शय्या पर लिटाने योग्य अपने शरीर को आज तुम पत्थरो पर कैसे लिटा सके ? हे राजकुमार, साधना की समाप्ति पर ही निद्रा उचित है। ऐसा सोचकर तुमने चौदह वर्षों तक निद्रा का त्याग कर दिया और वन में मेरी रक्षा करते रहे। आज युद्ध में शत्रुओं का सहार किये बिना ही तुम सो रहे हो, क्या, यह तुम्हारे लिए उचित है ? यदि तुम इस प्रकार पड़े रहो, तो तुम्हारा अग्रज भी दीर्घ-निद्रा (मृत्यु) को प्राप्त होगा। तुम सतत अपने अग्रज की बड़ी भक्ति करते रहे, आज क्यों नहीं कर रहे हो ? तुम सतत मेरे वचनों का आदर करते रहे, आज मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो ? ‘हे पुण्यमूर्ति, युद्ध में रावण का सहार करके सीता को आपकी सेवा में उपस्थित कहेँगा’ ऐसे श्रुति-मधुर वचन कहनेवाले तुम आज किस कारण से मौन साधे हुए हो ? तुम उठो और ‘हे देव, ऐसे अनुचित वचन कहना आपको शोभा नहीं देता।’ ऐसे वचनों से मुझे सात्वना दो और आँखें खोलकर मुझे देखो।” ऐसे विलाप करते हुए राम ने लक्ष्मण के अरुण हस्त को अपनी कनपटी से लगाया और ‘हे लक्ष्मण मेरा उद्धार करो’ यो कहते हुए ही मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब वानर-वीरों ने उपचार करके राम की मूर्च्छा दूर की और उन्हें सात्वना देने लगे।

१३१. हनुमान् का द्रोण-पर्वत ले आना

इसी समय प्रभा-मंडल से दीप्त होते हुए हनुमान् आता हुआ दिखाई पड़ा। तेजो-मय सूर्य-सम उसकी दीप्ति के आधिक्य के कारण उसपर दृष्टि ठहरती नहीं थी। उसे देखकर सभी वानर अत्यधिक भयभीत हो गये और सभ्रम-चित्त हो व्याकुल हो उठे। रामचन्द्र ने भी उसे सूर्य ही समझ लिया और प्रलय-काल के यम के समान क्रोध से जलते हुए सभी वानरों को देखकर कहने लगे—“हे वानरो, तुम लोगो ने आकाश में निकलनेवाले सूर्य को देखा ? पुण्य तथा शील से समन्वित हमारे वश का आरम्भकर्त्ता, अन्धकार का शत्रु तथा कमल-बधु यह सूर्य आज शत्रु से मिल गया है और लक्ष्मण के ऐसे पड़े रहते हुए निकल रहा है। अब मैं इस सूर्य-मंडल को पृथ्वी पर गिरा दूँगा।” इस प्रकार कहते हुए दुर्वार साहसी राम ने धनुष को अपने हाथ में ऐसे सँभाला, जैसे प्रलय के समय शिवजी ने ब्रह्माण्डो का भजन करने के निमित्त ब्रह्मा आदि देवताओं को भयभीत करते हुए अपने हाथ में पिनाक धारण किया था। उस समय अपने पूर्ण बाहुबल से युक्त राम स्वयं शिवजी के समान दीप्त होने लगे। अत्यन्त क्रोधोन्मत्त हो शीघ्र उन्होंने ही अपने धनुष पर रौद्र-अस्त्र का सधान किया। राम की अद्वितीय शक्ति से परिचित जांबवान् ने भय से व्याकुल होते हुए क्रोधोदीप्त राम को देखकर कहा—“हे देव, क्रोधावेश से अपनी दुर्वार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आपके इस प्रकार शर-सधान से देव तथा गधर्व धैर्य खोकर चारों ओर भाग रहे हैं। हे राघव, यह कैसा आश्चर्य है कि आप (आकाश की ओर) सावधानी से देखकर भी सचाई समझ नहीं पाये। यह जो प्रकाश दीख रहा है, वह सूर्य का नहीं है, किन्तु अनेक दीप्त वृक्षों की काति से परिपूर्ण उज्ज्वल द्रोणाचल है,

जिसे गुरुसत्त्व-सपन्न (महान् शक्तिशाली) पवनकुमार लिये आ रहा है । सूर्य-सम तेजस्वी पवनपुत्र की अगवान्ती करने के लिए आप वानर-वीरो को भेजिए ।' तब रघुराम की आज्ञा से हनुमान् के स्वागतार्थ वानर गये ।

हनुमान् आकाश से नीचे उतर आया और उस पर्वत को पृथ्वी पर रख दिया । फिर, उसने रामचन्द्र के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा— 'हे देव, मैंने द्रोणाचल पर जाकर ओषधियों के लिए बहुत ढूँढा, किन्तु उनको प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए मैं उस पर्वत को ही उठा लाया हूँ । आपकी आज्ञा प्राप्त करके यहाँ से द्रोणाद्रि जाते समय तथा वहाँ से लौटते समय मेरे मार्ग में कई विघ्न उपस्थित हुए, अतः विलम्ब हो गया । इसे आप मन में नहीं लाइए ।' तब राम हनुमान् को देखकर बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे— 'हे पवनपुत्र, भला तुम में कोई दोष हो सकता है ? तुम्हारे कारण ही तो काकुत्स्थ-वशजो के यश तथा गौरव आज स्थिर रह पाये । अपनी अनुपम शक्ति से तुमने आज देवताओं के लिए भी असाध्य कार्य संपन्न किया है ।'

१३२. संजीवकरणी से लक्ष्मण की मूर्च्छा का दूर होना

तब सुग्रीव ने सुषेण को देखकर कहा— 'तुम दूसरे वानरो के साथ इस पर्वत पर चढ़ जाओ और आवश्यक महौषधियों को लाकर लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर करो ।' तब सुषेण अन्य वानरो के साथ शीघ्र उस पहाड़ पर चढ़ गया । वह अपने साथियों को पर्वत पर भिन्न-भिन्न स्थलों को दिखाकर कहता था— 'यहाँ पर इन्द्र ने अमरो के साथ अमृत-पान किया था । यहाँ पर विष्णु ने जगत् के कल्याणार्थ अपने चक्र से राहु का सिर काटा था ।' फिर, वह उस पर्वत से आवश्यक ओषधियों का संचय करके ले आया और लक्ष्मण पर उनका प्रयोग किया । उन ओषधियों के प्रभाव से लक्ष्मण के शरीर में गड़े हुए बाण निकल आये और लक्ष्मण की चेतना लौट आई । सभी वानर आनन्द के अतिरेक से भरे रामचन्द्र के समक्ष आ पहुँचे ।

तब राम ने सौमित्र को हृदय से लगा लिया और आँखों से हर्ष के अश्रु बहाते हुए समीरकुमार को देखकर कहने लगे— 'हे पुण्यात्मा, आज तुमने मुझे सौमित्र का दान दिया । तुम्हारे कारण आज मैं काकुत्स्थ-वशज कमनीय गात्रवाले लक्ष्मण को प्राप्त कर सका । गिरे हुए मेरे भाई को पुनर्जीवित करके तुमने मेरे प्राण बचाये । मेरा यह भाई मेरे प्राणों के समान है । तुम मेरे प्राण-बधु हो तथा परम मित्र हो । तुम्हारे द्वारा ही यह कार्य संपन्न हो सकता था । अन्यो के द्वारा इसकी पूर्ति असम्भव थी । हे वानर-वीर, उपकार का प्रत्युपकार करना उत्तम है । किन्तु मैं तुम्हारा कोई प्रत्युपकार नहीं कर सकता; क्योंकि समस्त लोको में तुम्हारे लिए कोई विपत्ति ही नहीं है ।' इसके पश्चात् राम ने सुषेण की भी प्रशंसा की और उसे हृदय से लगा लिया । सुषेण आनन्द से समुद्र के समान फूल उठा । उसने राम की अनुमति से रण में गिरे हुए वानरो को पुनर्जीवित किया । सभी वानरो ने मन-ही-मन अत्यन्त हर्षित होते हुए राम की अनुमति पाकर उस पर्वत के समस्त रत्नों से युक्त उज्ज्वल सानुओं तथा श्रृंगों पर विचरण किया, विविध स्थलों को देखा, परिपक्व फलों को छककर खाया, मधु का जी भरकर पान किया, अमृतोपम जल

पिया, और उसके पश्चात् पर्वत से नीचे उतर आये । तब राघव ने पवनकुमार को देखकर कहा—‘इस पर्वताधीश को उसके स्थान पर फिर प्रतिष्ठित कर आओ ।’

राम की आज्ञा प्राप्त करके हनुमान् अपनी अपार शक्ति से उस पर्वत को उठाकर आकाश-मार्ग से जाने लगा । समुद्र के मध्य में राक्षसों ने यह देख लिया और तुरन्त रावण को इसकी सूचना दी । तब लकेश्वर ने विजयधन, शकुकर्ण, स्थूलजघ्न, महानाद, महावक्त्र, चतुर्वक्त्र, मेघजीत, हस्तिकर्ण, महावीर, जैत्र, उल्कामुख आदि राक्षसों को बुलाकर कहा—‘तुम लोग अपने अनुपम पराक्रम से हनुमान् का मार्ग रोककर उसे पकड़कर ले आओ, या वह जिस पर्वत को ले जा रहा है, उसे उसके हाथ से छीनकर समुद्र में गिरा दो । इन दोनों में किसी एक कार्य को पूरा कर सकोगे, तो मैं अपना आधा राज्य अभी तुमको दूँगा ।’

यह सुनकर वे अपनी महाशक्तिशाली सहस्रों विपुल सेनाओं के साथ दानव तथा अमरों का वेष धारण किये हुए, खड्ग, तोमर, शूल, घनुष, परशु, भाले आदि शस्त्रों को धारण किये हुए चल पड़े । उन्होंने बड़े दर्प से गर्जन एवं हुंकार करते हुए, प्रलय-काल के मेघ जैसे सूर्य को घेर लेते हैं, वैसे ही, हनुमान् को घेर लिया और उसका मार्ग रोककर गर्जन करते हुए, वे दुर्मति कहने लगे—‘हम देवासुरों को देखने के निमित्त (पर्वत सौपने के निमित्त) ही तो तुम जा रहे हो । अब इस पर्वत को लिये कहाँ जा रहे हो ?’ तब हनुमान् उनको देखकर आँखों से प्रलय-काल के अग्नि-स्फुल्लिगों को विकीर्ण करते हुए काल-चक्र के आकारवाली वज्र-सम कठोर अपनी पूँछ को भयकर गति से घुमाते हुए उससे उन राक्षसों पर प्रहार करने लगा । तब राक्षसों ने भी (अपने शस्त्रों से) हनुमान् को अच्छी तरह मारा । तब हनुमान् ने कुछ राक्षसों को पद-प्रहार से मार डाला, कुछ राक्षसों को अपनी पूँछ के आघातों से मार गिराया, अपनी भयकर मुष्टि के आघातों से कुछ राक्षसों का सहार किया, अपने नाखूनों से कुछ राक्षसों को चीर डाला, अपने भयकर गर्जन-मात्र से कुछ राक्षसों को गिरा दिया और अपनी परुष तथा उग्र दृष्टि-मात्र से कुछ राक्षसों के प्राण हर लिये । महाशक्ति-सपन्न हनुमान् ने ऐसा भयकर युद्ध करके, अपने अनुपम पराक्रम से उन राक्षसों की सेना को इस प्रकार तितर-बितर कर दिया, जैसे सूर्य हिमशिखरों को शीघ्र नष्ट कर देता है । इसके पश्चात् हनुमान् आकाश-मार्ग से जाने लगा, तो देवता तथा गधर्व उसके बाहुबल की प्रशंसा करते हुए उसपर पुष्प-वृष्टि करने लगे । हनुमान् अत्यधिक वेग से जाकर उस पर्वत को यथास्थान प्रतिष्ठित करके शीघ्र रघुराम के पास लौट आया और पर्वत को लाने तथा उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के सबध में उनपर बीती हुई विपत्तियों को कह सुनाया । तब राम ने बड़े हर्ष से वायु-पुत्र का आर्लिगन कर लिया ।

तदनंतर सभी कपियों ने एकत्र होकर ऐसा सिंहनाद किया कि सारी लका व्याकुल हो उठी । आकाश में टिमटिमानेवाले तारे एक-एक करके ऐसे लुप्त होने लगे, मानो दशकठ के पुण्य के चिह्न एक-एक करके लुप्त होते जा रहे हों । निदान, सूर्योदय हुआ और दैत्यों के दारुण रोष एवं गर्वाधकार के साथ-साथ अन्धकार भी दूर हुआ । वानरों के

मुख-कमलो के साथ ही सरोज भी विकसित हुए । शक्तिहीन दनुजों के मुख-कैरवों के साथ-ही-साथ पृथ्वी पर कैरव भी मुरझा गये । सूर्यवशाधीश राम के प्रताप-सूर्य के साथ-ही-साथ सूर्यबिम्ब भी प्राची दिशा में दिखाई पड़ने लगा ।

तब राम ने सौमित्र को देखकर अत्यन्त आनन्द से भरे हृदय से कहा—‘हे सद्गुणशील, सौमित्र, तुम बच गये, सचमुच यह मेरा सौभाग्य है ।’ राम के इन प्रशंसापूर्ण वाक्यों को सुनकर लक्ष्मण राम को प्रणाम करके बोले—‘हे देव, क्या आप प्राकृतजन हैं ? क्या आप दीन हैं, क्या आप निर्धन या क्षुद्र हैं ? आप अपने महत्त्व को भूलकर ऐसे दीन वचन क्यों कहते हैं ? हे लोकेश, दण्डकवन में आपने मुनियों को जो वचन दिये थे, उनका स्मरण कीजिए । आपका विश्वास करके आये हुए इस विभीषण से आपने जो प्रतिज्ञा की है, उसका विचार कीजिए और आज सूर्य के अस्त होने से पहले रावण का सहार कीजिए । इन बातों को सुनकर राम ने कहा—‘ऐसा ही होगा’ और रण-विक्रम-दीप्ति से भासित होने लगे ।

१३३. रावण का शुक्राचार्य से परामर्श करना

इस वृत्तान्त को सुनकर रावण मन-ही-मन चिन्ता से व्याकुल हो उठा और अपने समस्त पराक्रम को तजकर दीन हो शुक्राचार्य के पास पहुँचा । उनको बड़ी भक्ति से प्रणाम करके रावण ने कहा—‘हे गुरुदेव, रघुराम की निश्चित (तीक्ष्ण) बाणाग्नि ने मेरे सगे-सबधियो, पुत्रों तथा भाइयों को जलाकर भस्म कर दिया है और प्रलय-काल की अग्नि के समान अमोघ दिखाई पड़ रही है । वह दुर्वार दीखती है और युद्ध में सबका सहार कर रही है । मैं अब कैसे बच सकूँगा । कृपया बताइए ।’ तब शुक्राचार्य ने कहा—‘हे रावण, तुम व्याकुल क्यों होते हो ? ऐसे कितने ही उपाय हैं, जिनके द्वारा महान् युद्धों में भी नरों को जीता जा सकता है । केवल इस बात की आवश्यकता है कि तुम विना विघ्न के हवन पूरा करो । हवन करने से हवन-कुंड से भयकर सग्राम के योग्य श्रेष्ठ रथ, अश्व, भयकर खड्ग, शर, चाप तथा कवच तुम्हें मिल जायेंगे । उनकी सहायता से तुम नरों को जीत सकते हो । वे अस्त्र-शस्त्र तुम्हें अवश्य विजय प्रदान करेंगे ।’ इतना कहकर शुक्राचार्य उसे हवन के लिए आवश्यक मंत्रों का उपदेश किया और हवन-विधि आदि बताकर विदा किया ।

शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर रावण अन्तपुर को लौट आया और नगर की रक्षा करनेवाले महान् शक्ति-सपन्न राक्षस-वीरों को सावधान किया । उसके पश्चात् उसने सिंह-द्वारों को बंद कराया और उनकी रक्षा के लिए अपनी चतुरगिणी सेना को नियुक्त किया । फिर, उसने यम-सदृश आकारवाले तथा उद्धत शूर विद्युज्जिह्व नामक एक वीर राक्षस को बुलाकर कहा—‘तुम अपनी सेना के साथ बड़ी तत्परता से नगर की रक्षा करते रहो । असावधान मत रहो और अपने स्थान से किसी भी दशा में मत हटो ।’

१३४. पाताल-होम

उसके पश्चात् रावण ने हवन का अनुष्ठान करने के निमित्त, पाताल-गुफा में ऐसे प्रवेश किया, मानो मृत्यु के मुँह में ही प्रवेश कर रहा हो । वहाँ पर बड़ी निश्चलता के

साथ हवन-कर्म के लिए अनुरूप रक्त वस्त्र, रक्त माल्य तथा रक्त चदन धारण किया, दक्षिण दिशा में सिद्ध की हुई होम-वेदी की चदन-पुष्पो से अर्चना की, अग्नि को प्रतिष्ठित किया, विधिवत् होम-मंत्रों का उच्चारण करते हुए, पौने अस्त्रों को परिधि के रूप में सजाया, पीपल और भिलावा आदि समिधाओं को बार-बार जलाया, सरसो, दूर्वा, खील, गुग्गुल, अगरु, धी, मधु, ताडी, खून, दही, परमान्न, दर्भ, प्रवाल, भेड, मच्छली, गीध, बराह आदि की बलि क्रमश देते हुए उस महावेदी के समक्ष निश्चल ध्यान में मग्न रहा ।

उस समय उस गुफा से भयकर धुएँ का समूह, पवन के सघात से बिजलियों को गिराते हुए समस्त आकाश में ऐसा व्याप्त होने लगा, मानो रावण के सभी पाप एकत्र होकर आकाश की ओर उठ रहे हों । यह देखकर देवता त्रस्त हुए, मुनि भयभीत हुए, दिक्पाल सभ्रमित हुए और वानर भय-विह्वल हुए । उस धुएँ को देखकर विभीषण ने राम से कहा—‘हे देव, रण में आपका सामना करके, आपके समक्ष खड़े रहने में अपने को असमर्थ पाकर रावण कपट-कर्म के द्वारा आप पर विजय प्राप्त करने के निमित्त हवन कर रहा है । वह देखिए, हवन-कुंड से निकलनेवाला धुआँ समस्त आकाश में व्याप्त हो रहा है । यदि इसकी इच्छा के अनुसार हवन निर्विघ्न समाप्त हुआ, तो लोक-भयकर रावण को जीतना देवासुरों के लिए भी असंभव हो जायगा । अतः, इस हवन में विघ्न डालना ही चाहिए । इसके लिए आप शीघ्र वानर-वीरों को भेजिए ।

उसकी मंत्रणा स्वीकार करके राम ने वानर-वीरों को (हवन में विघ्न डालने के लिए) भेजा । तब असमान बलवान् गवाक्ष, तार, शरभ, ऋथन, शतबली, नल, गवय, मैन्द, गधमादन, हनुमान्, पनस, अगद, कुमुद, ज्योतिर्मुख, गोमुख आदि दस करोड़ उद्भट रण-विक्रमी तथा प्रतापी वानर अत्यधिक क्रोध से आकाश-मार्ग से लका में पहुँच गये । अपने हुकारों तथा पदाघातों से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए, दिग्गजों को कुचलते हुए, आकाश को कपित करते हुए, उन साहसी तथा उत्साही वीरों ने प्रचंड गति से राक्षसों पर आक्रमण किया और नगर की रक्षा करनेवाले कई बलवान् राक्षसों को छिन्न-भिन्न कर दिया और द्वारपालों को क्रूरता से मार डाला, अपनी विशाल शक्ति से द्वारों को चूर-चूर कर दिया और अत्यंत शीघ्रता से नगर में प्रवेश किया । कुछ पर्वताकार वानर तुरत दशानन का अन्वेषण करने लगे, कुछ रथशालाओं में प्रवेश करके रथों को चूर-चूर करने लगे, कुछ गजशालाओं में जाकर अपने मुष्टि-घातों से गजों के सिर फोड़ने लगे, कुछ अश्वशालाओं में पहुँचकर अपने भयकर नखों से घोड़ों के शरीर चीरने लगे, कुछ वानर घोड़ों (शूलकों) को नष्ट-भ्रष्ट करने लगे, कुछ शस्त्रागारों में पहुँचकर शस्त्रास्त्रों को खंडित करने लगे, कुछ भांडार-घरों में पहुँचकर वहाँ की चीजों को बाहर फेंकने लगे । दूसरी ओर कुछ वानर अपनी प्रचंड शक्ति से भूलते हुए तोरणों को तोड़ते थे, स्वर्ण-कलशों तथा स्वर्ण-हृद्यों को पृथ्वी पर गिरा देते थे, कुछ वानर राक्षसों को यत्रणा देते हुए कहते थे—‘उस जगत्-द्रोही (रावण) को बाँधकर लाओ, कुछ वानर घरों में घुसकर, राक्षसों को उनकी पत्नियों तथा सुतों के हाहाकार के बीच बाहर खींचकर लाते थे और

उनके सिर काट डालते थे। वानरो के ऐसे पीड़ित करने से सारा राक्षस-नगर भयभीत हो, दीन तथा व्याकुल दीखने लगा। वानरो से प्रपीडित घोडों की हिनहिनाहटो, गजों के भयकर चिंघाडो, वृद्धा तथा बालाओं के दीन विलापो तथा कपियों के सिंहनादों के व्याप्त होने से सारी लका प्रलय-काल में दीप्त होनेवाली बडवाग्नि की ज्वालाओं से भयभीत हो गर्जन करनेवाले समुद्र की भाँति, हाहाकार करने लगी।

इसी समय सूर्योदय हुआ। वानरो ने सब स्थानों में रावण को ढूँढा, किंतु वे कहीं भी उसको देख नहीं सकने के कारण सन्नमित हो गये। तब विभीषण की चतुर पत्नी सरमा ने, अपने पति के हित का विचार करके बड़ी उद्विग्नता से, हाथ के संकेत से अगद को रावण के रहने का स्थान बताया। तुरत उस वीर ने क्रुद्ध होकर उस गुफा के मुँह पर स्थित शिला को अपने पदाघात से चूर-चूर कर दिया और अपने महान पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, अपने बाहुबल से राक्षसों को भयभीत करते हुए अदर प्रवेश किया और हवन-कर्म में निश्चल निष्ठा से लगे हुए तथा विविध मन्त्र-तंत्रों में लगे रावण को देखकर चिल्ला उठा—'मैंने रावण को देख लिया। शीघ्र चले आओ।' यह सुनकर अनिलकुमार आदि राक्षस बड़े वेग से गुफा की रक्षा करनेवाले राक्षसों को मारकर अदर चले आये। तब उन्होंने अकेले हवन करनेवाले रावण को देखा और बड़े क्रोध से कहने लगे—'विना किसी को साथ लिये यह अकेले फँस गया है। हम इसका हवन कर देंगे।' यह कहकर वानरो ने हवनकुंड के चारों ओर रहनेवाले कलश-समिधाएँ, हाथी, मुर्गा, जबूक, अश्व, ऊँट, कुत्ता आदि जानवरों के मस्तक, घी तथा मधु के पात्र आदि होमकुंड में फेंककर सिंहनाद किया। यह देखकर राक्षस भयभीत हुए। फिर, वानर उस पापी रावण के अगो पर होमकुंड के अगारों की वर्षा करने लगे और जलते हुए मशाल उठाकर राक्षसों पर फेंकने लगे। एक वानर ने रावण के हाथ के झुक-झुका को बलात् खींचकर उन्हीं से रावण पर प्रहार किया। कपियों के इस प्रकार के आक्रमण के कारण रावण की निष्ठा डोल गई। फिर भी विना विचलित हुए या विना क्रुद्ध हुए वह निष्ठा में ऐसे निमग्न रहा, मानो वह सोया हुआ पर्वत हो।

१३५. अंगद का मंदोदरी को रावण के पास घसीटकर लाना

तब युद्ध-कला-कुशल, दुर्जय तथा अगदों से अलङ्कृत बाहुओं से विलसित अगद, शीघ्र रावण के अतपुर में पहुँचा और रानियों के निवास में प्रवेश किया। वहाँ उसने उमडते हुए दुख से सतप्त होनेवाली मंदोदरी को देखा। उसका सृजा हुआ लाल मुख-चद्र, उसके कर-पल्लव पर ऐसा टिका हुआ था, जैसे रोहिणी से अलग हुए चद्र को तरुण पल्लव-शय्या पर पहुँचा दिया गया हो। वह अपने बधुओं के साथ यह सोचकर व्याकुल हो रही थी कि घोर युद्ध में कुभकर्ण आदि मरे, महावीर तथा घोर विक्रमी पुत्र सब नष्ट हुए, केवल मेरे पति बच गये हैं; भला वे क्या रघुराम को जीत सकते हैं? वह मन-ही-मन इन्द्रजीत की मृत्यु का स्मरण करके रो रही थी। रमणीय मणि-मंदिर में बैठकर शोक करनेवाली रमणी मंदोदरी की सुंदर वेणी को बलात् पकड़कर अगद उसे खींचने लगा। तब उस मृगनयनी के मुख-चद्र की काँति ऐसे मलिन पड गई, जैसे ग्रहण के समय राहु से

घिरे हुए चंद्र-मंडल की कांति मलिन पड जाती है । उसके बालो में सजे हुए सुरभित मल्लिका-कुसुम पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगे, मानो रावण के कीर्त्ति-कुसुम ही गध-हीन ही पृथ्वी पर गिर रहे हो । उसकी माँग में पिरोये हुए मोती भय एव क्रोध से ऐसे गिरने लगे, मानो रावण की राज्य-लक्ष्मी ही सीमत-वीथी से च्युत हो रही हो । उसके लाल मुख-कमल के नील अलक, ऐसे बिखर गये, मानो राक्षसों की लक्ष्मी के मुख-कमल के आश्रित भ्रमर बिखरकर उड रहे हो । उसके दोनो कर्ण-कुडल टूटकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पडे, मानो मगलप्रद श्रेष्ठ आभूषण रावण की लक्ष्मी के कानो में रहने की इच्छा न रखने से गिर रहे हो । उसकी आँखो से काजल से युक्त अश्रु ऐसे गिरने लगे, मानो वे दनुजेश्वर के अपयश की धाराएँ हो । उसके मणिमय आभूषण ऐसे टूटकर गिरने लगे, मानो राक्षस-राज के लिए अपशकुन सूचित करनेवाली महान् उल्काएँ गिर रही हो । उस रमणी के धर्म का निर्मल आवरण-रूपी कचुक के शिथिल होने से उसके उन्नत स्तन-कलश ऐसे विचलित हो उठे, मानो रावण की इस लोक की तथा परलोक की उन्नति ही विचलित हो गई हो । उसकी तनु-लता ऐसी कुचल गई, मानो देव-शत्रु रावण की गुण-लता ही कुचल गई हो । उसकी मेखलावली का बधन ऐसे खुल गया, मानो पवित्रात्मा राम के द्वारा राक्षसराज के कर्म-बधन ऐसे ही कट जायेंगे । उसके चरण-नूपुर निनाद करते हुए एक-एक करके ऐसे छूटकर गिरने लगे, मानो प्रमद राक्षसराज-पद की सन्धियाँ चटक गई हो और उसकी विमल कीर्त्ति खड-खड होकर गिर रही हो । इस प्रकार, जब अगद क्रुद्ध होकर मदोदरी को राक्षसेश्वर के समक्ष घसीटकर लाने लगा, तब राक्षस-वधुएँ आर्त्तनाद करने लगी और कारागार में पडी हुई देव-स्त्रियाँ हर्षित होने लगी ।

तब मदोदरी शोक-सतप्त हृदय से दानवेंद्र को देखकर कहने लगी—‘हे देव, इद्र को परास्त करनेवाली आपकी शक्ति कहाँ लुप्त हो गई ? क्या, आज चद्रहास की धार कुठित हो गई ? प्रमथ-गणो से युक्त शिव के साथ कैलाश पर्वत को उठाने का आपका दर्प कहाँ चला गया ? तीनों लोको को आपने जीत लिया था, ऐसी शक्ति को आप क्यों त्याग रहे हैं ? यदि मुझे त्याग कर इद्रजीत इद्रलोक में नही गया होता, तो क्या, वह मुझे इस दशा में देखते हुए चुप रहता ? यदि मेरा पुत्र जीवित रहता, तो क्या, मैं ऐसी नीच दुर्दशा को प्राप्त होती ? शत्रु इस प्रकार मेरा अपमान तथा उपहास कर रहे हैं और आप देख तथा सुन रहे हैं । क्या, आप निर्लज्ज बधिर हो गये हैं ? आपका यह हवन किस काम का ? आपकी यह निष्ठा किसलिए ? इन आहुतियो ने स्वयं आपकी पूर्णाहुति कर दी । बुद्धिमान् होकर भी आप राम की बाणाग्नि से दग्ध हो जायेंगे । कुटिल क्रियाओ से जब कोई प्रयोजन नही है । अब उन्हें त्याग दीजिए ।’ इन बातों को सुनकर दसकठ क्रोध से भभक उठा । उसने अपने हाथ की आहुति पृथ्वी पर फेंक दी । निष्ठुर क्रोध से उसकी भौहें तन गई । वह यमराज के समान भयकर रूप धारण करके उठ खडा हुआ । अपने भीषण खड्ग को खीचकर उसने अनुपम रत्नो के अगदो से विलसित अगद पर प्रहार किया और अपनी पत्नी को उसके हाथों से छुडा लिया । तब खली हुई वेणी तथा उतरे हुए मुँह से दुःख प्रकट करती हुई वह दैत्य-रमणी अतःपुर को चली गई ।

उसके पश्चात् हनुमान् अपनी भयकर मुष्टि से दशकठ के सिर पर कठोर प्रहार किया। इतने में वालिपुत्र सँभल गया और रावण पर कठोर प्रहार करके फिर गिर पडा। इस प्रहार से रावण लाल रक्त से भीगे हुए एक लाल पर्वत की भाँति दीख रहा था। फिर भी, उसने भयकर क्रोध के आवेश में आकर अगद पर गदा का प्रहार किया, हनुमान् पर अपने तेज खड्ग को चलाया, नल पर शर-प्रहार करके उसको ऐसे दबा दिया, जैसे अकुश के प्रहार से गज को झुका दिया हो, मूसल का प्रहार करके नील को दंड दिया, शक्ति के प्रयोग से शतबली का दर्प चूर कर दिया, वज्र-सम मृद्गर तथा बाणो को चलाकर द्विविद तथा मैन्द को गिरा दिया। तब वानर-वीर आश्चर्यजनक वेग से अपनी सेना में जा पहुँचे।

अनिलकुमार ने राघवेश्वर के समक्ष पहुँचकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा—‘हे देव, हम दानवेंद्र का हवन भ्रष्ट करके लौट आये हैं।’ यह सुनकर रघुराम मन-ही-मन बहुत हर्षित हुए।

वहाँ दैत्येंद्र शीघ्र अतपुर में गया और अपार शोकाग्नि में जलनेवाली मन्दोदरी को देखकर कहने लगा,—‘हे प्रिये, विधि-विधान के सबध में मन-ही-मन ऐसे शोक करने की क्या आवश्यकता है। आज मैं युद्ध में राम का वध करूँगा। यदि इसके विपरीत वह मेरा सहार कर डाले, तो तुम भी जानकी को मारकर शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर जाना।’

१३६ रावण को मन्दोदरी का राघव की महिमा बताना

तब वह रमणी अपने पति को देखकर कहने लगी—‘हे राक्षसेंद्र, आप रघुराम को युद्ध में जीत नहीं सकते। आप ही क्यों, देवासुर भी मिलकर उन्हें जीत नहीं सकते। आप उन्हें एक साधारण राजा मत मानिए। वे पुराण-पुरुष है। उन्होंने पूर्वकाल में मत्स्या-वतार लेकर सौमक का सहार किया और श्रुतियों का उद्धार किया था। उन्होंने कमठ का रूप लेकर मदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। वराह का अवतार लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष का सहार करके पृथ्वी का उद्धार किया था। उन्होंने नृसिंह का रूप धरकर क्रुद्ध हो नीच राक्षस का वध किया और प्रह्लाद की रक्षा की थी। वामन का अवतार लेकर उन्होंने बलि से याचना करके उसे बाँधा था। जमदग्नि के यहाँ जन्म लेकर उन्होंने महाशूर कार्तवीर्य का सहार किया और समस्त ससार को कश्यप ब्रह्मा को दान में दे दिया। अपनी समस्त शक्ति को एकत्र करके, अब तुम्हारा सहार करने के निमित्त, अपना तेज चारो ओर व्याप्त करते हुए उन्होंने दशरथ का पुत्र होकर जन्म लिया है। उनकी महिमा तथा उनके कार्यों का वर्णन मैं कैसे करूँ? इसी राम ने अपने बाल्य-काल में अपने महान् विक्रम तथा विशाल शक्ति का परिचय देते हुए कौशिक के यज्ञ की रक्षा ऐसे की कि कौशिक तथा अन्य प्रमुख दिक्पाल भी उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर, उस मुनि से उन्होंने शत-सहस्रादि सख्या में दिव्यास्त्र प्राप्त किये। उन्होंने जनक को सतुष्ट करते हुए अपनी अनुपम शक्ति का परिचय देकर शिव-धनुष का भग किया और दैव-नियोग से वैदेही को अपनी धर्म-पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसी राम ने भार्गव राम

का गर्व-भंग करके अपने बाहुबल का परिचय दिया । अपने पिता की आज्ञा से वे मुनि-वृत्ति स्वीकार करके वनवास करने आये हैं । उन्होंने अपनी प्रशसनीय शक्ति से विराध का वध किया, शूर्पणखा को दड दिया और अपने चरण-स्पर्श से दण्डक वन की भूमि को पुण्यभूमि बना दिया । उन्होंने खर, दूषण आदि वीर राक्षसों को उनके चौदह सहस्र सैनिकों के साथ मार डाला, मारीच का सहार किया और भयकर आकारवाले कबध का वध किया । जिस बालि ने आपके पौष को कुठित करके, अपनी पूँछ से आपको बाँधकर चारों समुद्रों में डुबोकर अपनी अनुपम शक्ति का परिचय दिया था, उसे एक ही बाण से गिराकर, सुग्रीव का राजतिलक कर दिया । अपने बाणों की अग्नि-ज्वालाओं से समुद्र को सुखा दिया । युद्धभूमि में कुभकर्ण का सहार किया । इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने युद्ध में अतिकाय तथा इन्द्रजीत का वध किया । राम भूपाल कदाचित् ही कभी क्रोध करते हैं । यदि वे क्रुद्ध हो जायें, तो इंद्रादि देवता भी उनके समक्ष खड़े नहीं रह सकते । हे दैत्यनाथ, ऐसे वसुधेश्वर की पत्नी को धोखे से ले आना क्या, आपको उचित था ? क्या आप राम के नित्यसत्त्व को नहीं जानते ? क्या, आप उनकी महिमा से परिचित नहीं हैं ? न जाने किस पाप का फल है कि राम की शक्ति की श्रेष्ठता आपको सूझती नहीं है । हे देव, अब भी आप जानकी के साथ-साथ अपने समस्त राज्य को राम को समर्पित कीजिए और उनके निष्ठुर बाणों की अग्नि-ज्वालाओं से अपने को बचा लीजिए । अबतक हमने राज-भोग का अनुभव किया, यही पर्याप्त है । अब हम तपोवृत्ति स्वीकार करके वनों में विचरण करेंगे । यदि आपका अंत हो जायगा, तो मैं आपके साथ अग्निमुख में गिरकर जल भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे यह वर दिया है कि जरा-मृत्यु मेरा स्पर्श नहीं करेगी । अब मैं राज-सुख भोगना नहीं चाहती । आप इस मार्ग का त्याग कीजिए । मेरे पिता का वर दुस्तर है । अब मुझे या तो सरमा की या जानकी की सेवा करनी पड़ेगी ।”

तब दशकठ उस पिकबैनी को देखकर उत्कट क्रोध से कहने लगा—“हे सुदरी, तुम इतना दुखी क्यों होती हो ? क्या, मेरी दशा इतनी दीन हो गई है ? पुत्र, बधु, मित्र, सेवकों का वध कराने के पश्चात्, देव-दानवों को भी भयभीत करनेवाले अपने प्रताप को तजकर, मैं केवल अपने प्राणों की रक्षा क्यों करूँ ? इंद्रजीत जैसे पुत्र का वध कराने के पश्चात्, मैं जीवित क्यों रहूँ ? मैंने गरुड, उरग, अमर तथा गधवों को जीत लिया है, पुण्यात्माओं का विनाश किया है और तपस्वियों का वध किया है । अब यदि मैं स्वयं तपस्वी बनने जाऊँ, तो क्या सभी तपस्वी मेरा उपहास नहीं करेंगे ? इसलिए हे कमलाक्षी, तुम्हारे ये वचन आचरण करने योग्य नहीं हैं । अब मैं किसी भी प्रकार से हो, राधवों का वध कर ही डालूँगा । अनुपम बल से समन्वित, मैं किसी भी दशा में सीता को नहीं दूँगा । यदि मैं राम के बाणों से मारा जाऊँगा, तो मैं जिस वैकुण्ठ की इच्छा करता हूँ, वह स्वयं मेरे समक्ष आ जायगा । हे सुदरी, तब मुझे न तुम्हारी आवश्यकता रहेगी, न इस लंका की । मैं अपनी इच्छित मुक्ति-पथ को प्राप्त करूँगा । मेरी मृत्यु के पश्चात्, तुम शुभलक्षण श्री से रहित हो सूर्य-विहीन कमलिनी की भाँति, शशिहीन कुमुदिनी की

भाँति रहना ।” यह सुनकर मदोदरी लज्जा से अभिभूत हो प्रत्युत्तर देने से भयभीत होती हुई चुप हो गई ।

१३७. रावण का तृतीय युद्ध के लिए प्रस्थान

उसके पश्चात् रावण अत्यधिक उत्साह एव हर्ष से युद्ध की तैयारियाँ करने लगा । उसने आदित्य को त्रस्त करते हुए तथा ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करते हुए रण-भेरी का निनाद कराया और सेना को एकत्र करने के लिए भटो को भेजा । फिर, उसने अपनी विशाल भुजाओं को रत्न, केयूर तथा ककणो से अलंकृत किया, इन्द्र आदि देवताओं को जीतने के उपलक्ष्य में स्मारक-स्वरूप एक वीर-ककण पहना, अपने सभी करो में भयकर चद्रहास, धनुष, बाण, गदा तथा चक्रों को धारण किया और अपने नेत्रों से क्रोधाग्नि की काति को चारों ओर व्याप्त करते हुए बाहर निकला । फिर, वह अच्छी तरह निर्मित सोलह चक्रवाले दो करोड़ क्षुद्र घटिकाओं के निनाद से भयोत्पादक तथा एक सहस्र षोडश जुते हुए रथ पर इस प्रकार आरूढ हुआ, मानो राम के शरो से मृत होकर वैकुण्ठ के रथ पर आरूढ हो रहा हो । महान् बलशाली तथा रथ-कला-निपुण कालकेतु उस रथ को चलाने लगा । रावण के ऊपर अनेक चद्रिका-सम उज्ज्वल छत्र तने हुए थे । रावण के श्रेष्ठ साहस का परिचय देनेवाले, राहु के मस्तक से अकित तीन ध्वजाएँ, आकाश का स्पर्श करती हुई ऐसे फडफडा रही थी, मानो सूर्य-मंडल एव चंद्र-मंडल को निगलने के लिए उद्यत राहुत्रय हों । (सेना की) भेरी, मृदंग आदि के गभीर निनादों से समुद्र उमडने लगे और उनके उमडने के प्रयत्न के फलस्वरूप पृथ्वी काँप उठी । रावण के साथ ही साथ, गज, अश्व, रथ एव बल-शाली तथा उद्भट भटो का समूह भी निकला और सभी दिशाओं में व्याप्त हो गया । उस सेना के साथ ही प्रलय-काल के आदित्यों की भाँति अद्भुत शौर्य के साथ खड्गरोम, वृद्धिकरोम, सर्परोम तथा अग्निवर्ण नामक राक्षस भी युद्ध के लिए निकल पड़े । तब सारे समुद्र क्षुब्ध हुए, समस्त लोक भयभीत हुआ, दिग्गज घँस गये और सभी कुलपर्वत काँप उठे ।

इस प्रकार की युद्ध-सज्जा के साथ जब रावण निकला, तब आकाश में देवता उसे देखकर आपस में कहने लगे—“रावण जिस समय इन्द्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए क्रोध से निकल पडा था, उस दिन भी उसकी युद्ध-सज्जा तथा क्रोध आज के समान नहीं थे । आज अवश्य वह अपनी सारी शक्ति के साथ लक्ष्मण से युक्त राघव पर आक्रमण करेगा । ऐसा सोचते हुए रत्नमय विमानों में आरूढ हो सभी देवता एकटक हो रण की गति देखने लगे । वानर-सेना-रूपी अरण्य को जलाने के लिए आनेवाले दावानल की भाँति अत्यधिक वेग से आक्रमण करनेवाली राक्षसों की सहस्रों सेनाओं को देखकर वानर-वीरो ने अगद के साथ अट्टहास करते हुए बड़े उत्साह से सिंह-गर्जन किया । फिर, विशाल वृक्षों, भारी पर्वतों तथा गिरि-शृंगों को उठाये हुए पर्वताकार वानर-सैनिकों ने राक्षस-सेना पर इस प्रकार आक्रमण किया, जैसे दक्षिण समुद्र तथा उत्तर समुद्र एक दूसरे से टकरा गये हो । तब दानवों ने क्रोध से जलते हुए दहाडो, धमकियों तथा हुकारों के निनादों से आकाश को भरते हुए अपने मदमत्त गजों के समूह को उनके ऊपर चलाते हुए बहुत वेग से जाने-

वाले अश्वो को, उनपर दौड़ाते हुए रथो को अधाधुध चलाते हुए, पैदल सेना से उन पर भयकर आक्रमण कराते हुए, उनका सामना किया । फिर, उन्होंने करवाल, मूसल, मुद्गर^२ परशु, तोमर, शर तथा चक्रो से वानरो पर प्रहार किया और उन्हें काटा, चुभोया, रौंदा तथा पृथ्वी पर गिराकर नाना विधि से उनका सहार किया । इस भयकर आक्रमण से क्रुद्ध होकर वानर-वीरो ने उद्धत रण-कौशल प्रदर्शित करते हुए निकट ही रहनेवाले पर्वतो, असख्य गिरि-शृंगो, वृक्षो तथा शिलाओ को उठाकर राक्षसो पर फेंका । फिर, घोडो पर कूदकर घुडसवारो को पदाघातो से नीचे गिराते, भयकर रूप धरकर गज-समूहो पर पिल पडते और पहाडो से उन पर प्रहार करके महावतो को मारते, और हाथियो के कुभ-स्थल पर ऐसा प्रहार करते कि हाथी पृथ्वी पर गिर पडते । फिर वे अश्वो, सारथियो तथा रथिको के साथ रथो को एकदम ऊपर उठा लेते और उसे रण-मध्य में फेंककर उसको चूर-चूर कर देते । सारी पृथ्वी उस समय काँप उठती । इतना ही नहीं, वे पदचर सेना पर पर्वतो तथा वृक्ष-समूहो से भयकर प्रहार करते, उन्हें दाँतो से काटते, हथेलियो से मारते, पैरो से कुचलते, नखो से नोचते, पूँछो से अच्छी तरह पीटते और अपने हाथ के मुक्को से उनपर प्रहार करते ।

पनस, नील, अगद आदि प्रमुख वानर इससे सतुष्ट न होकर दुवार गति से आकाश की ओर उडकर और वहाँ से राक्षस-सेना पर पहाडो की ऐसी वर्षा करते, जैसे प्रलय के समय बिजलियो की वर्षा होती है । इस प्रकार की शैल तथा पाषाणो की वर्षा से राक्षस-सेना में हाथी गिरे, महावत जहाँ के तहाँ मरे, अश्व पृथ्वी पर लोटने लगे और उनपर अश्वारोही गिरने लगे, रथ पिस गये, सारथी समाप्त हो गये, शव रौंदे गये, मास-खड बिलर गये, मुकुट पृथ्वी पर लोटने लगे, मस्तक फूटने लगे, रक्त की धारा बहने लगी, शरीर छिन्न-भिन्न होने लगे, अँतडियाँ छितराने लगी और खड्ग टूटने लगे । उस समय वह रण, विविध भोग-विलसित पर्जन्य* (मेघ-इन्द्र) की सपत्ति की भाँति महान् अन्न-मातग* (ऐरावत-श्वेत गज) के मद से सिंचित था, अति रौद्र रुद्र-विहार (कैलास पर्वत-श्मशान) की भाँति आहत गज एव असुरो से युक्त हो पिशाचो के लिए आनद-दायक था । अक्षीण राम-कटाक्ष के समान प्रेक्षण-हृष्ट-विभीषण* (देखने में भयकर, देखकर सतुष्ट विभीषण) था, कलियुगात के भयकर काल के समान बल-रहित एव विध्वस्तधर्मा* (धर्म-भ्रष्ट, नीति-भ्रष्ट) था; रात्रि के उपरांत विकसित कमलिनी* (सरोवर-कमलिनी) की भाँति शिलीमुखो* (बाण-भ्रमर) से आश्रित पुण्डरीक* (कमल-श्वेतच्छत्र) समूह के समान था, उदार व्यक्ति के सुंदर एव शुभप्रद सदन की भाँति आरक्त* (अनुरक्त, रक्त से सीचे), मार्गणो* (बाण-याचक) से परिपूर्ण था, शाश्वत-पुण्यमूल नदी के पति (समुद्र) की भाँति हरि-शक्ति-निर्मथित* (साँप से मथित, वानरो से मथित) हो भयकर दीखता था और निर्मल वेद-विहित यज्ञ की भाँति देव-लोक के चित्त को प्रसन्न करनेवाला था । ऐसे भयकर रण में रक्त-सिक्त हो, अँतडियाँ-रूपी प्रवालसमूह, रथ-रूपी नावें, टूटकर गिरे हुए रथ-चक्र-रूपी कच्छप-समूह, शव-रूपी मगर, कटकर गिरी हुई भुजाएँ-रूपी साँप, आयुधो का चूर्ण-रूपी रेत, गज-समूह-रूपी विशाल पर्वत, दष्ट-रूपी तिमि-तिमिगल,

*विहित शब्द विलुप्त हैं ।—ले०

बृहत्काय अश्व-समूह-रूपी चल एव उत्तुंग तरंगों, विविध अश्वों की लार-रूपी उज्ज्वल फेन, धवल आतपत्र-रूपी हस, असख्य मुकुटों की प्रभा-रूपी वाडवाग्नि-शिखाएँ, बिखरे हुए मास-खड-रूपी मणियाँ, सतुष्ट निशाचर, प्रेत एव वैंतालो का अट्टहास-रूपी भयकर घोष, रघुराम-चद्र-रूपी चद्र, उनकी हास्य-द्युति-रूपी चद्रिका से युक्त हो रक्तसमुद्र-रूपी समुद्र, उमड रहा था ।

१३८. वानरों के द्वारा खड्गरोम आदि राक्षसों का वध

तब हनुमान् को असुरेंद्र पर आक्रमण करने के लिए उद्यत होते देखकर पर्वताकार-वाला अनुपम साहसी, रुचिर खड्ग से सपन्न, खड्गरोम क्रुद्ध हुआ और कहने लगा—'हे पवनकुमार, उधर कहाँ जा रहे हो ? उधर जाने की क्या आवश्यकता है ? मैं तो यहाँ हूँ ही, इधर आओ ।' यह सुनकर पवनपुत्र उसपर कूद पडा और उसके शरीर के रोमों के पौने खड्ग धाराओं में डूब-सा गया । किंतु किसी तरह वह उनसे बाहर निकला और भयकर रूप धारण करके अपनी उन्नत शक्ति को प्रकट करते हुए, कुलपर्वत की समता करनेवाले एक विशाल पर्वत को उठाकर भयकर गर्जन करके उसे उस राक्षस पर ऐसा फेंका कि पृथ्वी काँप उठी । किंतु उसने अपने रोम-खड्ग की धाराओं से उसको खडित कर दिया और वानर-सेना को काटते हुए हनुमान् पर आक्रमण किया । तब हनुमान् ने एक विशाल पर्वत को उठाकर उस राक्षस-वीर पर ऐसा प्रहार किया कि वह वषट् के आघात से आहत शैल की भाँति गिर पडा ।

तब सर्परोम ने भयकर सर्प की भाँति क्रुद्ध हो, बड़े दर्प से अगद पर आक्रमण किया और अपने रोम-सर्प के समूह से उसे पीडित किया । तब अगद ने प्रलय-काल के यम की भाँति जलते हुए उस राक्षस पर अपनी हथेली से ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर फूट गया और रक्त की धाराएँ बहने लगी । फिर भी, रोषाग्नि उगलते हुए उस राक्षस ने भयकर रूप धारण करके अगद के अगो पर अपने रोम-सर्पों से आघात किया । तब अगद ने अत्यधिक क्रोध से उस राक्षस के सिर पर अपनी भयंकर मूष्ठी से प्रहार किया और उसे नीचे गिराकर पैरों से रौदते हुए उसका सिर तोडकर फेंक दिया ।

तब वृश्चिकरोम ने भीषण रण-कुशल नील पर आक्रमण किया और विष-ज्वालाओं को उगलनेवाले अपने रोम-वृश्चिकों के प्रयोग से नील को अत्यधिक पीडा पहुँचाई । इसको सहने में असमर्थ होकर नील ने उस दानव की परवाह किये बिना एक विशाल शाल-वृक्ष को उसपर फेंका । तब उस राक्षस ने अपने विष-भरे रोम-कटकों से उस वृक्ष को तोड डाला । यह देखकर नील ने क्रोधातुर हो, अपने भयकर बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए असख्य शाखाओं से युक्त एक विशाल वृक्ष को उखाडा और उससे उस राक्षस के वक्ष-स्थल पर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण जाते रहे । सभी देवता हर्ष से फूल उठे ।

उसके पश्चात् शत्रुभञ्जक एव अकुठित पराक्रमी अग्निवर्ण ने प्रचड क्रोध से विशाल वनों को दुर्बार गति से जलानेवाली दावाग्नि के समान अपने अगो में अगणित अग्नि-शिखाओं को दीप्त करके वानर-सैनिकों को जलाकर भस्म करते हुए आगे बढा । राम ने उसे क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा, वानर-वीरों का पराभव होते भी देखा, कर्णार्द्रचित्त

होने के कारण वे उसके अत्याचारों को सहन न कर सके, किंतु उसकी भयकरता को देखकर सिर कँपाते हुए विभीषण से कहने लगे—‘हे विभीषण, मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ कि यह कौन आ रहा है । पता नहीं कि रावण की आज्ञा से स्वयं अग्निदेव युद्ध करने के लिए आ रहे हैं या कोई राक्षस-वीर ही आ रहा है । यह कौन है ? इसका परिचय मुझे दो ।’

तब विभीषण ने कहा—‘हे देव, यह अग्निवर्ण है । यह अपने शरीर से अग्नि-ज्वालाओं को प्रज्वलित करके पर्वतों को भी भस्म कर सकता है, यह अखंड वीर एवं महान् धर्मन्दी है ।’ यह सुनकर राम आश्चर्यचकित हुए । फिर भी, उसके भयकर औद्धत्य को देखकर उन्होंने उस पर वारुणास्त्र चलाया । तब उस अस्त्र ने समस्त आकाश को घने बादलों से आच्छादित कर दिया और अविराम गति से वर्षा करके उस राक्षस के द्वारा प्रज्वलित अग्नि-ज्वालाओं को बुझाकर भयकर ध्वनि के साथ उस राक्षस का वध कर डाला ।

युद्ध में अग्निवर्ण को इस प्रकार गिरते हुए देखकर, रावण ने आँखों से अग्निवर्षा करते हुए, प्रलय-काल के सूर्य की भाँति जलती हुई दृष्टियों से राम को देखकर कहा—‘हे राम, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते ? अपने निष्ठुर वज्र की दुर्वार धारा से कुलपर्वतों को खडित करनेवाले इंद्र भी यदि बड़े, उद्धतता से अपने देवताओं के साथ युद्ध में मेरा सामना करे, तो मैं उसे भी परास्त कर दूँगा । तब, मैं तुम्हारी क्या परवाह करूँगा ? क्या, तुम्हारे जैसे क्षुद्र प्राणियों का प्रयत्न मुझे परास्त कर सकेगा ? अब तुम अपनी शूरता प्रकट करो और अत तक मेरा सामना करते रहो । मैं अपने शस्त्रास्त्रों से तुम्हें गिरा दूँगा और तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूँगा ।’

रघुराम उस दुरात्मा का प्रलाप सुनकर हँस पड़े और मत्त सिंधुर (हाथी) के चिघाड़ सुननेवाले सिंधुरातक मत्त सिंह की भाँति चुप ही रहे । तब रामानुज ने क्रुद्ध होकर रावण पर आक्रमण किया और उस पर भयकर बाण चलाने लगे । तब रावण ने उन शरों को सहज ही खडित कर दिया और उनकी परवाह किये बिना भानु पर आक्रमण करने के लिए आनेवाले स्वर्भानु (राहु) के समान भानुवशाधीश (राम) पर आक्रमण करके दारुण वज्रधर की समता करनेवाले बाणों से उन्हें ढक दिया । तब राम ने क्रोधोन्मत्त हो, अगारों को उगलनेवाले निष्ठुर अस्त्रों को उस राक्षस पर चलाया । तब रावण उन बाणों का सामना करने के लिए युद्ध-भूमि के मध्य आया ।

१३९. इंद्र का मातलि के द्वारा राम को रथ भेजना

तब इंद्र ने राम को देखकर मातलि से कहा—‘देवताओं के हित के लिए ही राघव राक्षसों से घोर युद्ध कर रहे हैं । किंतु वे पदाति हो पृथ्वी पर खड़े हैं और राक्षस रथ पर आरूढ़ हैं । ये लोकोन्नत (राम) दुखों से पीड़ित हो उस कुमार्गी के सामने नीचे खड़े हैं । वेद-पल्लवों पर विहरण करनेवाले, सुखी तथा सपन्न व्यक्ति आज कठोर रणभूमि पर खड़े हैं । कमला के मन-रूपी रथ पर अत्युन्नत सुख-राशि में डोलनेवाले आज पृथ्वी पर खड़े हैं । अतः, हे मातलि, तुम शीघ्र उनके लिए दिव्य रथ पृथ्वी पर ले जाओ ।’

तब वायु तथा मन के वेग से जानेवाले अश्वो से युक्त कनक-दंडो में बँधी हुई पताकाओ से विलसित, महनीय कातियुक्त मणि-समूहो से जटित, बालसूर्य के समान दीप्त होनेवाले रथ को लिये हुए मातलि पृथ्वी पर उतर आया और राम के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़े हुए राम से निवेदन किया—‘हे देव, हे राघव-भूपाल, हे समस्त देवताओ के आराध्य, हे भक्त-जन-साध्य, इद्र ने आपके लिए शर, चाप, कवच आदि से युक्त दिव्य रथ भेजा है। अब आप कौशिक की आज्ञा के अनुसार इस वज्र-कवच को धारण कीजिए और इस दिव्य रथ पर आरूढ होकर इन आयुधो से उस दुर्मदाघ राक्षस का सामना करके उसपर विजय प्राप्त कीजिए। पूर्वकाल में मेरे सारथी के रूप में रहते हुए इद्र ने समस्त दानवो को जीत लिया था।’ तब राम ने विभीषण से परामर्श करने के पश्चात् उस रथ की परिक्रमा की और अपने शरीर की उज्ज्वल काति को चौदहो भुवनो में आकाश तक व्याप्त हुए वानरो के जय-निनादो के बीच, उस रथ पर ऐसे आरूढ हुए, जैसे कमल-बधु (सूर्य) उदयाद्रि पर आरूढ होता है। उस समय समस्त आकाश हिलने लगा और शरत्-कालीन मेघ एव सध्या के मेघो की समता करनेवाले गरुड, उरग तथा देवताओ के विमानो से सारा आकाश भर गया। इस दृश्य को देखने के लिए एकत्र सुर, खेचर तथा किन्नर अत्यंत हर्ष तथा भय से अभिभूत हो कहने लगे—‘राम-रावण का यह द्वंद्व दो पर्वतो का द्वंद्व है। ये समुद्रयुगल है, पावकद्वय है, आकाशद्वय है। आज ये दोनो आपस में भिड रहे हैं। यह समान जोडी है। न जाने क्या होगा।’ विजय की आकाक्षा एव विजय की उत्कट अभिलाषा से राम तथा रावण एक दूसरे से भिड गये। तब समस्त जग कपित हुआ, पहाड प्रकपित हुए, दोनो ओर की सेनाएँ आकपित हुई, उनकी दृष्टि-रूपी वज्रपात से बिजलियाँ पिसकर आकाश में बिखर गई, दोनो पक्षो की सेनाओ के सिहनाद से स्वर्ग आदि लोक क्षुब्ध हो उठे। वे दोनो प्रवीण धनुर्धर, अन्योन्य विजय की इच्छा रखते हुए अपने रथो को विविध रीतियो से चलाते हुए, सूर्य तथा अग्नि-सम प्रचंड, वज्र के समान तीक्ष्ण शरो को करो, कडो, पाश्वो, स्कधो, वक्षो, ललाटो, जाँघो तथा पसलियो पर चलाकर एक दूसरे को पीडित करने लगे। वे दोनो आपस में भिडते, एक दूसरे पर रोब जमाते, बाणो से युद्ध करते। उस समय उनकी चाल-ढाल, पराक्रम एव साहस देखकर आश्चर्य होता था। वे दोनो सफल पराक्रमी वीर जब एक ही समय में बाण चलाने लगते, तब यह जानना असभव हो जाता कि कब वे तरकस में रखे तीरो को निकालने के लिए अपने हाथ फैलाते, कब शरो को धनुष पर चढाते, कब धनुष की प्रत्यचा खीचते, कब लक्ष्य साधते और बाण छोडते। उन दोनो के द्वारा वेग से चलाये जानेवाले भयकर बाणो को गिनना तो असभव ही हो गया, किंतु यह कहना भी असत्य नहीं है कि उनके बाण प्रचंड कोदण्ड-रूपी रवि-मंडल से निकलनेवाले चंचल किरणो के समान एक के पीछे एक चलते थे। धनुर्विद्या में पारगत तथा अक्षय तूणीरो से सपन्न वे दोनो वीर एक शर के पीछे दस शर, दस के बदले सौ शर, सौ के बदले सहस्र शर, सहस्र के बदले दस सहस्र शर, दस सहस्र के बदले एक लाख शर, एक लाख के बदले एक करोड प्रतिशर चलाते थे और सभी शर एक ही समय में राम-रावण पर लग जाते थे।

१४०. राम का रावण के बाणों का प्रतिबाण चलाना

तब देवताओं के शत्रु रावण ने अपने धनुष की डोरी को खींचकर शीघ्र गति से देव तथा गधवों के बाण चलाये । उनके आने का ढग देखकर समस्त अस्त्रों के ज्ञाता राम ने विना विलंब किये, देव तथा गधर्व-बाणों को चलाकर उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर दिया । तब क्रोधोन्मत्त हो रावण ने राम पर राक्षस-बाण चलाया । वह बाण उभरी हुई आँखें, दीर्घ दष्ट, खुरदरे, छोटे तथा घुँघराले केश तथा विशालकाय दानवों का रूप धरकर आगे बढ़ा । यह देखकर रघुकुलाधीश ने रोष से वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया और जिस प्रकार सूर्य की काति अघकार को नष्ट करती है, वैसे ही उसने राक्षस-बाण के प्रताप को नष्ट कर दिया । तब रावण ने नागास्त्र का संधान करके चलाया । उसको चलाते ही, उस महा बाण से दस, बीस, बारह, दो, तेरह, तीन, पंद्रह तथा पाँच शिरोवाले भयकर सर्प अपने शिरो पर उज्ज्वल कातियुक्त मणियों को धारण किये हुए निकल पड़े । उद्धत गति से आनेवाले वे सर्प ऐसे दीख रहे थे, मानो कि सर्प-सेना राम पर इस विचार से आक्रमण करने के लिए निकली हो कि राम गहड़वाहन है । अपनी अत्युज्ज्वल ज्वालाओं को समस्त आकाश में व्याप्त करते हुए आनेवाले उन सर्पों को देखकर राम ने गरुडास्त्र चलाया । तब उससे गहड़ के आकारवाले असंख्य बाण निकले और अपने पखों की फडफडाहट से उत्पन्न वायु से पर्वतों को भी हिलाते हुए वे आगे बढ़े और बीच में ही उन नाग-बाणों को तोड़ डाला । यह देखकर देवता आकाश से हर्ष-निनाद करने लगे ।

उसके पश्चात् राघव ने क्रुद्ध होकर दैत्यराज पर अग्नि-बाण चलाया । वह बाण, धूम एव स्फुर्लिंगों से दिशाओं को जलाते हुए, अपनी ज्वालाओं को चारों ओर व्याप्त करते हुए रावण पर आक्रमण करने चला, तो रावण ने भयकर वारुणास्त्र चलाया । तब उस अस्त्र ने समस्त आकाश में घनघोर बादल व्याप्त कर दिया और घोर जल-वृष्टि करके अग्नि-बाण के प्रताप को नष्ट करके भयकर गर्जन किया । तब राम ने उस शर पर वायव्यास्त्र चलाकर उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया । तब उस राक्षस ने गजमुखास्त्र का प्रयोग किया । उस अस्त्र के प्रयोग से असंख्य गज-समूह अपने गड-स्थलों से मद-जल की धाराएँ बहाते हुए, राम पर आक्रमण करने चले । तब राम ने नृसिंहास्त्र चलाया । उस बाण से असंख्य सिंह बादलों के समूह के समान अपने घोर गर्जनों से दिग्गजों को विचलित करते हुए, अपने कुलिश-सम पखों से हाथियों के कुभस्थलों को चीरते हुए उन्हें मार डाला । तब देवताओं ने राघव की प्रशंसा की ।

१४१ रावण का राम पर शूल चलाना

तब रावण ने क्रुद्ध होकर प्रलय-काल की अग्नि-ज्वालाओं को उगलनेवाला, समस्त-लोक-भयकर शूल उठाया और अपने सिंहाद से पृथ्वी को कँपाते हुए, समुद्रों को क्षुब्ध करते हुए, समस्त दिशाओं को गुंजायमान करते हुए, सभी भूतों को भयभीत करते हुए कहने लगा—'हे राम, इस शूल की अग्नि से मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को भस्म कर दूँगा और जिन वीरों ने युद्ध में तुम्हारा सामना करके स्वर्ग को प्राप्त किया है, उनकी पत्नियों की अश्रुधारा को रोक दूँगा ।' इस प्रकार, कहते हुए राम पर उसने वह

शूल चलाया । तब राम ने प्रलय-काल की अग्नि पर वर्षा करनेवाले इन्द्र की भाँति अद्भुत तथा पौने बाणो की वर्षा की, किंतु उन बाणो से रावण का शूल नष्ट नहीं हुआ । वह शूल उन सभी बाणो को खडित करते हुए राम की ओर बढ़ने लगा । तब राम ने देवेंद्र की भेजी हुई शक्ति लेकर उस पर चलाया । तब उस शक्ति ने घटिकाओ का रव करते हुए, अग्नि-ज्वालाओ को उगलते हुए, यक्ष, देवता तथा खेचरो को आनद देते हुए, राक्षस-लोक को भयभीत करते हुए, मन तथा वायु के वेग से आनेवाले रावण के शूल को भस्म कर दिया । तब रावण ने क्रुद्ध होकर अपने दोनो हाथो में दस धनुष धारण करके भयकर गर्जन करते हुए राम को शर-वर्षा में डुबो दिया । किंतु राम ने अपने एक ही कोदड से उसके सभी शरो को काट डाला । तब रावण ने मद मात्सर्य, अभिमान एव हठ के साथ आँखो से अग्नि की वर्षा करते हुए, रघुराम पर घोर शर-वृष्टि की । उससे सतुष्ट न होकर उसने दस बाणो से मातलि को तथा दस और बाणो से अश्वो को सज्ञाहीन कर दिया और एक विषम अस्त्र को चलाकर रथ की ध्वजा को काट डाला । वानर तथा देवता विपुल चिंता के भार से विवश-से हो गये । समस्त भुवन भीत हो गया, बुध (ग्रह) रोहिणी में पहुँचकर पीडा पहुँचाने लगा । अपने महान् तेज से भय उत्पन्न करते हुए मंगल ग्रह विशाखा में पहुँच गया । चचल एव भयकर गति से समुद्र उमडने लगे, उत्तंग लहरें आकाश को छूने लगी । वाडवाग्नि की लपटें धुएँ के समान ऊपर उठने लगी । सूर्यबिम्ब से टकराती हुई उल्काएँ भयकर दीप्ति के साथ गिरने लगी । सूर्य भी तेजोहीन होकर क्षीण प्रकाश से चमकने लगा ।

१४२. अगस्त्य के द्वारा राम को आदित्यहृदय का उपदेश

मैनाक की भाँति अविचल होकर दशकठ जब बड़े वेग से बाणो को चलाने लगा, तब राघव सभ्रमित हो देखने लगे । तब अगस्त्य मुनि वहाँ आये और राम को देखकर कहने लगे—
“हे राम, हे महाबाहुबली, युद्ध में अवश्य विजय दिलानेवाली, गोपनीय ‘आदित्यहृदय’ नामक मन्त्र का आप भक्ति-भाव से अनुष्ठान कीजिए । उस महामन्त्र के जप से आप अवश्य शत्रुओ को जीत सकेंगे । इतना ही नहीं, वह आयु को बढ़ाता है, दुःख का दमन करता है और समस्त कल्याण का कारण बनता है । हे समस्त सुरासुरो के वध, कमल-बधु सूर्य की पूजा आपको करनी चाहिए । यही इस ससार के नेत्र-समान है और अपनी किरणो के द्वारा समस्त ससार में विचरण करता है । ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ब्रह्म-कल्प के प्रारंभ में सूर्य का रूप धारण किया था, इसलिए आपको उचित है कि सूर्य को समस्त देवताओ का प्राण मानें । जो व्यक्ति इस कमल-बधु की स्तुति करता है, उसे युद्ध में अवश्य विजय मिलती है ।”

इतना कहकर अगस्त्य मुनि अपने आश्रम को लौट गये । राम ने बड़ी भक्ति के साथ सूर्य-मन्त्र का जप किया और महोन्नत शक्ति से विलसित होते हुए, रावण का औद्धत्य देखकर क्रोध से अपनी आँखो से अग्नि उगलने लगे । उनकी भौहें तन गई और उन्होने रावण के रथ में जुते हुए भयकर अश्वो पर श्रेष्ठ बाणो से प्रहार किया और तीन शरो से रावण के ललाट पर प्रहार करके उसे रक्त-सिक्त कर दिया । रक्त-सिक्त अर्गों से

युक्त लंकेश्वर तब ऐसा दीखने लगा, मानो रामचन्द्र के शर-रूपी वसत के आगमन के प्रभाव से विकसित तरुण, अरुण अशोक वृक्ष हो। तब राक्षसपति ने रोष से राम के विशाल वक्ष पर एक सहस्र बाण चलाये। वे बाण काकुत्स्थ-वशज के शरीर में प्रवेश करके आश्चर्यजनक रीति से उनके शरीर के पार निकल गये और पृथ्वी में धँसकर पाताल में प्रवेश कर गये, मानो वे बता रहे हो कि अधम राक्षस के द्वारा प्रयुक्त हो, देवताओं के दुर्भाग्य से विचलित न होकर अपनी विषम शक्ति को प्रकट करते हुए, निर्मल गुणों से रहित हो, धर्म-मार्ग को तजकर, अपने औद्धत्य से राघव को दुख देनेवाले बाण अधोगति के सिवा सद्गति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्षतो से बहनेवाले रक्त से राघव लथपथ हो गये और प्रलय-काल की भीषण अग्नि-ज्वालाओं की भाँति जलते हुए, आँखों से निकलनेवाले अग्नि-ऋणों को आकाश-भर में व्याप्त करते हुए प्रलय के समय जहाँ-तहाँ विचरनेवाले यम के समान भयकर तेज से युक्त हो, प्रचंड मार्तण्ड-मण्डल की किरणों के समान तेजस्वी शर-समूह को चलाकर रावण के गर्व, मद तथा शक्ति का नाश करते हुए उसका सारा शरीर ऐसा जर्जर कर दिया कि वह निश्चेष्ट-सा रह गया। रघुराम के बाणों के वेग को देखकर रावण निर्वेद से अभिभूत होकर खड़ा रह गया।

१४३. राम-रावण का परस्पर दौषारोपण

तब प्रताप-भास्कर राघव ने दशकठ को देखकर कहा—“क्यों रे रावण, निर्वेद से चेष्टाहीन होकर तू ऐसे क्यों खड़ा है? तू तो कहता था कि मैं कभी हाँसूँगा नहीं। वे दर्प-पूर्ण वचन अब कहाँ गये? रे दशकठ! अपने भाई कुबेर का अपमान करके, एक पराये व्यक्ति की तरह उसका पुष्पक विमान ले आना और वन में हमें धोखा देकर सीता को चुराकर ले आना, क्या ये सब वीरोचित कार्य हैं? क्या, इन्हीं कार्यों पर तू गर्व करता था? अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण तू मेरे दृष्टिपथ में पड़ गया है। अब मैं तेरा सहार किये बिना कैसे छोड़ दूँ? मैं न तुझे छोड़ूँगा और न तेरी लका को छोड़ूँगा, चाहे हरिहर और ब्रह्मा ही तेरी सहायता करने के लिए क्यों न आवें, फिर भी मैं युद्ध में तेरा वध अवश्य करूँगा, तुझे कदापि छोड़ूँगा नहीं। रे रावण, आज मैं तेरा रक्त-मास समस्त भूतों को खिलाऊँगा। तू क्रूर है, अति कामातुर है, दुष्ट-बुद्धि है, और देवताओं का द्रोही है, इसलिए तू युद्ध-भूमि से भाग भी जायगा, तो भी तेरा पीछा करके तेरा सहार करना मेरे लिए महान् पुण्य का कार्य होगा। तेरी मृत्यु अब तेरे निकट आ पहुँची है, इसलिए तुझे ऐसी बातें कहने से कोई प्रयोजन नहीं है। आज मैं तेरे पराक्रम, बाहुबल तथा वैभव को समाप्त करूँगा। क्या, तू नहीं जानता कि मैंने तेरे भाई भुवन-भयकर खर नामक दैत्य का सहार किया है। और एक बात मैं तुझसे कहूँ, तू यदि आज भी जानकी को मुझे लौटाकर मेरी शरण माँगे, तो मैं तेरी रक्षा करूँगा। इसमें सदेह मत कर। यदि युद्ध करेगा, तो तेरी विजय असंभव है और पराजय निश्चित है। (ब्रह्मा के) वर के प्रताप से तूने दीर्घ आयु पाई है, कई प्रकार की मायाओं को जानता है। भयकर युद्ध के शस्त्रास्त्र रखता है और इन्द्रादि समस्त दिक्पालों तथा तीनों भुवनों को तूने जीत लिया है। ऐसे वीर का वध आज मैं अवश्य करूँगा।”

रघुराम की ये बातें रावण को अग्नि-ज्वालाओं के समान जलाने लगी। तब दशकठ क्रोधोन्मत्त हो रघुराम से कहने लगा—‘कदाचित् तुम इस बात के कारण फूल रहे हो कि तुमने कुछ क्षुद्र राक्षसों का सहार किया है। तुम मुझे नहीं जानते। मेरी शक्ति का परिचय तुम्हें नहीं है। मैं ने स्वर्ग के निवासी यक्ष, गधर्व, देवता तथा दिक्पालों का अपमान करके उन्हें परास्त किया है और बड़ी निरकुशता के साथ राज्य करता रहा। ऐसे बल-पराक्रम से सपन्न मैं तुम्हारी परवाह कलेंगा ? जबतक मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई का युद्ध में सहार करके उस दृश्य को जी भरकर नहीं देखूँगा, तबतक मैं लका में प्रवेश नहीं कलेंगा।’ ऐसा कहकर रावण ने प्रलय-काल की अग्नि के समान जलनेवाले असह्य दिव्य अस्त्र-शस्त्र राम पर चलाये। तब राम ने क्रुद्ध होकर एक प्रतिबाण छोड़ा। उसके पश्चात् उन्होंने बड़े हर्ष से उन दिव्यास्त्रों का स्मरण किया, जिन्हें विश्वामित्र ने ताडका के वध के दिन दिया था। स्मरण करते ही वे सभी दिव्यास्त्र स्फुरलिंगों को विकीर्ण करते हुए उनके समक्ष साकार होकर उपस्थित हो गये। तब राम ने उन दिव्यास्त्रों का समुचित रीति से सधान किया और दायें-बायें इस प्रकार चलाया, जैसे पर्वत पर बिजलियों की वर्षा होती है। इससे भी तृप्त न होकर राम ने अपनी उद्धत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ऐसी बाण-वृष्टि की कि दशकठ दृष्टि से भी ओभल हो गया।

१४४. रावण की मूर्च्छा

राम के शरो के आघात से आहत हो रावण रथ परही मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर कालकेतु भयाकुल हो उस रथ को युद्ध-भूमि के बाहर ले गया। इससे देखकर देवता हर्ष-निनाद करने लगे और वानर-समूह उत्साह से सिंह-गर्जन करने लगा। थोड़ी देर के पश्चात् राक्षसराज की मूर्च्छा दूर हुई। वह रण-विक्रम का प्रदर्शन करते हुए रथ पर खड़े हुए अपने सारथी से कहा—‘क्यों रे, तुमने ऐसा अपराध क्यों किया ? युद्ध-भूमि से तुम रथ को इतनी दूर क्यों ले आये ? मेरी कीर्ति को कलकित करते हुए तुमने राम को हँसने का अवसर क्यों दिया ?’ तब सारथी ने कहा—‘हे देव, परास्त होने पर या शत्रु से मिलने पर मुझे रथ को युद्ध-भूमि से बाहर नहीं लाना चाहिए। रथी को सकट में देखकर ही रथ को युद्ध-भूमि से लौटा ले जाना सारथी का रण-धर्म है। इसलिए मैं, आपको यहाँ ले आया हूँ।’ तब रावण ने उसके विवेक की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष के साथ उसे उचित भेंट दी और उसको देखकर कहा—‘वह देखो, राम अब भी रण के मध्य खड़ा है। उसके रथ के निकट हमारा रथ ले चलो।’ तब कालकेतु ने बड़े वेग से रथ चलाकर उसे राम के रथ के आगे प्रतिष्ठित किया। दशकठ के रथ को उद्धत वेग से आते हुए देखकर राम ने मातलि से कहा—‘रावण का रथ आ रहा है। तुम मेरा रथ शीघ्र उसके निकट ले चलो। दृष्टि को चंचल किये बिना, तीव्र बाणों के भय से विचलित हुए बिना, बागडोर को अच्छी तरह सँभाले हुए अश्वों को हाँको। हे मातलि, घोड़ों का मन तुम जानते हो। ऐसा सारथ्य करो कि रथ का वेग विचित्र दिखाई पड़े। कोई ऐसी बात नहीं, जो तुम नहीं जानते। मैं और तुम्हें क्या कहूँ ?’ तब मातलि ने अपना रथ विपरीत मार्ग से रावण के रथ के पास ले गया। तब लोककटक तथा तीनों लोकों को

भयभीत करनेवाले रावण ने पृथ्वी को कँपाते हुए अद्भुत अस्त्र चलाकर रथ को ढक-सा दिया, सारथी को व्याकुल कर दिया, अश्वो को शक्तिहीन कर दिया और एक प्रचंड बाण चलाकर राघव का धनुष तोड़ दिया और कई बाणों से राघव को भी पीड़ित किया। तब क्रुद्ध होकर राम ने भयकर रूप धारण करके देवेंद्र के द्वारा भेजे हुए धनुष को सँभाला और उसकी प्रत्यचा के टकार से ब्रह्मांड को विदीर्ण करते हुए दानवों के गर्वाधिकार का नाश करने के निमित्त सूर्य-सम भास्वर सैकड़ों, सहस्रों, लाखों, करोड़ों तथा अरबों की सख्या में शर रावण पर चलाये। वे बाण कदाचित् यह सोचकर उसके शरीर को पार कर जाते थे कि यह महान् पापी है, क्रूर है, चंचल है, मायावी है, धर्मबद्ध रहनेवाले हमें इसके शरीर में नहीं रहना चाहिए। कुछ बाण कदाचित् यह सोचकर आकाश की ओर, पृथ्वी की ओर और लफ़ा की ओर जाने लगे, मानो वे यह समाचार पृथ्वी को देवताओं तथा सीता को सुनाने जा रहे हैं कि अब अधिक विलंब नहीं है, रावण अब मरनेवाला ही है, तुम अब व्याकुल मत होओ। अग्नि की प्रभा के समान दीप्त होनेवाले राम के बाण मूसलाधार वर्षा की भाँति रावण पर गिरने लगे, फिर भी रावण अविचल रहते हुए प्रचंड शरो से राम के बाणों को काटने लगा। इस प्रकार, विशाल बाहुबल तथा रण-कौशल से युक्त वे दोनों पराक्रमी समान सत्त्व, समान वेग, समान बाण-सपत्ति, समान रण-कौशल से युक्त हो, भिड़ गये, और बधन से मुक्त क्रोध से भरे सिंहों की भाँति, सात दिन तथा सात रात तक अविराम युद्ध करते रहे। उस समय रावण के रथ पर मेघ रक्त की वर्षा करने लगे, रथ के अश्वों की पूँछों से अग्नि-कण निकलने लगे, सूर्य की किरणें भिन्न-भिन्न कातियों में दीप्त होने लगी। रावण को देखकर समस्त भूत कहने लगे—‘अब तुम बच नहीं सकोगे, आज अवश्य मरोगे।’ आकाशवाणी हुई—‘हे राघव, आप विजयी होंगे।’

अपनी पराजय को सूचित करनेवाले दुःशकुनों को देखकर रावण ने विजय की आशा छोड़ दी। फिर भी, बड़े साहस के साथ राघव पर निशित बाण, करवाल, गदाएँ, शूल, परिध, शक्ति आदि चलाकर उन्हें कष्ट पहुँचाने लगा। किंतु राम ने वज्र-सम तथा प्रचंड प्रलयअग्नि की समता करनेवाले अर्द्ध-चंद्रास्त्र चलाकर उन्हें बीच में ही खंडित कर दिया। रावण ने अत्यंत भयकर रूप से भीषण बाणों की वर्षा की, तो राघव ने अर्द्ध-चंद्र बाणों से उन्हें काट डाला।

इस प्रकार, विजय की आकांक्षा करके दोनों वीर बड़ी धीरता के साथ परस्पर युद्ध करते रहे। तब वानर एव राक्षस-सैनिक अपने-अपने अस्त्र सँभाले हुए रण-विक्षण राम-रावण का युद्ध-कौशल देखते हुए चित्रलिखित की भाँति युद्ध भूलकर खड़े रहे। अपनी पराजय को निश्चय जानते हुए भी रावण और अपनी विजय निश्चित जानते हुए राम, दोनों बड़ी तत्परता के साथ क्षण-क्षण आगे बढ़ते हुए, उत्साह के साथ युद्ध करने लगे। उसी समय क्रोध से अपनी आँखों से अग्नि-कणों की वर्षा करते हुए राम ने एक पौने अर्द्ध-चंद्र बाण से रावण के रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रावण ने भी अत्यधिक रोष से घोर बाणों का सधान करके, राम के रथ के अश्वों तथा मातलि पर चलाया। किंतु वे उन बाणों से आहत होकर भी कमल-नालो से आहत व्यक्तियों के

समान विना हिले-डुले निश्चल खड़े रहे । तब वानर अट्टहास करते हुए रावण पर पिल पड़े । रावण ने अपनी माया से उस वानर-सेना पर महान् शस्त्रों की वृष्टि की । उस बाण-वृष्टि से वानर-वीर भयभीत हो उठे । तब राम ने रावण पर, उसके सारथी, रथ तथा रथ के अश्वों पर असंख्य बाण चलाकर उसे व्याकुल कर दिया । दशकठ ने भी दाशरथि पर बाणों की वृष्टि की । तब राम ने अद्वितीय ढंग से भयकर बाणों का सघन किया और उनसे समस्त आकाश तथा पृथ्वी को ढक दिया । महेंद्र पर्वत तथा मदराचल के समान धैर्य रखनेवाले वे दोनों वीर, युद्धभूमि में स्थिर होकर इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे नभ के साथ नभ, समुद्र के साथ समुद्र युद्ध करते ही और 'रामरावणयोर्युद्ध रामरावणयो-रिव' वाली उक्ति को चरितार्थ करने लगे । तब मेष-गर्जन के समान धनुष की ध्वनि, प्रचंड शरों के परस्पर टकराने की ध्वनि, युद्ध के समय सुनाई पड़नेवाले भयकर गर्जन, रथों के चलने से उत्पन्न होनेवाली विपुल ध्वनि तथा घोड़ों की हिनहिनाहट आदि की सम्मिलित ध्वनि से समुद्र आलोकित हुए, उल्काएँ गिरने लगी, दिशाएँ कपित हो उठी, पृथ्वी हिल उठी, समस्त लोक चकरा गये, पर्वत काँप उठे, दिग्गज चकराने लगे, देवता आनदित हो उठे, समस्त भूत त्रस्त हो उठे और आदिशेष विचलित हो उठा । इस प्रकार, अत्यधिक वीरता के साथ लड़ते-लड़ते उन दोनों की बाहुओं का दर्प कुछ शिथिल हुआ, उनकी प्रचंडता कुछ कम हुई, और थोड़ी देर तक अपने-अपने धनुष का सघन करना छोड़कर वे एक दूसरे को देखने लगे । चंचल फूत्कार, श्रमजल का प्रवाह, चीत्कार आदि के पश्चात् उनकी थकावट आधी घड़ी में ही दूर हो गई ।

१४५. राम का रावण के कर-चरणों को खंडित करना

तुरत वे फिर रणोत्साह से दीप्त हो उठे और प्रलय-काल के यम की भाँति भयकर रूप धारण करके महान् साहस के साथ रावण से भिड़ गये । राम ने तब प्रलय-काल के रुद्र के समान भयकर दीखते हुए घोर तथा पैनी कर्तरी आरा तथा भाला को चलाकर उस दशकठ के दसों सिर और बीसों बाहुओं को एक साथ ही काट डाला । सब लोग आश्चर्य-चकित होकर देखने लगे । किंतु दूसरे ही क्षण करवाल, मूसल, मुद्गर, शर, चाप तथा केयूरो से युक्त बीस बाहुएँ तथा महान् मुकुटों से अलङ्कृत दसों सिर ऐसे उग आये कि राम भी इसे देख चकित होकर कहने लगे—'मेरा काटने ही भूठ था ।' इस पर क्रुद्ध होकर दाशरथि ने पुन उसीके सिर और हाथ काट डाले । किंतु जितने वेग से राम उसके सिर काट देते, उतने ही वेग के साथ उसके सिर उग आते थे । सिर के मुकुटों पर बाणों के लगने की ध्वनि कानों में पड़ने के पहले ही नये उगो हुए सिरों से निकलनेवाला भयकर अट्टहास कानों में सुनाई पड़ता था । रावण के कटे हुए सिरों के स्थान पर तुरत नये सिर उग आते थे और कटे हुए सिरों में राम के बाण गड़े हुए रह जाते थे, तो ऐसा लगता था कि मानो रावण ने ब्रह्मा से, केवल कठ पर सिरों के उग आने का ही वर नहीं प्राप्त किया था, वल्कि शरों में भी सिरों के उग आने का वर प्राप्त किया था । उसके सिरों का कटना, कटे हुए सिरों का बाणों के साथ ऊपर उठना, फिर नये उग आये हुए सिरों को बाणों से काटना, ये सभी व्यापार एक के बाद एक इतनी शीघ्र गति से चंचलते-थे

कि दर्शक चकित रह जाते थे और ऐसा लगता था, मानो सौरभ-युक्त राम-बाण-रूपी उत्पलो के साथ रावण के सिर-रूपी कमल-समूह को मिलाकर, रक्त-धारा-रूपी सूत्र में माला गूँथकर, स्वर्ग का माली बार-बार देवताओं को मालाएँ समर्पित कर रहा हो।

रघुराम क्रोध से व्यग्र हो, अपना रण-कौशल दिखाते हुए, अच्छी तरह लक्ष्य साधकर, अपनी दृढ मुष्टि के चमत्कार से, रावण के सिर तथा भुजाएँ काटते जाते थे और शीघ्र ही वे उग आते थे। जितनी ही शीघ्रता से राम उन्हें काटते थे उतनी ही शीघ्रता से वे उग आते थे। राम के शर-समूह से रावण के सिर तथा करो का कट जाना और फिर उनका निकल आना इस वेग से होता था कि राक्षसी तथा वानरो को इसका पता भी नहीं लगता था। रघुराम के शरो से कटकर गिरे हुए रावण के सिर न जँभाई लेते थे, न दर्द का अनुभव करते थे, न मद पडते थे, न शक्तिहीन होते थे, न अपने उल्लास से रहित होते थे, न कांति-हीन होते थे, न परितप्त होते थे, न पलक मारते थे, न उत्साह खोते थे, और न अपनी क्रुद्ध दृष्टि ही तजते थे। पूर्व की भाँति वही क्रुद्ध दृष्टि, वे ही तनी हुई भौहँ, वही अट्टहास, वही गर्जन, वही वाणी, वही अनुग्रह, वही युद्ध की क्लाति, वही धृति, और वही हुकार ? इनसे रहित एक भी सिर उस रण-भूमि में कटकर गिरे हुए रावण के सिरों में नहीं दीखता था। जो अट्टहास, जो दर्प और जो रोष-पूर्ण दृष्टि, गिरते हुए सिरों में दीखते थे, उसी प्रकार के अट्टहास, दर्प एव रोषपूर्ण दृष्टि उगते हुए सिरों में भी दिखाई पडते थे। दानवेंद्र के सिरों तथा बाहुओं से पृथ्वी तथा आकाश के बीच का भाग भरने लगा। यह देखकर राम का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया, वे लगातार बाणों को चलाने लगे। तब रावण अपने कटे हुए सिरों तथा बाहुओं को, नये उगे हुए शरो से उठा-उठाकर क्रोधपूर्ण दृष्टि के साथ बड़े वेग से राम पर फेंकने लगा। उसके फेंके हुए सिर और भुजाएँ राम पर इस तरह आक्रमण करते हुए जान पडते थे, जैसे कमनीय वानर-ग्रह के मध्य विलसित कुमुद-बधु, षोडश कला-पूर्ण, जगदानददायक रघुराम-रूपी चंद्र को देखकर, चंद्र के भ्रम में, कमल-समूह (रावण के सिर) राहुकोटि (रावण की भुजाएँ) से युक्त हो, परस्पर सहायता कर रहे हुए, एक साथ आकर उन (राम-रूपी चंद्र) पर आक्रमण करते हो।* सिरों तथा शरों का एक साथ आना ऐसा लगता था, मानो राम तथा विजय-लक्ष्मी के विवाह के समय देवताओं ने पल्लव-रत्न-दर्पण तोरण सुदर ढग से सजाये हो। कटते हुए सिर एव विशाल बाहुएँ, बरसनेवाले शर तथा उलूक, काक आदि खग, पृथ्वी को कपित करते हुए गगन-मंडल में ऐसे व्याप्त हो गये, मानो यमराज की सभा का भयकर वितान हो। इस कारण देवताओं को भी यह मालूम नहीं होता था कि यह दिन है या रात है या सध्या। प्रख्यात धनुषो एव शरो की दीप्ति के कारण भूमि में दिन की भाँति प्रकाश व्याप्त था।

अपनी शक्ति-भर प्रयत्न के पश्चात् भी उस दैत्य को जीतने की किंचित् भी आशा न देखने के कारण राम शर-संधान का कार्य स्थगित करके बार-बार मन-ही-मन सोचने

*कमल और राहु दोनों चंद्र के शत्रु माने जाते हैं, इसलिए दोनों मिलकर राम-रूपी चंद्रमा पर आक्रमण कर रहे थे।—ले०

लगे कि अविराम गति से इस राक्षस का सिर काटते-काटते तग आ गया हूँ, बाहुओं को काटते-काटते ऊब गया हूँ, वक्षस्थल पर बाण चलाते-चलाते थक गया हूँ, विना रुके शर-प्रहार करते-करते क्लान्त हो गया हूँ, फिर भी यह दुष्ट मरता नहीं है। अब इस दुरात्मा को कैसे मारूँ ? ऐसे उत्साह-शिथिल होनेवाले राम को देखकर विभीषण ने कहा—'हे सूर्य-कुलाधीश, ब्रह्मा के वर से, इसकी नाभि में कुडलाकार में अमृत रहता है। उस अमृत का प्रभाव उसे मरने नहीं देता। आप भले ही असंख्य बार उसके सिर तथा बाहुओं को काटें, वे पुन-पुन उगते ही रहेंगे। उनका उन्मूलन नहीं होगा। यही कारण है कि दानवैन्द्र विचलित नहीं होता। आप इस प्रकार लगातार उसके सिरो एव बाहुओं को कबतक काटते जायेंगे ? इसका अंत ही नहीं होगा, अतः आप आग्नेय शर चलाइए। इससे उसके नाभि-विवर में स्थित अमृत सूख जायगा। तब राक्षसराज स्वयं परास्त हो जायगा। आपके द्वारा चलाये जानेवाले बाणों से रावण के हाथ और सिर युद्ध में एक सौ नौ बार उग आयेंगे और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी।

१४६. आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से राम का रावण को शक्तिहीन कर देना

तब राम ने विभीषण की विनय, नीति, ज्ञान, स्वामिभक्ति, श्रद्धा तथा पवित्र भावों को देखकर उसकी प्रशंसा की। उसके पश्चात् उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा की ऐसी ध्वनि की कि देवता हर्षित हुए, रावण विचलित हुआ और गंगा आदि नदियाँ क्षुब्ध हुईं। फिर, उन्होंने प्रज्वलित वज्रो की वर्षा करनेवाले आग्नेय अस्त्र का सधान करके चलाया। रावण की नाभि में स्थित अमृत को उस शर की अग्नि में आहुति दी और एक सौ नौ बार रावण के सिरो तथा बाहुओं को काट डाला। उसके पश्चात् राम ने एक सौ दसवीं बार एक अनुपम बाण चलाकर उसके एक सिर तथा दो बाहुओं को छोड़ शेष सिरो तथा बाहुओं को काट डाला। यह देखकर देवता हर्षोन्मत्त हो उठे और वानर हर्ष-निनाद करने लगे। सिरो के कटने पर, रक्त-धाराओं के पृथ्वी पर गिरते समय, रावण ऐसा दीख रहा था, मानो प्रलयाग्नि, सभी लोकों को जलाकर अपनी लाल लपटों से युक्त हो जल रही हो। सारे शरीर से रक्त की धाराएँ छूट रही थीं। उस समय रावण के शरीर पर स्थित एक सिर ऐसा दीखता था, मानो अस्ताचल पर स्थित हो सूर्य-विंब अरुण आतप की कांतियों को विकीर्ण कर रहा है।

तब विभीषण को देखकर रावण ने अत्यंत क्रोधावेश से कहा—'इसीने राम को मेरा वह रहस्य बता दिया, जिसे अबतक कोई नहीं जानता था। इसलिए अब मैं पहले इसीका वध करूँगा।' इस प्रकार कहते हुए रावण ने भयकर शक्ति को विभीषण पर चलाया, तब वह शक्ति आकाश-मार्ग से अग्नि-ज्वालाएँ उगलती हुई आनेवाली प्रलयानल की भाँति विभीषण की ओर आने लगी। तुरत राम ने अविचल भाव से घोर बाण चलाकर बीच में ही उसे काट डाला। रघुराम की अविराम शर-वृष्टि से राक्षस की क्रोधाग्नि जैसे नष्ट हो जाती है, वैसे ही उसके शरीरस्थ तेज भी अद्भुत गति से तिरोहित हो गया। एक सिर तथा दो बाहुओं को छोड़कर रावण के शेष सिर एव भुजाएँ कट गई थीं। वीर रस के महान् प्रवाह की भाँति स्रवित होनेवाली रक्त-धाराओं से वह सना हुआ था। फिर भी,

उसने बड़े दर्प से रण-भूमि में रक्त से भीगकर पड़े हुए अपने सिरो तथा बाहुदंडों को निहारा, उनपर चोच मारनेवाले पक्षी-समूह को देखा, फिर राम की ओर दृष्टि दौड़ाई। तब उसने केश नोचने से क्रुद्ध हो बधनों को तोड़कर मुक्त होनेवाले सिंह के समान गर्जन किया, दाँतो को उखाड़ने से क्रुद्ध होकर आक्रमण करनेवाले उग्र-साँप की भाँति, मूँछों को खींचने से खीजकर दड देने के लिए उद्यत यम की भाँति तथा सारे ससार को एक साथ निगल जानेवाले के समान क्रोध से उन्मत्त हो, रावण ने भयकर रूप धारण किया। फिर, अपनी पहले की सभी बाहुओं की शक्ति अपनी बची हुई दोनों बाहुओं में संचित करके भयकर अट्टहास किया, और अविराम गति से बरछा, तोमर, शूल, परशु, खड्ग, बार, भाला, शक्ति, गदा आदि चलाते हुए राम को विविध प्रकार से कष्ट दिया, और ऐसे आश्चर्यजनक साहस के साथ भयकर युद्ध करने लगा कि देवता भी भयातुर हो उठे। शक्ति, गर्व एव यत्न के साथ युद्ध करनेवाले रावण को देखकर मातलि ने भयाकुल हो, राम से कहा—“हे देव, अब विलम्ब क्यों? इसके सिर और भुजाएँ कही फिर उग न आयें। उसके पहले ही आप ब्रह्मास्त्र चलाकर इस नीच का सहार कीजिए और अपनी शक्ति का परिचय दीजिए।”

१४७. ब्रह्मास्त्र से रावण का वध

मातलि की बातें सुनकर श्रेष्ठ बलशाली, प्रशसनीय पराक्रमी, बाहुबल-सपन्न राम ने सोचा कि ब्रह्मास्त्र को चलाने का यही समय है। फिर, उन्होंने पृथ्वी, देवता, तपोधन, वेद, वैदिककर्म आदि का स्मरण किया, और अपने प्रताप एव दर्प को प्रदर्शित करके पृथ्वी को कँपाते हुए धनुष का टकार किया और उस अक्षय ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया, जिसे विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के समय राम को प्रदान किया था। फिर, उन्होंने अक्षत वेद-मंत्रों का उच्चारण करके, उस ब्रह्मास्त्र को प्रत्यचा पर चढ़ाया और प्रत्यचा को तानकर वाम चरण को आगे रखा और रावण के, वक्षस्थल को लक्ष्य करके बाण चलाया। यह देखकर देवेन्द्र आदि देवता फूल उठे। तब वह बाण प्रचण्ड गति से तथा भयकर ज्वालाओं से युक्त हो वसुओं को पार्श्व-भाग में, आदित्यों को अपने अग्रभाग में, इन्द्र आदि देवताओं को पृष्ठभाग में तथा पृथुल पधन को आगे किये हुए चल पड़ा। अपने पखों से उज्ज्वल तथा दिव्य आभा को व्याप्त करते हुए अपनी अमोघ महिमा से दीप्त होते हुए, समस्त वानरो के अभीष्ट को सफल बनाने के निमित्त वह शर विना रुके आगे बढ़ा और प्रलय-काल के मेघों तथा वज्रों का-सा घोष चारों ओर व्याप्त करके राक्षस-नेताओं को भयभीत करते हुए जय-ध्वनियों से आकाश को कपित करते हुए रावण के वक्षस्थल में गड गया, उस अस्त्र ने इन्द्र, यम तथा वरुणों के लिए भी अभेद्य उसके (रावण के) मर्मस्थल को भेद डाला और उसके प्राण लेकर उसके हृदय को पार करके निकल गया और पृथ्वी में इस प्रकार गड गया, मानो पृथ्वी से कह रहा हो कि जिस पापी ने तुम्हारी पुत्री को बन्दी बनाकर बड़ी नीचता के साथ उन्हें अपनाने का विचार किया था, उसके प्राण मैंने हर लिये हैं। फिर, लौटकर उस बाण ने राघव के महिमामय तूणीर में प्रवेश किया, मानो ब्रह्मा के (पुलस्त्य) पीते का वध करने के पाप से मुक्त होने के लिए कही भी शरण न पाकर उसने राघव की शरण ली हो।

तब राघव के अस्त्र के आघात से रावण के शरीर से रक्त की धाराएँ बहने लगी और वज्राघात से पृथ्वी पर गिरनेवाले कुलपर्वतो की भाँति रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा । उस दैत्य के विशाल शरीर के गिरने से पृथ्वी आश्चर्यजनक ढग से घँस गई । पर्वत भी घँस गये, दिग्गज दब गये, आदिशेष तथा कूर्म भी खिसक गये । सप्त पातालों के अधिपति व्याकुल हो गये । हतशेष दैत्य-वीर भयभीत हुए । वानरो ने सिंहनाद किया; अमर, किन्नर, खेचर आदि राम की स्तुति करने लगे । अप्सराओं ने रघुराम पर पुष्पवृष्टि की, सारे स्वर्ग में दिव्य द्रुभिर्घाँ, दिव्य काहल एव दिव्य शल्ल बजने लगे । शीतल-मंद-सुगंध पवन चलने लगा और दिशाएँ निर्मल हो गईं । इस प्रकार, सुर, मुनि एव खेचरों के शोक का निवारण करके, समस्त भूमि का भार उतारकर, अपनी ईर्ष्या विजय को प्राप्त करने के पश्चात् प्रभु राम ने अपने हाथ के धनुष की प्रत्यचा को शिथिल किया और प्रसन्नचित्त हों उसे लक्ष्मण को सौंपा । समस्त वानर, सभी खेचर, सभी दिक्पाल, सारे भूपति, समस्त भूत, सभी देवता, सभी गन्धर्व, सभी सन्मुनि, सभी पन्नग, सकल सिद्ध एव सभी लोक तब राम की प्रशंसा करने लगे । उस समय युद्ध में अन्वकासुर का वध करके शोभायमान होनेवाले धूर्जटि (शिवजी) के समान राम, लोकाभिराम, विजयधाम एव नवसुधा-धाम की भाँति सुशोभित हुए ।

१४८. विभीषण का शोक

तब विभीषण अत्यधिक शोक से सतप्त होते हुए युद्ध में गिरे हुए अपने अग्रज को देखकर बार-बार ऊँचे स्वर में विलाप करने लगा—“हाय, सुरासुरों के लिए भयप्रद, युद्ध-भयकर, तुम्हारी ये भुजाएँ आज पक्षियों के वशीभूत हो गईं, अत्यन्त कोमल शय्या पर लेटने-वाला यह शरीर आज कठोर युद्धभूमि पर गिरा हुआ है । शत्रु-रूपी अन्धकार के लिए बाल-सूर्य की भाँति ये मणिमय किरिटी आज मिट्टी में मिल गये ! हे बन्धु ! विक्रम, विनय, नय तथा कीर्ति में तुम्हारी समता कोई नहीं कर सकता था । ऐसे तुम, घोर पापों में प्रवृत्त होने के कारण क्रूर, पापी एव उद्धत कहलाने लगे । नीति-व्युत्त होना बुरा है, यह तुमने कभी सोचा ही नहीं । मेरी बातों पर तुमने ध्यान नहीं दिया, प्रशस्त नीति-मार्ग को तुम पहचान नहीं सके । जानकी को राम के सुपुत्र करने के लिए मैंने परामर्श दिया, किन्तु तुम ऐसा नहीं कर सके । मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम राम को साधारण मानव मत समझो, किन्तु तुमने मेरी बातों की अवहेलना कर दी । तुम्हारे अभिमान तथा गर्व ने ही आज तुम्हारी ऐसी दशा कर दी । अब मैं तुम्हारे लिए कैसे शोक करूँ ? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि राम के साथ वैर करना उचित नहीं है, उसे (वैर) छोड़ दो । हे अनुपम नीति-सम्पन्न ! क्या, तुम्हारे जैसे सुकृति के लिए परस्त्री को माता के सदृश नहीं मानना चाहिए ? तुमने उचित-अनुचित का विचार ही नहीं किया । अन्त में मेरे वचन ही सत्य सिद्ध हुए !” इस प्रकार, वह अपने अग्रज के अपराधों का स्मरण करके बार-बार शोक करने लगा ।

१४९. मृत रावण के निकट मंदोदरी का आना

तब मंदोदरी आदि दनुज-वधुएँ उमडती हुई शोकाग्नि में जलती हुई, अपने मुखों तथा छातियों को पीटती हुई तथा उच्च स्वर में रुदन एव विलाप करती हुई लका से

युद्ध-भूमि की ओर मन्द गति से चल पडी । उनके चलते समय, उनके चरणों की अरुण कान्ति पृथ्वी पर पड रही थी, लडखडाकर चलने से उनकी मेखलाएँ शिथिल हो रही थी, उनकी क्षीण कटियाँ अवश हो झुकी जा रही थी, हृदय के शोक-भार से उनकी तनु-बताएँ काँप रही थी, उनके कठ-हार टूट रहे थे, आँखों से आँसू का प्रवाह भर रहा था, उनके आँचल खिसक रहे थे, बेणियाँ खुलकर पीठ पर डोल रही थी और उनके मुख कान्तिहीन हो गये थे । अपनी रुदन-ध्वनि से समस्त आकाश को गुँजाती हुई वे युद्ध-भूमि में पहुँची । उस समय वह रण-भूमि टूटे हुए रथ, छिन्न-भिन्न होकर पडे हाथी के कुभ-स्थल, कटे हुए सिर, पैर एव शरीर, चूर-चूर बने हुए हाथी के दाँत, कुचले हुए सिर, टूटी हुई गदाएँ, चूर्ण बने हुए कवच, कटे हुए वक्ष, उखडे हुए मस्तक, फटे हुए कठ, भग्न हुए शस्त्र, आँतों की राशियाँ, माँस-खड, मृत पडे हुए गज, खण्डित अश्व, पर्वत-शृंग, एक दूसरे पर पडे हुए धड, अजस्र बहनेवाली रक्त की नदियों में बहनेवाली हाथी के शुड, पर्वतों के नीचे गिरकर दब जाने से निकली हुई आँखोवाले सैनिक तथा कठोर ध्वनि करते हुए शवों पर मँडरानेवाले अनेक काक, धूक, कक, गीघ आदि से भरी हुई थी ।

इतना ही नहीं, उस युद्ध-भूमि में अनेक भूतों का संचार होने लगा था । कुछ भूत राम के बाणों के आघात से बहनेवाले रक्त-प्रवाह का पान करते हुए उसे सोमपान समझकर भूमते थे । कुछ भूत राम को धोखा देकर सीता को ले आनेवाले राक्षसेन्द्र की प्रशसा करते थे, कुछ रावण के दस सिरो एव बीस हाथों को उसके धड में यथा-स्थान जोडकर मृत रावण के शरीर को देखकर कह रहे थे कि हे दैत्येन्द्र, तुम्हारे लिए यह अनुचित है, तुम सीता को राम के सुपुर्द कर दो । कुछ भूत वानरों के शरीरों में प्रविष्ट होकर, वानर बनकर हाथी के धडों को ले आते और रक्त-समुद्र में डालकर बड़े यत्न से सेतु बंधने में तत्पर दिखाई देते थे । कोई भूत कहता—'मैं नारायण हूँ । तुम देवता हो, तुम राक्षस हो ।' फिर, वे हाथी के धड पर आँतों को वासुकि के समान लपेटते और उस धड को रक्त-समुद्र में डालकर मथने लगते । (मानो वे समुद्र-मथन की पुनरावृत्ति कर रहे हों) । कुछ भूत इन्द्र की ओर देखकर हँसते हुए कहते—'हमारे राम के बाणों से अच्छी तरह मथे हुए मांस को लेकर उसके बदले हमें स्वर्ग क्यों नहीं देते ? क्यों बकरी के थोड़े मांस-खण्डों के बदले स्वर्ग देते हो ?' * कुछ भूत यह कहते हुए नाच रहे थे कि 'शक्ति-सपन्न कुमार एव तारकासुर की युद्ध-भूमि भी हमने देखी थी, भीषण गति से युद्ध करनेवाले शिवजी तथा अन्धकासुर की रण-भूमि भी हमने देखी थी, इन्द्र तथा वृत्रासुर का रण-क्षेत्र भी हमने देखा था, किन्तु इतने मांस-खण्ड, इतने धड, ऐसा रक्त-प्रवाह, ऐसी विविध स्वादिष्ट वस्तुएँ हमने अबतक कभी नहीं देखी । कुछ भूत रवि-कुलाधिप राम के विक्रम की भूरि-भूरि प्रशसा करते थे, कुछ भूत कहते थे कि 'राम' का विक्रम भी क्या, हमारी प्रशसा के योग्य है ?' इसने तो युद्ध में 'उस' दशकठ का वध कर डाला, जो भयकर युद्ध करके, श्रेष्ठ रक्त-मांस आदि से हमें तुष्ट किया करता था ;

*यज्ञ के समय इन्द्र को बकरी के मांस की जो बलि दी जाती है, उसी की ओर संकेत है ।

अब हमें वह भाग्य कहाँ मिलेगा ? कुछ भूत ऊँचे ध्वज-दण्डों को खड़ा करके, उनमें आँतों के झूले डालकर बड़े मोद से अपनी स्त्रियों के साथ उनपर झूलते हुए सरस आनन्द का अनुभव करते, कुछ भूत हड्डियों तथा शरो को एक ओर हटाकर, एक विशाल स्थान बना लेते और अपने प्रिय जनो तथा प्रेमिकाओं के साथ आराम से बैठकर रक्तपान करते हुए आनन्दित होते थे और सतुष्ट हो आशीर्वाद देते थे कि सीता के साथ राम सुखी रहे । ऐसे भूत-समूह से भरे, भयकर दिखाई देनेवाले उस युद्ध-क्षेत्र में राक्षस-वधुएँ रोती-कलपती तथा बार-बार पति को पुकारती हुई पहुँच गईं । वहाँ उन्होंने अनुपम रीति से व्याप्त राम की शर-चन्द्रिकाओं से व्याकुल होकर वीर-लक्ष्मी के विरह की अग्नि से दग्ध होकर पृथ्वी पर गिरे हुए दशकण्ठ को देखा । कटी हुई तथा रक्त से भीगी हुई उसकी विशाल भुजाएँ ही उसके लिए शीतलोपचार के योग्य किसलय-शय्या के समान थीं । उसके मुकुट की अकलक मणियों की अरुण कान्ति उसके सारे शरीर पर व्याप्त हो धातु के वस्त्रों के समान दीप्त हो रही थी । उसके सिर की मज्जा सारे शरीर में व्याप्त होकर चन्दन-लेप की भाँति दीख रही थी । (राम के) घोर प्रहारों के फलस्वरूप उसके शरीर-भर में व्याप्त अस्थियों का चूर्ण, अनुपम पुष्प-रज के समान दीखता था । टूटकर भुके हुए रथ के ताल-सम ऊँची ध्वजाएँ तथा रावण के कोमल एव विमल दुकूल-खण्ड, (पवन में हिलते हुए) झलनेवाले पखों के समान दीखते थे । चारों ओर पृथ्वी पर विकीर्ण हो पड़े हुए, गज-मुक्ताफल उपचार के निमित्त उपयोग में लाने के पश्चात् बिखरी हुई मल्लिका की कलियों के समान दीखते थे । इस प्रकार मृत पड़े हुए रावण को देखकर शोक-सागर की तरंगों में डूबी हुई दानव-वधुएँ दनुजेश्वर के शरीर पर गिर पड़ी ।

१५०. मन्दोदरी का विलाप

तब मन्दोदरी पति के मृत शरीर पर गिर पड़ी और उमड़ते हुए शोक-सागर को पार करने में असमर्थ होकर आँखों से अविराम अश्रु-धारा बहाती हुई बार-बार ऊँचे स्वर में यो विलाप करने लगी—‘हे राक्षसेश्वर, हे वीरवर, हे रणालकार, हे नाथ, ” फिर उसने अपने शोक एव क्लान्ति को प्रकट करते हुए बार-बार विलाप किया और उसके पश्चात् यो कहने लगी—“हे लकेश ! आज सूर्य-रश्मियाँ निश्शक होकर आपकी लका में पहुँच गई हैं । इन्द्रादि देवता यह सोचकर आनन्दित हो रहे हैं कि अब अच्छा अवसर मिल गया है । आपने इन्द्र को जीता, अग्नि को जीता, यम को जीता, नैऋत को जीता, वरुण को परास्त किया, पवन को हराया, कुबेर को जीता और ईशान को भी परास्त किया और समस्त लोको पर अपनी प्रभुता जमाई । आप कहीं भी दुर्वार थे, आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई ? क्या आपसे भी अधिक बलवान् कोई उत्पन्न हुआ ? मैंने आपसे कहा था कि आप राम को सीता लौटा दीजिए; आपका यह कार्य उचित नहीं है, राघव स्वयं नारायण है, वे नर नहीं हैं । किन्तु मेरी बातें आपने नहीं सुनी । भला, आपका दुर्भाग्य आपको मेरी बातें सुनने क्यों देता ? हे दशकण्ठ, पहले तपस्या करते समय आपने अत्यधिक निष्ठा से अपनी इन्द्रियों का दमन किया था । कदाचित् उन्हीं इन्द्रियों ने सीता को ले आने के लिए आपको प्रेरित किया और युद्ध में सूर्यवशज (राम) से आपका वध

कराया । देवताओं के लिए दुर्भेद्य इस लका में हनुमान् ने अकेले प्रवेश किया । विना प्रयास के समुद्र पर सेतु बाँधना क्या वानरो के लिए संभव था ? मैंने उसी समय कहा था कि ये देवता हैं (वानर नहीं) । जनस्थान में राम ने अकेले अपने बाहुबल से खर-दूषण आदि अनेक राक्षसों का सहार किया था । उस दिन से आपको देखकर और राम का स्मरण करके मैं भयभीत होती रहती थी । वह मेरा भय आज पूर्णतया सत्य सिद्ध हुआ । सारा ससार उसी दिन जान गया कि धर्मपरायणा अरुघती से, निर्मल-मति-सपन्न रोहिणी से, अत्यधिक उज्ज्वलगुणवती भूदेवी से भी अधिक सहनशील एव पुण्य-साध्वी जानकी को जिस दिन आप ले आये, उसी दिन आप उस' देवी की क्रोधाग्नि से झुलस गये । जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वह अवश्य ही वैसा फल पाता है । अत्यन्त नीति-सम्पन्न विभीषण पुण्यात्मा है, इसीलिए वह अतुल सुख को प्राप्त कर सका । समस्त लोकों को पीड़ित करनेवाले आप पापात्मा की ऐसी दुर्दशा हुई । सीता देवी से भी अधिक सौभाग्य-संपन्न कितनी ही सुन्दर कामिनियाँ हैं ? किन्तु काम-रूप अन्धकार ने आपके नयनों को ढक लिया था, इसलिए आप उन्हें पहचान नहीं पाये थे । कुल, रूप, दाक्षिण्य, गुण एवं कला में वैदेही किसी भी प्रकार मेरी समता नहीं कर सकती । मैं नहीं कह सकती थी कि वह आपकी दृष्टि में मुझसे श्रेष्ठ दीख पड़ी या मेरे समान दीख पड़ी । यह सत्य है कि जीवों की मृत्यु किसी-न-किसी निमित्त से होती है । दूर की मृत्यु को समीप लाने के समान आप वैदेही को ले आये । भाग्यवती सीता ने पति से मिलकर योग्य सुख को प्राप्त किया । हे नाथ, मुझ अभागिनी की ओर निहारिए, मैं दुःख-समुद्र में डूब रही हूँ । आपके साथ पुष्पक विमान पर आरूढ हो मैंने मदराचल, धवलगिरि, कनकाद्रि, विशाल नन्दनवन आदि स्थानों में बड़े उत्साह से लीला-विहार किया था । हाय ! वे सभी विनोद मुझे सालने के मिस मेरे प्राण ले रहे हैं । हे नाथ, मैं गर्व करती थी कि मेरे पिता मय है, मेरे पति रावण हैं, और मेरा पुत्र, युद्ध-प्रेमी इन्द्रजीत है । किन्तु मैं जानती नहीं थी कि युद्ध में राम-भूपाल के हाथों से आपका वध हो जायगा । वज्र-पात से गिरकर नष्ट होनेवाले पर्वत की भाँति आप चूर-चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं । आप मृत्यु के लिए मृत्यु-समान थे, पर आज पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु के वश में हो गये । आप शत्रु-स्त्रियों को वैधव्य देते थे, आज आपकी पत्नियों को उसका फल मिल गया ।”

इस प्रकार, रोती, विलाप करती हुई मदोदरी, कभी असुरेन्द्र का मुख देखकर उसका वर्णन करती, कभी आँसू गिराती, कभी अपनी गोद में रावण का सिर रख लेती, कभी अपने अश्रु-जल से रावण के मुख की धूलि धोती, कभी खिन्न होती, कभी रावण का हाथ अपने अरुण हाथों में ले लेती । वह इस तरह फूट-फूटकर रोने लगती कि शोकतप्त हृदय फट जाय । वह अपने प्राणेश्वर का सिर बायें हाथ में उठाकर थाम लेती । उसे देखकर अपना सिर कँपाती । दाहिना हाथ पृथ्वी पर फटकारकर कहती—‘हाय तुम चल बसे ।’ कभी कहती—‘राम-भूपाल क्या ऐसा भी करते हैं । अब मैं क्या करूँ ?’ कभी छटपटाकर पृथ्वी पर लोटती और अपनी दीन दशा का विचार करके अत्यन्त दुःखी होती ।

झपती भाभी को अनन्त शोकाग्नि में इस प्रकार दग्ध होते देखकर विभीषण उसके

चरणों पर गिरा और उमड़ते हुए शोक से कहने लगा—‘हे साध्वी, अत्यधिक वेग से उमड़नेवाला रावण-रूपी समुद्र रघुराम की बाणाग्नि में सूख गया है । राघव-रूपी प्रलय-मास्त ने रावण-रूपी सरस पारिजात को गिरा दिया है । राघव-रूपी भयकर दावानल ने दशानन-रूपी कानन को भस्म कर दिया है । राघव-रूपी पश्चिम समुद्र में रावण-रूपी दिवाकर अस्त हो गया है । राघव-रूपी अमोघ नील मेघ की शर-वृष्टि ने रावण-रूपी अग्नि को बुझा दिया है ।’

१५१. राम का विभीषण के द्वारा रावण की अंत्येष्टि कराना

इस प्रकार, विविध रीतियों से शोक-सन्तप्त होनेवाले विभीषण को देखकर काकुत्स्थ ने कहा—‘हे विभीषण, अब इन स्त्रियों का दुःख दूर करो और तुम भी अब शोक करना छोड़ दो । युद्ध में शूर, शत्रुओं पर आक्रमण करके उनके हाथों से मरते हैं और शत्रुओं को मारते हैं । समर में दोनों पक्षों की विजय तो होती नहीं, न जय-पराजय ही स्थिर वस्तु है । रावण ने समस्त देवताओं को जीत लिया था, सभी दिक्पालों पर विजय प्राप्त की थी । यह एकाकी वीर है, महान् साहसी है, अद्वितीय विजयी है और त्रिलोक-भयकर है । मैंने तो देखा ही है कि तुम्हारे अग्रज ने रण में कैसी शक्ति दिखाई थी । कौन ऐसा है, जो इस प्रकार अविचल युद्ध कर सकता है ? कौन ऐसा है, जो अन्त में ऐसी मृत्यु को प्राप्त करेगा । ऐसी शक्ति तथा ऐसी मृत्यु दूसरों के लिए असम्भव है । हे अनघ, तुम्हारा अग्रज कृतार्थ हुआ । अब शोक करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए अब धैर्य धारण किये हुए इस दनुजेश्वर की अंत्येष्टि-क्रिया का प्रबन्ध करो ।’

तब भयभीत हो विभीषण ने अत्यन्त भक्ति के साथ हाथ जोड़कर कहा—‘हे देव, अब इसके लिए क्रिया-कर्म की क्या आवश्यकता है ? यह मेरा अग्रज ही कहाँ है ? यह तो मेरा शत्रु है । आपकी पत्नी को यह क्रूर, नीच एव द्रुष्ट यहाँ हर लाया था; अब इसके लिए क्रिया-कर्म कैसा ? पर-वधुओं का स्पर्श-मात्र करनेवाले पुंश्व अधोगति को प्राप्त होते हैं । ऐसे लोगों का स्पर्श करना भी उचित नहीं है । उनको देखना भी नहीं चाहिए । इस पापी को मैं छू भी नहीं सकता । यह वैदिक कर्म के लिए योग्य नहीं है ।’

विभीषण की इन बातों पर मन-ही-मन विचार करने के पश्चात् राघव ने विभीषण को देखकर कहा—‘हे अनघ, तुम्हारी बातें सच हैं, किन्तु अब दनुजेश्वर की निन्दा नहीं करनी चाहिए । उसने युद्ध-रूपी गंगा-प्रवाह में अपने सभी प्राणों को धो दिया है । मेरे सभी कार्य सम्पन्न हो गये । मृत्यु के पश्चात् वैर रखना उचित नहीं है । अतः, तुम निष्ठा के साथ रावण की अंत्येष्टि-क्रिया करो ।’ तब विभीषण ने उनका आदेश स्वीकार करके ब्रह्म-विधियों का अनुसरण करते हुए अग्नि-त्रय को भँगाया और एकनिष्ठ हो अपने अग्रज का अग्नि-संस्कार किया । उसके पश्चात् बड़ी श्रद्धा से उसकी अंत्येष्टि-क्रिया पूरी की । क्रिया-कर्म से निवृत्त होने के पश्चात् उसने आकर रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम किया । तब उस विमलात्मा को देखकर राम ने मिष्टभाषण से उसका आदर किया और दयाद्वै हो उसे सांत्वना दी ।

१५२. विभीषण का राजतिलक

तत्पश्चात् राम ने अपने अनुज को देखकर अनुपम कृपात्रे चित्त से कहा—‘हे लक्ष्मण, तुम लका में प्रवेश करके इस पुण्यात्मा विभीषण का राजतिलक सपन्न करके आओ ।’ रामानुज बड़ी प्रीति के साथ लका में गये, वानर-श्रेष्ठों को भेजकर समुद्र-जल मँगाया । राक्षस-पुरोहितों तथा सज्जन मत्रियों को बुलवा भेजा और मगल-वाद्यों के विपुल नाद के बीच, विभीषण को अभिषिक्त किया और मगलोपचार के साथ उसे सिंहासन पर आसीन किया । इस प्रकार, बड़े हर्ष के साथ उसे लका का राजा बनाकर लक्ष्मण ने आशीर्वाद दिया कि ‘जबतक रवि-चन्द्र, पृथ्वी, कुलपर्वत, आकाश-समुद्र और सभी दिशाएँ रहेंगी, जबतक राघव का कीर्त्ति-गान इस पृथ्वी पर होता रहेगा, तबतक तुम इस राज्य पर शासन करते रहो । राक्षस-राज्य का बहन करना और उसका संचालन करना दुर्लभ कार्य है । अतः, तुम सावधान होकर इसका संचालन करो और शाश्वत धर्म का पालन करो ।’ तब विभीषण विशाल राज्य-प्राप्ति के आनन्द में इतराते हुए मगल-द्रव्य, आभूषण, वस्त्र एवं अमूल्य मणिसमूह साथ लिये हुए लक्ष्मण के साथ राम की सेवा में उपस्थित हुआ और उन वस्तुओं को राम के चरणों में समर्पित करके बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम किया । रघुराम ने वे वस्तुएँ मातलि को भेंट के रूप में दी और बड़ी प्रीति से उसे विदा दिया । मातलि ने रथ पर आरूढ हो वेग के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया । उसके पश्चात् राम ने मन में विचार करके मासति को देखकर कहा—‘तुम शीघ्र लका में प्रवेश करके जानकी को हमारी विजय तथा कुशल का वृत्तान्त सुनाओ ।’

१५३. हनुमान् का सीता को राम की विजय का समाचार देना

राम का आदेश पाकर हनुमान् अत्यन्त हर्षित हुआ और बड़े वेग से लका में प्रवेश किया । राम की विजय की मन-ही-मन कामना करती हुई, अशोक-वन में बैठी राम की पत्नी को देखकर हनुमान् ने उनको प्रणाम किया और अत्यन्त विनय से कहा—‘हे कल्याणी, मैं आ गया हूँ और आपके लिए हर्ष का समाचार लाया हूँ । जो आप चाहती थी, वही हुआ । हे देवी, आपके पति राम देव ने लोक-भयकर रावण का सहार किया और अनेक दुष्ट राक्षसों का नाश करते हुए अद्भुत रीति से युद्ध किया । वे अब अपने अनुज सौमित्र के साथ सकुशल हैं ।’ इसके पश्चात् उसने उस साध्वी की चिन्ता को दूर करते हुए, इसके पहले कहे गये वचनों का स्मरण दिलाते हुए कहा—‘हे कल्याणी, मैंने आप से पहले ही निवेदन किया था कि आप के पति समुद्र पर सेतु बाँधेंगे, लका पर आक्रमण करेंगे, और रावण का सहार करके आपको अपनायेंगे । वे वचन आज सत्य हो गये हैं । अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ । मेरे योग्य सेवा का आदेश दीजिए ।’

तब पवन-पुत्र को देखकर तथा रावण का मरण और रघुराम की विजय को सोचकर हर्ष के साथ वे बोली—‘हे अनघ, तुम्हारे प्रताप की सहायता से ही राम भूपाल ने यह कार्य सपन्न किया है । दैत्यों के गर्वान्धकार से आवृत इस लका में प्रवेश करके इसे साधना, दूसरों के लिए कहाँ संभव था ? तुम्हारे धैर्य, गभीरता, महान् शौर्य, माधुर्य एवं सद्गुणों की महिमा की प्रशंसा कैसे करूँ ? तुम्हारे शील एवं पराक्रम की सराहना मैं कैसे करूँ ?

अंसख्य, नवाभरण, श्रेष्ठ वस्त्र, स्वर्ण और रत्नों से युक्त राज्य तुम्हें भेंट दूँ, तो भी वह तुम्हारे वीरतापूर्ण कार्यों के लिए अल्प ही होगा। हे पवनपुत्र, तुम्हारे कार्य से मैं अपने मन में बहुत सतुष्ट हूँ।'

सीता की बातें सुनकर हनुमान् अत्यंत हर्ष से कहने लगा—'हे माता ! आप मुझपर इतनी करुणा-पूर्ण दृष्टि रखती हैं और मेरा इतना आदर करती हैं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। सच तो यह है कि (आपका आदर प्राप्त करना) इन्द्र-पद या किसी दूसरी वस्तु से भी महान् है। तब भूमिसुता ने हनुमान् को देखकर कहा—'हे अनघ ! तुम्हें बल, शौर्य, पराक्रम, अपार तेज, क्षमा, ज्ञान, उदारता, स्वैर्य, सतत निश्चल स्वामिभक्ति, विनय आदि विश्रुत गुण प्राप्त हो।' इसके पश्चात् हनुमान् ने उस देवी के निकट रहनेवाली भयकर आकारवाली, राक्षसियों को देखकर कहा—'उस पापात्मा की आज्ञा का पालन करती हुईं ये पापी स्त्रियाँ कदाचित् आपको हानि पहुँचायेंगी। मैं अभी इन्हें अपनी कठोर मुष्टि-प्रहारस मार डालता हूँ।' तब जानकी ने हनुमान् को देखकर कहा—'बाण चलानेवाले के रहते हुए भला बाण को दोषी ठहराना क्या उचित है ? दासियों का वध करना कदापि उचित नहीं। मैंने अपने पापों के फलस्वरूप यह सब विपत्ति पाई। इसके लिए ये कैसे दोषी हो सकती हैं ? हे पुष्पचरित, महान् व्यक्ति पापियों पर भी दया दिखाते हैं। अतः हे वानरोत्तम, इन राक्षसियों का मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं है।' तब हनुमान् ने कहा—'हे देवी ! आप निर्मल गुण-रत्नों की निधि हैं। आप राम की धर्म-पत्नी बनने के योग्य हैं। अब मुझे राम की सेवा में जाने की आज्ञा दीजिए।' तब उस देवी ने कहा—'हे वानरोत्तम, अबतक उन्हीं को मैं अपनी आत्मा मानकर अपने प्राण रोके हुई हूँ। अब मैं उन्हें देखे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती। यह बात मेरे प्रभु को बतलाना। अब तुम जाओ।' इस प्रकार कहने के पश्चात् उन्होंने हनुमान् को आशीर्वाद दिया। हनुमान् ने बड़ी भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और राम भूपाल के निकट पहुँचकर अत्यंत विनय से निवेदन किया कि हे देव, मैंने आपकी विजय तथा कुशल का वृत्तांत देवी सीता से निवेदन किया, तो वे बहुत हर्षित हुईं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी ओर से प्रभु से निवेदन करना कि मैं उनके दर्शनों की अभिलाषिणी हूँ।

१५४. राम के आदेश से विभीषण का सीता को लिवा लाना

तब राम ने थोड़ी देर तक मन-ही-मन सोचा और विभीषण को बुलाकर कहा—'हे विभीषण ! तुम शीघ्र जानकी के मंगल-स्नान का प्रबन्ध करो और दिव्य वस्त्राभरण एवं पुष्प-मालाओं से अलङ्कृत कराके उन्हें यहाँ लिवा लाओ।' तब उसने बड़े हर्ष से जाकर सरमा आदि अपने अन्तपुर की स्त्रियों से सारी बातें समझाकर जानकी को लिवा लाने का आदेश दिया। वे भी बड़ी प्रीति से सीता के पास गईं और उन्हें बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके कहा—'हे देवी, आपके पति राम देव ने विभीषण को, आपको लिवा लाने की आज्ञा दी है। इस हेतु उन्होंने हमें आपकी सेवा में भेजा है। आप प्रसन्न होकर अभीष्ट मंगलदाता राम के समक्ष पधारें। हे सुन्दरी, आप यह वेश तज दीजिए। आप तो शुभ-प्रदायिनी हैं।' इस प्रकार कहने के पश्चात् उन्होंने उनका मंगल-स्नान कराया,

उनकी तनुलता को पीछकर दिव्य वस्त्रो से उन्हें सजाया, दिव्य मालाएँ और दिव्य आभूषणो से उन्हें अलङ्कृत किया और उसके पश्चात् स्वर्ण-पालकी में बिठाकर उन्हें ले चली। तब राक्षसेश्वर विभीषण बड़ी भक्ति के साथ राजचिह्न तथा वेत्र धारण करके अपने-आपको धन्य मानते हुए, एक सेवक के समान प्रमुख राक्षसो के साथ पालकी के आगे-आगे चलने लगा। राम के निवास से थोड़ी दूर पर पालकी को रोककर विभीषण राम की सेवा में उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर नम्रता से बोला—'देव, लिवा लाया हूँ, देवी को! देवी यहाँ पधारी हुई हैं।'।

तब राम ने अत्यन्त हर्ष, रोष एवं दैन्य से अभिभूत हो, मन में विचार कर विभीषण से कहा—'लिवा लाओ।' तब परम पावन तथा ज्ञानी विभीषण पावन-चरिता सीता को बड़ी श्रद्धा से लिवा ले चला। उस समय राक्षसो एव चानरो की भीड़ (सीता के दर्शनों की तीव्र उत्कठा से) उमड़-उमड़कर मार्ग को रोकने लगी। तब विभीषण निर्दय होकर अपने हाथ की बेंत से उनपर कसकर प्रहार करने लगा। इस कारण से भीड़ में उठनेवाले आर्त-नाद को सुनकर राम ने विभीषण से कहा—'हे विभीषण! ऐसा भयंकर कार्य क्या तुम्हारे लिए उचित है? अब इनमें से हमारे लिए पराया कौन है? अपना को इस प्रकार दुख क्यों पहुँचाते हो? उन्हें रोको मत। सभी लोग आकर देखें। इसमें बुरा क्या है? (स्त्री के लिए) कालान्तर एव देशान्तर में नष्ट न होनेवाला एक शील ही गोपन की वस्तु है। ये विशाल दुर्ग, भवन, पर्व आदि कभी स्त्रियो के लिए उचित आवरण नहीं हो सकते। व्यसनो में, विवाहो में, युद्धो में, मित्रो में और उत्सवो में स्त्रियो के लिए आवरण अनावश्यक है। मैं यहाँ हूँ और यह रण-भूमि है। अतः, इसमें कोई दोष नहीं है; उन्हें आने दो।'।

तब राम के आदेशानुसार विभीषण सीता को लिवा लाया। उस समय कल्याणी सीता का शरीर स्वेद-बिन्दुओ से ऐसे आप्लावित हो रहा था, मानो उनके हृदय में उमड़ता हुआ आनन्द (हृदय से) छलककर सारे शरीर में व्याप्त हो गया हो। उन्होंने राका-शशि रामचन्द्र के दर्शनामृत का पान करके चिरविरहाग्नि को शान्त किया और परम-अनुराग से भरी हुई अपने मन की उत्कठ इच्छा से प्रेरित हो राघव को देखने लगी। राघव को देखते ही उनके घवल-लोचन-उत्पलों से अश्रु-प्रवाह उमड़ आया। वे भय, प्रीति एवं व्रीडा से अभिभूत होकर सिर झुकाये खड़ी रही।

तब रघुराम का मन क्रोधावेश से भर गया। उन्होंने उस रमणी को देखकर कहा—'हे नारी, पुण्यशीला स्त्रियो के लिए लज्जा ही प्राण है। हे लज्जावती, प्रतिष्ठा की रक्षा का विचार करके मैंने तुम्हें मुक्त किया है। इसके सिवा मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई आसक्ति शेष नहीं है। काकुत्स्थ-वशज धैर्य के धनी होते है, लोक-रक्षण-तत्पर होते है, तथा लोक-प्रशसा के योग्य होते है। उनके वश में जन्म लेकर (यदि मैं तुम्हें ग्रहण करूँ, तो) लोग कहेंगे कि मैंने अपने औचित्य को त्याग दिया। शत्रु के घर में रही हुई तुम्हारा स्पर्श करके तुम्हें अपना धर्म-सगत नहीं हो सकता। इस भय से कि लोग यह न कह बैठें कि यह अपनी पत्नी को खो बैठा और उसे छुड़ाकर नहीं ला सका, मैंने तुम्हें छुड़ाया है! इसके सिवा तुम्हें लाने का मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम जहाँ चाहो, जा सकती हो।'।

राम को इन निष्ठुर वचन-बाणों के लगने से सीता तिलमिला उठी। वह कमलाक्षी सद्यः प्राप्त आनन्द को भूल गई और अवाक् एव स्तम्भित-सी रह गई। क्षोभ, दुःख एव क्रोध से अभिभूत हो, वे रामचन्द्र को देखकर गद्गद कंठ से कहने लगी—‘हे देव, क्या आप मेरा हृदय नहीं जानते ? क्या, आप सर्वज्ञ एव मनीषी नहीं हैं ? बाल्यावस्था में आप मुझे ले आये और तब से मेरा पालन-पोषण तथा रक्षण करते रहे। आप ऐसे कठोर वचनों से मुझे क्यों दुःखी बना रहे हैं ? मैं कहों, आप कहाँ और आपके ये वचन कैसे ? मैंने भू-माता के गर्भ से जन्म लिया, उसके पश्चात् महाराज जनक ने मुझे पाल-पोसकर बड़ा किया, फिर आप-जैसे नृप-शिरोमणि की पत्नी हुई। क्या, चंचल चित्तवाली स्त्रियों का-सा व्यवहार मेरे लिए कभी सहा हो सकता है ? पुरुष, अविश्वसनीय स्त्रियों के प्रति जैसे वचन कहते हैं, वैसे वचन आप मेरे प्रति कह रहे हैं। क्या, यह आपके लिए उचित है ? यदि आपको मुझपर विश्वास नहीं था, तो जिस दिन मेरा पता जानने के लिए हनुमान् को भेजा था, उसी दिन कहला भेजते, तो उसी दिन मैं अपनी सभी आशाओं को तजकर प्राण त्याग देती ।’

इसके पश्चात् सीता ने लक्ष्मण को देखकर कहा—‘हे अनघ, तुम्हारे अग्रज मुझपर सदेह करके मेरे प्रति पुरुष वचन कह रहे हैं। क्या मेरे प्रति ऐसा व्यवहार उचित है ? क्या, ऐसी बातें वे मुझे कह सकते हैं ? क्या, तुम्हें उनसे यह कहना नहीं चाहिए कि ऐसे वचन कहना उचित नहीं है ? मेरा आचरण देखते हुए, क्या, तुम मुझमें किसी पाप का अनुमान कर सकते हो ?’

१५६. सीता का अग्नि-प्रवेश

वे आगे कहने लगी—‘अब वाका मत करो। तुम भली भाँति विचार करो और यदि तुम लोगों का यही निश्चय है, तो यहाँ चिता सजाओ। मैं सबके समक्ष, बिना विचलित हुए अग्नि में प्रवेश करूँगी। अग्नि के द्वारा मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण दूँगी और ब्रह्मादि देवताओं की प्रशंसा प्राप्त करते हुए भूमि में प्रवेश कर जाऊँगी ।’

तब लक्ष्मण ने बड़ी व्याकुलता से अपने अग्रज की ओर देखा और उनके मन के भावों को समझकर सीता के लिए चिता का प्रबन्ध किया। तब सीता ने बड़ी भक्ति से चिता की परिक्रमा की और उसकी स्तुति करके, उसे प्रणाम किया। फिर, अग्निदेव के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़े हुए वे कहने लगी—‘हे धर्मादि देवताओं, हे धर्मा, हे निर्मलात्माओं, हे नियतात्माओं, हे जगत् के अधिष्ठाताओं, हे सूर्य-चन्द्र, हे वेदसाधकों, हे वेदों, हे महात्माओं, हे सर्वज्ञों, हे पचभूतों, हे परहितात्माओं, हे श्रेष्ठ नरों, हे श्रेष्ठ किन्नरों, हे सुरवरो, हे भूसुरवरो, हे कृपालुओं, हे दिक्पालों, हे सन्मतियों, हे पापसंहारकों, मैंने मन-वचन-कर्म से राजा राम के सिवा और किसी का स्मरण नहीं किया है। यदि मैंने ऐसा किया हो, तो मैं इस अग्नि का सहन नहीं कर सकूँगी और सब के समक्ष इसी अग्नि में भस्म हो जाऊँगी ।’ यो कहती हुई सीता ने आकाश तक व्याप्त होनेवाली अनुपम आकार की भयकर ज्वालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि-कुंड में अविचल खड़ी रहनेवाली सीता किंचित् भी नहीं जली। कर-चरण-आनन-रूपी कमल, चक्र-

वाक-रूपी कुच-द्वय, बाहुलताएँ-रूपी मृणाल, विमल त्रिवली-रूपी तरंगों, विशाल एवं चंचल नैत्र-रूपी मत्स्य, सहज नील चिकुर-रूपी शैवाल से युक्त सरोवर की भाँति सुशोभित उस कमलाक्षी को देखकर वानर एव राक्षस शोक करने लगे । सुर, सिद्ध एव साध्य स्तुति करने लगे । पवन-पुत्र, सूर्य-पुत्र, सौमित्र, विभीषण, अगद, वानर-सेना, दानव-वीर, साथ ही सरमा आदि राक्षस-वधुएँ अत्यधिक शोक से सतप्त हो उठी । राम निर्वेद से अभिभूत हो स्थिर रहे ।

तब शिव, ब्रह्मा, अखिल दिक्पाल, गरुड-गधर्व एव खेचर-श्रेष्ठ विमान पर आरूढ हो वहाँ आ पहुँचे । राम उन्हें देखकर उनके स्वागतार्थ खड़े हुए । राम को देखकर उन्होंने कहा—“हे देव ! आप वेदान्त के द्वारा ज्ञेय है, (अखिल ससार के) साक्षी है, कर्ता है, ज्ञान-स्वरूप है, मुक्त है, नित्यपूर्ण है, सर्वज्ञ है, जगदेकनिधि है, अक्षीण पुण्यात्मा है, अव्यक्त है, अक्षर त्रिमूर्ति है और आद्यत-पति है । भुवन, समुद्र, भूत, नदियाँ, यज्ञ, पर्वत, जन्तु-समूह, वृक्ष, भार्ग, तन्त्र, विधियाँ, सुर, नक्षत्र, वेद, शास्त्र आदि सहस्रो, लाखों, करोड़ों तथा अरबों की सख्या में एक-एक ब्रह्माण्ड में पाये जाते हैं, उनकी गणना कोई भी नहीं कर सकता । ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड आपके उदर में रहते हैं । उनकी गणना ही नहीं हो सकती । आपके स्वरूप का पार पाना किसके लिए संभव है ? आपकी माया का प्रभाव जानना आपके सिवा दूसरो के लिए कहाँ संभव है ? ‘आपने अमुक का सहार किया, आपने अमुक को जीता, अमुक ने आपको जीता, अमुक आपके अधीन है, अमुक आपसे श्रेष्ठ है’—ऐसी निन्दा एव स्तुति आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती । दास-भाव को छोड़कर अन्य किसी भी मार्ग से आपके ज्ञान-रूप का दर्शन दुर्लभ है । हे राजन्, आप आदिनारायण हैं और जानकी आदिलक्ष्मी हैं । लोक-रक्षणार्थ आप काकुत्स्थ के रूप में विख्यात हुए हैं । आप स्वयं अपने को क्यों भूल गये हैं ? निष्ठुर वह्नि में स्थित जानकी को देखते हुए चुप रहना आपके लिए उचित नहीं है । आप उन्हें अपनाइए, प्रीति से आदर कीजिए । उस वनजाक्षी की उपेक्षा मत कीजिए ।”

• १५७. सीता-परिग्रह

देवताओं ने जब रामचन्द्र को कई रीतियों से समझाया, तब दैत्य तथा कपि परस्पर कहने लगे—‘इस साध्वी के शरीर से न श्रम-बिन्दु निकल रहे हैं, न इनका मुख कुम्हला रहा है, न इनकी तनुलता सूख रही है, न ये व्याकुल हो रही हैं, न इनकी धारण की हुई पुष्प-मालाएँ मुरझाई हैं और न इनका अगराग ही छूटा है ।’ वे सीता को देखकर शोक-संतप्त होते हुए गद्गद कंठ से कहने लगे—‘रामचन्द्र को ऐसी पवित्र पत्नी के प्रति ऐसे निष्ठुर चचन नहीं कहना चाहिए । ऐसा साहस उचित नहीं है । उनके इस प्रकार कहते समय अग्निदेव कोमलागी सीता को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकले और उन्हें बड़ी प्रीति से राम के सामने खड़ा करके कहा—‘यह कल्याणी सुग्धा है । तुम्हीं इसके देवता हो, तुम्हीं इसके प्राण हो, तुम्हीं इसके बन्धु हो और तुम्हीं इसके सर्वस्व हो । तुम्हारे सिवा और किसी को इसके हृदय में स्थान नहीं है । रावण की आज्ञा से कई राक्षस-स्त्रियो ने कई प्रकार से इसे पीड़ित किया, भयकर कृत्यों से इसे डराया, धमकाया और छल किया ।

इस पर भी यह साध्वी तुम्हारा विस्मरण नहीं करती थी, विचलित नहीं होती थी, अपना मन तुम पर ही केन्द्रित करके अपना सर्वस्व तुम्हारे विश्वास पर त्यागकर अपना दिन बिताती रही । अब प्रीति के साथ इस कमलाक्षी को स्वीकार करो । स्वीकार न करना अधर्म होगा ।'

जब अग्निदेव ने इस प्रकार कहा, तब राम ने अपने मन-ही-मन कुछ देर तक विचार किया और फिर शिव, ब्रह्मा, आदि देवताओं की मंडली को देखकर इस प्रकार कहने लगे— 'मैं जानता हूँ कि इस रमणी में कोई पाप नहीं है । यह उन्नत विचारवाली रमणी मेरे प्रति अकलक निष्ठा रखती आई है, इस सुन्दरी में भय, भक्ति, शील, ज्ञान आदि गुण हैं । मैं यह भी जानता हूँ कि राक्षस इसे अपने वश में कर नहीं सका । किन्तु, मुझे जानकी को ऐसा आदेश इसलिए देना पड़ा कि पीछे लोग यह न कहें कि महान् पापी तथा अत्यधिक बलवान् रावण ने अपने उद्यान में जानकी को रखा था, किन्तु रघुराम उसे चुपचाप ले आये । ऐसा कामुक व्यक्ति इस ससार में और कौन हो सकता है, जो अपने अपयश का किञ्चित् भी विचार नहीं करता । अब सभी शकाओं का निर्मूलन हो गया । आपके आदेशों का पालन करके मैं सीता को स्वीकार करता हूँ ।' इस प्रकार कहते हुए उन्होंने सीता को अपने निकट बुला लिया । उस समय रघुराम सीता के साथ ऐसे शोभित हुए, जैसे आकाश में रोहिणी से युक्त प्रभा-सपन्न चन्द्र हो ।

तब महादेव ने आश्रित-कल्पतरु रामचन्द्र को देखकर बड़ी प्रीति से कहा—'हे अनघ, ऐसे महत्तर कार्य को साधने के लिए आपके सिवा और कौन उद्यत होगा ? ऐसे लोक-कल्याण का कार्य और कौन सपन्न करेगा ? रावण तो लोक-कटक, त्रिलोक-भयकर, देवों की वदना को प्राप्त करनेवाला तथा महा बलशाली था । ऐसे रावण का नाश करना किसी के लिए भी संभव नहीं था । ऐसे व्यक्ति से आपने शत्रुत्व ठाना, उस पर आक्रमण किया, उसका सहार किया और उसका दहन-संस्कार करके अपने अनुपम बल तथा विक्रम की प्रौढता दिखाई, आपकी समता करनेवाला इस ससार में कौन हो सकता है ? आपने रावण का सहार किया और आपके कारण चौदहों भुवनों की रक्षा हुई । इस शोभा को देखने के लिए आपके पिता महाराज दशरथ स्वर्ग से आये हैं । वह देखिए, वे देवताओं के आधिपत्य से दीप्त हो विमान पर आरूढ हैं । आप उस सत्यनिधि एव पुण्यात्मा की पूजा तथा सत्कार कीजिए ।'

१५८. दशरथ के दर्शन

तब सुशील रघुराम ने अनुज-युक्त हो, बड़े प्रेम, श्रद्धा एव निष्ठा के साथ महाराज को साष्टांग प्रणाम किया । तब महाराज ने बाँहें फैलाकर बड़े मोद से उन्हें हृदय से लगा लिया और राम को देखकर कहा—'हे वत्स, कैकेयी की बातें सुनकर तुम जैसे लोक-रक्षण-कला-निरत को मैंने वन में भेज दिया । मैंने औचित्य का विचार नहीं किया और न शुभ कार्य को पहचान सका । तुम्हारा राजतिलक करके तुमको राज्य करते हुए जी भरकर देखने का तथा समस्त ससार को सुखी होते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ । पुत्र-शोक से मैंने मृत्यु को प्राप्त किया । ऐसे मुझे इन्द्र-लोक में प्रवेश करने का अधिकार कहाँ ?

वह दुःख सतत प्रज्वलित अग्नि के समान मेरे हृदय में जलता रहता है । अमर लोक में भी जो अग्नि शमित नहीं हुई, वही आज तुम्हारे समक्ष उपशमित (शान्त) हो गई । हे कमलाप्त-सम-तेजस्वी, हे कमलाभिराम, हे कमलाप्तवशज, तुम अयोध्या को लौट जाओ और निखिल धर्मों का पालन करते हुए साम्राज्य को ग्रहण करके अक्षय कीर्ति के साथ चिर काल तक इस पृथ्वी का ऐसा पालन करो कि प्रजा कहे कि राम लोकाभिराम है ।

उसके पश्चात् उन्होंने लक्ष्मण को देखकर कहा—‘हे सौमित्र, तुमने राम के साथ अरण्य में धूमते हुए अनेक उत्तम एव साहसपूर्ण कार्य करके पुण्य प्राप्त किया है । भविष्य में भी सावधानी के साथ, अपने अग्रज के मन को दुःखी बनाये बिना आचरण करते रहना ।’ तदनंतर उन्होंने अपना सिर झुकाकर प्रणाम करके खड़ी हुई सीता को देखकर कहा—‘हे पुत्री, परम पवित्र पातिव्रत्य धर्म में तुम्हारी समता कोई स्त्री नहीं कर सकती । तुम उत्तम साध्वी हो । राम ने तुम्हें जो निष्ठुर वचन कहे, उनके लिए तुम रुष्ट और दुःखी मत होना । तुम राघव के समान महान् कीर्तिवान् पुत्रों को प्राप्त करो, पुण्य प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करो ।’ इस प्रकार, तीनों को आशीर्वाद देकर महाराज दशरथ मन-ही-मन सतुष्ट हुए ।

१५९. देवताओं का अभिनन्दन

तब चन्द्र-सम शीतल प्रभु राम को देखकर इन्द्र आदि देवताओं ने कहा—‘हे पुण्यात्मा, आपने हमारे निमित्त मनुष्य के रूप में जन्म लिया, राक्षसों का सहार किया, अनेक प्रकार के दुःखों का सहन किया और भूमि का भार उतारकर हमारी रक्षा की, हमें जीवन-दान दिया और हमें शान्ति प्रदान करके भेज रहे हैं । हम आपको वर देंगे । आप अपना अभीष्ट कहें ।’

तब राम ने देवताओं को देखकर मदहास करते हुए कहा—‘आपकी कृपा से इस ससार में मेरे सभी कार्य सम्पन्न हो गये । कितने ही वानर, अपना-अपना देश, घर-बार, बन्धुजन, पुत्र तथा मित्रों को छोड़कर, बड़े साहस के साथ, अपने प्राणों की भी परवाह किये बिना मेरे लिए शत्रुओं के साथ युद्ध करके प्राण खो बैठे हैं । ये कपि-वीर उन्नतात्मा हैं । उन्हें जीवन प्रदान कीजिए ।’ तब देवताओं ने कहा—‘ऐसा ही हो । ये वानर प्राण प्राप्त करेंगे ।’ इतना कहकर महादेव, ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता तथा दिक्पाल, मुनि, सुर सभीराम की प्रशंसा करते हुए स्वर्गलोक को चले गये । उसके पश्चात् दशरथ भी स्वर्ग को चले गये ।

देवताओं के वर के प्रताप से युद्धभूमि में कटकर गिरे हुए सभी वानर जीवन प्राप्त करके ऐसे उठे, मानो वे नीद से जाग रहे हो । फिर, राम को देखकर बड़े हर्ष से उन्होंने प्रणाम किया । तब राम बड़ी दया से उन सब को निहारकर बहुत प्रसन्न हुए ।

तब विभीषण ने राम को देखकर बड़ी भक्ति के साथ कहा—‘हे देव, हे राघव-राज, आपके लका में पधारकर अभिषेक स्वीकार करने का यही उचित समय है ।’ तब राघव ने कहा—‘जटाओं का भार धारण किये हुए तथा वल्कल पहने भरत के (अयोध्या में) तप में निरत रहते समय, उसको बिना देखे हमारा यहाँ सुख-भोग में तत्पर रहना अनुचित है ।’

साथ. उस पुष्पक की पूजा की और उसकी परिक्रमा करने के बाद बड़े हर्ष से उस विमान पर आरूढ़ हुए ।

तब राम ने सुग्रीव आदि मित्रों तथा अन्य वानरों को देखकर कहा—‘तुम लोगो ने मित्रता के नाते जो कार्य किये, उन्हें देवता भी नहीं कर सकते थे । मैंने तुम्हारे कारण समस्त तेज, समस्त सुख तथा अपार कीर्ति प्राप्त की । तुम पुण्यात्मा, परम-पावन तथा धन्यजीवी होओगे । अब तुम लोग अपने-अपने देश को लौट जाओ ।’ तब कपियों ने कहा—‘हे राजन्, हम भी आपकी सेवा करते हुए अयोध्या जायेंगे, आपका राजतिलक देखेंगे और आपके अनुपम चरित्रवान् अनुज भरत-शत्रुघ्न को, परम-पावनी आपकी माताओं को देखेंगे और आपके नगर तथा गंगाजी के दर्शन करके लौटेंगे ।’

तब राम ने मन-ही-मन हर्षित होते हुए विभीषण, सुग्रीव, अगद, हनुमान्, नील आदि अनेक महान् वानर-श्रेष्ठों को पुष्पक में चढ़ने की अनुमति दे दी । वे भी बड़े उत्साह से पुष्पक में बैठ गये । दनुज-स्त्रियाँ सीता को प्रणाम करके अपने-अपने निवास को लौट गईं । तब दाशरथि को देखकर विभीषण ने कहा—‘हे देव, इस पुष्पक की विशेषता यह है कि इसमें कितने लोग भी बैठें, सब के लिए तो इसमें स्थान निकल आयागा, साथ ही एक कोने में पाँच सौ लोगो के लिए स्थान बचा रहेगा ।’ तब राम ने बड़े हर्ष से असंख्य वानर एव राक्षसों को उस विमान में बैठने की अनुमति दी । इसके पश्चात् वह पुष्पक गगन की ओर उड़कर आकाश-मार्ग से, मनोवेग के सदृश वेग से ऐसा जाने लगा, मानो सूर्यबिम्ब पूर्व से पश्चिम को जाना छोड़ दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा हो ।

१६१. श्रीराम का सीता को विभिन्न दृश्यों को दिखाकर सम्मानना

तब नित्य-पुण्यवान्, राम ने सीता से कहा—‘हे शुक्लबयनी, क्या तुमने अक लक श्री से विलसित इस लका को देखा ? यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हुई है और त्रिकूट पर्वत के मध्य में स्थित है । इस लका का राज्य करने का भाग्य रावण को नहीं था, इसलिए उस दुर्जन का नाश हुआ ।’ उसके पश्चात् राम ने उन्हें रक्त, मास, मज्जा तथा अस्थि-खण्डों से परिपूर्ण समर-भूमि को दिखाते हुए कहा—‘हे कमलाक्षी, यही पर रावण अपना रण-कौशल दिखाते हुए युद्ध करके मारा गया । देखो, वहाँ महान् शक्ति-संपन्न कुम्भकर्ण घोर युद्ध करने के पश्चात् हत हुआ । यहाँ पर प्रहस्त नील पर आक्रमण करके नष्ट हुआ । यही पर हनुमान् ने महान् बली घुआक्ष का सहार किया । उस स्थान पर अजेय हो मेघ-नाद ने हमें नाग-पाशों से बाँधा था । वहाँ पर सौमित्र ने अपना शौर्य तथा शक्ति दिखाते हुए अतिकाय का वध किया था । यहाँ पर अक्षीण बलशाली मकराक्ष युद्ध करते हुए गिरा था । इस स्थान पर शत्रु-दलन तथा अकुंठित विक्रमी अग्निवर्ण गिरा । उस स्थान पर सौमित्र ने इंद्रजीत का सहार किया । हे सरोजाक्षी, इसी स्थान पर अगद ने अनुपम बली अतिकाय का वध किया था । इसी स्थान पर महोदर तथा महापाशर्व नामक भयंकर विक्रमी लडते हुए गिरे थे । यहाँ देवातक एव नरातक क्रूरता से युद्ध करते हुए मारे गये थे ।

‘यह ली, यही पर महान् सेतु है, जिसे हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए समुद्र पर बाँधा था। यही गंधमादन नामक पुण्य-तीर्थ है। यह सदाशिव का सर्वमान्य निवास-स्थान है। हे कमलाक्षी, यह जो काचनाचल दीख रहा है, वही हिरण्यनाभ है। हे सुदरी, पवन-पुत्र तुम्हारा अभ्येषण करते हुए बड़े वेग से लका की ओर जा रहा था, तब उसको आतिथ्य देने के उद्देश्य से यह महान् पर्वत समुद्र से ऊपर निकल आया था।’

जब राम इस प्रकार वर्णन कर ही रहे थे कि ‘राम’ ने अपने समक्ष भयंकर आकार से मुक्त रावण का रूप देखा। उसे देखते ही सन्नमन्त्रित हो राम ने विभीषण से कहा—‘हे विभीषण, यह कैसा विचित्र है? मैं ने अपने प्रचण्ड बाहुबल से युद्ध-क्षेत्र में दशकठ का सहार किया था, और इसके लिए ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने बार-बार मेरी प्रशंसा भी की थी। तब फिर अग्न मेरी आँखों के सामने रावण आकर कैसे खड़ा है? इसका क्या रहस्य है?’ तब विभीषण ने कहा—‘हे राजन्, ब्रह्मा की सतति में जन्म लिये हुए दुर्जन रावण का आपने वध किया था। अतः, आपको ब्रह्मा-हत्या का दोष लग गया है। इसलिए कदाचित् रावण आपको दीख पड़ा है। इस पाप का प्रायश्चित्त यही करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आगे के कार्य सफल नहीं होंगे। अतः, आप मन-ही-मन ब्रह्मा का स्मरण कीजिए। देवताओं के साथ वे बड़े हर्ष से आयेंगे और कर्त्तव्य का निर्देश करेंगे।’

तब राम ने पुष्पक विमान को पृथ्वी पर उतरवाया और मन-ही-मन बड़ी श्रद्धा से ब्रह्मा का स्मरण किया। तुरन्त सभी दिक्पालो, मुनियो तथा देवताओं के साथ ब्रह्मा वहाँ आये और बड़ी प्रीति से बोले—‘हे देव, आपने मुझे किसलिए स्मरण किया है?’ तब रघुराम ने अपने देखे हुए रावण के रूप का वृत्तान्त सुनाया। तब ब्रह्मा विस्मित होकर बोले—‘हे देव, यह दैत्य मेरे तेज से इस पृथ्वी पर पैदा हुआ और इतने घोर पाप किये, फिर भी अन्त में पाप-रहित होकर मरा। इस पृथ्वी पर विप्र अपने वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान रखते हुए, उसके अनुसार कर्म न करे, उसके विपरीत कर्म करे, अतुल पाप करे, गुरु-दूषण करे, कुल-भ्रष्ट हो जाय और गो-ब्राह्मण हत्या आदि घोर पाप भी क्यों न करे, फिर भी वह इस पृथ्वी पर वध के योग्य नहीं है। राजा को यही चाहिए कि ऐसे दुर्जन, क्रूर एवं पापी के वध को निर्मूल कर दे और उसे अपने देश से निर्वासित कर दे। हे जगदीश, विश्ववसु का पुत्र, अब मोक्षार्थी हो आपके सामने खड़ा हुआ है। उसे सतुष्ट कीजिए और एक शुभ लग्न में समुद्र के सेतु पर अपने नाम पर शिव की प्रतिष्ठा कीजिए। इसके पश्चात् उसकी विधि बतलाकर ब्रह्मा चले गये।’

१६२. राम के द्वारा शिवलिंग का प्रतिष्ठापन

तुरन्त राम ने अपने निकट रहनेवाले पवन-पुत्र को देखकर कहा—‘हे प्रशासनीय बलाह्य तथा साहसी हनुमान्, तुमने हमारा कार्य पूरा करके हमारा उद्धार किया है और हमारी कीर्ति को चारों ओर फैलाकर हमें कृतार्थ किया है। विनय, विक्रम, धैर्य एवं प्रसिद्धि में निखिल लोको में तुम्हारी समता कोई नहीं कर सकता। अभी हमारा एक और कार्य संपन्न करो। हे वानरोत्तम, तुम असख्यफलप्रदायिनी काशी को शीघ्र जाकर वहाँ से एक शिवलिंग ले आओ। यहाँ से काशी दो सौ दस योजन दूर है। दो घड़ी में

तुम शिवलिंग को लेकर वापस आओ । कहीं भी विलम्ब किये बिना शीघ्र आना । पृथ्वी पर मूर्च्छित होकर गिरे हुए मेरे भाई के लिए तुम तेईस लाख बीस सहस्र और दस योजन की दूरी पवन-वेग से पार करके ओषधी-शैल ले आये थे और फिर उसे यथास्थान पहुँचा दिया था । यह सारा कार्य तुमने एक अर्द्ध प्रहर में सपन्न किया था । यह कार्य तुम्हारे लिए कोई बड़ा नहीं है ।'

यह सुनकर हनुमान् ने हर्ष से फूलते हुए रामचन्द्र को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर चल पड़ा । वह तुरन्त महेन्द्राचल पर चढ़कर अपनी सारी शक्ति के साथ आकाश की ओर उछलकर आकाश-मार्ग से काशी नगरी में पहुँच गया । उसने वहाँ पुण्य-तरंगिणी गंगा में स्नान किया, काशी में विलसित परम दयालु भक्तजन-पालक विश्वनाथजी के दर्शन करके उनकी स्तुति की । वहाँ से एक शिवलिंग को लेकर हनुमान् तुरन्त अत्यधिक वेग से लौटने लगा ।

हनुमान् के आगमन की प्रतीक्षा में बैठे हुए बधु-जन-वदित राम मन-ही-मन सोचने लगे—'शुभ लग्न आसन्न हो रहा है । पता नहीं कि हनुमान् अभी तक क्यों नहीं आया है । कदाचित् किसी राक्षस से छेड़े जाने पर उससे युद्ध कर रहा होगा । न जाने क्या बात हुई ?' फिर, उन्होंने निश्चय किया—'शुभ मुहूर्त्त के बीतने के पहले ही मैं एक सैकत लिंग बनाकर उसकी प्रतिष्ठा कर दूँगा ।' ऐसा निश्चय करके राम ने एक योग्य स्थल को चुनकर वहाँ अपने हाथों से एक सैकत लिंग बनाया । कमलाक्षी सीता ने पार्वती-नाथ के लिंग के ठीक सामने रेत से एक नन्दी बनाई । उसके पश्चात् राम उस लिंग की पूजा करने लगे ।

उसी समय वायुपुत्र वायु वेग से वहाँ पहुँचकर रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम किया । फिर, वह रामचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर खिन्न हुआ । उसका सारा शरीर दुःख के आवेश से काँपने लगा और गद्गद कंठ से वह राम को देखकर बोला—'हे सूर्य-वशतिलक, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं काशी गया और ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष ही मैं वहाँ से एक शिवलिंग ले आया हूँ । मुझे भेजकर, मेरे लौटने के पहले ही आपने शिवजी का प्रतिष्ठापन संपूर्ण कर दिया । क्या, यह आपके लिए उचित था ? हे देव, कदाचित् मैं आपके विश्वास के अयोग्य हो गया हूँ, आपके मन में मेरे प्रति प्रेम नहीं है ।' तब राम ने मद-मद मुस्कराते हुए हनुमान् के देखकर कहा—'हे पवन-पुत्र, तुम भी मेरे भाइयों में एक हो । मेरा तुम पर अपार स्नेह है । शुभ मुहूर्त्त न बीत जाय, यही विचार करके मैंने रेत से शिवजी का प्रतिष्ठापन किया । इतने में तुम आ गये । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । अब बुरा ही क्या है ? तुम इस शिवलिंग को हटाकर अपने लाये हुए शिवलिंग का प्रतिष्ठापन करो ।' तब वायुपुत्र ने बड़े हर्ष से अपनी पूँछ से उस शिवलिंग को लपेटा और बार-बार उसे हिलाने का प्रयत्न किया, किन्तु वह शिवलिंग किंचित् भी नहीं हिला । हनुमान् मन-ही-मन आशंकित होने लगा । फिर भी, उसने अनेक बार प्रयत्न किया, किन्तु उसे हिलाने में अपने को असमर्थ पाकर मन-ही-मन चिंताकुल हो सोचने लगा—'हाय, मैं पूर्व में सहज ही द्रोणाचल को उखाड़कर लाया था । शिव तथा भूतगण से युक्त कैलास

पर्वत को उठानेवाले रावण भी जब सौमित्र को उठाने में अपने आपको असमर्थ पाया, तब मने सौमित्र को उठाकर इन्द्र आदि देवताओं की प्रशंसा प्राप्त की। मेरु तथा मन्दर पर्वतों को मने अपने पैर के अँगूठे से उछालने की शक्ति रखता हूँ। क्या आश्चर्य है कि यह शिवलिंग मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है। कदाचित् मेरी शक्ति ही घट गई है, अथवा सूर्यवशज को क्रोध से अपशब्द कहने का पाप मुझे लग गया है या काशी का शिवलिंग यहाँ तक ले आने के कारण ही ऐसा हो रहा है। अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि यह शिवलिंग मेरे लिए भारी पड़ जाय।'

इस प्रकार सोचकर हनुमान् ने अपनी सारी शक्ति का सचय किया और उस शिवलिंग को उखाड़ने का शक्ति-भर प्रयत्न किया, किन्तु वह असफल हुआ। उसकी सारी शक्ति जाती रही और वह रक्त उगलते हुए मूर्च्छित हो नीचे गिर पड़ा। तब राम ने अपने दीप्तिमान् एव कोमल कर-कमल फैलाकर हनुमान् को उठाया। तब उसकी चेतना लौट आई और उसने राम को साष्टांग प्रणाम करके कहा—'हे सीता के हृदय-कमल-षट्चरण, आपकी जय हो। हे घोर कुटिल-राक्षस-समूह-संहारक, आपकी जय हो। हे शिव के उद्दण्ड-कोदण्ड-भजक, आपकी जय हो। हे बाणाग्नि से समुद्र को सोखनेवाले वीर, आपकी जय हो। हे रावण-रूपी उन्नत शैल के लिए अमरेन्द्र-स्वरूप, आपकी जय हो। हे भक्तवत्सल! आपकी जय हो। हे निर्मलात्मा, सज्जन-कल्पतरु, शतकोटि सूर्य-सम तेजस्वी, आपकी जय हो। आपकी महिमा महेश्वर, इन्द्र, नागेन्द्र तथा वागीश, इनमें कोई भी जान नहीं सकते। तब भला मेरी शक्ति ही क्या है कि मैं आपकी महिमा जानूँ? आपके द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग को अबोध की भाँति उखाड़ने का प्रयत्न करके मने जो अपराध किया है, उसे आप क्षमा कीजिए और आपकी आज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा लाये गये इस शिवलिंग की यथोचित व्यवस्था कीजिए।''

इस प्रकार अत्यन्त भक्ति से स्तुति करनेवाले हनुमान् को देखकर राघव ने कहा—'हे पवनपुत्र, तुम मन-ही-मन ऐसे क्यों दुखी होते हो? तुम अपने लाये हुए लिंग को यहीं पर प्रतिष्ठित करो। इस पृथ्वी के लोग पहले उसी शिव की पूजा करेंगे, उसके पश्चात्, मेरे द्वारा प्रतिष्ठित ईश्वर की अर्चना करेंगे। जो भक्त जाह्नवी का पुण्य-सलिल ले आकर उससे तुम्हारे लाये हुए शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, उनके किये हुए ब्रह्म-हत्या आदि पाप नष्ट हो जायेंगे, उनकी कीर्ति शाश्वत होगी, अनुपम पुत्र-पौत्रों की वृद्धि उन्हें प्राप्त होगी और वे अनुपम संपत्ति प्राप्त करेंगे।' यह सुनकर हनुमान् अत्यन्त हर्षित एव सतुष्ट हुआ।

उसके पश्चात् राम ने काशी-लिंग को वहाँ प्रतिष्ठित किया और पहले उसी लिंग की षोडशोपचार पूजा बड़ी भक्ति के साथ की और उसके पश्चात् अत्यन्त हर्ष से अपने द्वारा प्रतिष्ठित शिव की पूजा की। तब देवताओं ने राम पर पुष्प-वृष्टि की और सभी वानर आनन्द से प्रफुल्लित हो उठे। तब विभीषण ने राम से कहा—'हे जगदीश, आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि इस सेतु-मार्ग से कोई लका में न आ सके।'

१६३. श्रीराम का सेतु की महिमा बताना

श्रीराम ने तब बड़े हर्ष से उस विभीषण को देखकर कहा—'ऐसा ही होगा।'

फिर, वे सेतु पर कुछ कदम आगे चले और उस पर खड़े होकर अपने अनुज के हाथ का धनुष अपने हाथ में लिया और उसकी नोक से उस सेतु पर एक रेखा खींचकर, उसे इस प्रकार काट दिया कि कपियो के द्वारा निर्मित उस सेतु के सभी जोड़ टूट गये । उसके पश्चात् वे बोले—‘जो व्यक्ति इस स्थान पर स्नान करेगा, उसके परस्त्रीगमन, ब्रह्महत्या, गुरुद्रोह, गो-वध, सुरापान, वेद-दूषण, पर-वित्तापहरण, सहोदरी रति, स्त्री-हत्या, चोरो की मित्रता, गृह-दाह, मास-भक्षण आदि कार्यों के द्वारा उत्पन्न समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी, और उसे चिरायु, आरोग्य, पर-हितबुद्धि, सौभाग्य एव शाश्वत कीर्ति प्राप्त होगी ।’

इसके पश्चात् राघव बड़े हर्ष से पुष्पक पर आरूढ़ हुए । यह पुष्पक देवताओं के आशीर्वाद तथा वानरो की प्रशंसा प्राप्त करते हुए पूर्ववत् आकाश-मार्ग में बड़े वेग से जाने लगा । तब मनुकुलेश्वर भूमि सुता को देखकर बोले—‘हे विधुवदनी, इसी स्थान पर विभीषण हम से मिला था । यही पर मैंने कुश-शय्या पर शयन किया था । यही पर मैंने एकान्त-सेवा की और ब्रह्मास्त्र को चढ़ाकर समुद्र पर चलाने का उपक्रम किया, तो नदियों के साथ समुद्र ने आकर इसी स्थान पर मुझे प्रणाम किया था । हे कमलमुखी, यहाँ पर मैंने अनुपम विक्रम एव शान्ति से बाण का सधान करके बालि का वध किया था । वहाँ देखो, प्रचुर वनो और फलो से युक्त किष्किन्धापुरी है, जो सुग्रीव की राजधानी है ।

तब चंचल नेत्रवाली जानकी ने रामचन्द्र से कहा—‘हे नाथ, मेरी इच्छा है कि सुग्रीव की पत्नियों को भी अपने साथ अयोध्या ले चलूँ ।’ तब राम ने पुष्पक को वहाँ रोक दिया । राम की आज्ञा से सुग्रीव आकाश-मार्ग से जाकर तारा आदि अपनी पत्नियों को ले आया । वे बड़ी भक्ति के साथ सीता को प्रणाम करके पुष्पक विमान में बैठ गई । फिर, पुष्पक पूर्ववत् चलने लगा । ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँचते ही रघुराम ने जानकी को देखकर कहा—‘यही ऋष्यमूक पर्वत मेरे वानर-मित्रों का निवास है । इसी पर्वत पर मैंने सभी रहस्यों को जानकर सुग्रीव से मित्रता की थी । यही वह पपा सरोवर है, जो सदा रवि-किरणों से विकसित कमलो से दीप्तिमान् रहता है । हे सीते, तुम्हारे वियोग से तप्त मैं इस पुण्य सरोवर के मृदुल तटों पर जब अपार दुःख का अनुभव कर रहा था, तब पुण्यात्मा पवनकुमार हमसे मिला और मेरे हृदय-कमल को शान्ति पहुँचाकर सुग्रीव से हमारी भेंट कराई । वहाँ देखो, उस वन के मध्य शबरी का आश्रम सुशोभित हो रहा है । यही पर मैंने क्रुद्ध होकर घोर युद्ध-कौशल दिखाया था और महा बलशाली कबध का वध किया था । इसी स्थान पर उन्नतात्मा जटायु का स्वर्गवास हुआ । तुम्हें ले जानेवाले नीच रावण को उसने रोका था और उसके साथ युद्ध करके यही पर आहत होकर गिरा था । वहाँ ऋषियों एव वनो से आकीर्ण प्रदेश ही ‘जनस्थान’ कहलाता है । वहाँ देखो, उसी स्थान पर सौमित्र ने शूर्पणखा के नाक-कान काटे थे । यहाँ देखो, इस स्थान पर मद-मत्त हो हम पर आक्रमण करने आये हुए खर-दूषण आदि राक्षसों का संहार हुआ था । वहाँ पर मायामृग के रूप में मारीच ने मुझे तग किया था और यहाँ पर उसकी मृत्यु हुई । यही पंचवटी है । लो, यही वह पर्णशाला है, जहाँ से, रावण मायारूप धरकर तुम्हें चुरा ले गया था । वहाँ देखो, वही सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है और उससे थोड़ी दूर पर

दीखने वाला आश्रम अगस्त्य का है। वहाँ शरभग मुनि का आश्रम है और वह देखो महामुनि अत्रि का आश्रम दीख रहा है। वही पर सती अनसूया ने तुम्हें प्रेम से अगराग प्रदान किया था। वही चित्रकूट पर्वत है, जहाँ भरत ने मुझसे (घर लौटने की) प्रार्थना की थी। वहाँ देखो, अततिद्वार विमल काननो के मध्य यमुना सुशोभित हो रही है। वहाँ देखो, अनेक दिव्य मुनि जिसकी सेवा करते हैं, ऐसी विमल तरगावली से युक्त गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। उसके किनारे अनेक उद्यानो से परिपूर्ण श्रुगबेरपुर विलसित हो रहा है। वही वह सुन्दर स्थान है, जहाँ गुह बड़ी भक्ति के साथ हमसे मिला था। वह देखो, वही सरयू नदी है, जिसके तट पर अनेक यूप-काष्ठ विलसित हैं। हे कमलाक्षी, विशाल पुण्य-राशि अयोध्या वहाँ दीख रही है, उसे प्रणाम करो।' इस प्रकार, जब राम ने सीता को सकेत से अयोध्या दिखाई, तब बड़े कुतूहल से वानर एव राक्षस उचक-उचककर उस सुन्दर नगर को देखने लगे, जो असख्य रत्नो, स्वर्ण-सौधो, असख्य तोरणो, ध्वजाओ तथा बहुत-से गज, अश्व, रथ, पदाति-सेना से युक्त हो अपार वैभव से विलसित होते हुए अमरावती के समान दीख रहा था।

१६४. भरद्वाज मुनि का आतिथ्य

चौदह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् शुक्ल पचमी (पंचम) के शुभ दिन में राम अविरत तेजस्वी भरद्वाज मुनि के आश्रम के निकट उतरे। वे पुष्पक को आकाश में ठहराकर आप आश्रम में गये और उस मुनि के चरण-कमलो में अपना मस्तक भुकाकर प्रणाम किया और बड़े हर्ष से मुनि के आशीर्वाद प्राप्त किये। उसके पश्चात् उन्होंने अत्यन्त विनय के साथ कहा—'हे अनघ, बहुत समय से मुझे आपका कुशल-समाचार ज्ञात नहीं हुआ था। वनवास में रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। आप को, कद, मूल, फल, जल आदि उपलब्ध होने में कोई कष्ट तो नहीं होता? आप की तपस्या विघ्न-बाधा के सतत चल रही है न?'

राम के विनयपूर्ण वचनो को सुनकर मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे बोले—'हे निखिल लोकाराध्य, जब तुम स्वयं यहाँ जन्म लेकर बड़ी निष्ठा से समस्त लोको का पालन करते हो, तब भला, कही किसी को कष्ट या कोई दुःख हो सकता है? पुण्य-कर्म करने-वालो को कही कोई विघ्न-बाधा हो सकती है? हे सत्यनिष्ठ, तुम्हारे प्रसाद से हम अत्यंत सुखी हो सभी धर्म-कार्य सपन्न करते, वेद-विहित अनुष्ठान का आचरण करते हुए तपस्या करते हैं। वनवास के लिए जाते समय तुम यहाँ आये थे। यहाँ से जाने के दिन से फिर आज लौटकर आने तक तुम्हारा सारा वृत्तांत मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया है। तुम्हारे किये हुए अद्भूत कार्य देवताओ के लिए भी असभव है। तुम्हारे वन जाने के दिन से ही समस्त सुख-भोगो का त्याग कर घन जटा-भार एव बल्कल धारण किये हुए, भरत अत्यन्त भक्ति से तुम्हारी पादुकाओ पर समस्त राज्य-भार डालकर राज्य चला रहा है। आश्चर्यजनक श्रद्धा से वह तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा होगा। अपने अनुज की श्रद्धा का विचार करके तुम्हें वहाँ शीघ्र पहुँच जाना चाहिए। किन्तु हे अनघ, तुम वनवास से थके हुए आये हो, अत आज तुम हमारे आश्रम में विश्राम करो। कल प्रातःकाल ही हम से विदा लेकर यहाँ से जाना। मेरी प्रीतिभोज की व्यवस्था करता हूँ।

इतना कहकर मुनि ने अपने श्रेष्ठ तप की महिमा से राम को चकित करते हुए कामधेनु का स्मरण किया। तुरन्त उस कामधेनु ने स्वच्छ कान्ति से चमकता हुआ, भात, फल, घृत, दाल, विविध मिष्टान्न, मधुर शाक, शक्कर, दधि, परमान्न, औंटाया हुआ दूध, मधु, शिखरन, शरबत, चटनी, पेवस, बरी, सुगंधित जल और स्वादिष्ट अँचार आदि का प्रबन्ध कर दिया। तब राम ने वानर तथा दैत्य-नायको के साथ बड़ी भक्ति एव प्रीति से भोजन किया। तदनंतर भरद्वाज ने राम से कहा—‘हे सुगुणाभिराम, हे कल्याणगुणधाम, मैं तुम्हें कोई वर देना चाहता हूँ। तुम अपनी इच्छा से माँग लो।’ तब राम ने हाथ जोड़कर कहा—‘हे मुनीश्वर, आप कृपा करके ऐसा वर प्रदान कीजिए कि साकेत नगरी के चारो ओर तीन योजन तक की भूमि वर्ष भर शस्य-श्यामल बनी रहे और वहाँ के वृक्ष सदा फूलते-फनते रहें। इसके सिवा मैं और कोई वर नहीं चाहता।’ मुनि ने ऐसा ही वर देने की कृपा की। वानर-वीर मुनि के दर्शन करके हर्ष से प्रफुल्लित होकर अपने को कृतार्थ मानने लगे।

तब रघुपति अनिलकुमार को देखकर बोले—‘हे मारुति, तुम अपनी अनुपम शक्ति में शीघ्र श्रृगबेरपुर जाकर पुण्यात्मा गुह से मिलो और हमारे आगमन की सूचना उसे दो। उस पुण्यात्मा से मार्ग जानकर नदीप्राय पहुँचकर हमारे अनुज शुभ्रती, दयालु तथा उन्नतात्मा भरत को हमारे आगमन का समाचार देकर शीघ्र लौट आओ।’

तब हनुमान् ने मानव-रूप धारण कर बड़े वेग से गंगा नदी को पार किया, और श्रृगबेरपुर में पहुँचा। वहाँ परहितात्मा परमेश्वर के आगमन का समाचार न जानने के कारण गुह मन-ही-मन सोचने लगा—‘मैं अपने प्रभु राजाराम के चरण-कमलो की सेवा करते हुए उनके साथ वन में नहीं जा सका। पता नहीं, वे वहाँ कैसे रहते हैं और कहाँ हैं? कदाचित् वे सिंह, भेरुण्ड, राक्षस, अग्नि, भुजग, विष आदि से पीड़ित हो कहीं नष्ट तो नहीं हो गये। अन्यथा, (चौदह वर्ष की) अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी रघुराम लौटकर क्यों नहीं आये। राम अपने वचन तोड़नेवाले नहीं है। मुझसे भूल हो गई। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करके राम को प्राप्त करूँगा।’ ऐसा निश्चय करने के पश्चात् उसने चिता सजाई और उसमें अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर बड़ी भक्ति से वह अपने अनुज, पुत्र एव स्त्री को साथ लिये हुए अपने मन में राम को धारण किये हुए उस अग्नि में प्रवेश करने का उपक्रम करने लगा।

उसी समय हनुमान् ने उसका मार्ग रोककर कहा—‘अपने व्रत का पालन करके प्रभु राम लौटकर आ रहे हैं। वे कल ही यहाँ पहुँचेंगे। यह असत्य नहीं है। तुम अग्नि-प्रवेश करो, तो राम के चरणों की सौगन्ध है।’ राम के आगमन का समाचार सुनकर अपने अनुचरों के साथ गुह अत्यन्त हर्षित हुआ और पवन-पुत्र को प्रणाम किया। फिर, गुह से आदर-सत्कार प्राप्त करके हनुमान् सरयू नदी को पार करके आगे बढ़ा। नदीप्राय में पवित्रचरित्र भरत अपने मन में सोच रहे थे—‘पता नहीं, राम-लक्ष्मण तथा सीता कैसी अवस्था में हैं और कहाँ हैं? चौदह वर्ष पूरे हो गये, फिर भी राम लौटे नहीं। मैं धोखे में पड़ गया। जिस प्रकार सुमित्रानन्दन, मुनि-वृत्ति स्वीकार करके राम के चरण-

कमलो की सेवा करते हुए गया, वैसे मैं भी उस दिन जा नहीं सका। राम से अलग हो, मैं कैसे इस पृथ्वी पर जीवित रह सकता हूँ ? मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि यदि चौदह वर्ष समाप्त होने के पश्चात् भी रघुपति लौटने की कृपा नहीं करेंगे, तो मैं चिता में जलकर अपने प्राण त्याग दूँगा। क्या, मैं उस प्रतिज्ञा को भूठी होने दूँ ?' ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा—'मैं राम से मिलने के लिए अग्नि-प्रवेश करके अपने प्राण त्यागूँगा। तुम शत्रुओं का मद हरण करनेवाले, शौर्य-सम्पन्न शत्रुघ्न का राजतिलक कर दो।' तब शत्रुघ्न ने भरत को देखकर कहा—'हे राजन्, आपके न रहने पर मुझे यह राज्य किसलिए चाहिए ? यह शरीर किसलिए ? मैं भी आपके चरणों की सेवा करते हुए आपके साथ ही चलूँगा।' ऐसा दृढ निश्चय किये हुए उनको देखकर सभी लोग भयभीत हो गये।

१६५. हनुमान् का भरत को राघवों का कुशल-समाचार सुनाना

इसी समय अनिलकुमार अत्यन्त वेग के साथ वहाँ पहुँच गया और भरत को बहुत विनय से प्रणाम करके खड़ा रहा। तब भरत ने पूछा—'तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है ? तुम किस कुल के हो ? तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो ?' तब अनिलपुत्र ने भरत से कहा—'हे देव, मैं वानर हूँ और रघुराम का प्रिय दूत हूँ। सूर्य-कुल-कमल-भानु, उत्तमचरित्र राम ने अपने वनवास की अवधि समाप्त करके सौमित्र तथा जानकी के साथ वन में ठहरे हुए हैं। उन्होंने आपका कुशल-समाचार जानकर यहाँ आने के लिए मुझे भेजा है, इसीलिए मैं आया हूँ।'।

तब भरत अत्यधिक हर्ष से पुलकित हो उठे और बोले—'हे पुण्यवत्सल, हे वानर-श्रेष्ठ, हे पवन कुमार, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ।' इसके पश्चात् उन्होंने उस वानर-श्रेष्ठ को हृदय से लगा लिया और उन्हें गज-मुक्ताओं तथा मणियों की मालाएँ, कनकाबर, श्रेष्ठ आभूषण, असह्य धन तथा नगर भेंट किये और कहा—'हमारे प्रभु राम के वनवास गये हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। वे कहाँ रहे ? कहाँ-कहाँ विचरे ? अब वे कहाँ हैं ? तुम राघव के प्रिय दूत हो, इसलिए हे अनघ, तुम सभी बातें विस्तार से कहो। मैं तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। हे वानरश्रेष्ठ, क्या उनका आना सत्य है ?'

तब उस विमलात्मा ने हँसकर बड़ी भक्ति से कहा—'आपके पिता महाराज ने राम को राज्याधिकार से वंचित करके उनके वनवास की आज्ञा दी, तो वे बड़ी भक्ति से जटाएँ तथा वल्कल धारण किये हुए जानकी तथा लक्ष्मण के साथ पैदल ही वनवास के लिए रवाना हुए और बड़े हर्ष से श्रेष्ठ मुनियों की सगति में चित्रकूट पर्वत में रहने लगे। तब आपने राज्य-ग्रहण को अस्वीकार कर अपने अग्रज को लौटा लाने का प्रयत्न किया। उनके अस्वीकार करने पर आप बड़ी भक्ति के साथ उनकी पादुकाओं को ले आये और उनपर राज्य-भार डालकर राज-भोग त्याग कर तपस्वी के समान यहाँ रहने लगे। वहाँ से राघव कुटिल दानवों से पूर्ण दण्डक-वन में पहुँचे। पहले वे शरभग मुनि के आश्रम में ठहरे और वहाँ मुनियों के प्रति होनेवाले राक्षसों के अत्याचारों को दूर करके, सात्वना देने के पश्चात्

आग बढे और जनस्थान में राक्षसराज की बहन सर्पणखा की नाक और कान काटे । उसके बाद उन्होंने खर, दूषण आदि चौदह सहस्र राक्षसों का संहार किया और वहाँ (पचवटी में) पर्णशाला बनाकर रहने लगे । वहाँ रहते समय राक्षसराज रावण की प्रेरणा से मारीच नामक मायावी राक्षस सुन्दर स्वर्ण-मृग का रूप धारण किये हुए वहाँ दिखाई पड़ा । तब मृगनेत्री सीता ने उस मृग को देखकर राम से कहा—‘हे नाथ, मुझे यह मृग बहुत प्रिय लग रहा है । आप इसे अवश्य ला दीजिए ।’ राघवेश्वर ने चाप लेकर पीछा किया और निदान उसपर तीक्ष्ण बाण चलाया, तो वह कुटिल राक्षस—‘हाय लक्ष्मण ! हाय लक्ष्मण !’ कहकर आर्त्तनाद करते हुए गिर पड़ा । यह आर्त्तस्वर सुनकर साध्वी सीता ने भय से व्याकुल होकर लक्ष्मण को भेज दिया । तब मुनि-वेष धरकर रावण वहाँ आया और सीता को बलात् उठाकर ले जाने लगा । तब जटायु ने इसे देखा । उसने रावण को रोका, तो रावण ने उसके साथ युद्ध करके उसे परास्त करके मार डाला । उसने समुद्र पार किया और लका के अपने उद्यान में सीता देवी को बदिनी बनाकर रखा । जब रामचन्द्र मायामृग का वध करके क्लान्त हो लौटने लगे, तब उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को देखा । तुरन्त उन्होंने व्याकुल हो लक्ष्मण से पूछा कि सीता को अकेली छोड़कर यहाँ क्यों आये ? दोनों भाई शीघ्र पर्णशाला में लौट आये । किन्तु वहाँ सीता को न देखकर वे अत्यन्त शोकाभिभूत हो गये । फिर, सीता की खोज करते हुए वे दोनों वनों में से होकर जाने लगे । मार्ग में उन्होंने रावण के बाहुबल से कटककर पृथ्वी पर गिरे हुए जटायु को देखा । जटायु से उन्हें विदित हुआ कि दशकठ उसकी ऐसी दशा करके सीता को ले गया है । फिर, उस विहगेश की दाह-क्रिया करके वे जंगलो में भटकते हुए जाने लगे । ऋष्यमूक पर पहुँचकर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की । राम ने सुग्रीव के लिए वालि का सहार किया और तारा के साथ वानर-राज्य सुग्रीव को प्रदान किया । सुग्रीव बड़े हर्ष से सीता के अन्वेषणार्थ दो लाख असमान बलशाली तथा यशस्वी वानरों को प्रत्येक दिशा में भेजा । वानर दत्तचित्त हो सीता का अन्वेषण करने लगे, तो सपाति ने उन्हें बतलाया कि सीता लका में है । तुम चिन्ता मत करो । मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो । मैं ने सपाति के परामर्श से सौ योजन समुद्र को पार करके अशोक-वन में शोक-संतप्त हो रहनेवाली वैदेही के दर्शन किये । उन्हें रामचन्द्र की मुद्रिका दी । उस देवी से चूडामणि प्राप्त की और उसे लाकर रामचन्द्र को दिया । तब राम अत्यन्त प्रसन्न हुए और फिर समस्त वानर-सेना के साथ वे लका पर आक्रमण करने के लिए चले, समुद्र पर सेतु को बाँधा, लका पर आक्रमण किया और अपने प्रशसनीय पराक्रम से लकेश्वर का सहार किया और ससार का दुख दूर किया । फिर, उन्होंने पुण्यात्मा विभीषण को लका का राजा बनाया और पवित्रात्मा ब्रह्मादि देवताओं से अनेक वर प्राप्त किये । तदनन्तर देवताओं के साथ आये हुए आपके पिता के चरणों में प्रणाम करके, अग्नि-मुख से पवित्र घोषित की हुई सीता को स्वीकार किया । फिर, उन्होंने वानरों, राक्षसों, सुग्रीव, विभीषण, अगद आदि के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ हो लंका से प्रस्थान किया और सफल, विक्रम तथा यश से सुशोभित होते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचकर वहाँ ठहरे हुए है । वे अवश्य ही कल यहाँ पधारेंगे ।”

भरत ने हनुमान् की बातों से अत्यन्त हर्षित होकर, शत्रुघ्न से कहा—‘हे शत्रुघ्न, तुम तुरन्त अयोध्या में जाकर सर्वत्र मंगलोत्सव की घोषणा करा दो । राज-सभा-भवन में राम के सेतु-बन्धन आदि के चित्र बनवाओ । देव-गृहो, भूदेव-गृहो (ब्राह्मण-गृह) का अलकरण, तुम स्वयं अपने समक्ष कराओ, नगर-मार्ग को श्रेष्ठ तोरणों तथा ध्वजाओं से सजाओ । युवतियों के द्वारा मौलियों से (घरों के आगे) चौक पुरवाओ, सभी घरों में सुन्दर वस्तुएँ वितरित कराओ । और, सभी नगर-वासियों को सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित रहने का आदेश दो । श्रीराम के आगमन का शुभ समाचार निकटवर्ती देशों के राजाओं के पास भेजो और गज-नुरगों की विपुल ध्वनि किये बिना चतुरगिणी सेना तथा मन्त्रियों को साथ लेकर माताओं की सेवा में तुम शीघ्र यहाँ लौट आओ ।’

भरत का आदेश प्राप्त करके अनघ शत्रुघ्न अत्यन्त वेग से अयोध्या में गये और बड़े उल्लास के साथ राघव के आगमन का शुभ समाचार अपने सभी बन्धु-जनो को सुनाया, कौशल्या से कहा, कैकेयी से कहा और फिर सुमित्रा को कह सुनाया । फिर, उन्होंने भरत के आदेशानुसार नगर को सजवाया और अकलक रीति से अन्तपुरो का अलकरण कराया, चन्दन एव कर्पूर से सुगन्धित जल आँगनों में छिड़कवाया और नगर-बीधियों में नव-रत्न-तोरण बँधवाये । तब महात्मा वसिष्ठ आदि मुनि, पुरोहित, मुनि-पत्नियाँ, माताएँ, बन्धु-जन, मन्त्री, मित्र, स्त्रियाँ, नगर-निवासी तथा वृद्ध-जन, कुछ रथों में, कुछ पालकियों में, कुछ अश्वों पर, कुछ गजों पर आरूढ हो चल पड़े । शत्रुघ्न पंच महावाद्यों के रव के साथ सभी को साथ लेकर भरत की सेवा में पहुँच गये ।

१६६. भरत-मिलाप

भरत अपनी माताओं, अनुज तथा सेना के साथ राम की अगवानी करने के लिए, अत्यधिक उल्लास से चले । तब हनुमान् ने भरत से कहा—‘हे अनघ, वह देखिए । राघव भरद्वाज मुनि के आश्रम से आ रहे हैं । वही पुष्पक है । वहाँ देखिए, वे ही राम हैं । वही कपि-सेना है । वह सुनिए, वानरो के सरयू नदी को पार करने की ध्वनि सुनाई पड़ रही है ।’ भरत विमान को देखकर फूले नहीं समाये और जहाँ उस पुष्पक को देखा, उसी स्थान पर वह बड़ी भक्ति से भाई को साष्टांग प्रणाम किया । फिर, उदयाद्रि पर प्रकाशमान होनेवाले उदयोन्मुख सूर्य की भाँति अपनी प्रभा को दसो दिशाओं में विकीर्ण करते हुए पुष्पक पर आरूढ, पुण्यात्मा रघुराम के निकट पहुँचकर उन्हें प्रणाम किया ।

तब राम ने पुष्पक को पृथ्वी पर उतारा और लक्ष्मण के साथ बड़े हर्ष से एक-एक करके अपनी माताओं को प्रणाम किया । माताओं ने आशीर्वाद देकर उन्हें हृदय से लगाया । उसके पश्चात् भरत एव शत्रुघ्न ने बड़ी भक्ति से राम, सीता तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया । राम ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया । फिर, सीता ने बड़ी प्रीति एव श्रद्धा से अपनी सासों को प्रणाम किया, तो उन्होंने अलग-अलग उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिये । राम-लक्ष्मण ने बड़ी भक्ति से मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ को प्रणाम किया, तो उस मुनि ने उन राजपुत्रों को आशीर्वाद देकर बड़े स्नेह से उनका आलिंगन किया । भरत तथा शत्रुघ्न ने सतुष्ट हृदयों से अपनी माताओं को प्रणाम किया और राम के पीछे भक्ति-युक्त हो रहनेवाले

विमलात्मा विभीषण, सुग्रीव, अगद तथा प्रमुख वानर-वीरो से प्रेमालाप करके उन्हें हृदय से लगाकर कहा—‘आपके सदृश अनघ भृत्यो के रहने से राघव ने अनुपम कीर्ति एव विजय प्राप्त की। आपकी शुभ सेवा, नीति एव औन्नत्य के फलस्वरूप राम ने विजय प्राप्त की। ऐसे हित, भृत्य एव आप्त-बधु हमारे और कौन हो सकते हैं?’ इस प्रकार कहते हुए वे अत्यधिक आनन्दित हुए। तब राजशिरोमणि राम ने अपनी प्रसन्नचित्त माताओ, बधुओ, अनुजो, वानरो तथा सेना को साथ लिये हुए तथा अपने तेज को विकीर्ण करते हुए नदीग्राम में प्रवेश किया।

तदनंतर राम ने पुष्पक विमान की पूजा-अर्चना करके कहा—‘अब तुम धनद (कुबेर) के पास अलकापुरी में जाकर रहो और (फिर कभी) मेरे स्मरण करते ही चले आना।’ इन वचनों के साथ उन्होंने उसे विदा किया। तब भरत राम की सेवा में पहुँचे और हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से कहा—‘हे देव! मैं अबतक राज्य-भार आपकी पादुकाओ पर रखकर, निर्लिप्त भाव से सावधान ही राज-काज का संचालन करता रहा।’ यो कहकर उन्होंने राम की पादुकाएँ उनके चरणों के पास रख दी और फिर अत्यन्त विनम्र होकर कहा—‘अब आपको अयोध्या में पधारना चाहिए। उसके लिए यह मुनिवेष ठीक नहीं है। आप कृपया, राजा के योग्य वस्त्राभूषण धारण करें और वल्कल एव जटा-भार यही तज दें।’

तब राम ने मन-ही-मन इस कथन के औचित्य पर विचार करने के पश्चात् कहा—‘जैसी तुम्हारी इच्छा।’ तब प्रवीण सेवको ने आकर बड़े यत्न से उनकी जटिल जटाओ को सुलझाया। राम ने अपने अनुजो के साथ अभ्यग-स्नान किया। फिर, दिव्य वस्त्र, आभरण तथा मालाओ को धारण किया। दशरथ की पत्नियों ने बड़ी प्रीति से भूमि-सुता सीता का अलकार किया। तारा आदि सुग्रीव की पत्नियों ने भी सीता का श्रृंगार किया।

इतने में हनुमान् सादर गुह को लिवा लाया। वल्कल एव जटाएँ धारण किये हुए गुह अपने सहस्रो धनुर्धर भीलो के साथ, गधबिलाव, चमरी मृग की पूँछें, मत्त गज के सुन्दर दाँत एव मोती, वराह के दाँत, बाँस के मोती, साँपो के शिरो पर रहनेवाली मणियाँ, शार्दूल के नख, भेरुण्ड के नख, तथा सिंह-नख, कृष्णाजिन (काला मृग-चर्म), गोरोचन, कस्तूरी, मुरलियाँ, मधु तथा विविध फल, काँवरियों में लिये हुए आया और इन सब उपहारों को राम के समक्ष रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ खड़ा रहा।

तब कृपानिधि राम ने उसपर अत्यन्त स्नेह-वर्षा करते हुए, अमृतोपम वचनों से उसका आदर करते हुए कहा—‘हे तेजस्वी भीलराज, तुम्हारी भक्ति, महत्ता एव साहस मैंने पवन-पुत्र के द्वारा सुना है। तुम भी हमारे अपने लोगों में से ही एक हो। अतः, तुम भी इन जटाओ तथा वल्कलो का त्याग करो और पूर्ववत् राजा के योग्य वस्त्र आदि धारण करो।’ राम की आज्ञा के अनुसार भीलराज ने वल्कल एव जटा-भार त्यागकर स्वच्छ जल में स्नान आदि से पवित्र हो राम की सेवा में पहुँचा। तब राम ने उसे दिव्य वस्त्राभूषण प्रदान किये। उसने बड़ी भक्ति से उन्हें धारण किया और राम की सेवा में सलग्न हुआ।

१६७. अयोध्या में प्रवेश

तब शत्रुघ्न के आदेश से प्रभु-भक्त सुमन ने बहु-रत्नों की निर्मल प्रभा से विलसित सूर्योदय के समान उज्ज्वल रथ को ले आकर राघव के सामने उपस्थित किया। जब राम ने अपनी सभी माताओं को प्रणाम किया, तब माताओं ने ऊँचे स्वर में आशीर्वाद दिया। शुभ लग्न में राम अपने गुरु वसिष्ठ को आगे किये हुए रथ पर ऐसे आरूढ़ हुए, मानो अपनी विशाल कीर्ति को व्याप्त करते हुए जनता के मनोरथ पर आरूढ़ हो रहे हों। निरुपम भक्ति-तत्पर भरत, धवल आतपत्र सँभाले हुए थे और सुमित्रा-पुत्र विशाल व्यजन डुला रहे थे। पंच महावाद्यों की ध्वनि के साथ देव-दुदुभियों का रव भी होने लगा, आकाश से देवता पुष्प-वृष्टि करने लगे और सारी प्रजा जयघोष करने लगी। राम के रथ के पीछे एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो विभीषण जा रहा था। पार्श्व-भागों में सुग्रीव आदि वानर अनेक गजों पर बैठे हुए जा रहे थे। चतुरगिणी सेना भी साथ चल रही थी। सभी बधु-वर्ग रथ के साथ-साथ चल रहे थे। बदी-मागध राम के सेतुबधन आदि महान् कार्यों का उल्लेख करते हुए उनका कीर्ति-गान कर रहे थे। राजमाताएँ, तारा आदि स्त्रियाँ तथा जानकी रथों में आरूढ़ हो जा रही थी। इस प्रकार, सभी लोग रामचन्द्र के साथ ही बड़े उल्लास से अयोध्या की ओर चल पड़े। पुरोहित जहाँ-तहाँ आशीर्वाद देने लगे। हाथियों के चिंघाड़, रथों की घडघडाहट, अश्वों की हिनहिनाहट तथा भेरी-मृदंग आदि की ध्वनि चारों ओर व्याप्त होने लगी। ऐसी राजसी ठाट से अक्षीण कल्याण-स्वरूप, राम-भूपाल, नक्षत्रों से परिवृत चन्द्र की भाँति, दीप्तिमान् होते हुए अयोध्या में पहुँचे।

तब पल्लव-हस्त, पल्लव-अधर, पल्लवारुण चरण-पल्लवों से सुशोभित, सिंह-कटि-सम क्षीणकटि, चन्द्रमुखी, गजगामिनी, कमललोचनी, अलिनीलकुंतला, कमलगंधी, लतागी सुदरियों ने उमडते हुए आनन्द के साथ प्रासादों से, राम के पुण्य दर्शन करके, उनपर पुण्य पुष्पाक्षतों की वर्षा की। (राम के दर्शनार्थ) सौधों पर खडी हुई मीनलोचनी तरुणियाँ अपनी सहेलियों से कहने लगी—'हे सखी, इस पुण्यघन (राम) ने बाल्यावस्था में जो कार्य किये, उन्हें सोचकर आश्चर्य होता है। अपने ऊपर आक्रमण करनेवाली ताड़का का वध किया, अनघ कौशिक की रक्षा की, शिव का धनुष तोड़ा और दर्पोद्धत परशुराम का गर्व-भग किया। दुष्ट-दलन करनेवाले राम सहज शूर हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे महान् कार्य किये। बहुत ही छोटी अवस्था में वनवास की आज्ञा मिलते ही वनवास के लिए चल पड़े। वहाँ उनके सदृश और कौन जगत्-कल्याण के कार्य कर सकता था? संतु को बाँधकर, रावण के साथ युद्ध करके उसका सहार किया और असख्य राक्षसों का वध कर डाला। पिता की आज्ञा से वनवास के लिए जाते समय उनके प्रिय मुख की कान्ति कितनी भव्य थी। आज इतने महान् कार्यों की सिद्धि के पश्चात् लौटनेवाले इनके मुख की उज्ज्वल प्रभा, कितने ही प्रकार से दीप्त हो रही है। हे चंचलनेत्री, उस लक्ष्मण को देखो, जिस इन्द्रजीत ने इन्द्र को सहज ही जीतकर सुरों को भयभीत करके अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया था, उसे इन्होंने युद्ध में मारा। वहाँ उस विभीषण को देखो, अपने दुष्ट अग्रज को छोड़कर, यही आज लकाधीश बना हुआ है। हे सखी, यह वालि का भाई सुग्रीव है, और यह

बालि-पुत्र अगद है । (उस पवन-पुत्र को देखो) उस पुण्यात्मा ने समुद्र को पार करके सीता का पता लगाया, सहज ही सेतु को बँधवाकर राम को लका में ले गया और युद्ध में गिरे हुए लक्ष्मण के लिए ओषधियों को लाकर उन्हें प्राण-प्रदान किया ।'

पुरजनों के ऐसे वात्सलापो के बीच सूर्यवशज रामचन्द्र ने अन्त पुर में प्रवेश किया । फिर, उन्होंने भरत-शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें दैत्यराज तथा वानर-नायको के ठहरने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने का आदेश दिया और उन्हें विविध स्वादिष्ट भोजन आदि भिजवाये । इसके पश्चात् भरत ने सुग्रीव से कहा—'हे अनघ, हमने कल सूर्यवश-मणि रामचन्द्र के राजतिलक करने का प्रबन्ध किया है । इसके लिए हमें चारो समुद्र का जल तथा गंगा आदि तीर्थों के जल चाहिए । उनको मँगवाने का प्रबन्ध करो । सूर्य-पुत्र ने परम हर्ष से गज, सुषेण, जांबवान् और शीघ्रगामी वेगदर्शी को बुलाकर उन्हें सुन्दर रत्न-कलश देकर तीर्थों का जल लाने के लिए भेजा । फिर नल, गवाक्ष, वायुपुत्र तथा ऋषभ को समुद्र का जल लाने के लिए भेजा । तब वानर-वीर अत्यन्त वेग से गये और दूसरे ही दिन प्रातः काल तक आवश्यक तीर्थों के जल आदि ले आये । यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गये ।

१६८. राजतिलक

भरत ने निर्मलचेता एव सदाचार-सम्पन्न वसिष्ठ, गौतम, जाबालि, कश्यप, कण्व, वामदेव आदि मुनीश्वरो को तथा चतुर्वेद-पारगत विबुधो को बुलाकर विनय एव भक्ति के साथ उनसे कहा—'आप कृपया विधिवत् श्रीराम का राजतिलक कीजिए ।' तब वे मगल-वाद्यो की ध्वनि के साथ जानकी तथा राम को बुला लाये और रमणीय रत्न-पीठ पर उन दोनों को आसीन किया और वेदमन्त्र-पूर्वक पुण्य-सलिल से उनका अभिषेक किया । राम के सिर पर से गिरनेवाली पूर्ण जल की धारा देखने में बहुत ही रमणीय प्रतीत होती थी । देवताओ की स्तुतियों को प्राप्त करते हुए, पार्वती के साथ विलसित होनेवाले परमशिव की जटा से भरने-वाली गंगानदी की भाँति वह जल-धारा अत्यन्त कमनीय दीख रही थी । वह जल-धारा क्रमशः उनके चरणो से होकर पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगी, मानो विष्णु के चरणो से जन्म लेकर पवित्र गंगा पृथ्वी पर उतर रही हो । इस प्रकार, उस समय रामचन्द्र स्वयं विष्णु तथा शिव की भाँति शोभायमान हुए । राज्याभिषिक्त राम उस समय अपने ललाट पर बँधे राजपट्ट के साथ, देखनेवालो को शिव की भाँति दीख रहे थे और ललाट पर बँधा हुआ पट्ट, ऐसा दीखता था मानो शिव की जटाओ में स्थित हो, अपनी सरस कान्ति से जटाओ को आलीकित करनेवाली शशिरेखा ही गंगा की लहरो के धक्के से फिसलकर ललाट पर आ गई हो । उस समय गरुड, खेचर, गधर्व, सुर, सिद्ध तथा साध्य, आकाश से अत्यन्त उत्साह से जय-निनाद करने लगे । अप्सराएँ नृत्य करने लगी । उस शुभ घड़ी में इन्द्र ने अनिल के द्वारा बड़े प्रेम से राम के पास पारिजात पुष्पो की माला तथा मोती के हार भेजे । राघव ने बड़े आदर के साथ उन्हें धारण किया । उस महान् उत्सव के समय, पृथ्वी शयश्यामला हो गई, वृक्ष पुष्पो एव फलो से लद गये, पुष्पो में अद्वितीय सुगंध आ गई और दिशाएँ निर्मल हो गई ।

तब रघुराम ने भूसुरो तथा महात्माओ को अनुपम भक्ति-युक्त हृदय से तीस्र करोड़ मुद्राएँ, एक लाख अश्व, एक लाख गज तथा एक लाख गायें दान दी, सुग्रीव को प्रिय वचनो से

अपने निकट बुलाकर उसे ललित दिव्याबर आभूषण तथा स्वर्ण-कुसुमों की माला दी, अगद को अमूल्य रत्न-जटित स्वर्ण-अगद (केयूर) दिये, पुण्यात्मा विभीषण को अमूल्य केयूर एवं मुकुट दिये। नील को लोल कान्तियों से विलसित नील मणियों का और नल को नव-रत्नों का सुन्दर हार दिया। उसके पश्चात् प्रसन्नचित्त हो राम भूपाल ने सभी वानरों को देख-देखकर, एक को भी छोड़े बिना, सबको दिव्य वस्त्र तथा आभूषण दिये। फिर, उन्होंने सीता को शरच्चन्द्र से भी उज्ज्वल कान्तियुक्त मणिमय हार दिया। किन्तु सीता ने उसे पहना नहीं, किन्तु वह उस उपहार को हाथ में लिये साभिप्राय दृष्टि से रामचन्द्र के मुख की ओर देखने लगी। उनकी दृष्टि का अभिप्राय समझकर चतुर राम ने अनुमति दी, तो उन्होंने अपने कृपा-रस से सींचते हुए उस हार को हनुमान् के कंठ में पहना दिया। उस पवित्र हार को धारण कर वह पुण्यात्मा पवन-पुत्र, शरत्काल के बादलों से धिरे हुए मेघ पर्वत की भाँति सुशोभित होने लगा।

उसके पश्चात् वसिष्ठ की आज्ञा से राम अन्तपुर में गये और क्रमशः अपनी सभी माताओं को प्रणाम किया। सभी माताओं ने बड़े स्नेह से उन्हें आशीर्वाद दिये। सीता ने भी अपनी सासो को बड़ी भक्ति से प्रणाम किया। तब उन्होंने सीता को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया—‘तुम लक्ष्मी के सदृश, सरस्वती की भाँति, पार्वती के समान पति-भक्ति, सुमति, सौभाग्य, तेज एवं अतुल कीर्ति से सम्पन्न होती हुई, सूर्य-चन्द्र के समान तेजस्वी पुत्रों की माता बनो।’

१६९. मित्रों को प्रीतिभोज देना

उसके पश्चात् रघुकुलाधिप बड़े उल्लास से भोजनालय में गये। उन्होंने मित्रों, बधुओं, अनुजों तथा रवि-पुत्र आदि वानरों, विभीषण आदि दैत्य-वीरों एवं पवित्रात्मा गृह आदि लोगों को बड़े स्नेह से बुलवा भेजा और उन्हें उचित आसनों पर बिठाया। बड़े स्नेह से सच्चरित्र हनुमान् को अपने साथ बैठकर भोजन करने के लिए कहा। (जब सब लोग उचित आसनों पर उपस्थित हुए), सुन्दरियों ने प्रत्येक के आगे सोने के थाले लगाये और पायस, भात, दाल, मिष्ठान्न, बढ़िया सूखा शाक, विविध स्वादिष्ट शाक, कई प्रकार की चटनियाँ शिखरन, अँचार, ताजा घी और मीठे फल आदि परोसे। तब सूर्यवशाधीश ने दुर्गुनी प्रीति से हनुमान् से कहा—‘हे अनिलकुमार, भोजन प्रारम्भ करो।’ इतना कहकर उन्होंने स्वयं एक कौर ग्रहण किया। तब हनुमान् ने अत्यन्त भक्ति से उस थाल को, जिसमें रामचन्द्र ने भोजन प्रारम्भ किया था, उठाकर अपने सिर पर रख लिया और आनदातिरेक से नृत्य करते हुए कहते लगा—‘हे वानरों, आओ। राम के थाल का प्रसाद प्रचुर मात्रा में हम सब को मिल गया है।’ यो कहते हुए उसने सामने के अगस्त्य वृक्ष पर चढ़कर उसके पत्ते तोड़ लिये और उन पत्तों में उस प्रसाद को रखकर बड़ी भक्ति से सभी वानर-वीरों को बाँटा। वे भी उस प्रसाद को ग्रहण करके अत्यन्त सतुष्ट हुए। यही कारण है कि उस दिन से अगस्त्य वृक्ष के पर्ण एकादशी (पारण) के लिए बहुत ही मुख्य माने जाते हैं।

रघुराम ने, अजना-सुत (हनुमान्) की भक्ति से अत्यन्त सतुष्ट हो, दूसरा थाल मँगवाकर भोजन तथा जल ग्रहण किया। तदनंतर उन्होंने सुगंध-पुष्पों की मालाओं से सब लोगों का

अलकार किया और कर्पूर, ताबूल, चन्दन आदि सब को बाँट दिये । फिर, अत्यन्त प्रसन्नता एव प्रीति से सकल भृत्य एव अमात्यो के साथ राजसभा में बैठे ।

उसी समय निद्रा देवी सौमित्र को अपने वश कर लेने का उपक्रम करने लगी । सभा में राम के समक्ष बैठे हुए लक्ष्मण यह देखकर जोर से हँसने लगे । तब राम, सीता, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्, अगद, नल, नील, शरभ, सन्नाद, तार आदि वानर तथा शत्रुघ्न, भरत आदि ने अपने-अपने कलक की बात सोचकर अपने सिर झुका लिये । तब राम ने सब की यह दशा देखकर अपने अनुज से कहा—‘हे लक्ष्मण, तुम अकारण ही क्यों हँसे ? इसका क्या अभिप्राय है बताओ ।’

तब लक्ष्मण ने भयभीत हो हाथ जोड़कर कहा—‘हे देव, जब मैं आपकी सेवा करते हुए वन में आपके साथ रहने लगा, तब निद्रा मुझ पर अपना प्रभाव डालने लगी । तब मैंने उससे कहा कि तुम चौदह वर्ष तक मेरे पास मत आओ । मेरी बात मानकर वह चली गई । चौदह वर्ष समाप्त होते ही वह फिर लौटकर मेरे पास आई । हे देव, यही सोचकर मैं हँसा और यही मेरे हँसने का मूल कारण है । हे दयासमुद्र, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, इसके सिवा मेरे हँसने का और कोई कारण नहीं है ।’ तब सब लोगो के मन की शकाएँ दूर हुईं और सभी प्रसन्न हुए ।

कृष्णामूर्ति राम ने सब वानरो को देखकर कहा—‘सभी कार्यों में सदा किसी भी धर्म की अपेक्षा किये विना, उनका आचरण करते रहो ।’ इतना कहकर उन्होंने उन्हें बड़े आदर से कई प्रकार के उपदेश देकर प्रिय वचनो से जाने की अनुमति दी । उसके पश्चात् उन्होंने अनिलकुमार, सुग्रीव आदि प्रमुख वानरो को तथा विभीषण को विदा किया । सुग्रीव आदि वानर प्रसन्नचित्त हो किष्किंधा लौट गये । विभीषण भी राक्षसों के साथ बड़े उत्साह से लका लौट गया ।

राम ने मनस्वी सौमित्र एव भरत को युवराज बनाया और विशाल राज-वैभव का अनुभव करते हुए, सीता के साथ समस्त सुखो को भोगते हुए राज्य करने लगे । वे अपने पूर्वजो की अपेक्षा अधिक वेद-विहित धर्मों का आचरण करते हुए, कई प्रकार के अनुष्ठान आदि करते थे । उन्होंने अश्वमेध तथा वाजपेय आदि कई श्रेष्ठ यज्ञ करते हुए, देवता और भूसुरों की रक्षा करते हुए परिपूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ हो, ग्यारह सहस्र वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया । उनके राज्य में प्रजा को कोई दुःख नहीं था, अकाल और पाप कही नहीं था, सत्य तथा धर्म नष्ट नहीं होते थे और सभी जन परहित-रत थे ।

इस प्रकार, आन्ध्र-भाषा का सन्नाद, काव्य, आगम आदि के प्रशसनीय ज्ञाता, आचार-वान्, अपार धैर्य-सपन्न, भूलोक-निधि, गोनबुद्ध भूपाल ने सुन्दर गुणो से सम्पन्न, धैर्यवान्, शत्रुओं के लिए भयकर, महात्मा, महान् दयालु तथा ललित सद्गुणालकार अपने पिता विद्वल-नरेश के नाम पर, अनुपम तथा ललित शब्द एव अर्थ से सम्पन्न, रामायण के इस युद्धकांड की, श्रेष्ठ अलकार एवं सुन्दर भावो से परिपूर्ण बनाकर, इस प्रकार रचना की, कि वह इस ससार में आचन्द्रार्क अत्यन्त पूजनीय हो, शोभायमान होता रहे ।

रसिकजनो के लिए आनन्ददायक, इस प्रसिद्ध तथा आर्ष आदि काव्य का पठन जो कोई करेगा, या जो इसका श्रवण करेगा, उसे सामवेद आदि विविध वेदो का आधार राम-नाम-रूपी विस्तासृणि के

द्वारा नव्य भोग, परोपकार-बुद्धि, उदात्त विचार, परिपूर्ण शक्ति, राज्य-सुख, निर्मल कीर्ति, नित्य सुख, धर्मनिष्ठा, दान-पुण्य में अनुरक्ति, चिरायु, स्वास्थ्य तथा अपार ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। उनके पापों का क्षय होगा, उन्हें श्रेष्ठ पुत्र लाभ होगा, उनके शत्रु नष्ट होंगे और उन्हें धन-धान्य की समृद्धि सुलभ होगी। उनका जीवन निर्विघ्न रहेगा, घर में लावण्यवती स्त्रियों का अनुराग प्राप्त होगा। भाइयों की वृद्धि होगी तथा उनके साथ सुखमय सहजीवन का भाग्य मिलेगा। उनके घरों में सतत देव-पूजन तथा पितरों की तृप्ति होती रहेगी। यह रामायण मोक्ष-साधक, पाप-हारक, भव्य, दिव्य तथा शुभप्रद है। विधिवत् इस रामायण की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होगा। इसके रचयिताओं की श्रेष्ठ एव शुभ उन्नति होगी तथा इन्द्र-लोक का निवास प्राप्त होगा। जबतक कुलपर्वत, समुद्र, सूर्य-चन्द्र, वेद, दिशाएँ, पृथ्वी तथा सभी भुवन सुशोभित रहेंगे, तबतक यह कथा अक्षय आनन्द-समूह का आगार बनी रहेगी।

ओं तत्सत् !

परिषद् के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

१. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी । ३ २५ ।
२. यूरोपीय दर्शन—स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा । ३. २५ ।
३. हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । ६ ५० ।
४. विश्वधर्म-दर्शन—श्रीसाँवलियाविहारीलाल वर्मा । १३ ५० ।
५. सार्थवाह—डॉ० मोतीचन्द्र । १०० ऐतिहासिक चित्र । ११ ०० ।
६. वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा—डॉ० सत्यप्रकाश ८ ०० ।
७. सन्नकवि दरियाः एक अनुशीलन—डॉ० धर्मोन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । १४ ०० ।
८. काव्यमीमांसा (राजशेखर-कृत)—अनुवादक स्व० प० केदारनाथ शर्मा । ६ ५० ।
९. श्रीरामावतार शर्मा-निबन्धावली—स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा । ८ ७५ ।
१०. प्राङ्मौर्य विहार—डॉ० देवसहाय त्रिवेदी । ७ २५ ।
११. गुप्तकालीन मुद्राएँ—स्व० डॉ० अनन्त सदाशिव अलतेकर । ६ ५० ।
१२. भोजपुरी भाषा और साहित्य—डॉ० उदयनारायण तिवारी १३ ५० ।
१३. राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धांत—श्रीगोरखनाथ सिंह । १ ५० ।
१४. रबर—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा, एम्० एस्-सी० । चित्र ६१ । ७. ५० ।
१५. ग्रह-नक्षत्र—श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० सी० एस्० । ४ २५ ।
१६. नीहारिकाएँ—डॉ० गोरखप्रसाद (प्रयाग-विश्वविद्यालय) । ४ २५ ।
१७. हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ—श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह । ३ ०० ।
१८. ईख और चीनी—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा । चित्र १०४ । १३ ५० ।
१९. शैवमत—मूल लेखक और अनुवादक डॉ० यदुवशी । ८ ०० ।
२०. मध्यदेशः ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिंहावलोकन—डॉ० वीरेन्द्र वर्मा । कई रगीन मानचित्र, ऐतिहासिक महत्त्व के कलापूर्ण चित्र । ७ ०० ।
- २१-२२. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण—(पहला और दूसरा खंड) ।
स० डॉ० धर्मोन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । प्रत्येक का मूल्य २.५० ।
- २३—२६. शिवपूजन-रचनावली—आचार्य शिवपूजन सहाय (४ भाग) । मूल्य क्रमशः
८ ७५, ६ ००, १० ००, ८ ५० ।
२७. राजनीति और दर्शन—डॉ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा । १४. ०० ।
२८. बौद्धधर्म-दर्शन—स्व० आचार्य नरेन्द्रदेव । पृष्ठ ८५० । १७. ०० ।
- २९-३०. मध्य एशिया का इतिहास—(दो खंडों में) महापण्डित राहुल सांकृत्यायन । प्रथम
खण्ड १२ २५ । द्वितीय खण्ड ८.५० ।
३१. दोहाकोश—मूल कवि : बौद्धसिद्ध सरहपाद । छायानुवादक—महापण्डित राहुल
सांकृत्यायन । पृष्ठ ५५८ । १३ २५ ।

३२. हिन्दी को मराठी संतो' की देन—आचार्य विनयमोहन शर्मा । ११.२५ ।
३३. रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना—डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' । १०.२५ ।
३४. अध्यात्मयोग और चित्तविकलन—स्वर्गीय वेङ्कटेश्वर शर्मा । ७.५० ।
३५. प्राचीन भारत की सांघ्रामिकता—पण्डित रामदीन पाण्डेय । ६.५० ।
३६. बाँसरी बज रही—श्रीजगदीश त्रिगुणायत । ८०० ।
३७. चतुर्दशभाषा-निबन्धावली—पृष्ठ १८४।४२५ ।
३८. भारतीय कला को बिहार की देन—डॉ० विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह । पृष्ठ २१६।७५० ।
३९. भोजपुरी के कवि और काव्य—श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह । स० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद । पृष्ठ ३६६।५७५ ।
४०. पेट्रोलियम—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा । चित्र ४०।५५० ।
४१. नील-पंछी—(मूल-लेखक मारिस मेटरालिक) । अनु० डॉ० कामिल बुल्के । २.५० ।
४२. लिग्विस्टिक सर्वे आफ् मानभूम एण्ड सिंहभूम । ४.५० ।
४३. षडदर्शन-रहस्य—प० रगनाथ पाठक । ५.०८ ।
४४. जातक-कालीन भारतीय संस्कृति—श्रीमोहनलाल महतो 'वियोगी' । ६.५० ।
४५. प्राकृत भाषाओं का व्याकरण—मूल-ले० श्रीरिचर्ड पिशल । अनु० डॉ० हेमचन्द्र जोशी । पृष्ठ १००४।२००० ।
४६. दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा—महापण्डित राहुल साकृत्यायन । ६.०० ।
४७. भारतीय प्रतीक-विद्या—डॉ० जनार्दन मिश्र । पृष्ठ ६१२।११०० ।
४८. संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय—डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । ५.५० ।
४९. कृषिकोश (प्रथम खण्ड)—म० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद । ३.०० ।
५०. कुँवरसिंह-अमरसिंह—अनु० प० छविनाथ पाण्डेय । ५.०० ।
५१. मुद्रण-कला—प० छविनाथ पाण्डेय । ७.२५ ।
५२. लोक-साहित्य : आकर-साहित्य-सूची—आचार्य नलिनविलोचन शर्मा । ५० न० पै० ।
५३. लोककथा-कोश—आचार्य नलिनविलोचन शर्मा । ३२ न० पै० ।
५४. लोकगाथा-परिचय—आचार्य नलिनविलोचन शर्मा । २५ न० पै० ।
५५. बौद्धधर्म और बिहार—प० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय' । ७७ दुर्लभ चित्र । ८.०० ।
५६. साहित्य का इतिहास-दर्शन—आचार्य नलिनविलोचन शर्मा । ५.०० ।
५७. मुहावरा-मीमांसा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त । ६.५० ।
५८. वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—म० म० प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी । ५.०० ।
५९. पंचदश लोकभाषा-निबन्धावली । ४.५० ।
- ६०.६१. प्राचीन हस्तलिखित पोथियो का विवरण (३-४ खण्ड)—स० आचार्य नलिनविलोचन शर्मा । १.२५।१.०० ।
६२. हिन्दी-साहित्य और बिहार (बिहार का साहित्यिक इतिहास; सातवीं शती से अठारहवीं शती तक)—स० आचार्य शिवपूजन सहाय । ५.५० ।
६३. कथा-सरित्सागर—मूल-लेखक महाकवि सोमदेवभट्ट । अनु० स्व० प० केदारनाथ शर्मा सारस्वत । (प्रथम खण्ड; षष्ठ लम्बक तक) पृष्ठ ८४६।१०.०० ।

*उपर्युक्त प्रत्येक सजिल्द पुस्तक पर तिरंगा नयनाभिराम आवरण है ।